

Apabhramśa-Hindi Dictionary
by Dr. Naresh Kumar

प्रकाशनाधिकार—डॉ० नरेश कुमार

मूल्य : 250/- रुपए
प्रथम संस्करण सन् १९८७ ई०

Jodhpur University Library
Acc No 226482 Sub 624
Call No


भारत में प्रकाशित

मुद्रक—तथागत प्रिंटिंग प्रेस

तेजाव मिल, जी० टी० रोड, गाजियाबाद ।

प्रकाशक—इण्डो-विजन प्रा० लि०

II ए-२२० नेहरूनगर, गाजियाबाद-२०१००१

 46328

Published by

Indo-Vision Private Limited

II A, 220, Nehru Nagar, Ghaziabad-201001 (U. P.) India

समर्पण

जिनका सारा जीवन छात्रों एवं शोधार्थियों को निःस्वार्थ भाव से निर्देशित करने में व्यतीत हुआ ।

जिनका रोम-रोम हिंदी-साहित्य के अध्ययन-अध्यापन में समर्पित रहा, जो प्राचीन गुरु-परंपरा के साकार स्वरूप हैं, उन्हीं श्रद्धेय डॉ० जयचन्द्र राय को सादर समर्पित ।

—नरेश कुमार

दो शब्द

एक अपभ्रंश कोश की प्रतीक्षा बहुत दिनों से थी। आज डॉ० नरेश कुमार के 'अपभ्रंश-हिंदी-कोश' को देखकर प्रसन्नता हुई। कोश कैसा वन पड़ा है, यह तो उपयोग की प्रक्रिया से गुजरने पर ही ठीक-ठीक पता चलेगा। किंतु उड़ती नजर से देखने से इतना तो आभास हो ही जाता है कि कोशकार ने शब्द-संग्रह का कार्य केवल कोश-ग्रंथों से ही नहीं किया है, बल्कि स्वयं अपभ्रंश के काव्य-ग्रंथों का भी उसने आलोड़न-विलोड़न किया है। संभव है, खोजने पर कुछ-एक अभीष्ट अपभ्रंश शब्द इस कोश में न मिलें, लेकिन इतने से ही यह प्रयास व्यर्थ सिद्ध नहीं होता। इस दृष्टि से कोई भी शब्दकोश पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

अपभ्रंश शब्द के विद्यार्थी अभी तक श्री हरगोविंद दास त्रिकमचन्द शेट के 'पाइअ-सद्द-महण्णवो' से ही काम चलाया करते थे, क्योंकि प्राकृत के बहुत-से शब्द अपभ्रंश में भी ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए थे, फिर भी अपभ्रंश के काव्य-ग्रंथों में ऐसे अनेक शब्द मिलते रहते हैं जो उक्त कोश में दुष्प्राप्य हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति एक स्वतंत्र अपभ्रंश कोश ही कर सकता है—ऐसा कोश जो अपभ्रंश काव्य-ग्रंथों में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर निर्मित हो। डॉ० नरेश-कुमार का प्रयास इसी दिशा में है, इसलिए स्वागत योग्य है।

अपभ्रंश-कोश की सबसे बड़ी समस्या अर्थ-निर्धारण की है। ध्वनि-परिवर्तन के विविध नियमों के कारण संस्कृत के शब्द अपभ्रंश में ऐसा रूप ग्रहण कर लेते हैं कि प्रायः एक ही अपभ्रंश शब्द अनेक संस्कृत शब्दों का वाचक होता है। ऐसी स्थिति में अत्यंत सावधानी अपेक्षित है। मुझे यह देखकर संतोष हुआ कि इस कोश में ऐसी सावधानी बरती गई है। ऐसे स्थलों पर मूल ग्रंथ से प्रयोग के उदाहरण उद्धृत करके सही-गलत के निर्णय की सुविधा भी प्रदान की गई है।

सच पूछिए तो डॉ० नरेश कुमार ने वह कार्य किया है जो प्रायः किसी संस्था के ही बूते का है। इस अध्यवसाय के सम्मुख नतमस्तक होने के अतिरिक्त वह व्यक्ति और क्या कर सकता है जो पैंतीस वर्ष पहले अपभ्रंश पर एक छोटी-सी पुस्तक लिखने के बाद विद्या की उस ड्यौड़ी से दूर चला आया। फिर भी ग्रंथकार के अनुरोध पर यदि आशांसा के दो शब्द कहने का साहस जुटा रहा हूँ तो इसलिए कि यह मेरा पुराना प्रेम ही नहीं, बल्कि प्रथम प्रेम है। इस समय तो मन में यही भाव है कि जो मुझसे न हो सका उसे करके दिखाने वाला कोई तो आगे आया ! 'क्रिया केवलमुत्तरम्'।

नामवर सिंह

भारतीय भाषा केंद्र,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-११००६७

३०-११-१९८६

आमुख

भाषा नदी के समय परिवर्तनशील होती है। वैदिक एवं लौकिक संस्कृत के दुर्बोध होने पर पालि, प्राकृत आदि भाषाएँ प्रचलित हुईं; संस्कृत भाषा की विभक्तियों का बाहुल्य और उनकी अनिवार्यता के नियम प्राकृत और अपभ्रंश में शिथिल होते गए। आधुनिक भारतीय भाषाएँ निर्विभक्तिक होती गईं। कारक विभक्तियों के स्थान पर इनमें परसर्गों का व्यवहार होने लगा। प्रांतीय अपभ्रंशों—महाराष्ट्री अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश और पँशाची अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं—उपभाषाओं एवं बोलियों के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ई० १००० के पश्चात् विकास की यह अवस्था देखने में आती है।

अपभ्रंश भाषा से उद्भूत भाषाएँ—

पं० हरगोविन्ददास टी० सेठ ने अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का विवरण इस प्रकार दिया गया है—

“ख्रिस्त की पञ्चम शताब्दी के पूर्व से लेकर दशम शताब्दी पर्यन्त भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में कथ्य भाषाओं के रूप में प्रचलित जिस-जिस अपभ्रंश भाषा से भिन्न-भिन्न प्रदेश की जो जो आधुनिक आर्य कथ्य भाषा (Modern vernacular) उत्पन्न हुई है। उसका विवरण यों है:—

महाराष्ट्री-अपभ्रंश से मराठी कोंकणी भाषा। मागधी-अपभ्रंश की पूर्व शाखा से बंगला, उड़िया और आसामी भाषा। मागधी-अपभ्रंश की विहारी शाखा से मैथिली, मगही और भोजपुरिया। अर्धमागधी-अपभ्रंश से पूर्वीय हिन्दी भाषाएँ अर्थात् अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। शौरसेनी-अपभ्रंश से बुन्देली, कनौजी, ब्रजभाषा वांगरू, हिन्दी या उर्दू ये पाश्चात्य हिन्दी भाषाएँ। नागर-अपभ्रंश से राजस्थानी, मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी तथा गुजराती भाषा। टाक्की-अपभ्रंश (शौरसेनी के प्रभाव-युक्त) से पूर्वीय पंजाबी।

त्राचड अपभ्रंश से सिन्धी भाषा।

पँशाची अपभ्रंश से कश्मीरी भाषा”।

पं० हरगोविन्द दास टी० सेठ ने उपयुक्त भाषाओं में तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड का उल्लेख नहीं किया है। वस्तुतः तमिल और मलयालम, तेलुगु और कन्नड की शब्दावली और लिपि में परस्पर समानता मिलती है। इन भाषाओं की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, अभी भी यह विवादास्पद विषय बना हुआ है।

असमी भाषा का विकास पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित प्राकृत भाषा; गुजराती का

१. पं० हरगोविन्द दास टी० सेठ, पाइज-सद्-महण्णबो, संस्क० १९२८, उपोद्घात,

विकास गुर्जर अपभ्रंश से हुआ। मराठी की शब्दावली संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के माध्यम से आयी है। सिन्धी, पंजाबी, ब्राजड़ और पहाड़ी भाषाएँ भी शौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित हैं।

ग्रियंसन के अनुसार शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिन्दी (वांगरू; खड़ी-वोली, ब्रज, कन्नौजी और बुन्देलखण्डी), राजस्थानी अपभ्रंश से राजस्थानी वोलियाँ (मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी), गुर्जर अपभ्रंश से गुजराती; पूर्वी हिन्दी समूह, अर्धमागधी अपभ्रंश से (अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी), मागधी से भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया; महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ। नीचे अपभ्रंश भाषा के प्रादेशिक भाषाओं एवं वोलियों के साथ सम्बन्धों को सिद्ध किया गया है। विद्यापति की 'कीर्तिलता' (चौदहवीं शताब्दी की रचना) में भूतकाल में 'ल' प्रत्यय का प्रयोग—कहल, चलल, मारल आदि शब्दों में मिलता है। मैथिली के भूतकालिक कृदन्त, यथा—देखल, सुनल, हँसल आदि प्रयोग में अ-वहट्ट भाषा की परम्परा सहज रूप में द्रष्टव्य है। अपभ्रंश धातु 'वइसइ' (बैठने के अर्थ में) मैथिली में और अपभ्रंश 'वइठिउ' (बैठने के अर्थ में) बुन्देली और बघेली में विद्यमान है। रोडाकृत 'राउलवेल' (११ वीं शताब्दी की रचना) में भूतकाल के भाव को प्रकट करने के लिए 'अज' प्रत्यय का प्रयोग 'ओडिअल,' 'पैहिरअल' शब्दों में हुआ है, जिसका प्रयोग आज भी बंगला, भोजपुरी, मैथिली में मिलता है।

अपभ्रंश भाषा में वे प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं, जो कि वाद में भारतीय भाषाओं और वोलियों में विकसित हुईं। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश के शब्दों से भारतीय भाषाओं की कड़ी जोड़ी जा सकती है। उदाहरणार्थ; उड़िया के 'अंकुश' (सं० अङ्कुश > अप० अंकुस), 'अंगार' (सं० अङ्गार > प्रा० अप० अंगार = जलता हुआ कोयला) 'अंगुलि' (सं० अङ्गुलि-ली > प्रा० अप० अंगुलि > हि० उंगली), 'अन्त' (सं० अन्त > प्रा० अप० अंत = आखिर), 'अंधार' (सं० अन्धकार > प्रा० अंधयार > अप० अंधार), 'आग' (सं० अग्र > प्रा० अग, अप० अगइ, अगइ, अगए) आदि शब्दों के लिए अपभ्रंश साहित्य उपजीव्य रहा है।

पंजाबी के 'इकासी' (सं० एकाशीति > अप० इक्कासी > हि० इक्यासी), 'अगे' (सं० अग्र > प्रा० अग > हि० आगे), अट्ठ (सं० अष्टन् > प्रा० अप० अट्ठ > हि० आठ), 'अद्धा' (सं० अर्ध > प्रा० अद्ध > अप० आध); 'आस' (सं० आशा > प्रा० आसा > अप० आस), 'आसण' (सं० आसन > प्रा० आसण > अप० आसण = जिस पर बैठा जाता है वह चौकी आदि), 'अन्हां' (सं० अन्ध > अप० अंध), 'अन्हेरा' (सं० अन्धकार > प्रा० अंधकार > प्रा० अंधयार > अप० अंधार), 'इक्क' (सं० एक > अप० एक, इक्क); 'वड्डा' (अप० वड्ड > हि० बड़ा), 'छड्ड' (सं० छदय > प्रा० अप० वड्ड, अप० छड्ड > हि० छोड़ना) आदि शब्दों के उदाहरण से अपभ्रंश की व्युत्पत्तिमूलक महत्ता स्वतः सिद्ध है।

अपभ्रंश के अनेक शब्द पंजाबी में ज्यों के त्यों विद्यमान हैं' यथा—अपभ्रंश √/सि (होने के अर्थ में) पंजाबी और हरियाणवी में विद्यमान है। स्वयंभू रोडाकृत 'राउवेल' में प्रयुक्त 'चोंगड' (५,८), स्वयंभू, पुष्पदंत और धनपाल द्वारा प्रयुक्त 'चंगड' शब्द की परम्परा पंजाबी में 'चंगा, चंगी' के रूप में आज भी जीवित है।

असमी के आढ़ै (सं० अर्धोनतृतीय > अप० अड्डाइय > हिं० अढ़ाई), आठावन (सं० अष्टपंचाशत् > अर्धमागधी अट्ठावण्ण > अप० अट्ठावण > हिं० अट्ठावन), आठचल्लिस (सं० अष्टचत्वारिंशत् > अर्धमागधी अट्ठचत्तालीस, अठचालीस > अप० अठतालिस, अट्ठचालीस > हिं० अठतालीस), आपोन (सं० आत्मन् > प्रा० अप्पण > अप० अपन > हिं० अपना) आदि शब्दों के विकास का अध्ययन विना अपभ्रंश के अध्ययन के अधूरा ही कहा जायेगा।

गुजराती के 'आंख' (सं० अक्षि > प्रा० अक्खि > अप० आंखि), अगाड' (सं० अग्र > प्रा० अग्ग > अप० आगु = आगे), 'आध' (सं० अर्ध > प्रा० अद्ध > अप० आव, आळस' (सं० आलस्स > प्रा० आलस्स > अप० आलस), 'वीछी' (सं० वृश्चिक > प्रा० विचुअ, विछुअ, विछिअ > अप० विद्धी), 'शाणो' (सं० सज्ञान > अप० सयाणिअ), 'हुं' (सं० अहम् > अप० हउं, हुं), हैडुं (सं० हृदय > प्रा० हिअय, हिय, अप० हियडउं), 'छोडवुं' (सं० छर्दय् > अप० छड्ड > हिं० छोड़ना) आदि शब्दों के अध्ययन से सिद्ध है कि अपभ्रंश और गुजराती का घनिष्ठ सम्बन्ध है। वस्तुतः अपभ्रंश भाषा गुजराती की जननी है।

अपभ्रंश और मराठी के परस्पर साम्य की चर्चा निम्नलिखित शब्दों से पुष्ट की जा सकती है। मराठी के 'अंगठा' (सं० अङ्गुष्ठ > प्रा० अप० अंगुठ > हिं० अंगूठा), 'अठरा' (सं० अष्टादशन् > प्रा० अप० अट्ठारह > हिं० अट्ठारह), अड-सण्ट, अडसट (सं० अष्टषण्ठि > अप० अट्ठसट्ठि), 'माणूस' (सं० मनुष्य > अप० मणुसु > हिं० मनुष्य), 'विच' (सं० वृश्चिक > प्रा० विचुअ, विछुअ, विछिअ > अप० विद्धी), 'खांव' (सं० स्तम्भ > प्रा० अप० खंभ) 'अन्धार' (सं० अन्धकार > प्रा० अंधयार > अप० अंधार) आदि शब्दों का व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन अपभ्रंश भाषा के अध्ययन के विना असंभव है।

'राजस्थानी के 'पाव' (सं० पाद > अप० पाअ), 'आदौ' (सं० अर्द्धक > प्रा० अद्धअ > अप० अद्ध), 'सवा' (सं० सपाद > सवाअ), 'अडाई' (सं० अर्द्धोनतृतीय > अप० अड्डाइय), 'कीजइ' (सं० क्रियते > अहं कीज्जइ), 'कहीजइ' (सं० कथ्यते > अप० कहिज्जइ), 'करीयइ' (सं० क्रियते > अप० करिज्जइ, करीजइ); 'जोई-अइ' (सं० द्योत्यते > अप० जोइज्जइ), आधुनिक राज० 'लागौ, पु० राज० 'लागउ' (सं० लग्नक > अप० लग्गउ) आदि शब्दों के उदाहरण इस तथ्यको पुष्ट करते हैं कि राजस्थानी भाषा का व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन विना अपभ्रंश भाषा के अध्ययन के अपूर्ण रहेगा।

वंगला के 'अंग' (सं० अङ्ग > प्रा० अप० अंग), 'अंगार' (सं० अङ्गार >

प्रा० अप० अंगार), 'अंगुल' (सं० अङ्गुल > प्रा० अप० अंगुल), 'अंध' (सं० 'अंध्र' > अप० अंध, हिन्दी अंधा), 'अठारा' (सं० अष्टादशन् > प्रा० अप० अठारह > हि अठारह) आदि शब्दों के विकास को दिखाने के लिए अपभ्रंश भाषा का सहारा लेना होगा।

कोंकणी के 'भावु' = भागिनी पति (अप० भाओ), 'भावज' (सं० भ्रातृजाया > अप० भावुज्जा), 'भेष्णि' = भार्याभगिनी (अप० मेहुणिया) 'व्होन्नि' = ज्येष्ठ भार्या (अप० 'वहुणी) अक्वयि' = माता (अप० अक्वा), 'व्होरेतु' = वर (सं० वर, अप० वरइत), 'चुळुचुळेवप' = स्पन्दन (अप० चुलुचुलइ), व्हिळ्व्हीळि = कोमलता (अप० विलिव्विली) आदि अनेक शब्दों का मूल रूप अपभ्रंश में विद्यमान है।

मगही के 'आंखि' (अप० अक्खि = आंख), 'कूआ' (अप० कूव = कुआ), 'छन, छन' (अप० खण), 'घरनी' (अप० घरिणी = गृहिणी), 'चेला' (अप० चेल्लु = चेला), 'दरसन' (अप० दरिसण = दर्शन), 'नइया' (अप० नाई = नाव), 'आट्टा' (अप० अट्ट), 'डेह' (अप० दियइह), 'तीज' (सं० तृतीय, अप० तइज्ज, तीज), 'पहिल' (सं० प्रथम > प्रा० अप० पढम, पहिल), 'चउट्ठ, चउठ, चौठ, चौठा' (सं० चतुर्थ > अप० चउट्ठ, चौत्यथ), 'कउन' (अप० कवणु = कौन), 'कोइ' (अप० कोवि = कोई), 'जे' (अप० जो = हि० जो), तोहि (अप० तई = तुम्हारे), आदि मगही के शब्दों के उदाहरण से स्पष्ट है कि मगही के तद्भव और देशी शब्दों का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ।

इसके अतिरिक्त अपभ्रंश की क्रियाएँ यथा— मेल्लिउ, (मेलना), घल्लिउ (घालना), चक्खइ (चखना), अपफुण (उफनना), छोल्ल (छोलना), जिम (जीमना), पलोट्ट (पलोटना) आदि हिन्दी में विकसित एवं प्रचलित हुईं। अपभ्रंश के संवन्तम 'हउ', 'तहूँ (मैं-तू); अम्हइ, तुम्हइ, (हम-तुम); परसगं 'मज्झि' (में), उप्परि (पर) आदि प्रयोग हिन्दी भाषा-गठन पर प्रकाश डालते हैं।

अपभ्रंश-कोश के संपादन की आवश्यकता

अपभ्रंश-कोश के निर्माण के अभाव में व्युत्पत्तिमूलक दृष्टि से हिन्दी राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमी, उड़िया, पंजाबी, कोंकणी आदि भाषाओं के कोश-निर्माण का कार्य अपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि अपभ्रंश भाषा प्राचीन आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की महत्त्वपूर्ण कड़ी है। अतः उपर्युक्त भाषाओं के शब्दों की संरचना को समझने के लिए अपभ्रंश-कोश के संपादन की आवश्यकता एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय आवश्यकता कही जा सकती है।

प्रस्तुत कोश के संपादन से जहाँ भारतीय आर्य भाषा संस्कृत के विकास की मध्यकालीन अवस्था का बोध हो सकेगा, वहाँ अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का संबंध जोड़ने का वैज्ञानिक आधार मिल सकेगा; साथ ही कीच की यह

मान्यता—‘अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के विकास लावश्यक सोपान नहीं है,’ निरर्थक सिद्ध हो सकेगी।

हिन्दी-जगत् में अपभ्रंश जैसी महत्त्वपूर्ण भाषा के शब्द-कोश का संपादन आज तक न हो पाना एक आश्चर्य का विषय बना हुआ था। हिन्दी के शब्दों की व्युत्पत्ति को बताने में भी इसका अभाव अनुभव होता था। इस सम्बन्ध में डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने कहा था “अपभ्रंश साहित्य का जब तक कोश के रूप में संग्रह न होगा तब तक हिन्दी एवं अन्य प्रादेशिक भाषाओं के सहस्रों शब्दों की व्युत्पत्ति का उद्धार नहीं हो सकता।”

प्रस्तुत कोश के संपादन से इस दिशा में अभाव की कुछ सीमा तक पूर्ति हो सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

‘अपभ्रंश का अर्थ’

शब्द-कल्पद्रुम में ‘अपभ्रंश’ की व्युत्पत्ति ‘अप+ भ्रंश+ष्व्’ से बताकर ‘अपभाषा’ इसका पर्याय दिया गया है— “अपभाषा-तत् पर्यायः”। ‘शब्दार्थ-चिन्तामणि’ (प्रथम भाग) में ‘अपभ्रंश’ शब्द की व्याख्या ‘अपशब्द’ कह कर की गई है और इस सम्बन्ध में यह कथन व्यातव्य है—“अशास्त्र शब्दे। असंस्कृतशब्दे। ग्राम्य भाषायाम्।” ‘अनरकोश’ के अनुसार—

“अपभ्रंशोऽपशब्दः स्यात्।”

वामन शिवराम आष्टे ने अपने ‘संस्कृत-हिन्दी-कोश’ में ‘अपभ्रंश’ की निम्न प्रकार व्याख्या की है—“भ्रष्ट शब्द, भ्रष्टाचार (अतः) अगुह्य शब्द चाहे वह व्याकरण के नियमों के विपरीत हो और चाहे वह ऐसे अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो जो संस्कृत न हो। भ्रष्ट भाषा, (काव्य में) गड़रियों आदि के द्वारा प्रयुक्त प्राकृत बोली का निम्नतम रूप, (शास्त्र में) संस्कृत से निम्न कोई भी भाषा” (पृ० ५७)। इस प्रकार आष्टे के मतानुसार जो शब्द अगुह्य या व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हैं, उसे अपभ्रंश या अपशब्द कहा जाता है। ‘हिन्दी-शब्द-सागर’ में दिया गया अर्थ भी उपर्युक्त अर्थ से मिलता-जुलता है—“संज्ञा पु० (सं०) नीचे गिरना, पतन, विगाड़, शब्द का विकृत रूप, प्राकृत भाषाओं का परवर्ती रूप जिससे उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। वि० विगाड़ा हुआ।”

‘अपभ्रंश’ शब्द के प्रयोग की प्राचीनता

सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ‘महाभाष्य’ में ‘अपभ्रंश’ शब्द का प्रयोग किया है—“भूयांसोऽपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दा इति। एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशाः। तद् यथा गौरित्यस्य शब्दस्य ‘गौरी,’ ‘गौणी,’ ‘गोता,’ ‘गोपोतालि-केत्यादयो बहवोऽपभ्रंशाः।” अर्थात् अपशब्द बहुत हैं, शब्द रूप अल्प हैं। एक-एक

१. कीच, हिस्ट्री आफ् संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३२।

२. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६३, अंक १, पृ० ४६।

३. महाभाष्य, प्रथम आह्निक।

शब्द के बहुत से अपभ्रंश हैं, जैसे 'गो' शब्द के गादी, गोशी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि ।

स्पष्ट है कि महाभाष्यकार पतंजलि ने 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग 'अप-शब्द' के अर्थ में किया है ।

भरत के नाट्यशास्त्र (ई० ३०० के लगभग) में संस्कृत और देशी के अतिरिक्त 'विभ्रष्ट' भाषा का उल्लेख मिलता है, जो कि आभीरों की बोली मानी जाती थी और उकार की बहुलता इसकी प्रमुख विशेषता थी ।

चन्द्रगुप्त विजयनाथ (ई० ४०० के लगभग) के समकालीन कवि कालिदास ने अपने नाटक 'विक्रमोर्वशीय' के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश का भी प्रयोग किया है ।

भर्तृहरि (५ वीं शती) ने शब्द-प्रकृति की व्याख्या करते हुए लिखा है—
 "शब्द-प्रकृतिः अपभ्रंशः ।" अर्थात् 'अपभ्रंश की प्रकृति शब्द अर्थात् संस्कृत शब्द है । भर्तृहरि ने कहा है कि विकृत शब्द भी अपने अर्थ की प्रतीति कराते हैं । अपभ्रंश शब्द इतने लोक-प्रसिद्ध हो गए हैं कि वे स्वयं वाचक हैं और साधु शब्द के भी स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है ।^१ भर्तृहरि ने संस्कारहीन शब्दों का अपभ्रंश के शब्द कहा है—“शब्द संस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षिते । तमपभ्रंश-मिच्छन्ति विशिष्टार्थनिवेशनम् ।”^३

छठी शताब्दी के आचार्य भामह ने 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग 'काव्य-विशेष' के लिए किया है और गद्य-पद्य काव्य को भाषा की दृष्टि से संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश में विभक्त किया है—“शब्दार्थो सहितौ काव्यं ।

गद्यं पद्यं च तद्विधा ।

संस्कृतं प्राकृतं चान्यद्

अपभ्रंश इति त्रिधा ।”^४

सातवीं शताब्दी में दण्डी ने 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग वाङ्मय के लिए किया है—

“तदेतद्वाङ्मयं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा ।

अपभ्रंशश्च मिश्रं चेत्याहुराप्ताश्चतुर्विधम् ।”^५

इस प्रकार है कि छठी शताब्दी तक 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग भाषा-विशेष के अर्थ का द्योतक बन गया था ।

दण्डी के अनुसार—“अपभ्रंश' एक भाषा है, जो पण्डितों की वाणी संस्कृत से भिन्न आभीर आदि द्वारा प्रयुक्त होती है ।”^६ दण्डी द्वारा संस्कृत के व्याकरण

१. वाक्यपदीय, काण्ड १, कारिका १४८ का वार्तिक ।

२. द्रष्टव्यः वाक्यपदीयम् १—१५३, १५४ ।

३. वाक्यपदीयम् काण्ड १, कारिका १४८ ।

४. काव्यालंकार, १।१६।२८

५. काव्यादर्श, १।३२ ।

६. आभीरादिगिरः काव्येष्वपभ्रंशः इति स्मृताः ।—काव्यादर्श १।३६

शास्त्र से इतर शब्द को अपभ्रंश कहा गया है ।^१

आरम्भ में अपभ्रंश को आभीरों की भाषा माना जाता था,^२ परन्तु बाद में यह लोक भाषा बन गई । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि अपभ्रंश केवल आभीरों या अहीरों की ही भाषा नहीं थी ।^३

नवीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा अपने साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी और देश-विशेष के अनुसार अनेक भेदों में विभाजित हो चुकी थी । रूद्रट ने लिखा है—

प्राकृत-संस्कृत-मागध-पिशाच भाषाश्च शूरसेनी च ।

पण्डोऽत्र भूरिभेदो देश विशेषादपभ्रंशः ।^४

दशवीं शताब्दी के विद्वान् राजशेखर ने 'काव्य-पुरुष' की कल्पना करते हुए संस्कृत भाषा को मुख कहा है और 'अपभ्रंश' भाषा को जघन (जंघा) कहा है और पेशाच को पाद कहा है—

शब्दाथीं ते शरीरं, संस्कृत मुखं, प्राकृतं वाहुः ।

जघनमपभ्रंशः, पेशाचं पादी, उरो मिश्रम् ।^५

वस्तुतः ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते-होते अपभ्रंश भाषा अपना प्रतिष्ठित स्थान बना चुकी थी ।

अपभ्रंश भाषा के लिए अपभ्रष्ट, विभ्रष्ट, अपशब्द, अवभंस, अवहंस, अवहत्थ, अवहट्ट और अवहट आदि अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है । अपभ्रंश भाषा को देशी भाषा भी कहा गया । स्वयंभू ने अपनी अपभ्रंश भाषा को देशी भाषा कहा है ।^६ ग्रियर्सन ने अपभ्रंशों को प्राकृत का स्थानीय अथवा प्रादेशिक विकार कहा है ।^७ वास्तव में, अपभ्रंश भाषा कोई एक भाषा न होकर प्रदेश-भेद से अनेक प्रकार की हो गई ।

अपभ्रंश भाषा का काल-निर्धारण

अपभ्रंश हमारे देश की लगभग ६०० वर्षों तक राष्ट्रभाषा रही और लगभग एक हजार वर्षों तक इस भाषा में साहित्य का सृजन होता रहा । अपभ्रंश भाषा के काल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद मिलता है ।

सर्वप्रथम डॉ० वासुदेवशरण, अग्रवाल के कथन को उद्धृत करते हैं—“लगभग नवीं शताब्दी से अपभ्रंश भाषा का विस्तार हो चुका था और बारहवीं

१. दण्डी, काव्यादर्श; १, ३, ६ ।

२. काव्यादर्श, १, ३, ६

३. डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली, ३, पृ० ५१ ।

४. काव्यालंकार, २—१२ ।

५. काव्यमीमांसा—३-६

६. पञ्चमचरित, प्रथम संधि २।३, ४

७. लिग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया, जिल्द १, पृ० १२३ ।

शताब्दी के लगभग अपभ्रंश भाषा से ही और विकसित होकर नई भाषा-शैली का परिवर्तन प्रारम्भ हो गया था। यही भाषा-शैली आगे आने वाली प्रान्तीय भाषाओं की जननी थी।^{११}

एक अन्य स्थान पर डॉ० अग्रवाल ने लिखा है—“अपभ्रंश-काल (८०० से ११०० तक) के अनन्तर लोक भाषाओं का जन्म हुआ।^{१२} यहाँ यह उल्लेखनीय है कि डा० अग्रवाल ने अपभ्रंश-काल (८०० से ११०० ई० तक) का उल्लेख काल-निर्धारण की विशिष्ट समस्या को लेकर नहीं किया। लोक-भाषाओं के परस्पर मौलिक साम्य की चर्चा करते हुए उन्होंने यह संकेतमात्र ही किया है। अपभ्रंश साहित्य के क्षेत्र के अन्तर्गत तत्कालीन शोध के आधार पर ही उन्होंने अपना उपयुक्त विचार व्यक्त किया है। डॉ० अग्रवाल की मान्यता है कि पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि के काल से भी पूर्व शिष्ट भाषा के साथ-साथ लोक भाषाओं में अपभ्रंश का समावेश था।^{१३} उन्होंने अथर्ववेद के ‘पृथिवीसूक्त’ का उल्लेख करते हुए वेदों के समय में भी लोक-भाषाओं के प्रचलन को स्वीकार किया है।^{१४}

डॉ० सुकुमार सेन ने अपभ्रंश का काल १-६०० ई० तथा अवहट्ठ भाषा का काल ६०० से १२०० ई० तक माना है।^{१५} डॉ० हरिवंश कोछड़ ने अपभ्रंश का काल ८ वीं सदी से १३ वीं शताब्दी तक माना है।^{१६} डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव ने अपभ्रंश-काल की सीमा ५ वीं शताब्दी से चौदहवीं तक माना है।^{१७} डॉ० उदय-नारायण तिवारी का मत है—“ईसा की छठीं शताब्दी से अपभ्रंश के काव्य-रचनाएँ प्राप्त होने लगीं और पन्द्रहवीं सोलहवीं शताब्दी तक होती रहीं।^{१८}

डॉ० भोलानाथ तिवारी के अनुसार “अपभ्रंश का काल मांटे रूप में ५०० से १००० ई० तक है।^{१९} इसी से मिलता हुआ विचार श्री जगन्नाथराय शर्मा ने व्यक्त किया—“अपभ्रंश भाषा अनेक भाषाओं का एक समुदाय है। जितनी प्राकृतें हैं, वे सब मृत होकर साहित्यिक रूप में जीवित रहीं। उनकी बोलचाल का

१. डॉ० अग्रवाल, माताभूमि, पृ० ६५।
२. भारत की मौलिक एकता, पृ० १४६, १४७।
३. डॉ० अग्रवाल, की० संजी व्या०, भूमिका पृ० ६३।
४. वही, पृ० ६३, ६४।
५. डॉ० सुकुमार सेन, तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपभ्रंश व्याकरण, अनुवादक: महावीर प्रसाद लखेड़ा, पृ० १५।
६. अपभ्रंश-साहित्य, पृ० ३४।
७. अपभ्रंश भाषा का अध्ययन, परिशिष्ट-४, पृ० २६१।
८. हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, पृ० १२२।
९. डॉ० भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, संस्क० १८८४ शकाब्द, पृ० १८३।

स्थान अपभ्रंशों ने ले लिया । यह समय ५०० ई० से १००० ई० तक था ।”

अपभ्रंश भाषा के साहित्य के प्रकाशन के उग्रान्त डॉ० भोलानाथ तिवारी एवं श्री जगन्नाथ राय शर्मा के मत अग्राह्य है । वस्तुतः १००० ई० के पश्चात् भी अपभ्रंश-कृतियों की रचना होती रही । उदाहरणार्थ, वीर कवि द्वारा रचित ‘जंबूसामिचरिउ’ की रचना वि० सं० १०७६ में माघ शुक्ल दशमी के दिन पूर्ण हुई ।^१

रोडाकृत ‘राउलवेल’ ११ वीं शती का शिलांकित भाषा-काव्य है ।^१ पं० दामोदर द्वारा विरचित ‘उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण’ की रचना-काल १२ वीं सदी का पूर्वाद्ध है ।^१ मुनि नयनंदी विरचित ‘सुदंमणचरिउ’ का रचना-काल वि० संवत् ११०० का है ।^१ हरिभद्रसूरि द्वारा लिखित ‘नेमिनाहचरिय’ वि० सं० १२१६ (ई० सन् ११६०) है ।^१ ‘भविसयत्तकहा’ और ‘भविसयत्तचरिउ’ का रचना-काल क्रमशः वि० सं० १२३० और वि० सं० १५३० माना गया है ।^१ वड्ढमाणचरिउ के रचयिता श्री विवुध श्रीधर का रचना-काल वि० सं० ११८६ से १२३० निश्चित किया गया है ।^१ पं० नरसेन द्वारा रचित ‘सिरिवाल चरिउ’ की पहली प्रति वि० सं० १५७६ (ई० १५२२) की है ।^१

डॉ० ह० चू० भायाणी तथा श्री अगरचन्द-नाहटा द्वारा संपादित ‘प्राचीन गूर्जर काव्य सञ्चय’ में देपाल द्वारा रचित ‘कयवन्ना-विवाहलउ,’ नेमिनाथ-धवल’ आर्द्रकुमार धवल’ नामक शीर्षक वाली रचनाएँ १५ वीं शताब्दी की हैं और इनके अतिरिक्त शेष संपादित रचनाएँ १३ वीं शताब्दी के आसपास की हैं ।^१

अब्दुल रहमान कृत ‘संदेश रासक’ (ईसा की बारहवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध) शालिभद्र की रचना ‘बाहुवलीरास’ (बारहवीं शताब्दी); जिनपदसूरि द्वारा लिखित थूलिभद्रफानु (बारहवीं शताब्दी), अम्बदेव सूरि द्वारा लिखित ‘समरास’ (सन्

१. जगन्नाथराय शर्मा, अपभ्रंश-दर्पण, पृ० २१ ।
२. डॉ० विमल प्रकाश जैन, वीर कवि कृत जंबूसामिचरिउ की प्रस्तावना पृ० १३ ।
३. (अ) डॉ० कैलाश चन्द्र भाटिया, हिन्दी काव्य भाषा की प्रवृत्तियाँ, पृ० ६ ।
(आ) डॉ० माताप्रसाद गुप्त, राउलवेल और उसकी भाषा, प्रकाशकीय वक्तव्य, पृ० ३ ।
४. डॉ० मुनीतिकुमार चाटुर्ज्या का मत, उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण, पृ० १ ।
५. संपादक: डॉ० हीरालाल जैन, प्रस्तावना, सुदंमणचरिउ, पृ० १४ ।
६. संपादक: हरिवल्लभ चू० भायाणी, सणतुकुमारचरिय, भूमिका, पृ० ३ ।
७. डॉ० राजा राम जैन, प्रस्तावना, वड्ढमाणचरिउ, पृ० ६ ।
८. वही, पृ० ७ ।
९. द्रष्टव्य: डॉ० देवेन्द्र कुमार जैन का मत सिरिवाल चरिउ, प्रस्तावना, पृ० ३ ।
१०. डॉ० हरिवल्लभ भायाणी, ‘प्राचीन गूर्जर काव्य सञ्चय,’ संगृहीत रचनाओं की भाषा, पृ० १० ।

१३१४ ई०), तरुणप्रभ सूरि द्वारा रचित 'पडावञ्चक-त्रायबोध' (सन् १३५४ ई०) ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत 'वर्णरत्नाकर' (चौदहवीं शताब्दी), विद्यापति द्वारा रचित 'कीर्तिलता' (चौदहवीं शताब्दी) आदि रचनाओं का काल यह सिद्ध करता है कि १००० ई० के पश्चात् भी अपभ्रंश में साहित्य का नृजन होता रहा। यहाँ यह भी यह उल्लेखनीय है कि कविवर हरिपेण ने 'धर्म परीक्षा' की रचना पट्टडियां छंद में वि० सं० १०४४ में की थी और भट्टारक श्रुतकीर्ति ने 'धर्म परीक्षा' की रचना वि० सं० १५५२ में की थी।^१ ब्रह्म वृचराज द्वारा लिखित 'सन्तोष तेलक जयमाल' (रूपक काव्य) नामक कृति वि० सं० १५६१ में हिसार नगर में लिखकर पूर्ण हुई थी।^२ मुनि भट्टनन्दि द्वारा लिखित 'वारकखड़ी' या 'पाहुहदोहा' का लेखन-काल वि० सं० १५६१ है।^३ इससे ज्ञात होता है कि सोलहवीं शताब्दी में भी अपभ्रंश-साहित्य की रचना होती रही।

आज तक हुए शोध के आधार पर अपभ्रंश-काल का आरम्भ छठी शताब्दी माना जा सकता है। डॉ० भायाणी ने स्वयंभू का समय ६७७ ई० से ६६० ई० के मध्य माना है।^४ अतः निश्चित है कि अपभ्रंश का प्रयोग भाषा विशेष के लिए इससे काफी पूर्व अर्थात् लगभग ६०० ई० में साहित्यिक भाषा के रूप में हो चुका था। ग्रियर्सन का मत भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है—“ईसा की छठी शती में बलभी नरेश घरसेन के ताम्रपत्र के उल्लेख एवं संस्कृतालङ्कारिकों के कथन से स्पष्ट है कि उस समय तक अपभ्रंश भाषा जन भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी।”^५

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपभ्रंश साहित्य का युग छठी शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी तक माना जा सकता है।

अपभ्रंश की ध्वनियाँ एवं वर्ण-क्रम की समस्या—

स्वर-संस्कृत में निम्नलिखित १४ स्वर थे—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, । अभिनवगुप्त की व्याख्या के अनुसार ऐ, औ, ऋ, ॠ, लृ, लृ, विसर्जनीय श, ष, ङ्, ञ और न ये १२ वर्ण प्राकृत में नहीं पाये जाते हैं। प्राकृत के बाद अपभ्रंश में किसी स्वर की कमी नहीं हुई। वैसे तो अपभ्रंश में मूल स्वर आठ थे—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ; परन्तु दो नए स्वर—ह्रस्व 'ए' तथा ह्रस्व 'औ' की वृद्धि हो गई।

१. डॉ० देवेन्द्र कुमार शास्त्री, लेख-अपभ्रंश के साहित्यकार, राजस्थान का जैन साहित्य, पृ० १४५।

२. वही, पृ० १५१।

३. वही, पृ० १४६।

४. डॉ० भायाणी, पञ्चमचरित (स्वयंभू देव), भूमिका, पृ० ६।

५. जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन, अनुवादक: डॉ० उदयनारायण तिवारी, भारतीय भाषाएँ, पृ० ७७।

'ऋ' का उच्चारण प्राकृत भाषा में समाप्त हो जाने के कारण अपभ्रंश वर्णमाला में इसको स्थान नहीं दिया गया। प्रसिद्ध विज्ञान डॉ० पिशल का विचार है कि अधिकांश अपभ्रंश बोलियों में 'ऋ' नहीं मिलता है।^१ डॉ० तगारे भी यह मानते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर अपभ्रंश भाषा में 'ऋ' उपलब्ध नहीं है।^२ यद्यपि अपभ्रंश में 'ऋ' रि में परिवर्तित हो गया, परन्तु संस्कृत के प्रभाव के कारण १२ वीं शती से पुनः स्थान पाने लगा। 'उक्तिव्यक्तिप्रकरण' में 'ऋतु' (१५-२४) का प्रयोग मिलता है। विद्यापति की 'कीर्तिलता' में भी 'ऋ' का प्रयोग उपलब्ध है। हेमचन्द्र ने भी 'ऋ' की उपस्थिति स्वीकार की है, यथा—अप० तणु > तृणु (सं० तृण)। अप० सुकिदु > सुकृदु (सं० सकुतम्)।^३ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपभ्रंश में विसर्ग का पूर्णतः लोप हो गया था। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा संभाषित 'कीर्तिलता' में 'औ' से प्रारम्भ होते हुए कतिपय शब्द उपलब्ध हैं। अतः प्रस्तुत कोश में 'ऋ, औ' को भी वर्ण-क्रम में स्थान दिया गया है।

व्यंजन ध्वनिर्थां

विद्वानों ने अपभ्रंश में २७ व्यंजन के अस्तित्व को स्वीकार किया है—

क,	ख,	ग,	घ ।
च,	छ,	ज,	झ ।
ट,	ठ,	ड्,	ढ ण ।
त,	थ,	द,	ध ।
प,	फ,	ब,	भ, म ।
य,	र,	ल,	व ।
स,	ह ।		

उपर्युक्त व्यंजनों के अतिरिक्त अपभ्रंश-साहित्य में कुछ अन्य व्यंजन भी मिलते हैं, जिनकी यहाँ चर्चा की जा रही है। डॉ० तगारे अपभ्रंश में 'य' ध्वनि का बहिष्कार करते हैं, परन्तु 'संदेश रासक,' 'पउमचरिउ,' 'उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण,' 'कालस्वरूप कुलक' 'जिणदत्त चरिउ' आदि अपभ्रंश की रचनाओं में 'य' से प्रारम्भ होते हुए शब्द मिलते हैं। अतः प्रस्तुत कोश के वर्ण-क्रम में 'य' वर्ण को स्थान दिया गया है।

अपभ्रंश में 'ड्' और 'ञ' के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग सरलीकरण की प्रक्रिया के कारण चला। यद्यपि विद्वानों द्वारा यह माना जाता रहा है कि अपभ्रंश

१. पिशल, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० ६६।

२. डॉ० तगारे, हिस्टारिकलग्रामर आफ अपभ्रंश, पृ० ३६।

३. हेमचन्द्र, अपभ्रंश व्याकरण, ४, ३२६।

४. (अ) डॉ० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश,' अपभ्रंश भाषा का व्याकरण, पृ० ३२।

में 'ङ्' 'ञ्' उपलब्ध नहीं है' और 'न' ध्वनि का स्थान 'ण' ने ले लिया है, तथापि ये ध्वनियाँ अपभ्रंश की कुछ संपादित कृतियों में मिलती हैं। यथा—'अङ्गार' 'अङ्गुलिट,' 'मअङ्क' आदि। 'पडमचरिड,' 'कीतिलता,' हेमचन्द्र कृत 'अपभ्रंश व्याकरण' आदि में दी गई 'ङ्' ध्वनि के आधार पर प्रस्तुत कोश में 'ङ्' ध्वनि को ज्यों का त्यों स्थान दिया गया है और जहाँ कहीं अपभ्रंश की सम्पादित कृतियों में अनुस्वार दिया गया है, वहाँ उसका अनुनासिक रूप में ही प्रयोग किया गया है। उपयुक्त समस्या को दृष्टि में रखते हुए वर्ण-क्रम में पंचमाक्षर युक्त शब्दों को उनके वर्ण में ही स्थान दिया गया है, परन्तु यदि अपभ्रंश की संपादित कृतियों में पंचमाक्षर अनुस्वार-युक्त रूप में लिखा हुआ उपलब्ध है तो उसे जैसा का तैसा वर्णगत क्रम में ही रखा गया है।

अपभ्रंश में 'ञ' ध्वनि का अभाव तो है, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि यह ध्वनि विलुप्त ही नहीं मिलती है। पडमचरिड में कञ्चण' (कंचन नामक वृक्ष), कोञ्ज' (कोञ्ज नामक वृक्ष), कोञ्च' (कौञ्च); कीतिलता में काञ्चन', वेदान' (सं० एवम्), वेहां' (यहाँ); चुकञो' (सं० ञ्श का घात्वादेश चुक = भ्रष्ट होना), मुकञो' (त्यागना), भासञो' (कहना), जञो' (वर्णिक), अञ्चल' आदि में ञकार का प्रयोग मिलता है। 'कीतिपताका' में 'वटञ्' 'लज्जाञे' आदि

-
१. द्रष्टव्यः (अ) परम मित्र शास्त्री, सूत्र शैली और अपभ्रंश व्याकरण, पृ० १११।
 (आ) डॉ० रामगोपाल वर्मा 'दिनेश,' अपभ्रंश भाषा का व्याकरण, पृ० ३५।
२. डॉ० हरिवल्लभ चूनीलाल भायाणी, पडम चरिड १३, ७, १०।
३. आचार्य हेमचंद्र का अपभ्रंश-व्याकरण (अनुवादक शालीग्राम उपाध्याय) ३३१, १।
४. वही, पृ० ४०।
५. डॉ० भायाणी द्वारा संपादित पडम चरिड (३, १, १०)।
६. वही ३, १, ११।
७. वही ३, ५, ५।
८. डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल द्वारा संपादित कीतिलता, २, २४२।
९. वही, २—२३९।
१०. वही, ३—२१।
११. वही, २—४३।
१२. वही, २—४४।
१३. वही, २—४५।
१४. वही, २—४७।
१५. वही, ४—२१६।

शब्दों में 'अ' का प्रयोग उल्लेख्य है। अतः प्रस्तुत कोश में उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ण-क्रम की व्यवस्था 'अ' को भी स्थान दिया गया है।

आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार 'देश्य भाषा' में 'नकारादि' शब्द एकदम असम्भव है, यह मान्यता भी उचित नहीं है। वस्तुतः प्राकृत के प्रारम्भ से अपभ्रंश के विकास तक 'न' को 'ण' उच्चारित करने की प्रवृत्ति प्रधान रही है। वस्तुतः अपभ्रंश में दन्त्य 'न' का कम प्रयोग हुआ है। परन्तु 'न' का बिल्कुल अभाव रहा हो, यह कहना अनुचित होगा। 'अपभ्रंश-व्याकरण,' (हेमचन्द्र कृत), पउम चरिउ संदेशरासक, चर्यापद, उपदेश रसायनरास, महापुराण, राउलवेल, उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण, कीर्तिलता, णयकृमार चरिउ, सरह के दोहाकोश में नकारादि शब्द मिलते हैं। अतः प्रस्तुत कोश में 'नकार' की स्थिति को स्वीकार करते हुए वर्ण-क्रम में इसे स्थान दिया गया है। अंत में यह भी उल्लेखनीय है कि अपभ्रंश में इ, इ व्यंजन नहीं थे।

संयुक्त व्यंजन

अपभ्रंश भाषा में क्ख, क्क, च्च, च्छ, ज्ज, ट्ट, ट्टु, त्त, त्त्य, द्द, द्द, प्प, प्फ, ध्व, ध्व, ण्ण, न्न, न्ह, म्ह, ल्ल, ल्ह, व्व, एवं स्स आदि संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग होता है।

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना अपेक्षित होगा कि इस कोश के वर्ण-क्रम में देवनागरी वर्णमाला का क्रम ही अपनाया गया है।

लिंग-निर्धारण की समस्या

लिंग-निर्धारण की जटिलता प्राचीन भाग्यतीय भाषा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में बनी रही। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का विधान होने के कारण लिंग-निर्णय में कठिनाई हुई। उदाहरण के लिए, संस्कृत में 'देवता' शब्द स्त्रीलिंग है, जब कि हिन्दी में पुल्लिंग है। इसके विपरीत 'पत्नी' के अर्थ वाला 'दार' शब्द पुल्लिंग है। हिन्दी में 'अग्नि' और 'महिमा' शब्द स्त्रीलिंग है, परन्तु संस्कृत में पुल्लिंग है। यह भी ध्यातव्य है कि संस्कृत में लिंग के भेद से अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, यथा—'मित्र' शब्द पुल्लिंग में सूर्य तथा नपुंसक लिंग में सखा (Friend) के अर्थ का वाचक है। यह भी देखने में आया है कि एक ही अर्थ के वाचक शब्द विभिन्न लिंगों में पाये जाते हैं, जैसे 'सखा' पुल्लिंग है और 'मित्र' नपुंसक लिंग है। इसी तरह 'भार्या' के पर्यायवाची शब्दों का लिंग भिन्न-भिन्न हैं—दार पुं०, पत्नी स्त्री०, कलत्र नपुंसक लिंग।

तनिक प्राकृत में लिंग-व्यवस्था पर दृष्टि डालिए। यद्यपि प्राकृत में लिंग व्यवस्था संस्कृत के समान है, परन्तु कुछ शब्दों के लिंग-निर्धारण में भिन्नता मिलती है, यथा—प्रा०पू, शरद, तरणी शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग हैं, परन्तु प्राकृत

में पाउसो, सरओ, तरणी आदि शब्दों का प्रयोग पुंल्लिग में होता है।^१ दामन्, शिरस् और नभस् को छोड़कर प्राकृत में शेष सकारान्त शब्द, यथा—‘यशस्—यशः > प्रा० जसो०, पयस्—पयः > प्रा० पओ, तमस्—तमः > प्रा० तमो, तेजस्—तेजः > प्रा० तेओ, सरस्—सरः > प्रा० सरो, और नकारान्त शब्द, यथा—‘जन्मन्—जन्म > प्रा० जम्मो, नर्मन्—नर्म > प्रा० नम्मो, कर्मन्—कर्म > प्रा० कम्मो, वर्मन्—वर्म > प्रा० वम्मो आदि पुंल्लिग में प्रयुक्त होते हैं, जबकि संस्कृत में ये शब्द नपुंसक लिंग हैं।^२ संस्कृत और प्राकृत में कुछ शब्दों में लिङ्गव्यवस्था समान भी रही है। वयस्—वयः > वयं; सुमनस्—सुमनः > सुमण; शिरस्—शिरः > सिर, नभस्—नभः > नहं को संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में इन्हें नपुंसकलिंग माना गया है।

प्राकृत में लिंग-विधान के सम्बन्ध में डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव का कथन उद्धरणीय है—“प्राकृत में लिङ्ग विधान अपेक्षाकृत सरल हुआ। नपुंसक लिङ्ग के रूपों में पहले भी केवल प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति में ही भेद पड़ता था अन्यत्र पुंल्लिङ्गवत् ही रूप रहते थे। व्यंजनान्त शब्द स्वरान्त हो ही गए थे। नकारान्त और सकारान्त न० लि० शब्द पुं० लि० में प्रयुक्त होते लगे। कम्मो, वम्मो, जसो, सरो रूप पुं० लि० में आ गए। अपवाद सिरं > शिरः और णहं > नभः रह गये। सम्मिलित परिणाम यही था कि कुछ रूपों को छोड़कर शेष सब न० लि० शब्द पुं० लि० में आ गए।”^३

अपभ्रंश में लिंग निर्धारण

आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार अपभ्रंश में लिंग अतंत्र होता है। कभी स्त्री लिंग पुंल्लिग हो जाता है तो कभी पुंल्लिग स्त्री लिंग हो जाता है। उदाहरणार्थ, ‘कुम्भइ’ (सं० कुम्भान्—गजों के कुम्भ स्थल), खलाइ’ (सं० खलान्) में पुंल्लिग का नपुंसक लिंग हो गया है। अब्भा (सं० अब्भ—वादल) में नपुंसक लिंग को पुंल्लिग हो गया है। सं० अन्त्रं (अंतडी) नपुंसक लिंग का अपभ्रंश में ‘अन्त्रडी’ स्त्री लिंग हो गया है। सं० डाल स्त्री० लिंग शब्द अपभ्रंश में ‘डालइ’ नपुंसक लिंग हो गया है।^४

अपभ्रंश में लिंग-भेद का प्रकरण बड़ा जटिल और पेचीदा बना हुआ है। प्राचीन लिंग-व्यवस्था बदल गई। प्रायः लिंग का निर्धारण शब्द की प्रकृति पर निर्भर करने लगा। कोमलता, लघुता अथवा हीनता का ज्ञान कराने के लिए स्वा-

१. प्रावृट्शरत्तरणयः पुंसि—हे० ८, १, ३१।

२. हे० प्रा० व्या० ८, १, ३२।

३. वीरेन्द्र श्रीवास्तव, अपभ्रंश भाषा का अध्ययन, पृ० १२६।

४. द्रष्टव्यः हे० अप० व्या०, ४४५।

यिक 'डी' प्रत्यय का प्रयोग स्त्री लिंग शब्दों की रचना में होता है। आकारान्त, ईकारान्त और ऊकारान्त वर्णों के स्त्री लिंग को सरलता से पहचाना जा सकता है, परन्तु अकारान्त, इकारान्त और उकारान्त शब्दों के लिंग-निर्धारण में निश्चय ही कठिनाई होती है। अपभ्रंश में नपुंसक लिंग के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कर्त्ता और कर्म कारकों में बहुवचन में 'इ' विभक्ति लगती है। आचार्य हेमचंद्र के अनुसार प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन की विभक्तियों के स्थान पर 'इ' आदेश होता है।^१

विद्वानों की यह भी मान्यता रही है कि अपभ्रंश में नपुंसक लिंग व्यावहृतः लगभग लुप्त ही हो गया,^२ परन्तु अपभ्रंश के 'अलिजलइ' (अमर-समूह), 'कमलइ', 'करिगण्डाइ' (हाथियों के गण्ड-स्थल) आदि शब्दों तथा सर्वनाम (यथा—तुं, तं, तं, ताइ आदि) में भी नपुंसक लिंग के रूप मिलने से यह सिद्ध होता है कि संस्कृत और प्राकृत के समान अपभ्रंश में भी नपुंसक लिंग की परम्परा बनी रही और बाद में आधुनिक भारतीय भाषाओं में यह परम्परा कोंकणी, मराठी, गुजराती और काश्मीर के निकट बोली जाने वाली कुछ हिमालय-पर्वतीय भाषाओं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड और प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में भी जीवित रही।

गुजराती में नपुंसक लिंग कपडु (एक व०) कपडाँ (बहुव०) आदि शब्द द्रष्टव्य हैं। डॉ० एल० पी० तेस्सितोरी ने पश्चिमी राजस्थानी में नपुंसक लिंग का संकेत किया है, जो कि 'उँ अँ' अंत वाले रूप में मिलता है > यथा—आरोग-पणउँ, (शीलोपदेशमाला ३), माथउँ (श्रावकाचार), युक्तउँ (इन्द्रिय पराजयशतक ११), जँ (कल्याणमंदिरस्तोत्र अवचूरि) < सं० यत् ।

हूयँ (दशवकालिसूत्र टीका) < सं० भूत ।^३

प्राकृत और अपभ्रंश की शब्दावली में बहुत अधिक समानता मिलती है। आचार्य हेमचंद्र के सूत्र—'शौरसेनीवत्,' 'अपभ्रंशे प्रायः शौरसेनीवत् कार्यं भवति' अर्थात् अपभ्रंश में प्रायः शौरसेनी के समान कार्य होते हैं। इस तथ्य को दृष्टि में रखकर 'पाइअ-सद्-महण्णवो' में प्राकृत के जिन शब्दों को नपुंसक लिंग माना गया है, यदि वे शब्द अपभ्रंश-साहित्य में भी प्रयुक्त हुए हैं तो उन्हें सामान्यतया पूर्ववत् नपुंसक लिंग के रूप में स्वीकार किया गया है परन्तु साथ ही लोक-ग्यव-हार में शब्द के प्रयोग को दृष्टि में रखते हुए लिंग-निर्धारण किया गया है। हिन्दी

१. आचार्य हेमचन्द्र का अपभ्रंश व्याकरण, सूत्र ३५३ ।

२. (क) डॉ० नामवर सिंह, हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० ६१ ।

(ख) डॉ० रामगोपाल शर्मा दिनेश, भाषा का व्याकरण और साहित्य पृ० ४४ ।

३. डॉ० एल० पी० तेस्सितोरी, पुरानी राजस्थानी (अनुवादक : नामवर सिंह),

पृ० ५४ ।

में नपुंसक लिंग अथ पुंलिंग में दर्शन गया है। वस्तुतः हिन्दी में भी लोक-व्यवहार में ही लिंग का निर्धारण होता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी में 'मात' पुल्लिंग है, परन्तु 'दात' स्त्री लिंग है। यद्यपि दोनों ही खाद्य पदार्थ हैं। 'पुस्तक' स्त्री लिंग है तो 'ग्रन्थ' पुल्लिंग है।

शब्द-रूप-रचना

अधोलिखित लिंग-शब्दों में सभी शब्दों के रूप एक स्थान पर अनुपलब्ध हैं। अतः कुछ शब्दों के रूप नीचे दिये जा रहे हैं—

अकारान्त पुल्लिंग शब्द पुंलिंग (पुं) के रूप

एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता—पुं, पुनउ, पुनो, पुन, पुना	पुन, पुना
कर्म—	" "
करण—पुनोण, पुनो, पुनो, पुनिण, पुनि	पुनोहिं, पुनोहिं, पुनोहि, पुनोहि
सम्प्रदान—पुनम, पुनसु, पुनह, सम्बन्ध) पुतहो	पुनाण, पुनाणं, पुतह, पुतहं, पुताह,
अपादान—पुतह, पुतहें, पुतहें, पुतहो,	(पुतहं), पुतहं
अधिकरण—पुनि, पुनि, पुतहें, पुतहें, पुतण, पुतमि,	पुतहि, पुतिहि, पुतसु,
सम्बोधन—पुन, पुना,	पुतह, पुतहो,

अकारान्त पुल्लिंग शब्द 'देव'

एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता—देव, देवा, देवु, देवो	देव, देवा
कर्म—देव, देवा, देवु	देव, देवा
करण—देव, देव, देवण (देविण)	देवहि, देवहि
अपादान—देवह, देवह	देवहं
सम्बन्ध—देव, देवसु, देवसु, देवहो, देवह	देव, देवहं
अधिकरण—देव, देव	देवहि
सम्बोधन—देव, देवा, देवु, देवो	देव, देवा, देवहो

नपुंसक लिंग शब्दों के कतिपय उदाहरण

अकारान्त 'कमल' शब्द

एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता, कर्म—कमलु कमल,	कमलउं, कमलउं

शेष पुल्लिंगशब्द

नपुंसक लिंग मह (मधु) शब्द

एकवचन

बहुवचन

कर्ता, कर्म—महु, महुं

महुइं, महुइं

और सम्बोधन—

शेष उकारान्त पुल्लिङ्ग वाऽऽ (वायुः) शब्द के रूप के समान

नपुंसक लिंग 'वारि' शब्द

एकवचन

बहुवचन

कर्ता और कर्म वारि, वारी

वारिइं, वारीइं

नपुंसक लिंग 'फल'

एकवचन

बहुवचन

कर्ता और कर्म

फल, फलु

फलइं, फलाइं

इकारान्त पुल्लिङ्ग अग्नी या अग्नि शब्द (अग्निः)

एकवचन

बहुवचन

कर्ता—अग्नी, अग्निं

अग्नी, अग्निहो

कर्म "

"

करण—अग्निञ्, अग्निं, अग्निणं

अग्नीहिं

अपादान—अग्निहे, अग्निहितो

अग्निहूँ, अग्नीहितो

सम्बन्ध—अग्निहे

अग्निहिं, अग्निहूँ, अग्नि

अधिकरण—अग्निहिं

अग्निहिं, अग्निहूँ

सम्बोधन—अग्नी, अग्नी

अग्निहो

इकारान्त 'गिरि' पुल्लिङ्ग

एकवचन

बहुवचन

कर्ता— गिरि, गिरी

गिरि, गिरी

कर्म— गिरी, गिरी

गिरि, गिरी

करण—गिरिणं, गिरिण, गिरी

गिरिहिं

अपादान—गिरिहे

गिरिहूँ

सम्बन्ध—गिरि, गिरिहे

गिरि, गिरिहूँ, गिरिहूँ

अधिकरण—गिरिहिं

गिरिहूँ

सम्बोधन—गिरि, गिरी

गिरि, गिरिहो

स्त्री लिंग अकारान्त या आकारान्त रूप (मुग्धा—मुद्धा)

एकवचन

बहुवचन

कर्ता—मुद्धः, मुद्धा

मुद्धाउ, मुद्धाओ

कर्म—मुद्ध, मुद्धा

मुद्धाउ, मुद्धाओ

करण—मुद्धए (मुद्धइ)	मुद्धहि
अपादान—मुद्धहे (मुद्धहि)	मुद्धहु
सम्बन्ध—मुद्धहे (मुद्धहि)	मुद्धहु
अधिकरण—मुद्धहि	मुद्धहि
सम्बोधन—मुद्ध, मुद्धा	मुद्ध, मुद्धा, मुद्धहो, मुद्धाहो ।
कह = कहा (कया)	

एकवचन

बहुवचन

कर्त्ता—कह, कहा	कहाउ, कहाओ
कर्म—" "	" "
करण—कहए (कहइ)	कहहि
अपादान—कहहे (कहहि)	कहहु
सम्बन्ध—" "	"
अधिकरण—कहहि	कहहि
सम्बोधन—कह, कहा	कह, कहा, कहहो, कहाहो

ह्रस्वीकरण प्रक्रिया से स्त्री लिंग के दीर्घान्त शब्द प्रायः ह्रस्वान्त हो जाते हैं, परन्तु ह्रस्व अकारान्त होने पर भी स्त्री लिंग के रूप पुंल्लिग से भिन्न हैं ।

ऊकारान्त पुंल्लिग वाऊ (वायुः) शब्द के रूप

एकवचन

बहुवचन

कर्त्ता-कर्म—वाऊ, वाउं	वाऊ, वाउं
करण—वाउण, वाउं (वाएं)	वाऊहिं, वाऊहि, वाऊहि
अपादान—वाउहे, वाउहितो	वाउहुं, वाऊ-हितो
सम्बन्ध—वाउहे	वाउहिं, वाउहुं, वाउ
अधिकरण—वाउहि	वाउहिं, वाउहुं
सम्बोधन—वाउ, वाऊ	वाउहो

आकारान्त स्त्रीलिंग 'वाला' शब्द के रूप

एकवचन

बहुवचन

कर्त्ता, कर्म—	वाला	वाला, वालाउ, बालउ
करण—वालाएँ, वालाए		वालहिं, बालहि
अपादान—वालहे		वालहु
सम्बन्ध—बालहे		वालहु, बालहं, बालहँ
अधिकरण—बालहि, बालहिं,		वालहि, बालहिं, बालहुँ, बालहुं
सम्बोधन—वाला, बाल		बालउ, बालाउ, बाला

ईकारान्त स्त्रीलिंग एदी (नदी) के रूप

एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता, कर्म—णदी, णदि	णदी, णदिउ
करण—णदिएँ, णदिए	णदीहिँ, णदीहि
अपादान—णदिएँ, णदिहेँ	णदिहु, (णदीणं सम्बन्ध में हो)
अधिकरण—णदिहिँ, णदी, णदि	णदीहि, णदिहिँ, णदिहुँ
सम्बोधन—णदि	एदिहोँ

सर्वनाम (उत्तम पुरुष) अस्मद्

एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता—हउँ (हउं)	अम्हे, अम्हइँ (अम्हइँ)
कर्म—मइँ (मइं)	" "
करण— "	अम्हेहिँ (अम्हेहिँ)
अपादान, सम्बन्ध—महु मज्जु, मउभ	अम्हहँ (अम्हहँ)
अधिकरण—मइँ, (मइं)	अम्हासु

संस्कृत 'युष्मद्' (मध्यम पुरुष) के अपभ्रंश वाले रूप

एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता—तुहँ (तुहुं)	तुम्हे, तुम्हइँ, तुम्हइँ
कर्म—पइँ, पइं तइँ, तइँ	" "
करण— "	तुम्हेहिँ, तुम्हेहिँ
अपादान तउ, तुज्जह, तुघ्न (तुहु)	तुम्हँ, तुम्हहँ
सम्बन्ध—तुज्जह, तुह	
अधिकरण—पइँ पइँ, तइँ तइँ	तुम्हासु

अन्य पुरुष तद् (सो)

एकवचन	बहुवचन
प्रथमा (पुं०) सो, सु, स	(पुं०) ते
(स्त्री०) सा, स	(स्त्री०) ताउ, ति
(न०)—तं, तंतु	(न०) ताइँ
द्वितीया— (पुं०) तं	(पुं०) ते
(स्त्री०) तं	(स्त्री०) ताउ
(न०) तं	(न०) ताइँ
तृतीया (पुं) तेण, तें	(पुं) तेहि
तइँ, तेण	ताहँ
ति	तेहि
(स्त्री०) ताइँ, तिए, तीए, ताए, तए	(स्त्री०) तेहि

चतुर्थी और षष्ठी—(पुं०) तःसु, तहो,

तहि, तसु, तहु, तहि

(स्त्री०) तिहि ताहि

(स्त्री०) ताहि

सप्तमी—(पुं०) तहि, तहि

(पुं०) तहि

(स्त्री०) तहि, तहि

(स्त्री०) ताहि

सम्बन्ध वाचक सर्वनाम यत् (जो)

	एकवचन	बहुवचन
प्रथमा	(पुं०) जो (स्त्री०) जा (न०) जं	(पुं०) जे (स्त्री०) जाउ (न०) जाइं
द्वितीया	(पुं०) जं (स्त्री०) जं (न०) जं, जु	(पुं०) जे (स्त्री०) जाउ (न०) जाइं
तृतीया	(पुं०) जेण, जि, जें (स्त्री०) जाइं, जाएँ, जिए	(पुं०) जेहि (स्त्री०) जाहि
चतुर्थी षष्ठी	(पुं०) जासु, जसु जस्स, जहो, स्त्री० जाहि	(पुं०) जाहं, जाह स्त्री० जाहि
पंचमी	(पुं०) जउ (जहे) (स्त्री०) जाहे	(पुं०) जहुँ (स्त्री०) जाहि
सप्तमी	(पुं०) जहि, जिम्म (स्त्री०) जहि	(पुं०) जहि (स्त्री०) जाहि

प्रश्नवाचक सर्वनाम 'क' के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्रथमा	(पुं०) को, कु	(पुं०) के
द्वितीया	(स्त्री०) का, क (न०) कि	(स्त्री०) कायउ, काउ (न०) काइं
तृतीया	(पुं०) केण, कइं (स्त्री०) काइं, काए	(पुं०) केहि (स्त्री०) केहि, काहि
चतुर्थी और षष्ठी	(पुं०) कहो, कहु, कस्स, कासु (स्त्री०) काहि, काहि	(पुं०) काहं—ह (स्त्री०) काहि
पंचमी	(पुं०) कउ, कहे (स्त्री०) काहे,	(पुं०) कहुँ (स्त्री०) काहि
सप्तमी	(पुं०) कहि, कहि (स्त्री०) काहि	(पुं०) काहि (स्त्री०) काहि

निश्चयवाचक सर्वनाम

एतद् से बना 'एह' के रूप

एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता, कर्म—एहो, एहु (स्त्री० एह, एय)	ए, इय
करण— एण	एयहि, एय
सम्बन्ध— एयहो (स्त्री० एयहि)	एयहं

इदम् से बना 'आय' के रूप

एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता, कर्म—आउ, वाओ, आअ वाइउ, आयउ	आआ, आए
करण—आएण (स्त्रीलिंग—आयएं, आयहि)	आयहि, आयएहि
अपादान आयहो ।	
तथा	
सम्बन्ध—स्त्रीलिंग में, आआ	आयइं

सर्वनाम के अन्य रूप सव्व (सं० सर्वं)

कारक—	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता—सव्वु, सव्वो, सव्व, सव्वा, सव		सव्वे, सव्व, सव्वा
कर्म—सव्वु, सव्वे, सव्व, सव्वा		सव्वे, सव्वि, सव्व, सव्वा
करण—सव्वेण, सव्वें, सव्वे		सव्वेहि, सव्वाहि, सव्वहि, सव्वे
अपादान—सव्वहं, सव्वहं		सव्वहं, सव्वाहं
सम्बन्ध—सव्वसु, सव्वासु, सव्वसुं, सव्वहो, सव्वाहो, सव्व, सव्वा		सव्वेसिं, सव्वहं, सव्व, सव्वा
अधिकरण—सव्वहि, सव्वाहिं		सव्वहि, सव्वोहिं, सव्वासु, सव्वसु

अण्ण (सं० अन्य)

	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता, कर्म	अण्ण, अण्णु	
करण	अण्णे	अण्णाहि
सम्बन्ध	अण्णह	
अधिकरण	अण्णहि	

शब्द-संग्रह

कोश-रचना का कार्य अत्यन्त वैज्ञानिक एवं पद्धतिपरक है। शब्द-संग्रह का कार्य कोश-संपादन की प्रथम महत्त्वपूर्ण सीढ़ी है। प्रस्तुत कोश में अपभ्रंश की प्रकाशित एवं अप्रकाशित कृतियों से शब्दों का संग्रह किया गया है। प्रमाणस्वरूप, प्रत्येक प्रविष्टि के अंत में पुस्तक का संदर्भ दे दिया गया है। अपभ्रंश की रचनाओं में अनेक देशी शब्द मिलते हैं। अतः 'देशीनाममाला' के शब्दों का संकलन करना भी आवश्यक समझा गया। अपभ्रंश और अवहट्ठ में भेद न कर अवहट्ठ की रचना यथा—'कीर्तिलता' के शब्दों को भी इस कोश में स्थान दिया गया है।

अपभ्रंश-शब्दावली बहुत विस्तृत है। इसका संकलन करना अपने में एक चुनौती है। अपभ्रंश के विपुल साहित्य से संबंधित सभी रचनाएँ अब तक प्रकाशित नहीं हो पायी हैं। डॉ० हर्षिवंश कोछड़ ने अपनी पुस्तक 'अपभ्रंश-साहित्य' में उन अप्रकाशित रचनाओं का उल्लेख किया है और साथ ही अप्रकाशित रचनाओं से संबंधित मूल अंश भी प्रस्तुत किया है, जिनके आधार पर अप्रकाशित रचनाओं के शब्दों का संकलन किया गया है।

व्युत्पत्ति

कोश में व्युत्पत्ति का विशेष महत्त्व होता है। इससे शब्द के इतिहास का ठीक प्रकार से ज्ञान होता है। प्रस्तुत कोश में मूल शब्द को कोष्ठक में देने का प्रयास किया गया है। कहीं-कहीं कोष्ठक से बाहर दिया गया संस्कृत शब्द पर्याय है, न कि व्युत्पत्तिमूलक शब्द। संस्कृत के मूल शब्दों का आधार प्रामाणिक संस्कृत-कोशों की शब्दावली रही है और प्राकृत के शब्दों का आधार, 'पाइअ-सद्-महण्वो' तथा 'अभिधान-राजेन्द्र कोष' रहा है। प्रस्तुत व्युत्पत्ति-अध्ययन से निश्चय ही संस्कृत और प्राकृत के साथ अपभ्रंश के संबंध के स्वरूप का बोध हो सकेगा, ऐसा संपादक का विश्वास है।

भारतीय भाषाओं के शब्दों से तुलना

भारतीय भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान होता रहा है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय भाषाओं के उद्गम एवं विकास के इतिहास को समझने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि विभिन्न प्रांतीय भाषाओं से अपभ्रंश के शब्दों की तुलना की जाए। अतः इस कोश में राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि के शब्दों से यत्र-तत्र तुलना की गई है। निश्चय ही अपभ्रंश भाषा का आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ सम्बन्ध जोड़ने से राष्ट्रीय एकता को बल मिल सकेगा।

अर्थ-विचार

शब्द-कोश का महत्वपूर्ण अंग अर्थ का निर्धारण करना होता है। प्रस्तुत कोश में अर्थ की प्रामाणिकता एवं प्रासंगिकता बनाये रखने का पूर्ण रूपेण प्रयास किया गया है। ठीक अर्थ की छानबीन के प्रयास में मैंने अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखी है। शब्दार्थ की उपयुक्तता को सिद्ध करने के लिए आवश्यकता-नुसार यत्र-तत्र मूल उद्धरण दे दिये गए हैं।

मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

अभिधात्मक अर्थ के साथ यदि किसी शब्द का प्रयोग लाक्षणिक एवं व्यंग्यार्थों में हुआ है तो उसे भी देने का प्रयास किया गया है। संस्कृत और प्राकृत साहित्य के समान अपभ्रंश साहित्य में भी सूक्तियों, मुहावरों और लोकोक्तियों के सुंदर प्रयोग मिलते हैं, जिन्हें प्रस्तुत कोश में प्रसंगवश यत्र-तत्र उद्धृत करने का प्रयास किया गया है।

शब्द-रचना

अपभ्रंश के शब्दों की रचना को समझने के लिए प्रत्यय-विधान पर भी विचार करना अपेक्षित है —

तद्धित प्रत्यय—

इसके पाँच भेद हैं—

१. स्वार्थिक प्रत्यय—

नाम (संज्ञा) शब्दों से अ, डा, डुल्ल, अल्ल, इल्ल, उल्ल, इय, क्क, उ, ए, आदि प्रत्यय लगते हैं। संस्कृत के स्वार्थे प्रत्यय 'क' से अपभ्रंश में 'अ' का विकास हुआ है, यथा—लघुक से लहुअ, गुरुक से गरुअ। अन्य प्रत्ययों के कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं —

हृदय > हियडा। माणिक्य > माणिककडा।

अल्ल, इल्ल, उल्ल—यथा, हिअउल्ल (हृदय), विलउल्ल (विलोल), वहिनुल्ल (भगिनि), ।

स्त्री-प्रत्यय—

स्त्रीलिंग शब्दों में डी प्रत्यय लगता है, यथा—गोरी से गोर+डी, मृत्ति से मिट्ठीडी। यदि शब्द के अंत में 'ड' प्रत्यय हो तो अन्तिम ड का अकार इकार में परिवर्तित हो जाता है, यथा—घूलड से घूलडिया।

आ—सिआ (श्री), अज्जा (आर्या)।

इ—णइ (नदी), तरुणि (तरुणी)।

ई—वाइणी (वादिनी)।

णी—सिस्सिणी (शिष्या)।

२. संयुक्त-प्रत्यय—

उल्ल तथा अ के योग से—मोरुल्लअ; अल्ल+डा=वलुल्लडा ।

क- 'क' प्रत्यय शेष रहने पर इस प्रत्यय के इक, इय, कक, रूप भी मिलते हैं, जैसे—धानुक्किय, धानुक्क ।

उ, एँ

जैसे—पुणु, अवसँ ।

३. भाववाचक प्रत्यय—

भाववाचक अर्थ में प्प, प्पण, त्त, तण तथा अण का प्रयोग होता है, जैसे—

देव+प्पण,

वड्ड+प्पण,

वड्ड+त्तण । उत्क्रोपन > उक्क्रोवण, अवेक्षण > अविक्खण ।

४. कर्त्तृत्व बोधक—

ये प्रत्यय कर्त्ता का बोध कराते हैं, जैसे—

अ—खवण

आर—सोन्नार; कर्त्तारः > कत्तार ।

इर—हिसिर

अण—सुहावण

हार—करणिहार

इल्ल—कणिल्ल

आव—नटाव

आल—सोहाल ।

५. संबन्ध-सूचक प्रत्यय—

जैसे—

इत—जोवणइत (यौवनवती)

इ—जोइ (योगिन्)

व—हणूव हनुवत् (हनुवत्)

वन्त—पुनवन्त (पुण्यवान्)

मई—सिरिमई (श्रीमती)

वाल—थणवाल (स्थानपाल)

आलु—सद्धालु (श्रद्धालु)

इय—पराइय (परकीय) ।

कृदंत प्रत्यय

कृदंत प्रत्यय क्रिया (धातु) के साथ लगते हैं। संस्कृत के तुमुन् प्रत्यय के स्थान पर अपभ्रंश में एप्पि, एप्पिणु, एवि, एविणु, एवं, अण, अणहं और अर्णाह प्रचलित हैं— यथा— करेप्पि, करेप्पिणु, करेवि, करेविणु, करेवं, करण, करणहं, करर्णाह। इस संबंध में एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि गम् धातु से परे 'तुमुन्' अर्थ में प्रयुक्त 'एप्पिणु' और 'एप्पि' के 'ए' का लोप विकल्प से होता है, यथा—गमिप्पणु (हे० ४४२), गम्पि, गमेप्पि।

संस्कृत के क्त्वा (त्वा) प्रत्यय के स्थान में इ, इउ, अवि, एप्पि, एप्पिणु, एवि, एविणु होते हैं, जैसे— कृत्वा=करि, करिउ, करिवि, करवि, करेप्पि, करेप्पिणु, करेविं, करेविणु। अन्य उदाहरण— मारि, मज्जिउ, चुम्बिवि, विछोडवि, जेप्पि, देप्पिणु, लेवि, ज्ञाएविणु।

संस्कृत के 'तव्य' प्रत्यय के स्थान पर अपभ्रंश में इएव्वउं, एव्वउं, एवा, एव्व होता है, तथा— करिएव्वउं, सहेव्वउं, सोएवा, देक्खेव्व।

वर्तमान कृदंत—

संस्कृत शत् प्रत्यय का 'अंत' या 'अतय' रूप होता है, जैसे— करंत, मुणंत। अपभ्रंश में संस्कृत के शानच् का माण मिलता है, यथा— गच्छमाण, णच्चमाण, पइसमाण।

भूत कृदंत—

संस्कृत के क्त और क्तवतु प्रत्ययों का उपभ्रंश में त और तवत् रूप मिलता है। क्त के रूप-त्, -इत् या -ण्ण अपभ्रंश में प्रयुक्त होते हैं। अपभ्रंश में विशेषतः त ही शेष रहा। तकार का लोप होने पर-अ शेष रहा और उसमें य की श्रुति आने पर अ, इअ, और उसके परिवर्धित रूप य, इय, इयअ के प्रयोग मिलते हैं, यथा— हुइय, पेसिय। स्त्रीलिंग में इय का ई हो जाता है, जैसे— तुट्टी, चडी।

भविष्यत् और विधि कृदंत

संस्कृत में 'तव्य' प्रत्यय भविष्यत्काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संस्कृत के तव्य प्रत्यय के स्थान पर अपभ्रंश में 'इएव्वउं', 'एव्वउं', 'एवा', 'एव्व', 'इअव्व' 'अव्व' का प्रयोग होता है, यथा— करिएव्वउं, मारिएव्वउं, सोएवा, देक्खेव्व, देखव, पढव, धरव, आदि।

पूर्वकालिक रूप

पूर्वकालिक क्रिया के निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग होता है—

इ— चलि, पढि, मारि, करि। इउ, इउं— कहिउ, मज्जिउ, भज्जिउ। अवि— मुयवि, विछोडवि परिसेसवि। पि— गम्पि। वि— आणिवि, लेवि। इवि— पणविवि (प्र+नम् > पणव+इवि), अव लोइवि (अव+√/लोक् > अवलो+इवि), पेक्खिवि (प्रेक्ष > पेक्ख+इवि)। एदि— पणवेवि (प्र+√/नम् पणव+ एवि)

सुणेवि (श्रु > सुण + एवि), लहेवि (√लभ् > लह + एवि), धारेवि (धृ > धार + एवि) । एप्पिणु— पणवेप्पिणु (प्र + नव > पणव + एप्पिणु), । एफि— जेफि । एविणु— लहेविणु (√लभ् > लह + एविणु), करेविणु (√कृ > कह + एविणु), लहेविणु (√लभ् > लह + एविणु) । णिसुणेविणु (नि < श्रु > सुण + एविणु), सुमरेविणु (स्मृ > सुमर एविणु) ।

धातु— प्रत्यय

संस्कृत, पालि और प्राकृत में क्रिया-रूप श्लिष्टता प्रधान हैं, किन्तु अपभ्रंश अश्लिष्टता की ओर बढ़ी है । अपभ्रंश में संस्कृत के लकारों की विविधता में कमी आई । अपभ्रंश में संस्कृत के आत्मनेपद और परस्मैपद का भेद समाप्त हो गया । परस्मैपद रूप ही प्रचलित रहे । आत्मनेपद प्रायः लुप्त हो गये; अपवाद स्वरूप आत्मनेपद के दो रूप शेष रह गए, उसके 'ए' का 'इ' में विलय हो गया । द्वि वचन का सर्वथा लोप हो गया । कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य के क्रियापद का भेद केवल धातु के रूप तक ही सीमित रहा ।

अपभ्रंश में लट्, लोट् और लृट् तीन लकार अवशिष्ट रहे और भूतकाल के लिए 'क्त' प्रत्यय का प्रयोग हुआ । अपभ्रंश-धातुओं से पद-रचना के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है ।— इ, इ', हि, उ', उ, हु, हुं, ए, एदि, हि, सि, मि, अहु, आमि, एइ, थि, ति, न्ति, एमि, इमि, मो, मु, ह, स, इहि, ईस इत्यादि ।

वर्तमान काल के प्रत्यय—

इ, हि, हि, हु, उं, हुं । लोट् लकार के प्रत्यय हैं— उ, न्तु, (हुं), (हिं), इ, उ ए, हु, उं, हुं ।

भूतकाल के प्रत्यय—

इ, उ, ए, अ, इअ, य, इय, । भूतकाल के लिए संस्कृत के 'क्त' प्रत्यय के अपभ्रंश में, त, यत, या ण्ण रूप बन गए । यथा— पडिय, जाणिय, चडियउ ।

भविष्यत्काल—

संस्कृत के भविष्य-सूचक प्रत्यय 'स्य' का अपभ्रंश में 'स' और ध्वनि-परिवर्तन से 'ह' रूप बना है । 'इहि' तथा 'ईस' भी भविष्य सूचक प्रत्यय हैं ।

प्रेरणार्थक क्रिया—

जब कर्ता को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता है । संस्कृत के 'णिच्' प्रत्यय के स्थान पर अत्, एत, आव, आवे आदेश होकर धातु रूप बनता था, यथा, दरिसइ, कारेइ करावइ, करावेइ, हासेइ, हसावइ, हसावेइ आदि ।

कुछ क्रियाओं के रूप नीचे दिये जा रहे हैं—

धातु रूप-रचना (तिङ् विभक्ति)

कर् धातु के रूप

वर्तमान काल (लट् लकार)

एक वचन

बहु वचन

प्रथम पु०—	करइ, करदि	करहि, करहि, करन्ति
मध्यम पु०—	करसि, करहि, करहि, करहि	करहु
उत्तम पु०—	करउं, करउं, करामि, करेमि	करहुं, करहुं, करिमु

‘चल’ धातु की रूप— रचना

लट् लकार

एक वचन

द्वि० वचन

प्रथम पु०	—	चलइ	—	चलहि
मध्यम पु०	—	चलहि	—	चलहु
उत्तम पु०	—	चलउं	—	चलहु

अपभ्रंश में ‘चल’ के अन्य प्राकृत रूप भी निम्न प्रकार प्रचलित हैं—

एक वचन

बहु वचन

प्रथम पु०	—	चलए, चलेदि	—	चलन्ति, चलन्ते चलिरे
म० पु०	—	चलहि, चलसि	—	चलहु चलह, चलिद्ध
उ० पु०	—	चलउं चलउ, चलमि, चलामि	—	चलहुं चलमु चलाम; चलामो

आज्ञार्थक (लोट् लकार) में कर् धातु के रूप

एक वचन

बहु वचन वचन

प्रथम पु०	×	×
मध्यम पु०	करु, करहि, करहि, करे, करह, करि	करह, करहु, करहि
उत्तम पु०	×	×

भविष्यत् काल (लृट् लकार)

एक वचन

बहु वचन

प्रथम पु०	—	करिसिइ, करिहइ	करिसहि, करिहहि
मध्यम पु०	—	करीहिसि, करिसिहि	करिसहु, करिहहु
उत्तम पु०	—	करीसु, कीसु	करिसहुं, करिसउं

हस धातु

	एक वचन	वहु वचन
प्र० पु०	हसिहिइ, हसीसइ	हसिहिहिं, हसीसहिं
म० पु०	हसिहिहि, हसीसहि	हसिहिहु, हसीसहु
उ० पु०	हसिहिउ, हसीसउ	हसिहिहुं, हसीसउं

कृतज्ञता-ज्ञापन

प्रस्तुत कोश के संपादन-कार्य में मुझे अपभ्रंश-साहित्य की संपादित रचनाओं से सहायता प्राप्त हुई है। अपभ्रंश-साहित्य से संबंधित संपादक सर्व श्री डॉ० वासु-देवशरण अग्रवाल, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉ० हीरालाल जैन, डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, सी० डी० दलाल एवं पाण्डुरंग-दामोदर गुने, डॉ० हरिवल्लभ भायाणी, मधु सूदन मोदी, अजरचन्द नाहटा, डॉ० देवेन्द्र कुमार जैन, डॉ० पी० एल० वैद्य, डॉ० माता प्रसाद गुप्त, जिन विजय मुनि, र० म० शाह, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉ० राजाराम जैन, विमल प्रसाद जैन, डॉ० रमणीक भाई शाह, डॉ० भोला शंकर व्यास आदि विद्वानों के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त निम्नलिखित विद्वानों ने भी अपभ्रंश भाषा का शोधपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया— डॉ० एल० पी० तेस्सितोरी, डॉ० परममित्र शास्त्री, डॉ० नामवर सिंह, डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव, डॉ० जी० वी० तगारे, डॉ० सुकुमार सेन, प्रो० शालिग्राम उपाध्याय, डॉ० हरिवंश-कोछड़। उपर्युक्त विद्वानों की पुस्तकों में दिए अपभ्रंश के शोधपूर्ण अध्ययन से मैं लाभान्वित हुआ, उनका ऋषि-ऋण मुझ पर बना हुआ है।

डॉ० कुंवर वेचैन, डॉ० रामरज पाल द्विवेदी एवं डॉ० रामकृष्ण कौशिक के सहज स्नेह एवं सौजन्य का स्मरण करते हुए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनसे मुझे पुस्तकों की सहायता प्राप्त हुई। अपभ्रंश के वर्ण-क्रम एवं ध्वनियों के संबंध में सर्व श्री डॉ० कैलाश चंद्र भाटिया डॉ० नामवर सिंह, डॉ० एल० वी० राम अनन्त, डॉ० राधेश्याम मिश्र, डॉ० त्रिभुवन नाथ शुक्ल से समय-समय पर चर्चा हुई, उनके कृपापूर्ण स्नेह के लिए मैं बहुत आभारी हूँ।

इस कोश की प्रकाशन संबंधी तत्परता का समस्त श्रेय आदरणीय डॉ० महेश-भारतीय को ही है, उसके लिए मैं डॉ० साहव के प्रति सात्विक श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। मुद्रण-कार्य में सहयोग के लिए सर्व श्री डॉ० एल० वी० राम 'अनन्त', आनन्दशर्मा, शरद कुमार एवं कमल कुमार धन्यवाद के पात्र हैं। इस कोश को मैं आदरणीय डॉ० श्री जयचंद्र राय को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरणा दी थी।

अंत में मैं अपभ्रंश-साहित्य के विद्वानों से सुझावों की आकांक्षा करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ। उनके उपयोगी सुझाव मुझे उपकृत तो करेंगे ही, साथ ही इस राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य को आगे बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होंगे।

नरेश कुमार

जे २३५, पटेलनगर प्रथम, गाजियाबाद, (उ० प्र०) २०१००१

संकेत-सूची

अ०	अरबी	ने०	नेपाली
अक०	अकर्मक धातु	पं०	पंजाबी
अनु०	अनुकरण शब्द	प०	परमपं
अनुध्व०	अनुध्वन्यात्मक	पह०	पहनवी
अप०	अपभ्रंश भाषा	पा०	पाणि
अर्द्ध ना०	अर्द्ध भागधी	पुं०	पुंल्लिग
अव०	अवहट्ठ	पुं० न०	पुंल्लिग तथा नपुंसक लिंग
अव्य०	अव्यय	पु० न०	पुरानी नराठी
अत्त०	अत्तमिया	पु० राज०	पुरानी राजस्थानी
आ०	आनायक	पुं० स्त्री०	पुंल्लिग तथा स्त्रीलिंग
आ० गु०	आधुनिक गुजराती	पू० का० क्रि०	पूर्व कालिक क्रिया
उ०	उदाहरण	पै०	पैशाची
ए०	एक वचन	पृ०	पृष्ठ
ओ०	ओड़िया	प्र०	प्रत्यय
कस्मी०	कस्मीरी	प्रा०	प्राकृत
कों०	कोंकणी	प्रा० हि०	प्राचीन हिंदी
क्रि०	क्रिया	फ्रा०	फ़ारसी
क्रि० वि०	क्रियाविशेषण	वं०	वाङ्मय
कृ०	कृदन्त	व०	बहुवचन
गु०	गुजराती	दु०	दुर्लभशब्दी
जैन परि०	जैन परिभाषा	द०	द्वजभाषा
जं० महा०	जैन महाराष्ट्री	म० का०	भविष्यत् काल
टि०	टिप्पणी	भाव०	भाव वाचक संज्ञा
त०	तमिल	भू० का०	भूत काल
तु०	तुर्की	भू० का० कृ०	भूत कालिक कृदन्त
तुल०	तुलना	भू० कृ०	भूत कृदन्त
ते०	तेतुपु	नो०	नोज़रुदी
दे०	देशी शब्द	न०	नराठी
धा०	धातु	मग०	मगही
ध्व०	ध्वन्यात्मक	मन०	मलयगम
न०	नपुंसक लिंग	मुहा०	मुहावरा
नाम०	नाम धातु	राज०	राजस्थानी
ना० धा०	नाम धातुज क्रिया		

ला०	लाक्षणिक
लो०	लोकोक्ति
व०	वर्तमान काल
व० कृ०	वर्तमान कृदंत
वि०	विशेषण
विभ०	विभक्ति
विस्म०	विस्मयादि बोधक
वै०	वैदिक
व्या०	व्याकरण
सं०	संस्कृत
संयो०	संयोजक
सक०	सकर्मक धातु
समु०	समुच्चय बोधक
सर्व०	सर्वनाम
सि०	सिन्धी
स्त्री०	स्त्रीलिंग
हि०	हिंदी

का० दो० को०—	काण्हापा दोहा कोप
की०—	कीर्तिलता
चं०—	चंदप्पह चरिउ
च०—	चर्यापद
जस०—	जसहरचरिउ
जंजू०—	जंजूसामिचरिउ
जि०—	जिणदत्त चरिउ
ण०—	णयकुमार चरिउ
णो०—	णेमिणाह चरिउ
दे० ना० मा०—	देशी नाम माला
दे० सा० दो०—	देवसेन
	(सावयधम्म दोहा)
प० च०—	पउम चरिउ
प० सि० च०—	पउमसिउ चरिउ
	(बाहिल)

पर०—	परमप्पयासु
परमा०—	परमात्म प्रकाश-योगसार
	(जो इन्दु द्वारा लिखित)

पाइअ०—	पाइअ-सद्-महण्णावो
पास०—	पासणाह चरिउ
पाहु०—	पाहुड दोहा
प्र० को०—	प्रवन्ध कोश
प्रा० गु०—	प्राचीन गूर्जर काव्य संग्रह
प्र० चि०—	प्रवन्ध चिन्तामणि
प्रा० पै०—	प्राकृत पैंगलम
वा०—	वाहुवलि चरित
भ०—	भविसयत्तकहा
भ० च०—	भविसयत्त चरिउ
मय०—	मयणपराजयचरिउ
महा०—	महापुराण
यो०—	योगसार
रा०—	राउलवेल
रि०—	रिट्ठणेमिचरिउ
व०—	वड्डमाणचरिउ

विशेष चिह्न

✓ धातु का चिह्न ।

> व्युत्पन्न, यह चिह्न पूर्व रूप से पर
रूप के परिवर्तन को बताता है ।

< यह चिह्न पररूप से पूर्व रूप को
बताता है ।

★ संभावित रूप ।

प्रमाण ग्रन्थों के संकेतों का विवरण

संकेत—	ग्रन्थ का नाम
उ०—	उपदेश रसायन रास
क०—	करकंडचरिउ
का०—	कालस्वरूप कुलक

वर्ण०—वर्णरत्नाकर
 विला०—विलासवईकहा
 वी०—वीर जिणिदं चरिउ
 षड्—षड्भाषाचन्द्रिका
 सं० रा०—संदेश रासक
 संधि०—संधिकाव्य-समुच्चय
 स० दो० को०—सरहपा (दोहा कोप)
 सण०—सनत्कुमारचरित
 सणहु०—सणतुकुमारचरिय (अपभ्रंश
 महाकाव्य 'नेमिनाहचरिय' अन्तर्गत)
 सा०—सावयधम्म दोहा
 क्षि०—सिरिवाल चरिउ
 सु०—सुकुमाल चरिउ
 सुद०—सुदंसणचरिउ
 सुअंध—सुअंधदहमीकहा
 ह०—हरिवंशपुराण
 हि० का०—हिंदी काव्यधारा
 हे०—हेमचन्द्र का अपभ्रंश व्याकरण
 हे० प्रा०—हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण

संकेताङ्कों का विवरण

- (१) डॉ० एल० पी० तेस्सितोरी
 (२) डॉ० परम मित्र शास्त्री

संदर्भ-ग्रंथों का विवरण

(शब्द-संकलन के स्रोत तथा उद्धरणों में प्रयुक्त संदर्भ ग्रंथों का विवरण क्रमशः लेखक का नाम, ग्रंथनाम, प्रकाशक और प्रकाशन वर्ष यहाँ दिया गया है)।

१. अब्दुलरहमान कृत संदेश रासक, संपादक : हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रकाशक, हिंदी-ग्रन्थ

रत्नाकर, प्रा० लि०, बम्बई-४; संस्क० मार्च, १९६०।

२. (अ) डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये द्वारा संपादित, परमप्पयासु, प्रकाशक : सेठ मनिलाल रेवा शंकर झावेरी, परमश्रुत प्रभावक मंडल, बम्बई, १९३७ ई०।

(आ) डॉ० आ०ने० उपाध्ये द्वारा संपादित 'योगसार' और परमप्पयासु (परमात्म के प्रकाश) साथ प्रकाशित, प्रकाशक: सेठ मनिलाल रेवा शंकर झावेरी, परमश्रुत प्रभावक मंडल, बम्बई, १९३७ ई।

३. डॉ० आर० पिशेल, हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण, बम्बई संस्कृत सीरीज़, १९००।

४. उदयचन्द्र, सुअंधदहमी कहा, संपादक : डॉ० हीरा लाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, संस्क० १९६६ ई०।

५. कनकामर, करकड चरिउ, संपादक : डॉ० हीरालाल जैन, संस्क० १९६४ ई० भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन, नई दिल्ली।

६. कृष्ण लाल वर्मा, हिंदी-भरठी कोश; ग्रंथ भंडार, माहीम, बम्बई; संस्क० १९५१।

७. जयदेव मुनि, भावना संधि प्रकरण, एनत्स आफ भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट पूना, भाग ११, सन् १९३०, पृ० १-३१ पर एम० सी० मोदी द्वारा संपादित। यह छह कडवकों की रचना है, जिसमें प्रत्येक कडवक में १० पद्य हैं।

८. जिनदत्तसूरि, उपदेश रसायन रास, ला० भ० गांधी द्वारा संपादित, अपभ्रंश काव्यत्रयी ओरियंटल इंस्टिट्यूट, वड़ोदा, सन् १९२७ ।

९, जिनदत्त सूरि, काल स्वरूप कुलक, (३२ पद्यों की कृति), इसका दूसरा नाम उपदेश कुलक भी है । इसका उल्लेख पत्तन भण्डार की ग्रंथ-सूची में मिलता है, (द्रष्टव्य : हरिवंश कोछड़, अपभ्रंश-साहित्य, पृ० २९०) ।

१०. दामोदर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सिंधी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ, भारतीय विद्या भवन, बम्बई संस्क० वि० २०१०। डॉ० देवेन्द्र कुमार जैन, अपभ्रंश और हिंदी राजस्थान प्राकृत भारतीय संस्थान, जयपुर संस्क० १९८३ ई० ।

११. डॉ० देवेन्द्र कुमार शास्त्री, राजस्थान का जैन साहित्य; प्राकृत भारतीय जयपुर संस्क० वि० सं० २०३४ ।

१२. देवसेन, सावयधम्म दोहा, प्रो० हीरालाल जैन द्वारा संपादित, अम्बादास चवरे दिगंबर जैन ग्रंथमाला २, वि० सं० १९८९ ।

१३. देवसेन गणि, सुलोचना चरिउ, अप्रकाशित ग्रन्थ, आमेर शास्त्र भण्डार में हस्तलिखित प्रति सुरक्षित ।

१४. धनपाल, बाहुवलि चरित, अप्रकाशित ग्रंथ, (हस्तलिखित प्रति आमेर शास्त्र भण्डार जयपुर में उपलब्ध) ।

१५. (अ) धनपाल, भविसयत्त कहा, संपादक : सी० डी० दलाल एवं पाण्डुरंग दामोदर गुने, प्रकाशक : ओरियंटल इंस्टिट्यूट वड़ोदा, संस्क० १९६७ ।

(आ) डॉ० एच० जेकोवी द्वारा संपादित, १९१८ ।

(इ) श्री दलाल और गुणे द्वारा संपादित, गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज, ग्रन्थांक २०, संस्क० १९२३ ई० ।

१६. धाहिल, पउमसिरी चरिउ, मधु-सूदन मोदी तथा हरिवल्लभ भायाणी द्वारा संपादित, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, वि० सं० २००५ ।

१७. नयनदी, सुदंमणचरिउ, संपादक : डॉ० हीरालाल जैन, प्रकाशक : प्राकृत, जैन शास्त्र और इतिहास शोध-संस्थान वंशाली (विहार), संस्क० १९७० ।

१८. नरसेनदेव, सिरिवालचरिउ, संपादक : डॉ० देवेन्द्र कुमार जैन, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, संस्क० १९७४ ई० ।

१९. नागदेव, मयणपराजयचरिउ, संपादक : डॉ० हीरालाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, संस्क० अप्रैल १९६२ ई० ।

२०. डॉ० नामवर सिंह, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, साहित्य भवन लि० इलाहाबाद, संस्क० १९५४ ई० ।

२१. परममित्र शास्त्री, सूत्र शैली और अपभ्रंश व्याकरण, सं० २०२४ वि०, ना० प्र० सभा, काशी ।

२२. पुष्पदन्त विरचित जसहूरचरिउ. संपादक : डॉ० हीरालाल जैन; भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, संस्क० १९७२ ई० ।

२३. गुणदन्त, णयकुमारचरिउ, संपादक : डॉ० हीरालाल जैन, संस्क० सन् १९७२, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली ।

२४. पुष्पदंत, महापुराण, संपादक :
डॉ० पी० एल० वैद्य, भारतीय ज्ञान पीठ
प्रकाशन, संस्क० सन् १९८३ ।

२५. पुष्पदंत, वीर जिणिद चरिउ, संपा-
दक : डॉ० हीरालाल जैन, भारतीय ज्ञान
पीठ प्रकाशन, सं० १९७४ ई० ।

२६. भट्टोजिदीक्षित विरचित सिद्धान्त-
कौमुदी; प्रकाशक—खेमराज-श्रीकृष्णदास,
बम्बई, सं० २००६ ।

२७. डॉ० भोलाशंकर व्यास, प्राकृत
पैगलम् भाग १, प्रकाशिका : प्राकृत ग्रन्थ
परिपद् वाराणसी-५ ।

२८. डॉ० भोला शंकर व्यास, प्राकृत
पैगलम्, भाषा शास्त्रीय और छंद शास्त्रीय
अनुशीलन) प्रकाशिका : प्राकृत ग्रन्थ
परिपद्, वाराणसी, सं० २०१८ ।

२९. मगनभाई प्रभुनास देसाई, हिंदी
गुजराती कोश, गुजरात विद्यापीठ अह-
मदावाद; संस्क० १९६४ ई० ।

३०. डॉ० माता प्रसाद गुप्त, सम्पादक,
राउल बेल और उसकी भाषा, मित्र
प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद ।

३१. मुरलीधर बनर्जी, दि देशीनाममाला
आफ हेमचन्द्र, प्रकाशक कलकत्ता विश्व-
विद्यालय, १९३१ ।

३२. मेरुतुङ्ग, प्रबन्धचिन्तामणि, सम्पा-
दक जिनविजय मुनि, प्रकाशक : सिधी
जैन ज्ञानपीठ, विश्वभारती शान्तिनिके-
तन बंगाल संस्क० १९८६ ।

३३. यशःकीर्ति, चंदम्पह चरिउ, अप्रका-

शित कृति; (आमेर शास्त्र भण्डार में
हस्तलिखित प्रति सुरक्षित) ।

३४. २० म० शाह, संपादक, संधिकाव्य-

समुच्चय प्रकाशक : लालभाई दलपत-
भाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर, अह-
मदावाद, ६; संस्क० जनवरी १९८० ।

टि०—इस पुस्तक में निम्नलिखित
लेखकों की रचनाएँ संकलित हैं— १.
रत्नप्रभसूरि, वीरजिण— पराजय-संधि

(रचना-समय ई० स० ११८२); गयसुउ-
माल-संधि (रचना-समय; ई० स०
११८२); तालिभद्-संधि (रचना-समय

ई० स० ११८२); अवंतिसुकुमाल-
संधि (रचना-समय : ई० स० ११८२) ।

२. जिन प्रभसूरि, मयणरेहा (ई० स०
१२४१); जीवाणुसटिठ-संधि (ई० स०
१२२५), नमयासुंदरि-संधि (ई० स०
१२७२); चउरंग-भावण-संधि (ई० स०
१३०० पूर्व) । ३. विनयचन्द्रसूरि,

आणंद-सावय-संधि (ई० स० १३००
पूर्व) । ४. रत्नप्रभ गणि, अंतरंग संधि
(ई० स० १३०० पूर्व) । ५. लेखक :

अज्ञात, केसीगोयम-संधि (ई० स०
१४१७) । ६. जयदेव मुनि, भावणा-
संधि (रचना-समय : ई० स० १४००

पूर्व, लेखन-समय : ई० स० १४१३) ।

७. जयशेखरसूरि-शिष्य, सील-संधि
रचना-समय : ई० स० १४०० पूर्व,
लेखन-समय : ई० स० १४१३); अव-

हाण-संधि (रचना-समय : ई० स०
१४०० पूर्व) । ८. कर्ता : अज्ञात, हेम-
तिलयसूरि-संधि (रचना-समय : ई० स०
१४०० पूर्व) । ९. विशालराजसूरि, तव-

संघि (रचना-समय ई० स० १४०० पूर्व, लेखन-समय : ई० स० १४४९) । ९.

कर्त्ता : अज्ञात, अणाहि-महूरिसि-संघि, (ई० स० १४०० पूर्व, लेखन-समय : ई० स० १४३०) । १०. हेमसार, उव-एस-संघि (रचना-समय : ई० स० १५०० पूर्व) ।

३५. राजशेखर सूरि, प्रवन्व कोश, सिंधी जैन ज्ञानपीठ शान्ति निकेतन, विद्वा० १९९१ ।

३६. डॉ० राम गोपाल शर्मा 'दिनेश' अपभ्रंश भाषा का व्याकरण और साहित्य, प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, प्रथम-संस्क० १९८२ ।

३७. रामसिंह, पाहुड दोहा प्रो० हीरालाल जैन द्वारा संपादित, वि० सं० १९९०, कायजा जैन पब्लिकेशन, सोसाइटी, कारंजा, वरार ।

३८. राहुल सांस्कृत्यायन, हिंदी काव्य-धारा, प्रयाग, १९४५ ई० । (इस पुस्तक में दिये गये 'चर्यापद' के उदाहरणों के आधार पर शब्द संकलित) ।

३९. लक्ष्मण या लाखू, जिणदत्त चरिउ, अप्रकाशित ग्रन्थ, आमेर भण्डार में हस्तलिखित प्रति सुरक्षित ।

४०. लक्ष्मीधर, पद्मभाषाचन्द्रिका, वृन्वई संस्कृत एण्ड प्राकृत सिरिज, १९१६ ।

४१. लखम देव, गेमिणाह चरिउ, अप्रकाशित कृति, पाटोदी शास्त्र भण्डार, जयपुर में हस्तलिखित प्रति सुरक्षित ।

४२. डॉ० एल० पी० तेस्सितोरी, पुरानी राजस्थानी, अनुवादक : नामवर सिंह

ना० प्र० तमा काशी, सं० २०१२ वि० ।

४३. वामन शिवराम बाप्टे, संस्कृत-हिंदी कोश, प्रकाशक : मोतीलाल वनारसी दास; संस्क० १९६६ ई० ।

४४. डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, विद्यापति कृत कीर्तिलता, साहित्य रुदन, चिरगाँव झाँसी प्रथम संस्क० १९६२ ई० ।

४५. विदुह-सिरिहर, वड्डमणचरिउ, संपादक : डॉ० राजाराम जैन, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, संस्क० १९७५ ।

४६. वीरकवि विरचित जंजू सामिचरिउ, संपादक : विमल प्रकाशन जैन, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन; संस्क० सन् १९६८ ।

४७. डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव, अपभ्रंश भाषा का अध्ययन, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली; संस्क० १९७६ ।

४८. श्रीधर, पासणाह चरिउ, अप्रकाशित ग्रन्थ, आमेर शास्त्र भण्डार में हस्तलिखित प्रति सुरक्षित ।

४९. श्रीधर, भविसयत्त चरिउ, अप्रकाशित ग्रन्थ, आमेर शास्त्र भण्डार में इसकी हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है ।

५०. श्रीधर, सुकुमाल चरिउ, (ग्रन्थ-रचना का समय वि० सं० १२०८), अप्रकाशित ग्रन्थ, आमेर शास्त्र भण्डार में हस्तलिखित प्रति सुरक्षित ।

५१. डॉ० सम्पत्ति आर्याणी, मंगही-भाषा और साहित्य, विहार-राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना; प्रथम संस्क० विक्रमाब्द २०३२ ।

५२. सर मोनियर विलियम्स, ए संस्कृत-

इंग्लिश डिविजनरी, यूनि० प्रेस आवस-
फोर्ड. संस्क० १८६८ ई० ।

५३. सिद्धसेनसूरि (गृहस्थावस्था का नाम
'साधारण'), विलासवईकहा, संपादक :
डॉ० रमणीक भाई शाह, एल०डी० इन्स्टी-
ट्यूट, अहमदावाद, संस्क० १९७७ ई० ।
५४. सीताराम लालस, राजस्थानी सत्रद
कोस, प्रकाशक चौपासनी शिक्षा समिति
जोधपुर, प्रथम संस्क० ।

५५. डॉ० सुकुमार सेन, तुलनात्मक
पालि - प्राकृत - व्याकरण, अनुवादक :
महावीर प्रसाद लखेड़ा, लोक भारती
प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्क० ।

५६. सुप्रभाचार्य, वैराग्यसार, प्रो० हरि-
पाद दामोदर वेलणकर ने एनल्स आफ
भंडार कर ओरियंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट,
जिल्द ६, (पृ० २७२-२८०) में इसे
संपादित किया है ।

५७. स्वयंभूदेव विरचित पञ्चमचरिउ,
भाग १ (i) मूल संपादक : डॉ० एच०
सी० भायाणी, अनुवादक डॉ० देवेन्द्र
कुमार जैन, संस्क० १९७५ ई०, भार-
तीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली ।

(२) संपादक : डॉ० हर्मन जेकोबी,
प्राकृत ग्रंथ परिपद्, अहमदावाद, वि०
सं० २०२५ । (३) पञ्चम चरिउ, प्रका-
शक. : जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर,
प्रथमावृत्ति । (४) स्वयंभूदेव, पञ्चमच-
रिउ, संपादक : डॉ० हरिवल्लभ चूनी,
लाल भायाणी, संस्क० वि० २००६,
सिधी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ, भारतीय
विद्याभवन, बंबई ।

५८. स्वयंभूदेव, रिट्ठणमिचरिउ, संपा-

दक : डॉ० देवेन्द्र कुमार जैन, भारतीय
ज्ञानपीठ, वि० सं० २०४२ ।

५९. हरगोविन्द दास विक्रमचंद शेठ,
पाइअ-सद्-महण्णवो, प्रकाशक : हरगो-
विन्द दास टी० शेठ । सी, योरोपियन
आसिलम लेन, कलकत्ता; सं० १९८५ ।
६०. संपादक : डॉ० ह० चू० भायाणी,
अगरचन्द नाहटा, प्राचीन गूर्जर काव्य
सञ्चय, प्रकाशक : लालभाई दलपतभाई
भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर अहमदा-
वाद-६ प्रथम संक०, जून, १९७५ ।

प्राचीन गुर्जर काव्य संचय में संक-
लित-१. केसीगोयम-संधि । २. जिन
प्रभसूरि (रचना-समय ई० १२७२) नम-
यासुंदरि-संधि । ३. जयशेखरसूरि
(लेखन-समय १४३७ ई०) सील-संधि ।
४. वज्रसेन, भरहेसर-बाहुवलि-घोर
(रचना-समय : ११६६ के लगभग) ।
५. आसिग, जीवदया-रास (रचना-समय
१२०१) । ६. आसिग, चंदनवाला-रास
(लेखन-समय १३८१ ई०) । ७. पाल्हण,
आवू-रास (रचना-समय १२३३ ई०) ।
८. देल्हन, गयसुकुमाल-रास (रचना-
समय ई० १२५०) । ९. जम्बस्वामि-
सत्क वस्तु (सन् १३८१) । १०. उपा-
ध्याय विनयप्रभ, गीतमस्वामी-रास,
(रचना-समय-१३५६) । ११. नेमिनाथ-
रास । १२. लम्मीतिलकगणि, शांति-
नाथ देव-रास. (रचना-समय : १३ वीं
शताब्दी) । १३. शांतिनाथ-रास, १४.
राजतिलक, सालिभद्र-रासु लेखन-समय
१३८१) । १५. अभयतिलकगणि-महा-
वीर रास (रचना-समय) थूलिभद्-रासु-

(लेखन-समय १३८१) । १७. नवकार-
रास । १८. वर्म-चञ्चरी । १९.
चञ्चरी । २०. द्विघम-सवरी-भास ।
२१. जिनचंद्रसूरि-फागु । २२. जिन
पद्मसूरि, सिरि-धूलिभद्र-भागु (रचना-
समय १३००-१३५०) । २३. विनयचंद्र-
सूरि, नेमिनाथ-चतुष्पदिका (रचना-
समय : १३वीं शताब्दी) । २४. पाल्हण,
नेमि-वारहमासा (रचना-समय १३वीं
शताब्दी) । २५. देपाल, कयवन्ना-विवाह-
लउ, (रचना-समय १५वीं शताब्दी) ।
२६. देपाल, नेमिनाथ-ववल (रचना-
समय १५वीं शताब्दी) । २७. देपाल,
आर्द्रकुमार-धवल (रचना-समय १५वीं
शताब्दी) । २८. अंबिकादेवी-पूर्वभव-
वर्णन-तलहारा । २९. नेमिनाथ-वोली ।
३०. धूलिभद्र-मुनि-वर्णना-वोली । ३१.
शांतिनाथ-वोलिका । ३२. वासुपूज्य-
वोलिका । ३३. सर्वजिन-कलश । ३४.
युगादि देव-कलश । ३५. वीरजिन-
कलश । ३६. जिनेश्वरसूरि, महावीर-
जन्माभिषेक (रचना-समय ११ वीं
शताब्दी) । ३७. आसिग, कृपण-गृहिणी-
संवाद, (रचना-समय १२०० के पश्-
चात्) । ३८. प्रकीर्ण-दोहा । ३९.
दंगडु । ४०. नवकार-फल-स्तवन ।

६१. हरिभद्रसूरि, सणतुकुमारचरिय,
संपादक : हरिवल्लभ चू० भाग्याणी एवं
मधुसूदन चि० मोदी, प्रकाशक : लाल-
भाई दलपत भाई भारतीय संस्कृति
विद्यामंदिर, अहमदाबाद, ६; संस्क०
जनवरी, १९६४ ।

६२. हरिदेव, मयणपराजयचरिउ, संपा-
दक : डॉ० हीरालाल जैन, भारतीय
ज्ञानपीठ काशी, संस्क० १९६२ ई० ।
६३. डॉ० हरिवंश कोच्छड़, अपभ्रंश-
साहित्य, प्रकाशक : भारतीय साहित्य
मन्दिर, फव्वारा-दिल्ली ।

६४. हेमचंद्र, अपभ्रंश व्याकरण, शालि-
ग्राम उणव्याय (अनुवादक), भारतीय
विद्या प्रकाशन वाराणसी, संस्क० १९६५
ई० ।

६५. डॉ० हेमचंद्र जोशी (अनुवादक)
आर० पिथल, प्राकृत भाषाओं का व्या-
करण, विहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना,
प्रथम संस्क० ।

66. Burrow and Emenean,
Dravir Etymological Dictionary,
Oxford at the clarendon Press,
Ed. 1961

67. Davids and william, Pali
Text Society London, Ed. 1952.

68. Ganesh Vasudev Tagare,
Historical Grammar of Apab-
hramsa, Deccan College, Poona
Ed. 1948.

69. (1) Hindi Words Common
to other Indian Languages,
(2) Hindi-Assamese; 1959;
(3) Hindi-Marathi, 1959, (4)
Hindi-Punjabi; 1960; (5) Hindi
Gujrati; 1958; (6) Hindi-Oriya;
1958; published by M/o Edu-
cation, Govt. of India.

अपभ्रंश-हिन्दी कोश

अ

अंक— अव्य० (दे०)— निकट, समीप;
(दे० ना० मा० १,५) । २-पुं० (सं०
अंक) संख्या (भ०); ३-रत्न-विशेष,
रत्न की एक जाति; (संघि० २,३,७) ।
४-भासन; (जंबू ८, १२, १२) ।
अंकय—वि० (सं० अकृत > प्रा० अंकय)—
नहीं किया हुआ; (पाहु० १७७) ।
अंकवाली— स्त्री० (सं० अङ्कपालि >
प्रा० अंकवाली)— आलिंगन; (उ० व्य०
प्र० ६-१७) ।
अंकार— पुं० (दे०)—सहायता; (दे०
ना० मा० १,६) ।
अंकिअ—न० (दे०)—आलिंगन (दे० ना०
मा० १. ११) ।
अंकित— वि० (सं० अङ्कित > प्रा०
अंकिअ)—चिह्नित (भ०; जस० १,५,६) ।
अंकियंग— पुं० (सं० अङ्कित + अङ्ग)—
विभूषित अंग; (जंबू० १०, १, १२) ।
अंकुड— पुं० (सं० अङ्कुश > प्रा०
अंकुश)—लोहे का एक हथियार, “अंकुडेण
पिहणइ कडडेप्पिणु”, (भ० २, १६, १) ।
अंरकु— पुं० (सं० अङ्कुर > प्रा०
अंकुर)—कौपल, अंखुवा, फुनगी; (भ०;
जस० ३, ३५, ३) ।
अंक्रिअ—वि० (सं० अङ्कुरित > प्रा०
अंकुरिय)— अंकुर-युक्त, जिसमें अंकुर
उत्पन्न हो वह; (जंबू० ४, १६, १३) ।
अंकुस—पुं० (सं० अङ्कुश)—१. अंकुश
के आकार वाली बाँस से बनी वस्तु,
“तिहिँ वंसहिँ एयहिँ अइपयंड, होसहिँ

षयअंकुसछत्तदंड”, इन तीनों बाँसों के
ध्वजा, अंकुश और छत्र के प्रचण्ड दण्ड
बनाने वाले हैं; (क० २, ८, २) ।
२. आंकडी; (हे० ३४५) ।

अंकुसइय—न० (दे०) अंकुश के आकार
वाली वस्तु; (दे० ना० मा० १, ३८) ।

अंकुसिय—वि० (सं० अङ्कुशित > प्रा०
अंकुसिअ)—अंकुश की तरह मुड़ा हुआ;
(जंबू० ४, १६, १५) ।

अंकोल्ल— पुं० (सं० अङ्कोठ > प्रा०
अंकोल्ल)—वृक्ष एवं पुष्प-विशेष; (जंबू०
५, ८, ८) ।

√अंकोस—(सं० आक्रोशति)—१. जोर से
चिल्लाना, २. भर्त्सना करना, ३. कोसना;
(उ० व्य० प्र० ४६-१३) ।

अंग—पुं० (सं० अङ्ग > प्रा० अंग)—
शरीर के अवयव; (भ०; की० ३, १५६) ।
—चाअ पुं० (सं० अङ्ग + त्याग)
कायोत्सर्ग; (जस० ४, ६, ६) ।

अंगि— पुं० अंग, “गोरइ अंगि देरंगा
कंव्यू”— गौरि रंग पर दोरंगा कंचुक
(ऐसा लगता) है; (रा० १७) । अंगेर—

पुं०, अंग “आंगहिँ मांडणु अंगेर
उजालु”,—(उसके) अंगों में मंडन
(उसके) अंगों का औज्ज्वल्य है, (रा०
२५) । अङ्ग—पुं० अंग (हे० ३३२, २) ।

अङ्गेचङ्गे— वि०, शरीर से तगड़े;
(की० ४, ७०) ।

अंगण—न० (सं० अङ्गणं, अङ्गणं > प्रा० अंगण) — आंगन, चौक; (भ०) ।
अंगरिण—स्त्री० वगड़ी, चौक; (सुअंध १, १२, १) ।

अंगय—वि० (सं० अङ्गज) — शरीर पर उपजा हुआ; (जस० १, २, १) ।

अंगरक्त्व—वि० (सं० अङ्ग + रक्त्व > प्रा० अंग + रक्त्व, रक्त्व) — शरीर की रक्षा करने वाला; (जंबू० ३, ४, ६) ।

अंगराक्ष—पुं० (सं० अङ्गराग > प्रा० अंगराग, अंगराय) — सुगन्धित लेप, शरीर पर सुगन्धित उवटन का लेप; (जस० २, १२, १) ।

अंगरुह—पुं० सं० (अङ्ग + रुह = अंग पर उत्पन्न) — रोम; (जस० ४, २०, ४) ।

अंगरुहु—पुं०, पुत्र (जंबू ३, ५, १०) ।

अंगवइ—सक० (सं० अङ्गी + कृ) — अंगीकृत करना, स्वीकार करना; (की० २, २२) ।

अंगार—पुं० (सं० अङ्गार > प्रा० अंगार) — जलता हुआ कोयला; (भ०) ।

—पुं० पुं० (सं० अङ्गार + पुञ्ज) अंगार का ढेर (जंबू ६, १५, १५) । —य, पुं० (सं० अङ्गार + क) अंगारा; (सुद० २, ११, १) ।

अंगालियं—न० (दे०) — ईख का टुकड़ा; (दे० ना० मा० १२, ८) ।

अंगिवं—स्त्री० (सं० अङ्गिका) — अङ्ग-देशीया स्त्री; (सुद० ४, ६, ४) ।

अंगुट्टु—पुं० (सं० अङ्गुष्ठ > प्रा० अंगु-ट्ठ) — अंगूठा; (ण० १, १७, ४) ।

अंगुल—न० (सं० अङ्गुल > प्रा० अंगुल) — नाप या मान-विशेष, (जस०

१, ६, ५) ।

अंगुलि—स्त्री० (सं० अङ्गुलि-ली, अङ्गुरि-री > प्रा० अंगुलि, अंगुली) — उंगली (भ०; जंबू० २, ५, १३) । अंगुलि; (पाहु० ११७) ।

अंगुलिणी—स्त्री० (दे०) — प्रियंगु, वृक्ष-विशेष; (दे० ना० मा० १, ३२) ।

अंगुलीय—पुं० नं० (सं० अङ्गुलीयक) — अंगुठी; (प० च० ५४, ६) ।

अंधिव—पुं० (अंधिप) — वृक्ष; (रा० ६, ७, १५) ।

√अंच—(सं० अञ्च्) — पूजना । अंचइ—सक० (सं० अर्चति) — पूजा करना, सत्कार

करना (भ०) । अंचमि—क्रि०, व० पूजना (क० १०, ३, १०) । अंचए; (भ०) । अंचएवि—पू० का० क्रि०,

अर्चना करके; (क० १०, १७, ३) । अंचिज्जइ—क्रि०, व० (ण० ४, ३, ११) ।

अंचल—पुं० (सं० अञ्चल) — कपड़े का शेष भाग; (भ०) ।

अंचिय—वि० (सं० अर्चित) — पूजित सम्मानित, (म० १, १, २; प्रा० गु० १०, ५) ।

अंछिय—वि० (दे०) — खींचा हुआ, आकृष्ट; (दे० ना० मा० १, १४) ।

अंजण—पुं० (सं० अञ्जन > प्रा० अंजण) — वृक्ष-विशेष; (जंबू० ३, ६, १७) ।

अंजणइसिन्ना—स्त्री० (दे०) — वृक्ष-विशेष, श्याम तमाल का वृक्ष; (दे० ना० मा० १, ३७) ।

अंजणईस—न० (दे०) — श्याम तमाल का पेड़; (दे० ना० मा० २, ३७) ।

अंजणपद्वय—पुं० (सं० अञ्जन +

पर्वत) — पर्वत-विशेष; (रि०, छठा सर्ग) ।
अंजणिआ — स्त्री० (दे०) — वृक्ष-विशेष,
श्याम तमाल का वृक्ष; (दे० ना० मा०
१, ३७) ।

अंजणु — पुं० (सं० अञ्जन > प्रा०
अंजण) — काजल, अंजन; (महा० २२-
३) ।

अंजलि — स्त्री० (सं० अञ्जलि > प्रा०
अंजलि, ली) — हाथ का संपुट; (भ०;
जस० २, ३४, ५) । अंजुलि — स्त्री० कर-
संपुट (सि० १, ४३) ।

अंजस — वि० (दे०) — सरल, ऋजु; (दे०-
ना० मा० १, १४) ।

अंज — (सं० अञ्जु > प्रा० अंज) — आँखों
में अंजन आँजना । — हि सक० आँजना;
“काइँ णयण अंजणहि अंजहि”, आँखों में
अंजन क्यों आँज रही हो; (सि० २, ४,
६) ।

अण्डय — पुं० (सं० अण्डज) — मछली,
मत्स्य; (दे० ना० मा० १, १६) ।

अंत — पुं० (सं० अन्त्र > प्रा० अंत
न०) — आंत (ण ४, १५, ५) । — ड (सं०
अन्त्र) आंत (जंजू ४, २, १७) । अंताइँ —
न०, आंत (रि० ७, ६) । अन्त (सं०
आन्त्र) आंत; (प० च० १३, ४, ७) ।
— आवलि — स्त्री० (सं० अन्त्र + आवलि)
अंतड़ियाँ (ण ८, १५, ८) । — याल; पुं०
(सं० अन्तकाल) अन्तिम समय; (सि०
२, ३३) ।

अत — अव्य० (सं० अन्तर > प्रा०
अंत) — आभ्यन्तर, मध्य में “पिय-चलण
अंतें धरि उत्तमंगु,” — प्रिय के चरणों में
अपना सिर रख दिया; (सि० २, ७, १) ।

-रंग — पुं० (सं० अन्त + रङ्ग) —
आत्मीय, स्वजन । वि० निकटस्थ, (जस०
१, २, ५) ।

अंत — पुं० (सं० अन्त > प्रा० अंत) —
आखीर; प्रा० पै० १, १७) । अंतए (प्रा०
पै० १, १६४), अंतिणा (प्रा० पै० २,
७४), अंतहि — आखीर में; (प्रा० पै० २,
१००) ।

अंतर — अव्य० (सं० अन्तर > प्रा०
अंत) — मध्य में (प्रा० पै० १, ६७) । अत-
रंग पुं० (सं० अन्तरङ्ग) आभ्यान्तर
उपादान; (जंजू० १०, ४, १) । सुद्धि —
स्त्री० (सं० अन्तरशुद्धि) — आन्तरिक
शुद्धि (जंजू १०, २०, १२) ।

अंतरवणु — (सं० अन्तवन) — अन्तरवन
नामक वन-विशेष, “अंतरवणु संपत्तु जंतु-
जंतु रमणीसरु” — चलते-चलते वे रमणी-
श्वर नागकुमार अन्तरवन में पहुँचे; (ण०
७, ३, १२) ।

अंतराम्र — न० (सं० अन्तरायिक > प्रा०
अंतराइय) — विघ्न, रूकावट; (जंजू० २,
१५, ८) ।

अंतराल — पुं० (सं० अन्तराल > प्रा०
अंतराल) अंतर, बीच का भाग; (जंजू०
५, ११, १०) ।

अतरि — अव्य० (सं० अन्तर) — में; “दल-
अंतरि दंसण-णायु चारु”, (सि० १, १७,
१६) । — अ, वि० (सं० अन्तरित > प्रा०
अंतरिय) — अंतरवाला; (जंजू० १०, १३
७) ।

अंतरिक्ष — पुं० (सं० अन्तरिक्ष) — पृथ्वी
और दूसरे ग्रहों या नक्षत्रों के बीच का
स्थान, आकाश; (भ०) । अंतरिक्षि;
(महा० ६८, ५) ।

अंतीहरी—स्त्री० (दे०)—दूती; (दे० ना०-
मा० १, ३५) ।

अंतेउर— न० (सं० अन्तःपुर > प्रा०
अंतेउर)—रानियों का निवास-गृह, रनि-
वास; (सि० २, ३४; ण० २, १, २)

अंतेल्ली—स्त्री० (दे०) कल्लोल, तरंग;
(दे० ना० मा० १, ५५) ।

अंतीहुत्त—वि० (दे०)—अधोमुख; (दे०-
ना० मा० १, २१) ।

अंदोयण— न० (सं० आन्दोलन)—
हिलना-डुलना, स्पंदन; (जस० १, १२,
५) ।

अंदोल— (सं० आन्दोल्य > प्रा०
अंदोल)—कंपाना, हिलाना । अन्दोलइ—
सक०-भूलना; (प० च० १४, ३, ७) ।

अंदोलय—पुं० (सं० आन्दोल+क >
प्रा० अंदोलय)— हिंडोला, तुल० म०
अंदोला; (भ०) । अन्दोलय (प० च०
१४, ४, ६) ।

अंध— पुं० (सं० आन्ध्र)— १. देश-
विशेष; (क० १०, ६, ७) । —देस
(सं० आन्ध्र देश) (ण० ६, १, ७) ।

२. (सं० अन्ध) अन्धा (प्रा० पै० १,
११५; जस० १, १६, २) । —ल० (सं०
अन्ध) (जंबू० २, ६, ८) । ३. आंध्र-
देशीय मनुष्य, (संधि० १०, २, ५)—
यविट्टि—पुं० अंधकवृष्णि नाम-विशेष;
(रि० प्रथम सर्ग) ।

अंधअ—पुं० (सं० अन्धक)—दैत्य का
नाम; (प्रा० पै० १, १०१) ।

अंधघु—पुं० (दे०)—कूप; (दे० ना०-
मा० १, १८) । टि०—अंध (तमस,
अंधकार) से अंधघु शब्द कुए का चोतक
इसलिए हो गया क्योंकि कुएं में अंधकार
होता है ।

अंधार, अंधारउ— पुं० न० (सं०
अन्धकार > प्रा० अंधयार)— अंधेरा;
अंधकार; तुल० म० अन्धार, गु० अन्धेर
(क० १०, ६, ७; प्रा० पै० १, १४७;
जस० २, २५, ४) ।

अंधारिय—वि० (सं० अन्धकारित >
प्रा० अंधारिय)—अंधकार वाला; (जंबू०
६, ५, ४; भ०) ।

अंधि— स्त्री० (सं० अक्षि)— नेत्र ।
अंधिहि; (रा० १६) ।

अंधिआ—स्त्री० (सं० अन्धिका)—द्युत-
विशेष; (दे० ना० मा० २, १) ।

अंधुघु—पुं० (दे०)—कूप, कुआ; (दे०-
ना० मा० १, १८) ।

अंधो—पुं० (सं० अन्धः)—वस्तु छंद का
भेद; (प्रा० पै० १, ११४) ।

अंब—न० (सं० आम्र)—आम्र-फल; (रि०,
सर्ग द्वितीय) । स्त्री० (सं० अम्वा > प्रा०
अंवा) स्त्री, माता; (जंबू० २, १७, २) ।

अंबइय— स्त्री० (सं० अम्बिका)—आम
की कलियां; (ण० ८, १, १२) ।

अंबड—वि० (दे०)—कठिन (दे० ना०
मा० १, १६) ।

अंबय—पुं० (सं० आम्र > प्रा० अंब)—
१, आम का पेड़, २. न० आम, आम्र-
फल; (ण० ७, १, ११) ।

अंबर— न० (सं० अम्बर > प्रा०
अंबर)— १. वस्त्र । अंबरा—न० वस्त्र
(की० २, ८६) । २. आकाश (प्रा०
पै० १, १८८) ।

अंवा— स्त्री० (सं० अम्वा > प्रा०
अंवा)— माता, माँ; (सि० १, १७) ।
—इय, स्त्री०, माता; (प्रा० गु० ५, ४७) ।
—देवय स्त्री० (सं० अम्वा देवी) अम्वा

नामक देवी; (जं० १, २, ६) । —विउ, वि० प्रचारित, “जिणि संवच्छर महि अंवाविउ अंवरि चंदिहिं नामु लिहाविउ”, तुल० गु० अंवाववुं; (प्रा० ग० ५, ५३) । अंबुल—स्त्री० माता; (सुदं० ८, ६, २) ।

अंबिल—न० १. (सं० आचाम्ल) प्रा० आयंबिल—तप-विशेष; (संधि० १६, २, २) । २. वि० (सं० आम्ल) खट्टी वस्तु, तुल० म० आम्विल; (भ०) ।

अंबुहर—पुं० (सं० अम्बुधर)—मेघ; (ण० ६, १४, ८) ।

अंबेसि, अंबेसि—पुं० (दे०)—घर के दरवाजे का लकड़ी का तख्ता; “अंबेसी तथा अंबेसी गृहद्वारफलहकः”, (दे० ना०-मा० १, ८) ।

अंबोडय—पुं० (दे०)—सं० केशकलाप, वालों का ढेर; तुल० गु० अंबोडो; (संधि० २, ११, ३) ।

अंभ—पुं० (सं० अम्भस् > प्रा० अंभ)—जल; (जस० ३, १६, ३) ।

अंस—पुं० (सं० अंश > प्रा० अंस)—भाग, खंड, अवयव; (जस० ३, २६, ८) ।

—य, पुं० (सं० अंश+क) अंश “जाई असय सत्तई देसिउ”—जाति, अंश, सत्व, देश, (सुदं० ४, ५४) ।

अंसु—पुं० (सं० अंशु > प्रा० अंसु)—किरण, प्रकाश किरण; (ण० २, ५, ४) ।

अंसु—न० (सं० अश्रु > प्रा० अंसु)—आंसु, अश्रु-जल; तुल० गु० आंसु (भ०; प० च० १४, ८, ६; हे० ४१४।३) । अंसु—अश्रु (प्रा० पै० १, ६६) ।

—वाय, पुं० (सं० अश्रुपातः) आंसु गिराना; (भ०) । —वाह, पुं० (सं० अश्रु-प्रवाह > प्रा० अंसु+पच्वाह) आंसु वहाना; (जस० २, २५, ६) । “अंसुवाह णिवडंति धरयले”, धरातल पर आंसु बहा रहे थे; (ण० ६, १८, १८) ।

अंसु—न० (सं० अंशुक > प्रा० अंसुय)—वस्त्र, कपड़ा; (प० च० १४/८/६) । —य, व—न०—वस्त्र (भ०) ।

अंहि—पुं० (सं० अंहि > प्रा० अंहि)—पाद, पांव, (प० च० ३६, १४, ६) ।

अ—संयो० (सं० च > प्रा० अ)—और (सं० रा०; प्रा० पै० १, ७; की० २, १००) ।

अइ—अव्य० (सं० अति > प्रा० अइ)—यह अव्यय नाम और धातु के पूर्व में लगता है और निम्नलिखित अर्थ में से किसी एक को सूचित करता है—

१. अतिशय, अतिरेक, २. उत्कर्ष, महत्त्व, ३. प्रशंसा, ४. अतिक्रमण, ५. ऊँचा;

(सं० रा०; भ०; जस, १, ५, ५; ण० १, १, ७; क० १, ३, १०; की० २, २१३) ।

अई—अहो (सम्बोधन के अर्थ में) (क० १, ३, १०) ।

अइअ—वि० (सं० अतीत)—गत, वीता हुआ; (म० २, ३७, ११) ।

अइअइ—वि० (सं० अति विकट)—बहुत भयंकर; (जस० २, ६, १२) ।

अइआर—पुं० (सं० अतिचार)—१. मर्यादा का उल्लंघन, २. अतिक्रमण; (भ०) ।

अइउच्चिय—वि० (सं० अति+उच्च+क > प्रा० अइ+उच्चय)—अति उच्च,

वहुत ऊँचा या लम्बा; (क० ७, ७, ११) ।

अइउज्जु—वि० (सं० अति + ऋजु > प्रा० अइ + उज्जु) — अत्यन्त निष्कपट, सीधा या सरल; (क० १०, १३, ४) ।

अइकडुय—वि० (अतिकटुक > प्रा० अइ-कडुय) — बहुत कडुआ; (ण० ६, २०, ८) ।

अइक्कम—सक० सं० अति + क्रम् > प्रा० अइक्कम) उल्लंघन करना । अइक्क-मंत—व० कृ० (सं० अति + क्रम् + शृ (जंबु ८, ८, ८) ।

अइकमिय—वि० (सं० अतिक्रान्त) — १. आगे बढ़ा हुआ, २. बीता हुआ, गया हुआ; (प० च० ६, ६, ५) । अइक्कमिय वि०—अतिक्रान्त (जस०) ।

अइक्कम्म—पुं० (सं० अतिक्रम > प्रा० अइक्कम्म)—उल्लंघन; (व० ५, २, ८) ।

अइक्किह—वि० (सं० अति + कृष्ण) विलकुल काली; (जंबु० ४, १३, १४) ।

अइकुडिली—वि० (सं० अति + कुटिल + क > प्रा० अइ + कुडिल + अ) — बहुत कुटिल, अत्यंत टेढ़ी; “अइकुडिली भउहा-वलि” — अतिकुटिल भौंहों की आवलि, (क० १, १६, १२) ।

अइकुर—वि० (सं० अतिकूर) — अत्यन्त निर्दयी; (जस० १, ८, ६) ।

अइगयं—वि० (दे०) — १. जिसने प्रवेश किया हो वह; (दे० ना० मा० १, ५७) । २. न०—मार्ग का पिछला भाग (दे० ना० मा० १, ५७) ।

अइचल—वि० (सं० अति + चञ्चल) — अति अस्थिर या चंचल; (प्रा० पं० २,

१०३) ।

अइजुज्झइ—अक० (सं० अति + युव्यति > प्रा० अइ + जुज्झइ) — बहुत लड़ाई करना, जूझना; “संगामरंगि तुम्हें हिं सहुँ अइजुज्झइ”, (क० ३, ११, १०) ।

अइझीण—वि० (सं० अति + झीण) — प्रा० अइ + भीण) — अत्यंत दुर्बल; (क० २, ७, ६) ।

अइठठ—वि० (सं० अट्ट) — जो देखा न गया हो; (म०; जंबू १, ५, १८) ।

अइडरिअ—वि० (सं० अति + दीर्ण > प्रा० अइ + दरिअ) — बहुत डरा हुआ; (क० ७, ११, २) ।

अइण—न० (दे०) — गिरि-तट, तराई, पहाड़ का नीचे का भाग (दे० १, १०) ।

अ-सिम्मल—वि० (सं० अति + निर्मल > प्रा० अइ + सिम्मल) — अत्यन्त विद्युद्ध; (क० ४, ७, ५) ।

अइणिय—वि० (दे०) — अनीत, लाया हुआ; (दे० १, २४) ।

अइणियड—वि० (सं० अति + निकट > प्रा० अइ + णियड) — अति निकट का; (क० ४, ४, २) ।

अइणिरुत्तु—वि० (सं० अति + निश्चित) — पूर्ण रूप से, अत्यन्त निश्चित, (क० ५, १४, ५; दे० ना० मा० ४, ३०) ।

अइतुरिय—वि० (सं० अतित्वरित > प्रा० अइ + तुरिय) — अतिशीघ्रगामी; (ण० ५, ५, १२) । अइतुरिय; (क० ५, १०, २) ।

अइतोस—पुं० (सं० अति + तोप > प्रा० अइ + तोप) — अति संतोप, अति

प्रसन्नता; (क० ५, १३, ६) ।

अइत्थि— पु० (सं० अगस्ति > प्रा० अगत्थिय, अगत्थि;—अगस्त्य नामक एक तारा; (सं० रा०) ।

अइदिहि—स्त्री० (सं० अति + धृति > प्रा० अइ + दिहि)—अति धीरज; (क०, ४, ७, २) ।

अइदीह— वि० (सं० अतिदीर्घ > प्रा० अइ + दीह)— बहुत लम्बा; (जस० ४, १०, ११) ।

अइदुम्मण—वि० (सं० अति + दुर्मनस् > प्रा० अइ + दुम्मण)— अति उदास, अति उद्विग्न-चित्त; (क० ५, २, ६; जस०) ।

अइपउर— वि० (सं० अति + प्रचुर > प्रा० अइ + पउर)—बहुत अधिक, “अइ-पउर पवड्ढिउ णेहु तामु”; (क० २, ६, १) ।

अइपयंड— वि० (सं० अति + प्रचण्ड प्रा० अइ + पयंड)—बहुत प्रखर; (क० २, ८, २) ।

अइपसत्थु— वि० (सं० अतिप्रशस्त > प्रा० अइ + पसत्थु)— अति प्रशंसनीय; (ण० ३, ४, ७) ।

अइपिय—वि० (सं० अति + प्रिय > प्रा० अइ + पिय)—बहुत प्रिय; (क० ४, १२, ६) ।

अइभत्ती—स्त्री० (सं० अति + भक्ति > प्रा० अइ + भत्ति)— अति भक्ति, अति आदर; (क० ५, ७, ४) ।

अइभल्ल— वि० (सं० अतिभद्र > प्रा० अइ + भल्ल)—बहुत भला; (ण० ५, १२, ७) ।

अइभिडंति—क्रि० (सं० अति + भटति >

प्रा० अइ + भिड)— बहुत लड़ना; (क० ८, १८, ६) ।

अइभिण्ण—वि० (सं० अति + भिन्न > प्रा० अइ + भिण्ण)—अत्यंत भिन्न, (क० ६, १०, ५) ।

अइमणहर—वि० (सं० अति + मनोहर > प्रा० अइ + मणोहर, मणहर)— बहुत सुन्दर; (क० ३, ३, ३) ।

अइमत्तउ—वि० (सं० अतिमत्त > प्रा० अइमत्त)—बहुत मतवाला; (जंबू ३-१२) ।

अइमत्तहं— वि० अत्यंत मतवाले (हे० ४३८, २) ।

अइमहुर— वि० (सं० अति + मधुर > प्रा० अइ + महुर)—अति मीठा, “अइमहु-वयणेण”—अति मधुर वचन द्वारा, (क० ५, ११, =) ।

अइमुत्तउ—वि० (सं० अति + मुक्तकः)— अतिमुक्तक का फूल, “वियसियकुसुम जाउ अइमुत्तउ”; (जंबू० ३, १२, १२) ।

अइमुत्तय— पु० (सं० अतिमुक्तक)— अतिमुक्तक नाम की श्मशान की भूमि; (व० ६, २१, १६) ।

अइयार— पु० (सं० अतिचार > प्रा० अइयार)— उल्लंघन, अतिक्रमण; (ण० ६, २०, ६) ।

अइर—अव्य० (सं० अचिर)— जल्दी, शीघ्र; (व० १, २, ११) ।

अइसाइ—वि० (सं० अतिशायिन् > प्रा० अइसाइ)— दूसरे को मात करने वाला; (जंबू० १०, १, ६) ।

अइरजुषइ— स्त्री० (दे०)— दुलहिन; (दे० ना० मा० १, ४८) ।

अइरत्तए— वि० (सं० अतिरत्त > प्रा०

अइरत्त—अतिअनुरक्त;)हे० ४३८/२) ।

अइरमण—वि० (सं० अति+रमणीय > प्रा० अइ+रमणीअ)— अति मनोरम, अतिरम्य, “अइरमणभूमि देखंतरगण”—रमणीक भूमि देखते हुए; (क० ५, ५, ४) ।

अइरवण्ण—वि० (सं० अतिरम्य > प्रा० अइ+रम्म, रवण्ण, रवन्न)—बहुत सुन्दर; (ण० १, ७, ८) ।

अइरहसे— क्रि० वि० शीघ्रता में (rashly, in haste) (महा०) ।

अइरावत्त—पुं० (सं० ऐरावत्त > प्रा० अइरावय)—इन्द्र का हाथी; (क० ३, १६, ४) । अइरावय— पुं०, इन्द्र का हाथी; (भ०) ।

अइराहा— स्त्री० (सं० अचिराभा)—विजली, चपला; (दे० ना० मा० १, ३४ टि०) ।

अइरिप—पुं० (दे०)—वातचीत, कहानी; (दे० ना० मा० १, २६) ।

अइरि— पुं० (सं० आचार्य > प्रा० आचारिअ, आयरिय)—पाशुपत आचार्य; (दो० को०) । टि०—यहाँ अर्थ-संकोच द्रष्टव्य है ।

अइरुद्ध— वि० अतिरुद्ध > प्रा० रोद्ध, रुद्ध)—विपुल, विशाल; तुल० म० रुद्ध = विस्तृत; (ण० १, १, ७) ।

अइवहल—वि० (सं० अति+वहल > प्रा० अइवहल)— अत्यधिक, तेज, “ता मिलिय णहंगणे अइवहल चउदिसिहिं भमेवियु णिम्मलिय”—वह दीप्ति इतनी निर्मल और तेज थी कि चारों दिशाओं में धूमकर आकाश में जा मिली; (क० ४, ८, ८) ।

अवइविउल—वि० (सं० अति+विपुल > प्रा० अइ + विउल)— अति विशाल, (जस०) ।

अइविरिय— वि० (सं० अतिवीर्य)— १. महा-पराक्रमी, २. पुं० इक्ष्वाकु वंश का एक राजा; (प० च० ५, ५) । ३. नन्दावर्त का एक राजा; (प० च० ३७, ३) ।

अइविहाइ— क्रि० (सं० अति+विभाति प्रा० अइ+शौ० प्रा० विहादि, विहा= शोभना, चमकना)— दिखायी देना, “दूराउ वहंती अइविहाइ”— दूर से बहती हुई ऐसी दिखाई दी; (क० ३, १२, ६) ।

अइसंसअ— पुं० (सं० अति+संशय > प्रा० अइ+संसय)—अति संदेह; (क० ५, १८, ५) ।

अइस—वि० (सं० ईदृश)— ऐसा, इस तरह का; (की० २, ५२) । अइसी (रा० ५), अइसउ (रा० ३२) ।—नओ, ऐसा भी (की० २, १५०) । अइसो (रा० २७; हे० ४, ४०३) ।

अइसअ—वि० (सं० अतिशयिन् > प्रा० अइसइ)—अतिशय वाला, विशिष्ट, “तहो रांदणु अइसयगुणमहंतु”—उस राजा का पुत्र अतिशय गुणशाली, (क० ६, १, ६) । पुं० (सं० अतिशय > प्रा० अइसय) १. श्रेष्ठता, २. प्रमुखता (भ०) ।

अइसच्छयइ— वि० (सं० अतिशय+छायावत् > प्रा० अइसय+छायाइत्तय)— अतिशय छायायुक्त; (सं० रा०) ।

अइसणिद्ध—वि० (सं० अति+स्निग्ध > प्रा० अइ+सिणिद्ध, सणिद्ध)—अति स्नेह-

युक्त; (क० १०, १३, १०) ।

अइसमइणा—वि० (सं० अतिशय+मन-
स्विन्)—अतिशय बुद्धि वाले; (महा ६६,
१६, ६) ।

अइसय—क्रि० (सं० अति+शी)—मात
करना, (प० च० ६०, १५) ।

अइसयवन्त—वि० (सं० अतिशयवत्)—
अतिशयो से युक्त, अतिशयवाला; (ण०
६, १३, ६) । अइसयवन्त—अतिशयवत्
(म०; जस०) ।

अइसुंदर—वि० (सं० अति+सुन्दर >
प्रा० अइ + सुंदर)—बहुत सुंदर;
(जस०) ।

अइसुहुम—वि० (सं० अति+सूक्ष्म > प्रा०
अइ+सुहुम)—अत्यन्त छोटा, बारीक;
(क० १०, १०, ७) ।

अइसेओ—वि० (सं० अतिश्रेयस्)—
अपेक्षाकृत अधिक अच्छा; (की० २,
२१३) ।

अइहव—पुं० (दि०)—वाद्य-विशेष;
(भ०) ।

अइहार—स्त्री० (सं० अति+हार)—
अत्यंत हार या पराजय "अइहारियं
मयणराएण"—मदनराज की अत्यंत हार
हो गई; (प० २, ७५, १०) ।

अइहारा—स्त्री० (दि०)—विद्युत्, चपला;
(दि० ना० मा० १, ३४) ।

अउखध—न० (सं० औषध > प्रा०
ओसह)—दवाई, भेषज; तुल० गु०
ओखद; (प्रा० गु० ४०, ४) ।

अउज्झ—पुं० (सं० अयोध्या)—नगर-
विशेष; (प० च० २१, १, २) । —(अउ-
ज्झ) अयोध्या नगर; (प० च० २१,

४, ३) ।

अउण्ण—वि० (सं० अपुण्य > प्रा० अ+
पुण्य, पुण्ण)—पुण्य रहित; (प० च० २८,
२११) ।

अउर—वि० (सं० अपर)—अन्य, दूसरा;
अउरु; (रा० २८) ।

अउव्व—वि० (सं० अपूर्व > प्रा० अपुव्व,
अउव्व)—अनौखा, असाधारण, अद्वितीय;
(ण० १, १५, १० जस०; भ०; सं०
रा०) ।

अऊर—वि० (सं० अपूर्ण > प्रा० अपु-
ण्ण)—जो पूरा या भरा न हो, अधूरा;
(भ०) ।

अओका—वि०, इसका; (की० २,
१६३) ।

अकंटअ—वि० (सं० अ+कण्टक)—
निष्कण्टक, निर्विघ्न; (प्रा० पै० २, २११) ।

अकंड—वि० (सं० अकाण्ड)—आकस्मिक;
"ति सो अकंडमच्चुं गले, वद्ध चामी-
यरसंखलए,—उसने उस शीघ्र अकाण्ड
मृत्यु से मरने वाले कुत्ते को गले में सोने
की सांकल बांध कर रखा (जस० २,
३२, ५) ।

अकंडतलिम—वि० (दि०)—१. स्नेह-
रहित, २. जिसने शादी न की हो वह;
(दि० ना० मा० १, ६०) ।

अक्ख—पुं० (सं० अक्ष > प्रा० अक्ख)—
अक्षजीव, द्वीन्द्रियभेद; (व० १०, ८, १) ।

अक्खर—पुं० न० (सं० अक्षर > प्रा०
अक्खर) अक्षर, वर्ण; (प्रा० पै० १,
१२) ।

अकज्ज—वि० (सं० अकृत्य > प्रा०
अकज्ज)—अकार्य, करने को अयोग्य;

(भ०; जस० १, ८, ९) ।

अकत्तिए— पु० (सं० अ+कार्तिकः)—
कार्तिक न होने पर; (जं० ४, ८, १२) ।

अकम्म— न० (सं० अ+कर्मन्)—कर्म का
अभाव; (जं० ९, १५, ४) ।

अकयत्थ— वि० (सं० अ+कृतार्थः)—
जो आपना कार्य हो जाने के कारण
प्रसन्न और संतुष्ट न हो; (सं० रा०) ।

अकयवंगु— वि० (सं० अविक्कताङ्गः)—
जिसके अंग विक्कत न हो; (जं० ७, १,
१३) ।

अकिट्ठिय— वि० (सं० अकृत्रिम)—स्वा-
भाविक; (जस० ४, २८, ३०) ।

अकित्ति— स्त्री० (सं० अकीर्ति)—अप-
यथा; (सि० १, ४) ।

अकित्तिम— वि० (सं० अकृत्रिम)—जो
कृत्रिम या वनावटी न हो, स्वाभाविक;
(व० ४, १३, ६) ।

अकुलीण— वि० (सं० अकुलीन)—
जो कुलीन न हो, अप्रतिष्ठित, जो उत्तम
कुल में उत्पन्न न हो; (रि०, सातवाँ सर्ग) ।

अकुसल— वि० (सं० अकुशल)—अनिपुण;
(जं० ११, ६, ३) ।

अकूवार— पु० (सं० अकृत+वारि)—
समुद्र; (व० ८, १०, ४) ।

अकोह— पु० (सं० अकोष)—क्रोध न
करना; (व० ८, १०, १०) ।

अक्कंद— पु० (सं० आक्रम > प्रा०
अक्कम)—आक्रमण, चढ़ाई; (सण०) ।

अक्क^१— स्त्री० (सं० अक्का=माता)—
भगिनी, अम्बा, तुल० म० अक्का
(वहन), (क० ८, ५, ५; दे० ना० मा०
१, ६) ।

अक्क^२— पु० (सं० अर्क > प्रा० अक्क)—

सूर्य; “चंद्रअक्कसुक्कभाहरणएहि”—
(ण० १, १६, ५) ।

अक्कमइ— सक० (सं० आक्रमति, आ+
क्रम प्रा० अक्कम)— आक्रमण करना
(रि० सातवाँ सर्ग) ।

(अ)क्करिस— पु० (सं० उत्कपं > प्रा०
उक्कस्स)—उत्कृष्टता; (सं० रा०) ।

अक्कसाला— स्त्री० (दे०)—१. बला-
त्कार, जबरदस्ती करना, २. उन्मत्त सी
स्त्री०; (दे० ना० मा० १, ५८) ।

अक्कट्ठ— वि० (दे०)—अधिष्ठित,
स्थापित; (दे० ना० मा० १, ११) ।

अक्कोड— पु० (दे०)—बकरा; (दे०
ना० मा० १, १२) ।

अक्ख^१— (सं० आ+ख्या > प्रा० अक्खा,
अक्ख)— कहना, बोलना; (ण० ३, ८,
७) । अक्खंडहं— क्रि०, बोलना (रा०
१५) ।—इ-सक० (सं० आख्याति)

(भ०; प० च० १, १४, ७) । अक्खा—
सक० (जस० २, २५, १०) । अक्खिउ-

भू० का० (प० च० १४, १२, १) ।
अक्खियउ— भू० का० (सि० २, २१) ।

—मि० (क० ५, १९, ८) । —हि,
(परम० २, १; क० ४, १२, ५) ।

—वखेवि—पू० का० क्रि० (क० ३, २०,
६) । —णह, क्रि० वर्णन करना (हे०
३५०, १) । —हु, क्रि० वताइये (सि०
१, ४७, १५) । तुल० गु० आक्खुं, पं०
आख ।

अक्ख^२— पु० (सं० अक्ष > प्रा० अक्ख)—
१. अक्ष, रावण का पुत्र, २. अक्ष-बहेड़ा

वृक्ष; (जं० ५, ८, ३४) ।

अक्खच्चुअ— पु० (सं० अक्षचूत)—जुआ,
चौसर का खेल; (ण० ३, १३, ९) ।

अखणवेल— न० (दि०)— १. मथुन, संभोग, २. संध्याकाल; (दि० ना० मा० १, ५६) ।

अखयदान—पुं० (सं० अक्षयदान > प्रा० अखय + दाण) —अभयदान, “अखयदाणु अखयहं रइज्जइ”, पीड़ितों को अभयदान दिया गया, (म० २, ७८, १३) ।

अखय^१— वि० (सं० अक्षय > प्रा० अखय) — क्षय रहित, अविनाशी (प० च० २/१७/८) —णिहि—स्त्री० (सं० अक्षय निधि)—क्षय रहित निधि; (जंबू० ३, १४, १६) । —तइय, स्त्री० (सं० अक्षय + तृतीया > प्रा० अखय + तइया) वैशाख शुक्ल तृतीया (जंबू ४, १४, २१) ।

अखय^२— पुं० (सं० अक्षत > प्रा० अखय) —विना टूटे चावल, अखण्ड चावल “क वि अखयधूव भरेविं थालु” —कोई अक्षत व धूप से थाल भरकर, (क० ६, २, ६; भ०) ।

अखर— पुं० न० (सं० अक्षर > प्रा० अखर) — अक्षर (भ०) ।

अखर— १. अक्षर (ओ०म); “सुरसुक्खर अखर णाइयउ”, देवों को सुखकारी अक्षर (ओ०म) का ध्यान किया । (प० ६, २, ८) । २. अक्षर, वर्ष; तुल० राज० आखर (क० १, ७, ७; की०, १, १६; भ०; सं० रा०; जस० १, २४, ३) । —डंवर— (सं० अक्षराडंवर) शब्दों का आडम्बर; (रि०, प्रथम सर्ग) ।

अखरवास—पुं० (सं० अक्षरवास) — अक्षरविस्तार; (प० च० १, २, २) ।

अखल्लिउ—वि० (सं० अखल्लित) —जो गिरा न हो; अपततितु > (विला०) ।

अखल्लिय—वि० (दि०) —जिसका प्रति-

शब्द हुआ हो वह प्रतिध्वनित; (दि० ना० मा० १, २७) ।

अखवाय—पुं० (सं० अक्षपाद) —न्याय-दर्शन के प्रणेता गौतम; (ण० ६, ७, ३) ।

अखसुत्त— पुं० (सं० अक्षसूत्र) —रुद्राक्ष माला के दाने; (प० च० ६/१/३) ।

अख्खाडय—पुं० (सं० अक्षवाटक > प्रा० अख्खाडग, अख्खाडय) — व्यायाम-स्थल, अखाड़ा । तुल० गु० अखाडो । (प० च० ४/११/२) ।

अख्खाण— न० (सं० आख्यान > प्रा० अख्खाण) —कथानक; (भ०) । — य, न० (सं० आख्यानक > प्रा० अख्खाणय) — कहानी, वार्ता (भ०; प० च० १, १४, ७) ।

अखि— स्त्री० (सं० अक्षि > प्रा० अखि) —नेत्र, आँख; तुल० मगही आँखि; (सं० रा०) ।

अखिअ—वि० (सं० आख्यात > प्रा० अखिअ) —प्रतिपादित, कथित; (क० १, ८, ७) । अखिय (म० १, १७, १०) ।

अखुडिअ—वि० (सं० अखण्डित > प्रा० अखुडिअ) —संपूर्ण अखण्ड, त्रुटि-रहित; गु० अखूट; (संधि० ११, ६, ११) ।

अखुहिय—वि० (सं० अक्षुभित > प्रा० अखुहिय) — क्षोभ-रहित (जंबू ४, २१, १५) ।

अखोह—वि० (सं० अक्षोभ्य) — क्षोभ-रहित, स्थिर; “अखोह रणभर” — अक्षोभ्य युद्ध (रि०, प्रथम सर्ग) ।

अखोहिणी—स्त्री० (सं० अक्षोहिणी > प्रा० अखोहिणी) —एक बड़ी सेना जिसमें २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० घोड़े और १०६३५० पैदल होते हैं,

(प०च०२, ५, ६) । अखौहणी (प० च० १२, ८, १) ।

अखौहणिया— वि० (सं० अक्षोभ-णिका)— जो क्षुब्ध न हो; (ण० ६, ६, १२) ।

अखंडिअ— वि० (सं० अखण्डित)— जो टूटा हुआ न हो; (जस० ४, २७, २८) ।

अखअ— वि० (सं० अक्षय > प्रा० अकलय)—जिसका कभी क्षय-नाश न हो; (म० १, ३१, ६) । अखइ, वि० अक्षय (पाहु० १६६) ।

अखत्त—न० (सं० अक्षात्र > प्रा० अखत्त क्षत्रिय विधि को अतिक्रमण करने का कार्य, क्षत्रिय घर्म के विरुद्ध; (प० च० १५/३/३) ।

अखन्ति—स्त्री० (सं० अक्षान्ति)—अस-हिष्णुता, स्पर्धा, ईर्ष्या; (प० च० ६/३/२) ।

अखलिय—वि० (सं० अखलित > प्रा० अखलिय, अखलिअ)—१. अवाधित, २. अपतित; (संघि० ६, ६, १) ।

अखिल— वि० (सं० प्रा० अखिल)—सकल, सर्व; (जंजू० १०, १, १०) ।

अखुहिय— वि० (सं० अक्षुभित)—क्षोभ-रहित, (जंजू ४, २१, १६) ।

अखौहु— वि० (सं० अक्षोभ)—क्षोभ-रहित; (सि० १, ७) ।

अखउरि—वि०, अखौरी, जिसमें कोई खोर या दोष न हो; (की० ३, ११६) ।

अखउरि— स्त्री० एक नामांत पदवी; (की० ३, ११६) ।

अख्याणिहाण— न० (सं० अक्षय + निघान)—अक्षय घन या खजाना; (जंजू०

३, ८, ६) ।

अगडिगेह— वि० (दे०)—यौवनोन्मत्त; (दे० ना० मा०, १, ४०) ।

अगज्जर—न० (सं० अ+गजि)—गर्जना न होना, गर्जन रहित; “अगज्जरं निरं-तरं न विज्जुपुंजयं”, (जंजू० २, ३, ३) ।

अगड—पुं० (सं० अवट, प्रा० अगड)—कूप; तुल० गु० कूचो; (संघि० १२, ३, १६) ।

अगणिय—वि० (सं० अगणित > प्रा० अगणय)—न गिना हुआ; जंजू० ५, ७, २६) ।

अगण्येय—वि० (सं० अगणित)—अनगि-नत; (की० १, ८५) ।

अगतिय— पुं० (सं० अगस्ति > प्रा० अगत्थि)— १. इस नाम का एक ऋषि, २. वृक्ष-विशेष; (दे० ना० मा० ६, १३३) ।

अगम—वि० (सं० अगम्य)—जहाँ कोई न पहुँच सके; (प्रा० पै० १, १८६) ।

अगय—पुं० (दे०)— दानव (दे० ना०-मा० १, ६) ।

अगरु—पुं० (सं० प्रा० अगरु)—अगरु-चंदन; (व० ४, २२, १२) ।

अगलिय— वि० (सं० अगलित, गल् = गिर पड़ना)—पृथक् न किया हुआ, न गिराया हुआ; (जंजू० ६, ३, १०) ।

अगव्व—वि० (सं० अगर्व > प्रा० अग-व्व)—गर्व या अभिमान से रहित, निर-भिमान; (जस० ४, २४, १६) ।

अगहार—पुं० (सं० अग्रहार)—राजा की ओर से ब्राह्मण को योगक्षेम के लिए किया हुआ भूमि का दान; (जस०

२; २६, १५) ।

अगहिय—वि० (सं० अ+गृहीत > प्रा० अ+गहिअ)—१. अप्राप्त, २. जो न लिया हो, जो पकड़ा हुआ न हो; (ण० ३, १४, ४) ।

अगाम्ना—वि० (सं० अगम्य > प्रा० अगम्य)—जाने को अयोग्य; (प० च० २, ३, १२) ।

अगाव—वि० (सं० अगवं > प्रा० अगव्व)—निरभिमान; (जस० ४, २०, १७) ।

अगाह—वि० (सं० अगाघ)—गहरा, गंभीर; (जंबू १०, १७, ८) ।

अगिवाण—पुं० (सं० अग्निवाण > प्रा० अग्निवाण)—अग्निवाण; (सि० २, १३) ।

अगुण—वि० (सं० अ+गुण > प्रा० अउण)—गुण रहित, निगुण; (जंबू ४, १, १) ।

अगुरु—पुं० न० (सं० प्रा० अगुरु)—सुगंधित द्रव्य (प्रा० पै० २, १७७) ।

अग्ग—न० (सं० अग्र—प्रा० अग्ग)—१. आगे का भाग, ऊपर का भाग, पूर्व भाग; भ० ण० १, ७, ५; जस० १, ६, ७) । वि० अगला (प्रा० पै० १, १३३) ।

—अ, अव्य० (सं० अग्रतः)—आगे (जंबू १०, १६, १२) । —इ, अव्य० आगे (क० १, १४, ४) । —इं, अव्य० (सि० १, ६; २, १४) । —ए, पुं०, आगे का भाग (प० च० २, ६, ६) । —रा, वि० अगले (प्रा० पै० २, १६, ६) ।

अग्गखंध—पुं० (दे०)—रण-भूमि का आगे का भाग (दे० ना० मा० १, २७) ।

अग्गल—अव्य० (सं० अग्र > प्रा० अग्ग)—१. आगे, "महु अग्गलउ ण कोइ"—मेरे

आगे कुछ भी नहीं है, (म० १, ७, ५) ।

२. अगला, अधिक (प्रा० पै० १, ५१) ।

अग्गलि—अव्य० (सं० अग्रे)—समीप में; तुल० गु० आगळ; (संधि० १२, ४, २) ।

अग्गलु—वि० (दे०)—प्रा० अग्गल)—अधिक; (हे० ३४१, २) ।

अ गवेअ—पुं० (दे०)—नदी की वाढ़, नदी की तेज धारा; (दे० ना० मा० १, २६) ।

अग्गहरण—न० (सं० अग्रहण > प्रा० अग्रहण)—अनादर, अवज्ञा; (दे० ना० मा० १, १७) ।

अग्रहार—पुं० (सं० अग्रहार)—अग्रहार नामक ग्राम; (जंबू २, ४, ८) ।

अग्नि—पुं० स्त्री० (सं० अग्नि > प्रा० अग्नि)—आग, वह्नि; तुल० गु० आग; (संधि० १३, ८, १; भ०; की० ३, १५) जस० ३, ३, ६) । अग्निं (हे० ३४३, १) । —ट्ठउ—वि० (सं० अग्निठ > प्रा० अग्निठ्ठ) आग में स्थित; (हे० ४२६, १) । —मित्त पुं० (सं० अग्निमित्त)—नाम-विशेष; (भ०) । अग्गी—स्त्री०—अग्नि (प्रा० पै० १, ५५) ।

अग्गिअ—पुं० (दे०)—१. एक प्रकार

क्षुद्र कीट, २. वि०, मन्द; (दे० ना० मा० ५१, ३) ।

अग्गिजाला—स्त्री० (सं० अग्निज्वाला > प्रा० अग्नि + जाला)—अग्नि की शिखा; (जस० ३, ३, ६) ।

अग्गिम—वि० (सं० अग्रिम)—१. प्रथम (क्रम श्रेणि आदि में); प्रमुख, मुख्य, २. वड़ा, ज्येष्ठ (प० च० १३/१२/

४) । ३. अगला, आगे का (की० ३, २) ।—ग्र (प० च० ३४, १३, ३) ।

तुल० गु० अगमागुं ।

अग्नि(ले^१) प० (सं० अग्नि(ले))—पहले ।

अग्निवन्तु—वि० (सं० अग्नि+मनुष्य)—

अग्नि-युक्त; (जं० २, १, ६) ।

अग्नीहर—पुं० (सं० अग्नि गृह > प्रा०

अग्निहर)—अग्निगृह; (सं० रा०) ।

अग्ने— क्रि० वि० (सं० अग्र > प्रा०

अग्न)—आगे, “जो भुवमंडल-मंडल अग्ने”

—भूमण्डल के मण्डल में जो सबसे आगे है, (सि० १, ४, १) ।

अग्नेय— वि० (नं० आग्नेय > प्रा०

अग्नेय)—१. बाग से संबंध रखने वाला,

प्रचंड, २. अग्नि को अर्पित; (प० च०

७/७/६) ।

अग्नेसर— वि० (सं० अग्नेसर > प्रा०

अग्नेसर)—अगुआ; (जं० १०, ५, १०) ।

अग्घंजलि—स्त्री० (सं० अर्घाञ्जलि)—

अर्घाञ्जलि, “सुरसमरत्नएहिं अग्घिद्वियउ,

अग्घंजलि करिवि समुद्वियउ”—जो असुर

देवों के साथ सँकड़ों संग्राम करके भी

मरा नहीं था वह नागकुमार के सम्मुख

अर्घाञ्जलि करके उठ खड़ा हुआ; (प०

५, १२, १३) ।

अ.घ—वि० (सं० अर्घ्य > प्रा० अर्घ)—

पूजा में दिया जाने वाला जलादि द्रव्य;

(प्रा० पै० २, २०१) ।

अग्घइ— सक० मिलना, “संपइ कद्धउं

वेस जिवे ह्यु अग्घइ ववसाउ”,—“यदि

व्यवसाय मिले तो संपत्ति को, वेद्या के

समान निकाल लूँगा, (हे० ३८५, १) ।

अग्घत्त— न० (सं० अर्घ्यपात्र > प्रा०

अग्घत्त)—पूजा का पात्र; (प० ६, १, ६; जस० ४, १७, १८) ।

अग्घाइय— वि० १. (सं० आघ्रात >

प्रा० अग्घाइय)— सूँघा हुआ (भ०) ।

२. (दे०)—विराजित—देदीप्यमान, प्रद-

शित; “पगुणगुणहि अग्घाइउ”, (भ० १५,

१२, ३)

अग्घाण— वि० (दे०)—तृप्त, संतुष्ट ।

तुल० राज० अघःराी, म० अघाणा । (दे०-

ना० मा० १, १८) ।

अघडिअ— वि० (सं० अघटित)—जो

घटित न हुआ हो; (जं० ८, ६, ६) ।

अग्घय—पुं० (सं० अग्घद)—पुरुष-विशेष;

(प० च० ४०, १६, ६) ।

अङ्गार— पुं० (सं० अङ्गार > प्रा०

अंगार)—अंगार, दहकता हुआ कोयला

या काष्ठखंड; (प० च० १३/७/१०) ।

अङ्गुलिउ—स्त्री० (सं० अङ्गुलि > प्रा०

अंगुलि)—अंगुली; (हे० ३३१, १) ।

अचप्पिअ— वि० (सं० आक्रम का

घात्वादेश चप्प = आक्रमण करना)—अना-

क्रान्त; (जं० ५, ३, २) ।

अचयंतु— व० कृ० (सं० अ+त्यज्+

शतृ)—त्याग करके; (जं० ० ६, ६, ४) ।

अचल—न० (दे०)—१. घर, २. घर का

पिछला भाग, ३. वि०, कहा हुआ, ४.

निष्ठुर, ५. नीरस; (दे० ना० मा० १,

५३) ।

अचलु—वि० (सं० प्रा० अचल)— १.

अटल, स्थिर, निश्चल; (प० च० १२/

८/४)—जस० २, २१, १) । २. पहाड़ी

राजा; (प्रा० पै० १, ८७) ।

अचलक्षण—पुं० (सं० अचलत्व)—निश्चलता, स्थिरता, (जस० ३, ३८, ६) ।

अचित्त— वि० (सं० अचित्त्य > प्रा० अचित्त)—जो सोचा भी न जा सके, समझ से परे; (भ०) । अचिन्त— वि०—जो सोचा न जा सके; (प० च० १६, १, ५) ।

अचित्तिय—वि० (सं० अचिन्तित > प्रा० अचित्तिय)— सहसा, आकस्मिक; (सं० रा०) ।

अचेयण— वि० (सं० अचेतन > प्रा० अचेयण)—चैतन्य-रहित, निर्जीव; (जस० २, १६, ७) ।

अच्चंत— वि० (सं० अत्यंत > प्रा० अच्चंत)— अत्यधिक, अत्यन्त (ण० ४, ५, ८; विला०; जस०; प० च० १२, ६, ३) । अच्चन्तन्त—वि०—अत्यन्त-रक्त (प० च० २६, १८, ८) ।

√अच्च—(सं० अच् > प्रा० अच्च)—पूजना, सत्कार करना; (जस० २, ७, १३) । —मि, सक०, पूजा करता हूँ; (ण० ७, ६, १) ।

अच्चगल—वि० (सं० अति+अग्रल)—वहुत आगे; (जं० ८, १०, १६) ।

अच्चण— न० (सं० अचंन > प्रा० अच्चण—पूजा, सम्मान; जस० १, १६, १२; (भ०; ण० १, ६, ५) । अच्चणिय—अचंना (क० ३२, ८, २) ।

अच्चवभुअ— वि० (सं० अत्यद्भुत > प्रा० अच्चवभुय)— बड़ा आश्चर्यजनक; तुल० गु० अचंभो, अचंभो; (प० च० २४, २, ६) । अच्चवभुय (प्रा० गु० १२, २, १३) ।

अच्चरिउ— न० (सं० आश्चर्य > प्रा० अच्चर, अच्चरिअ, अच्चरोअ)—आश्चर्य, विस्मय; (व० २, २, ६) । अच्चरिय; (भ०; सं० रा०) ।

अच्चहिय—वि० (सं० अत्याहित)—बड़ा भय, २. असत्य ३. अत्यधिक; (सं० रा०) ।

अच्चुअड— वि० (सं० अत्युद्भट)—अति प्रबल (भ०) ।

अच्चुयनाह—पुं० (सं० अच्युत+नाय > प्रा० अच्चुअ+णाह)— वारहवे देवलोक का इन्द्र; (भ०) ।

अच्चुयसग—पुं० (सं० अच्युत+स्वर्ग > प्रा० अच्चुअ+सग)— वारहवाँ देवलोक; (भ०) ।

अच्चुद—पुं० (सं० अच्युत)— वारहवाँ देवलोक, अच्युत स्वर्ग; (व० १०, २०, १३) ।

अचोअअ— वि० अमाजित, अशुचि, अमृष्ट; (जस० ३, ३६, १७) ।

अच्छ—क्रि० (सं० आस् > प्रा० अच्छ, अच्छइ)—बैठना; (ण० १, ८, १०) ।—इ, अक० बैठना; “जा अच्छइ सुहेण जामायउ, ता तहि एकु पुरिसु संपायउ”, दामाद वही सुखपूर्वक बैठा हुवा था कि एक आदमी वहाँ आया, (सि० २, ६, १३; (क० १, ६, १) । अच्छंतहि (जं० ३, १, ६) । अच्छिज्जइ—क्रि० व०—का० बैठना, ‘नीड निवसिएहि अच्छिज्जइ’; (जं० ६, १०, ४) ।

अच्छ—अक० (सं० अस्)— होना, है (सं० रा०)—इ (सि० १, ११, भ०; रा० ३६) ।—उ (रा० ६) । अच्छउ—

रहना "पर अच्छिउ पडिमहें रक्ख-
वालु"—पर में तो इस प्रतिमा का रक्ख-
पाल होकर रहा है। तुल० गु० छे।
(क० ४, १७, ५)। अच्छन्ते क०, रहते
हुए (च०)।

अच्छ—न० (दे०)—१. अत्यन्त, विशेष,
२. शीघ्र; (दे० ना० मा० १, ४९)।
वि० (सं० प्रा० अच्छ) स्वच्छ, निर्मल;
तुल० अवधी आछी (उत्तम), ब्रज आछे
(भले, उत्तम); (प्रा० पं० २, १३४)।

अच्छइ^(१)—क्रि० (सं० ऋच्छति =
१. कड़ा या सख्त होना, २. जाना, ३.
क्षमता का न रहना) तुल० पु० राज०
अछत्रउ, सामान्य वर्तमान, उत्तम पुरुष
एक व० छउँ, छूँ; मध्यम पु० एक व०
अछइ; अन्य पु० एक व० अछइ, छइ;
उत्तम पु० बहु० व० छूँ; मध्य पु० बहु०
व० अछउ; अन्य पु० बहु० व० अछइ,
छइ, छि।

अच्छति—अक०, ठहरना; (उ० व्य०
प्र० १५-२८)।

अच्छन्तउ—वि० (सं० अच्छन्द > प्रा०
अच्छन्द)—निश्चेष्ट, पराधीन, "जिह
धुआउ रस-लम्पडु अच्छन्तउ",—जिस
प्रकार रस लम्पट यह भ्रमर निश्चेष्ट है,
(प० च० ५, १४, ०)।

अच्छभल्ल—पु० (सं० ऋक्षभल्ल)—
भालुक (दे० ना० मा० १, ३७)।

अच्छर—स्त्री० (सं० अप्सरस > प्रा०
अच्छरसा, अच्छरा)—अप्सरा; (म० २,
७८, ७; भ०; जस० १, २५, १०; क०
६, ३, १०)। अच्छरा—स्त्री० अप्सरा
(जस० ४, ३, १)।—हु, अप्सरा (ण०
१, ९, ९)।

अच्छरिअ—न० (सं० आश्चर्य > प्रा०
अच्छरिअ)—विस्मय, चमत्कार; (ण०
६, ७, ४; सुदं० १२, ६, ७; प० च०
३, ९, १)। अच्छरिय—न० आश्चर्य
(भ०)।

अच्छरिय—स्त्री० (सं० अप्सरस,
अप्सरा > प्रा० अच्छरसा, अच्छरा)—
इन्द्र की सभा में नाचने वाली देवाङ्-
गना, जो गन्धर्वों की स्त्रियाँ कही जाती
हैं, (सि० २, ८, ८)।

अच्छायण—न० (सं० आच्छादन)—
ढकना; (दे० ना० मा० ७, ४५)।

अच्छि—स्त्री० (सं० अक्षि > प्रा०
अच्छि)—आँख; (सं० रा०; भ०; जस०
१, ५, ५)।—उड पु० (सं० अक्षि-
पुट)—आँख का परदा, आँख के कोए पर
भिल्ली; (जस० २, ५, ११)।

अच्छिअ—वि० आसीन, बैठा हुआ;
(जस० ४, १७, २)।

अच्छिअरुल्ल, अच्छिहरुल्ल—वि०
(दे०)—१. अप्रीतिकर, २. पु० वेप,
पोषाक; (दे० ना० मा० १, ४१)।

अच्छिन्न—वि० (सं० अच्छिन्न > प्रा०
अच्छिण्ण, अच्छिन्न)—नहीं तोड़ा हुआ;
(जं० ६, ९, ९)।

अच्छिवडण—न० (सं० अक्षि+पतन)—
आँखों का मूँदना; (दे० ना० मा० १/
३९)।

अच्छिविअच्छि—स्त्री० (दे०)—आपस
की खींचतान; (दे० ना० मा० १,
४१)।

अच्छैरअ—वि० (सं० आश्चर्यक)—
विस्मय-जनक; (जं० ६, १०, १३)।

अच्छेरय (भ०) ।

अच्छै—क्रि० (प्रा० अच्छै)—विद्यमान है; (की० ३, १२७) । अच्छिउ—स्त्री० स्थिति; (प० च० २६, ७, ७) ।

अच्छोउण— न० (सं० आच्छोउण)—मृगया, शिकार; (दे० ना० मा० १, ३७) ।

अच्छोडिउ—क्रि० भू० का० (सं० अवच्छोडितः)—छोड़ दिया, "जं अच्छोडिउ अहिमुहुँ पाडिउ"; (जंबू० ७, १०, १८) ।

अच्छोडिय—वि० (दे०)—१. फटा हुआ; (प० च० ४, ८, ६) । २. आस्फोटित; (जस० २, ७, ४) । ३. आकृष्ट; (जस० ३, १०, ८) ।

अछ—क्रि० (सं० आ+क्षि=रहना; क्षि निवासे)—> प्रा० अच्छ, अच्छइ (वैठना, रहना) है, "भेरहुँ जेट्ठ गरिट्ठ अछ मन्ति विअक्खना भाए"—बड़े और सम्मानित व्यक्ति मर्यादा में रहते हैं । मंत्री नीतिकुशल ही अच्छा लगता है; (की० २, ४२) ।

अछए—अक० (प्रा० अच्छ)—है, "तसु अछए मन्ति आनन्द ज्ञाण"—उसके पास आनन्देश्वर न.म का मंत्री है; तुल० प्राचीन गु० अच्छ; (की० ३, १२६) । अछण—पुं० (सं० आसन)—वैठने का स्थान (रा० २२) ।

अछम्म—वि० (सं० अछम्म)—कपट-रहित; (जस० १, १५, १२) ।

अछेय^१—वि० (सं० अच्छेय)—जो छेदा न जा सके; (प० च० १५/१०/६) ।

अछेय^२—पुं० (सं० अक्षय)—व्यक्ति-

विशेष का नाम; (ण० ६, १५, ८) ।

अजंगम—वि० (सं० अजङ्गम)—अचेतन; (जंबू० २, १, ७) ।

अजअ—पुं० (सं० प्रा० अजय)—पटपद-छंद का एक भेद; (प्रा० पै० १, १२१) ।

अजगर—पुं० (सं० प्रा० अजगर; प्रा० अयगर)—मोटा साँप, (भ०) । अजयर—पुं०, (प० च० ६/७/३; जस० ४, १६, ६) ।

अजर—वि० (सं० प्रा० अजर)—वृद्धावस्था-रहित; (जस० १, १७, ३) ।

अजराउर—वि० (दे०)—उष्ण, गरम; (दे० ना० मा० १, ४५) ।

अजरामर—सं० प्रा० अजरामर)—बुढ़ापा और मृत्यु से रहित; (जस० ३, १६, ६) । अजरामर; (पाहु ३३) ।

अजाति—स्त्री० नीच जाति; (की० २, १३) ।

अजिमचित्तु—वि० (सं० अजम्भचित्त)—सरल चित्त वाला; (णि० ३, ४, ६) ।

अजिण—न० (सं० अजिन > प्रा० अजिण । वाघ, सिंह या हाथी, हिरण आदि पशुओं विशेषकर काले हिरण की रोएँदार खाल, जिसके आसन बनते हैं अथवा जो पहनने के काम में आती है; (प० च० १८, ६, ७) ।

अजिअ—वि० (सं० अजिअ)—जिह्वा-रहित; जंबू० २, २०, ५) ।

अजिय—पुं० (सं० अजित)—द्वितीय तीर्थकर नाम; (जस० १, २, २) । वि० अपराजित; (व० ३, ५, ५) । पुं० अजितनाथ तीर्थकर; (व० १, १, ३) ।

अजीमाणि—वि० (सं० अजीर्णमाण)—

विना पचा हुआ; (संधि० ४, २, ६) ।

अजुअलवण—पुं० (सं० अयुगलपर्ण)—
सप्तच्छद, सप्तपर्ण वृक्ष; (दे० ना०
मा० १, ४८) ।

अजुत्त— वि० (सं० अयुक्त > प्रा०
अजुत्त)—अयोग्य, अनुचित; (जस० ३,
१८, ८) । अजुत्तु—वि० अयुक्त (व०
५, ३, ११) ।

अजेएँ— वि० (सं० अजय्य > प्रा०
अजेअ)—जो जीता न जा सके; (व० २,
२, ३) ।

अजोग— वि० (सं० अयोग्य > प्रा०
अजोग)—जो लायक न हो, अयोग्य; (ण०
६, २१, ६) ।

अज्ज—अव्य० (सं० अद्य > प्रा० अज्ज)—
आज; (की० ३, १४; सं० रा०) ।

अज्जु—आज (क १, १४, ५) । वि०—
अव्य० (सं० अद्य+अपि > प्रा० अज्ज+
अवि)—१. अभी; “जहिँ णिविट्ठ तहिँ
अज्जवि अच्छइ”; (भ०; सि० १, ४७,
३); २. आज भी; (क० ११, १८, ३) ।

—कल्लि, अव्य० आजकल; (प्रा० गु०
२७, ३, ५) । अज्जु— (१) अव्य०,
आज; तुल० म० आज, गु० आजे;
(भ०) । (२) वि०, आर्य (जस० ३,
१६, १३) । —णिज्ज—वि० अर्जनीय;
(जस० ४, ६, ४) ।

अज्ज— सक० (सं० √अर्ज्)—अर्जित
करना; (प्रा० पै० २, १०१) ।

अज्ज—वि० (सं० आर्य > प्रा० अज्ज)—
उत्तम, श्रेष्ठ; (व० १०, १६, ४) ।

अज्जन— पुं० (सं० अर्जन > प्रा०
अज्जण)— उपार्जन, कमाई (की० ४,

६२) । अज्जण—(की० १, ४८) ।

अज्जमहि— स्त्री० (सं० आर्यमही)—
आदरणीय महिला; (जस० ४, २०, १५) ।

अज्जय—पुं० (दे०)— १. सुरस-नामक
तृण, २. गुरेटक-नामक तृण; (दे० ना०-
मा० १, ५४) ।

अज्जव— न० (सं० आर्जव > प्रा०
अज्जव)—सरलता, निष्कपटता; (जस०
४, १५, ७; क० ६, १३, ४) । —खंड-
पुं० आर्जवखण्ड, देश-विशेष नाम;
(भ०) । —भाव, पुं० (सं० आर्जव-
भाव), सरलता का भाव (जंबू० ११,
१४, ४) ।

अज्जा— स्त्री० (सं० आर्या > प्रा०
अज्जा)—गौरी, पार्वती; (भ०; दे० ना०
मा० १, ५) ।

अज्जिअ— वि० (सं० अर्जित > प्रा०
अज्जिअ)—उपार्जित, पैदा किया हुआ;

(जस० ४, २८, ६; भ०; क० २, ५,
१०) । अज्जिय (जंबू० ३, ६, १८) ।

अज्जिवि—पू०का० क्रि० (सं० अर्जयित्व)
उपार्जित कर; (क० २, १०, ६) । अज्जे-

व्वअ—कृ० अर्जितव्य (जस० ४, १५,
६) । टि०—सं० तव्य > अप० इए वउं,

(शब्द के अंत में अ या उसका दीर्घ
रूप), एवा ।

अज्जिउ—अव्य० (सं० अद्यखलु)—आज
ही; (प्रा० गु० १६, ४७) ।

अज्जिय—स्त्री० (सं० आर्यिका > प्रा०
अज्जिअ)—साध्वी, संन्यासिनी; “खुल्लय-

अज्जिय-उत्तमसावहि, बहु-समारु तिहु-

विणउ करावहि”—क्षुल्लकों, आर्यिकाओं
और श्रेष्ठ सावकों को सम्मान दें,
उनकी तीन प्रकार से विनय करायें,

(भ०; सि० २, ३३, २) अञ्जिआ—
स्त्री० आर्यिका (जं० १०, २१, ५) ।

अञ्जिया—स्त्री० आजी (जं० ३, १३,
१४; जस० ३, १३, २) । अञ्जियार्ई—
स्त्री० जैन साध्वी; (सि० २, ३२) ।

अञ्जुन— पुं० (सं० अर्जुन > प्रा०
अञ्जुण)—१. तीसरा पांडव; (की० ४,
२३६) । अञ्जुण (की० ३, १४४) ।

२. अर्जुन वृक्ष (जं० ५, ८, ३१) ।
अञ्जेराश्र— अव्य० (सं० अद्यतन)—
माधुनिक, आज का; (जं० ५, २,
१०) ।

अञ्जेरण—न० (सं० अ+जेमन > प्रा०
अजिमण)—अनशन; (म० २, ६६, ६) ।

अञ्जो— पुं० बुद्ध, बौद्ध या जैन
भिक्षुक; (दे० ना० मा० १, ५) । टि०
—‘अञ्जो’ का मूल अर्थ स्वामी है ।
यहाँ अर्थ-संकोच द्रष्टव्य है ।

अञ्ज—पुं० (दे०)— यह (पुरुष); (दे०
ना० मा० १, ५०) ।

अञ्जत्य— वि० (दे०)—आगत, आया
हुआ; (दे० ना० मा० १, १०) ।

अञ्जसिय— वि० (दे०)— देखा हुआ;
(दे० ना० मा० १, ३०) ।

अञ्जस्स, अञ्जस्सिय— वि०(दे०) जिस
पर अक्रोश किया गया हो वह; (दे०-
ना० मा० १, १३) ।

अञ्जा— स्त्री० (दे०)— १. असती,
कुलटा, २. प्रशस्त स्त्री, ३. दुलहित,
४. युवती स्त्री, ५. यह (स्त्री); (दे०-
ना० मा० १, ५०) ।

अञ्भासा— स्त्री० (सं० अवि+आशा)
—अभिलाषा; (ण० ५, १०, ३) ।

अञ्भेली—स्त्री० (दे०)—दोहने के उप-
रान्त भी जिसका पुनःपुनः दोहन हो सके
ऐसी गाय; (दे० ना० मा० १, ७) ।

अञ्झोल्लिआ—स्त्री० (दे०)— वक्षःस्थल
के आभूषण में की जाने वाली मोतियों
की रचना; (दे० ना० मा० १, ३३) ।

अञ्चल— पुं० (सं० अञ्चल > प्रा०
अंचल)—साड़ी या चादर का सिरा या
किनारा, पल्ला; (की० ४, २१६) ।

अञ्चिय— वि० (सं० अचित > प्रा०
अच्चिअ)—अर्चना किया गया; (क० २६,
५, १) ।

अटल्ले— वि०—१. अट्टाल के समान
विशाल, २. अटल, स्थिर; (की० ४,
४४) ।

अट्ट— वि० (दे०)—१. कृश, दुर्बल;
२. महान् ३. निर्लज्ज, ४. सुस्त, ५. पुं०
शुक, ६. शब्द, आवाज; ७. न० सुख,
८. असत्योक्ति; (दे० ना० मा० १,
५०) । ९. आर्त, (जस० ३, २१, ६) ।

—भाण पुं० (सं० आर्त्ति-ध्यान)—ध्यान-
विशेष—इष्ट-संयोग > अनिष्ट-वियोग,
रोग-निवृत्ति और भविष्य के लिए
चिन्ता न करना, (व० १०, १३, ५) ।

अट्टहास—पुं० (सं० अट्टहास)—ठहाका,
खिलाखिला कर हँसना; विकट हास;
(जस० १, १६, ६; भ०) ।

अट्टरउद्ध— वि०(सं० आर्त+रौद्र > प्रा०
अट्ट+रोद्, रउद्)—पीड़ित और भयंकर;
(क० ६, २३, २) ।

अट्ठंग— पुं० (सं० अष्ट+अङ्ग)—
१. आठ प्रकृति रूप अंग, “णिककलु कि
अट्ठंगइ धारइ”—निष्कल अष्ट प्रकृति

ल्प अंगों को कैसे धारण करता है, (सं० ६, ६, ८) । २. आठ शरीर के अंग; (जस० ३, ७, १३) ।

अट्ठ—वि० (सं० अट्ठन् > प्रा० अट्ठ) —आठ; तुल० म० आठ; (म०, सं० रा०, की०, ४, १२३) ।—इं (सि० २, ३४) ।

—गुणी, वि० सं० अष्टगुणी, अष्ट—महाप्रातिहार्ययुक्तइत्यर्थः (जस० १, १५, १०) ।—त्तर—वि० (सं० अष्टोत्तर > प्रा० अट्ठत्तर) आठ से अधिक; (क०, १०, २३, २०) । द्व—वि० (सं० अष्टाद्यं) आठ का आधा; (व० १०, ६, १३) ।

—पयास—वि० (सं० अष्ट+प्रकार) आठ प्रकार की; (सि० १, ३५, ६) ।

—म, वि० आठवाँ; (ण० ८, ६, ८) ।

—मि > स्त्री० (सं० अष्टमी > प्रा० अट्ठमी) अष्टमी की तिथि, तिथि-विशेष, (सि० २, ३१, ३; जस० ३, ३०, १५) ।—याल, वि० (सं० अष्टचत्वारिंशत्) अठतालीस; (म०) ।—वरिस—वि० अष्टवर्षीय; (जं० ३, ४, ६) ।

—विह, वि० (सं० अष्टविव) आठ प्रकार का; (म०; जस० ४, १६, ६) ।—सट्ठि, वि० (सं० अष्ट+पठि) अडसठ; (ण० ६, ७, ६) । —सठि, वि० अडसठ; (सि० १, १८, ४) । —सय, वि० (सं० अष्टशत > प्रा० अट्ठसय) एक सौ आठ; (ण० ६, २४, ७) ।—सहस, वि० (सं० अष्ट+सहस्र > प्रा० अट्ठ+सहस्र) एक हजार और आठ; (सि० २, १६) । अट्ठाइस—वि० (सं० अष्टविंशति > प्रा० अट्ठाइस, अट्ठाईस) अठाईस; (की० २, २४४) । अट्ठाई—

न०, आठ, संख्या-विशेष; (प्रा० पं० १, १००) । अट्ठारह—वि० (सं० अष्टा-दशन् > प्रा० अट्ठारह, अट्ठाराह, अट्ठार) अठारह; (ण० ३, १, १) ।

अट्ठासी—वि० (सं० अष्टाशीति > अष्ट-मागवी अट्ठासीइ)—अठासी (प्रा० पं०) ।

अट्ठिवाड—पुं० (सं० अस्थिवात)—अस्थिवात नामक रोग 'तस्य मोड्डि फोड्डि अट्ठिवाड'—अस्थिवात उसके शरीर को मोड़ने व फोड़ने लगा; (जं० ३, ११, ४) ।

अट्ठोत्तर-सड—वि० (सं० अष्टोत्तर शत > प्रा० अट्ठोत्तरसय)—एक सौ आठ; (सि० २, ३१, १२) । —अट्ठोत्तरसहस्र वि० (सं० अष्टोत्तरसहस्र)—एक सहस्र आठ; जस० ३, २५, २) ।

अट्ठि—स्त्री० (सं० अस्थि > प्रा० अट्ठि)—हड्डी; तुल० म० अठली; (जस० १, १६, १३; म०; ण० ८, १५, ११) ।—य-स्त्री० (सं० अस्थि+क) हड्डी; (ण० ३, १४, ७) ।

अट्ठियपत्त—पुं० (सं० अस्थिपात्र > प्रा० अट्ठियपत्त)—हड्डी का पात्र; (ण० ६, ६, ११) ।

अट्ठियभूषण—पुं० (सं० अस्थि-भूषण > प्रा० अट्ठिय+भूषण)—हड्डी का बना हुआ आभूषण; (ण० ६, ७, ८) ।

अठतालिस—वि० (सं० अष्टचत्वारिंशत् > प्रा० अट्ठतालीस)—अठतालिस, तुल० रा० अडतालीस; (प्रा० पं० १, ११७) ।

अड—पुं० (सं० अवट)—कूप; (जस० ४, २७, २०) ।—य, पुं०, कूप (मुद्रं

६, १६, ११) ।

अड^३—वि० (सं० अण्टन् > प्रा० अट्टु)—
आठ; (प्रा० गु० ४०, १३) ।

अडइ—स्त्री० (सं० अटवी > प्रा० अडइ
> अडई)—भयानक जंगल; (ण० ७, १,
१०) । अडवि—स्त्री० (सं० अटवी)

वन (क० ७, ३, ३) । —रुण्ण-पुं०
(सं० अटवी + रोदन > प्रा० अडइ + रोअण)
अरण्य-रोदन (ण० ४, ३, १३) ।

अडखम्म—क्रि० (दे०)—सँभालना, रक्षण
करना; (दे० ना० मा० १, ४१) ।

अडखी—स्त्री० (दे० > प्रा० अडयणा)—
कुलटा, व्याभिचारिणी स्त्री; (दे० ना०
मा० १, १६) ।

अडदह—वि० (सं० अण्टदश > प्रा०
अट्टदह)—अट्टारह; (सि० १, १३, ११) ।

अडयण—स्त्री० (दे०)—कुलटा, व्यभि-
चारिणी स्त्री; (सुदं० ८, ३१, ६) ।

अडयणा—स्त्री०, कुलय (प० च० ३७,
७, २) ।

अडह—भ्रक० (सं० अट्ट > प्रा० अड)—
भ्रमण करना, फिरना, “एणिट्टु मुएवि
मिवखाइँ अडह”, निर्दिष्ट आहार का
त्याग करते हुए भिक्षाचार के लिए
फिरो, (जस० ४, ६, १०) ।

अडिल्ला—स्त्री० (सं० प्रा० अडिल्ला)—
छन्द-विशेष; (प्रा० पै० १, ११७) ।

अडुडु—पुं० (दे०)—चौराहा (cross-
ways); तुल० गु० आडुं (across);
(प० च० ५१, १३, २) ।

अडडवि—स्त्री० (सं० अटवि, वी > प्रा०
अडवि, वी) भयंकर जंगल, गहरा वन;
(व० ३, २१, ४) ।

अडडवियडड—वि० (सं० अदं + वितदं)—
आड-टेडे; “अडुविडुहडुसंधडियर”, आड-
टेडे हाडों से यह संघटित है; (जंबू० ११,
६, २) ।

अडडा—स्त्री० (दे०) वाधा । (रा०
१५) ।

अडुडय—वि० (सं० अघोन्नतृतीय)—
डाई, अडाई; (भ०) । तुल० असमी
आडै; (भ०) ।

अडुडिय—वि० (सं० आड्य > प्रा०
अडुड)—पूर्णा, युक्त; (प० च० ३७, १) ।

अडुडवंत—वि० (सं० ऋद्धिमत्)—
विकासयुक्त; समृद्धियुक्त; (ण० ६, १२,
५) ।

अडार—वि० (सं० अण्टादश > प्रा०
अट्टारसम, अट्टारसम)—अट्टारहवां, तुल०
गु० अट्टार; (संधि० १२, ३, ६) ।

अणंग—पुं० (सं० अनङ्ग > प्रा० अणंग)—
कामदेव; (जस० १, १८, ४; भ०; रा०
१७) । अणंगु—पुं० कामदेव (सि० १,
३१) । अनङ्ग (की० २, १३५) ।—
दाह, पुं०—अनंग की दाह “जय पास
अपास अणंगदाह”, अर्थात् अनङ्ग की दाह
से अस्पृष्ट पाश्वनाथ की जय हो; (व०
१, १, १४) ।

अणंत—१. वि० (सं० अनन्त > प्रा०
अणंत)—अनंत, निःसीम; (जस० १, २,
७; भ०) । २. पुं० अनन्त, चतुर्दश-
तीर्थंकर नाम; (जस० १, २, ७) ।
अणंतु; (सं० रा०, परमा०) ।

अणंताणंत—वि० (सं० अनन्त + अनन्त)—
वहुत अधिक अनन्त (अतिशयेन अनन्त-
मित्यर्थ) (जस० ४, ११, १२) ।

अण्ते—पुं० (सं० अनन्त)—श्री कृष्ण द्वारा (रि०, सातवाँ सर्ग) ।

अण^१—क्रि० वि० (सं० अन् > प्रा० अण)—अन, निषेधार्थक, (सं० रा०; व० १०, १, १२) ।

अण^२—पुं० (सं० अनत्)—शकट, गाड़ी; (जस० ३, २१, २) ।

अणअ—पुं० (सं० अनय)—अन्याय, दुर्नीति; (जस० ४, २५, १७) ।

अणइच्छन्त—वि० (सं० अनिच्छत्)—न चाहता हुआ; (भ०) ।

अणउच्छिअ—वि० (सं० अपृष्ट)—अन-पृष्टा; (जस० १, ६, ८) ।

अणउ—पुं० (सं० अ+नय)—अनीति, अन्याय; (जंबू० ५, १३, ८) ।

अणकिय—वि० (सं० अकृत > प्रा० अकय)—बिना किए; (सं० रा०) ।

अणकख—वि० (सं० अनक्ष)—दृष्टिहीन, अंधा; (भ०) ।

अणकखर—वि० (सं० अनक्षर)—अशि-क्षित, मूर्ख, निरन्तर; (जस० ३, २६, ४; सं० रा०) ।

अणखाइय—वि० (दे०)—अप्रसन्न, रुष्ट; तुल० गु० अणख; (प्रा० गु० ५, ६) ।

अणखालउ—वि० (सं० अस्खलित)—अवाधक, असम्भव; "तुहं अघडंतु घडहि अणखालउआ", प रोष में आकर अस-

म्भव को सम्भव बनाना चाहते हैं; (म० १, १५, ५) ।

अणखुट्ट—वि० (दे०)—अत्रुटित (भ०) ।

अणगारधम्मु—पुं० अनगार धर्म (वह धर्म जिसमें काम के राग रंग छोड़ दिए

जाते हैं)—(ण० ४, ४, ५) ।

अणघमणि—स्त्री० (सं० अनर्घ्य+ मणि)—बहुमूल्य मणि; (व० ३, २३, १२) ।

अणच्छ—वि० (सं० अनल्प; जो थोड़ा न हो; (संघि० २, ३, ६) ।

अणज्ज—वि० (सं० अनार्य > प्रा० अणज्ज)—आर्य-भिन्न, दृष्ट पापी; (भ०) ।

अणणइ—(सं० अन्नादि)—अन्न आदि; (व० ८, ५, ११) ।

अणणु—वि० (सं० अन्य)—दूसरा; (व० १, १६, १२) ।

अणत्थ—पुं० (सं० अनर्थ > प्रा० अण-ट्ठ)—१. नुकसान, हानि; (भ०; ण० ३, २, १२; जस० ४, ६, ५) ।

अणथमिअ—पुं० (सं० अन्+अस्त-मित)—सूर्यास्त से पूर्व का व्रत; (सुदं० १०, ७, २) ।

अणत्थमिए—क्रि० वि० (सं० अन्+अस्तमित)—सूर्यास्त से पूर्व; (ण० ४, २, ६) ।

अणप्प—पुं० (दे०)—खड्ग; (दे० ना० दुराचरण; मा० १, १२) ।

अणययार—पुं० (सं० अ+नय+चार)—अनीत्याचार; (जंबू ५, १२, २४) ।

अणयार—पुं० (सं० अनाचार > प्रा० अणयार)—शास्त्र-निषिद्ध आचरण; (म० २, ५४, २) ।

अणरइ—स्त्री० (सं० अन्+रति)—१. अरति, वैवैनी; (सं० रा०) । २. रति-

रहित; (व० २, २०, ६) ।

अणरसिय—वि० (सं० अन्+रसिक)—अरसिक; (सं० रा०) ।

अणरामय—पुं० (दे०)—अरति, वेचनी;
(भ०) ।

अणराह— पुं० (दे०)—सिर में पहनी
जाती रंग-वेरंगी पट्टी; (दे० ना० मा०
१, २४) ।

अणरिवक—वि० (दे०)—अवकाशरहित;
(दे० ना० मा० १, २०) ।

अणरुइ—वि० (सं० अनिरूपित)—बिना
विचारे, बिना सोचे; (सं० रा०) ।

अणल— पुं० (सं० अणल > प्रा०
अणल)—अग्नि, आग; (सं० रा०; भ०;
जस० १, २८, १; ण०, १, १४, १) ।
२. अग्निकुमार देव; (व० १०. २६,
७) ।

अणलिय— न० (सं० अ-+अलीक् >
प्रा० अण+अलिय)—सत्य वचन; (जस०
३, ३०, ६; ण० ४, २, ५) ।

अणवज्ज— वि० (सं० अणवद्य > प्रा०
अणवज्ज)—निर्दोष; (म० १, २०, ४) ।

अणवत्थ—वि० (सं० अणवस्थ)—अव्य-
वस्थित, अनियमित; (दे० ना० मा० १,
१३६) ।

अणवरअ—वि० (सं० अणवरत > प्रा०
अणवरय)— सतत, निरन्तर; (क० ३,
१०, ७) । अणवरत, (की० ४, १५),
अणवरय; (जस० २, ३०, ७) ।

अणवरयदाण—पुं० (सं० अणवरत +
दान > प्रा० अणवरय)— लगातार किया
जाने वाला दान; (व० ५, १८, ८) ।

अणवस—वि० [अण + (नकारात्मक)
+ वश] अपरवशीकृत undefeate;
(प० च० १२।६।६) ।

अणविहेय—वि० (सं० अविधेय)—जिसे

वस में न किया जा सके, विपरीत;
(भ०) ।

अणसण— न०(सं० अणसन > प्रा०
अणसण)— आहार का त्याग; उपवास;
(जस० ४, २५, २३; क० ५, १०, ५;
भ०) ।

अणसार—वि० (सं० असार)—सारहीन,
—उ (रा० ३६) ।

अणह—वि०(सं० अणघ > प्रा० अणह)—
निर्दोष, निष्पाप; (सुदं० २, ५, ८) ।

अणहा—अव्य० (सं० अन्यथा)—नहीं तो,
प्रकारान्तर; (प्रा० पै० १, १०५) ।

अणहारय—पुं० (दे०)—खल्ल—१. वह
खरल जिसमें डालकर कोई वस्तु कूटी
जाए, चक्की, २. चमड़ा, ३. चमड़े की
मसक; "अणहारओ खल्लम् निम्नमध्य-
मित्थर्थः"; (दे० ना० मा० १, ३८) ।

अणाइ— वि० (सं० अनादि > प्रा०
अणाइ)— आदि-रहित, आदि काल से
चलता हुआ, नित्य; (ण० ६, ११, १०;
जस० १, २१, १४; भ०; सं० रा०) ।
—वन्त, वि० (सं० अनादिमत् > प्रा०
अणाइमंत, वंत) अरादि काल ने प्रवृत्त;
(भ०) ।

अणाउल—वि० (सं० अनाकुल > प्रा०
अणाउल)—अव्याकुल, धीर; (प० च०
२०।१०।६) ।

अणागय— पुं० (सं० अनागत > प्रा०
अणागय)—भविष्यकाल; (विला०) ।

अणागारिउ—पुं० (दे०)—धूमने फिरने
वाला, संन्यासी; (व० ७, ६; ६) ।

अणाड— पुं० (दे०)—जार, उपपत्ति;
(दे० ना० मा० १, १८) ।

अणादयण—वि० (सं० अनायतन)—जो स्थान वेदी न हो; “देवसत्यगुरुमूढविव-ज्जिय । कुसुरकुगुरुसेवासंगमपर, तह य कुसत्यकुसुयपाढयणर मिच्छालिगिय तह सेवयजण, जेहिं ण सेविय छह अणादयण (ण० ६, १२, ८) ।

अणाय—वि० (सं० अज्ञात)—अपरिचित; (प० च० २।१३।२) ।

अणायपार—वि० (सं० अज्ञात + पार)—अपार; (प० च० १६।१२।५) ।

अणायर— पुं० (सं० अदादर > प्रा० अणायर)—अपमान; (भ०) ।

अणाविड—क्रि० भू० का० बुलाया, “अणा-विड सो सुयणामु भणेवि”—नाम लेकर उसे बुलाया; (क० ८, १४, २) ।

अणाह— वि० (सं० अनाथ)—विना स्वामी के; (जस० १, २३, ५) ।

अणिद— वि० (सं० अनिन्द्य > प्रा० अणिदिय)—जिसकी निन्दा न की गई हो; (क० ५, ६, २; जस० ३, २८, ११) ।

अणिउत्ता—वि० (सं० अनियुक्त)—जो नियुक्त न किया गया हो; (भ०) ।

अणिच्च— वि० (सं० अनित्य > प्रा० अणिच्च)—नश्वर, अस्थायी; जस० (४, २६, १) ।

अणिज्जिउ— वि० (सं० अनिजित)—जिस पर विजय न की गई हो; (व० २, ६, ६) ।

अणिट्ट— वि० (सं० अनिष्ट > प्रा० अणिट्ट)—अप्रीतिकर; (जस० ४, ६, १२) । —अ, वि० (सं० अनिष्ठित) असमाप्त (जस०) । —संघ पुं० (सं० अनिष्ट + संघ) शत्रुसंघ; (जंबू० ४, ५,

८) ।

अणिठ्ठय— वि० (सं० अनिष्ट = न चाहा हुआ)—शत्रु; (प० च० १२।१) ।

अणिट्ठिय—वि० (सं० अ + निष्ठित > प्रा० अणिट्ठिय)—निस्सीम; “अवरहु मि अणिट्ठिय-भुयवलहुं”, दूसरे निस्सीम बाहु-वल वालो को आदेश दिया, (ण० ५, १२, ३) । २. असंपूर्ण (भ०) । ३. अनिष्ठित, अकृत्रिम; (व० १०, १३, १३) ।

अणिट्ठु— वि० (सं० अनिष्ट > प्रा० अणिट्ठु)—अनिष्टकारी; (व० ३, १७, ६) ।

अणित्ति—स्त्री० (सं० अनीति)—नीति, न्याय, औचित्य आदि का न हेतु; (प० च० १५।३।४) ।

अणिमाइय—पुं० (सं० अणिमादिक)—अणिमादिक गुण ।—अष्टसिद्धियाँ अर्थात् १. अणिमा, २. महिमा, ३. लघिमा ४. गरिमा, ५. प्राप्ति, ६. प्राकाम्य, ७. इशित्व और ८. वशित्व; (व० २, ११, ३) ।

अणिमिस—पुं० (सं० अनिमिप)—मत्स्य, मछली; (व० १०, १०, ६) । वि० (सं० अनिमिप) निर्निमेप; जंबू० ८, ६, ८) ।

अणियच्छिय—वि० (दे०)—अदृष्ट; (जंबू १, १, ६) ।

अणियन्त— कृ० (दे०)—अवलकोन न करते हुए; (भ०) ।

अणिल— पुं० (सं० अनिल > प्रा० अणिल)—वायु; (जंबू० ६, ८, ५) ।

अणिल्ल— न० (दे०)—प्रभात, सवेरा; (दे० ना० मा० १, १६) ।

अणिवार— वि० (सं० अनिवारित)—
जिसे रोका नहीं गया, अबाधित, “तं
पई पुणु दंसणजनधारिहिं, संचिवि
वड्ढारिउ अणिवारहिं”, अर्थात् उसे
आपने अपनी दर्शन रूपी अबाधित जल-
धारा से सींचकर बढ़ाया है; (व० ४,
२, ११) ।

अणिविण्ण— वि० (सं० अनिविण्ण)
थकानहीन, बिना थकावट के; (प० च०
१७।१०।१०) ।

अणिसाभोयणु—पुं० (सं० अनिशा +
भोजन) रात्रि-भोजन न करना; (जस०
३, ३०, १०) ।

अणिह—वि० (दे०) १. सट्टा, तुल्य ।
२. न०—मुख, मुँह (दे० ना० मा० १,
५१) ।

अणिहण—पुं० (सं० अनिघन) अनादि
निघन (अनन्त इत्यर्थः), कुलधिपति,
(जस० १, २, १४) ।

अणिहय— वि० (सं० अनिहत) अहत,
नहीं मारा हुआ; (भ०) ।

अणोइ—स्त्री० (सं० अनीति) नीति का
विरोध, अन्याय, अन्धेर, अत्याचार; (व०
३, १, १३) ।

अणु—वि० (सं० अन्य) दूसरा; (व० १,
५, ११) ।

अणुअंच—क्रि० (सं० अनु + कृप् > प्रा०
अणुअंच) पीछे खींचना । अणुअंचि
पू० का० क्रि० खींचकर; सं० रा०) ।

अणुअंचिवि—पू० का० क्रि० (भ०) ।

अणु-अणु— पुं० (सं० अण्ड + अण्ड)
परमाणु; (जस० ४, ६, ६) ।

अणुअ—पुं० (दे०) १- आकृति । २- पुं०
स्त्री० धान्य-विशेष; (दे० ना० मा० १,
५२) । पुं० (सं० अनुज > प्रा० अणुअ)
छोटा भाई; (जंबू० २, ५, १०) ।

अणुअत्तइ—अक० (सं० अनुवर्तते वर्तते,
तिष्ठति)—ठहरना, (भ०) ।

अणुअत्तल—न० (दे०) प्रभात, सुबह; (दे०
ना० मा० १, १६) ।

अणुइय—पुं० (दे०)—धान्य-विशेष, चना;
(दे० ना० मा० १, २१) ।

√अणुकंप—(सं० अनु० + √कम्प)—
अनुकम्पा करना ।—इ सक० (जस० ४,
१८, ३) ।

अणुकम्पिय—वि० (सं० अनुकम्पित >
प्रा० अणुकंपिय) जिस पर अनुकम्पा की
गई हो वह; (भ०) ।

अणुकारिअ—वि० (सं० अनुकारिन्)
अनुकरण करने वाला; (जंबू० ५, १,
२५) ।

अणुकूल—वि० (सं० अनुकूल > प्रा०
अणुकूल) अप्रकूल; (जस० ३, २७,
३) ।

अणुगय—वि० (सं० अनुगत) अनुगामी,
अनुसृत, जिसका अनुसरण किया गया हो
वह; (जस० १, ६, २) ।

अणुगहिअ—वि० (सं० अनुगृहीत > प्रा०
गिहीअ) जिस पर अनुग्रह किया गया
हो; (दे० ना० मा० ८, २६, १) ।

अनुगामिनी—वि० (सं० अनुगामिन् >
प्रा० अणुगामि, अणुगामिय) अनुसरण
करने वाली, पीछे-पीछे जाने वाली;
(जस० २, २२, ८) ।

अरुणगह=पुं० (सं० अनुग्रह > प्रा० अणु-
गह, अरुणगह) १- कृपा, २- उपकार;
(ग ३, ३, ६) ।

अणुचिदृठ=क्रि० (सं० अनु+
चेष्ट)-पालन करने योग्य होना ।
अणुचेदृडे; (जंजू ३, ७, १६) ।

अणुज्ज=वि० (सं० अनृजु)-जो सरल
न हो, कुटिल; (भ०) ।—अ, वि० (सं०
अनृजु+क) दुष्ट (भ०) ।

अणुज्ज=वि० (सं० अनवच्च) निर्दोष;
(जस० ४, २३, ७) ।—य (सं० अनु-
द्युत) (जस० २, ६, ६) ।

अणुट्टा=क्रि० (सं० अनु+√स्था >
प्रा० अणुट्टा)-अनुष्ठान करना, शास्त्रो-
क्त विधान करना; (जस०) । अणुट्टठउ

—भू० का० अनुष्ठान किया, “जं जाणइ
तं सो वि अणुट्टठउ” (रा० ५, ६, ७) ।

अणुट्टाण=न० (सं० अनुष्ठान > प्रा०
वणुट्टाण) १- शास्त्रोक्त विधान, २-
कृति; (जस० १, १, १) ।

अणुणअ=क्रि० (सं० अनुनय) अनुनय
करना, प्रार्थना करना; (जंजू० ४, ७,
११) । अणुणत=कृ० (सं० अनुनय+
शतृ); (जंजू० ६, ३, ११) ।

अणुणइ=क्रि० (सं० अनुनयति) मनाना,
अनुनय करना; (भ०) । अणुणइ (हे०
४, १४, ४) । अणुणिज्जइ=कर्मवाच्य
व०, प्र० ए० (सं० अनु+√नी > प्रा०
अणुणी)मनाया जाता है ।

अणुणय=पुं० (सं० अनुनय) विनय;
प्रार्थना; (व० ४, १५, १२)

अणुणीय=वि० (सं० अनुनीत > प्रा०
अणुणीअ) जिसका अनुनय किया गया

हो वह; (दे० ८, ४८) ।

अणुणु=वि० (सं० अन्योन्य) परस्पर,
एक दूसरे को या पर; (प० च० २२, ५,
५) ।

अणुद्विदृठय=वि० (सं० अनुद्विदृष्ट)
अपने उद्देश्य से न बनाई हुई, “अणुद्विदृ-
ठयभिवलफलाणुमेउ;” (जंजू० १०, २१,
६) ।

अणुदिणु=न० (सं० अनुनिन > प्रा०
अणुदिण)-दिन-प्रतिदिन, हमेशा; (भ०;
क० ४, १०, ६; प० च० ६, ६, ६) ।

अणुदिस=पुं० (सं० अनुदिक) अनुदिस-
वासी देव; “तिजय-णाडि तिह पेक्खहि
अणुदिस पंचाणुत्तर उज्जोविय-दिस,”
(व० १०, ३४, १४) ।

अणुनच्छए=अव्य० (सं० अनु+पश्च)
वाद में, पश्चात् (प० च० ५, ६, ८) ।

अणुवेहा=स्त्री० (सं० अनुप्रेक्षा > प्रा०
अणुपेक्खा) भावना, चिन्तन; (जंजू०
११, १५, १४) ।

अणुवंधि=वि० (सं० अनुवन्ध > प्रा०
अणुवंध पुं० निरन्तरता) निरन्तर,
“अणुवंधि तिच्चु पेम्मू तवइ” निरन्तर
आसक्ति से तीव्र प्रेम ताप उत्पन्न होता
है; (जस० २, १०, १३) ।

अणुविधिय=वि० (सं० अनुविधियत)
अप्रतिविवित, जिस पर प्रति छाया न
पड़ी हुई हो; (भ०) ।

अणुव्भट=वि० (सं० अनुव्भट > प्रा०
अणुव्भट) १. जो श्रेष्ठ न हो; २. जो
वहुत ऊँचा न हो; (प० च० ४०, ७,
११) ।

अणुभाव=पुं० (सं० अनुभाव > प्रा०

अणुभाव, अणुभाय) मनोगत भाव की सूत्रक चेष्टा; (भ०) ।

अणुभुञ्ज—क्रि० (सं० अनु+भुञ्ज् > प्रा० अणुभुञ्ज) —भोग करना; (प० व० १२/१०/६) ।

अणुमार्ग—न० (सं० अनु+मार्ग > प्रा० अणुमार्ग) —पीछे; (जस० ३, ३५, ३) ।

—यर वि० (सं० अनुमार्ग चर) अनुचर; (जस० २; ६, ८, ९) ।

अणुमण्ण—(सं० अनुमोदय्) —अनुमोदन करना ।—णिवि पू० का० क्रि० (जं० ७, ७, ८) । अणुमन्तइ—सक० (सं० अनुमन्यते > प्रा० अणुमण्णै, अणुमन्तइ) अनुमति देना; अनुमोदन करना; (भ०) ।

अणुमरण—न० (सं० प्रा० अनुमरण) १. मरना, २. सती होना, (भ०) ।

अणुमण्णिअ—वि० (सं० अनुमतअनु-मोदित; (जं० २, ८, ११) ।

अणुमाण—न० (सं० अनुमान > प्रा० अणुमाण) —अटकल ज्ञान, हेतु के द्वारा अज्ञात वस्तु का निर्णय; (जस० ३, २२, ५; (प० व० १११४) ।

अणुमाल—अक० (सं० अनु+मालय् > प्रा० अणुमाल) —शोभित होना, चमकना । अणुमालिवि—पू० का० क्रि० माला को बना-कर; (भ०) ।

अणुमेय—वि० (सं० अनुमेय > प्रा० अणुमेअ) अनुमान के योग्य; (जं० १०, २१, ६) ।

अणुमोहय—वि० (सं० अनुमोदित > प्रा० अणुमोहय) प्रशंसित, अनुमत, सम्मत; (भ०) ।

अणुमोय—न० (सं० अनुमोद) —प्रसन्नता, (भ०) ।—ण न० (सं० अनुमोदन > प्रा० अणुमोयण) अनुमति, सम्मति, प्रशंसा

(भ०) ।

अणुयत्त—वि० (सं० अनुरुत्त > प्रा० अणुयत्त, अणुयत्त) —प्रवृत्त, अनुकूल किया हुआ; (भ०) ।

अणुरंज—क्रि० (सं० अनु+रञ्जय् > प्रा० अणुरंज) अनुरागी करना । —इ व० (ष० २, १, ७) अणुरंजिउ—क्रि० भू० का० (सं० अनु+रञ्जय् > प्रा० अणुरंज) प्रसन्न हुए; “णरवइ अणुरंजिउ परिणणु रंजिउ”

—राजा प्रसन्न हो उठा और परिजन भी प्रसन्न हुए; (सि० १, १८, ११) ।

अणुरंजण—न० (सं० अनुरञ्जन > प्रा० अणुरंजण) राग, आसक्ति ।

अणुरक्त—वि० (सं० अनुरक्त > प्रा० अणुरक्त, अणुरक्त) —अनुरक्त, प्रेम-प्राप्त; (सणुतु० ४५३) ।

अणुराअ—पु० (सं० अनुराग > प्रा० अणुराग, अणुराय) —आसक्ति, निष्ठा, प्रीति, अणुराय; (सं० रा०; ण० १, ६, २) भ०; सि० २, १७) ।

अणुराइय—वि० (सं० अनुरागिन् > प्रा० अणुराइ) अनुरागी, प्रेमी; (सं० रा०; भ०)

अणुरुवु—वि० (सं० अनुरूप > प्रा० अणुरुव, अणुरुव) —अनुरूप, अनुकूल; (सणुतु० ४६०) ।

अणुरुव—वि० (सं० अनुरूप > प्रा० अणुरुव, अणुरुव) —सदृश, समान (जं० १०, ६, २) ।

अणुलग—वि० (सं० अनुलग्न > प्रा० अणुलग) —किसी के साथ लगा, मिला या जुड़ा हुआ अणुला; (हरिवंशपुराण ५१७) । अणुलगी—वि० पीछे लगी हुई; (रि० ३, १) ।

अणुव—वि० (सं० अनुज) —जो पीछे

उत्पन्न हुआ हो; (व० ३, ५, २) ।

अणुवच्च—(सं० अनु+व्रज>प्रा० अणु-
वच्च) अनुसरण करना ।—वि, पू० का०
क्रि०—पीछे जाकर, (जं० २, १२,
४) ।

अणुवज्ज—क्रि० (दे०) सेवा—शुश्रूषा
करना; (दे० ना० मा० १, ४१) ।

अणुवम—वि० (सं० अनुपम>प्रा०
अणुवम) उपमा-रहित, अद्वितीय; (क०
१, १, ३) ।

अणुवय—न० (सं० अनुव्रत>प्रा०
अणुवय, अणुवय) छोटा व्रत; (जस०
४, २१, ४; क० ५, १२, १) ।

अणुवल—पुं० (सं० अनुवल) सहायक
सैन्य; (जं० ५, ४, १७) ।

अणुवल्सवि—क्रि० (सं० अनुपालयति)
अनुपालन करना; (भ०) ।

अणुवह्वा—स्त्री० (दे०) दुलहिन;
(दे० ना० मा० १, ४८) ।

अणुवाय—पुं० (सं० अनुवाद)—अनुभा-
षण, उक्त बात को फिर से कहना; (दे०
ना० मा० १, १३१) ।

अणुवासिय—वि० (सं० अनुवासित)
सुगंधित किया हुआ, घूपित; (भ०) ।

अणुविषखा—स्त्री० (सं० अनुपेक्षा)
ध्यान से देखना; (जं० ११, १५,
१४) ।

अणुवेकख—स्त्री० (सं० अनुप्रेक्ष्)—
अनुप्रेक्षा, देखकर अनुसरण करना;
“णिभाग्यइ जो अणुवेकख चल वइ राय-
भावसंपत्तउं”—जो वैराग्य-भावको प्राप्त
होकर इस अनित्य-अनुप्रेक्षा का ध्यान
करता है, (क० ६, ६, ६); (जस० ४,

६, १५) । अणुवेकख—स्त्री० (सं० अनु-
प्रेक्षा) (जं० ११, १, ४) ।

अणुव्यजमाणु—क्रि० आ० (सं० अनु+
व्रज>प्रा० अणुवज्ज) पीछे-पीछे जावे,
अनुसरण करे; (ण० ६, २१, ६) ।

अणुव्वय—न० (सं० अनुव्रत>प्रा०
अणुव्वय) छोटा व्रत; (भ०) ।

अणुसंग—पुं० (सं० अनुपङ्ग) प्रसंग,
प्रस्ताव; (भ०) ।

अणुसंघट्टण—पुं० (सं० अणुसंघट्टन)-
संघर्षण, “अणुसंघट्टणि सद्दु विहा-
वइ,”—वायु में संघर्षण होने से ही शब्द
उत्पन्न होता है, (जस० ३, २६, ३) ।

अणुसंध—(सं० अनुसम्+धा)—खोजना,
गवेषण करना । अनुसंधिवि—पू० का०
क्रि० खोजकर, ढूँढ कर; (भ०) ।

अणुसंधिअ—न० (दे०) निरन्तर
हिचकी; (दे० ना० मा० १, ५६) ।

अणुसर—(सं० अनु+सृ>प्रा० अणु-
सर) अनुसरण करना ।—इ, सक०
(सं० अनुसरति) अनुवर्तन करना;
(भ०) ।—हि, क्रि०, पीछा करना
(सा० ११७) । अनुसरिय—क्रि० भू०,
अनुसरण किया, (सं० रा०) । अनुसर-

क्रि० आ०, अनुसरण करो; (की० ४,
२५१) ।—रेवि पू० का० क्रि० (जं०
६, ३, १३) ।

अणुसरिस—वि० (सं० अनुमद्दक्ष>प्रा०
अणुसरिस, अनुसरिच्छ) १. समान,
तुल्य, २. योग्य; (प० च० ६/५/४) ।

अणुसार—पुं० (सं० अनुसार>प्रा०
अणुसार) अनुसरण, अनुवर्तन; (भ०) ।

अणुसुत्ति—वि० (दे०) अनुकूल; (दे०

ना० मा० १, २५) ।

अणुसूत्रा—स्त्री० (दे०) शीघ्र ही प्रसव करने वाली स्त्री; (दे० ना० मा० १, २३) ।

अणुहर—(सं० अनु+हृ > प्रा० अणुहर, अणुहरइ)—अनुकरण करना, नकल करना; (प० च० १, ६, ८) ।—हरंत कृ० (सं० अनु०+हृ+शतृ) (जंबू० ६, ६, ११)—माण कृ० (सं० अनुहरत् = अनुकुर्वत्) अनुकरण करते हुए ।—हिं, सक० व० (सं० अनुहरन्ति) अनुकरण करते हैं, (हे० ३६७) ।

अणुहरमाणी—वि० (सं० अनुहृत > प्रा० अणुहरिय) समान, “रावण रिद्धिहे अणुहरमाणी,” अर्थात् रावण की रिद्धि के समान थी; (रि० १, ५) ।

अणु रिअ—वि० (सं० अनुहृत)—अनुकृत; (जंबू० ४, १६, २२) ।

अणुहव—(सं० अनु+भू > प्रा० अणुहवइ)—अनुभव करना; (जस० २, १६, २; प० च० १६, ६, १०) ।—इ सक० (रि०, प्रथम सर्ग) । अणुहवैइ—अनुभव करता है, (क०) । अणुहुत्तउ—भू० का० (सं० अनुभूत > प्रा० अणुहुत्त) अनुभव किया; (म० २, ३७, १४) । (व० कृ०—अणुहवंत (अनुभव करते हुए) (ण ४, ६, ४) ।—हृविवि-पू० का० क्रि० (जंबू १०, १७, १६) ।

अणुह्विअ—वि० (सं० अनुभूत)—जिसका अनुभव किया गया हो वह; (जंबू १०, १७, १७) ।

अणुहुंज—(सं० अनु+भुञ्ज > प्रा० अणुहुंज) भोग करना; (जस० ४, २, १) ।

अणुहुंजिय—वि० (सं० अनु+भुक्त)—उपभोग करने वाले, “अणु हुंजियलच्छी-

सिव्”—लक्ष्मी के सुखों का उपभोग करने वाले; (ण० ६, ४, १३) ।

अणुह्य—वि० (सं० अनुभूत > प्रा० अणुह्यअ) जिसका अनुभव किया गया हो वह; (जस० १, २०, ६) ।

अणु—पुं० (दे०) शालि-भे, चावल का कोई प्रकार; (दे० ना० मा० १, ५) ।

अणूप—वि० (सं० अनुपम) उपमा रहित, वेजोड़; (जंबू० ४, १६, २२) ।

अणोय—वि० (सं० अनेक > प्रा० अणोक्क, अणोय) —एक से अधिक बहुत; (सं० रा०) । अणोय—वि० (सं० अनेक)

(जस० १, ७, ८; क० २, १, १; ण० २, ५, ५, ५) । अनेअ—वि० अनेक

(की० ४, २८) । अणोय—वि० (भ०) ।

अणोसण—वि० (सं० अनु+एषण = इच्छा० रहित) शुद्धि-रहित (जै० परि०); (संघि० ७, २, ७) ।

अणै—पुं० (सं० अनय > प्रा० अणय)—अनीति, अन्याय; (की० २, १८१) ।

अणै-भणै—क्रि०, ऊटपटांग वकता है; (की० २, १८१) ।

अणोरपार—वि० (दे०) अति विस्तीर्ण; (प० च० १७, २६) ।

अणोलय—न० (दे०) प्रभात, प्रातः काल; (दे० ना० मा० १, १६) ।

अणोवम—धि० (सं० अनुपम)—अद्वितीय, उपमा-रहित; (भ०) ।

अण्ण^१—न० (सं० अन्न > प्रा० अण्ण)—अन्न, कच्चा घान्य—चना, जौ, चावल आदि; (प० च० १, १०, ८) । अण्णु—

अन्न (णं०) ।

अण्ण^२—वि० (सं० अन्य > प्रा० अण्ण)—दूसरा, भिन्न; (प० च० २, १७, २;

जस० १, ४, ५) । —त्त-अन्यत्व;
(जस० २, २६, ८) ।

अण्णु—वि० (प० च० १, १६, ७) ।

अण्णहि—अव्य० अन्यत्र (प० च० १०, ३,
६) । तुल० म० आण, आन । अण्ण-
वि०, अन्य (म०) ।

अण्ण^१—वि० (सं० अनृण)—जो कर्जकार
नहीं; (म० १, २५, ६) ।

अण्णञ्ज—पुं० (दि०)—१. ठग, २, देवर ।

वि० तरुण, युवा; (दि० ना० मा० १,
५५) ।

अण्णइ—वि० (सं० अन्य > प्रा०
अण्ण)—दूसरा; तुल० पु० राज० अनइ,
संयो० और, अन्यानि; (ण० २, १, ५)

अण्णणु—वि० (सं० अज्ञानिन् > प्रा०
अण्णणि)—अज्ञानी, अज्ञानो; (महा०
६६, ३, ११) ।

अण्णण्ण—वि० (सं० अन्योन्य > प्रा०
अण्णण्ण)—परस्पर, एक दूसरे को या पर;
(क० १, १४, १७) । अण्णोण्ण (अन्यो-
न्य) (क० ५, ४, १) ।

अण्णत्त—अव्य० (सं० अन्यत्र > प्रा०
अण्णत्त)—दूसरी जगह, भिन्न स्थान में ।
—हि; (म०) । अण्णत्तहे—अव्य० अन्यत्र;
(प० च० ३, ३, ३) ।

अण्णत्ति—स्त्री० (दि०)—अवज्ञा, अप-
मान; (दि० ना० मा० १, १७) ।

अण्णत्त्य—वि० (सं० अन्यत्र)—दूसरी
जगह; (जंबू० १०, १०, ५) ।

अण्णान्भवन्तर—पुं० (सं० अन्यभवान्तर
> प्रा० अण्ण + भव + अन्तर) अन्य
(पहले) जन्म की अवधि; (प० च० ५/
८/१) ।

अण्णमण—वि० (सं० अन्यमनस् > प्रा०
अण्णमण)—१. चिन्तन, उदात्त, २. जितका

ध्यान किसी ओर तरफ ही; (प० च०
१८/५/६) ।

अण्णमय—वि० (दि०)—पुनरुक्त; (दि०
ना० मा० १, २८) ।

अण्णरिद्धि—स्त्री० (सं० आत्मन् + ऋद्धि
> प्रा० अण्ण + रिद्धि) अपनी सिद्धि;
(सि० १, ३३, ८) ।

अण्णव—पुं० (सं० अणव > प्रा०
अण्णव)—समुद्र; (जस० ४, १८, २) ।

अण्णवण्ण—पुं० (सं० अन्य + वर्ण)—
दूहरा शब्द; (जंबू० १, २, १४) ।

अण्णहा—अव्य० (सं० अन्यथा > प्रा०
अण्णहा, अण्णह)—अन्य प्रकार से, विपरीत
रीति से, प्रकारान्तर, नहीं तो, (रि०
१०/३/१५) ।

अण्णहि—अव्य० दूसरी ओर (रि०,
प्रथम सर्ग) ।

अण्णण—न० (सं० अज्ञान > प्रा०
अण्णण १. वोव या ज्ञान का अभाव,
२. मूर्खता; (जस० ३, ६, ६; दि० ना०-
मा० १, ७; प० च० ८/८/५, म० २,
१८, २) । वि० (सं० अज्ञानिन्
अज्ञानी; (जस० १, ६ १२) ।

अण्णणिय—वि० (सं० अज्ञानिन् > प्रा०
अण्णणि)—अज्ञानी; (म०) ।

अण्णाय—वि० (सं० अन्याय > प्रा०
अण्णाय) न्याय-रहित, अनुपयुक्त; (ण०
१, ८, ६) ।—त्त वि० (सं० अन्यायत्त)
अधीन, "जीव सहाउ ण अण्णायत्तउ"
जीव का स्वभाव अन्य वस्तु के अधीन
नहीं है; (जस० ३, २८, ४) ।

अण्णारिस्—वि० (सं० अन्यादृश > प्रा०
अण्णारिस्) दूसरे के जैसा; (प० च०

१६।६।८) ।

अण्णालाव—वि० पुं० (सं० अन्यालाप)
अन्योक्ति; (जं० २, १२, ७) ।

अण्णासत्त—वि० (सं० अन्यासक्त)—जो
अन्य पुरुष में आसक्त हो; “कुलत्तहि
अण्णासत्तहि चित्तु ण केण वि विप्पइ;”
(जस० २, १२, २०) ।

अण्णासिरी—स्त्री० (सं० अन्नय+श्री)
अपूर्व शोभा; (जं० ४, ८, ११) ।

अण्णिया, अण्णी—स्त्री० (दे०) पिता
की वहिन; (दे० ना० मा० १, ५१) ।

अण्णुण्ण—वि० (सं० अन्योन्य > प्रा०
अण्णोण्ण, अण्णुण्ण)—परस्पर, आपस में;
(जस० ४, १६, १४) ।

अण्णोक—सर्व० (सं० अन्य+एक)—
अन्यद्, दूसरा; (ण० २, १, ६) ।

अण्णोक्क; (जस० २, ३४, ३) (प० च०
३, १२, ४) । अण्णे तहिं—(सं० अन्ये
तत्र) दूसरे वहाँ; (जं० ११, १२, ८)

अण्णोसम—सक० (सं० अनु+इप्; अन्वे-
पय्) खोजना ।—वि पू० का० क्रि०
(जं० १०, ११, ८) ।

अण्णोण्ण—वि० (सं० अन्योन्य > प्रा०
अण्णोण्ण, अण्णुण्ण) परस्पर, एक दूसरे
को या पर; (प० च० २२, ५, ५) ।

अण्हाणु—न० (सं० अस्नान+प्रा० अ+
ण्हाण) स्नान न करना; (जस० ४, १६,
१४) ।

अण्हेअअ—वि०(दे०) भ्रान्त, भ्रूला हुआ;
(दे० ना० मा० १, २१) ।

अत्तय—वि० (सं० अतथ्य > प्रा० अत-
त्य) असत्य, झूठा; (की० १, २६) ।

अत्ति—अव्य० (सं० अति > प्रा० अइ)

अतिशय, अतिरेक; (रा० ४) ।

अतिराउ—वि० (सं० अतृप्त) असन्तुष्ट;
(जं० १, ११, ४) ।

अतित्व—वि० (सं० अतीव) जो तीव्र
न हो; (जं० २, ३, ३)

अतीउ—वि० (सं० अतीत) गत, बीता
हुआ; (व० १०, ३६, ६) ।

अतीतउ—क्रि०, भू० का०, बोता गया,
अतीत हो गया; “तिरिवालु अतीतउ
गयउ जु वीतउ रयणमंजूसा ख्वहि कहो;”

(सं० १, ४३) । अतुट्ठि—स्त्री० (सं०
अतुट्ठि; (जस० ४, १४, ५) ।

अतीत्तु—वि० (सं० अतृप्त) जिसकी
सन्तुष्टि न हुई हो; (व० ५, ४, १२)

अतुल—वि० (सं० अतुल > प्रा० अउल)
अत्यन्त (जस० ३, १६, १२) ।—तर—

वि० अत्यन्त, अधिक असीम; (की० १,
६२) । —सत्ति—स्त्री० (सं० अतुल

शक्ति) अपार शक्ति; (जस० १, ७,
१२) ।

अत्त—वि० (सं० आर्त > प्रा० अत्त)
१. कष्ट प्राप्त, पीड़ित, २. बीमार, ३.

संकटग्रस्त; (सं० रा०) । वि० (सं० अत्त
> प्रा० अत्त) ज्ञानदि-गुण-सम्पन्न, गुणी;

(प० च० १६, १०, ३) ।

अत्ता—स्त्री० (दे०) १. माता, माँ;
२. सासू, ३. बूआ; ४. सखी; (दे० ना०
मा० १, ५१) ।

अत्तावण—वि० (१) आतापनी, जिस
पर तपस्या की जाए; (प० च० १२,
११, ६) । —इ—आतापन, आत्मताप

करे, “फलभोयणइ अत्तावणइ”, (जस०
२, १८, १३) ।

अत्तावणि—सिल—स्त्री० (सं० आतापनी-शिला) आत्म-संयम का अभ्यास करने के लिए शिला; (प० च० १३, ८, ६) ।

अत्तिल्लु—वि० (सं० अत्यन्तम्) अत्यधिक, बहुत बड़ा; (प० च०, १६। १०। ८) ।

अत्तिहर—वि० (सं० आतिहर) पीड़ा या व्यवस्था को नष्ट करने वाला; (ण० ६, १४, १२) ।

अत्य—पुं० (सं० अर्थ > प्रा० अट्ठ अत्य) १. धन; (जस० २, १, ३२) । २. पदार्थ; (जंबू० २, १, ८) । ३. आशय, प्रयोजन, लक्ष्य, (जस० १, २२,) १३ अभिप्रायः, (८०, १, १, ५; सं० रा०;) —इरि (सं० अस्तगिरि) अस्ताचल, अस्तगिरि; (क० १०, ६, ४) । अत्याणुत्व—(सं० अर्थ + अनुरूप) अर्थ के अनुरूप; (जंबू० ७, १, ३) अत्याधि—वि० (सं० अर्थ + अधिन्) अर्थ चाहने वाला, धन के याचक; (जंबू० ८, ८, ६) ।

अत्य, अत्यन्तउ—वि० (सं० अस्त > प्रा० अत्य = अविद्यमान) १. छिपा हुआ, तिरोहित, २. अदृश्य, ३. डूबा हुआ, ४. नष्ट; (जस० २, १, ३१; प० च० १६। ३। १) ।

अत्यइत्त—वि० (सं० अर्थवत्) धनवान्; (प० च० १४-१३-५) ।

अत्यइरि—पुं० (सं० अस्त + गिरि > प्रा० अत्यइरि) अस्ताचल, “अत्यइरि-सिहरि पत्तइ इणम्मि,”—सूर्य अस्ताचल सिहरि पर पहुँच रहा था; (व० ६, २० ४) ।

अत्यदक—अव्य० (दे०) १. अकस्मात्, विना देर के; (प० च० ४। १४। ६) । २. अनवसर (भ०) ।—एँ, किं वि०, शीघ्र तापूर्वक; (प० च० ३२, १४, ६) ।

अत्यघ—वि० (दे०) अगाध गम्भीर; (दे० १, ५४) ।

अत्यड्ड—वि० (सं० अधिद्य) धन से सुसम्पन्न; (सुदं० २, ५, ८) ।

अत्यन्तय—व० कृ० (सं० अस्तं यत् > प्रा० अत्यंत) मृत, अस्त होता हुआ; (प० च० २५, २०, ३) ।

अत्यम—अक० (सं० अस्तम् + इ > प्रा० अत्यम) अस्त होंना ! अत्यमाण-कृ० (सं० अस्तमन) अस्त होने, “रवी रत्त-माणो गओक्त अत्यमाणो,”—सूर्य रक्तवर्ण होकर अस्त होने चला; (ण० ६, १७, १०) ।

अत्यमिय—वि० (सं० अस्तमित) अस्त हुआ, अदृश्य हुआ; (भ०) ।

अत्ययारिआ—स्त्री० (दे०) सखी, सहेली; (दे० ना० मा० १, १६) ।

अत्यवण—न० (सं० अस्तमन > प्रा० अत्यमण; अत्यवण) (सूर्य का डूबना; (जस० ४, १०, ८; प० च० १३। १२. ५) ।

अत्याण—न० (सं० आस्थान > प्रा० अत्याण) सभा, सभा-स्थान; (जस० २, १३, १; प० च० २। ६। ७; क० ६, १, २) ।—अत्याण-णिवन्वण-सभा लगाना; (प० च० १६। २। ३) ।

अत्याणि—स्त्री० (सं० आस्थान > प्रा० अत्याण, न०) सभा, सभा-स्थान, “अत्याणि परिट्टिउ घरणिपाल” (ण० १,

८, ९) — य-पुं० (सं० आस्थानिक) सभासद्; (भ०) ।

अत्यार—पुं० (दे०) सहायता; (दे० ना० मा० १, ९) ।

अत्यासिउ—वि० (सं० अस्त+आसीन) अस्ताचल पर स्थित, “अत्यासिउ रत्तउ मित्तु जहिं,” जहाँ अस्ताचल पर सूर्य अनुरक्त (लाल) हुआ; (जस० २, २, १) ।

अत्याह—वि० (सं० अस्ताघ) याह-रहित; तुल० म० अधाक; (भ०) ।

अत्यि—क्रि० (सं० अस्ति > प्रा० अस्थि) होना' क्रिया कावर्तमान-कालिक एक वचन रूप । तुल० पु० म० आथी; (सि० १, १६, ३३; ण० १, ६, ४; प० च० १२, ६, ७) । —काय पुं० (सं० अस्ति + काय > प्रा० अस्थिकाय) जैन धर्म के पांच अस्तिकाय—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म एवं आकाश; (ण० १, १२, २) । —जण० वि० (सं० अर्थीजन) धनी व्यक्ति; (जंबू० ३, ३, ११) ।

अत्यि—न० (सं० अस्थि > प्रा० अत्यि) हाड, हड्डी; (प० च० १८। ६। ७) । —काय पुं० (सं० अस्तिकाय) जैन शास्त्रानुसार वे सिद्ध पदार्थ जो प्रदेश या स्थानों के अनुसार कहे जाते हैं । ये पांच हैं— १. जीवस्तिकाय, २. पुद्गलास्तिकाय, ३. धर्मास्तिकाय, ४. अधर्मास्तिकाय, ५. आकाशस्तिकाय ।

अत्यिजण—पुं० (सं० अर्थीजन > प्रा० अत्यिजण) याचक लोग; (संघि० १, ३, ८) । अत्यिजन (की० १, ६६) ।

अत्यिर—वि० (सं० अस्थिर) चंचल,

अदृढ; (भ०) । अत्यीर (अस्थिर) (प्रा० पं० २, १४२) ।

अत्युड—वि० (दे०) लघु; छोटा; तुल० गु० थोडुं (कम), म० थोडका (अल्प); (दे० ना० मा० १, ९) ।

अत्युरिय—वि० (सं० आस्तृत) विद्याया हुआ; (दे० ना० मा० १, २३) ।

अत्यक्क—वि० (सं० अस्थिर > प्रा० अस्थिर) जो दृढ़ न हो, चंचल; (प० च० १७। ६। ६) ।

अट्ट—वि० (दे०) अस्तब्ध; (भ०) ।

अथेरउ—वि० (सं० अ+स्थविर) अजर, अविनाशी, “तहिं साहीणु सुक्खु महुक्केरउ। अखउ अणंतु अदुक्खु अथेरउ” —मोक्ष में मुझे स्वाधीन सुख मिलेगा जो अक्षय, अनन्त दुखरहित और अजर है, (म० १, ३१, ६) ।

अदत्तादाण—न० (सं० अदत्तादान) अपरिग्रह, धन आदि का संग्रह न करना; (भ०) ।

अदव—पुं० (अ० अदव) अदव, शाही-दरवार का शिष्टाचार; (की० ३, ४१) ।

अदभुद—वि० (सं० अदभुत) विचित्र; तुल० गु० अदवद; (प्रा० गु० ३२, २) ।

अदवक्किय—वि० (दे०) निर्भय; (जंबू० ६, १४, १४) ।

अदियहे— (सं० अ+दिवसे)—रात्री; (प० च० ६। ७। ४) ।

अदीण—वि० (सं० अदीन > प्रा० अदीण) दीनता-रहित; (जंबू १०, २६, ६) ।

अदुगुं छिय—वि० (सं० अ+जुगुप्सित)
अनिन्दित, अधृणित; (ण० २, ७, १०;
हे० प्रा० ४, ४) ।

अदुम्भइ—वि० (सं० अदुर्भति)—दुर्भा-
वना से रहित; (जस० १, १३, ११) ।

अद्वसिउ—वि० (सं० अद्वपित)—जो
द्वपित न हो; (व० २, ११, ७) ।

अद्वंसण—वि० (सं० अदर्शन > प्रा०
अददंसण) जिसका दर्शन न हो, अदृष्ट ।
—हई (सं० अदर्शनी-भूत) अदृश्य; (जस०
४, २१, १७) । अद्वंसणें (क० ५, १४,
८) ।

अद्व—पुं० (सं० अद्व > प्रा० अद्व)—
धर्ष; (क० ४, १७, ७) । वि० (सं०
आद्र > प्रा० अद्व) गीला; तुल० गु०
आदु; (संघि० १४, ४, ५) ।

अद्वप्प—पुं० (सं० अदर्ष) धमण्ड न
करना; (भ०) ।

अद्व—स्त्री० (सं० आद्रा > प्रा० अद्व)
उपजाति छन्द का भेद; (प्रा० पै० २,
१२१) ।

अद्विय—वि० (सं० आद्रित) आद्र
किया हुआ; (भ०) ।

अद्वंग—पुं० (सं० अर्धाङ्ग); अर्वांग
(प्रा० पै० १, ६८) ।

अद्वजिउ—भू० का० क्रि० (सं० अर्द्ध +
अञ्जित) अघूरा अंजन लगाया; ।
अद्वजिउ एककु जि नयणु फारु; (जंबू०
४, ११, ६) ।

अद्व—वि० (सं० अर्द्ध > प्रा० अद्व)
आधा, पूरे के दो बराबर भागों में से
एक । पुं० खंड, टुकड़ा; तुल० म० आद,
राज० आधो; (म० २, ७५, ८; जस०
४, १२, ६)—इंदु पुं० अर्ध चंद्र (व०

३, ६, १०) ।—द्व (सं० अर्द्ध + अर्द्ध)
आधे का आधा, "अद्वद्वार" अर्द्धद्वार
का आधा भाग; (जस० २, ५, ६) ।
अद्वधु-अद्वधु वि० (सं० अर्द्ध + अर्द्ध >
प्रा० अद्व + अद्व) आधा-आधा; (व०
१०, ३२, १३) ।

अद्वक्खण—न० (दे०) प्रतीक्षा करना;
राह देखना; (दे० ना० मा० १, ३४) ।
२. परीक्षा करना; (दे० ना० मा० १,
३४) ।

अद्वक्खियं—न० (दे०) इशारा कम्पना,
संकेत करना; (दे० ना० मा० १, ३४) ।
अद्वक्खु—पुं० (सं० अव्यक्ष) विभागा-
ध्यक्ष; (ण० ३, ३, ८) ।

अद्वचक्कि—पुं० (सं० अर्द्ध + चक्रिन् >
प्रा० अद्व + चक्कि) चक्रवर्ती राजा, "तं
फुडु अद्वचक्कि-तरणु लक्खणु;" (व० ३,
१६, ७) ।

अद्वजंघा—स्त्री० (दे०) एक प्रकार का
जूता; (दे० ना० मा० १, ३३) ।

अद्वमियंक—पुं० (सं० अर्द्ध भृगाङ्क)
वाण; (व० ५, १७, १७) ।

अद्वरत्ति—स्त्री० (सं० अर्ध + रात्रि >
प्रा० अद्व + रत्ति) आधी रात; निशीथ;
तुल० गु० अधरात; (सि० २, १२; प०
च० २६, ४, १०; ण० ६, १७, १३) ।

अद्ववह—पुं० (सं० अर्धवथ > प्रा०
अद्व + वह) आधा मार्ग; (ण० ८, ६,
१४) ।

अद्वविमीसिय—वि० (सं० अर्द्ध + विमि-
श्रित) आधा मिला हुआ; (व० १०, ४
१२) ।

अद्वसती—पुं० (सं० अर्ध + शशिन् >

प्रा० अद्ध + ससि) — आकार में दिखाई देने वाला चन्द्रमा का आधा भाग; (प० च० १७। ५। ७) ।

अद्धा—अव्य० (दे०) तत्त्वतः वस्तुतः; (प्रा० प० १, ११५) ।

अद्धिंदु—पुं० (सं० अर्धेन्दु > प्रा० अद्ध + इंदु) आधा चन्द्रमा; (क० १, १६, १३) ।

अद्धि—पुं० (सं० अर्द्धि > प्रा० अर्द्धि) — पर्वत, पहाड़ (व० ८, १०, ४) ।

अद्धुम्मिल—वि० (सं० अर्द्ध + उन्मीलित > प्रा० अर्द्ध + उम्मिल्लिय) अर्ध-विकसित; (ण० ३, ८, ५) ।

अद्धुम्मिल्लय—वि० आधा खुला हुआ, आंशिक रूप से दिखाई देने वाला; (प० च० १४, ७, ६) ।

अद्धुव—वि० (सं० अर्धुव > प्रा० अर्धुव) चंचल, अस्थिर; (जं० ११, १, ३)

अद्धेदु—पुं० (सं० अर्द्ध + इन्दु) आधा चन्द्रमा; (जं० ४, १३, १४) ।

अद्धोअद्धि—वि० (सं० अर्धाधि > प्रा० अर्द्धोअर्द्ध) दो टुकड़े वाला आधा-आधा; तुल० गु० अरधोअरध; (प० च० २६, ३, ६) ।

अर्धंग—पुं० (सं० अर्धाङ्ग) अर्धांग (प्रा० प० १, ६८) ।

अधोगति—स्त्री० (सं० अधोगति) — १. पतन, २. अवनति, ३. बुद्धशा; (की० २, १४२) ।

अधमनु—पुं० (सं० अधर्म > प्रा० अधम्म) पाप-कार्य; (व० १०, ३६, ३) ।

अधीर—वि० (सं० अधीर) धैर्य-रहित, उद्विग्न; (जं० १०, २६, ७) ।

अनअ—पुं० (सं० अनय > प्रा० अणय) अनीति, अन्याय; (की० ४, २२२) ।

अनः—वि० (सं० अन्यदपि—अन्यत् + अपि) दूसरा भी; तुल० गु० अने; (संघि० १८, १, ३) ।

अनन्ता—वि० (सं० अनन्त > प्रा० अणन्त) १. शाश्वत, २. अपरिमित; (की० २, १७३) ।

अनावाटा—वि० (सं० अनावर्त्त) जो इस संसार के आवर्त्त-भँवर से छूट जाता है, (हि० का०, च० १५) ।

अनित्यु—वि० (सं० अनित्य > प्रा० अणिच्च) नश्वर, अस्थायी; (उ० व्य० प्र० १०—३) ।

अनु—संयो० तथा “करडिम्ब अनु कांचडिअउ कानहि,”—कानों में करडिम (एक गहना) और कांचडियां (एक प्रकार का कर्णाभरण) हैं; (रा० ११) ।

अनुमगग्यारि—वि० (सं० अनुमानं—चारिन् > प्रा० अणुमगग्यारि) पीछे-पीछे जाने वाला; (क० ७, ३, २) ।

अनुरंजिअ—क्रि० भू० का० (सं० अनु + रञ्जय > प्रा० अणुरंज) अनुरंजित किया; (की० २, २४६) ।

अनुरंजियं—वि० (सं० अनुरञ्जित > प्रा० अणुरंजिय) अनुरक्त किया हुआ, अनुरागी बनाया हुआ; (भं०) ।

अनुरक्ते—वि० (सं० अनुरक्त > प्रा० अणुरक्क) अनुरक्त, जिसके मन में किसी के प्रति अनुराग हुआ हो; (की० ३, १४६) ।

अनेरउ—वि० (सं० (अन्यतर) दूसरा, भिन्न, दो में से एक; तुल० गु० अनेरो; प्रा० गु० ११, ८, १) ।

(प्रा० गु० ११, ८) ।

अनेसउ—वि० (सं० अन्याहण)—दूसरे प्रकार का; (प्रा० गु० २०, ४) ।

अन्तरि—वि० (सं० अन्तकरी)—विनाशिका; (प० च० १५।१३।६) ।

अन्तर-वड—पुं० (सं० आन्तर-पट > प्रा० अंतर+पड) भीतरी वस्त्र; (प० च० ३१, १२, ७) ।

अन्तरिप्ल—पुं० (सं० अन्तरिक्ष > प्रा० अंतरिप्ल पुं० न०) पृथ्वी और दूसरे ग्रहों या नक्षत्रों के बीच का स्थान; (की० ४, १८८) ।

अन्तर—पुं० (सं० अन्तर > प्रा० अंतर न०) दो वस्तुओं के बीच का भेद; (हे० ४०६, ३) ।

अन्धलय—वि० (सं० अन्ध > प्रा० अंधल, अंधरअ) नेत्र-हीन, तुल० गु० आंधलो; (प० च० ३४, २, ६) ।

अन्न,—वि० (सं० अन्य > प्रा० अण्ण, अण) ।—इं (सं० अन्यानि) अन्य (हे० ४२७, १) । अन्नु—वि० अन्य (हे० ३३७, १) । अन्ने—दूसरा (हे० ४१४, १) ।

अन्नेक—वि० (सं० अन्यैक) कोई दूसरा; तुल० म० आणीक; (भ०) ।

अन्न—पुं० (सं० अन्नम् > प्रा० अण्ण न०) आज, चावल, जौ आदि धान्य; (उ० व्य० प्र० ६-१५; जंबु० १०, १२, १०) ।

अन्नह—अव्य० (सं० अन्यथा > प्रा० अण्णह) अन्य प्रकार से, विपरीत रीति से; “अन्नह कह एरिस कन्न महायस अस-रिसु कइय वि वरु वरइ,”; (विला०) ।

अन्तर्हिं^(१)—प० (सं० अन्तस्मिन्) में, भीतर ।

अन्तावली—स्त्री० (सं० अन्तावली) अंतड़ी; (की० ४, १६६) ।

अन्धार—पुं० (सं० अन्धकार > प्रा० अंधार) अंधेरा; तुल० गु० अंधार; (की० ४, १६; प० च० ७।३।८) ।—य, अंधकार; (प० च० ६, ६, ६) ।

अन्धारिअ—वि० (सं० अन्धकारित् > प्रा० अंधारिअ) अंधकार वाला, तुल० गु० अंधारबु; (प० च० ७।२।३) ।

अपजस—पुं० (सं० अपयज्ञ) अकीर्ति; (की० ४, ६६) ।

अपडिबद्ध—वि० (सं० अ+प्रतिबद्ध > प्रा० अपडिबद्ध)—प्रतिबन्ध-रहित, बेरोक; (ण० ४, ४, ६) ।

अपर्णी—वि० (सं० आत्मीय > प्रा० अप्पण) अपनी, स्वकीय; (उ० व्य० प्र० ५२-१६)—

अपत्त—वि० (सं० अपात्त) कुपात्र; (जस० १, १६, ७) ।

अपथिय—वि० (सं० अप्रथित) जो प्रार्थित न हो; (भ०) ।

अपन—निज वाचक सर्व० (सं० आत्मन् > प्रा० अप्पण) अपनी; (भ०) । अप-नेहु—सर्व०—अपना भी (की० ३, ३६) ।

टि०—संस्कृत के आत्मन् से अपभ्रंश में अप्प निजवाचक सर्वनाम बनता है ।

अप्पा, अप्पण, अप्परणु, अप्पारणु, अप्पउ इत्यादि रूपों में भी इसका प्रयोग प्राप्त होता है ।

अपमत्त—वि० (सं० अप्रमत्त > प्रा० अप्पमत्त, अपमत्त) प्रमाद-रहित; (भ०) ।

अपमाण—वि० (सं० अप्रमाण > प्रा०

अपनाण) असीम, अपरिमित; “एस्यत्वि
पिहरभ द्वयपहाराण् विजयद्, पसिद्धल
अप्पमाणु” —इत्ती भारत देश में पर्वतों
में प्रधान, प्रसिद्ध और असीम विजयाद्
पर्वत है; (क० २, २, १) । अप्पमाच
(क० २, २, १) ।

अपरजिजय—वि० (सं० अपराजित >
प्रा० अपराइय) अजेय, जो जीता न
गया हो; (भ०) ।

अपरपाक्ष—पुं० (सं० अपर पक्ष) श्राद्ध
पक्ष; (प्रा० गु० २८, ७) ।

अपवग्न—पुं० (सं० अपवगं > प्रा०
अपवग) —मोक्ष, मुक्ति; (भ०) ।

अपह—वि० (सं० अप्रप > प्रा० अपह)
निस्तेज; (दे० ना० मा० १, १६४) ।

अपहृत्य—पुं० (सं० अपहस्त > प्रा०
अपहृत्य, अवहृत्य) मारने के लिए या
निकाल बाहर करने के लिए ऊंचा
किया हुआ हाथ, (भ०) । क्रि० (सं०
अपहस्त्य > प्रा० अवहृत्य) हाथ को
ऊंचा करना ।

अपाव—वि० (सं० अ+पाप > प्रा०
अपाव)—१. पाप-रहित; २. न०—पुण्य;
(ग० २, ३, १२) ।

अपावस—पुं० (सं० अ+प्रावृष) वर्षों
काल न होना; (जं० ४, ८, १३) ।

अपामन—वि० (सं० अपावन) अपवित्र;
(की० २, ३७) ।

अपायड—वि० (सं० अप्रकट > प्रा०
अ+पयड) जो प्रकट न हो (जस०) ।

अपार—वि० (सं० प्रा० अपार) अनन्त,
पार-रहित; (भ०) । अपारु—वि०,
अत्यधिक; (प्रा० पै० १, १०२) ।

अपारमग—पुं० (दे०) विश्रान्ति;
(दे० ना० मा० १, ४३) ।

अपाव—वि० (सं० अपाप > प्रा०
अपाव) पाप-रहित; (भ०) ।

अपास—वि० (सं० अस्पृष्ट) अप्रभावित
“जय पास अपास जपंगदाह” —अनङ्ग
की दाह से अस्पृष्ट पार्वनाथ की जय
हो; (व० १, १६, १) ।

अपिच्छण्डिज्ज—वि० (सं० अप्रक्षणीय)
जो विचारणीय या देखने के लिए उपयुक्त
न हो; (भ०) । अपिच्छमाण—कृ० (सं०
अप्रक्षमाण); (भ०) ।

अपुज्ज—वि० (सं० अपूज्य) जो आदर-
णीय न हो, (भ०) ।

अपुसिय—वि० (सं० अ+प्रोञ्छित)
अमाजित, (ग ५, १०, २१) ।

अपूर—वि० (सं० अपूर्ण > प्रा० अपुण्ण)—
अधुरा, अपरिपूर्ण; तुल० गु० अपूर्ण, (प०
च० ४१, २, ७) ।

अपेय—वि० १. (सं० अपेत = गत
इत्यर्थः) गया हुआ; (जस०); २. (सं०
अपेय) न पीने योग्य; (जस० ४, १४, ६;
जं० १, ६, १०) ।

अप्प—सर्व० (सं० आत्मन् > प्रा० अप्प)
निज, स्वयं; (जस० १, ६, ८; की०
२, २, ११८)—अ, सर्व० अपना (जस० २,
११, ३)।—उ, सर्व० अपने आपको (सि०
३६, १) ।—कज्ज पुं० (सं० आत्मकायं)
(ग० ६; १७, ३८) ।—गड—सर्व० अपना
सि० २, ७, १४) ।—न सर्व० अपना (की०
४, १४६) ।—वत्त वि० अपने वश में
(की० १, ७४) । अप्पुण—सर्व० स्वयं;
तुल० गु० म० आपण (प० च० ५, १४,

५, १४, १४, १४) ।

४) । अप्पुणु—सर्वं (प० च० २२, ३, ६; क० ४, ३, ४) । —हिउ पु० (सं० आत्म-हित) अपना हित; (यो० ४६) ।

अप्प—(सं० अर्पय्) अर्पित करना; इ (जंबू १, ११, २०) । अप्पंत—कृ०

(सं० अर्पय+शतृ) (जंबू० ८, १४, ६) । अप्पहि—क्रि० आ० (सं० अर्पय) अर्पित

करो; (क० ३, ४, ७; की० ४, ३) । अप्पिआ—क्रि० भू० का०, अर्पित किया

(की० ३, ७६) अप्पिवि । पु० का० क्रि० (क० २, ६, ५) । अप्पेवि, पु० का० क्रि०

तुल० गु० आपवुं (प० च० १६, ११, ३) ।

अप्पज्जत्ता—वि० (सं० अपर्याप्तिक) जैनशास्त्रानुसार वह पाप कर्म जिसके

उदय से जीव की पर्याप्ति, (निवारण, पूर्णता न हो; (व० १०, ५, १२) ।

अप्पड्ढिम—वि० (सं० अप्रतिम > प्रा० अप्पड्ढिम) असाधारण; (महा० ६८, ३) ।

अप्पणउ—सर्वं (सं० आत्मीयम्)—स्व-

कीय; (प्रा० गु० ३८, २४) । अप्पणत्त-
पुं० अपनत्त्व (जंबू० १०, २३, ५) ।

अप्पणय—सर्वं (सं० आत्मन् > प्रा० अप्पण) स्वकीय, निज का; "जं अबुहु

पदरिसिउ अप्पणउ,—"और अपना अज्ञान प्रदर्शित किया है; तुल० गु०

आपणुं; (प० च० १।३।१२) । अप्पणु—निज वाचक सर्वं, सम्बन्ध

कारक; (हे० ३३७, १) । अप्पाणु सर्वं (सं० आत्मानम्) (प० च० २३, ५, २) ।

तुल० म० आपण । अप्पणा—सर्वं (सं० आत्मन् > प्रा०

अप्पण) अपना; (हे० ३३८, १) । अप्पणि-वि०, स्वकीय (संधि० १६, १०, ३) ।

अप्पणिय-सर्वं अपना (प० च० १२, ४, ४) । अप्पणीय-वि० स्वकीय

(सि० १, ३१) । अप्पाण—सर्वं, अपना (पाहु० ३३) । अप्पुणहु—सर्वं, अपना

(सुअंघ० २, २, १६) । अप्पमत्त— वि० (सं० अप्रमत्त > प्रा०

अ+पमत्त) जो प्रमादी या प्रमाद-युक्त न हो; (जस० ४, १६, १६) ।

अप्पमाण—न० (सं० अप्रमाण > प्रा० अपमाण) झूठा, असत्य; (प० च०

१०।६।५) । वि० असीम (जंबू० ५, ३, ३) ।

अप्परुविय—वि० (सं० आत्मरूपित)-
आत्मरूप, "अप्पाणे जिज अप्परुवियमणु"

आत्मा में ही आत्म-रूप होकर; (जंबू० १०, २३, ६) ।

अप्पलद्धि—स्त्री० (सं० आत्मलब्धि > प्रा०

अप्पलद्धि) आत्म-प्राप्ति या लाभ; (ण० ३, २, ६) ।

अप्पवह—पुं० (सं० आत्मवच > प्रा० अप्पवह) आत्मघात; आत्महत्या; (जस०

२, १४, ६) । अप्पसणु—वि० (सं० अप्रसन्न) नाराज,

"हउ अप्पसणु मुह एत्थु जेण"— मैं यहाँ अप्रसन्न-मुख हूँ; (व० ३, १६, २) ।

अप्पसत्तु—वि० (सं० आत्मसत्तु) आत्मा-
भिमानी; (व० ५, ११, ४) ।

अप्पसमाण— वि० (सं० आत्मन् + समान) आत्म सद्म; (व० २, ११, १) ।

अप्पसाय— पुं० (सं० अप्रसाद > प्रा० अ+पसाय) अप्रसन्नता; (झ०) ।

अप्पा— सर्व० (सं० आत्मन् > प्रा० अप्प) — १. आप; (ण० १, १०, ६) । २. स्त्री० (सं० आत्मन्) आत्मा, जीव; (परम० १, १, ५१) । ३. सर्व०, अपना (की० ४, १७६) । —अप्पी—सर्व०, अपने आप; (प्रा० पै० २, १५७) । —ण, सर्व०, अपना । —णय—सर्व०, स्वयं (प० च० १, १, १६) । अप्पाण—सर्व० (सं० आत्मन्)—अपना, म० आपणु (भ०) । अप्पु—सर्व०, अपना (की० ३, ८०) । अप्पुणु— सर्व० अपना (जस० १, ५, १७) । अप्पाइत्तउ—वि० (सं० आत्माधिकृत) अपने ऊपर अधिकार, 'किंकरु होइ न अप्पाइत्तउ', (व० ४, २४, १३) । अप्पाणअ—सर्व० (सं० आत्मनः)—निज, अपना; (जंबू० ६, ५, ११) । अप्पिण— सक० (सं० अर्पय्)—अर्पण करना; अप्पिवि—पू० का० क्रि० सौंप कर "रायहोँ धुर अप्पिवि सुअहोँ जाउ', —राज्य का भार सौंप कर निश्चिन्त हो गया, (व० १, १२, १) । अप्पिय— वि० (सं० अपित > प्रा० अप्पिय) भेंट किया हुआ; (ण० ७, ८, ३) । अप्फालइ—क्रि० (सं० आ+स्कालय् > प्रा० अप्फाल, अप्फालेइ) १. हाथ से आघात करना, २. पीटना, ३. ताल ठोकना; (प० च० २८, ६, ७; भ०); अप्फालउ—वर्त० उत्तम एक व० (सं० आस्कालयामि)हिला डालू; (प्रा० पै० १, १०६) । अप्फालहिव०, म० पु० (प० च० ५५, २, ७) । अप्फालमि व० उ० पु० (प० च० ४, १२, २) । अप्फालिवि—

पू० का० क्रि०, हाथ फटकार कर "कर अप्फालि विविण्णिवि धाइय"— हाथ फटकारते हुए दोनों दौड़े; (सि० २, २४, २) । अप्फालिय—वि० (सं० आस्कालित प्रा० अप्फालिय) १. जोर से, उन्नत स्वर में; "दुंदुहि अप्फालिय केहिँ फार"—किन्हीं ने जोर से दुन्दुभी वजायी; (क० ४, ११, ५) । २. हाथ से ताडित, आहत (प० च० २, ४, १) । क्रि० भू० का०—(सं० आस्कालय > प्रा० अप्फालय), वज उठे, तूरभेरि अप्फालिय"—तूर्य नगाड़े वज उठे; (सि० १, १८, १२) । अप्फुणं—वि० (सं० अपूर्ण > प्रा० अप्फुण्ण) अधूरा; (दे० ना० मा० १, २०) । अबद्ध—वि० (सं० अबद्ध) जो बंधा न हो, मुक्त; (जंबू० १०, ५, १) । अबल—वि० (सं० अबल) बल-रहित; (जंबू० ११, ७, ५) । अवाहि—वि० (सं० अवाध) निर्वाध, अखंड; (जंबू० ३, १०; ४) । अबुद्धसिरी—स्त्री० (दे०) इच्छा से भी अधिक फल की प्राप्ति; (दे० ना० मा० १, ४२) । अवे—अव्य० (सं० अवि) अवे (गाली), अरे, (बहुत छटे या हीन व्यक्ति के लिए) संवोधन; (की० २, १७०) । अब्वेज्ज^(१)—(पूर्वी अप०) स्त्री० (सं० अविद्या) अविद्या । अव्वंभण—पुं० (सं० अब्रह्मण्य) अब्रह्म, ब्राह्मण के अयोग्य कर्म, हिसादि; "तह अव्वंभण कहिँ मि ण माइय"—अब्रह्म के अनेक भेद तो कहीं समाते भी नहीं थे, (म० १, ३३, १२) ।

अव्बुइ—पुं० (सं० अव्बुद) आवू जो जैतों का तीर्थ स्थान है; (प्रा० गु० २४) ।

अव्बुय—पुं० (सं० अव्बुद) आवू पर्वत; (जंबू० ६, १६, ६) ।

अव्वो—अव्य० मातृ (सम्बोधने) (सुदं० ८, ६, १०) ।

अव्वंनिड—क्रि० विध्यर्थक (सं० अभ्यक्त) —मालिश करो; (जस० २, ११, ६) ।

अव्वंतर—न० (सं० अभ्यंतर > प्रा० अव्वंतर) भीतर, भीतरी भाग; तुल० गु० भीतर; (जंबू० ३, २, ४) । अव्वंतर (क० ५, ३, २; जस० ३, २१ १८) ।

अव्वंतरउ—वि० (आम्यन्तरिक) आंतरिक; (जंबू० १०, २३, ८) ।

अव्व—न० (सं० अब्भ > प्रा० अव्व) आकाश; (व० ६, १०, १६) ।

अव्वइय—वि० (सं० अभ्यधिक > प्रा० अव्वहिय) विशेष, ज्यादा; (प० ष० २६, ५, ५) ।

अव्वइण—न० (दे०) अपयश; (दे० ना० मा० १, ३१) ।

अव्वइण—न० (सं० अभ्यर्थन) सरकार, अभ्यर्थना, प्रार्थना; (जंबू० १, २, ६) ।

अव्वइण्य—वि० (सं० अभ्यर्थित > प्रा० अव्वइण्य) प्रार्थित; (क० ७, १४, ६) ।
—उ वि०, अभ्यर्थित; (रि०, चतुर्थ सर्ग) ।

अव्वइण्य—पुं० (सं० अब्भपिशाच) राहु; (प० च० २८, ११, ३; दे० ना० मा० १, ४२) ।

अव्वसह—क्रि० विध्यर्थक (सं० अभि + √अस् अध्ययने)—अभ्यास करो; (जस० ४, ६, ६) ।

अव्वरहुल्ल—वि० (सं० अभ्यर्हणीय) सम्माननीय, आदरणीय; (भ०) ।

अव्वस—(सं० अभि + अस् > प्रा० अव्वस) अभ्यास करना ।—इ सक० (जंबू० २, २०, २) ।

अव्वसिय—वि० (सं० अभ्यस्त > प्रा० अव्वसिय, सीखा हुआ, जिसका अभ्यास किया गया हो; (प० ३, १, ७) । अव्वसियअ—वि० (जंबू० ४, ६, ६) ।

अव्वसिह्र—वि० (सं० अभ्यधिक > प्रा० अव्वसिह्रिय) विशेष; ज्यादा; (सुदं० ३, ५, ४) ।

अव्वभा—पुं० (सं० अब्भ > प्रा० अव्वभा) मेघ, बादल; (हे० ४४५, १) ।

अव्वभायत्त—वि० (दे०) प्रत्यागत, वापिस आया हुआ; (दे० ना० मा० १, ३१) ।

अव्वभास—न० (सं० अभ्यास > प्रा० अव्वभास) बार-बार किसी कार्य को करना; (भ०) ।

अव्वभासइ—सक० (सं० अभ्यासयति, अभि + √अस् > प्रा० अव्वभास) अभ्यास करना; (भ०) ।

अव्वभासओ—वि० (सं० अभ्यस्त) अनुभूत, जिसका अभ्यास किया गया हो, (विला०) ।

अव्विभट्ट—वि० (दे०) सामने आकर भिड़ा हुआ; (प० च०) । क्रि० सामने आकर भिड़ना ।—अक० इ (जंबू० ६, १, ८) ।

अव्विभङ्ग—अक० (प्रा० अव्विभङ्ग, अविभ-

डइ = मिलना) भिड़ना (encounter)
(जस० २, ३२, १; प० च० ४६, ५,
१) ।—इ, कि० मिलना, संगति करना
(प० च० १७, १) । —उ कि० भू०
का०, भिड़ गया, "रणि अब्भडिउ", युद्ध
में भिड़ गया; (सि० १, २७) ।

अभिहित— वि० (दे०) १- समागत,
(क० ३, १६, २; ण० ८, १५, ६; हे०
प्रा० ४, १६४) । २- संगत (दे० ना०
मा० १, ७८) । ३- मजबूत (दे० ना०
मा० १, ७८) ।

अभ्युत्थान—पुं० (सं० अभ्युत्थान) उन्नति,
सम्पन्नता; (भ०) ।

अभ्युद्धर— (सं० अभ्युद्ध + घृ > प्रा०
अब्भुद्धर) उद्धार करना ।—इ, सक०
(भ०) ।

अभ्युद्धरण— न. (सं० अभ्युद्धरण प्रा०
अब्भुद्धरण) उद्धार; (भ०) ।

अभ्युत्थ— वि० (सं० अद्भुत > प्रा०
अब्भुत्थ) आश्चर्य-कारक; (जस० १, १८,
३०; ण० ६, १५, ८) ।

अभंग—वि. (सं० अभङ्गिण) न टूटने
वाला; (जस० १, १८, ४) ।

अभउ—कि० (सं० अ + भू, अभूतः) हुआ;
(जंबू० ३, ५, ११) ।

अभय— वि० (सं० अभय > प्रा०
अ + भक्ख) न खाने के योग्य; (भ०) ।

अभगु—वि० (सं० अभग्न > प्रा०
अभग्ग) अखण्डित; (जस०; भ० च०) ।

अभय— वि० (सं० प्रा० अभय) निर्भय;
(प्रा० पै० १, १११) । — दाणु न०
अभयदान (व० ३, १६, १) ।

अभयवि— वि० (सं० अभय > प्रा०
अभयि, अभव्व) असुन्दर, अचारु; (व०
१०, २०, १६) ।

अभाव— पुं० (सं० प्रा० अभाव)
अविद्यमानता; (जंबू० १०, ३, ६) ।

अभाग—पुं० (सं० अभाग्य) दुर्भाग्य,
(की० २, २३६) ।

अभिज्ज—वि० (सं० अभेद्य) जो टुकड़े-
टुकड़े न किया जा सके, जो वेधा न जा
सके; (व० ५, १५, ५) ।

अभिणउ— पुं० (सं० प्रा० अभिणय)
शारीरिक चेष्टा द्वारा हृदय का भाव
प्रकट करना; (प्रा० पै० २, ४८) ।

अभिणपुड— पुं० (दे०) खाली पुड़िया
जिसे बच्चे हँसी-दिल्ली रास्ते पर
वाजार-मार्ग में रख देते हैं; (दे० ना०
मा० १, ४४) ।

अभिमत— वि० (सं० अभिमत) इष्ट,
वांछित । पुं० मत, विचार (प्रा० पै०
२, १३८) ।

अभीअ— वि० (सं० अभीत) निडर;
(जस० १, ५, १७) । अभीओ-वि०
निर्भीक; (व० ४, ५, १) ।

अभीर— वि० (सं० प्रा० अभीर)
निर्भीक शूरवीर (व० ६, १६, १४) ।

अभीस— वि० (सं० अ + √ भेष् =
डरना, अस्त होना) निर्भय; (व० ४, ३,
२) ।

अभुत्तउ— वि० (दे०) अचूक, न धूलने
वाला (जस० ४, २४, १) ।

अभेय—वि० (सं० अभेद) अभेद्य; (प०
च० १५, १० ७)

अमंगल— न० (सं० अमङ्गल) अशुभ;
(जस० ३, ६, १२) ।

अमणोज्ज—वि० (सं० अमनोज्ज)-
असुन्दर, "कि अंतेउर अमणोज्जु जाउ"
क्या अन्तःपुर अमनोज्ज हो गया; (जस०

२, १२, १३) ।

अमरग—पुं० (सं० अमार्ग, कुमार्ग, खराव रास्ता; (भ०) ।

अमणूस—पुं० (सं० अमनुष्य) मनुष्य-भिन्न; (भ०) ।

अमय—न० (सं० अमृत > प्रा० अमय ।

अमयणिग्गम—न० (सं० अमृतनिर्गम)—चन्द्रमा; (दे० ना० मा० १, १५) ।

अमयवाह—पुं० (सं० अमृतवाह)—चन्द्रमा; (प० च० २५, १३, ८) ।

अमयासण—पुं० (सं० अमृताशन)—देवता; (व० १०, २२, ५) ।

अमरकोशु—पुं० (सं० अमरकोश) अमरकोश नामक संस्कृत का कोश; (सि० १, ७) ।

अमरगय—पुं० (सं० अमर+गज) ऐरावत; (जंबू० १, ११, ३) ।

अमरगिरि—पुं० (सं० प्रा० अमर-गिरि) मेरु पर्वत; (व० ७, १, ३) ।

अमरणियर—पुं० (सं० अमरनिकर)—देव समूह; (जस० १, २, ११) ।

अमरत्त—पुं० (सं० अमरत्व) अमर होना (जस० १, ७, १३) ।

अमरपुरसुन्दर—पुं० छन्द; (सुदं० ६, १०, १३) ।

अमरालय—पुं० (सं० अमरालय) १. स्वर्ग लोक; (व० १०, ३०, ७) । २. सुमेरु पर्वत (व० ७, ६, २) ।

अमर—पुं० १. छप्पय छन्द का भेद, (प्रा० पं० १, १२३) । २. देव; (व० २, १६, १२) ।

अमल—वि० (सं० प्रा० अमल) १.

निर्मल; (जस० ४, ११, १२) । २.

यथार्थ रूप में; (व० १०, ३, ३) । -

कित्ति-स्त्री० अमल कीर्ति; (व० ४,

१२, १३) ।—मइ-वि० (सं० अमल+

मति > प्रा० अमल+मइ) निर्मल बुद्धि-

वाला, (सि० २, ६) ।

अमलिय—वि० (सं० अमलिन > प्रा०

अ+मलिण) निर्मल; (जस० ४, ११

१२) ।

अमाण—वि० (सं० अमान > प्रा०

अमाण) १. अमाप, अतन्त, असंख्य;

(म० २, ७, ७) । २. मानरहित; (जस०

१, १८, २६) ।

अमाया—स्त्री० (सं० अमाया) कपट-

ज्ञान्यता, ईमानदारी, निष्कपटता;

(भ०) ।

अमारिअ—वि० (सं० अ+मारित)

विना मरा हुआ; (अर्थात् मृत्यु से बच-

कर) 'एवहिं कहिं जाहि अमारिअ';

(जंबू० ७, ६, ३६) ।

अमिअ—न० (सं० अमृत > प्रा०

अमिय) अमृत, (की० १, २०) ।

अमिअ—न० अमृत; (प्रा० पं० १, ६७) ।

अमिय (क० २, १५, ६) ।—हलु

अमृतफल; (सि० १, १५) । अमिअ

(सा० २) । अमिय; (वा० १, ६) ।

अमित्त—पुं० न० (सं० अमित्त > प्रा०

अमित्त) रिपु, दुश्मन; (जस० ३, १२

१०) ।

अमियकित्ति—पुं० (सं० अमितकीर्ति)-

मुनिराज; (व० २, ८, ३) ।

अमियतरु—पुं० (सं० अमृततरु)-

चन्द्रमा, (प० च० २७, १०, ६) ।

अन्वियतेय—पुं० (सं० अभितेज) अर्क-
कीर्ति का पुत्र; (व० ६, ७, ७) ।

अमियप्पह—पुं० (सं० अमृतप्रभ) मुनि
विशेष; (व० २, ८, ३) ।

अमिय बुठ—पुं० (सं० अमृत वृष्टि)
अमृत की वर्षा; (प्रा० गु० १०, ४०) ।

अमियालय—पुं० न० (सं० अमृता-
लय > प्रा० अमयालय) स्वर्ग; (प० च०
१८। २। ३) ।

अमियासन—पुं० (सं० अमृताशन) देव;
(व० ७, ६, ६) ।

अनुश्क—वि० (सं० अ मुक्त्त) युक्त;
(जंजू० ३, १०, ३) ।

अमुणिय—वि० (सं० अज्ञात > प्रा०
अणाय, अविदित; (प० च० ८। ६। ४) ।

अमुण्णंत-कू० (सं० अ+ज्ञा+
शतृ) नजानते हुए; (जंजू० ७, ११,
१३) ।

अमेय—वि० (सं० अमेय) १. असीम,
२. अचि त्त्य; (क० ७, ५, ६) । अमेय-
वि० (सं० अमेय) अज्ञेय; "अनियवइ
चित्तामणि अमेय, मानों अज्ञेय चित्ता-
मणि के समान; (व० १, ३, १३) ।

अमोह—वि० (सं० अमोघ) अचूक,
निभ्रान्त, अव्यर्थ; (भ०) । -उ, वि०-
प्रचुर, (जंजू० १, १३, ७) ।

अमोहु—पुं० (सं० अमोघ) अमोघ
(शक्ति) "गय-लंगलु मुसलु अमोह मुहुं
देवयाइ वलहइ (हो) । दिण्णइ विजय-
हो विजयहो कएण णव-णीरहइ णिण-

हुहो" देवों ने नवीन नीरधर-मेघ के
समान गर्जना करने वाले बलभद्र-विजय
को उसकी जीत हेतु गदा, लांगल, मुसल
और अमोघमुखी शक्ति दी; (व० ५, ६,
१५) ।

अम्बर—न० (सं० अम्बर > प्रा०
अंबर) वस्त्र; (की० २, २१६) ।

अम्म—स्त्री० (सं० अम्बा > प्रा०
अम्मा) अम्मा, माता; (जस० ण० ३, ६,
१६) । अम्माएवि -स्त्री० अम्बा देवी
(मातेत्यर्थ) (जस० २, १६, ६) । अम्मा

पिइ—अम्बा-पितृ, (प्रा० गु० २, १, ८) ।

अम्मि-स्त्री० अम्ब (संबोधने) (जस० २,
१६, ३; हे० ३६५, ५) । -पिइ, पुं०

(सं० अम्बा+पितृ) माता-पिता; (संघि
६, १, ८) ।

अम्मत्तिय—वि० (सं० उन्मत्तिका)— १.
मदमाती, नशे में चूर, २. पागल, ३,
अकड़ा हुआ ।

अम्माइआ—स्त्री० (दे०) अनुसरण
करने वाली स्त्री; (दे० ना० मा० १,
२२) ।

अम्माहीरउ—पुं० (दे०) लोरी, स्वा-
पिका (lullaby) "अम्माहीरउ गेउ
भुणिज्जइ"; (प० च० २४, १३, ८) ।

अम्वेअल—पुं० (दे) १. आमेल,
आमेलग अथवा आमेलय नाम का
शिरोभूषण, २. जूड़े के ऊपर बांधी जाने
वाली माला (रा० २०) ।

अम्हें, अम्हां—सर्व० (सं० अस्माकम्)
हमें ।

अम्ह—सर्वं (सं० अस्मद् > प्रा० अम्ह) हम (उ० व्य० प्र० २१-६;) । इ-सर्वं०, न०, व०, (सं० अस्माकम्) हम (हे० ४, ३७६; की० ३, १३४) —तौ (सं० अस्मद्) (उ० व्य० प्र० १४-२८ १४-२६) । टि०—अपभ्रंश में अस्मद् शब्द का पंचमी और षष्ठी की बहुवचन-विभक्ति के साथ 'अम्हहँ' आदेश होता है, (हे० ३८०) । अम्हाणजं—सर्वं० (रा० १०) । अम्हणिओ—सर्वं० (प्र० चि०), अम्हाराइ (रा० २८) । अम्हारे—सर्वं० (रा० २०) । टि०—अपभ्रंश में सं० अस्मद् का एक व० में हउं, हउ और व० व० में अम्हे, अम्हइं शेष रहा ।

अम्हहँ—सर्वं० (सं० अस्मद् > प्रा० अम्ह) हमारे; (व० २, १, ८) । अम्हाण—सर्वं० (सं० अस्माकम्) हमारा; (जबू ७, ३, ८) । अम्हेत्य-सर्वं० हमारे लिए; (व० ६, १७, ८) ।

अम्हार—सर्वं (सं० अस्मदीय) 'हम' का सम्बन्ध कारक रूप हमारा; (म० १, २५, ११; उ० व्य० प्र० १६, २०) । उ, सर्वं० (अस्मत्कार्यकः) हमारा, (सि० २, १६) अम्हारी—(ण० ३, १३, ३) —अम्हारे अम्हारा; (हे० ३४५, १) । -सर्वं० मेरे (सि० १, २२, ७) । अम्हे—सर्वं० (वै० सं० अस्मे) (उ० व्य० प्र० १४-२७, हे० ३७६, १) ।

अम्हारिस—वि० (सं० अस्माद्दश > प्रा० अम्हारिच्छ) हमारे जैसा; (ण० २, ४, ३; प० च० ६। ६। ८) । अम्हेत्य हमारे लिए ।

अयंग—वि० (सं० अचङ्ग) अचार; (म०) । अय—पुं० (सं० अज = ब्रह्मन्) ब्रह्मा; (जस० २, ३०, ६, ण० ६, ७, ५) । वि० (सं० अति) बहुत; (व० ८, २, ५) ।

अयवक, अयग—पुं० (दे०) दानव; (दे० ना० मा० १, ६) ।

अयजण—पुं० (सं० अजयज् > प्रा० अज, अय + जण्) अजयज; (सि० १, ६) ।

अयट—पुं० (सं० अवड) कूप, कुआ; (दे० ना० मा० १, १८) ।

अयर—पुं० (सं० अगर) अगर लकड़ी; (जं० ६, १२, २) ।

अयस—पुं० (सं० अयशस् > प्रा० अयस, अजस) अपयस, अपकीर्ति, (प० च० ११, ८, ११) ।

अयाण—वि० (सं० अज्ञान) अज्ञानी, (दे० ना० मा० ७, ७३; हरिवंशपुराण ५१। ७) । अयाणा—वि०-अज्ञानी (क० ८, ४, ७) । वि०-मूर्ख "किउ मंतु सवु कूडहँ अयाण"—उस मूर्ख सेठ ने सब प्रकार कूट मन्त्रणा की; (सि० २, २, १) । तुल० गु० अजाण अजाण्यु ।

अयाल—पुं० (सं० अकाल > प्रा० अयाल) अनुचित काल; (ण० ३, ३, १२) ।

अयालि—पुं० (दे०) दुर्दिन, मेघाच्छन्न दिवस; (दे० ना० मा० १, १३) ।

अर—पुं० (सं० अर) अठारहवें तीर्थङ्कर का नाम; (जस० १, २, ६) ।

अरणइ—स्त्री० (सं० अरति) असुख; (प्रा० गु० ११, ६) ।

अरण्य—न० (सं० अरण्य > प्रा० अरण्य) वन, जंगल; (प० च० ५। ४। २) । अरन्

(भ०) ।

अरमाहर—वि० (सं० अरमा (अलम्भी) +हर) द्वाविद्रय नाश; (जस० १, २, ६) ।

अरल—न० (दे०) कौट-विशेष, मच्छर; (दे० ना० मा० १, ५३) ।

अरविद—न० (सं० अरविन्द > प्रा० अरविद) कमल; (जस० ४, २१, ६) ।

अरविबर—वि० (दे०) दीर्घ, लम्बा; (दे० ना० मा० १, ४५) ।

अरहंत—वि० (सं० अहंत > प्रा० अरहंत) पूजा के योग्य, पूज्य; (जस० २, १, १; ण० १, ५, ६) । अबलि (अरहंताबलि) अहंदावली; जिननामावलि; (जस०) । अरहंतु-पुं० (सं० अरहयत्) बौद्ध या जैन आचार्य, (भूल अर्थ योग्या-धक या) (भ०) ।

अरहट्ट—पुं० (सं० अपघट्ट > प्रा० अरहट्ट) अरहट, पानी निकालने का यन्त्र-विशेष; (प० च० ३१, ६, ८) ।

अराहन्न—वि० (सं० अरात्रिण) रात्रि को न जानने वाले (निशाचर; (भ० ५, १७, १) ।

अराहन्नख—पुं० (सं० अराति + पथ) शत्रु पक्ष; (प० च० १६। १४। ३) ।

अराय—पुं० (सं० अ + राग) प्रेम अथवा हर्ष या प्रियता रहित; (प० च० १। २। ८) ।

अराहियउ—क्रि० (सं० आराधितवान्) आराधना की; (की० ३, ६) ।

अरि—पुं० (सं० प्रा० अरि) दुश्मन; (प० च० ४, १४, ७) । —उर पुं० नगर का नाम (भ०) । —खय पुं०,

(सं० अरिखय) शत्रु का नाश (सि० २, २०) । -गणु पुं० शत्रुजन (व० २, २, १०) । -दमण पुं०; एक राजा का नाम (ए० ४, ७, १४) । -नयरं पुं० नगर का नाम (भ०) । —वम्म पुं० (सं० अखिमन्) राजा-विशेष, (ण० ७, ४, ५) । -हु पुं० (सं० अरि + हन्तृ > प्रा० अरिहंत) जिन-देव; (व० ६, १६, ६) ।

अरिट्ठ—पुं० (सं० अरिष्ट = अशुभ) अरिष्टा नामक नरक; (व० १०, २१, १३) । —उर (सं० अरिष्टपुर) नगर-विशेष; (प० च० ३३, ६, २) ।

अरियाणु—पुं० (सं० अरि + स्पान) शत्रु-स्पान; (क० ३, १५, ७) ।

अरिमहणु—पुं० (सं० अरि + मयन) शत्रु-विनाशक; (क० ५; १३, १०) ।

अरिरामणु—पुं० (सं० अरि + राजन् प्रा० अरि + राय) शत्रु राजा; (की० ४, ५६) ।

अरिविदु—पुं० (सं० अरविन्द) अरविन्द नाम का राजा; (क० २, १६, ३) ।

अरिहंत—वि० (सं० अहंत) पूजा के योग्य, पूज्य; (भ०) ।

अरिह—पुं० (सं० अहंत) तीर्थंकर, जैनियों के पूज्य देवता; "तिय-लौय झाएह अरिह"; (संघि० १०, ५, २३) ।

अरोस—पुं० (सं० अरि + ईश > प्रा० अरि + ईस) शत्रु राजा; (ण० ६, १३, १५) ।

अरु—संयो०, १. और; (सि० १, १०; की० ३, १६) । २. वि० (सं० अपरं) दूसरा; (संवि० १, १२, ६) ।

अरुज्जाल—वि० (पं० रुव > प्रा० रुज्ज) उलझी या अरुभी हुई; “अरुज्जाल अन्तावती जाल वद्धा”; (की० ४, १६६) ।

अरुण—न० (दि०) कमज; (दि० ना० मा० १, ८) । —त्त-पुं० अरुणत्व (जंजू० ६, ६, १) । —भानु पुं० (सं० अरुणभास) द्वीप-विशेष; (व० १०, ६, ७) । —ार (सं० अरुणकर) सूर्य; (जस० २, १२, ३) ।

अरुणायवत्त—पुं० न० (सं० अरुणात-पत्र लाल छत्र; (जस० २, १२, ५) ।

अरुणिय—वि० (सं० अरुणित) लाल वर्ण का; (जस० ३, १, ६) ।

अरुधि—स्त्री० (सं० अवर्षट्टि) रूकावट, प्रतिबन्ध, याम, रोक; (उ० व्य० प्र० ५०-१) ।

अरुह—वि० (सं० अहंत् > प्रा० अरुह, अरुह) पूजा के योग्य, पूज्य; (प० च० २, ६, ६, ण० १, ५, ६) । —क्खर पुं० (सं० अहंत् + अक्षर) (जस० ४, २६, ६) । —णाह-पुं० (सं० अहंन्तनाय) अरुहनाय; (जंजू० ३, १३, ७) । —भक्त पुं० अहंत् + भक्त (जंजू० १, ११, ८) ।

अरुअ—वि० (सं० अरुप > प्रा० अरुव) रूप रहित, अमूर्त; (जस०) । अरुव (क० ५, ६, ५) । अरुवि—वि० (सं० अरुपित्) अरूप, (जस०) ।

अरुसरा—वि० (सं० अ + रोपण > प्रा०

अरोत्तग) गुह्यता-रहित; (ण० ३, ४, ४) ।

अरे—अव्य० (सं० अहो) निम्नांकित अर्थों को प्रकट करने वाला अव्यय १. (क) आश्चर्य, (ख) पीडाजनक आश्चर्य (ग) शोक या वेद, भिड़की । २. बुलाना (सम्बोधन) (उ० व्य० प्र० १६-३०) ३. संभाषण का (सूचक, की० २, ३१; रा० २१; प० च० ७, ७, २) । —रे सम्बोधने; (प्रा० पं० १, ६) ।

अरोचकु—पुं० (सं० अरोचक > प्रा० अरोच) रोग-विशेष; “अरु दाहु अरोचकु हुयउ तानु” —तथा उसे ज्वर एवं अरोचक दाह भी ही उठा, (क० ३, ४, ११) ।

अर्थी—वि० (सं० अर्थिन > प्रा० अर्थिय) १. प्राप्त करने की चेष्टा करने वाला, अभिलाषी, इच्छुक २. अनुरोध करने वाला, (उ० व्य० प्र० ५२-२३) ।

अलंकर—सक० (सं० अलं + कृ) भूषित करना । अलंकरेह—अलंकृत की जिएगा; (विला०) ।

अलंकरिय—वि० (सं० अलङ्कृत) विभूषित; (भ०) ।

अलंकार—पुं० (सं० अलङ्कार) भूषण, गहना; (जंजू० ४, १२, १२) ।

अलंकिअ—वि० (सं० अलङ्कृत > प्रा० अलंकिव) विभूषित, सुशोभित; (जस० ४, २४, २) । अलंक्रिय—वि०, —अलंकृत (भ०) ।

अलंघ—वि० (सं० अलङ्घ्य > प्रा० उल्लंघन करने की अशक्य, उल्लंघन करने को अयोग्य (भ०) ।

अलंघनपर—पुं० (सं० अलंघनगर)
 अलंघनगर, नगर-विशेष; (ण० ७, ११,
 १३) ।
 अल्प—पुं० (दे०) मुर्गा; (दे० ना०
 म० १, १३) ।
 अलम्बिनी—वि० (सं० अ+लम्+इरी)
 (तान्छीत्येस्त्रियाम्) न पा सकने वाली;
 (जंजू० ४, २१, १२) ।
 अलकतिलका—स्त्री०—मुख के अलंकरण
 विशेषक; (की० २, १३६) ।
 अलकवत्—वि० (सं० अलक्ष्य)—त्रो लक्ष्य
 में न आ सके; (भ०) ।
 अलकखण—पुं० न० (सं० अलक्षण >
 प्रा० अ+लकखण) वस्तु-स्वरूप-हीनता;
 —(जस० ३, १०, १) ।—उं वि० व्याक-
 रण से दून्य, कंइदूसगु कन्वु अलकख-
 णउं; (महा० ६६, ७, ३) ।
 अलक्षिय—वि० (सं० अलक्षित > प्रा०
 अलक्षिय) अज्ञात, अपरिचित; (भ०) ।
 अलग्नी—वि० (सं० अलग्न) बिना
 मिलाये, “जइ अहरअलग्नी पढहि गाह”
 —यदि तू अपने होठों को बिना मिलाये
 एक गाथा पढ़ दे, (क० २, १४, ५) ।
 अलज्ज—वि० (सं० प्रा० अलज्ज)
 निर्लज्ज; (भ०) ।
 अलज्जिय—वि० (सं० अलज्जित) जो
 लज्जित न हो; (प० च० ८। ३। ४) ।
 अलज्जर—वि० (सं० अलज्जालु > प्रा०
 अलज्जर) निःसंकोच, निर्लज्ज, (सं०
 रा० प्रकम १, छन्द १७) ।
 अलत्तउ—पुं० (सं० अलक्त) आलता
 स्त्रियां हाथ-पैर को लाल करने के लिए
 जो रंग लगाती हैं वह; (रि०, प्रथम

सर्ग) ।
 अलत्त—क्रि० (सं० उत्क्षिप् का घात्वा-
 देश अलत्तय) ऊंचा; फेंकना; (की० ४,
 ११५) ।
 अलद्ध—वि० (सं० अलद्ध) अप्राप्त;
 (जंजू० ७, ६, १८) ।
 अलमंजुल—वि० (दे०) आलसी; (दे०
 ना० मा० १, ४६) ।
 अलमलवसह—पुं० (दे०) उन्मत्त बँल;
 (दे० ना० मा० १, २५) ।
 अलय—न० (दे०) विद्रुम, प्रवाल;
 (दे० ना० मा० १, १६) । अलयावलि
 स्त्री० (सं० अलक+अवली) अलकें;
 (जंजू ४, १३, ३) ।
 अलयाउरे—स्त्री० (सं० अलकापुरी)
 नगरी-विशेष; (व० ३, १८, ८) ।
 अलयायनयरी—स्त्री० (सं० अलकानगरी)
 अलका नामक नगरी; (व० ४, ४,
 १३) ।
 अलसंत—न० (सं० आलस्य > प्रा०
 आलस्त) आलस, सुस्ती; “अलसंतेण
 पिसुराजणसंगं”—आलस करने व नीचे
 पुरुषों की संगति से; (ण० ३, २, २) ।
 अलस—वि० १. (दे०) कुसुम्भ रंग से
 रंगा हुआ, (दे० ना० मा० १, ५२) ।
 २. (सं० अलस) आलसी; तुल० गु० अळ-
 सियुं; (संधि० ११, ५, ४) । ३. प्रमा-
 दहीन, सौम्य; ‘जय अलस ससि किरण’,
 (व० ६, १५, ५) । पुं० आलस्य;
 (जंजू० १० २३, ४) ।
 अलहंत—कृ० (सं० अ+लभ+आन्
 (शानच्) प्राप्त न करते हुए; अलभमान,
 किसी वस्तु को प्राप्त होने के योग्य न
 होना; (क० २, १५, ६, भ०; प० च०

१।४।२) ।

अलहना—क्रि० (सं० अ+लभति > प्रा० अ+लभइ, अ+लहइ) कुछ नहीं पाना, (की० २, १३४) ।

अलहन्तु—क्रि० भू० का० (सं० अ+लभ > प्रा० अ+लह) प्राप्त नहीं हो सका; (प० च० १२।३।८) । टि०—अपभ्रंश में हेतहेतुमद्भूतकाल में 'न्त' का प्रयोग अवशिष्ट रहा है, जैसे करन्तु; मरन्तु ।

अलाव—पु० (सं० आलाप) बातचीत; (व० १०, ८, ८) ।

अलावणि—स्त्री० (सं० आलापिनी) आलापिनी वीणा; "रयणमँजूस अलावणि लावइ सेट्ठिहिणं हियवउ सल्लावइ" रत्नमँजूषा नामक स्त्री आलाप भरती, सेठ के हृदय में कराह उठती; (सि० १, ३८) ।

अलिगणु—पु० (सं० आलिङ्गन > प्रा० आलिगण न०) आलिगन, भेंट; (उत्तर-पुराण) ।

अलि—पु० (सं० प्रा० अलि) भ्रमर; (सि० १, ३३; जस० १, १७, १४; भ०) ।

अलिअ—न० (सं० अलीक > प्रा० अलिय) असत्य वचन; (ण० १, १५, १३) । अलिय—भूठ (भ०; सि० १, २४) अलियउ-भूठमूठ, (रि०, पाँचवा सर्ग) ।

अलिआ—स्त्री० (दे०) सखी; (दे० ना० मा० १, १६) ।

अलिआर—न० (दे०) दूष; (दे० ना० मा० १, २३) ।

अलिउल—पु० (सं० अलि+कुल >

प्रा० अलि पु०+कुल > उल न०) भौरों का समूह; (जस० ३, ३६, १) ।-य (प० च० १।१३।६) । अलिउलई-न० (हे० ३५३, १) ।

अलिण—पु० (दे०) विच्छेद; (दे० ना० मा० १, ११) ।

अलिमाला—स्त्री० (सं० अलिमाला) भ्रमर पङ्क्ति; (जं० १, ११, ६) ।

अलिय—वि० (सं० अलीक > प्रा० अलीग, अलीय, अलिय) अप्रिय, अरुचिकर; (जस० १, ६, १; प० च० ७।२।७) ।

अलियभासि—वि० (सं० अलीकभासिन् > प्रा० अलिय+भासि) झूठ बोलने वाला; (ण० ६; ८, २) ।

अलीड—वि० (सं० अलीक > प्रा० अलिय=निष्फल, व्यर्थ) व्यर्थ; (क० ६, २४, ४) ।-इंक्रि० वि०, शीघ्रता से, "तं अत्यागु अलीडं लंघिउ"; (भ० १०, २, ५) ।

अलीडा—स्त्री० (दे०) मिथ्याचारिणी कुलटा; (सुदं० ८, ३६, ३७) ।

अलीसअ—पु० (दे०) शाक-वृक्ष, साग का पेड़; (दे० ना० मा० १, २७) ।

अलुता—वि० (सं० अलुप्त > प्रा० अलुत्त) अलुप्त, जिसकी सत्ता का लोप न हुआ हो; (की० ४, ११६) ।

अलेव—पु० (सं० अलेपक) परमात्मा; "णमो भयवंत अरुव अलेव"—नमस्कार है हे भगवन्त, अरूप, अलेप; (क० ५, ६, ५) ।

अलेहिउ—क्रि० (सं० आ+लिख् > प्रा० आलिह) चित्रित किया, "णियर-मगु अलेहिउ तग्गयाएँ" उसने चुपचाप

मन लगाकर अपने पति का चित्र लिखा;
(क० ६, १४, ३) ।

अलोह—पु० (सं० अलोभ > प्रा०
अलोह) १- लोभ का अभाव, सन्तोष ।

२- वि०, लोभ-रहित, सन्तोषी; (भ०) ।

अल्ल—न० (दे०) दिन; (दे० ना० मा०
१, ५) ।

अल्ल—क्रि० (ध्वन्यात्मक); चिल्लाना,
अल्लविड; (व० १०, २७, ८) ।

अल्लय—न० (सं० आद्रक) अदरक;
(जंजू० ७, १, २) ।

अल्लल्ल—वि० (सं० आद्र + आद्र >
प्रा० अल्लत्थ) १- जलाद्री; (सुदं० ८, ३७

११) । २- केयर, भूषण विशेष (प०
च० १। ७। ४) । ३- पु० मयूर; (दे०

ना० मा० १, १३) ।

अल्लविय—वि० १: (सं० आलपित >
प्रा० आलत्त) संभाषित, आभाषित (भ०) ।

२- (दे०) समापित, (प० च० २१,
५, ८); अपित (भ०) । क्रि०, भ्रू० का०,
अपित कर दिया (रि०, चतुर्थ संग) ।

अल्लहज—पु० (सं० आद्र चणकाः)
गीले चने; (जंजू० ३, १२, १५) ।

अल्ला—स्त्री० (दे०) माता, माँ, (दे०
१, ५) ।

अल्लीण—वि० (सं० आलीन > प्रा०
अल्लीण) आश्रित; (प० च० १३, १२,
५) ।

अवक—वि० (सं० अ + वक्र > प्रा०
अ + वक) जो टेढ़ा या कुटिल न हो;
(ण० ६, १३, ५; भ०) ।

अवंग—पु० (दे०) कटाक्ष; (दे० ना०
मा० १, १५) ।

अवंती—स्त्री० (सं० अवंति, न्ती)

अवंति नाम का देश; (क० ८, १,
६) । अवंतिराज—पु० अवंतिराज
(जस०) ।

अव—अव्य० (सं० प्रा० अव) निम्न-
लिखित अर्थों का सूचक अव्यय; १-

निम्नता, २- तिरस्कार; ३- खराबी,
बुराई ४- गमन, ५- हानि, ६- अभाव,

७- मर्यादा; (सि० १, २६, ४४; २,
२२) ।

अवअखिल अवअच्छिद्य—न० (दे०)
मुंडाया हुआ मुँह; (दे० ना० मा० १,
४०) ।

अवअण्ण—पु० (दे०) अखल; (दे०
ना० मा० १, २६) । अव + अण्-क्रि०

(सं० अव + √चृ) (तर्) उतरना,
अवअरु (अवतीर्ण); (प्रा० प्र० १,
१६३) ।

अवअण्ण—वि० (सं० अवतीर्ण > प्रा०
अवअण्ण) १- उतरा हुआ, नीचे आया

हुआ, २- जन्मा हुआ; (प० च० १। १६।
५; भ०; जस० २, २८, १; ए० ४,

१२, १०) । अवअण्णेण—अवतीर्ण होने
पर; (रि०, पाँचवाँ संग) ।

अवकीर्ण—वि० (सं० अवकीर्ण) परि-
त्यक्त; (दे० ना० मा० १, १३०) ।

अवकीर्ति—स्त्री० (सं० अपकीर्ति) अप-
यश; (दे० ना० मा० १, ६०) ।

अवकीरिभ—वि० (दे०) बियुक्त; (दे०
ना० मा० १, ३८) ।

अवक—वि० (सं० अवाक) १- मौन;
(जंजू० १०, २५, ६) २- (सं० अवक्र)

अवलकखण—न० (सं० अपलक्षण > प्रा० अवलकखण) खराब लक्षण, बुरी आदत; (प० च० ११, २, ६) ।

अवलम्बणिय—पुं० (सं० अवलम्बनिका) नीचे लटकता हुआ एक प्रकार का आभूषण; (प० च० १४, ७, ४) ।

अवलय—न० (दे०) घर, मकान; (दे० ना० मा० १, २३) ।

अवलि—स्त्री० (सं० प्रा० आवलि) १-पंक्ति, २-समूह (प्रा०पै० १, ६८) ।

अवलिअ—न० (दे०) असत्य, झूठ; (दे० ना० मा० १, २२) ।

अवलित्त—वि० (सं० अवलिप्त) लिप्त; (जस० ३, १६, ६) ।

अवलुभा—स्त्री० (दे०) क्रोध; (दे० ना० मा० १, ३६) ।

अवलेहहि—क्रि० (सं० अव+लोक > प्रा० अवलोअ) देखना चाहिए; "पुणु दल अवलेहहि समग्र"—फिर एक-एक दल को समग्र भाव से देखना चाहिए, (सि० १, १७, १५) ।

अवलोअ—सक० (सं० अव+लोक) देखना । अवलोअइ—सक० (सं० अव+लोक > प्रा० अवलोअ) देखना, अवलोकन करना; (प० च० २, १६, ५) ।

अवलोइउ—क्रि० भू०का० अवलोकन किया; (ण० १, ८, ४) । अवलोवइ—क्रि० व० (सि० १, ३१, ११) । अवलोइवि—पू० का० क्रि० (सि० १, ८) । अवलोएवि—पू० का० क्रि० (देखकर); (प० च० २, १५, ८) ।

अवलोयहि (विधि०); (जंबू० १०, १५, ६) । अवलोयहु, यहो (विधि०); (जंबू० ८, ६ १३) ।

अवलोइअ—वि० (सं० अवलोकित) देखा हुआ; (क० ४, ११, १०) । अवलोइउ अवलोकित; (व० २, १५, २) ।

अवलोय—पुं० (सं० अवलोक > प्रा० अवलोय) अवलोकन; (प० च० ३०, ७, ६) । -णिय स्त्री० अवलोकिनी विद्या; (व० ५, ६, ८) ।

अवत्लाव—पुं० (सं० अपलाय=सत्य वात की जानकारी विचार एवं भाव को छिपाना) असत्य कथन; (दे० ना० मा० १, ३८) ।

अववहहु—वि० (दे०) अग्निकायिक (जीव), "उण्हे वयहु अववहहु मुणिज्जइ"—इसी प्रकार अग्नि-कायिक जीवों की उष्ण योनि समझना चाहिए; (व० १०, १२, ११) ।

अववोह—पुं० (सं० अववोष) ज्ञान; (व० ८, १२, १३) ।

अवस—अव्य० (सं० अवश्यम् > प्रा० अवसं) अवश्य, जरूर; (की० ३, २६) । अवसं (ण० ८, १०, ८) । -उ (प्रा० पै० २, १०३) । अवसवो; (की० १, २०) । अवसि; (जस० ३, ४०, १६) ।

अवसु; (संधि० २, १०, ५) । अवसे-अव्य० सर्वथा, जरूर, निःसन्देह; (महा० १५, २२, १७; प० च० १८, ३, ८) ।

अवस—वि० (सं० अवश > प्रा० अवस) पराधीन; (व० २, १, ४) ।

अवसउण—न० (सं० अपशकुन प्रा० अवसउण) खराब शकुन; (जस० ३, १८, ५) ।

अवसणु—वि० (सं० अ+व्यसन) व्यसनहीन, "अवसणु सच्छु अरुसणुसू रउ," (ण० ३, ४, ४) ।

अवसह—पुं० (सं० अपशब्द > प्रा० अवसह) बुरा वचन; (भ०) ।

अवसप्पिणि—स्त्री० (सं० अवसपिणी > प्रा० ओसप्पिणि) दश : कोटाकोटि सागरोपम परिमित काल-विशेष, जिसमें सर्व पदार्थों के गुणों की क्रमशः हानि हो जाती है; (प० च० १, १२, ६) । कालचक्र; (जंबू० ३, १, १०) ।

अवसप्पिय—वि० (सं० अपसपित) १- निवृत्त, २- अवतीर्ण, ३- अपसृत; (भ०) ।

अवसर—पुं० (सं० प्रा० अवसर) काल, समय; (भ०) । अवसरि—अवसर; (रि०, प्रथम सर्ग) ।

अवसवण—न० (सं० अपशकुन > प्रा० अवसउण) अनिष्ट-सूचक अथवा खराब शकुन; (म० २, २४, ४; प० च० ३५, ४, ५) ।

अवसहं—न० (दे०) १- उत्सव, २- नियम; (दे० ना० मा० १, ५८) ।

अवसाण—न० (सं० अवसान > प्रा० अवसान) अन्त, समाप्ति; (जस० १, १३, ७; क० १, १७, १५; सुअंश २, १, ११) । अवसान; (की० ४, १५३) ।

अवसिट्ठउ—वि० (सं० अवशिष्ट) वचा हुआ; (प्रा० पं० १, ३५) ।

अवसेस—पुं० (सं० अवशेष > प्रा० अवसेस) अवशिष्ट, बाकी । वि०—सव; (भ०) ।

अवसोयण—स्त्री० (सं० अस्वापनी) तिद्रा; (प्रा० गु० ३५, ७) ।

अवहट्ठ—वि० (दे०) अभिमानी; (दे० ना० मा० १, २३) ।

अवहट्ठा—स्त्री०, अवहट्ठ भाषा (की० १, ३६) ।

अवहड—न० (दे०) मुसल; (दे० ना० मा० १, ३२) ।

अवहत्थरा—स्त्री० (दे०) पाद-प्रहार; (दे० ना० मा० १, २२) ।

अवहत्यिय—वि० (सं० अपहस्तित) हाथ से त्याग हुआ, परित्यक्त; (जस० ४, १६, १७; सुदं० ८, ३६, ४८) ।

अवहत्य—(सं० अपहस्त्य > प्रा० अवहत्य) त्याग करना; अवहत्ये वि पू० का० (सं० अपहस्त्य > प्रा० अवहत्य) त्याग कर, छोड़ कर, (प० च० १, ४, १) ।

अवहर—(सं० अप+ह) दूर करना अपहरण करना, छीन लेना । -इ सक० (विला०) । अवहरी (रा० ४३) । -मि सक० दोष, अनिष्ट आदि दूर करना; (ण० ६, ५, १) । -हुं (रा० ३६) । अवहरेइ—(क० ६, १४, ४) ।

अवहरंतु, वि० (अपहरण करने वाली) (क० ६, १६, ७) । अवहरे वि-पू० का०, क्रि० छीनकर (प० च० ५, ३, ६) ।

अवहरिय—वि० (सं० अपहत > प्रा० अवहरिय) छीन लिया हुआ; (जस० ४, २८, २६; क० ५, ७, १०) ।

अवहाय—पुं० (दे०) विरह, वियोग; (दे० ना० मा० १, ३६) ।

अवहार—(सं० अप+ह > प्रा० अवहार, अवहरइ) अपहरण करना, छीन लेना; (भ०) ।

अवहार—पुं० (सं० अपहार) अपहरण, परित्याग । अवहारु; (रा० २४) । क्रि० (सं० अप+ह > प्रा० अवहार) छीन

अवमाण—पुं० (सं० अपमान) तिर-
स्कार; (भ०) । अवमाणु; (विला०) ।
अवमाण—(सं० अव+मानय) अव-
गणना करना । अवमाणइ—सक०
(भ०) । -हि (विधि०) (जंजू ५, १३,
२४) । अवताण वि-पू० का०, क्रि० अवज्ञा
करके; (प० च० १६, ७, ८) ।
अवमाणिय—वि० (सं० अवमानित >
प्रा० अवमाणिय) तिरस्कृत; (जस० ४,
२४; २४) । —य (प० च० १६, १,
६) ।
अवयज्जिय—वि० (प्रा० अवयच्छिय)
हट्ट, देखा हुआ; (प० च० ३६, १,
१) ।
अवयडिडअ—वि० (दे०) युद्ध में पकड़ा
हुआ; (दे० ना० मा० १, ४६) ।
अवयण्ड—क्रि० (सं० अव+गणित)
उपेक्षा की; (ण० १, १०, १०) ।
अवयपुण्यु—वि० (सं० अ+वयः+पूर्ण)
जो अपनी आयु न पूरी कर पाये हों;
(जस० १; ७, १०) ।
√अवयर—(सं० अव+तृ > प्रा० अव-
यर; अवयरइ) नीचेउतरना । अवयरइ-
सक० (सं० अवतरित); (भ०) । —हूँ
उतर रँ; (ण० ६, ५, ६) । अवयरत-कृ०
(सं० अव+तृ+शतृ); (जंजू० ५; २,
३) । अवयरिउ-भू० का० अवतरित
हुआ; (ण० २, ८, ६); उतर आया
(भ० १, ५) । अवयेरवि—पू० का०
क्रि० नीचे उतर कर; (प० च० ६; १३,
६) ।
अवयरिअ—पुं० (दे०) वियोग, विरह;
(दे० ना० मा० १, ३६) ।

अवयरिय—वि० (सं० अवतीर्ण > प्रा०
अवयरिअ) १- जन्मा हुआ, २- नीचे
उतरा हुआ; (प० च० ३।६।१) । अव-
रित; (व० ३, १६, ३) ।

अवयव—पुं० (सं० अवयव) अंश,
विभाग, "संभावयव नाइ नह तम्बिर,"
यहाँ अंश से तात्पर्य गोधूलि के समय
संध्या काल की किरणों से है, (भ० ५,
६, ११) ।

अवयाणं—न० (दे०) खींचने की रस्सी,
"अवयाणं आकर्षणरज्जुः," (दे० ना०
मा० १, २४) ।

अवयार—पुं० (दे०) १- माघ-पूर्णिमा
का एक उत्सव, जिसमें ईख से दत्तन
आदि किया जाता है; (दे० ना० मा०
१, ३२) । २- (सं० अवतार) देहान्तर-
धारण; (जंजू० १०, १, ७) ।

अवयास—पुं० (सं० अवकाश > प्रा०
अवगास, अवयास) फुरसत; (जंजू० २,
१८) ।

अवयासिणी—स्त्री० (दे०) नासा-रज्जु,
नाक में डाली जाने वाली रस्सी; (दे०
ना० मा० १, ४६) ।

अवर—संयो० (सं० अपर) १- और
(जस० १, ६, १०; म० १, १५, ४;
की० ३, १६) । २- पश्चिम (व० ५;
२०, ७) । अवरु—और (सि० २, ८;
की० २, २३) । वि० (सं० अपर > प्रा०
अवर) दूसरा, अन्य; (ण० २, १, ७) ।
-पक्ख पुं (सं० अपर+पक्ष) (जस० ३,
४०, १७) । -कमेण पुं दूसरे पैर के द्वारा
(रि०, पाँचवाँ सर्ग) ।

अवरज्ज—पुं० (दे०) १-गत दिन, २-
आगामी दिन, ३- प्रभात; (दे० ना०
मा० १, ५६) ।

अवरणह—पुं० (सं० अपराह्ण) दिन
का तीसरा पहर, दोपहर बाद, दिन का
अन्तिम या समाप्तकहर; (व० १०, २,
१०) । —य (प० च० ५।२।४) ।

अवरत्तउ—पुं० (दे०) अभिलाषा; (प्रा०
गु० ६, १६) ।

अवरत्तअ—पुं० (दे०) पश्चाताप, अनु-
ताप; (जंबू० १०, १४, १४) । अवरत्तउ;
(सुदं० ६, २३, ७) ।

अवरह्ल—पुं० (सं० अपराह्ल) दिन का
तीसरा प्रहर; (भ०) ।

अवराइए—वि० (सं० अपराजित)
अजेय; (व० १, १०, ७) ।

अवरामुह—वि० (सं० अपराभिमुख >
प्रा० अवराहुत्त) १- पराङ्मुख, २-
पश्चिम दिशा की ओर मुह किया हुआ;
(प० च० ४।६।८) ।

अवराह—पुं० १- (दे०) कटी, कमर;
(दे० ना० मा० १, २८) । २- पुं०
(सं० अपराघ > प्रा० अवराह) गुनाह;
(भ०) । अवराहु-पुं० अपराघ; (व० ३,
१४, ७) ।

अवरिक्क—वि० (दे०) १- वेमौका,
अंशामयिक, २- जिसको काम-काज से
फुरसत न मिले; (दे० ना० मा० १,
२०) । ३- (सं० अपर+एक) दूसरा
एक; (जंबू० ६, ६, ३) ।

अवरिज्ज—वि० (दे०) अद्वितीय, असा-
धारण; (दे० ना० मा० १, ३६) ।

अवरिथ—वि० (सं० अवतरित) नीचे

आया हुआ, उतरा हुआ; (व० २, ८,
४) ।

अवरिहड्डपुसण—न० (दे०) १-
अकीर्ति; अपयश, २- असत्य, ३. दान;
(दे० ना० मा० १, ६०) ।

अवरुड—(दे०) आलिगन करना;
(सुदं० ८, ३५, ४) अवरुडियउ—क्रि०
भू० का० आलिगन किया; (क० १०, ६,
८) । —डेवि, पू० का० क्रि० (सं० आलिङ्-
गयित्वा) आलिगन करके; (जं० ६, ४,
१५) । —ण न० आलिङ्.गन; (दे०
ना० मा० १, ११; भ०) ।

अवरुडिउ—वि० (दे०) १- व्याप्त,
आलिङ्गित; (सुदं० २, १, ११) । २-
सुशोभित; (व० १०, १, २१) ।

अवरुडिऊण—न० (दे०) आलिङ्.गन;
(दे० ना० मा० १, ११) । अवरुण्डिय-
न० (दे०, प्रा० अवरुडण, अवरुडिअ)
आलिङ्.गन; (प० च० ५, ७, ११) ।

अवरुप्पर,अबरोप्पर—वि० (प्रा० अव-
रोप्पर) परस्पर, आपस में; (क० ६,
१०, ५; ण० ८, ३, ८; प० च० ३, ७,
२) ।

अवरेक्क—वि० (सं० अपर+एक)
दूसरा; (प० च० १०, ५, १) ।

अवरोप्पर— वि० (दे०) परस्पर;
(जस० १, १५; १५) ।

अवरोह—पुं० (दे०) कटी, कमर; (दे०
ना० मा० १, २८) ।

अवलंबिय—वि० (सं० अवलम्बित)
आश्रित; (जंबू० ६, ६, ३) । अवल-
म्बिय; (भ०) ।

जो टेढ़ा न हो; (जं० ११, १४, ४) ।

अवकसरस—पु० (दे०) दास, मद्य;
(दे० ना० मा० १, ४६) ।

अवगण्ण—क्रि० (सं० अव+गण्) तुच्छ
समझना; अवगण्णमि; (जस० १, १५,
१८) ।

अवककु—न० (सं० अ+वाक्य) शब्द-
समूह का अभाव; (भ०) ।

अवकल—क्रि० सं० दृश्, देखना । अव-
कलए—दिखने पर (रि०; पाँचवाँ
सर्ग) ।

अवकखेर—क्रि० (दे०) खेद करना
(खेरि संज्ञा=खेद) अवकखेरइ; (भ०) ।

व० कृ०—अवसेयंत (भ०) ।

अवगण्णइ=क्रि० (सं० अव+गण्ण्यु>
प्रा० अवगण, अवगण्ण) तिरस्कार करना
(भ०) । अवगण्णिवि-पू० का० क्रि० चिन्ता
न कर; "अवगण्णिवि मंडलं राइउ" —
चिन्ता न कर राजा ने मण्डप बनवाया;
(सं० ११३, १४.)

अवगद—वि० (दे०) विस्तीर्ण, विशाल;
(दे० ना० मा० १, ३०) ।

√ अवगम—(सं० अव+गम्) जानना,
निर्णय करना । —हि (विधि); (जंबू०
१०, १०, १५)

अवगम्म—न० (सं० अवगमन>प्रा०
अवगमण) दुर्गति, "तहु विद्धिएँ हम्मई
हय अवगम्मई णित्तुलउ"—धर्म-बुद्धि
का हर्म्य (प्रासाद) दुर्गतियों को नष्ट
करने वाला; (व० २, ६, १७) ।

अवगह—पु० (सं० अवग्रह) वर्षा-प्रति-
बंध; (व० १, ३, १२) ।

अवगाहण—न० (सं० अवगाहन>प्रा०

अवगाहन) स्नान, डुबकी लगाना;
(भ०) ।

अवगाहिय—वि० (सं० अवग्रहित) अव-
गाहन किया हुआ; (जस० ४, २७,
१०) ।

अवगुंठण—न० (सं० अवगुंठन>प्रा०
अवउंठण) १- मुँह ढकने का वस्त्र,
२- ढकना; (दे० ना० मा० १, ६) ।

अवगुण—पु० (सं० प्रा० अवगुण)
दुर्गुण; (जस० ४, २३, ५) । —

कारिय—वि० (सं० अवगुणकारिका) अव-
गुण या दोष का बंधा या व्यवसाय;
(प० च० १६।५।४) ।

अवगूडं—न० (दे०) १- छल, कपट;
२- अपराध; (दे० ना० मा० १, २०) ।

अवगूढ—वि० (सं० प्रा० अवगूढ)
आलिंगित, व्याप्त; (प० च० १७, ४,
४) ।

अवगोहि—पु० (सं० अवग्रह) अवग्रहों
के द्वारा । शरीर-प्रमाण दूरी से आकर
प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रमाण करना अव-
ग्रह है, (रि०, नौवाँ सर्ग) ।

अवछंद—वि० (सं० अपच्छंदस्क) छन्द
के लक्षण से रहित; (प्रा० पं० १, १०) ।

अवजसु—पु० (सं० अपयजसु>प्रा०
अवजस) अपकीर्ति; (सि० १, १६) ।

अवजाहउ—वि० (दे०) सुशोभित
"तिरिय लोउ लच्छी अवजाहउ," तिरिय
लोक की लक्ष्मी से सुशोभित; (व० १०,
१३, ८) ।

अवज्झाय—स्त्री० (सं० अवज्झा) अयोध्या
नगरी; (प्रा० गु० ४, ६) ।

अवज्झाय—पु० (सं० उपाध्याय>

प्रा० उवञ्झाय, उवञ्झय) अघ्यापक,
पढ़ाने वाला; (दे० ना० मा० १, ३७) ।
अवट्ट—पु० (सं० आवर्त) आवर्त;
(संघि० ५, ६, ६) ।
अवठभ—पु० (दे०) ताम्बूल, पान;
(दे० ना० मा० १, ३६) ।
अवठभ—(सं० अव+√स्तम्भ>प्रा०
अवट्टव, अवठभ) अवसम्बन्ध करना ।
अवठभमि—सक० (प० च० ४०, १४,
२) ।
अवड^१—क्रि० (सं० आपद्यते) प्राप्त
करना; (उ० व्य० प्र० २२, ११) ।
अवड^२—पु० (दे०) कूप; (दे० ना०
मा० १, ५३; जंबू० ६, ७, १६) ।
अवडअ—पु० (दे०) पक्षी आदि को
डराने के लिए बनाया जाने वाला पुआल
आदि का पुतला, वृण-पुरुष; (दे० ना०
मा० १, २०) ।
अवडिअ—वि० (दे०) खिन्न, परिश्रान्त;
(दे० ना० मा० १, २१) ।
अवडुअ—पु० (दे०) उदूखल; (दे० ना०
मा० १, २६) ।
अवण—पु० (दे०) पानी का प्रवाह;
(दे० ना० मा० १, ५५) ।
अवणव—पु० (सं० अवनीन्द्र) पुरुष
का नाम; (भ०) ।
अवणिवर—पु० (सं० अवनिध्रः)
पहाड़; (व० ८, १५, ७) ।
अवणी—स्त्री० (सं० अवनि>प्रा०
अवणि) भूमि; (ण० ४, २, २) । —
रुह पु० (सं० अवनिरुहः) वृक्ष; (व० २,
१, १) । —वहो वि० अविनीत; (व० ४,
११, १) । —सर पु० (सं० अवनी-

श्वर) पुरुष का नाम; (भ०) ।
अवण्ण—न० (दे०) अवज्ञा, निरादर;
(दे० ना० मा० १, १७) ।
अवण्णय—वि० (सं० अवगणित)
अत्रमानित, तिरस्कृत; (जंबू० ७, ६,
२६) ।
अवतरिअ—वि० (सं० अवतीर्ण) उतरा
हुआ; (प्रा० पं० २, २१३) ।
अवतस—(सं० अप+त्रस)—इ (अवत-
सइ) क्रि० व० का० (सं० अप+त्रस)
डर के मारे भाग जाना; (प० च० ८,
११, ६) ।
अवतार—पु० (सं० अवतार) जन्म-
ग्रहण, मनुष्य-रूप में देवता का जन्म
लेना; (भ०) ।
अवत्तय—वि० (सं० अ+पात्र+क) १-
अपात्र; (ण० ४, ३, २) । २- अव्यव-
स्थित, (दे० ना० मा० १, ३४) ।
अवत्थ—स्त्री० १- (सं० अवस्था>प्रा०
अवत्था) अवस्था; (जस० ४, २६, ४;
भ०; म० १, २४, ५) । २- दशा,
हालत, (रि०, प्रथम सर्ग) ।
अवत्थरा—स्त्री० (दे०) पाद-प्रहार;
(दे० ना० मा० १, २२) ।
अवत्थु—न० (सं० अवत्थु) अभाव,
असत्त्व; (भ०) ।
अवपुसिअ—वि० (दे०) संयुक्त; (दे०
ना० मा० १, ३६) ।
अववोह—पु० (सं० अववोह>प्रा०
अववोह) ज्ञान, बोध; (भ०) ।
अवमग—पु० (सं० अपामागं) वृक्ष-
विशेष; (दे० १, ८) ।

लेना; हरण करना (भ०) । -ण न० (सं० अवधारण) निश्चय, निर्णय; (जं० १०, २२, ३) ।

अवहार—(सं० अव + धारय् > प्रा० अवहार) निश्चय करना, निर्णय करना । —हि सक०, ग्रहण करना, “अवहारहि पहु दिव्वे चित्तं” हे प्रभु, दिव्य चित्त से इन्हें ग्रहण कीजिए, (ण० ५, १३, ४) ।

अवहारि—वि० (सं० अपहारिन् > प्रा० अवहारि) अपहारक, छीनने वाला; (ण० १, १७, १३; जस० १, २६, ३) ।

अवहि—स्त्री० (सं० अवधि > प्रा० अवहि, ओहि) समय की सीमा, (प० च० १३, ६, २) । अवही—स्त्री १-ज्ञान-विशेष (ण० ६, १८, १०), २-समय की सीमा; (सि० २, १२) । अव्य०—अभी; (की० ३, ४२) । अवहिए—अवधिज्ञान; (जस० ४, २६, २) । —णाणि—वि० अवधिज्ञानी; (व० १०, ४०, ३) । —त्त वि० (सं० अ + विभक्त) अविभाजित; (जं० २, ५, ६) ।

अवहीह—स्त्री० अवधि; (महा० ६८, २, १०) ।

अवहीर—(सं० अव + धीरय्) तिरस्कार करना । अवहेरिउ-सक०, भू०का० अवगणना की, तिरस्कार किया, अवहेलना की; (ण० ३, ६, १०) ।

अवहेरेवि—पु०का० क्रि० तिरस्कार कर; (प० च० २८, ११, ६) ।

अवहीसर—वि० (सं० अवधीश्वर) अवधिज्ञानी (जस० ४, २२, १३) ।

अवहेअ—वि० (दे०) दया-योग्य, कृपा-

पात्र; (दे० ना० मा० १, २२) ।

√अवहेज—(सं० उप + भुञ्ज) भोगना । —हि “पावे नरयदुक्खु अवहेजहि,” (जं० १०, ५, ५) ।

अवहेर—पु० (सं० अपहार) अपहरण; (जं० ६, ५, २) ।

अवहेरि—स्त्री० (सं० अवहेला > प्रा० अवहेरि, अवहेरी) तिरस्कार, वेद्वज्जती; (प० च० २, १५, ३) । —उ वि० (सं० अवधीरित) विचारि; (ब० ४, १०, ८) ।

अवाणअ—पु० (सं० आपानक) शरा-द्वियों की गोष्ठी; (जं० ४, १७, १५) ।

अवाय—पु० (सं० अपाक) अजीर्ण, अनपच; (क० ६, १४, १) ।

अवार—पु० (दे०) दुकान, हाट; (दे० ना० मा० १, १२) ।

अवारिउ—वि० (सं० अ + वार) तात्कालिक; (प० च० ६, २५, १३) । अवारे-अव्य० शीघ्रता से; (प० च० ५, २, ५) ।

अवारियं—वि० (सं० अ + वारित) रोक या प्रतिबंध मुक्त; (व० ४, ११, २) ।

अवालुया—स्त्री० (दे०) १- ओठ का प्रांत भाग, २- मुख के दोनों ओर के कोने; (दे० ना० मा० १, २८) ।

अवास—(सं० आ + वस्) रहना (उ० व्य० प्र० ५२, ४) । अवासियउ—क्रि० भू० का० (सं० प्रा० आवास, सं० आ + वस्, अववसत्) निवास किया, “खंधावारु अवासियउ जेतहि,” जहाँ पर सैन्य का पड़ाव था या छावनी रह रही थी; (सि० २, १५, १) ।

अवाह—वि० (सं० अवाध) वाधा-रहित, “हउ देमि धरिती तुह अवाह” —मैं तुम्हें वाधा से रहित (कर आदि की) भूमि दूंगा ।

अवि—अव्य० (सं० अपि > प्रा० अवि)

भी (की० २, १००) ।

अविभ्र—वि० (दे०) १- उक्त, कथित;
(दे० ना० मा० १, १०) । २- रक्षित
(दे० ना० मा० ५, ३५) ।

अविअह—वि० (सं० अविवृण्ण) अतृ-
प्त; (प० च० ३४, ५, ८) ।

अविआणिभ्र—वि० (सं० अविजायक
> प्रा० अविजाणय) अविज्ञात, अन-
जान; (प० च० २०, ७, ६) ।

अविउल—वि० (सं० अविउल) जो
वेचन न हो; (प० च० २, १२, १) ।

अविओल—वि० (सं० अविउल > प्रा०
अविउल) १- जो उद्वेग-युक्त न हो, अनु-
द्विग्न; (प० च० ४, १२, ८) । २-
अखिन्न; (प० च० ४६, १३, ७) ।

अविउलक्षण—न० (सं० अवेक्षण > प्रा०
अविउलक्षण) अवलोकन, निरीक्षण;
(भ०) ।

अविघ्न—वि० (सं० अविघ्न) बाधा से
रहित; (जंबू० १, १८, ७) ।

अविउल—वि० (सं० अविउल) अचल;
(भ०; प० च० १०, ४, १) ।

अविउतित—वि० (सं० अविउतित)
अचिन्तनीय (उत्तम), "अविउतित विउ-
रयइ सुवणखलहँ", समस्त खलजन भी
उत्तम कार्य करने लगते हैं; (व० ४,
१२, ५) ।

अविउज—स्त्री० (सं० अविउजा) अज्ञान;
(जंबू० ३, ८, १३) ।

अविउठ—वि० (सं० अ+विउठ) जो
नष्ट न हुआ हो; (जंबू० ८, ४, १२) ।

अविउण—पुं० (सं० अविउण > प्रा०
अविउणय) शिष्टता या शालीनता का

अभाव; (व० ५, १, १६) । (भ०) ।
अविउणय;

अविउणयवइ,—अविउणयवर—पुं० (दे०)
जार, उपपत्ति; (दे० ना० मा० १, १८) ।

अविउणस—पुं० (सं० अविउणस) क्षय
या वर्यादी का न होना; (भ०) ।

अविउणीय—वि० (सं० अविउणीय) जो
विउण न हो; (जस० १, २०, २) ।

अविउततअ—वि० (सं० अविउतत)
वेश्याजन; (जंबू० ६, १२, ८) ।

अविउमाइ—वि० (सं० अविउमाइ) अवि-
भागी, जिसके टुकड़े न हो सकें, (व०
१०, ३६, ११) ।

अविउडठ—वि० (सं० अविउडठ > प्रा०
अविउडठ) अनिपुण; (जस० ३, ४,
६) ।

अविउणअ—वि० (सं० अविउणअ >
प्रा० अविउणअय, अविउणअय) अज्ञानी;
(जस० १, ११, १४) ।

अविउणर—पुं० (सं० अविउणर) बुरा
विचार, (भ०) । अविउणरिय—वि०

(सं० अविउणरिय) जिस पर विचार न
किया गया हो; (भ०) । अविउणर—

(सं० अविउणरिय) बिना किसी विचार
के, शीघ्रता से; (प० च० ५, ८, ३) ।

अविउणर—पुं० (सं० अविउणर) हक,
वह शक्ति जो किसी को कानून अपने
पद, मर्यादा अथवा योग्यता के कारण
प्राप्त हो; (भ०) ।

अविउणरिय—वि० (सं० अविउणरिय)
जिस पर विचार न किया गया हो;
(जंबू० १०, ४, ७) ।

अविउणरइ—स्त्री० (सं० अविउणरइ > प्रा०

अविरुद्ध १- अविच्छिन्नता; (क० ६, १२, ४) । वि० अविरत; (व० ६, १४, १) ।

अविरुद्ध—वि० (सं० अविरुद्ध) निर्दोष; (जंजू० १०, २०, १०) ।

अविरोल—वि० (सं० अविरल) लगा-तार (सुदं० ३, ४, ७) ।

अविलासवंक—वि० (सं० अ+विलास वक्र) स्वभाव से सुन्दर; (जस० १, १७, २०) ।

अविलम्ब—क्रि० वि० (सं० अविलम्ब) बिना देर के, (जंजू० ३, ८, १३) ।

अविवंक—वि० (सं० अ+वि+वक्र) अति सरल; (जस० १, १५, ६) ।

अविवाय—पुं० (सं० अविपाक) १-अपरिपक्व होता, २-अपाचन; (क० ६, १४, १०) ।

अविवेक—वि० (सं० अविवेकी) अज्ञानी; (जंजू० ७, ८, १४) ।

अविसदृष्ट—वि० (सं० अविसृष्ट) अस्व-क्त, "तेहइवि कालि अविसदृष्टमोह" (भ० १४, १४, ५) ।

अविसन्न—वि० (सं० अविषण्ण) प्रसन्न, जो खिन्न या उदास न हो; (भ०) ।

अविषाय—पुं० (सं० अ+विषाद् > प्रा० अ+विषाय) प्रसन्नता; (जंजू० ११, १५, ३) ।

अविसिद्धय—वि० (सं० अविशिष्ट) प्रा० अ+विसिद्ध) साधारण; असभ्य; (भ०) ।

अविसुद्ध—वि० (सं० अ+विशुद्ध > प्रा० अ+विसुद्ध) निर्मल, निर्दोष; (भ०) ।

अविहंग—वि० (सं० अ+वि+भंग) अभंग, "एयइ धम्महो अंगइ", जो पालइ अविहंगइ" -जो अभंग रूप से इन धर्मों के अंगों का पालन करता है; (ण० ६, १०, १५) ।

अविहृत्य—वि० (सं० अविभक्त > प्रा० अ+विभक्त, विहृत्य) जो बांटा हुआ न हो; (भ०) ।

अविहाय—पुं० (सं० अ+विभाग > प्रा० अ+विभाग, विहाय, विहाय) पूर्ण, अविभाजित वस्तु; (भ०) ।

अविहायल—वि० (सं० अविभाग) अविभागी (अंश); (जस० ४, १२, ७) ।

अविहाविधं—वि० (दे०) १-दीन, गरीब, २-मीन; (दे० ना० मा० १, ५६) ।

अविहि—स्त्री० (सं० अवधि) अन्याय; (व० १, १, ७) ।

अविहिण्ण—वि० (सं० अविभिन्न) अभिन्न; (जस० ४, ४, १३) ।

अविही—स्त्री० (सं० अविधि) कुपय; (व० १, १, ७) ।

अविहेल—वि० (सं० अविधेय) न किये जाने योग्य; (व० ६, ३, ६) ।

अवुञ्जिय—वि० अज्ञात; (प० च० १६, ५, ४) ।

अवुह—वि० (सं० अवुध > प्रा० अवुह, अवुह) अनजान; (प० च० १, ३, १२) ।

अवे—अव्य०, अव; (की० ३, २४) ।

अवेकल—स्त्री० (सं० अपेक्षा > प्रा० अवेकला) आकांक्षा, इच्छा; (जंजू० ६,

१२, १७) ।

अवेक्खिणी—वि० (सं० अपेक्षिन् > अवेक्खि) अपेक्षा करने वाली; (ण० १, १६, ८) ।

अव्वा—स्त्री० (दे०) माता, जननी (दे० १, ५) ।

अव्वुअ—पुं० (सं० अवुद) देश-विशेष; (प० च० ४५, ४, ५) ।

अव्वो—अव्य० नीचे के अर्थों में से, प्रकरण के अनुसार, किसी एक अर्थ का सूचक अव्यय—१- सूचना, २- खेद; (ण० ३, ७, १) । ३- मातृ (सम्बोधने) (सुदं० ८, ४, १) ।

अक्खर—पुं० (सं० अक्षर > प्रा० अक्खर) अक्षर, वर्ण; (की० २, ४५) ।

असंक—वि० (सं० अशङ्क > प्रा० असंक) असंदिग्ध; (जस० १, ७, ६) ।

असंकिअ—वि० (सं० अशङ्कित) शङ्का रहित, (जस० ४, २४, २) ।

असंखु—वि० (सं० असंख्य > प्रा० असंख) संख्या-रहित; (सुअंध० १, ८, १२) ।

असंगय—न० (दे०) वस्त्र; (दे० ना० मा० १, ३४) ।

असंभहि—अव्य० (सं० अ+सन्ध्या) सन्ध्या पूर्ण; (की० २, २५३) ।

असंतु—वि० (सं० असन्त) दुष्टतापूर्ण; 'णय-रहिउ असंतु वि पट्ट अजुत्तु'—अथवा न्याय नीति रहित असंत एवं अयुक्त (कार्य करने वाले) प्रभु; (व० ५, ३, ११) ।

असंभव—वि० (सं० असम्भव) जो सम्भव न हो; (जंबू० १०, ३, ६) ।

असंहं—पुं० (सं० अ+सम्भ्रम) व्याकुलता या घबराहट न होना; "कारणं न याणिमो असंहं"; (भ० ४, ७, ११) ।

अस—वि (सं० ईदृश) ऐसा, इस प्रकार का; (की० २, १७) २. पुं० (सं० अस्व > प्रा० अस्स) घोड़ा; (प्रा० पै० १, २५) ।

√अस—(सं० अश् > प्रा० अस) भोजन करना ।

असइ—सक० (सं० अश् > प्रा० अस) भोजन करना, खाना; (प० च० १६, ७, ३) । असमि—क्रि० खाना; (क० ६, ६, २) ।

असई—स्त्री० (सं० असती > प्रा० असई) कुलटा, व्याभिचारिणी स्त्री; (जस० २, ६, १६, हे० ३६६, १) । वेश्या (जंबू० १०, १०, ७) ।

असइ—अव्य० (सं० असकृत्) अनेक वार; (भ०) ।

असईयल—स्त्री० (सं० असती+जन) कुलटा, व्याभिचारिणी स्त्री; (क० १०, ६, ६) ।

असक्क—वि० (सं० अशक्त > प्रा० असक्क) (१) असमर्थ; (प० च० १६, ८, ८) । (२) अशक्य, असम्भव; (की० ३, १५८) । ३- अशङ्क; (प० च० ५१, ७, १) ।

असगाह—पुं० (सं० असदाग्रह > प्रा० असगाह, असग्गह, असग्गाह) दुराग्रह; कदाग्रह; (प० च० २१, १०, ६; सुदं० ३, ३, ६) ।

असच्च—(सं० असत्य > प्रा० असच्च) असत्य, झूठ; (जस० २, १६, ६; ण० ६, १३, १५) असच्चु; (चं० १, ६) ।

असच्चि—वि० (सं० असत्मा अथवा असती) १- झूठी, २- जो सती या पति-व्रता न हो; (प० च० १५, १४, २) ।

असज्ज—वि० (सं० असाध्य) १- दुष्कर, २- न होने योग्य; (क० ३, १६, ७) ।
३- असाध्य; (जस० १, ८, २) ।

असत्तु—वि० (सं० अशस्तम् = अप्रशंसित, असराहनीय) निपिद्ध या बुरा, "लइ अज्जुवि किज्जइ अंतसत्तु;" (भ०) ।

असड्ढलअ—वि० (सं० असाध्य+क) जो सम्पन्न न किया जा सके या पूरा न किया जा सके; (सुदं० ८, ४१, ३) ।

असड्ढलु—वि०, असाधारण, अनुपम; (हे० ४२२, ७) ।

असण—वेल—स्त्री० (सं० अशन+वेला > प्रा० असण+वेला) भोजन का समय; (प० च० २५, ११, ६) ।

असणघोष—पुं० (सं० अशनिघोष) विधाद्यर योद्धा; (व० ५, १८, ६) ।

असणिवेय—पुं० (सं० अशनिवेग) व्यक्ति-विशेष का नाम; (भ०) ।

असणु—न० (सं० अशन > प्रा० असण) भोजन, खाद्य पदार्थ; (हे० ३४, १, २) ।

असणोह—पुं० (सं० अ+स्नेह) अप्रीति, प्रेम का अभाव; (भ०) ।

असण्णि—वि० (सं० अ+संज्ञिन्) अचेतन; (जस० ४, १६, २) । असन्न—वि० (सं० असंज्ञ) संज्ञाहीन; (भ०) ।

असत्य—वि० १- (सं० अशक्त > प्रा० असत्त) असमर्थ; (क० ४, १३, ३) ।

२- वि० (सं० अस्वस्थ > प्रा० असत्य)

जो स्वस्थ न हो; (भ०) ।

असन्त—वि० (सं० अशान्त > प्रा० अ+सन्त) क्रोध-युक्त, जिसमें क्षोभ, चिन्ता, दुःख, उद्वेग आदि हों; (भ०) ।

असन्ति—स्त्री० (सं० अशान्ति > प्रा० अ+संति) मन की वह अवस्था, जिसमें क्षोभ, चिन्ता, दुःख आदि हों; (भ०) ।

अस-पष—पुं० सं० आस्य (मुख, सामने) > प्रा० आस > अस । पार्व (= वगल) > पास > पस) आस-पास में; (की० ४, १२०) ,

असमंजसु—वि० (सं० असमञ्जस) अस्पष्ट, असंगत "चरिउ णिरंकुसु निर असमंजसु"; (व० ४, ११, १) ।

असम—वि० (सं० प्रा० असम) असमान; (भ०) ।

असमच्छर—स्त्री० (सं० असम+अप्सरा) अनुपम अप्सरा; (सुदं० १, ४, ८) ।

असमत्त—वि० (सं० असमाप्त) जो समाप्त न हुआ हो; (जंबू० ८, ६, ७) ।

असमत्य—वि० (सं० असमर्थ > प्रा० असमत्य) असमर्थ; अशक्त; (सं० रा० २, ८०-८१) ।

असमद्वय—वि० (सं० असमृद्ध) दरिद्र; (मं० २, १६, ७) ।

असमाण—वि० (सं० अ+समान) जो बराबर न हो; (जस० २, ३३, ६) ।

असमाणिय—वि०, असमाप्त; (भ०) ।

असमाहि—वि० असामयिक; (प० च० १६, ६, ३) ।

असमाहित्य—वि० (सं० अ+समाधि+इत्त (मत्वर्थीय); समाधि रहित; (जस०

१, १६, ५) ।

असम्मय—वि० (सं० अ+सम्मत्) सह-
मत, स्वीकृत, माना हुआ; (भ०) ।

असरण—वि० (अशरण > प्रा० असरण)
निराश्रय; (क० ६, ७, ११) । — ।
(असरण) वि० (सं० अशरण) निरा-
श्रित; (प्रा० पं० १, ६६) ।

असराल—वि० १- (अजस्रतर) लगा-
तार; (रि०, प्रथम सर्ग) २- बहुत,
प्रचुर; (प० च० २, १६, ४; ३५, १४,
३) । ३- स्त्री० (सं० अश्वशाला > प्रा०
अस्स+शाला, शाल) अश्वशाला; (सि०
१, ३६) । ४- वि० कराल; (सुदं० १०,
६, १५) ५- क्रि० वि० कष्टपूर्वक,
“परिपालेविगु मुञ्ज असराले,” —पालन
कर कष्टपूर्वक मरा, (व० २, १६,
१०) ।

असरासई—न० (दे०) दुष्टाशय; (व०
५, २१, १३) ।

असरित्त—वि० (सं० अ+सदृश) अस-
मान; (ण० ३, १७, ८) । असरिसु;
(विला०) ।

असरीर—वि० (सं० अशरीर) विना
देह के; (भ०) ।

असलेष—स्त्री० (सं० आश्लेषा) नवें
नेक्षत्र का नाम; (प्रा० गु० २४, ३)

असवार—पुं० (सं० अश्व+वार) घुड़-
तवार; (जं० ६, ५, ७) ।

असहना—वि० (सं० अ+सहन > प्रा०
असहण) असहिष्णु, क्रुध, सहन न करने
वाला; (की० ३, ३०) । असहन्ती—कृ०
असहमाना; (भ०) । असहन्तु—कृ०—
सहन न करता हुआ; (प० च० ११,

११, १) । असहंतु—कृ०, सहन न कर
(क० २, १२, ४) ।

असहाय—वि० (सं० प्रा० असहाय)
सहायता-रहित; (भ०) ।

असहिय—वि० (सं० अ+सह्य) जो
सहन न किया जा सके; (जं० ६, ७,
२) ।

असाए—पुं० (सं० असात् > प्रा० अप०
असाय) दुःख, पीड़ा; (की० ४, ६३) ।

असामण्ण—वि० (सं० अ+सानान्य >
प्रा० असामण्ण, असामन्न) जो सामान्य
न हो; (जस० ४, १७, २०; ण० २,
११, ७) ।

असारअ—वि० (सं० असारक) सार-
हीन; (जस० २, २५, १०) ।

असारत्त—वि० (सं० अ+सारत्त्व)
सार-हीनता; (जस० ४, २४, ३) ।

असालिय—वि० (सं० असार+क)
निष्तेज; (सुदं० ११, २०; २३) ।

असासय—वि० (सं० अशाश्वत > प्रा०
असासय) अनित्य; (भ०) ।

असि—पुं० (सं० प्रा० असि) तलवार;
(प० च० २, ८, ६) । —घाय पुं०

तलवार की चोट; (जं० ६, १, १६) ।
—धेगुय, स्त्री० (सं० असि+धेनुका) छुरी

(जस० २, २६, १०) । —पंजह-पुं०
लोहे का पिंजड़ा; (व० १, १४, ७) । —

फरु पुं० असिफल शस्त्र; (व० १, १२,
१३) । —लय स्त्री० (सं० असि+लता)

खड्ग-लता, तलवार; (क० २, ३,
१०) । —वत्त, पुं० (सं० असि+पत्त >

प्रा० असि-पत्त) तलवार (ण० ८, १५,
१०) । —वर पुं० श्रेष्ठ तलवार (सि०

२, २३) । -यवखडु-पुं० (सं० असित
+पक्ष) कृष्णपक्ष; (रि०, छठा सर्ग) ।
असि^१—वि० (सं० अशीति > अर्ध
मागधी असीइ) अस्सी; (प्रा० पै० १,
६७) । असी (प्रा० पै० २, १४५) ।
असि^२—क्रि० (सं० अस्ति) है; 'कयात्या-
सि'-कृताथं है; (जंब्र० ६, १, २) ।
असिद्ध—वि० (सं० प्रा० असिद्ध) अनि-
धन, अनुपलब्ध; (जंब्र० ६, ४, १२) ।
असिगाहिणिहे—वि० (सं० अस्य
गृहीत, असत् को पकड़ने वाली, (रि०,
नौवां सर्ग) ।
असिध—न० (दे०) दांती; (दे० ना०
मा० १, १४) ।
असिरिव—वि० (दे०) निर्धन (भ०
११, ६, १२) ।
असिहय—वि० (सं० असिद्ध) अप्राप्त;
(जंब्र० ६, १०, २२) ।
असी—स्त्री० (सं० अशीति) सख्या
विशेष, अस्सी; (प्रा० गु० ५, २७) ।
असीस—स्त्री० (सं० आशिप् > प्रा०
आसी, आसीसा) आशीर्वाद; (सि० २,
२२; ण० ६, ४, १०) । असीसा (प०
च० २८, १२, ३) ।
असु—पुं० (सं० प्रा० असु) प्राण; (व०
१०, २५, २) ।
असुइ—वि० (सं० अशुचि > प्रा०
असुइ) अपवित्र, मलिन; (क० ६, २,
१) ।
असुउ—वि० (सं० अ + श्रुत) नहीं सुना
हुआ; "असुउ असंभउ अच्छरिउ," (भ०
५, ६, १०) ।
असुत्त—वि० (सं० अ + सुप्त) जो

सोया हुआ न हो; (जंब्र० १०, ६, ४) ।
असुत्तउ—वि० (सं० अ + सूत्र) विना
घागे के; (ण० ५, ८, १४) ।
असुद्धउ—वि० (सं० अशुद्ध > प्रा०
अशुद्ध) १- असुद्ध, २- दुष्ट; (प्रा० पै०
१, ११६) ।
अनुन्दर—वि०, (सं० अ + सुन्दर) अ-
सुहावना, अमनोहर; (प० च० ३, ७,
४) ।
असुमेः—पुं० (सं० अश्वमेव) अश्वमेघ
यज्ञ, (सि० १, ६, ८) ।
असुर—पुं० (सं० प्रा० असुर) दैत्य;
(प्रा० पै० १, १०१) ।
असुरत्तण—पुं० (सं० असुरत्त्व) दानव-
पन; (भ०) ।
असुरत्याण—पुं० (सं० असुर + स्थान)
असुर का स्थान; (ण० ५, १२, ११) ।
असुरमन्ति—पुं० (सं० असुरमन्त्रिन्)
शुक्र, व्यासपुत्र शुक्रदेव का नाम; (प०
च० २, ३, ६) ।
असुह—वि० (सं० अशुभ) खराब, असु-
न्दर । न० अनिष्ट । (जस० २, ३३,
२) ।
असुहत्त—पुं० (सं० अशुभत्व) अनिष्ट
होने का भाव; (क० ६, २०, २१,) ।
असुहर—पुं० (सं० असुधर) प्राणी
(व० १०, ३५, १३) । पुं० असुहरग्राम;
(व० १०, ४१, ४) ।
असुहरण—पुं० (सं० प्रा० असु (प्राण)
+ हरण > प्रा० असु पुं० + हरण
न०) प्राण-हरण (जस० १, १५,
११) ।

असुहाई—वि० (सं० अशोभनीय)
अशोभनीय, "जा राए असुहाई गणिया"
—जित्ते राजा ने अशोभनीय गिना था,
(क० ४, १४, १) ।

असुहारि—वि० (सं० अशुभ+कारिन)
अशुभ करने वाली; (ण० ८, १०, ६) ।

असुहावज—वि० (सं० अशुभ>प्रा०
असुह) असुहावना; (क० २, १०
१०) ।

असुहावण्य—(सं० अशोभन>प्रा०
असोभण) खराब, असुन्दर; तुल० गु
सोहामणु; (प० च० ३, ७, ४) ।

असुहाविय—वि० (सं० असुखापित)
स्वादरहित; (जं० १, ७, ६) ।

असुहासिया—वि० (सं० अशुभाश्रित)
अनिष्ट पर आधारित; (व० ३, ८,
७) ।

असुह—न० (सं० अशुभ) अशुभ, दुःख,
पाप-कर्म (व० ६, १८, २) ।

असेव—स्त्री० (सं० अ+सेवा>प्रा०
अ+सेवा, सेव) सेवा न करना;
(भ०) ।

असेस—वि० (सं० अशेष>प्रा० असेस)
निःशेष, सर्व; (जस० १, ८, ५; क० २,
८, ३) ।

असोभ—वि० (सं० अशोक) शोकहीन,
(रा० ३६) । असोय; (ण० २, ११,
१५) ।

असोय—पुं० (सं० अशोक>प्रा०
असोग) वृक्ष-विशेष; (जस० ३, १७,
२) । असोअ पुं०—वृक्ष-नाम; (प्रा०
पं० २, १६३) ।

असोहण—वि० (सं० अ+शोभन>
प्रा० असोभण) शोभा-हीन, खराब;
(ण० ३, ६, ७) ।

अस्स—पुं० (सं० अश्व>प्रा० अस्स)
घोडा; (जस० १, २६, २६; की ३,
७१) ।

अस्सवार—पुं० (सं० अश्ववार) घुड़-
सवार, अश्वारोही, (की० ३, ७१) ।

अहं—सर्व० (सं० अहम्) मैं; (जं० १,
१८, १) ।

अहंग—वि० (सं० अभंग) अखंड,
अटूट, पूर्ण; (क० १, ४, ३; ण ३, ६,
१५) । —इ स्त्री० (सं० अधमगति)
दुरी या निकृष्ट दशा; (व० १०, ७,
१२) ।

अह—न० (सं० अघ>प्रा० अह) १-
पाप; (ण० २, ३, १८) । २- दुःख;
(दे० ना० मा० १, ६) ।

अह—अव्य० (सं० अथ>प्रा० अह)
(१) अथवा, "किं जीवइ अह किं सो
मुयउ"—(क० ७, १४, ८) । (२) इस
प्रकार; (हे० ३३६) । (३) इसके बाद;
(प्रा० पं० १, २२) ।

अहगार—वि० (सं० अघ+कार) पापी;
(ण० ३, २, ११) ।

अहचरिय—पुं० (सं० अघश्चरित)>
प्रा० अह+चरित्त न०) नीच वृत्त;
(जस० ४, २३, ५) ।

अहणिसु—अव्य० (सं० अहनिश>प्रा०
अहणिस, अहनिंस) दिन-रात, सर्वदा;
(सि० १, ३१, ८) । अहणिसं; (प्रा०
पं० २, १२०) ।

अहद्—अव्य० (सं० अथ+अद्>प्रा०

अह+अह्) वर्षे बाद; (ण० ६, २१, २३) ।

अहम—वि० (सं० अघम > प्रा० अहम) अघम, नीच; जस० ३, ३१, ४; ण० ४, ३, ५) ।

अहमिदामर—पुं० अहमिन्द्र देव; (व० १०, ३३, ६) ।

अहिमुख—पुं० (सं० अहिमुख) सपं-मुख; (घ० ७, १२, १०) । वि० (सं० अभिमुख > प्रा० अभिमुह) संमुख, सामने स्थित; (व० ५; १७, ५) ।

अहम्म—पुं० (सं० अघर्म > प्रा० अघ-म्म, अहम्म) पाप-कार्य, निषिद्ध कर्म (क० १०, २२, ४; सुद० ८, ३१ ७; ण० ३, २, १०) ।

अहयर—वि० (सं० अघस्+घर) पापी, पापाचारी; (जस० ३, २०, ३) ।

अहर—पुं० (सं० अघर > प्रा० अहर) होठ, ओष्ठ; (ण० ८, १३, १४; की० ३, ३४; क० २, १४, ५) । वि० अघम (जं० ६, १२, १२) । अहर (हे० ३३२, २; रा० २) । -गु (सं० अघर+अग्र > प्रा० अहर+अग) अघर का अग्र भाग; (ण० ५, १, ११) । -त्त पुं० (सं० अहोरात्) दिनरात; (व० १०, ७, १४) । -मुद्-स्त्री० अघर भुडा (जं० ४, १३, ७) ।

अहरविब—पुं० (सं० अघर+विम्ब) होठ का प्रतिविब; (जं० २, १५, १५) ।

अहरम्म—वि० (सं० अभिराम) सुन्दर, मनोहर; (भ०) ।

अहरोवाहि—स्त्री० (सं० अघर+

उपाधि) सन्निधि, नैकट्य; (जं० १, १०, ४) ;

अहल—वि० (सं० अकल > प्रा० अहल) निष्फल; (जं० ८, १४, ४) ।

अहवइ—संयो० (सं० अथवा > प्रा० अहवा) या, अथवा; (प० च० १३, ४, ४) ।

अहवा—अव्य० (सं० अथवा > प्रा० अहवा) अथवा; (ण० ३, १२, ३; प० च० २०, ८, ३; सि० १, १५) ।

अहव्या—स्त्री० (दे०) असती, कुलटा स्त्री; (दे० ना० मा० १, १८) ।

अहह—अव्य० (सं० प्रा० अहह हा, हा;) इन अर्थों का सूचक अव्यय—१-खेद, आश्चर्य, २- दुःख, (की० ३, ११२) ।

अहासी—क्रि० (सं० आमाषिताः, सं० आ+भाप् > प्रा० आभास, आहास) कही गई है, "चउविह जुवईजाइ अहासी," युवतियों की जाति चार प्रकार की कही गई है; (सुद० ४, ५, ६) ।

अहि—अव्य० (सं० अधि) इन अर्थों का सूचक अव्यय—१-अधिक्य, २-अधिकार, ३-ऐश्वर्य, ४, ऊँचा; (भ०) ।

अहिस—न० (सं० अहिसन > प्रा० अहिसण) अहिता; (जस०) । अहिता; (भ०) ।

अहि—पुं० (सं० अहि) पट्कल गण का नाम । —टि० पट्कल के तेरह भेद होते हैं—हर, शशि, सूर, शक्र, शेष, अहि, कमल, ब्रह्मा, कलि, चंद्र, ध्रुव, धर्म,

शालिकर; (प्रा० पै० १, १५) ।—गण पुं० पंचकल गण के एक भेद का नाम; (छन्दशास्त्र में प्रयुक्त); (प्रा० पै० १, १३) ।

अहि—पुं० (सं० प्रा० अहि) १- शेष-नाग, २- सर्प; (की० ४, ६७; रा० ६) । २- अव्य (सं० अय) तव; (प० च० १३, ६, २) ।

अहिम्न—अव्य० (सं० अधिक) ज्यादा; (जस० १, २७, ८) ।

अहिउ—वि० (सं० अहित > प्रा० अहिय) अहितकारी; लो०—“अहिउ णिसग्गउ वड्ढे लग्गउ । ण समइ सामे पयणिय-कामे, अयात्त स्वभाव से ही हितकारी तथा शत्रु कर्मों में लगा हुआ व्यक्ति प्रेम अथवा सामनीति के प्रदर्शन से शांत नहीं हो सकता; (व० ४, १७, १-२) ।

अहिवक्षण—न० (दे०) उपालम्भ; (दे० ना० म० १, ३५) ।

अहिखित्तु—वि० (सं० अधिखित्तु > प्रा० अहिविखित्त) १- खित्त, फँका हुआ, २- त्यागा हुआ, “अरिदमणे भडु जं अहिखित्तु;” (प० च० ३१, १०, १) ।

अहिगम—पुं० (सं० अधिगम) प्राप्ति; (दे० ना० मा० ७, १४) ।

अहिचंद—पुं० (सं० अभिचन्द्र) नाम-विशेष; (ण० ७, ११, ३) ।

अहिच्छत्र—पुं० (सं० अहिच्छत्र) नगर-नाम; (जस० ४, २, ४) ।

अहिजलण—पुं० (सं० अभिज्वलन) जलना, “णं कोहवसइ अहिजलणल्लिण,” मानो शेषनाग के क्रोधवश जल उठने के चिह्न हों, (क० ४, १४, २) ।

अहिट्ठ—वि० (सं० अधिष्ठ) अधि-

ष्ठित; मुणिवर तवतेयाहिट्ठउ, (भं० १८, ६, ११) ।

अहिट्ठिअ—वि० अधिष्ठित; (जंबू० ४, १३, १६) ।

अहियांदन—पुं० (सं० अभिनन्दन) चतुर्थ तीर्थंकर-नाम; (जस० १, २, २) ।

अहियांदिय—वि० (सं० अभि + नन्दित > प्रा० अभिणंदिय, अहियांदिय) जिसका अभिनन्दन किया गया हो वह; (ण० ३, ६, ४) । (जंबू० २, १३, १) । अहिणंदिय; (ण० ३, ६, ४) ।

अहिणव—वि० (सं० अभिनव > प्रा० अहिणव) नूतन, नया; (ण० ७, ८, ८; प० च० १३, ६, ८) ।

अहिणाण—न० (सं० अभिज्ञान > प्रा० अहिण्णाण, अहिणाण) पहचान, प्रत्यास्मरण; तुल० गु० एवाण; (ण० २, ११, २; प० च० १६, १, १४) । अहिणाण, (साधे ६, ३, १३) ।

अहिणाणिय—वि० (सं० अभिज्ञानिक) अभिजात; (जस० ४, १२, १५) ।

अहिणूण—वि० अन्यून; (व० १०, ३८, २) ।

अहितान्ह—वि० सं० अहितकारिन्, शत्रु; (की० १, १०१) ।

अहिनाण—न० (सं० अभिज्ञान > प्रा० अहिणाण) पहचान, प्रत्यास्मरण; (प्रा० गु० २, ३, १३) ।

अहिभवण—पुं० (सं० अहि + भवन) नागमंदिर (जंबू० ३, १३, ३) ।

अहिमाण—पुं० (सं० अभिमान्) गर्व, घमण्ड; (ण० १, २, २; की० ३, ८४) ।

अहिमार—पुं० (दे०) वृक्ष-विशेष; (जंबू० ५, ८, ६) ।

अहिमुख—वि० (सं० अभिमुख) किसी

की ओर मुड़ा हुआ, सामने; (ण० १, १०, १) । अहिमुहेंण-वि० किसी की ओर मुख किए हुए; (प० च० १२, ५, ३) । अहिमुह; (भ०) । अहिमुहिह्वाङ्-क्रि० (सं० अभिमुख) अभिमुख होना; (प० च० ८, १) ।

अहिय—वि० १- (सं० अधिक) बहुत, ज्यादा; (भ०) । २- पुं० अहरनाथ, नाम-विशेष; (व० १, १, ११) । ३- (सं० अहित) शत्रु; (व० ६, ३, ३) ।—णिरोहिणी—स्त्री० (सं० अहितनिरोधिनी) अहितनिरोधिनी नामक विद्या; (व० ४, १८, ११) ।—यर वि० अनेक विध हितकारी; (व० १, १, ११) ।

अहियरिवि—पू० का क्रि० (सं० अधि-कृत्य) अधिकृत करके; (भ०) ।

अहियारिय—वि० (सं० अधिकारिक) अधिकार-संपन्न; (जस० १, ८, ५) ।

अहिराज—पुं० (सं० अधिराज) प्रभु-सत्ता प्राप्त, सम्राट्; (ण० १, ६, २) ।

अहिराम—वि० (सं० अहिराम) मनो-हर, सुंदर; (क० ३, ५, ७) ।

अहिराज—पुं० (सं० अधिराज) महाराज; (भ०) ।

अहिल—वि० (सं० अखिल) सम्पूर्ण; (व० ८, ८, ८) ।

अहिलस—(सं० अभि+लष् > प्रा० अभिलस, अहिलसइ) अभिलाषा करना ।

—इ सक० (भ०) । अहिलसहिं-क्रि० व० अभिलाषा करते हैं; (क० ५, १, १२) अहिलसंत—कृ० (सं० अभि+लष् +शतृ) (जं० ६, १०, २१) ।

अपिलास—पुं० (सं० अभिलास पुं०) इच्छा, कामना; (भ०) ।

अहिलासिअ—वि० (सं० अभिलषित) इच्छित, चाहा हुआ; (ण० ६, २, ६) ।

अहिलासी—वि० (सं० अभिलाषिन् > प्रा० अभिलासि) चाहने वाला, इच्छुक; (जं० ४, १४) ।

अहिव—पुं० (सं० अधिप > प्रा० अहिव) राजा, प्रभु, शासक; (भ०; जस० ४, २, ४) ।

अहिवइ—पुं० (सं० अधिपति > प्रा० अहिवइ) राजा, भूप; (ण० १, ७, ६) ।

अहिवन्दण—पुं० (सं० अभिवन्दना > प्रा० अभिवंदणा) नमस्कार, प्रणाम; (प० च० २६, १, ६) ।

अहिवर—लुलिअ—स्त्री० (सं० अहिवर-लुलितं) साँप की लीला या नमि; (प्रा० पं० १, ६२) ।

अहिवर—पुं० (सं० अहिवरः) दोहा छंद का भेद; (प्रा० पं० १, ८०) ।

अहिवाज—पुं० (सं० अभिप्राय) आशय, उद्देश्य, प्रयोजन; (सुदं० ४, ५, २) ।

अहिवायण—पुं० (सं० अभिवादन) प्रणाम, नमस्कार; (भ०) ।

अहिवाल—पुं० (सं० अभिपाल) रक्षक; (भ०) ।

अहिवासु—पुं० (सं० अधिवास) रहने की जगह; (भ०) ।

अहिवि—वि० (सं० अविधवा) सधवा, सौभाग्यवती, सुहागिन; (प्रा० गु० २७, ८) ।

अहिवेक—पुं० (सं० अभिषेक > प्रा० अभिसेअ) राजा के पद पर आरूढ करना; (की० ४, २५५) ।

अहिसारिआ—स्त्री० (सं० अभिसारिका) नायिका का एक नेद; (जं० ८, १५, १) ।

अहिंसिचइ—क्रि० (सं० अभिपिञ्चति) अभिपेक करना, जल छिड़कना; (भ०) । अहिंसिञ्चेवि-पू० का० क्रि०, अभिपेक कर; (प० च० १४, ६, ३) ।

अहिंसिचिउ—क्रि० भू० का० (सं० अभिसिञ्चित) अभिपेक किया गया, "जो सुरसरिसिन्धुहि अहिंसिचिउ,"—जिसका गंगा और सिन्धु नदियों से अभिपेक किया गया; (व० २, १३, ७) ।

अहिसेउ—पुं० (सं० अभिपेक) राज्याभिपेक; (ण० ६, २३, ८) ।

अहिसेय—पुं० (सं० अभिपेक) राज्यतिलक करना, (जस० ४, ७, ४) ।

अहिसो रबि—पू० का० क्रि० (सं० अभि+सारय्) जुलूस के रूप में बाहर ले जाकर; (प० च० ५, १६, ७) ।

अहिहविद्य—वि० (सं० अभिभूत) चकित; (सुदं० ४, ३, ३) ।

अहिहाण—पुं० (सं० अभिघान); नाम (जंबू० ३, ५, ११) ।

अहीणु—वि० (सं० अ+हीन) पराक्रमी; (व० ३, १३, ६) ।

अहीर—पुं० (सं० आभीर > प्रा० अहिर) १- ग्वाला, २- एक जाति जिसका काम गाय-भैंस रखना और दूध बेचना है; (क० ८, ६, ५) । २-छंद का नाम; (प्रा० पै० १, ११४) ।

अहीरु—वि० (सं० अभीरु) जो डरपोक न हो; (भ०) ।

अहेदठअ—पुं० (सं० आसेटक > प्रा० आहेडय न०) शिकार, मृगया; (क० ७, १, ६) ।

अहो—अव्य० (सं० प्रा० अहो) दीनता एवं कुतूहल सूचक अव्यय; (प० च० १, १२, ६; कौ० २, २३=) । अहो-अव्य० संबोधने (जस० १, १=, १=); पुं० (सं० अहः, अहन्) काव्य छंद का भेद; (प्रा० पै० १, ११४) ।

अहोगइ—स्त्री० (सं० अघोगति) पतन, दुर्दशा, (जस० २, २, ३) ।

अहोड—क्रि० (सं० आहोडति, अहोडति वा) जाना; (उ० व्य० प्र० ४६-१०) ।

अहोमुह—वि० (सं० अघोमुख) नीचे मुँह किए हुए; (क० २, ३, ५) । अहोमुहूँ (व० ४, २१, ४) ।

अहोयर—वि० आश्चर्यकारी; (जस० ४, २४, ५) ।

अहोरण—न० (दे०) उत्तरीय वस्त्र, चदर; (दे० ना० मा० १, २५; प० च० १४, ७, ८) ।

अह्रा—सर्व० (सं० अस्मद् > प्रा० अम्ह) हमारा; (कौ० ३, १३२) । -हँ-हमारा हमारा (सि० २, ६, १) ।

आ

आंकम—पुं० (सं० आक्रमण) हमला; (उ० व्य० प्र० ६-२१) ।

आंखि—स्त्री० (सं० अक्षि > प्रा० अक्खि) आंख, नेत्र (रा०, उ० व्य० प्र० ६-२) । -हि (रा० २) ।

आंग—पुं० (सं० अङ्गम् > प्रा० अंग्) शरीर के मस्तक आदि अवयव, अंग; (उ० व्य० प्र० ४६-७) ।

७)।-उ (रा० ४) आंगिहि (रा० ७)।
 आंग (की० २, ११०)।
 आंट—स्त्री० (दे०) द्वेष; (रा० २३)।
 आंतर—पुं० (सं० अन्तर > प्रा० अंत)
 मध्य, भीतर। आंतरे; (रा० २४)।
 आंतर—अव्य० बीच में; (की० २, ६२)।
 आंतु—वि० (दे०) भयानक; (रा० ६)।
 आंकुस—पुं० (सं० अङ्कुश > प्रा०
 अंकुस अंकुश; (की० ४, २५)।
 आंग—पुं० (सं० अङ्ग > प्रा० अंग)
 शरीर; (की० २, १०७)।
 आंचर—पुं० (सं० अञ्चल > प्रा०
 अंचल) कपड़े का शेष भाग, पल्ला;
 “कइसे लागत आंचर वतास,” किस
 प्रकार उनके अंचल की हवा लगे;—(की०
 २, १५०)।
 आंतरे—अव्य० (सं० अन्तर) बीच-बीच
 में; (की० २, ६२)।
 आंवुला—पुं० (सं० आम्र > प्रा० अंव)
 आम का पेड़, “अरे पुरि पुरि आंवुला
 मउरिया कोइल हरखिय देह,” तुल० गु०
 आंवलो; (प्रा० गु० २१, ७)।
 आ—क्रि० भू० का० (सं० आगत > प्रा०
 आवअ) आया;। (उ० व्य० प्र० १४-
 २६)।-अ, वि० आया हुआ (रा०)-आ,
 क्रि० भू० का०, आए थे, (की० २,
 २१८)।-इल भू० का० आया; मगही
 आयल; (विरूपा, चर्यापद)।-इवि,
 कृ० (क० ४, १, ६)।-ई (रा० ३७)।
 आअत < वि० (सं० आयत्त > प्रा०
 आअत्त > आअत) अचीन; (की० ३,
 ५५)।
 आअत्ति—क्रि० (सं० आयति) प्राप्त

होना; (प्रा० पै० १, ३७)।
 आअल्ल—पुं० (दे०) १- रोग। २-
 वि० चंचल, चपल; (दे० ना० मा० १,
 ७५)।
 आआ—स्त्री० १- (सं० आआ = मास
 की प्रथम तिथि) प्रथम; (प्रा० पै० १;
 ५८)।
 आइ—क्रि० (सं० आयाति) आ जाना;
 “जत लेखहु तत लेखहु आइ”—इस
 ढंग से लिखने पर लेख आ जाता है;
 (प्रा० पै० १, ४१)। आआ—क्रि० भू०
 का०, आया; (की०)।
 आइ—पुं० (सं० आदि > प्रा० आइ)
 प्रारंभ; “आइ ण अंत ण मज्झ एउ”
 (क० १०, १५, ६; स० दो० को०)।
 अव्य०, वगैर, प्रभृति (ण० १, ५, १)।
 आइअ—वि० (सं० आगत) आया हुआ;
 “सव्व सेन महु पलइ पातिसाह कोहान
 आइअ” अर्थात् सारी सेना मेरे ऊपर दूट
 पड़ी है। वादशाह ने क्रोध करके चढ़ाई
 की है; (की०, ४, २२१;)। (जंबू० १,
 ११.१०) आइय—क्रि० भू० का० (सं०
 आगत) आई; (क० ३, १६, ७)। आइयय-
 क्रि० भू० का० आया; (सं० रा०)।
 आइच्च—पुं० (सं० आदित्य > प्रा०
 आइच्च) सूर्य; (क० ३, १२, ८)।
 आइजिण्यु—पुं० (सं० अदिजिन) आदि
 जिनेश्वर; “तिजयाहिव-सामिउ आइ-
 जिण्यु,”—तीनों लोकों के अविर्षति आदि
 जिनेश्वर; (व० २, १५, १)।
 आइज्जइ—क्रि० (दे०) पहना देना,
 “कुण्डल-जुअलु भत्ति आइज्जइ”—शीघ्र
 ही कुण्डल युगल उन्हें पहना देता है; (प०

च० २, ६, ३) ।

आइट्ठ—वि० (सं० आदिष्ट > प्रा० आइट्ठ) जिसे आदेश मिला हो; (जंजू० ५, ६, ३) ।

आइद्धय—वि० (सं० आविद्ध > प्रा० आइद्ध) पहना हुआ; fasten (as an ornament) (प० च० ३५, ४, ६) ।

२- प्रज्वलित; 'रोसाइद्धेणं माहिदेणं मारिउ सो पीयंतु जलु,' रोप से प्रज्वलित होकर उसे जल पीते-पीते ही मार डाला था; (जस० ४, २६, २०) ।

आइरियउ—पुं० (सं० आचार्य > प्रा० आयरिय) गुरु, शिक्षक; (ण० ६, १०, ५) ।

आइसु—पुं० (सं० आदेश > प्रा० आएस) आज्ञा; (सि० १, १३) ।

आउं च—(सं० आ+कुञ्चय् > प्रा० आकुच, आउं च) संकुचित करना, समेटना; (ण० ६, ६, ४) । —इ सक० (सं० आकुञ्चयति) (भ०) ।

आउं चण—न० (सं० आकुञ्चन > प्रा० आउं चण) संकोच, गात्र-संक्षेप; (ण० ६, २५, १) ।

आउं चिय—वि० (सं० आकुञ्चित > प्रा० आउं चिअ) संकुचित; (ण० १, ८, ७; जंजू० ८, १३, ३) ।

आउं डउ—पुं० (सं० आ+पिण्ड) संपूर्ण शरीर, शरीर-समेत; "आउं डउ जो राउ (ल सो) हइ," —राउल, जो तू आपिण्ड (सम्पूर्ण शरीर से) शोभित हो रही है, (रा० ११) ।

आउ—पुं० (दे०) कायिक जीव; "पहुई आउ तेउ वारें सह, हरिकाय ण चलइ

भासिउ महु,"—(व० १०, ६, ४) ।

आउ—न० (सं० आयुप् > प्रा० आउस, आउ) आयु; (यो० ४६) । २- क्रि० (नं० आगतः) आया; (जंजू० २, १३, २) ।

आउइलय—पुं० (सं० आयुष+क्षय) > आयु का क्षय होना; (जस० २, १४, ११) ।

आउगंठि—स्त्री० (सं० आयुप्रान्थि) आयु का बंधन या गांठ, "जइ वज्झइ रायोहं आउगंठि ता किं किउ सोहगु जणिय-तुट्ठि," अर्थात् यदि राग के द्वारा आयु की ग्रन्थि बँचती है, तब फिर तत्काल सन्तोष देने वाला अच्छा काम करने से क्या लाभ; (जस० ४, १०, ६) ।

√आउच्छ—(सं० आ+प्रच्छ् > प्रा० आपुच्छ, आउच्छ) अनुज्ञा लेना, आज्ञा लेना ।—इ (सं० अपृच्छति) (भ०) ।

आउच्छउ—क्रि० भू० का० (सं० आ+पृच्छ् > प्रा० आउच्छ) पूछा; (ण० ५, ७, ५) । आच्छेँ वि—पू० का० क्रि० पूछकर; (प० च० ९, १, २) ।

आउच्छिय—वि० (सं० आगृष्ट > प्रा० आउच्छिय) जिसकी आज्ञा ली गई हो वह; (प० च० १६, १) ।

आउज्ज—पुं० न० (सं० आतोच > प्रा० आओज्ज, आउज्ज) बाजा, वाद्य; (ण० ८, ७, ११) ।

आउट्ठि—स्त्री० (सं० आकुट्ठि > प्रा० आउट्ठि) हिंसा, मारना; (संवि० ११, ५, १५) ।

आउण्ण—वि० (सं० आपूर्ण > प्रा० आपुण्ण) पूर्ण, भरपूर; (जंजू० ४, ६,

५) । —य (प० च० ६, ४, ३) ।
 आउत्त—पुं० (सं० आयुक्त) १- गाँव का नियुक्त किया हुआ मुखिया; (दे० १, १६) । २- अधिकारी (जंत्रू० ५, १, १०) ।
 आउद्ध—न० (सं० आयुध > प्रा० आउह) शस्त्र, हथियार; (प० च० ३१, १४, ७) ।
 आउपमाण—पुं० (सं० आयुप् + प्रमाण) आयु का प्रमाण; (जस० ४, १०, १०) ।
 आउर^१—वि० (सं० आतुर > प्रा० आउर) पीड़ित; (भ०) । आउरा—दुःखित; (व० ६, ४, ६) ।
 आउर^२—न० (दे०) लड़ाई, २- वि० बहुत अधिक; ३- गरम; (दे० १, ६५; ७६) ।
 आउल—वि० (सं० आकुल > प्रा० आउल) व्यग्र; (क० १, १७, १०) । —मणु वि० (सं० आकुलमन) दुःखी मन; (व० ३, १२, ८) । आउलि—वि० (सं० आकुल) आकुल, “ता आउलि पुरयणु हुउ खरणे”—तब एक क्षण में पुरजन व्याकुल हो उठे; (क० ३, १३, १) ।
 आउलिय—वि० (सं० आकुलित > प्रा० आउलिय) आकुल किया हुआ; (व० ५, १३, १५) ।
 आउलिह्य—वि० (सं० आकुलीभूत > प्रा० आउलीभूअ) घबड़ाया हुआ; (प० च० २६, ३, २) ।
 आउलेइ—क्रि० (सं० आकुलय् > प्रा० आउल) व्यग्र करना, दुःखी करना; (प०

च० १०, १०, २) ।

आउत्स—न० (सं० आयुप् > प्रा० आउत्स, आउ) आयु, जीवन-काल; (भ; प० १, १२, ११) । —मत्र, वि० (सं० आयु-ण्मय) दीर्घजीवी; (जंत्रू २, २०, १०) ।

आउह—न० (सं० आयुध > प्रा० आउह) शस्त्र, हथियार; (भ०) ।

आउहोह—पुं० (सं० आयुध + ओघ > प्रा० आउह + ओघ, ओह) आयुध-समूह, शस्त्र समूह; (रि०, तृतीय सर्ग) ।

आऊ—न० (सं० आयुप > प्रा० आउत्स) आयु; (ण० ६, १८, ६) ।

आऊखउ—न० (सं० आयुष्कम्) जीवना-विधि, “वरिसा सउ आऊखउ लोए, असी वरिस नहु जीवइ कोई,” तुल० गु० आवकु; (प्रा० गु० ५, २७) ।

आऊर—(सं० आ + पूर्य् > प्रा० आऊर) भरना, पूर्ति करना, भरपूर करना । —इ सक० (सं० आपूरयति) (प० च० ४, ६, ३; भ०) ।

आऊरिय—वि० (सं० आपूरित > प्रा० आऊरिय) भरा हुआ, व्याप्त; (प० च० ५, ३, ३) ।

आउरेप्पिणु—पू० का० क्रि० (सं० आ + रोप्य् > प्रा० आरोव) अरोपण कर, स्थापन कर, “सुककभाणु मणि आऊरे-प्पिणु”—शुक्ल ध्यान का आरोपण कर, (ण० ६, २५, १४) ।

आए—क्रि०, भू० का०, (सं० आ + या) आती थी, (की० २, १०६) ।

आएस—पुं० (सं० आदेश > प्रा० आएस) आज्ञा, हुक्म; (प० च० १५, १; १; ण० ३, १६, १५) । आएसु;

(विला०) ।

आएसिअ—वि० (सं० आदेशित) जिसको आशा दी गई हो वह; (जंजू० १, ४, ६) । आएसिय—वि० (आदिष्ट) (भ०) ।

आओहण—न० (सं० आयोदन > प्रा० आओहण) युद्ध, लड़ाई; (भ०) ।

आकंख—क्रि० (सं० आ+कांस् > प्रा० आकंख) चाहना, इच्छा करना; (ए० ७, २, ११) । स्त्री० (सं० आकाङ्क्षा > प्रा० आकंखा) अभिलाषा; (भ०) ।

आकंखिरिय—वि० (सं० आकाङ्क्षिन् > प्रा० आकंखि) आकांक्षावासी, अभिलाषी; (सं० रा०) ।

आकंतिय—वि० (सं० अग्रान्त) पकड़ा हुआ, पराजित, पराभूत (सं० रा०) ।

आकंन्विय—वि० (सं० आकन्वित) जिसने आकन्द किया हो वह, (दे० ना० मा० ७, २७) ।

आकंदु—पुं० (सं० आकन्दन) रीना; (व० ७, १४, ८) ।

√आकंप—(सं० आ+कम्प् > प्रा० आकंप) कांपना । आकंपिउ-क्रि० भू० का०, कांप गया; कम्पायमान हो गया; (व० २, १२, २) ।

आकण्णन—न० (सं० आकर्णन > प्रा० आकण्णन) श्रवण; (की० १, ४०) ।

आकरिसण—न० (सं० आकपण > प्रा० आकड्डण) खिचाव; (जंजू० ६, १२, ६) ।

आकारे—पुं० (सं० आकार) आकृति, रूप; (की० ४, ५०) ।

आकास—पुं० न० (सं० आकाश > प्रा०

आकास) आकाश; (की० ४, १३०) ।

आकुंच—(सं० आ+आकुञ्चय् > प्रा० आकुंच) संकोच क... । आकुंचइ-क्रि० (सं० आकुञ्चयति) (भ०) । आकुंचिवि पू० का० फि० (भ०) ।

आकोयण—पुं० (दे०) फंलाव; (सं० रा०) ।

√आकोस—(सं० आ+√कृश्, क्रोशय, प्रा० आओस) क्रोध करना । आकोसंति; (जस० ३, ३५, १०) ।

आकोसण—पुं० (सं० आकोशन > प्रा० आओसण) तिरस्कार, गाली-गलौज; (ण० ६, २५, ४) ।

आकीन्दते—पुं० (सं० आकीडन न०) अखाड़ा, (की० २, ६६) ।

√आखंख—(सं० आ+कृप्) पीछे खींचना । आखंखइ-क्रि० (सं० आकंपति) खींचना; तुल० गु० मं० खंखणें; गुं० खिचवु; (भ०) ।

आखंडल—पुं० (सं० आखण्डल > प्रा० आखंडल) इन्द्र; (की० १, ८०) ।

√आख—(सं० आ+ख्या > प्रा० आअक्ख) कहना, बोलना । आखइ; (रा० ६), आखहि; (रा० १५) ।

आग—पुं० (सं० अग्र > प्रा० अग) आगे का भाग । -अ (सं० आगत) (जंजू० १०, १८, ६) । आगु-अव्य० आगे; (की० ४, १६४) । आगें; (रा० १६) ।

आगइ—अव्य० (सं० अग्रे > प्रा० अग) आगे; (संधि० १२, ६, ६; सं० रा०) ।

√आगच्छ—(सं० आ+गम् > प्रा० आगच्छ) आना, आगमन करना । आगच्छु-

क्रि० आ०, आओ, आगमन करो; (प० च० १७, ३, ८) । -मागु व० कृ०, आत हुए, (व० ३, ४, ३) ।

आगम—पु० (सं० आगमन > प्रा० आगमण) आगमन; (भ०) । -ण न० (सं० आगमन); (जंजू० २, १०, १०) ।
आगम—पु० (सं० प्रा० आगम) यास्त्र; (सि० १, २२; जस० १, ७, ८) ।

आगय—वि० (सं० आगत > प्रा० आगय) आया हुआ; (भ०) । क्रि० भू० का०—आ गई, "एव्यंतरि आगय जणणि तासु" (विला०) । - (आ गया) आगता: आ गया; (जंजू० ६, १७, ७) ।

आगर—पु० (सं० प्रा० आकर, प्रा० आगर) खान; समूह; (प० च० ४, २, ३) ।

आगरि—वि० (सं० आकर = श्रेष्ठ) श्रेष्ठ; उत्तम, (की० २, ११५) ।

आगलिय—वि० (सं० अग्र) आगामी, अगला; "एक रयणि वीरसागलिय, कुमरि भणइ किम करि पभणोउ," तुल० गु० आगळ; (प्रा० गु० २४, ८) ।

आगहनमास—पु० (सं० अग्रहायणमास) प्राचीन वैदिक क्रम के अनुसार वर्ष का अगला या प्रहला मास, मार्ग शीर्ष; (व० ६, २०, ४) ।

आगामि—वि० (सं० आगामिन् > प्रा० आगामि) आगामी, आने वाला; (व० १०, ३६, ६) ।

आगासन—पु० (सं० आगासन) आगे का वासन; (सि० १, १३) ।

आगि—स्त्री० (सं० अग्नि > प्रा० अग्नि) आग, बलि; (की० ४, ६०) ।

आगिवाणि—पु० (सं० अग्रानीक) सेना का आगे चलने वाला भाग; "ता पहिलइ रिण-रंगि ए, अनलवेगु तिहि भूकियउ । पडियउ भंगोभंगि, आगिवाणि भरहह तणए," तुल० गु० आगेवान; (गु० प्रा० ४, २७) ।

आगु—अव्य० (सं० अग्र > प्रा० अग्र) आगे; तुल० प० अग्रे; (की० ४, १६४) ।
-र, वि०—पूज्य, गुरु-स्थानीय; (जंजू० ६, १७, १३) ।

आघुट्ट—वि० (सं० आघुट्ट > प्रा० आघुट्ट) घोषित; (भ०) ।

√आघोस—(सं० भा + घोषय् > प्रा० आघोस) घोषणा करना, (जस० ३, २१, १४) ।

आचार—पु० (सं० प्रा० आचार, प्रा० आचार) आचरण; (भ०) । आचारक—पु० आचार; (की० ३, १२१) ।

आच्छ—क्रि० (सं० आस्, आस्ते, प्रा० आस) बैठना; (उ० व्य० प्र० २०-७) आच्छउ—क्रि० (सं० अस्मि) हैं; (उ० व्य० प्र० २०-१६) ।

आच्छह—क्रि० (सं० आस्यति) स्केमा, ठहरेगा; (उ० व्य० प्र०, २१-११) ।

आच्छे—वि० १. खड़ा हुआ, रहा हुआ, ठहरा हुआ २. खड़ा होने वाला, ३. उठा हुआ; (उ० व्य० प्र०, २०-१२) ।

आद्य—क्रि० (सं० अस्) होना । -इ (सं० अस्ति) है; तुल० गु० छे; (प्रा० गु० ७, १८) । आद्यहि—(रा० ७) ।

आद्ये—होना; (प्रा० प० २, १४४) ।

आजम्मु—क्रि० वि० (सं० आजन्म)

जन्म—पर्यन्त; जीवन भर; (भ०) ।

आजागु—वि० (सं० आजानु) जाँघ या

घुटने तक लम्बा; (जंबू० ६, १८, २) ।

आठम्वि—स्त्री० (सं० अण्टमी > प्रा०

अट्टमि) तिथि-विशेष, आठवीं तिथि

(रा० ३०) ।

आड—स्त्री० (दे०) ओट, आड़ ।

आडाहं (रा० ३०) ।

आडम्बर—पुं० (सं० आडम्बर > प्रा०

अ.डंबर) ऊपरी दिखाव, ढोंग; (प० च०

१, १३, ८) ।

आडविय—पुं० (सं० आटविक) सेना

का एक भेद; (प० च० १६, १२; ६) ।

आडी—वि० तिरछी; (कौ० २, १७७) ।

आडुआली—स्त्री० (दे०, प्रा० √आडु-

आल = मिश्रण करना, मिलाना) मिला-

वट, मिश्रण, "आडुआली मिश्री भावः"

(दे० ना० मा० १, ६६) ।

आडोद्विअ—वि० (दे०) आरोग्य, अ-

क्रोधित; (दे० ना० मा० १, ७०) ।

आडोह—गडबड़ करना, किसी काम में

बेकार भिड़ रहना; अस्तव्यस्त कर देना;

—इ, क्रि० व० (प० च० २६, ७, १) ।

आडोहेँवि—पू० का० क्रि० (दे०) हिलाकर;

(प० च० ४, १०, ३) ।

आडत्त—वि० १. (सं० आरब्ध > प्रा०

आदत्त) प्रारब्ध, शुरू किया हुआ; (भ०;

सुदं० ३, ४, ५; प० च० २, ४, ३) ।

२. पुं० (सं० आत्त) आदेश; (जस०

१, ८, ३) ।

आडत्तउ—क्रि० भू० का० (सं० आ+

रम् > प्रा० आडव, आडवइ) प्रारम्भ

हुआ; (ण० ३, ६, ४) ।

आडप्पइ—क्रि० (सं० आ+रम् > प्रा०

आडव, आडप्प) आरंभ करना, शुरू

करना; (प० च० १, २, १२) ।

आडविय—वि० (सं० आरब्ध > प्रा०

आदत्त) शुरू किया हुआ; (जंबू० ३, ६,

१०) ।

√आणंद—(सं० आ+नद > प्रा०

आणंद) खुश होना, आनंद प्राप्त करना ।

आणंदइ (सं० आनन्दयति); (भ०) ।

आणंद—पुं० (सं० आनन्द) हर्ष, खुशी;

(भ०) । -ण न० (सं० आनन्दन) हर्ष;

(जस० २, १४, ४) । -यर, वि०

आनन्दकर (जंबू० ८, ४, ६) । —परी,

वि० आनन्दकरी (स्त्रीयाम्) (जंबू० ३,

३, ६) ।

आणंदप्पह—स्त्री० आनन्दप्रभा, स्त्री०-

विशेष का नाम; (ण० ७, ११, ६) ।

आणंदि—वि० (सं० आनन्दिन्) खुश

रहने वाला; (भ०) ।

आणंदिय—वि० (सं० आनन्दित > प्रा०

आणंदिय) हर्ष-प्राप्त; (प्रा० पै० २,

२१३) । —य (आणंदिय) आनन्दित;

(जंबू० ४, ६, ७) ।

आणंदिउ—क्रि०, भू० का० (सं० आ+

नन्द > प्रा० आणंद) प्रसन्न हुए, खुश

हुए; (सि० १, ३४, १५) ।

आणंदिय—वि० (सं० आनन्दित > प्रा०

आणंदिय) हर्ष-प्राप्त; (सण्णतु० ४७०) ।

आणंदिर—वि० (सं० आनन्दिन् > प्रा०

आणंदिर) (इर प्र०) आनन्दित करने

वाले; (जस० १, १५, १६) ।

आणंदु—पुं० आनन्द नामक छंद "इय

छट्टु आणट्टु" (मुदं ४, १२, १६) ।
 आण—वि० (सं० अन्य > प्रा० अण्स्) ।
 १. दूसरा, कुछ और; (की० ३, ४७) ।
 २. स्त्री० (सं० आज्ञा) आज्ञा; तुल० गु०
 म० आण; (प० च० ८, २, ३; सि० २,
 ३१; की० ४, ११३) । आनक—वि० दूसरे
 का; (की० २, १०८) । आनकां—वि०
 अन्य को; (की० २, १०८) । —गरि-
 स्त्री०—(सं० अन्य नारी) अन्य स्त्री
 (सि० १, २०)

आण—क्रि० (सं० आ + √णी > प्रा०
 आण) लाना, आनयन करना, ले आना ।
 -इ, क्रि० व० (प० च० २, १६, २);
 तुल० गु० आणवु, म० आपणै । -हि,
 क्रि० लोट लकार—लाओ, लाई जाए;
 (हे० ३४३, सुअं व २, ६, १) । आणि-
 क्रि० भू० का०, ले आया; (क० ३, १०,
 २) । आणि-पू० का० क्रि० लाकर; (सं०
 रा०) । आणावहि—क्रि०, लोट लकार,
 मँगवा, "आणावहि वनिषहेँ दुट्टु तुट्टु"
 —तू उससे व्याघ्री का दूध मँगवा; (क०
 १०, २०, १०) । आणि—क्रि०, ले आया
 (क० ३, १०, २) । आणिवि—पू० का०
 क्रि० (क० ४, १५, १०); आणेष्विणु
 (रा० १, १५, १५) । आणेइ—क्रि०
 लाना (प्रा० पं० १, ७४) । आणए-
 क्रि० व०, लाता है; (की० २, २०२) ।
 आणवि क्रि०, व०, लाता है; (की० ४,
 ८३) । आणलि—क्रि०, भू० का०, लाई
 हुई; (की० २, १४६) । आणिव—क्रि०
 भू० का०, लाया; (की० ४, ५८) ।
 आणिया—क्रि०, लाए गए; (की० ४,
 २८) । आणिव—क्रि०, आ० लाइए, लाया

जाए; (की० २, १८५) । आणु—क्रि०,
 भू० का० लाये; (की० ४, ४१) ।
 आणकर—वि० (सं० आज्ञाकारिन्)
 आज्ञाकारी; (जं० ३, ३, १३) ।
 आणण—न० (सं० आनन > प्रा०
 आणण) मुख अथवा द्वार; (जस० १, ४,
 ८) ।
 आणत—वि० (सं० आज्ञप्त > प्रा०
 आणत) जिसको आदेश दिया गया हो
 वह; (ण० ६, ५, ६) ।
 आणत्ती—स्त्री० (सं० आज्ञप्ति > प्रा०
 आणत्ति) आज्ञा, हुक्म; (प० च० ३५,
 ६, ७) ।
 आणयर—वि० (सं० आज्ञा + कर)
 आज्ञाकारक, नौकर, सेवकगण; (ण० ६,
 १४, १) ।
 आणदयद—वि० (सं० आनन्दकर)
 आनन्द देने वाला; (प० च० १०, ४,
 ६) ।
 आणवडिओ—वि० (सं० आज्ञावर्ती)
 आज्ञाकारी; "आणवडिओ य वट्टेइ मह
 परिवणो"; (सं० १६, ३, ६) ।
 आण-वडिच्छय—वि० आज्ञा-पालक;
 (प० च० २४, ११, ३) ।
 आणवडोय—वि० (सं० आज्ञा + प्रतीप)
 आज्ञाविरुद्ध; (प० च० १२, ४, ६) ।
 आणा—स्त्री० १. (सं० आज्ञा > प्रा०
 आणा) आदेश, हुक्म; (मुदं १, १०,
 ८; ण० १, १३, १; की० ४, ११३) ।
 २. आयु, प्राण "सयलवि आणा पाण
 आहारण," (व० १, ७, ११) ।
 आणाइ—पुं० (दे०) शकुनि, पक्षी; (दे०
 ना० मा० १, ६४) ।

आणाकारिणी—वि० (सं० आज्ञाकारिणी) आज्ञाकारी; (जस० १, ४, १५) ।

आणाव—क्रि० (सं० अ+नायय्) मंगवाना । आणावइ (सं० आनाययति) (भ०) ।

आणाविय—वि० (सं० आनायित > प्रा० आणाविय) मंगवाया हुआ; (क० ३, ४, १) ।

आणा-विहेय—स्त्री० (सं० आज्ञादिधेय) किये जाने योग्य आज्ञा, पालन होने के योग्य आज्ञा; (प० च० २२, ६, ७) ।

आणिअ—वि० १. (सं० आनीत > प्रा० आणिअ) लाया हुआ; (ण० १, १४, १०) । २. (सं० आहत > प्रा० आडिअ, आणिअ) सम्मानित; (दे० ना० मा० १, ७४) । आणिय; (जस० १, १०, ८) ।

आणी—(सं० आ+√नी > प्रा० आणी) लाना; (जस० १, ८, ४) ।

आणिअइ-सक० (सं० आनीयते) लाना; (हे० ४१६) । आणुअ भू० का० लाया गया; (महा० ६८, ५) । आनए-क्रि० ले आना है; (की० २, २०२) ।

आणुअ—न० (दे०) १. मुख, २. आकार, आकृति; (दे० ना० मा० १, ६२) ।

आणूव—(दे०) डोम, अत्यन्त नीच जाति का आदमी; (दे० ना० मा० १, ६४) ।

आतावणे—वि० (सं० आतापन) उष्ण, "सरि-तडि आतावणे थियु मुणिदु," नदी किनारे आतापनी शिला पर मुनि बैठे थे, (सि० २, २६) ।

आतिथ—न० (सं० आतिथ्य > प्रा० आतिथ्य, आइथ्य) आतिथ्य, अतिथि-सत्कार; (की० २, ७३) । आतिथ्य; (की० २, ६२) ।

आथि—क्रि० (सं० अस्ति > प्रा० अत्यि) है; (रा० १३; उ० व्य० प्र० ५-४) ।

आदण—वि० (दे०) व्याकुल, आकुल; (प० च० २, १३, ५) ।—अ (दे०) व्याकुल (जंबू० ६, ६, १४) । आ न्न-वि०-पीडित (हे० ४२२, १६) ।

आदेश—पुं० (सं० आदेश > प्रा० आएस) आज्ञा; (प० च० ८, १०, ७) ।

आध—वि० (सं० अर्ध > प्रा० अद्ध) आधा । आधहं (रा० ३८) ।

आधार+सत्ति—स्त्री० (सं० आधार+शक्ति) आधार शक्ति, "जा तिल्लोक्कहो आधार सत्ति," जो इस त्रैलोक्य की आधार शक्ति है; (जस० ४, १३, ११) ।

आनंदिअ—वि० (सं० आनन्दित > प्रा० आणंदिय, हर्षित; (रा० ६) ।

आन—पुं० (सं० अन्न > प्रा० अण्ण)-भक्ष्य पदार्थ, चावल का भात; (की० २, १८५) । स्त्री० (सं० आज्ञा > प्रा० आण) आज्ञा; (की० ३, १६) । वि० (सं० अन्य) दूसरा; (रा० २); आनु (रा० ३), आनहि (रा० ११), आनु (रा० ३८), आन्न; (रा० १८) ।

आनक—वि० (सं० अन्य > प्रा० अण्ण) दूसरे का; (की० २, १०८) ।

आनधि—क्रि० भू० (सं० आ+णी > प्रा० आण=लाना) लाते थे; (की० ४, ८१) । आनहि—लाते हैं; (की० २,

६०) । अनिब—क्रि० लाइए, लाया जाए (की० २, १८५) ।

आनन—न० (सं० आनन > प्रा० आणण) मुख, मुँह; (की० ३, ५) ।

आ+नमसीय—क्रि० भू० का० (सं० नमस्कृतम) नमस्कार किया; (जंबू० ६, १७, ५) ।

आनलि—क्रि० भू० का० (सं० आ+√नी > प्रा० आण) प्राप्त किया, "रसिके आनलि जूँआ"—रसिकों ने जिन्हें जुए में प्राप्त किया था; (की० १, १००) ।

आनिब—क्रि० भू० का (सं० आ+√नी प्रा० आणी) लाया; (की०) ।

आनु—भू० का०, लाये; (की०) ।

आनिक—वि० (दे०, प्रा० आणिक) वक्र, बांका; (रा० ७) । आनिकु (रा० ८) ।

आपण—सर्व० (सं० आत्मन् > प्रा० अप्पण) स्वकीय । आपणु (रा० १) ।

-पउ सर्व० स्व, निज; (प्रा० गु० १, ४८) । आपणि—सर्व० अपना; तुल० गु० आपणे; (प्रा० गु० १०, ४४) ।

आपण्डुर—वि० (सं० आपण्डुर) सफेद रंग का; (प० च० ८, १, १) ।

आपीण—वि० (सं० आपीण) विशाल, 'घणापीणतु गंत्यणी मज्झखीणा, 'जिरा-त्तस्स गंधस्स पंधम्मि लीणा,' सघन, विशाल और उन्नत स्तनों से युक्त क्षीण-कटि वाली वह देवी अब जिनेन्द्रोक्त शास्त्र के पक्ष में लीन हो गई; (जस० ४, १७, २२) ।

आपीलइ—क्रि० (सं० आ+पीड्य) १.

हैरान करना, २. दवाना; (जंबू० ४, १७, ११) ।

आपु—सर्व० (सं० आत्मन् > प्रा० अप्पण) अपना, निज; (की० ४, ४५) ।

आपुल—वि० (सं० आपूर्ण > आपुण्ण) पूर्ण, भरपूर । आपुली (रा० ६) ।

आपुलउ—सर्व० (सं० आत्मन् > प्रा० अप्पण) आत्मीय, अपना; तुल० म० आपुला, गु० आपणु; (प्रा० गु० २७, ५) । आपुलु (प्रा० गु० २०, १३) ।

आपें—पु० (सं० अपेय > प्रा० अप्प=अर्पण करना, भेंट करना) भेंट के लिए; "आपें रहि रहि आवन्ता," वे एकान्त में भेंट करने के लिए उत्कण्ठा से आते रहते थे; (की० २, २२३) ।

आफर—पु० (दे०) घूत, जुआ; (दे० ना० मा० १, ६३) ।

आदिमट्ट—(दे०) भिडना; (जंबू० ६, १२, ६) । —इ, क्रि० (सुद० ६, ४, १) ।

आभरण—पु० छंद शास्त्र में प्रथम द्विकल गण (s) का नाम; (प्रा० पै० १, २१) ।

आभास—पु० (सं० आभास=चमक) प्रकाश; (की० ४, १२५) ।

आमंतण—न० (सं० आमन्त्रण > प्रा० आमंतण) निमन्त्रण; (सि० २, ३३) ।

आमंतिय—वि० (सं० आमन्त्रित) निमन्त्रित, आमन्त्रिता स्त्रियाम्) (जंबू० १०, २५, ४) ।

आम—अव्य० जब तक; (हे० ३८६) ।

आमइ—स्त्री० (सं० प्रा० आमय) व्याधि, रोग; (जस० २, ११, ६) ।

आमभायण—पुं० मिट्टी का वर्तन; 'दुद्ध आम भायणे कि किउ लहु,'—यदि दूध को कच्चे घड़े में रख दिया जाए, (व० ४, १५, १) ।

आमलय—न० (दे०) नूपुर रखने का स्थान, (दे० ना० मा० १, ६७) । २. पुं० न० (सं० आमलक > प्रा० आमलग, आमलय) १. आमला का पेड़, २. आमला का फल (भ०); तुल० म० आवळा, गु० आमलो ।

आमल्लि—क्रि० (सं० आ+मुच्) छोड़ना । आमल्लिइ (भ०) ।

आमिस—न० (सं० आमिप > प्रा० आमिस) मांस; (ण० ४, २, १६) ।

आमिसु—मांस (सा० ४०) —गतिरु क्रि० (सं० आमिप+ग्रसन-शील) मांस खाए; (जं० २, १८, ६) ;

आमुक्क—वि० (सं० आ+मुक्त) त्यक्त; (जं० ५, ११, १३) ।

आमुह्य—पुं० (फा० अमरुद; तु० मुरुद) अमरुद; (सं० रा०) ।

आमेल्लिय—वि० (सं० आ+मुक्त > प्रा० आमुक्क) त्यक्त; मुक्त; (सु० ६, ४, ६) ।

√आमिल्ल—(सं० आ+मुच् > प्रा० आमिल्ल) छोड़ना । —इ सक० (भ०) । आमेल्लवि—पू० का० क्रि० मुक्त कर; (प० च० २, १२, ६) ।

आमेल—पुं० (दे०) लट, जटा; (दे० ना० मा० १, ६२) ।

√आमोअ—(सं० आ+मुद्) खुश होना । आमोयइ (सं० आमोदते) ।

आमोएवि—पू० का० क्रि० (भ०) ।

आमोअ—पुं० (सं० आमोद) हर्ष, प्रसन्नता; (दे० ना० मा० १, ६४) । आमोय (भ०) । —य आमोद (जं० ५, १, २२) ।

आमोड—पुं० (दे०) १. लट, २. जटा की गाँठ, जूड़ा, ३. समूह; (दे० ना० मा० १, ६२) ।

आमोडा—स्त्री० (सं० आत्रमुकुट) आम का वृक्ष; "अरे सिरि अमोडा लहलहहि कसतूरिय महिवट्टु," तुल० गु० अवीडो; (प्रा० गु० २१, ११) ।

आमोय—पुं० (सं० आमोद > प्रा० आमोअ) हर्ष, खुशी; (जस० १, १२, ६) ।

आमोसहि—स्त्री० (सं० आमोपधि) ऋद्ध-विशेष; (जस० ३, ३७, ३) ।

आयंव—वि० (सं० आताम्र > प्रा० आयंव) धोड़ा लाल; (क० ३, २, ४) ।

आयंवरि—वि० (सं० आताम्र > प्रा० आयंवरि) धोड़ा लाल; (भ०) ।

आयंवरिह—स्त्री०, (सं० आ+ताम्र+अक्षि) ताम्रवर्ण के रंग की आँखें; (ण० ४, १, ६) ।

आय—सर्व० (सं० इदम्) इस, (भ०) —इ अव्य० पूर्व में (व० ५, २, ५) । —उ, यह (जं० ६, ६, ११) । —ए० इस (प० च० ५, १३, ८) ।

√आय—(सं० आ+या > प्रा० आया, आव) आगमन करना; आना; तुल० गु० आयो; (प० च० १, ७, ६) । २. आये (सं० आगत) (क० २, ७, ८) । ३. आगता (स्त्री०) (जं० ८, ५, ५) ।

आयअ—वि० (सं० आगत) आया हुआ;

(प० १, ८, १३) ।

आयच्छतु—पुं० (सं० आगमाकरं) वेद या शास्त्र का ज्ञान; “जइ नियमण मुणहि

आयच्छतु” (म० १५, १३, ९) ।

आयइहण—न० (सं० आकर्षण > प्रा० आयइहण) आकर्षण, खींचाव; (प० ५, ४, १४) ।

आयइह—स्त्री० (सं० आकृष्टि) आकर्षण, खींचाव; (दि० ना० मा० ६, २१) ।

—य [दि० (सं० आकृष्ट) आकर्षित; (जं० ४, ६, १) ।

आयण—न० (सं० आगमन > प्रा० आगमण) आना; (सि० १, १३) ।

√आयण्—(सं० आ+कर्ण्य > प्रा० आयण्) सुनना, (म० २, १६, ११; प० १, ३, १) । आयण्गहि—क्रि०

सुनिए; “आइय आयण्गहि पहु पुकारि,” हे राजन्, सुनिए, बाहर से पुकार आ रही है; (सि० १, १५) । कृ०—आयण्गवि

—पृ०का०क्रि० सुनकर; (प० १, ५, १) ।

आयण्ण—न० (सं० आकर्णन > प्रा० आयण्ण) अवरण; (क० ३, ७, ४) ।

आयण्णय—वि० (सं० आकर्षित) सुना हुआ; (प० १, १२, ७) ।

आयत्त—वि० (सं० प्रा० आयत्त) आवीन, स्व-वच; (प० च० १, ७, ३) ।

आयत्तट—वि० संतप्त; “तहि नावइ मत्तट परआयत्तट नाइ मुहु नं मुच्छियत्,” अर्थात् उस पर नहीं जान पड़ता था कि वह मृत है या संतप्त; मृद है या मृच्छित; (विला०) ।

आयदण—पुं० (सं० आयतन) भवन, “गंधवायदणहिं परिसोहिउ”-गन्धवाँ के

भवनों से परिशोधित; (जस० ४, २३, ११) ।

√आयन्त—(सं० आ+कर्ण्य > प्रा० आयण्ण) सुनना । आयन्तइ(सं० आकर्ण्यति) (म०) ।

आयपत्त—पुं० (सं० आत्पत्तम्) छाता; (सि० १, १०) । आयवत्त (छत्र); (सि० ३, ७) ।

आयम—पुं० (सं० प्रा० आगम) आगमन (जं० ३, ६, १६) ।

आयम्भ—वि० (सं० आताम्र > प्रा० आयम्भ) लाल रंग का; (प० च० ४, ६, ९) । आयम्भिर—वि०, लाल रंग का (प० च० ८, ६, ३; १२, ४, २) ।

आयय—पुं० (सं० आत्मज) पुत्र; (म०) ।

आयर—पुं० (सं० आदर > प्रा० आयर) सत्कार, सम्मान; (प० २, १३, ६; सि० १, २६) । आयरह; (हे० ३४१, २) ।

आयरिय—पुं० (सं० आचार्य > प्रा० आयरिय) गुरु, शिक्षक; (जं० २, ८, ६) ।

आयरेइ—सक० लेता है, “सोवीराहार जो आयरेइ”—जो कांजी का आहार लेता है; (क० ६, १४, ८) । आयरेहु—क्रि० आदर करो (सं० आ+ह) (क० १०, १७, ८) ।

आयत्तल—वि० (सं० आकूल > प्रा० आत्तल) व्याकूल; (म० ६, २०, ४) ।

आयत्तिय—वि० पीड़ित (आयत्तिया-वेर्जनी, आकूल-रोग-विशेष) (प० च० २७, ३, ७) ।

आयवत्त—न० (सं० आत्तपत्र > प्रा०

आयवत्त) छत्र, छाता; (ण० १, ६, ८; रि०, तृतीय संग) ।

आयहं—पुं० (सं० आगम) आगम में; (व० १०, ७, ३) ।

आयहिं—सर्व० (सं० अस्मिन्) इस; (हे० ३८३, ३) ।

आयहु—सर्व० (सं० अस्य, एतस्य) इसका, (जं० ५, १२, १६) ।

आयहे—सर्व० (सं० अस्या) इसका; (व० ६, ५, १२) ।

आयाम—पुं० (दे०) बल, जोर; (दे० ना० मा० १, ६५) ।

आयाम—(सं० आ+√यम्य> प्रा० आयाम) लम्बा करना । आयामेप्पिणु-पू० का० क्रि० लम्बाकर, बल लगाकर; (प० च० १७, ३, ८) । आयामे वि-पू० का० क्रि० लम्बा कर; बल लगा कर; (प० च० १७, ७, ६) ।

√आयार—पुं० १. (सं० आकार> प्रा० आयार) भाकृति, रूप; (भ०) । २. (सं० आचार> प्रा० आयार); आचरण (जं० ८, ८, ४) ।

आयावण—न० (सं० आतापन) व्रत-विशेष; (जस० २, १८, ११) ।

√आयास—(सं० आ>√यस्=प्रयास करना) तपस्या करना ।-मि (जस० ३, २०, ८) "भिक्ख चरमि अप्पउ आयासमि," —मैं भीक्षा मांगता हूँ, तपस्या करता हूँ; (जस० ३, २०, ८) ।

आयास—पुं० न० (सं० आकाश> प्रा० आयास, आयास) आकाश, अन्तराल; (ण० ६, १३, ६) । —तल न० (दे०)

प्रासाद का पिछला भाग; (दे० ना० मा०

१, ७२) । तिलय—पुं० आकाशतिलक, शहर का नाम; (भ०) ।

आरंभ—पुं० (सं० आरम्भ=प्रयत्न, निर्माण> प्रा० आरंभ) निर्माण; (की० १, १६) ।

आरंभ—(सं० आ+रम्भ> प्रा० आरंभ) शुरू करना ।-ओ, कृ०, आरंभ करके; (की० १, २) ।

√आरंभ—पुं० (सं० आरम्भ> प्रा० आरंभ) प्रारम्भ; (जस० ४, ६, ८) ।

आरंभिव—पुं० (दे०) माली; (दे० ना० मा० १, ७१) । वि० (सं० आरंभ) प्रारंभ, शुरू किया हुआ; (भ०) ।

आरक्ख—वि० (सं० आरक्ष> प्रा० आरक्ख) रक्षण करने वाला; (दे० ना० मा० १, १५) ।

आरक्खिय—पुं० (सं० आरक्षिन्) चौकीदार; (प० च० १०, ६, १) ।

√आरड—(सं० आ+रट्) विलाप करना । आरडंत—कृ० (सं० आरट्त्) (जस० ४, २४, १६) ।

आरडिअ—न० (दे०) विलाप, क्रन्दन; २. वि० चित्र-युक्त; (दे० ना० मा० १, ७५) । ३. (सं० आरटित) विलापयुक्त; (जं० ७, ८, ६) ।

आरण—न० (दे०) १. अघर, २. फलक; (दे० ना० मा० १, ७६) । —आल न० (सं० आरणाल) आरनाल, कांजी, साबूदाना; (जं० ३, ६, १०) ।

आरत्त—वि० (सं० आरक्त) लाल; (क० ७, १२, १०) ।

आरत्तज—क्रि० भू० का० (सं० आर-

क्त) लाल हो गया: (प० च० १४, ६, ४) ।

धारत्तिञ्ज—न० (सं० आरात्तिक > प्रा० आरत्तिञ्ज) आरत्ती; (घा० १६६) ।

धारा—स्त्री० (सं० प्रा० आरा) आर, लोहे की पतली कील जो साँटे या पँने में लगी रहती है; (ए० ३, १६, ३) ।

अञ्ज० (सं० आरात् > प्रा० आरा) पहले; (दे० ना० मा० १, ६३) ।

आराइञ्ज—वि० (दे०) १, गृहीत, स्वीकृत; २. प्राप्त; (दे० ना० मा० १, ७०) ।

आराढी—स्त्री० (दे०) देखो आरढिञ्ज; (दे० ना० मा० १, ७५) ।

आराधि—कृ० (सं० आ + राधय् > प्रा० आराह) आराधना करके; (की० १, ७६) । सेवा करके; (की० १, ६३) ।

आराहन्त—कृ०—भक्ति करते हुए, आराधना करते हुए; (प० च० ६, ८, ८) ।

आराम—पुं० (सं० प्रा० आराम) उपवन; उद्यान; (जंबू० ५, ३, १०) ।

आरायण्यु—पुं० युद्ध-रचना; (प० च० १२, ८, ४) ।

आराव—पुं० (सं० प्रा० आरव) शब्द, आवाज, ध्वनि; (जस० ४, १७, १४) ।

आरासह—वि० (दे०) आसक्ति वाला (होकर); "पाण्डे जंतइ घरु पिय आरासह पणएणालिनेविणु," —प्रणयपूर्वक आलिंगन कर हे प्रिये, (मुझ में) आसक्त होकर अब मेरे जाते हुए प्राणों को वचाइये; (व० २, २१, १३) ।

√आराह—(सं० आ + राधय्) आराधना करना।—इ, सक० (सं० आराधयति)

"आराहइ सोलह कारणाइ भवसायर—भवण निवारणाइ"—भवसागर स्वी भवन से निवारण करने वाली सोलह भावनाओं की आराधना किया करता था; (व० ८, १६, ६) ।—हि, क्रि० आ०, आराधना करो, (सि० १, १७) ।

आराहण—न० (सं० आराधनम्) अर्चना, ज्यासना; (जस० ४, २१, १) ।

आरिञ्ज—वि० (सं० आर्य > प्रा० अज्ज) उत्तम, पूज्य; (संघि० १०, २, ११) ।

आरिय—स्त्री० (सं० आर्या > प्रा० अज्जा) पूज्या स्त्री; (घ०) ।

आरिल्ल—वि० (दे०) पहले जो उत्पन्न हुआ हो; (दे० ना० मा० १, ६३) ।

आरिय—वि० (सं० आर्य) ऋषि-सम्बन्धी; (क० ८, १०, ६) ।

आरिस—वि० (सं० ईदश) ऐसा; (जंबू० ६, १६, ७) ।—कहा (सं० आर्यकया) ऋषि-कया; (जंबू० ८, २, १) ।

आरुठ—वि० (सं० आरुठ > प्रा० आरुठ) क्रुद्ध, रुष्ट; (जंबू० ७, ६, ४)

आरुठा; (की० ४, १७७) ।

आरुड—वि० (सं० प्रा० आरुड) ऊपर चढ़ा हुआ; (जस० १, १६, ४) ।

√आरुस—(सं० आ + √रुप् > प्रा० आरुस) क्रोध करना, शेष करना; आरुसे वि—पुं० का० क्रि० क्रोध करके, शेष करके; (प० च० १२, ७, ५) ।

आरुसण—पुं० (सं० आ + √रुप् > प्रा० आरुस) कोपन, क्रोध; (प० च० १६, २, ६) ।

√आरुह—(सं० आ + रुह् > प्रा० आरुह) ऊपर चढ़ना। आरुहइ-क्रि० (सं० आरो-

हति) (भ०) । आरुहे वि-पू० का० क्रि०
उपर चढ़ कर, ऊपर बैठकर (प० च०
१३, ११, १०; १२, ७, ५) ।

आरुहण—न० (सं० आरोहण) ऊपर
बैठना; (जम० ३, ३३, ६) ।

आरुहिय—वि० (सं० आरुह > प्रा०
आरुहिय) ऊपर चढ़ा हुआ; (प० च०
१५, ४, ६) ।

आरुह्य—वि० (दे०) १- संकुचित, २-
भ्रान्त, ३- मुक्त; ४- रोमाञ्चित; (दे०
ना० मा० १, ७७) ।

१/आरोक्क—(सं० नि+रुघ्) रोकना,
गतिरोध करना; तुल० गु० रोकवु;—इ
(प० च० ५३, ६, ७) ।

१/आरोग्ग—(दे०) खाना, भोजन करना ।
—इ, सक० (दे० ना० मा० १, ६६) ।

आरोग्गिअ—वि० (दे०) खाया हुआ;
(दे० ना० मा० १, ६६) ।

अरोयतयु—पुं० (सं० आरोयतनु >
प्रा० आरोयतयु) नीरोग शरीर; (जंबू०
१०, १, १६) ।

आरोवण—न० (सं० आरोपण) संभा-
वना; (दे० ना० मा० १, १७४) ।

आरोत्तिय—वि० (सं० आरोपित) रूष्ट
किया हुआ; (भ०) ।

आरोह—पुं० (सं० प्रा० आरोह) सवार,
महावत (जंबू० ६, ११, ५)।—नर हाथी,
घोड़ा आदि पर चढ़ने वाला, (जंबू० ६,
११, ६) ।

आरोहण—न० (सं० आरोहण > प्रा०
आरुहण) ऊपर बैठना; (जस० १, २४,
१) ।

आलंकिअ—वि० (दे०) पंगु किया हुआ;

(दे० ना० मा० १, ६८) ।

आलंकियय—वि० (सं० अलंकृत) दिभू-
पित; (सं० रा०) ।

आलंब—न० (दे०) भूमि-छत्र, वनस्पति-
विशेष जो वर्षा में होता है; (दे० ना०
मा० १, ६४) ।

आल—न० (सं० प्रा० आल) १- मिथ्या
भियोग, दोषारोपण; तुल० गु० आळ;
(प्रा० गु० २३, ३६) । २- मिथ्यावचन
(प्रा० गु० २३, ३६)।—माल पुं० धन;
तुल० मगही आलमाल; (सरहपा, दोहा-
कोश) ।

आल—न० (दे०) १- छोटा प्रवाह; २-
वि० कोमल; (दे० ना० मा० १, ७३) ।

—बालु न० (सं० प्रा० आलवाल)
क्यारी धाला; (रा० ४२) । बालु—न०
(सं० आल=छत्र > प्रा० आल)
दोषारोपण; (रा० २६) ।

आलइ—न० (सं० प्रा० आलय) घर;
(व० १०, २५, २) । आलउ (सि० १,
२५) । आलय—पुं० १- घर, (भ०) । २-
नीड़ (सं० रा०) ।

आलग्ग—वि० (सं० आलग्न > प्रा०
आलग्ग) लगा हुआ; संयुक्त; (प० च०
५, ११, ७; ण० २, ३, ३) ।

आलग्ग-खम्भ—पुं० (सं० आलान-स्त-
म्भ > प्रा० आलान, आणाल+खंभ,
खंभ) जहाँ हाथी बाँधा जाता है वह
स्तम्भ; (प० च० २५, १५, १०) ।

आलत्त—वि० (सं० आलपितः) १-
संभाषित, आभाषित; (भ०) । २- आल-
प्त, (जंबू० ६, २, ३) । आलत्तु—भू०
का०, कहा; (रि० ४, ३) ।

आलित्य—पुं० (दे०) मयूर; (दे० ना० मा० १, ६५) ।

आलवण—न० (दे०) मय्या-गृह; (दे० ना० मा० १, ६६) ।

आलावड—क्रि० (सं० आ+लापय् > प्रा० आलव) वातचीत करना; (जं० ४, १७, १८) ।

आलवणु—न० (सं० आलापनं > प्रा० आलवण) वार्तालाप, संभाषण (हे० ४२२, १६; दे० ना० मा० १, ५६) ।

आलवनी—स्त्री० (सं० आलापिनी > प्रा० आलावणी) वाद्य-विशेष, (सि० २, ४) ।

आलस—न० (सं० आलस्य > प्रा० आल-स्स) आलस, सुस्ती; तुल० गु० आळस; (सं० १०, ३, ३) । आलसि-आलस्य; (सं० रा०) ।

आलाय—पुं० (सं० आलाप > प्रा० आलाव, आलाय) संभाषण; (जस० २, ५, १०) ।

आलाणस्तम्भ—पुं० (सं० आलानस्तम्भ > प्रा० आलाण, आणाल+खंभ, खंभ) जहाँ पर हाथी बाँधा जाता है वह स्तम्भ; (प० च० १६, १४, ३) ।

आलाव—पुं० (सं० आलाप) १- संभाषण, वातचीत; २- शब्द, "हणइ सवण-रंधा कोइलालावबंधा," कोयले का आलाप कानों के रंध्र में मार रहा है; (प्रा० पं० २, १६५) ।

आलावणि, विणी—स्त्री० (सं० आलापिनी प्रा० आलावणी) वाद्य-विशेष, वीणा-विशेष; (ण० ३, ६, ४; प० च० १, ५, ८) । आलावाणी; (जं० ६, ६, ११) ।

आलास—पुं० (दे०) वृश्चिक, विच्छू; (दे० ना० मा० १, ६१) ।

√आलिग—(सं० आ+लिङ्ग, आलि-ङ्गति > प्रा० आलिगइ) आलिगन करना; (उ० व्य० प्र० ५-४) । आलिगिउ-क्रि० भू० का०; (महा०) । आलिगिदि-पू० का० क्रि०; (जं० ६, १२, १८) ।

आलिगण—न० (सं० आलिङ्गन > प्रा० आलिगण) आलिगन, भेंट; (जस० २, ५, ५; म०) ।

अर्द्धगिगि—वि० (सं० आलिङ्गित) जिनका आलिगन किया गया हो वह; (जं० ४, १७, २) । आलिगिय; (भ०) ।

आलिगियंगु—स्त्री० (सं० आलिङ्गित+अङ्ग) अर्धांगिनी; "सिरमइदेवी आलिग-यंगु,"—उसकी अर्धांगिनी थीमती देवी थी, (ण० १, १५, ६) ।

आलि^१—न० (सं० अलीक > प्रा० अलिय) १- मिथ्या; (प्रा० गु० १६, ७३) । २- व्यर्थ; तुल० गु० एळे; (सं० १०, ३, १६) । वि० दुर्विलसित; (प्रा० गु० ३८, ४६) ।

आलि^२—स्त्री० (सं० प्रा० आली) वय-स्या, सखी; (सुद० १२, २, १५) ।

आलिद्व—वि० (सं० आलिद्वि) आलि-गित; (जस०; प० च० २२, ८, २) ।

आलियउ—क्रि० भू० का० बाँधा; (प० च० १६, १४, ३) ।

√आलिह—(सं० आ+लिह् > प्रा० आ-लिह) लिखना । आलिहिदि-पू० का० क्रि०, लिखकर, "आरत्तहिं दव्वहिं आलिहिदि"—लाल द्रव्यों से लिखकर; (क० ७,

१२, १०) ।

आली—स्त्री० (सं० प्रा० आली) सखी;
(प्रा० गु० २०, १) ।

आलीढ—वि० (सं० प्रा० आलीढ) आस-
क्त; (जं० ४, ५, १३) ।

आलीण—वि० (सं० आलीण > प्रा०
आलीण) लीन, “भाणालीणु णिरुत्तर
अच्छमि,”—ध्यान में लीन होकर मैं मौन
वैठता हूँ; (जस० ३, २१, ५) ।

आलील—न० (दे०) समीप का भय;
(दे० ना० मा० १, ६५) ।

आलीवण—न० (सं० आदीपन) आग
लगाना; (दे० ना० मा० १, ७१) ।

आलीविय—वि० (सं० आदीपित > प्रा०
आलीविय) आग से जलाया हुआ, (प०
च० १७, १४, ८) ।

आलुख—क्रि० (प्रा० आलुख) स्पर्श
करना; (ण० ७, २, ११) ।

आलुखिय—वि० (दे०) आस्वादित, चूसे
गए, “गोवालमुहा लुखियफलाइ”, ग्वालों
के मुखों से चूसे गए फल; (जस० १, ३,
८) ।

आलु—न० (सं० अलीक > प्रा० अलिय
न०) झूठ; (हे० ३७६, १) ।

आलुञ्चित—वि० (सं० आलुञ्चित)
जिसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये गए हों;
(प० च० १३, ४, ६) ।

√आलेह—(सं० आ + लिख्) आलेखन
करना । आलेहिवि—पू०का०क्रि० आलेखन
करके; “आलेहिवि जो मारंतु वेणु” —
जो राजा वेणु लोगों को आलेखन करके
मारता था; (जस० २, २५, १३) ।

आलोडणिविज्ञा—स्त्री० (सं० अवलो-
किनी विद्या) ज्ञान प्रदायिनी विद्या;

(जं० ५, २, १०) ।

आलीय—पुं० (सं० आलोक > प्रा०
आलोक) तेज, प्रकाश; (भ०) ।

आलीयण—न० (सं० आलोकन > प्रा०
आलोकण) विलोकन, दर्शन (ण० ८, ४,
७) । आलीयंत—कृ० (सं० आलोकयत्)
(जस० ४, १३, २) ।

आलीयणिय—स्त्री० आलोकनी (विद्या);
(ण० ६, २, ११) ।

आतंग—पुं० (दे०) वृक्ष-विशेष, अपा-
मार्ग, लट्जीरा, एक जंगली पौधा जो
दवा के काम में आता है; (दे० ना० मा०
१, ६२) ।

आवंडुर—वि० (सं० आ + पाण्डुर >
प्रा० आवंडुर) थोड़ा सफेद, फीका; (ण०
२, ८, ११) ।

√आव—पुं० (सं० आयुब् > प्रा० अप०
भाउ > अव० प्रा० हि० आव) आयु,
जीवन-काल; (की० ३, १४८) ।

√आव—(सं० आयाति, आ + √या >
प्रा० आव) आना, आगमन करना; (उ०
व्य० प्र० ११, २३) ।—इ (की० ३, ११०;
रा० ५; हे० ४१६; प० च० ५, ११, ६;

—थि, क्रि०, आता है (की० २, ११३) ।

आवतज—कृ० आते हुए; (ण० ५, ३, १)

—हि, क्रि०, आते हैं (की० २, २१६) ।

—हि, क्रि०, आना (प० च० ७, १२,
५; सि० १, २५) ।—हुँ, क्रि०, आगमन
करना (प० च० २, १५, २) । आवेज—

क्रि० आ०, आवें; (ण० ८, १४, ८) ।

—प्पिणु पू०का०क्रि० (ण० ७, ११, १५) ।

आवेसई—क्रि० (सं० आ + प्रास्यति)
आयेंगे; (सि० २, १४) ।

आवइ—स्त्री० (सं० आपद् > प्रा० आवइ) आपत्ति, विपत्, संकट; (प० च० १३, ५, १०) ।

आवंग—वि० १- आरुढ़, चढ़ा हुआ; (प० ७, ६, १०) । २- अधीन; (प० च० ११, २, ७) ।

आवगउ—वि० (प० आपद्गतः) विपत्ति में फंसे हुए; "तो पर सरणु मरणु आवगउ"; (भ० ७, ११, ६) ।

आवगी—वि० (दे०) स्वाधीन, समस्त-कण्टक-रहित; (प० च० २१, ८, १) ।

√आवज्ज—(सं० आपद्यते, आ+पद् > प्रा० आवज्ज) प्राप्त होना; (भ०) ।
—ज्जक० (सि० १, ३०) ।

आवज्जिअ—(आ+√वृज्) इकट्ठा करके; "घणु आवज्जिअ घम्मक अप्पिअ"—घन को इकट्ठा करके घर्म के लिए अपेण कर दिया; (प्रा० पैं० १, १२८) ।—ण० न० (सं० आवर्जन) उपयोग; (जंबू० ११, १४, १) । आवज्जिय—वि० (सं० आपद्यते) अजित; (जंबू० १, ५, १२) ।

आवज्जिय—वि० (सं० आवर्जित > प्रा० आवज्जिय) १- प्रसन्न किया हुआ, अभि-मुख किया हुआ; (प० ३, ८, १३) ।

आवज्जिय—वि० (सं० आवर्जित) १- दृष्ट; (प० च० २६, १, १) २- त्याग किया हुआ; (व० १, १५, ४) ।

√आवट्ट—(सं० आ+√वृत् > प्रा० आवट्ट) चक्र की तरह घूमना-फिरना ।
—इ अक० (सं० आवर्तते) (भ०) ।

—वट्ट पु० (सं० आवर्तं वत्तन्) दाएँ घूमने वाला मार्ग; (की० २, ८४) ।—य वि० (सं० आवर्तित) पेरा हुआ; (इक्षुरस)

(सं० रा०) । —न्तय कृ० घूमते हुए, फिरते हुए; (प० च० १७, ३, ४) । आवट्टिउ—क्रि० भू० का० पहुँचा दिया; (प० च० ७, ६, ६) ।

√आवट्ट—(सं० आ+वृत् > प्रा० आवट्ट=शोषण करना) विलीन होना; —इ, क्रि०, व० (हे० प्रा० व्या० ४१६, ४) । भावट्ट—विलीन, नष्ट; (प० च० २६, ६, ६) । आवट्टइ—क्रि० (सं० आ+वृत् > प्रा० आवत्त) औटना; (हे० ४१६, ४) ।

भावट्टिय—वि० (सं० आवर्तित) घूमता हुआ; (जंबू० ६, ६, २) ।

आवट्टवट्ट—पु० (सं० आवर्तं+वत्तं > प्रा० आवत्त+वट्ट) दाएँ घूमने वाला मार्ग; (की० २, ८४) ।

आवट्टिआ—स्त्री० (दे०) १- दुलहिन, २- परतन्त्र स्त्री; (दे० ना० मा० १, ७७) ।

आवट्टिय—वि० (दे०) नष्ट, "भिवस्सा-यर जे तुज्ज पेदि मह-मड आवट्टिय ॥ मानाससि कड्ढिसु ति अज्जु आपणा मांटिय," (प्रा० गु० १२, ३८) ।

√भावड—(दे०) रचना, अच्छा लगना ।
—इ सक० "भल्लु वि भल्लउ महु आवडइ," (जस० २, ३२, १) ॥

भावडिअ—वि० (दे०) १- संगत, संवद्ध; २- सार, मजबूत; (दे० १, ७८) ।
आवण—पु० (सं० आपण > प्रा० आवण) हाट, दुकान; (प० ७, २, ८) ॥

आवणि—स्त्री० बाजार; (सि० १, ३३) ॥

भावणा—वि० (सं० आपन्न > प्रा० आवण) आपत्ति-युक्त, प्राप्त; (जंबू० ५, १, ३) ।

आवत्त—पु० (सं० आवर्तं > प्रा०

आवृत्त चक्राकार परिभ्रमण) १- चक्र, समूह; (की० ४, १०४) । २- चक्राकार परिभ्रमण; (ण० ६, २०, १६) ।

आवृत्त-विवृत्त—पुं० (सं० आवृत्त-विवृत्त > प्रा० आवृत्त-विवृत्त) चक्राकार आगे-पीछे घूमना; (की० ४, ११२) ।

आवृत्ता जन्ता—कृ० (सं० आ+या+शतृ > प्रा० आव+अन्त (शतृ प्रत्यान्त); सं० या > प्रा० जा) आने जाने वाले; (की० २, २२७) ।

आवृत्त—स्त्री० (सं० आपद > प्रा० आवया) आपदा, विपत्ति, दुःख; (भ०) ।

आवृत्त—स्त्री० (जस० ४, २१, ५) ।

आवृत्त—स्त्री० (दे०) मद्य परोसने का पात्र-विशेष; (दे० ना० मा० १, ७१) ।

आवृत्त—क्रि० (सं० आवृत्त-विवृत्त, सं० आ+वृत्त > प्रा० आवृत्त)-संमुख करना, प्रसन्न करना; (उ० व्य० प्र० ७-७) ।

आवृत्त-विवृत्त—पुं० आनन-जाना, आगमन-निर्गमन 'आवृत्त-विवृत्त रोलहो, नभर नहि समुद्रओ,' (की० २, ११२) ।

आवृत्त—वि० (सं० आकुल > प्रा० आउल) व्यग्र, व्याकुल; "कवणु इत्यु मणि आवृत्त," (भ०) । —इ, वि० व्याकुल; (सं० रा०) ।

आवृत्त—स्त्री० (सं० प्रा० आवृत्त) श्रेणी पङ्क्ति; (भ०; जस० १, २, १३) । रोमावृत्त; (रा० २५) ।

आवृत्त—स्त्री० छन्द-विशेष; (सुद० ८, २६, १२) ।

आवृत्तगमण—पुं० गमनागमन; तुल० गु० आवृत्तगमण; (प्रा० गु० ६, ६) ।

आवाणज—न० (सं० आपानक > प्रा० आवाणय) मद्यगृह या चषक; (जंबू० ४, २, ७) ।

आवाल, आवालय—न० (दे०) जल के निकट का प्रदेश; (दे० ना० मा० २, ७०) ।

आवास—पुं० (सं० प्रा० आवास) वास-स्थान; (भ०; जंबू० १०, १४, २) ।

आवासिय—वि० (सं० आवासित > प्रा० आवासिय) पडाव डाला हुआ; (प० च० ३, ६, ३) । आवासिज; (जंबू० ५, १०, २५) ।

आवाह—पुं० (दे०) इक्षुवाटी (sugarcane plantation) (प० च० ३१, ६, ७) ।

आवि—न० (दे०) १- प्रसव-पीड़ा; २- वि० नित्य, शाश्वत; ३- दृष्ट; (दे० ना० मा० १, ७३) । —य, आगत; (जंबू० ७, ४, १६) ।

आविज—पुं० (दे०) १- इन्द्रगोप; क्षुद्रकीट-विशेष; २- वि० मथित, आलोडित; ३- प्रोत—सिला हुआ, बँधा हुआ, जड़ा हुआ; गुजरा हुआ; (दे० ना० मा० १, ७६) ।

आविज्जता—स्त्री० (दे०) दुलहिन, पराधीन-स्त्री; (दे० ना० मा० १, ७७) ।

आविद्ध—वि० (दे०) प्रेरित; (दे० ना० मा० १, ६३) ।

आविल—वि० १- (सं० प्रा० आविल) मलिन, अस्वच्छ । अविलु; (रा० ८) । २- व्याप्त; (व० ४, १२, ३) ।

आविलुं पिअ—वि० (दे०) आकाङ्क्षित,

अभिलषित; (दे० ना० मा० १, ७२) ।

√आविह्व—(सं० आविह्व+भू > प्रा० आविह्व) प्रकट होना । आविह्वसि—क्रि० प्र० का०, आश्रमे; (सं० रा०) ।

आवीलिय—कृ० (सं० आ+पीड् > प्रा० आवीड, आवील) १- पीड़ित हुए, २- द्वाते हुए; (प० व० १४, १, ७) । वि० (सं० आपीडित) दना हुआ; (म०) ।

आवुष्ण—वि० (सं० आवुष्णं) पूर्ण, भर-पूर; (दे० ना० मा० २, १०२) ।

आविल्लण—न० (सं० आवर्त्तन) शरीर-को मटकाना; (सुद० ११, ११, ५) ।

√आशवास—(सं० आशवासयति) आशवा-सन देना, (द० व्य० प्र० ६-१) ।

√आसंक—(सं० आ+शङ्क् > प्रा० आसंक) संदेह करना । आसंकइ—सक० (सं० आसंक्ते) (म०) ।

आसंका—स्त्री० (सं० आशङ्का > प्रा० आसंका) संशय, शङ्का; (जस० ४, ८, ११; म०) ।

आसंग—पुं० (सं० आसङ्ग) जयन-कल, जय्या-गृह; (दे० ना० मा० १, ६६) ।

आसंगि—जयन-कल में; (सं० रा०) ।

आसंघ—स्त्री० (दे०) नागसा, इच्छा, अभिचापा; (म०) ।

आसंबड—क्रि० १- (प्रा० आसञ्ज= प्राप्त करके) आमिलना, भेंट करना;

“को जमकरगु जंतु आसंबड,” जौन जाते हुए यम के दूत से भेंट करता है, (म० २, २२, २) । २- वनिष्कता होना;

“पुंशङ्कमु सप्पुरस पा लंबहि, कञ्ज उत्तस्तस आसंबहि,” (द० ४, ३, ७) ।

आसंघा—स्त्री० (दे०) इच्छा; (दे०

ना० मा० १, ६३) ।

आस^१—स्त्री० (सं० आशा > प्रा० आसा) उम्मीद; (की० ३, १११) ।

—कञ् आशाकृतः (जं० ६, ७, १६) ।

आस^२—न० (सं० आस्य > प्रा० आस) मुह, मुह, (प० व० १४, १३, ७) ।

आस^३—पुं० (सं० अश्व > प्रा० आस) अश्व, घोड़ा; कुम० म० आस; (संघि० १३, ६, ४) ।

—वार, पुं० घृङ्-सवार; (संघि० २, ७, ७) ।

१ आस—अक० (सं० आस्) बैठना; (कम०) ।

आसल—पुं० (सं० आश्रय > प्रा० आसल) आश्रय—जैन मत के अनुसार

मन, वाणी और शरीर से किए हुए कर्म का संस्कार जिसे जीव ग्रहण करके बढ़ होता है । वह दो प्रकार का होता है—१-

पुण्याश्रय, २- पापाश्रय; “आसल कुविहु मुहामुह भेएँ,”—शुभ-अशुभ के भेद से आश्रय दो प्रकार का है; (व० १०, ३६, २०) ।

आसलज—पुं० (सं० आश्रययुज) बनौज; (प्रा० नु० २४, ४) ।

√आसल्य—(सं० आ+श्रि) सहारा लेना, आश्रित होना—नि, क्रि०; व० (आ+श्रयति); (प० व० ४०, १४, २) ।

आसल्युय—वि० (सं० आशङ्कित > प्रा० आसल्युय) १- संदिग्ध, २-

संभावित; (प० व० १, १२, ५) ।

आसलण—न० (सं० आसन > प्रा० आसलण) जिस पर बैठा जाता है वह

चौकी आदि; (म०) ।

आसणत्थ—वि० (सं० आसन+स्थित
> प्रा० आसण+धिअ) आसन पर बैठा
हुआ; (प० च० ७, २, ८) ।

आसण्ण—न० १- (सं० आसन>प्रा०
आसण) जिस पर बैठा जाता है वह
चौकी आदि; (ण० १, ४, १) । २-
न० (सं० आसन्न>प्रा० आसण्ण)
समीप, पास; वि० समीपस्थ; (प० च०
७, ४, २) । -भव्व वि० (सं० आसन्न
भव्य) नजदीक में रह कर सुंदर लगने
वाले; (प० च० १८, ४, ४) ।

आसण्णीहूळ—क्लि० (सं० आसन्नीभूत)
निकट पहुँचा; (प० च० १, ८, ५) ।

आसत्त—वि० (सं० आसक्त>प्रा०
आसत्त) लीन, अनुरक्त; (भ०; जस० २,
१, १७) । आसत्तिय—वि०, आसक्त;
(भ० २२, ८, ११) ।

आसत्ती—स्त्री० (सं० आसक्ति>प्रा०
आसत्ति) अनुरक्ति; (जस० २, २६, ६) ।

आसत्थ—वि० (सं० आश्वस्त) १-
आश्वासन-प्राप्त, स्वस्थ; २-विश्रान्त;
(दे० ना० मा० ७, २८) ।

आस्याम— पुं० (सं० अश्वत्थामन्)
१. अश्वत्थामा २. (सं० अश्वत्थ पीपल
का गाछ (जंझू ५, ८, ३२) ।

आसत्त—न० (सं० आसन्न>प्रा० आस-
ण्ण) समीप । वि० समीपस्थ; (भ०; सं०
रा०) ।

आसपास—पुं० (सं० आशा+पाश
आशा का जाल, आशा की शृंखला;
(जस० ३, ८३, ३) ।

आसम—पुं० (सं० आश्रम>प्रा०
आसम) तापस आदि का निवास-स्थान;

(भ०) ।

आसय—पुं० (सं० आशय>प्रा०
आसय) अभिप्राय; (क० १०, २६, ६) ।
न० (दे०) निकट, समीप; (दे० ना०
मा० १, ६५) । पुं० (सं० आश्रय>
प्रा० आसय) आघार, अवलम्बन;
(भ०) ।

आसरिअ—वि० (दे०) सामने आया
हुआ; (दे० ना० मा० १, ६६) ।

आसव—पुं० (सं० आश्रम>प्रा०
आसम) तापस आदि का निवास-स्थान,
तीर्थ-स्थान; (प० च० ६, १, ६) ।

आसव—पुं० (सं० आश्रव>प्रा०
आसव) कर्मों का प्रवेश-द्वार; जिससे कर्म-
बन्धन होता है वह हिंसा आदि; (ण० १,
१२, ६) ।

√आसव—(सं० आ+स्रु A-srava-
flow, discharge >प्रा० आसव)
धीरे-धीरे भरना, टपकना; (जस० ४,
१५, ३) । -इ अक० “रयणायरे” जल-
संधाउ जेव, कम्माण णिवंहु आसवइ तेव”
—जिस प्रकार समुद्र में जल का समूह
एकत्र होता है, उसी प्रकार जीव के साय-
कर्मों के पुंज का आस्राव (वहाव) होता
है; (क० ६, १२, १) ।

आसवण—न० (दे०) वास-गृह, शय्या-
घर; (दे० ना० मा० १, ६६) ।

आसवाइ—न० (सं० प्रा० आसव)
आसव, मद्य; (विला०) ।

आसवार—पुं० (सं० अश्ववार) अस-
वार, घुड़सवार; (भ०; ण० ३, १४,
८) । आसवार—पुं० अश्वारोही; (रि०
३, ७) ।

आसा—स्त्री० (सं० आशा > प्रा० आसा) उम्मीद । -चक्कु पुं० आशाचक्र (व० २, २१, ६)।-सव्वाहा स्त्री० (सं० सर्वाशा) सब आशाएँ; (प्रा० पै० १, ११६) ।

आसाइ—स्त्री० आसाई नगरी; (क० १०, २८, ४) । वि० सं० आसादित) प्राप्त, लब्ध; (प० च० ४४, ६, ४) । आसाऊरिय—वि० (सं० आशापूरित) आशावान; (क० ७, ८, ११) । आसाऊरिय—वि० आशा से पूरित, (प० च० २०, १, ५) ।

आसाढ—पुं० (सं० आपाढ > प्रा० आसाढ) आपाढ मास; (भ०) ।

आसाय—न० (सं० आस्वाद) स्वाद; (जस०) । -ण, न० (सं० आस्वादन > प्रा० आसायण) स्वाद लेना; (जस० ३, १, १२) ।

आसावरि—पुं० आसावरी देश-विशेष, 'जिणि आसावरि देसा दिण्हउ' —जिस राजा ने आसावरी देश दे दिया, (प्रा० पै० १, १२८) ।

√आसास—(सं० आ + √श्वासय् > प्रा० आसास) आश्वासन देना । आसासेवि—पू० का० क्रि० आस्वस्त कर; (व० २, १, १३) ।

आसास—न० (सं० आश्वासन > प्रा० आसासण) आश्वासन; (सं० रा०) ।

आसासण—न० (सं० आश्वासन > प्रा० आसासण) तसल्ली, दिलासा, आशा-प्रदान; (सुदं० १, १०, ३) ।

आसासय—पुं० (सं० आश्वासक > प्रा० आसासय) ग्रन्थ का अंश, सर्ग, परिच्छेद; अध्याय; (प० च० १, २, ५) ।

आसासिय—वि० (सं० आश्वासित > प्रा० आसासिय) आश्वासन-प्राप्त; (भ०) ।

आसि—क्रि० (सं० आसीत् > प्रा० आसि, अस = होना) था; (सुदं० १०, ६, ६; ण० ६, ८, ११; प० च० १, १२, ८) । पूर्व काले में; (जस० २, ८, ५) । -काल पुं० (सं० आसीत् + काल, भूतकाल (सुदं० ६, ४, ११) ।

आसिअ—वि० (सं० आश्रित > प्रा० आसिअ) आश्रय-प्राप्त, (ण० ६, १६, १५) । -अ, वि० (दे०) लोह-निर्मा; (दे० ना० मा० १, ६७) । आसिय वि० आश्रित स्थित; (जङ्ग० ११, ६, २) । आसीण—वि० (सं० आसीन) बैठा हुआ; (जङ्ग० १०, २४, २) ।

आसीवअ—पुं० (दे०) दरजी. कपड़ा सीने वाला; (दे० ना० मा० १, ६६) । आसीवाअ—न० (सं० आशीर्वाद > प्रा० आसीवाय) आशीर्वाद; (क० ८, ७, ३; जस० ३, ८, ११) । आसीवाउ; (सि० १, ८) ।

आसीविस—पुं० (सं० आशीविप > प्रा० आतीविस) विपैला सर्प; (भ०) । -सप्प पुं० (सं० आशीविप-सर्प > प्रा० आसीविस सप्प) विपैला साँप; (प० च० ११, ३, ८) ।

आसीस—पुं० (सं० आशिप् > प्रा० आसीसा, आसी) आशीर्वाद; (भ०) ।

आसु—अव्य० (सं० आशु > प्रा० आसु) शीघ्र, तुरंत; (जस० १, ८, ७) ।

आसेअणय—वि० (सं० आसेचनक) जिसको देखने से मन को तृप्ति न होती

हो वह; (दे० ना० मा० १, ७२) ।

आसोज—पुं० (सं० आश्वयुज > प्रा० आसोज) आसोज, आश्विन मास; तुल० पु० आसो; (संधि० १७, ५, १) ।

आहंडल—पुं० (सं० आखण्डल) इन्द्र; (जं० २, ४, ७; सि० १, ३२) ।

आह—स्त्री० (सं० आभा) चमक-दमक, कान्ति; (भ०) ।

√आहण—(सं० आ+हन् > प्रा० आ+हण = भारना, वध करना) प्रहार करना ।—इ सक०; तुल० म० हणणे; (भ०) । आहणहो—क्रि०, व० व०, आ०, (तूर्य-वाद्य) वजाए; (प० च० १६, ३, १०) । आहणन्ति—क्रि० (स्त्री-लिंग में प्रयुक्त) । (प० च० १८, ११, ५) ।

आहय—वि० (सं० आहत > प्रा० आहय) आघात-प्राप्त; (भ०; जं० ८, ७, १२) ।

√आहर—(सं० आ+हृ) छीनना, खींच लेना ।—इ सक० (सं० आहरति) (भ०) ।

आहरण—पुं० न० (सं० आभरण > प्रा० आहरण) भूषण, अलंकार; (ण० १, १६, ५; प० सि० च० १, १४, ७६; सुबंघ २, ४, २; क० २, १७, २; सि० १, १४; आहरणे; (रा० ५) ।

√आहल्ल—(सं० आ+चल्) हिलना, चलना ।—इ अक० (सं० आस्फालयति) (भ०) ।

आहव—पुं० (सं० प्रा० आहव) युद्ध (की० ४, २३७) ।—भूमि स्त्री० (सं०

आहव-भूमि) युद्ध का क्षेत्र; (प० च० २०, ५, ८) ।

आहाकम्म—पुं० (सं० अघः कर्म) १-नीच कर्म; (म० २, ७२, ६) । २-हिंसा; (जस० ३, २१, ७) ।

√आहाण—क्रि० (सं० आ+हन् > प्रा० आहण) आघात करना, मारना । आहणेइ—क्रि० जीत लेना, “सो वयणइ” चुरगुरु आहणेइ,”—वह अपने वचन से बृहस्पति को भी जीत लेता है; (क० ६, २४, ४) ।

आहाणब—न० (सं० आख्यानक > प्रा० आहाणय) उक्ति, वचन; (सुदं० ७, १२, ६) ।

आहाणय—पुं० (सं० आभानक) कहा-वत; (प० च० ४३, ६, ६) ।

आहारंगु—पुं० (सं० आहारक+अङ्ग) आहारक शरीर, जैनशास्त्रानुसार एक प्रकार की उपलब्धि जिसके द्वारा चतुर्दश पूर्वाधारों मुनिराज अपनी शंका के समाधान के लिए हस्त मात्र शरीर धारण कर तीर्थकरों के पास उपस्थित होते हैं; (व० १०, ६, २) ।

√आहार—(सं० आ+हार्य् > प्रा० आहार) भोजन करना ।—इ सक० (महा० ६८, २) ।

आहार—पुं० १- (सं० प्रा० आहार) बुराक, भोजन; (भ०) । २- (सं० आघार) आश्रय; (जस० ३, २१, ७, ११) ।—ण पुं० आहार; (व० १०, ७, ११) ।

√आहास—(सं० आ+भाष् > प्रा०

आभास, आहास) कहना, संभाषण करना; (ख० १, १, २) । -इ सक० (सं० आभापते); (भ०) ।

आहासिज—वि० (सं० आ+भापित) संभाषित; (ण० ८, २, २) ।

√आहिड—(सं० आ+हिण्ड् > प्रा० आहिड) घूमना, परिभ्रमण करना; (जस० ४, १८, १४) । आहिण्डइ-क्रि०, व० (प० च० १०, १२, ९) ।

आहि—स्त्री० (सं० आधि > प्रा० आहि) मन की पीड़ा; (क० १, १६, ३) ।

आहिन्दोलन—पुं० सं० प्रलोभणम्; उत्तेजना, क्षोभ; (प० च० ४१, १, ४) ।

आहिन्दोलित—वि० प्रलोभित, उत्तेजित; (प० च० २५, १८, १२) ।

आहीर—पुं० (सं० आभीर > प्रा० आहीर) अहीर जाति विशेष; (क० ७, ३, ६; प० च० ३०, २, ११) ।

आहुंजेइ—क्रि० (सं० आ+√भुज्) खाना; "सुहिवंषजणेहि परियरियइ आहुंजेइभोगण"; (सुद० ५, ६, २) ।

आहुंडुर, आहुंडुइ—पुं० (दे०) बालक, बच्चा; (दे० ना० मा० १, ६६) ।

आहु—पुं० (दे०) चल्नु; (दे० ना० मा० १, ६१) ।

आहुठ्ठ—वि० (सं० अघ्युठ्ठ > प्रा० अहुठ्ठ > प्रा० अहुठ्ठ, अहुठ्ठ) अदृति, साढ़े-तीन; तुल० गु० ऊठ्ठ, उठ्ठ; (दि० ८, १; व० ९, ६, ३) ।

आहुड—क्रि० (दे०) गिरना; (दे० ना० मा० १, ६९) । न० १- विक्रय,

२- सिसकारी, सी-सी का शब्द; (दे० ना० मा० १, ७४) ।

आहुडिज—वि० (दे०) गिरा हुआ, (दे० ना० मा० १, ६९) ।

आहुत्त—न० (दे०) अभिमुख, सम्मुख, सामने; "रणाहुत्तकाले"; (भ०) ।

आहूय—वि० (सं० आहूत > प्रा० आहू) बुलाया हुआ; (क० ७, १२, ५) ।

आहेडय—पुं० (सं० आवेट+क > प्रा० आवेडग) शिकार; (प० च० २७, ३, १) ।

आहोय—पुं० (सं० प्रा० आभोग) विस्तार; (ख० ९, ४, ८) ।

इ

इं—अव्य० (सं० एव) निश्चय, ही, समानता; (उ० व्य० प्र० १६-२३) ।

इंगल—पुं० (सं० अङ्गार > प्रा० अंगार, इंगल) जलता हुआ कोयला; (सुद० ६, १५, ७) । इंगल-कोयला; (ण० ९, ९, १०) ।

इंगाली—स्त्री० (दे०) इंगारी, अंगारी, इक्षुखण्ड, ईख का टुकड़ा; (दे० ना० मा० १, ७९) ।

इंगिय—न० (सं० इङ्गित > प्रा० इंगिय) संकेत, अभिप्राय के अनुस्यूषेप्ता; (ण० ४, ७, १) ।

इंघिअ—वि० (दे०) सूंघा हुआ; (दे० १, ८०) ।

इति—क्रि० (सं० यन्ती, √या) आती है; "माउर इति गिह्वण-कएण"; (व० १, ४, १२) ।

इंतीए—वि० (सं० यन्ती) आने वाली, "अहमेंतीए तीए सामी" —मैं ही उस आने वाली प्रेयसी का प्रेमी हूँ; (जस० १, १२, १६) ।

इंतु—भू० का० कृ० (सं० यात्, या+क्त) गया हुआ; "इंतु ण दीसइ जीउ पहुँतरि,"—कि जीव तो शरीर से पृथक् मार्ग पर जाता हुआ दिखाई नहीं देता; (जस० ३, २१, ७) ।

इंद—पुं० १- (सं० इन्द्र > प्रा० इंद) १- देव-राज, देवताओं का राजा (सि० १, ३४; भ०) । २- इंद्रवज्रा नामक छंद; (प्रा० पं० २, ११८) ।—वज्रा, पुं० (सं० इन्द्रवज्रा) इंद्रवज्रा छंद; (प्रा० पं० २, ११४) ।—वाय पुं० (सं० इन्द्रवात > प्रा० इंदवाय) एक माण्डलिक राजा; (भ०) ।

इंदगाह—पुं० (दे०) साथ में संलग्न रहने वाले कीट-विशेष; (दे० ना० मा० १, ८१) ।

इंदगोबय—पुं० (सं० इन्द्रगोपक) इंद्रगोप, खद्योत, वर्षा ऋतु में होने वाला रक्त वर्ण का क्षुद्र जन्तु-विशेष; "पिय पेक्खु इंदगोवयविरेणु ।" प्रिये इस विरेणु अर्थात् 'रजरहित निर्मल इंद्रगोप (खद्योत) को देखो'; (जंबू० ४, १८, ६) ।

इंदग्गि—पुं० (दे०) बर्फ, हिम; (दे० ना० मा० १, ८०) ।—घूम न० (दे०) बर्फ; (दे० ना० मा० १, ८०) ।

इंदजाल—न० (सं० इन्द्रजाल > प्रा० इंदजाल) माया-जाल, छल; (ण० ३, १, १२) ।

इंदड्डलभ—पुं० (दे०) इन्द्र का उत्थापन (जगाना, ऊपर उठाना); (दे० ना० मा० १, ८२) ।

इंद-णंदण—पुं० (सं० इन्द्र + नन्दन) इन्द्र का नन्दन वन; (व० ३, ६, २) ।

इंदणील—पुं० न० (सं० इन्द्रनील > प्रा० इंदणील) नीलमणि मणि-विशेष; (ण० १, १४, ३) । इंदनील; (जंबू० ३, ३, १०) ।

इंदभूइ—पुं० (सं० इन्द्रभूति) गीतम गणधर; (व० १०, २, ३) ।

इंदमंदिरं—पुं० (सं० इन्द्र + मन्दिर) इन्द्र-भवन; (महा० ६८, ४) ।

इंदमह—वि० (दे०) १- कुमारी में उत्पन्न; २- कुमारता, यौवन; (दे० ना० मा० १, ८१) ।

इंदमहकामुअ—पुं० (सं० इन्द्रमह-कामुक) कुत्ता, श्वान; (दे० ना० मा० १, ८२) ।

इंदयालु—न० (सं० इन्द्रजाल > प्रा० इंदजाल, याल) माया-कर्म, छल, कपट की विद्या; (व० ५, १३, १६) ।

इंदवास—पुं० (सं० इन्द्र + आदेश) इन्द्र का आदेश; (जंबू० १, १६, ३) ।

इंदवाणि—स्त्री० (सं० इन्द्राणि > प्रा० इंदवाणी) इन्द्र की पत्नी; (व० ६, १२, १०) ।

इंदवासण—पुं० (सं० इन्द्रासनं) पंचकल गण का नाम (छंदशास्त्र में प्रयुक्त); (प्रा० पं० १, १६) ।

इन्दिर—पुं० (सं० इन्दिर > प्रा० इन्दिर) भ्रमर; (जं० ८, १३, ६) ।

इन्दिरि—स्त्री० (सं० इन्दिरि) भ्रमरी; (ण० ३, ५, १२) ।

इन्दिय—पुं० न० (सं० इन्दिय > प्रा० इन्दिय) १- वह शक्ति जिससे वाहरी विषयों का ज्ञान होता है, २- ज्ञानेन्द्रिय—आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा; कर्मेन्द्रिय—जिनसे कर्म किये जाते हैं, यथा—हाथ, पैर आदि; (सा० ६५) ।

इन्दियवल—पुं० (सं० इन्दियवल) इन्द्रियों का बल; (जस० २, १३, २०) । —सुह पुं० (सं० इन्दियसुह) इन्द्रियों का सुख; (जस० ३, २०, ७) ।

इन्दियगिद्धि—स्त्री० (सं० इन्दियगिद्धि) इन्द्रिय प्रलोभन; (जं० ११, १४, ७) ।

इन्दियदप्प—पुं० (सं० इन्दियदप्प) इन्द्रिय-अहंकार; (जं० ३, ६, २) ।

इन्दियदमण—पुं० (सं० इन्दियदमण) इन्द्रियों का दमन; (जं० २, १८, ३) ।

इन्दियफडालु—पुं० (सं० इन्दियफडालु) फण + ल (स्वार्थे प्र०) इन्द्रिय रूपी फण, फण (भोग) "इन्दियफडालु चउगइवयणु"—इन्द्रियों रूपी फण, चतुर्गति रूपी मुख; (जं०) ।

इन्दियविलि—स्त्री० (सं० इन्दियविलि) इन्द्रिय-प्रकृति या का; (जं० ११, ८, २) ।

इन्दियवि—पुं० (सं० इन्दियवि) इन्द्रियों के विषय (अर्थात् भोग-वासना); "नासइ इन्दियविसयं वरु"; (जं० २, २०, ६) ।

इन्दियाल—न० (सं० इन्दियाल > प्रा०

इन्दियाल) मार्या-कर्म; (प्रा० गुं० ५, ११; संधि० १४, १, २) ।

इन्दीवर—(सं० इन्दीवर > प्रा० इन्दीवर) कमल, पद्म; (भ०) ।

इन्दु—पुं० १- (सं० इन्दु > प्रा० इन्दु) चन्द्र, चन्द्रमा; (भ०) । २- पुं० इन्दु नामक दूत; (व० ३, ३१, ८) । ३- रोला छन्द का एक भेद; (प्रा० पं० १, ६३) । ४- पटकल गण का नाम (छंद शास्त्र में प्रयुक्त); (प्रा० पं० १, १२५) ।

इन्दोव—पुं० (दे०) इन्द्रगोप, कीट-विशेष; (सं० रा०) ।

इन्दोवत्त—पुं० (दे०) इन्द्रगोप, कीट-विशेष; (दे० ना० मा० १, ८१) ।

इंधण—न० (सं० इंधण) जलावन, ईंधन; (उ० व्य० प्र० २१-३०; की० ३, ६८) । इंधणु (परमा०) । —पाणि न० (सं० इंधण + पानीयम्) इंधनोदकम् (उ० व्य० प्र० २१-३०) ।

इहां—अव्य० (सं० प्रा० इह) यहाँ; (उ० व्य० प्र०, २०-५) ।

इ—अव्य० १- (सं० एव) ही (रा० ३) । २- (सं० अपि) भी; (प० च० ३, १३, ७) । पुं० (सं० प्रा० इ) अपभ्रंश वर्ण माला का तृतीय स्वर-वर्ण ।

इअ—अव्य० (सं० इतः) यहाँ; (की० २, २२६) । २- सर्व० (सं० इदम्) यह; (क० १, १०, १०) । ३- अव्य० इव; (सं० रा०) ।

इअर—वि० (सं० इतर > प्रा० इयर) अन्य; (की० ३, ७०) । इअरा—वि० स्त्री० (सं० इतरा) अन्य; (प्रा० पं० १, ८३) । इअरी—वि० अन्य; (की० १, ४६) ।

इआलिस—वि० (सं० एकचत्वारिंशत्)
इकतालीस, चालीस और एक; (प्रा०
पै० १, १५६) ।

इउ—अव्य० (सं० इतस् > इओ) इस
लोक में, यहाँ; (रा० २२) ।

इउ—सर्व० (सं० इदम्) यह; तुल० गु०
आ; (संघि० १६, ६, १३) ।

इओ—अव्य० इतने में; “इओ तत्य
ईसाणचंदस्स घूया”; (विला०) ।

इक—वि० (सं० एक > प्रा० एक्क,
इक्क) एक; “इक-गुणी पूज किय कुँवरि
कंत”—कुमारी श्रीर कान्त ने पहले दिन
एक गुनी पूजा की; (सि० १, १७,
२६) ।

इकट्ठु—अव्य० (सं० एकत्त) इकट्ठा,
सारा; (सं० रा० १८०) ।

इकलि—वि० स्त्री० (सं० एकला)
अकेली; (प्रा० पै० २, १६३) ।—य;
अकेली (सं० रा०) ।

इक-सँथ—स्त्री० (सं० एक संस्था) एक
रूप या आकार, “इक-सँथ वि-संथिय
वाला जं ति-संथिय जंपइ । वररुचि रुठउ
राओ, रोसिहिं मणु कंपइ”; (प्रा० गु०
१६, ६) ।

इकक—वि० (सं० एक > प्रा० एक्क,
इक्क) इकाइयों में सबसे छोटी और
पहनी पूरी संख्या, एक; (ण० २, १, ६;
जं० १, ५, १७; पाहु० १७७) ।—ति
वि० एक ही, एकत्र; (सं० रा०) ।

इककइया—अव्य० (सं० एकदा > प्रा०
एक्कइया) एक समय में, एक बार;
(जस० ४, २४, २६) ।

इक्कण—वि० (दे०) चोर, चुराने वाला;

(दे० ना० मा० १, ८०) ।

इक्कल्ल—वि० (सं० एकल) अकेला;
तुल० गु० एकलु; (संघि० १४, १, ४) ।

—अवि० अकेला; (जं० १०, २६, ११) ।

इक्कल्लिय—वि० (सं० एकल) अकेली;
(सं० रा० १६०) ।

इक्कासी—सं० (सं० एकाशीति)
इक्यासी; तुल० गु० एकाशी, पं०
इकासी; (संघि० १६, ३, १) ।

इक्किकिक्क—वि० (सं० एक-एक) एक-
एक; (सं० रा०) ।

इक्कुस—न० (दे०) कमल; (दे० ना०
मा० १, ७६) ।

इक्ख—पुं० (सं० इक्षु > प्रा० इक्खु)
ईख, ऊख; (सं० रा०) । इक्खु; (क० ४,
१०, ५) ।

इक्खक्कु—पुं० (सं० इक्खाकु > प्रा०
इक्खागु) एक प्रसिद्ध क्षत्रिय राजवंश;
(पं० च० ३८, ११, ७) ।

इक्खण—न० (सं० ईक्षण) अवलोकन,
प्रेक्षण; (भ०) ।

इक्खा—स्त्री० (सं० प्रा० इच्छा) इच्छा;
(सि० १, ३) ।

इक्खाज्ज—पुं० (सं० इक्खाकु > प्रा०
इक्खागु) इक्खाकु नामक वंश; (महा०
६८, ६, ६) ।

इगसठि—वि० (सं० एकपठि > पा०
एकसठि) साठ और एक; तुल० गु० एक-
सठ; (प्रा० गु० ४०, १३) ।

इग्ग—वि० (दे०) भीत, डरा हुआ;
(दे० ना० मा० १, ७६) ;

इग्गारह—वि० (सं० एकादशन् > प्रा०
एक्करह) ग्यारह; (प्रा० पै० १, ६३) ।

इग्घिअ—वि० (दे०) तिरस्कृत; (दे० ना० मा० १, ८०) ।

√इच्छ—(सं० इप् > प्रा० इच्छ) इच्छा करना; (उ० व्य० प्र० १३, १) । —इ सक०, ए० व० (सं० इच्छति) (भ०) ।

—त कृ० (सं० इच्छन्) (उ० व्य० प्र० १२-२७) । —मि क्रि०, व०, ए० व० (प० च० १४, ८, ४) । —हृ क्रि० व० चाहना, (हे० ३८४) ।

इच्छ—स्त्री० (सं० प्रा० इच्छा) अभिलाषा; (प० च० १४, ८, ४) ।

इच्छिय—वि० (सं० इच्छित > प्रा० इच्छिय) जिसकी इच्छा की गई हो वह; (भ०) ।

इच्छु—वि० (सं० प्रा० इच्छु) इच्छुक, अभिलाषी; (सि० १, २१) ।

इच्छेवय—वि० (सं० एतव्य) इच्छा; "हीउ मज्झु इच्छेवय-संपइ," (जस० ४, २७, १२) ।

√इछ—(सं० √इप् > प्रा० इच्छ) इच्छा करना, चाहना । —इ सक० (प्रा० पै० २, १६३) ।

इट्ट—स्त्री० (सं० इण्टका > प्रा० इट्टा) ईंट; तुल० गु० ईट; (प० च० ३३, ६, ४) । इट्टा—स्त्री० ईंट (संघि ३, १२, ४) । इट्टाल—वि० इण्टकामय ईंटों से युक्त; (प० च० २५, ७, ३) ।

इट्ठ—वि० (सं० इण्ट > प्रा० इट्ठ) अभिप्रेत, प्रिय, अभिपित; (भ०) ।

इट्ठु (हे० ३५८, २) । —च्छर—स्त्री० (सं० इण्ट + अप्सरा) (जं० २, २, ७) । —देवो पु० (सं० इण्टदेवः) प्रिय देवता; (प्रा० पै० १, ३४) ।

इडिका—स्त्री० (सं० एडक > प्रा० एडक); भेड़ (की० ४, ११४) ।

इडिडवंत—वि० (सं० ऋद्धिमत् > प्रा० इडिडमंत) वैभव या शक्ति, सामर्थ्य वाला; (सुदं० २, ६, ६) ।

इणं—सर्व० (सं० इदम्) यह; (ण० २, ३, १; दे० ना० मा० १, ७६) ।

इणि—सर्व० (सं० एतत्) इस; (सं० रा०) ।

इणिण—सर्व० (सं० एतानि) यह; (प्रा० पै० २, १६०) । इण्णे—सर्व० (सं० एते) ये; (प्रा० पै० २, २८) ।

इण्हि—अव्य० (सं० इदानीम्) इस समय; (दे० ना० मा० १, ७६) ।

इत—अव्य० (सं० इत्यम् > प्रा० इत्यं) इस तरह, इस प्रकार; (की० ३, १४८) ।

इत्तउं—वि० (सं० एतावत् > प्रा० इत्तिय) इतना; (हे०, ३६१) ।

इत्तलउ—वि० (सं० एतावत्, इयत् > प्रा० इत्तिय) इतना; (प्रा० गु० १२, १३) ।

इत्तहि—अव्य० (सं० अत्र) यहाँ पर; (भ०) ।

इत्ति—स्त्री० (सं० इयत्ता) सीमा, परिमिति; (की० ४, ११) ।

इत्तिअ—वि० १. (सं० इयत्, एतावत् > प्रा० एत्तिअ) इतना; (क० ३, ७, ६) । इत्तिय (भ०) । २. इत्तर, चपल; (जस०) ।

इत्यंतरि—अव्य० (सं० अत्र + अन्तर) इसी बीच; (सं० रा०) ।

इत्थ—अव्य० (सं० अत्र > प्रा० एत्थ) यहाँ, यहाँ पर; (भ०) । (जस० १, १८, २०; म० १, २३, ५) । इत्थि—अव्य० यहाँ (प्रा० पै० १, ६) । इत्थु; (भ०) ।

इत्थन्तरे—अव्य० (सं० अत्रान्तरे) यहाँ इसके बाद; (प० च० १, १४, १) ।

इत्थिम्म—अव्य० (सं० एतस्मिन्) यहाँ, “इत्थिम्मि ह्वेसइ तित्थवरु,” यहाँ एक बड़ा तीर्थ बनेगा; (क० ५, ६, ६) ।

इत्थिरज्जं—पुं० (सं० स्त्री + राज्य) देश-विशेष; (जंबू० ६, १६, १२) ।

इत्थी—स्त्री० (सं० स्त्री > प्रा० इत्थि, इत्थी) महिला, औरत; (विला०) ।

इत्थि—अव्य० (सं० अत्र > प्रा० इत्थ) यहाँ; (की० ४, १२) ।

इत्थेन्तर—क्रि० वि० (सं० अत्रान्तर) इस बीच में; (की० ३, ६३) ।

इद्दंड—पुं० (दे०) मधुकर; (दे० ना० मा० १, ७६) ।

इन—सर्व० (सं० एतत्) यह; (रा० १२) ।

इन्द्र—पुं० (सं० इन्द्र) सूर्य; (की० २, २६) ।

इन्द्रत्तणु—पुं० (सं० इन्द्रत्व > प्रा० इंदत्त) इन्द्र का असाधारण धर्म; (प० च० ३, ६, ११) ।

इन्द्र-दिस—स्त्री० (सं० इन्द्र-दिशा) पूर्व-दिशा; (प० च० २४, १४, ६) ।

इन्द्रवह—पुं० (सं० इन्द्रमह > प्रा० इंद-मह) इन्द्र की आराधना के लिए किया जाता एक उत्सव; (प० च० ८, ६, ६) ।

इन्दिन्दिर—पुं० (सं० इन्दिन्दिर > प्रा० इंदिदिर) भ्रमर; (प० च० १३, ७, ४) ।

इब्म—पुं० (सं० इभ्य > प्रा० इब्म) घनी, घनवान; (जंबू० ३, १०, १२) । पुं० (दे०) वणिक, व्यापारी; (दे० ना० मा० १, ७६) ।

इमं—सर्व० (सं० इदम् > प्रा० इम) यह; (जंबू० २, ३, १); इमम (म०) ।

इम—क्रि० वि० (सं० एवम्) ऐसा ही, इस प्रकार; तुल० गु० एम; (संधि० ११, १, २) । २- यह, ऐसा; ऐसे; (प्रा० पै० २, ७४) । ३- इस प्रकार; (सं० रा०) ।

इमराहिमसाह—पुं० इवाराहीमशाह; (की० २, १५३) ।

इमु—सर्व० (सं० इदम् > प्रा० इम) यह; (प० च० १५, ११, ६) ।

इय—अव्य० (सं० इति > प्रा० इय) इस प्रकार, एवं (ण० १, १०, १२) । सर्व० यह; (सं० रा०) ।

इयर—सर्व० (सं० इतर > प्रा० इयर) स्त्री० इयरा, पाठी एक व० इयरहु,

इयस्सु, दूसरा; तुल० पुरानी म० येर, येरु; (भ०; जस० ३, ३२, ४) । —ह

अव्य० (सं० इतरथा) अन्यथा, अन्य प्रकार से; (जस०) । इयरा—वि० (सं० इतरा स्त्री०) दूसरी; (जंबू० ८, ११, १) ।

इयराज्त—पुं० (सं० इतर + आयुक्त) अन्य (लोगों के) मुखिया, “पुणु सामंत महंत थिय सेणुड इयराज्त;” (जंबू० ५, १, १०) ।

इरमंदिर—पुं० (दे०) करभ; ऊंट; (दे० ना० मा० १, ८१) ।

इरावय—पुं० (सं० ऐरावत > प्रा० इराव) हाथी; (ण० ६, १३, ५) ।

इरि—पुं० (सं० प्रा० गिरि, प्रा० इरि) पर्वत; (प० च० ३, ८, ७) ।

इरिण—न० (दे०) कनक, सुवर्ण; (दे० ना० मा० १, ७६) ।

इरिया—स्त्री० (दे०) कुटी, कुटिया, (दे० ना० मा० १, ८०) ।

इल—स्त्री० (सं० प्रा० इला) पृथ्वी, भूमि; (प० च० १२, ११, ६) । इला; (जस० ४, १७, ११) ।

इलरक्ख—वि० (सं० इला + रक्खक > प्रा० इला + प्रा० रक्खअ) खेत का रक्ख-वाला; (संघि० २, १३, ५) ।

इल्ल—पुं० (दे०) १- प्रतिहार, चपरासी; २- दाँती, ३- वि० दरिद्र; ४- कोमल, ५- काला; (दे० ना० मा० १, ८२) ।

इल्लि—पुं० (दे०) १- व्याघ्र; २- सिंह; ३- छाता; (दे० ना० मा० १, ८३) ।

इल्लोर—न० (दे०) १- आसन-विशेष; २- छाता; ३- दरवाजा, गृह-द्वार; (दे० ना० रा० १, ८३) ।

इव—अव्य० (सं० प्रा० इव) इन अर्थों का सूचक—१- उपमा, २- सादृश्य, ३- उत्प्रेक्षा; (प० च० ५, १३, ८) ।

इव्वीह—अव्य० (दे०) सं० इदानीम; अभी; (म० २, २८, ६) ।

इस—वि० (सं० ईदश) ऐसा ।—उ (संघि १७, २, ५; रा० १०) ।

इसि— पुं० (सं० ऋषि > प्रा० इसि) मुनि, साधु, ज्ञानी, महात्मा; (ण० १, १२, ३) ।

इह—सर्व० (सं० प्रा० इह) इस लो०—'इह भूरि पुष्पवंतर्हं णराहं किं पि वि ण असज्जु मणोहराई'—महान् पुण्यशाली पुरुषों के लिए इस संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है; (व० ८, ५, २) ।

इहदह—वि० (सं० एकादश) ग्यारह; प्रा० पै० १, ८६) ।

इहरत्त—अव्य० (सं० इह + अत्र) इस संसार में; (संघि० १२, ७, ५) ।

इहलोय—पुं० (सं० इहलोक > प्रा० इहलोग, इहलोअ) मनुष्य-लोक, (प० च० ४, १३, ४) ।

इहां—अव्य० (सं० इह) यहाँ, इस स्थान में; (उ० व्य० प्र०, २०-३; रा० २८) ।

इहिकारा—पुं० (सं० इहिकाराः) इकार तथा हिकार वर्ण; (प्रा० पै० १, ५) ।

इहु—अव्य० (सं० प्रा० इह) यहाँ, इस जगह; (भ०) । २-सर्व० (सं० ईदक) यह; "एहु दीसइरिउवले 'विजउसाहु" —यह शत्रु-सेना में विजय का उत्साह दिखाई दे रहा है; (जं० ७, ३, ७) ।

ई

ईधण—न० (सं० इधन > प्रा० इधण) ईधण, लकड़ी आदि जलाने की वस्तु; (उ० व्य० प्र० १५, ४) ।

ई—सर्व० (सं० एतत् > प्रा० ईअ) यह; (की० १, २६) । पुं०—अपभ्रंश वर्ण-माला का चतुर्थ वर्ण; स्वर-विशेष ।

√ईच्छ—(सं० इच्छति) इच्छा करना; (उ० व्य० प्र० ५२-११) ।

ईर—सक० (सं० प्रा० ईर) कहना । ईरियउं क्रि० भू० का० कहा; (महा० ६६, १६, ६) ।

ईरिअ—वि० (सं० ईरित, √ईर = कहना) १- कथित; (सुदं० २, १, ८) । २- प्रेरित (जस० २, १८, १६) ।

ईश—पुं० (सं० ईश > प्रा० ईस) ईश्वर; (की० १, १०३) ।

ईसंति—क्रि० (सं० दृश्यन्ते) दिखाई देना; (ण० ६, १७, ३२) ।

ईस^१—सक० (सं० ईर्ष्य > प्रा० ईस) ईर्ष्या करना, द्वेष करना । ईसाइवि-पू० का० क्रि० (जंबू० ८, १४, ७) ।

ईस^२—न० (सं० ईर्ष्या > प्रा० ईसिअ) द्वेष; (जंबू० ६, १३, २) । न० (दे०) खूंटा, खीला, कीलक; (दे० १, ८४) ।

ईस^३—पुं० (सं० ईश > प्रा० ईस) ईश्वर; (भ०) ।

ईसअ—पुं० (दे०) हरिण की एक जाति; (दे० १, ८४) ।

ईसर—पुं० (सं० ईश्वर > प्रा० ईसर) १. परमेश्वर, प्रभु; (भ०) । २. ईश्वर नामक विद्याघर योद्धा; (व० ४, ६, ६) ।

३. कामदेव (सं० रा०) । ४. समृद्ध, "घरि-घरि गोरिउ सीमंतिणिउ सक्कु घणउ ईसरु जणु," -वहाँ घर-घर में गोरी सीमन्तिनियाँ (स्वर्ग में एक ही गोरी है) तथा शक्र और घनद-कुवेर जैसे घनी या समृद्ध लोग हैं, (जंबू० १, ६, १०) ।

ईसरवाअ—(सं० ईश्वरवाद > प्रा० ईसर

+वाय) ईश्वर में विश्वास संबंधी तत्त्व-विचार; (ण० ६, ७, १०) ।

ईसरसंगउ—(सं० ईश्वरसंगतः) महेश्वर का साथी, 'जो सामि वि णउ ईसरसंगउ वह स्वामी होता हुआ भी स्वामी (कार्तिकेय) के समान महेश्वर का साथी नहीं था, (सुदं० २, ४, ६) ।

ईसरसरि—पुं० (सं० ईश्वर + स्वर > प्रा० ईसर + सर) काम पीड़ित स्वर; (सं० रा०) ।

ईसरहि—पुं० (सं० ईश्वरम्) प्रभु, मालिक, राजा, शासक, घनी या बड़ा आदमी; (उ० व्य० प्र० ५०-१७) ।

ईसा^१—स्त्री० (सं० ईर्ष्या > प्रा० ईसा) ईर्ष्या, द्रोह; (म० १, १४, ४; प्रा० पै० २, २०१) ।

ईसा^२—स्त्री० (सं० ईषा = हलस) हल का एक काण्ठ; (दे० ना० मा० २, ६६) ।

√ईसाअ—(सं० √ईर्ष्य > प्रा० ईस) ईर्ष्या करना, द्वेष करना । ईसाएँवि-पू० का० क्रि० (प० च० ५५, १०, ७) ।

ईसाण—पुं० (सं० ईशान > प्रा० ईसाण) स्वर्ग-नाम; (जस० ४, २८, २८) । —सगि (सं० ईशान-स्वर्ग) देवलोक-विशेष; (व० २, १०, १०) ।

ईसाणद—पुं० (सं० ईशान इन्द्र) देवलोक का इन्द्र; (व० ६, १२, १२) ।

ईसालुअ—वि० (सं० ईर्ष्यालु + क > प्रा० ईसालुअ) द्वेषी; (जंबू० ३, ११, ५) ।

ईसास—वि० (सं० ईर्ष्यालु) ईर्ष्या करने वाला; "सुलहउ ईसासे जणे कसाउ"—ईर्ष्यालु व्यक्ति में कसाय सुलभ है, (सुदं० ८, ३२, ६) ।

ईसासिंह—पुं० [सं० ईर्ष्या + शिखिन्
पुं० > प्रा० ईसासिंहि] ईर्ष्या की अग्नि;
(जस० २, १०, १३) ।

ईसि—अव्य० (सं० ईपत् > प्रा० इसि)
थोड़ा, अल्प; (भ०) ।

ईसिअ—वि० (सं० ईर्षित) जिस पर
ईर्ष्या की गई हो वह; (दे० ना० मा०
२, १६) ।

ईसीसी—अव्य० (सं० ईपत् > प्रा०
ईसि) थोड़ा, अल्प; हल्का सा; (ण० ५,
६, १; प० च० ४, १३, ८) ।

√ ईह—(सं० ईक्ष् > प्रा० ईह = देखना,
विचारना) देखना; (संघि० १३, १४,
६) । -इ सक० (सं० इप् > प्रा० इच्छ)
चाहना, “साचइ जम्मण-मरण जु वीहइ,
सिवकुमार जिम सो सिवु ईहइ”; (प्रा०
गु० १, १२३) । -हि, सक०, चाहना,
“हियवइ ईहहि” -हृदय से चाहती है;
जंबू० ६, १५, २) । ईहंतिय-कृ० (ईह
+ शतृ (स्त्रियाम्) समभकर, विचार
कर; (जंबू० १, १०५) ।

ईहां—अव्य० (सं० प्रा० इह) यहाँ
(उ० व्य० प्र० १४-२८) । ईहां हुंत—
सं० इतस् (उ० व्य० प्र० १४-३०)
इधर से ।

उ

उंछअ—पुं० (दे०) वस्त्र छीपने का
काम करने वाला शिल्पी, छीपी; जो
कपड़ा छापता है या छोट बनाता है; (दे०
ना० मा० १, ६८) ।

उंजिय—वि० (सं० ऊजित) १. शक्ति-

संपन्न; २. उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, ३. समृद्ध
४. तेजस्वी, ५. गंभीर; (जस०) ।

उंजु—वि० (सं० ऋजु प्रा० उजु) सीधे;
‘सोमउंजुअंगयाइ’—सौम्य और सीधे
अंग वाली; (जस० ३, २, १२)

उंट—पुं० स्त्री० (सं० उट्ट > प्रा०
उट्ट) ऊँट, “खसपीडिउ अडविह उंटु
मुक्कु”-खारिष (व्याधि) से पीड़ित
ऊँट को अटवी में छोड़ दिया; (जंबू०
१०, ७, १) ।

उंठ—क्रि० (सं० उत् + स्या > प्रा०
उट्ठ) उठ गया हो, (की० २, १०५) ।

उंड—वि० (दे०) गहरा तुल० राज०
उंडाण (गहराई); (दे० ना० मा० १,
८४) ।

उंडल—न० (दे०) १. मञ्च, मचान,
उच्चासन, २. निकर, समूह; (दे० ना०
मा० १, १२६) ।

उंतालीस—वि० (सं० ऊनत्त्वारिशात्)
उनतालीस; (प्रा० पै०) ।

उंद—पुं० (दे०) वाद्य; (सुदं० ७, ६,
५) ।

उंदरं—पुं० स्त्री० (सं० उन्दुर > प्रा०
उंदुर, उंदर) मूषक, (व० ६, ११,
१) । उंदर (दे० ना० मा० १, १०२) ।

उंदुर—पुं० स्त्री० (सं० उन्दुर > प्रा०
उंदुर, उंदर) मूषक, चूहा; (जस० ४,
१६, ७) । उंदुरु (व० १०, ८, १६) ।

उंदुर—पुं० दोहा छंद का एक भेद;
(प्रा० पै० १, ८०) ।

उंदुरअ—पुं० (दे०) लम्बा दिवस;
(दे० ना० मा० २, १०५) ।

उं देस—पुं० (सं० उपदेश > प्रा० उव-

एस) शिक्षा, बोध; (सि० १, २) ।
 उंन—वि० (सं० ऊन) न्यून, हीन;
 (रा० ३०) ।
 उंवर—पुं० (सं० उदुम्बर > प्रा०
 उंवर) १. उदुम्बर, गूलर का वृक्ष, वृक्ष-
 विशेष; गु० उंवरो; (जंबू० ४, २१, २;
 संधि० २, ५, ६) । २. न० उदुम्बर का
 फल (मुदं० ६, २, १) । ३. देहली,
 द्वार के नीचे की लकड़ी; (दे० ना० मा०
 १, ६०) ।
 उंवर—वि० (दे०) बहृत, प्रचुर;
 (दे० ना० मा० १, ६०) ।
 उंया—स्त्री० (दे०) वंघन; (दे० ना०
 मा० १, ८६) ।
 उंवी—स्त्री० (दे०) पका हुआ गेहूं;
 (दे० ना० मा० १, ८६) ।
 उंस—स्त्री० (सं० अवश्याय > प्रा०
 उस्ता) ओस; (जंबू० १०, ७, ६) ।
 उंअआरे—पुं० (सं० उपकार > प्रा०
 उअआर) परोपकार; (की० २, ३६) ।
 उंगर—पुं० (सं० उत्कर > प्रा०
 उक्कर) समूह; (की० २, १०८) ।
 उंछल—क्रि० भू० का० (सं० उत् + शल्
 > प्रा० उच्छल) उछला; (की० ३,
 ३७) ।
 उंठ—क्रि० (सं० उत् + स्या > प्रा०
 उदठ) उठ गया हो; “कोलाहल, कान
 भरन्ते मर्यादा छाँडि महार्णव उंठ,”
 (की० २, १०५) ।
 उंण—उच्य० (सं० पुनर् > प्रा० पुणो,
 पुण, उण) पर, फिर; (की० २, ४५) ।
 उंद्धार—पुं० (सं० प्रा० उद्धार)
 बचाव; (की० २, १६) ।

उंप्ताप—पुं० (सं० उत्ताप = पीड़ा,
 कष्ट) दुःख; (की० ३, ५२) ।
 उंपास—पुं० न० (सं० उपवास > प्रा०
 उववास) उपवास, अनाहार; (की० ३,
 ११, २) ।
 उंप्पत्ति—स्त्री० (सं० उपपत्ति > प्रा०
 उववत्ति) उत्पत्ति, जन्म; (की० ३,
 ११०) ।
 उंप्पर—अच्य० (सं० उपरि > प्रा०
 उप्परि) ऊपर; (की० २, १३०) ।
 उंलटि—क्रि० भू० का० (दे०) बदली;
 “कुरुम उंलटि करवट्ट दे” — ‘कूम ने
 करवट बदली; (की० ४, ६७) ।
 उंवार—स्त्री० (सं० उद + वृ > प्रा०
 अय० उव्वर = वच जाना, सुरक्षित
 रहना) रक्षा; (की० ३, ८८) ।
 उ—पुं० (सं० उ) अपभ्रंश वर्णमाला का
 पञ्चम अक्षर, स्वर-विशेष । अव्य० (सं०
 अपि) भी; (उ० ग्य० प्र० ६, २६) ।
 उअंचण—न० (सं० उदञ्चन) १. ऊँचा
 फेंकना, २. ढकने का पात्र; (दे० ना०
 मा० ४, ११) ।
 √उअ—(लोट् लकार) (सं० अव + लोक्
 > प्रा० अवलोम) देखो, देख, विलोकन
 करो; (हे० ३६७; दे० ना० मा०
 १, ८६) । —इ अक० देखो देखिए;
 (दे० ना० मा० १, ६८) ।
 √उअ—(सं० उत् + गम् > प्रा० उगम,
 उग) उगना । —इ अक० (प्रा० षं० २,
 ३७) ।
 उअअ—वि० (दे०) ऋजु, सरल, सीधा;
 (दे० ना० मा० १, ८८) ।
 उअआर—पुं० (सं० उपकार > प्रा०

उअआर) उपकार; (की० १, ३२; प्रा० पं० २, १४६) ।

उअक्कअ—वि० (दे०) पुरस्कृत, आगे किया हुआ; (दे० ना० मा० १, १०७) ।

उअचित्त—वि० (दे०) १. अपगत, पलायित, भागा हुआ, पलटा हुआ, हटा हुआ; द्वारीभूत; २. निवृत्त; (दे० ना० मा० १, १०८) ।

उअय—पुं० (सं० उदय > प्रा० उअअ) उन्नति, अम्युदय; (भ०; जंबू० ११, ६, ७) ।

उअर—न० (सं० उदर > प्रा० उअर) उदर, पेट; (जस०) ।

उअरी—स्त्री० (दे०) शाकिनी, देवी-विशेष; (दे० ना० मा० १, ६८) ।

उअसंभहि—अव्य० (सं० उपसंध्य) संध्य के निकट आने पर; सायंकाल के समय, "तो उअसंभहि मज्जु पुर विप्पघरहि करु वास;" (की० २, २५१) ।

उअहारी—स्त्री० (दे०) दोग्घी, दोहने वाली स्त्री; (दे० ना० मा० १, १०८) ।

उअहि—पुं० १. (सं० उदधि > प्रा० उवहि, उअहि) समुद्र; (भ०) । २. पुं० विद्याधर वंशीय राजा; (प० च० ५, १६६) ।

उआअ—पुं० (सं० उपाय > प्रा० उवाय) हेतु, साधन; (दो० को०) ।

उआय—वि० (सं० उपागत) समीप में आया हुआ । उआया; (रा० ३५) ।

उआर—पुं० (सं० उपकार > प्रा० उअआर) १. परिचर्या, २. अनुग्रह; (सं० दो० को०) ।

उआलि—स्त्री० (दे०) अवतंस, शिरो-भूषण; (दे० ना० मा० १, ६०) ।

उआसीण—वि० (सं० उदासिन् > प्रा० उआसीण) उदासीन, तटस्थ, जो विरोधी पक्षों में से किसी की ओर न हो; (प्रा० पं० १, ३५) ।

उआसे—वि० (सं० उदास > प्रा० उआस) दुःखी, खिन्न चित्त; (प्रा० पं० १, ३७) ।

उइंसाण—न० (दे०) उत्तरीय वस्त्र, चादर; (दे० ना० मा० १, १०३) ।

उइअ—पुं० विद्याधरवंशीय राजा, (प० च० ५, १६६) । —परक्कम पुं० इअवाकुवंशीय राजा; (प० च० ५, ६) ।

उइउ—क्रि० भू० का० (सं० उद् + इ > प्रा० उइ) उत्पन्न हुआ; 'सुउ चंदचुलु चंदु व उइउ'; (महा० ६६, ४, ११) ।

उइय—वि० (सं० उदित > प्रा० उइय) १, उदय-प्राप्त, निकला हुआ, उदगत; (ण० ५, ३, ८; जंबू० ८, १५, ४) । २. उगा हुआ, ऊपर चढ़ा हुआ, उत्पन्न हुआ; (प० च० १, १६, ६) लो०—उइय चंदि कि तारियहं अर्थात् चंद्र के उदय हो जाने पर तारों से क्या ? (प० सि० च०) ।

उएस—पुं० (सं० उपदेश > प्रा० उवएस) उपदेश, शिक्षा, बोध; (सं० दो० को०) ।

उकड्ड (कट्ठ)—(सं० उत् + कृप्) निकालना, डालना; उक्कट्ठ (प्रा० पं० २, १६); उक्कट्ठा (प्रा० पं० २,

१५०); उक्कट्टाआ; (प्रा० पं० १, १४४) ।

उकिल—अक० (सं० उत्किलति) क्रीडा करना; “संविरा कापडु उकिल” —मु (उ) त्किलति । ‘उकेल’—उत्केलयति । ‘संकेल’—संकेलयति । किल श्वेत्य-क्रीडनयोः । (उ० व्य० प्र०, ५२-१२) । उकुट्टु—वि० (सं० उत्कृष्ट) श्रेष्ठ; (सि० १, २८) ।

उकेल—अक० (सं० उत्केलयति) क्रीडा करना; (उ० व्य० प्र०; ५२-१२) ।

उकोल—क्रि० (सं० उत्कोलति) गर्म करता है; (उ० व्य० प्र० ४६-८) ।

उक्कंठिरिय—वि० स्त्री० (सं० उत्कण्ठित > प्रा० उक्कंठिय, उक्कंठिर) उत्कंठिता, उत्सुक; (सं० रा०) ।

उक्कंठ—वि० (सं० उत्कण्ठ) उत्सुक; (जस० ३, ३३, ७) ।

उक्कंठा—स्त्री० (सं० उत्कण्ठा > प्रा० उक्कंठा) उत्कंठा, उत्सुकता, औत्सुक्य; (विला०) ।

उक्कंठि—स्त्री० (सं० उत्कण्ठा > प्रा० उक्कंठा) उत्सुकता, औत्सुक्य; (व० ४, २, ३) ।

उक्कंठिउ—वि० (सं० उत्कण्ठित > प्रा० उक्कंठिय) उत्कंठित, (व० २, २०, ५) ।

उक्कंठिय—वि० उत्सुक; (ण० ५, १२, २) । उक्कंठिव; (व० २, ४, ७) ।

उक्कंठा—स्त्री० (दे०) घूस, रिश्वत; (दे० ना० मा० १, ६२) ।

उक्कंति—स्त्री०, विशेषण के रूप में प्रयुक्त (सं० आनान्त) आक्रान्त, “गोट्टु-

गणें नीलनियंसणिहें घणघणरमणुक्कं-तिहें । पहि किज्जइ गमणविलंबु जहें गोविहें रासु रमंतिहें । —उस देश में गोकुल के आंगनों में नीले वस्त्रों को धारण करने वाली तथा अन्य घने स्तनों व विलास क्रीड़ाओं के भार से आक्रान्त रास खेलती हुई गोपियों के द्वारा (पथिकों के लिए) पथ में गमन करने में विलंब कर दिया जाता है, (जंबू० १, ७, १०) ।

उक्कंदह—वि० (दे०) ऊँचा; (रि० ५, ६) ।

उक्कंदि, उक्कंदी—स्त्री० (दे०) कूप-तुला; (दे० १, ८७) ।

उक्कंमंत—कृ० (दे०) धनुष पर डोरी चढ़ाते हुए; (जंबू० ६, ७, ११) ।

उत्क—पुं० विद्याधरवशीय राजा; (प० च० १०, २०) ।

उक्कच्छ—स्त्री० (सं० उत्कच्छा > प्रा० उक्कच्छा) छन्द-विशेष, रसिका छन्द का दूसरा नाम; (प्रा० पं० १, ८८) ।

उक्कड—वि० (सं० उत्कट > प्रा० उक्कड) तीव्र, प्रचण्ड, प्रखर; “तो उक्कड-मयण विचारयाए,” तव उत्कट कामदेव से विदारित; (विला०) ।

उक्कत—वि० (सं० उत्क्रान्त) ऊँचा गया हुआ (भ०) ।

उक्कत्तिय—वि० (सं० उत् + कर्तित > प्रा० उक्कत्तिय) काटे हुए, “उक्कत्तिय-चित्तियद्धवधराइ” काटे हुए चीतों के शव पड़े हुए थे; (जंबू० ५, ८, २६) ।

√उक्कम—(सं० उत् + क्रम > प्रा० उत्कम) ऊँचा जाना, उलटे क्रम में

उक्कर

रखना । -वि० पू० का० क्रि० (जं० ६, ७, ८) ।

उक्कर—पु० (सं० उत्कर > प्रा० उक्कर) समूह, संघात; (सं० रा०) ।

उक्कराउ—पू० का० क्रि० दोनों हाथ ऊपर कर; “बुड्डउ उक्कराउ महए-विउ,” दोनों हाथ ऊपर कर महादेवी पानी में डूब गई; (प० च० १४, ५, ५) ।

उक्करिसिय—वि० (सं० उत् + कर्षित) उल्लसित; ‘सव्वंगुक्करिसिय करिसणोहिं’—(फ़ली हुई) खेती से मानो सर्वांग उत्कर्षित अर्थात् उल्लसित हो रही है; (जं० १, ८, ५) ।

उक्कलि—स्त्री० (सं० उत्कलिका > प्रा० उक्कलिया) उत्कलि नाम की वायु, “उक्कलि मंडलि आइ करंतउ, मरण ठाइ दिसि विदिसिहिं जंतउ” उत्कलि, मण्डलि आदि करती हुई (साँय-साँय करती हुई) जो वायु ठहरती नहीं, दिशा-दिशाओं में चली जाती है, वह वायु कायिक जीव है; (व० १०, ७, ७) ।

उक्कलिय—वि० (सं० उत्कलिक) उत्कर्षित; (जस० ३, ५, १०) ।

उक्कस्स—पुं० (सं० उत्कर्ष > प्रा० उक्कस्स, उक्कस) उन्नति, उदय, उत्कृष्टता; (भ०) ।

उक्का—स्त्री० (दे०) कूप-तुला; (दे० ना० मा० १, ८७) । —मुह पुं० महरा का राजपुत्र, व्यक्ति-नाम, (प० च० १६, २०) । —लंगूल पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५४, २३) ।

उक्कासियं—वि० (सं० उत्कर्ष) उत्थित,

उठा हुआ; टि०—हिंदी में ‘उकसने’ का का अर्थ उकेलने के अर्थ में मिलता है, इसे अर्थ-विस्तार माना जा सकता है; (दे० ना० मा० १, ११४) ।

उक्किख—स्त्री० (सं० आकांक्षा > प्रा० अःकंखा) इच्छा, चाह, अभिप्राय; (सं० रा०) ।

उक्कि—स्त्री० (सं० उक्ति > प्रा० उक्ति) वचन; (प्रा० पै० २, २११) ।

उक्कीरअ—(सं० उत् + कृ > प्रा० उक्कीर) खोदना, उकेरना । -मि सक० ‘कुलनामुक्कीरमि चंदफलए’—मैं चन्द्र मण्डल पर अपने कुल के नाम को उकेरूँगा; (जं० ८, ८, ११) ।

उक्कीरिय—वि० (सं० उत्कीर्ण > प्रा० उक्कीरिअ, उक्करिअ) खोदा हुआ; (जं० २, १५, १) ।

उक्कुक्किरिय—वि० (सं० उत्क + उत्क + कृतः) ऊपर उठे हुए; (जं० ४, १३, १२) ।

उक्कुट्ठ—न० (सं० उत्कृष्ट > प्रा० उक्कुट्ठ) ऊँचे स्वर से रोदन; (दे० ना० मा० १, ४७) ।

उक्कुरड—पुं० (दे०) राशि; तुल० म० उक्किरडा; (जस० ३, १३, १८; दे० ना० मा० १, ११०) ।

उक्कुरडी—स्त्री० (दे०) घूल, कूडे का ढेर; (दे० ना० मा० १, ११०) ।

उक्केर—पुं० १. (सं० उत्कर > प्रा० उक्कर) समूह; (ण० ५, ६, ४) । २. पुं० (दे०) उपहार, भेंट (दे० ना० मा० १, ६६) ।

उक्कोइय—वि० (दे०) उत्पादित;

(जस० ३, २३, ५) ।

उक्कोडा—स्त्री० (दे०) घूस, रिश्वत;
(दे० ना० मा० १, ६२) ।

उक्कोडी—स्त्री० (दे०) प्रतिशब्द, प्रति-
ध्वनि; (दे० ना० मा० १, ६४) ।

उक्कोयण—गारय—वि० (सं० उत्कोपन-
कार) उद्दीपक; (प० च० ४१, १०,
३) ।

उक्कोयणु—वि० (सं० उत्कोपन > प्रा०
उक्कोवण, उक्कोयण = उद्दीपन, उत्तेजन)
उत्पादक “चोज्जुक्कोयणु” —आश्चर्य
उत्पन्न करने वाला; (ण० ४, १२, ६) ।
उक्कोल—पुं० (दे०) घाम, धूप, गरमी;
(दे० ना० मा० १, ८७) ।

उक्कोव—(सं० उत्कोपय्) उत्तेजित
करना, क्रोधित होना; (प० च० ३६,
११, ६) ।

उक्कोवण—न० (सं० उत्कोपन) उद्दीपन,
उत्तेजन; “मयणुक्कोवण” ; (भ०) ।

उक्खंड—पुं० (दे०) संघात, समूह,
२. विपमोन्नत प्रदेश; (दे० ना० मा०
१, १२६) ।

उक्खंडिअ—वि० (दे०) आक्रान्त,
दवाया हुआ; (दे० ना० मा० १,
११२) ।

√उक्खण—(सं० उत्+खन् > प्रा०
उक्खण) उखेड़ना, उच्छेदन करना । —इ
सक० (सं० उत्खनति) तुल० म० उख-
णणें; (भ०) । २. खांडना, कूटना,
मुशल आदि से घान आदि का छिलका
दूर करना; (दे० ना० मा० १, ११५) ।
उक्खेवि—पू० का० क्रि० (सं० उत्खनितुं)
“तहो पुत्तु तुम्ह उक्खेवि आउ” (भ०

१५, ४, ६) ।

उक्खणण—न० (दे०) खांडना, भूसी
से वियुक्त करना, निस्तुषीकरण; (दे०
ना० मा० १, ११५) ।

उक्खणिअ—वि० (दे०) खण्डित, भूसी
से वियुक्त; (दे० ना० मा० १, ११५) ।

√उक्खन्ध—क्रि०(सं० अवस्कन्द > प्रा०
उक्खंद) आक्रमण करना, छल से शत्रु
सैन्य को मारना । उक्खन्धु—भू० का०,
घेरा डाल दिया; (प० च० १०, ६,
६) । उक्खंधे—कृ० घेरा डालकर,
आक्रमण कर; (रि० ४, ५) । उक्ख-
न्धेवि—पू० का० क्रि०; (प० च० ५,
१६, ७) ।

उक्खय—वि० (सं० उत्खात > प्रा०
उक्खय = उखाड़ा हुआ, खुला हुआ)
१. उठाये हुए; (प० च० १, १४, ७) ।
२. उखाड़ा हुआ, उन्मूलित; (जस० १,
१६, १६) । ३. उखड़ी हुई; (प० च०
१३, ३, १) ।

उक्खय—वि० (सं० उद्गत) १. निकला
हुआ, उत्पन्न, २. प्रकट; ३. गया हुआ;
(प० च० २१, ८, ७) ।

उक्खल—पुं० न० (सं० उद्खल > प्रा०
उक्ख, उक्खलग, उक्खल, उक्खल) उलु-
खल; (प० च० १७, १३, २) ।

उक्खलिया, उक्खली—स्त्री० (दे०)
थाली, पात्र-विशेष, (दे० ना० मा० १,
८८) ।

उक्खली—स्त्री० (दे०) थाली, पात्र-
विशेष; (दे० ना० मा १/८८) ।

उक्खा—स्त्री० (सं० इक्षु > प्रा० इक्खु
पुं०) ईख, ऊख; (सि० १, ११) ।

उक्खाय—वि० (सं० उत्खात > प्रा० उक्खाय, उक्खय) उखाड़ा हुआ, उन्मूलित; (ण० ८, १२, १) ।

√उक्खण—(सं० उत् + खन् > प्रा० उक्खण) उखेड़ना, उच्छेदन करना, काटना; —मि सक० (भ०) ।

उक्खण—वि० (दे०) १. अवकीर्ण; ध्वस्त, चूर्णित; २. गुप्त; ३. एक तरफ से ढीला; (दे० ना० मा० १, ३०) ।

उक्खित—वि० (सं० उत्क्षिप्त) १. फेंका हुआ, डाला हुआ; (प्रा० पै० १, १६८) । २. उखाड़े हुए; (जंबू० ५, १४, १) ।

उक्खिप्त—वि० (सं० उत्क्षिप्त > प्रा० उक्खित्त, उक्खित्तय) उन्मूलित, उत्पाटित; (भ०) ।

√उक्खव—(सं० उत् + क्षिप् > प्रा० उक्खव) १. फेंकना, २. ऊँचा फेंकना, ३. उठाना । —इ, सक० (सं० उत्क्षिपति > उक्खवेइ; (भ०) । उक्खेविउ—भू० का० (सं० उत् + क्षेपित) फेंका; (जंबू० ७, १०, १५) ।

उक्खुड—पुं० (दे०) १. मसाल, २. समूह, ३. अञ्चल, वस्त्र का एक अंग; (दे० ना० मा० १, १२५) ।

उक्खुहुच्चिअ—वि० (दे०) फेंका हुआ; (दे० ना० मा० १, ४) ।

उक्खेव—पुं० (सं० उत्क्षेप > प्रा० उक्खेव) उन्मूलन; (जंबू० ८, १३, ४) ।

उक्खेविअ—वि० (सं० उत्क्षेपित) जलाया हुआ; (भ०) ।

उक्खोडिअ—वि० (सं० उत्खोटित) १. उत्क्षिप्त; उड़ाया हुआ; २. उखाड़ा

हुआ; (दे० ना० मा० १, १०५; १११) ।

√उग—(सं० उत् + गम्) उगना । उगो (प्रा० पै० २, ५५); उगो (प्रा० पै० २, २०५) ।

उगसेण—पुं० उग्रसेन, नाम-विशेष; (संघि० १५, ३, १०) ।

उगाहिय—सक० (सं० उद्ग्राह > प्रा० अय० उग्गाह्) कर वसूल करना, उगाहना, ग्रहण करना, "...धरिअ छत्त तिरहुति उगाहिअ" छत्र धारण करके तिरहुत से कर ग्रहण करता है; (की० ३, २२) ।

उगिल—सक० (सं० उद् + गृ, सं० उद्गलति) निगलना; "पुणि उगिल—उद्गलति । गृ निगरणे"; (उ० व्य० प्र०, ५१-२५) ।

उगंठिय—वि० (सं० उत् + ग्रथित) खुली हुई, "उगंठियविसरिसकुं चघर," खुली हुई विसदृश (असमान या अद्भुत) कूर्चा को धारण किये; (जंबू० ६, १८, ४) ।

√उग्ग—अक० (सं० उत् + गम्) उदित होना; उग्गामिउ—भू० का० कृ०, उगा हुआ; 'उग्गामिउ रवि सहसकिरणु'—उगा हुआ हजारों किरणों वाला सूर्य, (महा० ६६, १२, २) । २. उदित हुआ; (प० सि० च० ३, २) । उग्गिह—भू० का० उदय हुआ; (की० २, १२५) ।

उग—वि० (सं० उग्र > प्रा० उग) तेज, तीव्र, प्रबल; (ण० २, ६, १३) । पुं० १. राजपुत्र; (प० च० ८८, १६) । २. विद्याधरयोद्धा; (प० च० १२, १८) । —णाअ पुं० राक्षस योधा; (प० च०

५६, २६) । —तव पुं० (सं० उग्र तप) कठोर तपस्वी; (व० ३, १७, १) ।
—सिरी पुं० रक्षसवंशीय राजा; (प० च० ५, २६४) । —मेघ पुं० रावण मंत्री; (प० च० ८, १६) । उग्गु—वि० उग्र; (व० ३, १३, १; जस० १, १३, १) ।

गळ—वि० (सं० उद्गत > प्रा० उग्गळ) उत्पन्न, उदित; (जस० २, २, १०) ।

उग्गम—पुं० (सं० उद्गम > प्रा० उग्गम) उत्पत्ति, उद्भव; तुल० म० गु० उग्गम; (भ०) । उग्गमु; (व० ४, ६, ५) ।

उग्गमाण—वि० (सं० उद्गीयमान) जिस का उदय हो रहा हो; (प० ६, १७, १) ।

उग्गमिय—वि० (सं० उद्गमित > प्रा० उग्गमिय) उद्गत, उत्पन्न, उगे हुए; (प० २, १२, ६) ।

उग्गय—वि० (सं० उद्गत > प्रा० उग्गय) उगे हुए, "जहि सरवरि उग्गय पंक्रयाइ"; जहाँ के सरोवर में कमल उगे हुए हैं; (क० १, ३, ६) ।

उग्गयसोसर—पुं० (सं० उद्गत + दिने-स्वर) उदित हुआ सूर्य; (ए० ६, १३, ६) ।

उग्गहिअ—वि० (दे०) अच्छी तरह लिया हुआ; (दे० ना० मा० १, १०४) ।

√उग्गाम—(सं० उद् + √गम् > प्रा० उग्गम) ऊपर उठाना, उत्थापन करना, ऊँचे उठाना; उन्नत करना; तुल० गु० उगामद् । —इ, क्रि०, व० (प०

च० २५, १४, ८) ।

उग्गार—पुं० (सं० उद्गार > प्रा० उग्गार) वचन, उक्ति; (जं० ६, १२, २) ।

उग्गाविर—वि० (सं० उद्गमक) ऊपर उठा हुआ, उत्थापित (raisins); (प० च० ४८, ८, २) ।

उग्गाह—पुं० (सं० उद्गाया > प्रा० उग्गाहा स्त्री०) उद्गाया छंद, मात्रिक छंद; उग्गाहउं (प्रा० पै० १, ५७); उग्गाहो, (प्रा० पै० १, ६=) ।

उग्गाहिल—वि० (सं० उद्ग्राहित) १. गृहीत, लिया हुआ; २. फेंका हुआ, ३. प्रवर्तित; (दे० ना० मा० १, १३७) ।

उग्गाहिउ—क्रि० (सं० उद् + घाट् > प्रा० उग्घाड, उग्घड) उद्घाटित किया; (प० च० १६, ५, १०) ।

उग्गिअ—क्रि०, भू० का० (सं० उद् + √गम् > प्रा० उग्ग) उदित हुआ, "घरे-घरे उग्गिअ चंद्र"; (की० २, १२५) ।

उग्गिण—वि० (सं० उद्गीर्ण > प्रा० उग्गिण) १. उत्क्षिप्त, उगला हुआ; (प० च० ५१, ११, २) । २. उक्त, कथित; (भ०) ३. उठाये हुए; (जस० १, ११, ४) । उग्गिल्ल—वि० उक्त, कथित; (भ०) ।

उग्गिल—क्रि० (सं० उद् + गृ > प्रा० उग्गिल) १. कहना, बोलना, २. उकार करना, ३. उलटी करना ४. उठाना ।

—इ (सं० उद्गिलति) उगलना, तुल० म० उगाळा; (भ०) । उग्गिलंत-ह्ण उगलता हुआ; (सं० रा०) ।

उग्रीय—वि० (सं० उद्गीत) उच्च
स्वर से गाया हुआ; (दे० ना० मा० १,
१६३) ।

उग्रीय—वि० (सं० उद्गीर्ण > प्रा०
उग्गिण्ण, उग्गिन्त, उग्गीरिअ) १. उक्त,
कथित २. उठाया हुआ, ऊपर किया
हुआ; (प० च० ४, १३, ४) ।

उग्रीय—वि० (सं० उद्गीव > प्रा०
उग्रीय) उत्कण्ठित, उत्सुक; (ण० ७,
२, २) ।

उग्युल्लिखिआ—स्त्री० (दे०) भावोद्रेक;
(दे० ना० मा० १, ११८) ।

√उग्योव—(सं० उद्+गोपय् > प्रा०
उग्योव) प्रकट करना । —इ सक०
“पंचवीस भावण उग्योवइ” —पञ्चीस
भावनाओं का उद्गोपन करता है; (सुदं०
११, ४, १५) ।

उग्यटि, उग्यट्टी—स्त्री० (दे०) अवतंस,
शिरो-भूषण; (दे० ना० मा० १,
६०) ।

उग्यवियय—वि० (प्रा० अग्यवियय)
पूर्ण; (उग्यव हे० प्रा० व्या० ४, १६६;
अग्यव हे० प्रा० व्या० ४, ६६) ।

उग्याअ—पुं० (दे०) १. समूह, २. विप-
मोन्त प्रदेश; (दे० ना० मा० १,
१२६) ।

√उग्याड—(सं० उत्+घाटय् > प्रा०
उग्याड) खोलना, प्रकट करना, बाहर
करना । उग्याडइ—सक० (सुदं० ४, १०,
६) । तुल० म० गुं० उघाड । उग्याडिउ-
क्रि० भू० का० उघाडा; (व० २, १३,
८) । —डेवि पू० का० क्रि० (क० १०,
१३, ८) ।

उग्याडयु—पुं० (सं० उद्घाटन)
१. खोलना, उघाडना, २. प्रकट करना
> प्रकाशित करना; (सि० १, ३७) ।

उग्याडिय—वि० (सं० उद्घाटित > प्रा०
उग्याडिय) खुला हुआ, उघडा हुआ; (ण०
२, १० १०) ।

√उग्योस—(सं० उद्+घोपय् > प्रा०
उग्योस) घोपणा करना, डिढोरा
पीटना । —इ सक० (सं० उद्घोपयति)
(भ०) ।

उग्योसिय—वि० (सं० उद्घोपित)
घोपित; (भ०) ।

उघाडे—वि० (सं० उद्घाटय् > प्रा०
उग्याड) खुला हुआ, अनाच्छादित ।
आघूघाडे; (रा० १७) ।

उचरु—पुं० (सं० प्रा० उच्चार) उच्चा-
रण; (सि० १, ३६) ।

√उचल—अक० (सं० उत्+चल्, सं०
उच्चलति, प्रा० उच्चल) चला जाना,
सरकना; (उ० व्य० प्र० ५२-१४) ।

उचाअ—क्रि० (सं० उच्चायते) ऊँचा
करना, 'टोप उचाअ—स्तूपकमुच्चायते';
(उ० व्य० प्र०, ४६-२५) ।

उच्चिअ—वि० (सं० उचित > प्रा०
उच्चिय, उच्चिय) योग्य; (प्रा० पै० २,
१२६) ।

उच्चंत—व० कृ० (सं० उच्च+शतृ)
ऊँचा करके; (जंजू० ७, ६, १५) ।

उच्चंपिअ—वि० (दे०) दीर्घ, आपत;
(दे० ना० मा० १, ११६) ।

उच्च—वि० (सं० प्रा० उच्च) १, ऊँचा,
२. उत्तम, उत्कृष्ट; (भ०) । ३. न०
नाभि-तल; (दे० ना० मा० १, ८६) ।

—उ वि० ऊँचा, वड़ा (प्रा० पै० १, १७४) ।

उच्चतण—न० (सं० उच्चत्व > प्रा० उच्चत्त) ऊँचाई; (जं० ११, १०, ११) ।

उच्चत्तवरत्त—न० (दे०) दोनों तरह का स्थूल भाग; २. अनियमित भ्रमण; (दे० ना० मा० १, १३६) ।

उच्चत्य—वि० (दे०) दृढ़; (दे० ना० मा० १, ६७) ।

उच्चप्प—वि० (दे०) आरूढ़, ऊपर बैठा हुआ; (दे० ना० मा० १, १००) ।

उच्चय—पुं० (सं० अवचय) इकट्ठा करना, एकत्रीकरण; (दे० ना० मा० २, ५६) ।

√उच्चर्—(सं० उत् + चर् > प्रा० उच्चर) कहना, बोलना । —हि सक० उच्चारण करते हैं; (सं० रा०) । उच्चरेवि—पू० का० क्रि० (जं० ६, १७, ४) ।

उच्चरिय—वि० (सं० उच्चारित > प्रा० उच्चारिअ) कथित, उच्चारण क्रिया हुआ; (जस० १, २७, ६) ।

√उच्चल—(सं० उत् + चल्) उछलना । —इ अक०, व० (सं० उच्चलति) ऊपर उठाना, उचलना, तुल० म० उचलणें (भ०) उच्चलंत-व० कृ० (सं० उत् + चल् + शतृ) (जं० ४, २१, ११) ।

उच्चलिय—वि० (सं० उच्चलित > प्रा० उच्चलिय) १. चलित, गत; (भ०) । २. समीप में आया हुआ, ३. गया हुआ; (प० च० ६, १३, २०) ।

उच्चल्लरा—पुं० (सं० उत् + शल् > प्रा० उच्छल) उछलना; (मुदं० ३, ११, १२) ।

उच्चाअ—(सं० उच्चय्) उठाना । उच्चाइउ—क्रि० भू० का० उठा लिया, उठायी; (प० च० २, ११, २; प० च० १२, १०, ६) । उच्चाइयउ—भू० का० (प्रा० उच्चाइय = उठायी हुआ) ऊपर उठायी; (ग० २, १०, ६) । उच्चाइव—भू० का० ऊँचा उठा दिया; (महा०) । उच्चाइवि—पू० का० क्रि० ऊँचाकर; (व० २, १०, ६); उठाकर; (जं० ६, १४, ७) । उच्चाएँवि—पू० का० क्रि० (सं० उद् + √चि = एकत्र करना + णिच्) उठाकर; (क० ५, ७, ५) । उच्चायिउ—क्रि०, भू० का० (सं० उद् + चायित) उठा लिया; “उच्चायिउ तें सो णियकरेण,” (क० २, १, ७) ।

उच्चाइय—वि० (सं० उच्चै कृतः, उच्चायित) उत्थापित, उठायी हुआ; (भ०) । २. ले जाया गया; (प० च० २५, ११, २) ।

उच्चाड—वि० (दे०) विपुल, विशाल; (दे० ना० मा० १, ६७) ।

उच्चाडणु—न० (सं० उच्चाटन > प्रा० उच्चाडण) उखाड़ा जाना; (हे० ४३८, ३) ।

√उच्चार—(सं० उत् + चारय > प्रा० उच्चार) बोलना, उच्चारण करना । —इ सक० (सं० उच्चारयति । (भ०) । वि० (दे०) विमल, स्वच्छ; (दे० ना० मा० १, ६७) ।

उच्चारिअ—वि० (दे०) गृहीत; (दे०-

ना० मा० १, ११४) ।

उच्चारिय—वि० (सं० उच्चारित) कथित; (जं० १, १७, ८) ।

√उच्चाल—(सं० उत्+चाल्यु>प्रा० उच्चाल) १. ऊँचा फेंकना, २. तोड़-फोड़ डालना—इ सक० “बहुमंडव मडल-ल्ल उचालइ”—बहुत से मण्डपों तथा चवूतरों को तोड़-फोड़ डालता था; (ण० ३, १५, ११) । उच्चालिउ—क्रि०, भू० का० (सं० उत्+चालित) ऊपर उठाया, “इय भणिवि विभागुच्चालियउ”—ऐसा कहकर जब उसने विमान को ऊपर उठाया; (जं० ५, ४, १०) ।

उच्चासण—पुं० (सं० उच्चासन) बैठने के लिए ऊँचा आसन; (जस० १, ६, २४) ।

उच्चिट्ठ—वि० (सं० उच्चिट्ठ>प्रा० उच्चिट्ठ) झूठा उच्चिट्ठ; (प० च० ३३, ११, ५; जस० ३, ३५, ८) ।

√उच्चिण—(सं० उत्+चि>प्रा० उच्चिण) पुष्प आदि तोड़ कर एकत्रित करना ।—इ सक० (सं० उच्चिनोति प्रा० उच्चिणाइ) (भ०) । उच्चिणति (वहु व०) (जं० ८, १५, १२) ।

उच्चुच्च—वि० (दे०) अभिमानि; (दे० ना० मा० १, ६६) ।

उच्चुप्पिअ—वि० (दे०) आरूढ़, ऊपर चढ़ा हुआ; (दे० ना० मा० १, १००) ।

उच्चुलउलिअ—न० (दे०) कुतूहल से शीघ्र-शीघ्र जाना; (दे० ना० मा० १, १२१) ।

उच्चुल्ल—वि० (दे०) १. उद्विग्न;

२. आरूढ़, ३. डरा हुआ; (दे० ना० मा० १, १२७) ।

उच्चेडिय—कृ० भू० का० (सं० उच्चा-टित) हटाकर, उचाट कर, “उच्चेडिय-फेडिय-मुहवडाइ” जिनके मुखपटों को उचाट कर फेर दिया गया था; (जं० ६, ४, ६) ।

उच्चोल—पुं० (दे०) गोद, “उच्चोलिहि पुणु वइसारियउ,” (रि० १, १०) ।

उच्चोलि—स्त्री० (दे०) स्त्री के कटि-वस्त्र की नाडी, (प० च० ६, ३; १) ।

उच्चोलिउ—पुं० (दे०) उपानह, जूते जो परपयउच्चोलिउ वहइ, जो दूसरों के जूते भी पहन लेता था; (जस० २, ६, १६) ।

उच्छंग—पुं० (सं० उत्सङ्ग>प्रा० उच्छंग) क्रोध, गोद; (सुद० ६, १८, ४) । उच्छङ्गि—स्त्री० गोद; (हे० ३३६, १) । उच्छंगि स्त्री० गोद (तो सा मइ न्यि-उच्छंगि लेवि; (विला०) ।

उच्छंगिअ—वि० (दे०) आगे किया हुआ, आगे रखा हुआ; (दे० ना० मा० १, १०७) ।

उच्छ्रउ—पुं० (दे०) झड़प से की हुई चोरी; (दे० ना० मा० १, १०१) ।

उच्छ्र—पुं० (सं० इक्षु>प्रा० उच्छ्र) ईश; (प० च० २६, १७, २) । २. पु० (दे०) आंत का आवरण; (दे० ना० मा० १, ८५) ।

उच्छ्रअ—पुं० (सं० उत्सव>प्रा० उच्छ्रअ) मंगल कार्य, मंगल समय; (जस० १, २६, ६) । उच्छ्रहु; (सि० १, ४७) ।

उच्छट्ट—पुं० (दे०) चोर, डाकू; (दे० ना० मा० १, १०१) ।

उच्छडिभ—वि० (दे०) चुराई हुई चीज, चोरी का माल; (दे० ना० मा० १, ११२) ।

उच्छण्ण—वि० (सं० उत्सन्न > प्रा० उच्छन्न) छिन्न, खण्डित, नष्ट; (भ०) । वि० (सं० वाच्छन्न) १. ढका हुआ, २. तिरोहित; (व० २, १२, ७) ।

√उच्छल—(सं० उत् + शल् > प्रा० उच्छल, उच्छलन्) उछलना, ऊँचा जाना । उच्छलंत—कृ० (सं० उत् + शल् + शतृ) उछल-कूद करते हुए; (व० २, ३, ८) । उच्छरिड—क्रि० 'एहु संजमु उच्छरिड,'—यह संजम उछन रहा है; (म० २, ३०, २) । उच्छलित-भू० का० (सं० उत् + शल्) उत्पन्न हुई; (की० ४, २५४) । उच्छलित्य-अक०, भू० का० उछल उठे, तहो बलेण तिण्णि वि उच्छलित्य,' (म० २, ३७, १) । उच्छनेवि—पू० का० क्रि० तुल० उसळणे, गु० उछलवुं; (प० व० १७, ६, १०) । उछलि-भू० का०, निकल रहा था "उछलि डमरु डङ्कार वर"—डमरु से डङ्कार शब्द निकल रहा था, (की० ४, २१२) ।

उच्छलल—न० (सं० उच्छलन) उछलना; (दे० ना० मा० १, ११८) ।

उच्छलित्य—वि० (सं० उच्छलित > प्रा० उच्छलित्य) उछला हुआ, ऊँचा गया हुआ; (प० २, ६, ७) उछलित्य-वि० उछला हुआ, ऊँचा गया हुआ; (प० व० १३, ५, ७) ।

उच्छलित्य—वि० (सं० उच्छलित > प्रा० उच्छलित्य = उछला हुआ, उँचा गया हुआ) झिलझिल, "उच्छलित्य तिय-छत-समाणी, सुद्ध सिद्ध संदोहे" माणी," झिलझिल-झिलझिल करती हुई श्वेत छत्र के समान शुद्ध सिद्ध-सूत्रों से युक्त सिद्ध शिला है; (व० १०, ३१, ११) । उच्छलित्या-वि० स्त्री० (सं० उच्छलित्या) उछली हुई (सुदं० ११, १८, १८) । उच्छलल—वि० (सं० उच्छलत्) उछलने वाला; (भ०) ।

उच्छलित्य—वि० (दे०) जिसकी छाल काटी गई हो वह; (भ०) ।

उच्छव—पुं० (सं० उत्सव > प्रा० उच्छव, उच्छवण) उत्सव; तुल० म० उच्छव, उच्छव; गु० ओछव; (प० व० १६, ११, ७; जस० १, ४, ६; की० ३, ३१३; संधि० १७, २, ८) । उच्छन्न; (प्रा० पै० १, ११६) ।

उच्छविभ—न० (दे०) शय्या, विछौना; (दे० ना० मा० १, १०३) ।

√उच्छह—(सं० उत् + शह > प्रा० उच्छह) उत्साहित होना ।—इ अक० (सं० उत्सहते) (प० व० १६, ३, १०) । उच्छहंन-व० कृ०; (भ०) ।

उच्छहिय—वि० (सं० उत्साहित > प्रा० उच्छहिय) उत्साह-युक्त; (जंबू० ७, ६, ११) ।

उच्छाडिय—वि० (सं० अक्छादित) ढका हुआ; (भ०) ।

उच्छाह—पुं० (सं० उत्साह > प्रा० उच्छाह) १. उत्साह; तुल० म० अक्छाह; (प० ५, १०, १; की० ३, ५७),

२. सूत का डोरा; (दे० ना० मा० १, ६६) । ३. गीत-प्रकार विशेष, उत्साह नामक छंद में गाया जाने वाला गीत; (प० च० ३१, १६, ८) । —मण वि० (सं० उत्साह+मनस्) उत्साहित मन; (जंबू० ३, ५, ३) ।

उच्छ्राहिय—वि० (सं० उत्साहित > प्रा० उच्छ्राहिय) उत्साह-युक्त; (जंबू० ५, ८, ३८) ।

उच्छ्रिण—वि० (सं० उच्छ्रिण > प्रा० उच्छ्रिण) उन्मूलित; मूलोच्छेद किया हुआ, नष्ट किया हुआ; (प० च० १७, ५, ७) ।

उच्छ्रिल्ल—न० (दे०) छिद्र, विवर; (दे० ना० मा० १, ६५) ।

उच्छ्रुडिम्—वि० (दे०) १. वाण आदि से, २. अपहृत; (दे० ना० मा० १, १३५) ।

उच्छ्रु—पुं० १. (सं० इक्षु > प्रा० इक्षु) ईख, ऊख; तुल० म० ऊंस; (म० १ ५, २; प० ६, १, ४) । पुं० (दे०) वायु; (दे० ना० मा० १, ८५) । —वण (सं० इक्षुवन) गन्ने के खेत; (जस० १, ३, १०) । २. पुं० (सं० इषु > प्रा० इषु) वाण; (जंबू० ३, १०, १४) ।

उच्छ्रुअ—न० (दे०) हरते-हरते की हुई चोरी; (दे० ना० मा० १, ६५) ।

उच्छ्रुअरण—न० (दे०) ईख का खेत; (दे० ना० मा० १, ११७) ।

उच्छ्रुआर—वि० (दे०) ढका हुआ (दे० ना० मा० १, ११५) ।

उच्छ्रुच्छु—वि० (दे०) अभिमानी; (दे० ना० मा० १, ६६) ।

उच्छ्रुरण—न० (दे०) १. ईख का खेत; २. ईख; (दे० १, ११७) ।

उच्छ्रुल्ल—पुं० (दे०) १. अनुवाद; २. खेद, उद्वेग; (दे० ना० मा० १, १३१) ।

उच्छ्रेवण—न० (दे०) घृत; (दे० ना० मा० १, ११६) ।

उच्छ्रेह—पुं० (सं० उत्सेध) ऊँचाई; (दे० ना० मा० १, १३०; जंबू० ३, १, १२) ।

उच्छ्रित—भू० का० कृ० (उक्छिप्त) फेंका हुआ, बिखेरा हुआ, उछाला हुआ; डाला हुआ; (सं० रा०) ।

उजडल—क्रि० (दे०) उजड़ी, ध्वस्त हुई; (की० ३, ४०) ।

उजाअ—क्रि० (दे०) बहाओ; (हिं० का०, च० ३८) ।

उजाल—पुं० (सं० औज्ज्वल्य) उज्ज्वलता, उजालापन । उजालु; (भ० २५) ।

उजु—वि० (सं० ऋजु > प्रा० उजु) सरल, सीधा, निष्कपट; (च० ३२) ।

उजुअ—क्रि० (सं० √उज्ज आर्जवे, सं० उज्जति) सीधा करना; "उजुअ"—उज्ज (ज्ज) ति । उजु (ज्ज) आर्जवे," (उ० व्य० प्र०, ५१-२६) ।

उजुआर—क्रि० (सं० उज्जयति) सीधा करना, 'सिलु उजुआर'—सिल्लमुज्ज (ज्ज) यति," (उ० व्य० प्र० ५१-२६) ।

उजुवालिया—स्त्री० (सं० ऋजुवालिका) नदी-विशेष; (संवि० २, १६, ८) ।

उजोली—स्त्री० (सं० औज्ज्वल्य > प्रा०

उज्जल) प्रकाश; मगही अंजोर; (भूसु-
कुपा, चर्यापद) ।

उज्जंगल—न० (दे०) १. वचात्कार,
जवरदस्ती; २- वि० दीर्घ; (दे० ना०-
मा० १, १३५) ।

उज्ज—पुं० रावणमंत्री; (प० च० ८,
१६) ।

उज्जभ—वि० (सं० उद्यत) तैयार,
तत्पर, प्रस्तुत; (क० ७, १२, १) ।

उज्जउ—पुं० (सं० उद्यापनम्) धर्मो-
द्योग, व्रतादि का पारण; 'रुद्वेयए'
उज्जउ कियउ ताव'—तव रतिवेगा ने
धर्मोद्योग (व्रतसाधन) किया; (क० ७,
१२, १) ।

उज्जगउ—पुं० (दे०) जागरण; (सं०
रा०) ।

उज्जगुज्ज—वि० (दे०) स्वच्छ,
निर्मल; (दे० ना० मा० १, ११३) ।

उज्जङ्ग—वि० (दे०) ऊजाड़; (सुदं० २,
१४, ७; दे० ना० मा० १/६६) ।

उज्जण—पुं० (सं० उद्यापन) किसी
व्रत की समाप्ति पर किया जाने वाला
कृत्य, जैसे यज्ञ, गोदान इत्यादि; (सि०
२, ३३) ।

√उज्जम—(सं० उद्+यम्) उद्यम
करना ।—मेइ-अक० (क० १०, १७,
१) ।

उज्जम—पुं० (सं० उद्यम) उद्योग,
प्रयत्न; (भ०; संधि १०, ४, ११) ।

उज्जमण—न० (सं० उद्यापन) व्रत-
समाप्ति-कार्य; (भ०) ।

उज्जमि—वि० (सं० उद्यमिन्) परि-
श्रमी, अध्यवसायी; (जस० ३, ३१,

५) ।

उज्जमित—वि० (सं० उद्यमित) प्रयत्न-
शील; (भ०) ।

उज्जय—वि० (सं० उद्यत) उद्योगी,
प्रयत्नशील; (भ०) ।

उज्जर—वि० (सं० उज्ज्वल > प्रा०
निर्मल, स्वच्छ; प्रा० पै० १, १८५) ।

उज्जल—वि० (सं० उज्ज्वल > प्रा०
उज्जल) निर्मल, स्वच्छ; तुल० म०
उज्जल; (ण० १, १०, ११; प्रा० पै० १,
१८५; जंजू० १, १४, ३) ।

उज्जलिय—वि० (सं० उज्ज्वलित >
प्रा० उज्जलिय) १. उद्दीप्त, प्रकाशित;
२. ऊँची ज्वालाओं से युक्त; (प० च०
१४, ६, ६) ।

उज्जल्ला—स्त्री० (दे०) बलात्कार,
जवरदस्ती; (दे० ना० मा० १, ६७) ।

उज्जवण—न० (सं० उद्यापन > प्रा०
उज्जावण, उज्जवण) व्रत का समाप्ति-
कार्य; तुल० म० उजवणें; (ण० ६, २१,
१६) ।

उज्जाडिय—वि० (दे०) उजाड़ किया
हुआ; (भ०) ।

उज्जाण—न० (सं० उद्यान > प्रा०
उज्जाण) उद्यान, बगीचा, उपवन; (ण०
१, ८, ११) । उज्जाणु; (महा० ६८,
२; जस० ४, १७, १५) ।

उज्जाणिय—वि० (दे०) नीचा किया
हुआ; (दे० ना० मा० १, ११३) ।

√उज्जाल—(सं० उत्+ ज्वालय्)
उजाला करना, जलाना । —इ सक०
(जंजू० ८, ८, ४) ।

उज्जालिय—वि० (सं० उज्ज्वलित)

जलाया हुआ, सुलगाया हुआ; (भ०) ।
उज्जित—पु० (सं० उज्जयन्तु > प्रा०
उज्जयंतं) गिरनार पर्वत; (ण० ७, १,
२) ।

उज्जीर—पु० (अ० वज्जीर) अमात्य,
मंत्री, सचिव; (की० ३, ६) ।

उज्जीरिअ—वि० (दे०) अपमानित,
तिरस्कृत; (दे० ना० मा० १, ११२) ।

उज्जीविय—वि० (सं० उज्जीवित > प्रा०
उज्जीविय) पुनर्जीवित, जिलाया हुआ;
(प० च० १६, १५, २) ।

उज्जुअ—वि० (सं० ऋजु+क > प्रा०
उज्जु) सरल, निष्कपट, सीधा; तुल० म०
उज्जु; (भ०) । उज्जुय वि० (सं० ऋजु+
क) सीधे; (जस० ४, १०, ११) ।

उज्जुयत्त—पु० (सं० ऋजुकरव) सीधापन
(जस० ३, ३५, ५) । उज्जुव—वि० (सं०
ऋजु+क) सीधी, उज्जुवहिं णासाहिं,
(जस० १, १७, २५) ।

उज्जुय—वि० (सं० उद्+युक्त)
१. संयुक्त, २. सहित; (ण० ७, १४,
१) ।

उज्जुरिअ—वि० (दे०) १. क्षीण, नष्ट;
२. शुष्क; (दे० ना० मा० १,
११२) ।

उज्जुव—वि० (सं० ऋजु+क > प्रा०
उज्जु) "सीधी; परलोककज्जे उज्जुवग-
ईहिं,"—परलोक कार्य में सीधी गति से
चलने वाले; (क० ३, १, ६) ।—वई

स्त्री० (सं० ऋजुमति) दाशरथी भरत
की प्रणयिनी; स्त्री-नाम-विशेष; (प०-
च० ८०, ५२) ।

उज्जुवेइ—सक० (सं० उद्+यापय)

प्राप्त करना, "सोलहमउ तामु जु उज्जु-
वेइ"—उपवासों का उद्यापन करने
वाली को सोलहवाँ स्वर्ग प्राप्त होता है;
(व० १०, १६, ८) ।

उज्जेणय—स्त्री० (सं० उज्जयनी-यिनी,
प्रा० उज्जेणी, उज्जइणी) उज्जयिनी,
नगर-विशेष; (प० च० २५, १७, २) ।

उज्जेणि—स्त्री० (सं० उज्जयिनी > प्रा०
उज्जइणी, उज्जेणी) नगरी, विशेष;
(ण० ७, ३, ८; जस० १, २१, १२; हे०
४४२, १) ।

√उज्जोअ—(सं० उद्+द्योतय > प्रा०
उज्जोव, उज्जोअ) प्रकाश करना—इ
सक० (सं० उद्योतयति > प्रा० उज्जो-
एइ) उद्द्योत करना; (भ०) । उज्जोइ-
याउ—भू० का०, उद्योतमान करती थी;
(सुग्र० २, ४, ४) । उज्जोवृत्तिय—क०
प्रकाशित करते हुए; (प० च० ७, ३,
८) ।

उज्जोइअ—वि० (सं० उद्योतित > प्रा०
उज्जोइअ) प्रकाशित, (जं० १, १५,
६) । उज्जोइय; (प० च० १५, १४,
५) ।

उज्जोत्तिय—क्रि० भू० का० (सं० उद्
+योक्तिताः) जोत उतार दिये गए,
"संदण उज्जोत्तिय जोत्तारहिं"—
योक्ताओं ने रथों के जोत उतार दिये;
(जं० ५, १०, २०) । वि० छोड़े आदि
परं विना साज के होना, "नव मेल्लिय
उज्जोत्तिय तुरइग;" (प० च० ५६, १५,
३) ।

उज्जोमिआ—स्त्री० (दे०) रश्मि,
किरण; (दे० ना० मा० १, ११५) ।

उज्जोय—पुं० (सं० उद्योत > प्रा० उज्जोअ) प्रकाश; उजाला; (ण० ६, १, ६; भ०) । उज्जोयंत—कृ० (सं० उद्यो-तय् + शतृ) (जं० ३, १३, ३) ।

उज्जोय—पुं० (सं० उद्योत > प्रा० उज्जोअ) प्रकाश; (प० च० ३५, २, ८) ।

उज्जोविय—वि० (सं० उद्द्योतित > प्रा० उज्जोइय) प्रकाशित; (व० ५, १८, ३) ।

उज्ज—पुं० (सं० अयोध्या) अयोध्या नगर; (प० च० २३, १, १०) ।

उज्जमण—न० (दे०) पलायन, भागना; (दे० ना० मा० १, १०३) ।

उज्जर—पुं० (सं० उद् + क्षर् > प्रा० उज्जर) पर्वत से गिरने वाला जल-प्रवाह, निर्झर; (प० च० १४, १०, ८) ।

उज्जरिअ—वि० (दे०) टेढ़ी दृष्टि से देखा हुआ, २- विक्षिप्त; ३- फँका हुआ; ४- परित्यक्त; (दे० ना० मा० १, १३३) ।

उज्जस—पुं० (दे०) उद्यम, उद्योग, प्रयत्न; (दे० ना० मा० १, ६५) ।

उज्जा—पुं० १- (सं० उपाध्याय > प्रा० उज्जाय) ओझा, तुल० गु० ओझा; (भ०) । २- स्त्री० (सं० अयोध्या) सूर्य-वंशी राजाओं की राजधानी; (जस०) । -हिउ पुं० (सं० अयोध्या + अधिप) अयोध्या के राजा; (जस० २, १०, २) ।

उज्जाय—पुं० (सं० उपाध्याय > प्रा० उज्जाय) ओझा, विद्यादाता गुरु, (ण०

१, २, ८) ।

उज्जिअ—न० (दे०) १- लोकापवाद, २- वि० निन्दनीय; ३- कथनीय; (दे० ना० मा० ३, ५५) ।

उज्जिअ—पुं० वानर योधा; (प० च० ५७, १२) ।

उज्जिअ—वि० (सं० उज्जित > प्रा० उज्जिअ) परित्यक्त, विमुक्त; (ण० ७, ११, १; प० च० ३, १०, ६) ।

उट्ट—पुं० स्त्री० (सं० उट्ट > प्रा० उट्ट) उट्ट, ऊट; (प० च० २५, १०, ८) ।

उट्टण—पुं० छत्रों की उट्टनी या उट्टवणिका, “धुलउ छंद उट्टवण अत्थ विग्गु दुव्वल कहिअउ” उट्टवणिका से रहित (अर्थात् जहाँ मनमाने गणों का प्रयोग कर पट्टकल गण के स्थान पर पंचकल या त्रिकल का प्रयोग कर दिया गया हो; (प्रा० पं० १, ११६) ।

√उट्टिय—क्रि० भू० का० (सं० आ + वृत् > प्रा० आवट्ट, आवत्त) ओटे, चरखी द्वारा कपास से विनौले अलग किये; “चीदग्गु वुरणहं जाइ वढ, विग्गु उट्टिय इ कपासि,” (पाहु०) ।

उट्ट—पुं० (सं० ओष्ठ) होठ, अधर; तुल० गु० म० ओठ; (भ०) ।—उड पुं० सं० ओष्ठ + पुट (क० २, १४, ६) ।—चम्म पुं० (सं० ओष्ठ + चर्म) अधर का चर्म; (जं० ६, १, १०) ।

√उट्ठ—(सं० उत् + स्था > प्रा० उट्ठ; उट्ठाव) उठना, खड़ा होना, उठाना ।

—इ अक० (सं० उत्तिष्ठति) (भ०) ।

उट्ठंत—कृ० (उत् + स्था + शतृ) उठते हुए

(ण० ८, ३, ६) तुल० म० उठणें-विअ वि० (सं० उत्थापित > प्रा० उट्ठाविअ) उठाया हुआ, खड़ा किया हुआ; (जं० १०, १३, ६) उट्टि-पू० का० क्रि० (की० ३, ५) । उट्टिमउ-भू० का० (सं० उत्थितः) उठा; (हे० ४१५, १) । उट्टिउ-कृ० (सं० उव्+स्था+तुमुन्=उत्थातुम्) उठने में "उट्टिउं न पारए तरट्टि खोट्टिया"-धक्का दिये जाने पर राजमार्ग से उठने में भी समर्थ न हो सकी; (जं० ४, २१, १२) । उट्टिउ-भू० का० (व० ३, २५, १३) । उट्टिय-भू० का० उठी; (सं० रा०); उठ खड़ी हुई; (जस० २, २३, ४) । उट्टेहि-क्रि० आ०, उठो "वसुभूइ भणइ उट्टेहि मित्त, (विला०) । उट्ठेवि-पू० का० क्रि० उठकर; (प० च० ६, ६, ७) । उठाइउ-भू० का० (सं० उत्थापित) उठाया, तुल० गु० उठाव्युं, (संघि १२, ६, १६) ।

उट्टुद्ध. उट्टुद्धय-वि० (दे०) नियन्त्रित; (प० च० २५, २०, ७) ।

उट्टुद्धु-वि० (सं० अवष्टब्ध आवृत, आवेष्टित) परिपूर्ण, "णव-विवरहिं जुत्तु असुइ सुरालि-णिवद्धु । किम कुल-संपुन्नु खइ मलेण उट्टुद्धु ॥" अर्थात् 'यह काय नौ-छिद्रों से युक्त, अपवित्र, क्षिरा-समूह से भरा हुआ, विनश्वर तथा मज्ज से परिपूर्ण रहती है;' (व० ६, १४, १२) ।

उट्ठवणा-न० (सं० उत्थापन) ऊँचा करना, उठाना; (दे० ना० मा० १, ८२) ।

उट्ठम्भइ-क्रि०, व० ढकना; "जइ

उट्ठम्भइ तो कुहइ अह डज्झइ तो छारुं" यदि इसे ढका जाय तो दुर्गन्ध आने लगे, यदि जलाया जाय तो राख हो जाय; (हे० ३६५, ३)

उड्डंग-वि० (सं० ऊर्ध्वङ्ग) उन्नत, "उड्डंग-णिविट्ठ मणो सयावि, जहिं सोहहिं पवर सुहावियावि," -जहाँ उन्नत एवं मन को निरन्तर सुन्दर लगने वाली सुशीतल जलवाली वापिकाएँ सुशोभित रहती हैं; (व० ६, २, ६) ।

उट्ठावियअ-वि० (सं० उत्थापित > प्रा० उट्ठाविअ) उठाया हुआ, उठ खड़ा हुआ; (जस० २, ६, १७) ।

उट्टासउ-वि० दुष्टाशय, "कहिं सो सरोसु णारियण-इट्ठु युज्जउ उट्टासउ रिउ तिविट्ठु" -उमने रोपपूर्वक पूछा -"नारी जनों के लिए इष्ट, दुर्जय दुष्टाशय (वह) शुत्रु त्रिपृष्ठ कहाँ है? (व० ५, २१, ८) ।

उट्टिम-वि० (सं० उत्थित > प्रा० उट्ठि-ठय) खड़ा हुआ; (ण० १, ६, २) । उट्टिय-वि० (सं० उत्थित) (जस० ३, ३, १४) ।

उडद-पुं० (प्रा० उडिद) माप, उडद, धान्य विशेष; तुल० गु० अडद; (संघि० १६, ५, ११) ।

उडास-क्रि० (सं० उट्टासति) देना, "पा (खा) ट डास, उडास'-प (ख) ट्वां दासति, उट्टासति । दासु दाने ।" (उ० व्य० प्र० ४६-२७) ।

उडिड-पुं० (दे०, प्रा० उडिद) उरद, माप, धान्य-विशेष; (दे० ना० मा० १, ६८) ।

उडिद—पुं० (दे०) उडिद, माष, धान्य-
विशेष; (दे० ना० मा० १, ६८) ।

उडु—न० (सं० प्रा० उडु) नक्षत्र;
(जस० २, २, ११) । -यण पुं० (सं०
उडुगण) नक्षत्र-समूह; (भ०) । -वड
पुं० (सं० उडुपति) नक्षत्रराट्, चन्द्र;
(जस० १, १७, २६) । —हिअ न०
(दे०) विवाहित स्त्री का कोप, २. वि०
उच्छिष्ट, जूठा; (दे० १, १३७) ।

√उड्ड—(सं० उद्+ड्य्) उड्डना ।

—इ क्रि० व० (प० च० १, ५, ४) ।

उड्डंत—कृ० (सं० उद्+डी+ शतृ)
(जं० ६, ७, २) । उड्डन्त-भू० का०

उड जाते थे (की० ४, १६७) । उड्ड-

पू० का० क्रि०—उडकर (की० ४,

१३०) । उड्डिज्जइ— उडने लगा, वाय-
सेण, उड्डिज्जइ दीणें— वह दुःखी

कौआ उडने लगा (जं० ६, ५, ८) ।

उड्डियाइ—क्रि० (सं० उद्+डी>प्रा०
उड्डी) उड्डना; "उड्डियाइ णाणाविह्वि-

त्तइ" जहाँ नाना प्रकार के घन उड रहे
हैं; (ण० ३, १२, ६) । उड्डेवि-पू०-

का० क्रि० उडकर, (प० च० १०, ६,
८) ।

उड्ड—वि० (दे०) कुआ आदि खोदने
वाला; खनक; (दे० ना० मा० १, ८५) ।

उड्डण—पुं० (दे०) वैल, साँड़ । वि०
दीर्घ; (दे० ना० मा० १, १२३) ।

उड्डणसीला—वि० (सं० उड्डणशील)
उडणशील, "उड्डणसीला तंवललग्ग,

जहिं हरि खज्जंता कहि मि भग्ग" —जहाँ
उडणशील हरित शुक ताम्बूल की लता से

चिपटकर अन्यत्र भाग जाते हैं; (जस०

३, १५, ११) ।

उड्डमर—पुं० (सं० उग्र भय) अत्य-
धिक भय; "डिद-डमर उड्डमर-मारि;

(प्रा० गु० १२, ६) ।

उड्डस—पुं० (दे०) उडिस, खटमल;
(दे० ना० मा० १, ६६) ।

उड्डहण—पुं० (दे०) चोर, डाकू; (दे०-
ना० मा० १, ६१) ।

उड्डाण—न० (सं० उड्डयन) उडान;
(सुदं० २, ६, ६) । पुं० (दे०) १-प्रति-

शब्द, प्रतिध्वनि; २- पक्षी-विशेष;
३. विष्ठा, पुरीप; ४-

अभिलाषा, ५- वि० अभिमानी; (दे० ना० मा० १,
१२८) ।

√उड्डाव—(सं० उद्+डाय्>प्रा०
उड्डाव) उड्डाना । -इ सक० (सं० उड-

डायति), तुल० गु० उड्डाना, म० उडवणें;
(ण० ३, १५, ८) ।

उड्डाविय—वि० (सं० उड्डायित>
प्रा० उड्डाविय) उड्डाया हुआ; (ण० ३,

६, १४; जस० १, २१, ४) ।

उड्डास—पुं० (दे०) उड्डास, संताप,
परिताप; (दे० ना० मा० १, ६८) ।

उड्डाहरण—न० (दे०) छुरी पर
रक्खे हुए फूल को पाँव की दो उँगलियों

से लेते हुए चलना; (दे० ना० मा० १,
१२१) ।

उड्डिप—वि० (सं० उड्डित) ऊपर किया
हुआ, ऊर्ध्वीकृत; (जस० २, ३३,

६) ।

उड्डिर—वि० (सं० उद्+डी>प्रा०
उड्डी+इर कर्त्तृत्व बोधक प्र०)
उडणशील; (जस० २, २७, ८) ।

- उड़ह—न० (सं० ऊर्ध्वम् > प्रा० उड़ह) ।
 ऊपर, ऊँचा; (जस० २, ३२, ७) ।
- उड़हण—पुं० (दे०) उत्तरीय, ऊपर पहिने
 का कपड़ा, तु० गु० ओढ़णु, ओढ़णी ।
 (प० च० १४, ३, ३) ।
- उड़हल, उड़हल्ल—पुं० (दे०) उल्लास;
 (दे० ना० मा० १, ६१) ।
- उड़िहय—वि० (सं० उर्ध्वीकृत) ऊपर
 की ओर किया हुआ; (प० २, १२;
 ५) ।
- उढक्कय—क्रि० (सं० उद् + ढौक) चल
 देती है; (प० च० १७, १३, ७) ।
- उढण—पुं० (दे०) १- उत्तरीय, ओढ़नी,
 ओढ़ण । उढणु; (रा० २६) ।
 २- परिधान; (प्रा० गु० २६, ५) ।
- उरांढी—वि० (सं० उग्निद्र) उनींढी,
 बहुत जागने के कारण अलसायी हुई;
 (सं० रा०) ।
- उण—क्रि० वि० (सं० पुनः) फिर,
 अनेकशः, पुनः; तुल० राज०, गु०, म०
 पण (की० २, ४३; प्रा० पै० १, ७) ।
 उणो; (प्रा० पै० १, १२७) ।
- उणाइ—पुं० (सं० उणादि) उणादि,
 उण प्रत्यय से शुरू होने वाले शब्द;
 व्याकरण का एक प्रकरण; (प० च० १,
 ३, ६) ।
- उणाइ—स्त्री० (सं० उन्नति > प्रा०
 उणाइ) अन्मुदय, उन्नति; (क० १,
 १६, १०) । अव्यात्मपरक उक्ति—
 'उणाइ ण करइ कहो मुणियवगु'—कहिए
 कि मुनि-वचन किसकी उन्नति नहीं
 करते? (व० ६, १६, ११) ।
- उणइय—वि० (सं० उन्नयित) उदित;
- (जंजू० ७, ६, ६) ।
- उष्णइवंत—वि० (सं० उन्नतिमत्)
 उन्नत; (जस० ४, २७, २३) ।
- उष्णम—वि० (दे०) समुन्नत, उँचा;
 (दे० ना० मा० १, ८८) ।
- उष्णय—स्त्री० (सं० उन्नति > प्रा०
 उष्णइ) उन्नति, अन्मुदय; (दे० सा०
 दो०) । वि० (सं० उन्नत > प्रा०
 उष्णय) । (प० ३, ४, ८; जस० ४, २,
 २०) । —कंधर वि० (सं० उन्नत + स्क-
 न्व) ऊँचे कन्धों वाले; (जस० ४, २७,
 १६) ।
- उष्णापिपीलिया—स्त्री० (सं० ऊर्णा +
 पिपीलिका) जन्तु-विशेष; (दे० ना०-
 मा० ६, ४८) ।
- उष्णामय—वि० (सं० ऊर्णामय) ऊँत से
 बना हुआ, "उष्णामय—कंकणवद्धकर"
 —हाथ में ऊँत से बना हुआ कंकण वैधा
 है; (जंजू० २, १०, ५) ।
- उष्णामिय—वि० (सं० उन्नमित > प्रा०
 उष्णामिय) उन्नत, उन्नति किया हुआ,
 उत्कृष्टित; (व० २, ७, १०) । —भाज
 (सं० उन्नमित + भाल) उन्नत भाल;
 (व० २, ३, १६) ।
- उष्णालिय—वि० (दे०) १- कृश,
 दुबल; २- ऊँचा किया हुआ; (दे० ना०
 मा० १, १३६) ।
- उष्णाविय—वि० (सं० उन्नमित > प्रा०
 उष्णामिय), ऊपर किये हुए, ऊँचा
 किया हुआ, 'विष्णि द्वि उष्णाविय-मत्या,
 (तुम लोग अपने दोनों हाथ ऊपर कर),
 (प० च० २, १४, ६) ।

उष्णाह—पुं० (दे०) तीव्र प्रवाह, बह; (जंबू० ६, १०, १) ।

उष्ह—वि० (सं० उष्ण > प्रा० उष्ह) गरम; (गण० १, ५, ५) ।

उष्हउ—वि० (सं० उष्णं) गर्म; (हे० ३४३, १) ।

उष्हविअ—वि० (सं० ऊष्णापित) ऊष्णीकृत, गर्म किया हुआ; (प० च० २८, ३, ६); उष्हविय; (जंबू० ८, १३, ५) ।

उष्ह्या—स्त्री० (दे०) कूसरा, तिल-चावल आदि की खिचड़ी; (दे० ना० मा० १, ८८) ।

उष्ह्या—स्त्री० (सं० उष्णिका) छद-विशेष; (सुदं० ८, २३, ११) । स्त्री० (दे०) कूसरा, खिचड़ी; (दे० ना० मा० १, ८८) ।

उष्होदयभंड—पुं० (दे०) भ्रमर; (दे० ना० मा० १, १२०) ।

उत्तए—क्रि० (सं० उत्तान > प्रा० उत्ताण) पिछले पैरों पर खड़े होकर मुँह ऊँचा कर लिया; (की० ४, ११६) ।

उत्तरथि—क्रि० (सं० उत् + वृ > प्रा० उत्तर) बाहर निकलना, ऊपर उटना (की० ४, ११६) ।

उत्तम्म—वि० (सं० प्रा० उत्तम) उत्तम, श्रेष्ठ; (संवि० ११, ४, ४) ।

उत्तंग—वि० (सं० उत्तङ्ग) ऊँचा; (सं० रा०) ।

उत्तपिअ—वि० (दे०) खिन्न, उद्विग्न; (दे० ना० मा० १, १०२) ।

उत्तस—पुं० (सं० अवतंस) शिरोभूषण; (दे० ना० मा० २, ५७) ।

उत्त—वि० (सं० उक्त > प्रा० उत्त) कथित; कहा गया; (प० ३, ११, १०) । पुं० (सं० पुत्र > प्रा० पुत्त, उत्त) पुत्र (वाणिज्य); (भ०) ।

उत्तट्टिया—वि० स्त्री० (सं० उत्त्रस्ता) भयभीत, चकित डरी हुई, कांपती हुई; (सं० रा०) ।

उत्तत्त—वि० (सं० उत्तप्त) देदीप्यमान; (क० ३, २, १०) ।

उत्तद्ध—पुं० (सं० उत्तरार्ध) पिछला भाग, पीछे का आधा भाग; (प्रा० पै० १, ५२) ।

उत्त-पडुत्तिष्ण—स्त्री० (सं० उक्त + प्र-उक्ति) उक्ति-प्रति-उक्ति, क्षणिक उत्तर, व्यंग्य उक्ति; (प० च० १२, ६, १०) ।

उत्तपडुत्ती—स्त्री० (सं० उक्त + प्रत्युक्ति) अभिहित या कथित उत्तर; (प० ३, ७, १०) ।

उत्तप्प—वि० (दे०) १- गर्वित; २- अधिक गुणवाला; (दे० ना० मा० १, १३१) ।

उत्तम—वि० (सं० प्रा० उत्तम) श्रेष्ठ, सुन्दर; (भ०; जस० १, १४, ३) । पुं० राक्षस वंशीय राजा; (प० च० ५, २६४) ।

उत्तमंग—न० (सं० उत्तमाङ्ग > प्रा० उत्तमंग) मस्तक, सिर; (जस० १, २६, २२; सि० १, २) ।

—खम स्त्री० (सं० उत्तम क्षमा; > प्रा० उत्तम खमा) उत्तम प्रमा; (जंबू० ११, १४, २) ।

उत्तम्मिअ—वि० (दे०) खिन्न; (दे० ना० मा० १, १०२) ।

- √उत्तर—(सं० उव् + वृ > प्रा० उत्तर) वाहर निकलना, पार करना; (जस० २, १४, ६) । —इ क्रि०, व० (सं० उत्तरति) पार उत्तर जाना; तुल० म० उत्तरणं; (हिं० ३३६, १; भ०) । उत्तरिख-भू० का० उत्तरे, (की० ३, ८६) । उत्तरिखि—पू० का० क्रि० (जंबू० १०, २०, ७) । उत्तरेखि—पू० का० क्रि० (जंबू० ७, १३, ५) ।
- उत्तरगइ—पुं० राजसवंशीय राजा; (प० च० ५, २६४) ।
- उत्तरक्षयण—पुं० (सं० उत्तराध्ययन) आगमग्रन्थ-विशेष; (संघि० १३, १, १) ।
- उत्तरण—न० (सं० प्रा० उत्तरण) १- उत्तरना, पार करना, २- अवतरण; (भ०) ।
- उत्तरद्व—पुं० (सं० उत्तराध्वं) पीछे का अर्ध भाग, पिछला आधा; (प्रा० वं० १, ५२) ।
- उत्तरफाल्गुण—पुं० (सं० उत्तरा-फाल्गुनी) उत्तराफाल्गुनी नामक नक्षत्र, बारहवां नक्षत्र; (व० ६, ८, १) ।
- उत्तरयल—पुं० (सं० उत्तरतट) उत्तर तट; (व० २, १७, ३) ।
- उत्तरसेणि—स्त्री० (सं० उत्तरश्रेणि पर्वत की) उत्तर की श्रेणि या शृंखला; (व० ४, ४, १२) ।
- उत्तराबह—पुं० (सं० उत्तरापथ > प्रा० उत्तरापह) उत्तर दिशा-स्थित-देश, उत्तरीय देश; (भ०) ।
- उत्तरिय—वि० (सं० उत्तरित) उत्तीर्ण, उतरा हुआ, नीचे आया हुआ; (व० २, ६, ४) ।
- उत्तरुत्तर—क्रि० वि० (सं० उत्तरोत्तर) एक के अनंतर दूसरा; दिनोदिन; (व० ४, ३, ७) ।
- उत्तलहृष—पुं० (दि०) विटप, अडकुर; (दि० ना० मा० १, ११६) ।
- उत्तसिय—वि० (सं० उत्तस्त > प्रा० उत्तसिय) भयभीत; (सुदं० १, १, ६) ।
- उत्तहृ—अव्य० (दि०) तत्र, उधर; (सुदं० ८, ३, १०) ।
- उत्ताणपत्तय—वि० (दि०) एरण्ड संबंधी पत्ती आदि; दि० ना० मा० १, १२०) ।
- √उत्तार—(सं० उव् + तारय् प्रा० उत्तार) पार पहुँचाना; (प० च० ३३, १२, ६; जस० ४, ७, २६) । उत्तरित्-कृ० (सं० अवतरत्) उतार कर; (संघि० ५, ४, ८) ।
- उत्तारय—वि० (सं० उत्तारक > प्रा० उत्तारय) पार उतारने वाला; (प० च० १, १, १) ।
- उत्तारिय—वि० (सं० उत्तारित > प्रा० उत्तारिख) पार पहुँचाया हुआ; (भ०, जंबू० ७, ८, १) ।
- उत्ताल—वि० (दि०) उतावला; (जंबू० ५, २, ११) । उत्तालिया—वि० (स्त्री०) उतावली; (जंबू० ४, ११, ६) । न० (दि०) निरंतर रुदन, अन्तर-रहित क्रन्दन की आवाज; (दि० ना० मा० १, १०१) ।
- उत्तावलय—वि० (प्रा० उत्तावल) जल्दी मचाने वाला, जल्दवाज; (सं० रा०) ।
- उत्तावलि—वि० स्त्री० (प्रा० उत्तावल)

त्वरणशीला, उतावली; तुल० राज० तावलो, म० गु० उतावल (शीघ्रता के अर्थ में), कन्ड उताल (जल्दी के अर्थ में); (सं० रा० २६) । —अ, वि०, जल्दवाज, तुल० गु० उतावली; (प० च० ३६, १५, २) । —हूअय वि० त्वरा-युक्त; (प० च० ५६, १५, ८) ।

उत्ताविय—वि० (सं० उत् + तापित) तप्त; (जं० ५, १०, ४) ।

उत्ताहिय—वि० (दे०) फेंका हुआ; (दे० ना० मा० १, १०६) ।

उत्ति—स्त्री० (सं० उक्ति > प्रा० उक्ति) वचन, वाणी; (सि० १, ६) । —य वि० (सं० उक्त) कहा गया; (जस०) ।

उत्तिष्णउ—क्रि० भू० का० (सं० उत् + तीर्ण > प्रा० उत्तिष्ण) उतरा, 'जंबुकुमारुत्तिष्णउ;' (जं० ५, ११, २१) ।

उत्तिस्थ—पुं० न० (सं० उत्तीर्थ) कुपय, अपमान; (भ०) ।

उत्तिम—वि० (सं० प्रा० उत्तम) श्रेष्ठ; (जस० ३, १५, १२) ।

उत्ती—स्त्री० (सं० पुत्री) लड़की, बेटी; (ण० २, २, १६) ।

उत्तुंग—वि० (सं० उत्तुङ्ग > प्रा० उत्तुंग) ऊँचा, उन्नत; (जस० ४, ७, ६) ।

उत्तुरिद्धि—स्त्री० (दे०) १- गर्द, २- वि० गवित्त; (दे० ना० मा० १, ६६) ।

उत्तुहिय—वि० (दे०) छिन्न, नष्ट; (दे० ना० मा० १, १०५) ।

उत्तूह—पुं० (दे०) तट-शूर कुप; (दे० ना० मा० १, ६४) ।

उत्तोओ—पुं० (सं० उत्तोजाः) काव्य-छंद का भेद; (प्रा० पै० १, ११३) ।

उत्फुल्ल—वि० (सं० उत्फुल्ल) प्रसन्न, (भ०) ।

उत्थग्घ—पुं० (दे०) सम्मदं, भीड़भाड़ (दे० ना० मा० १, ६३) ।

उत्थङ्घि—वि० (सं० उच्च स्थित) उच्च स्थल में स्थित; (व० ६, ६, ८) ।

√उत्थर—(सं० आ + क्रम, प्रा० उत्थर = आक्रमण करना) लड़ना । —इ सक० (भ०) । —न्ति बहु व० (प० च० ४३, १५, ७) ।

उत्थरहो—भू० का०, "तो वे वि परोप्पर उत्थरहो", जोको वि जिणइ जयकार तहो" (तो आपस में लड़ लो, जो जीतेगा उसकी जय-जयकार होगी); (प० च० १२, ६, ३) ।

उत्थरियउ—क्रि० भू० का० (सं० आक्रम, प्रा० उत्थर) आक्रमण किया; 'जो जसु उत्थरियउ सो तें धरियउ' अर्थात् जिसने जिस पर आक्रमण किया, उसने उसको पकड़ लिया, (प० च० १७, १७, १०) ।

√उत्थर—(सं० अव + स्तृ), १- बाँच्छा-दन करना, ढकना, २- परामर्ष करना । उत्थरंत—कृ० (सं० अव + स्तृ + शतृ), (सुदं० ६, १५, ७) ।

उत्थरिय—वि० (प्रा० उत्थरिज) आक्रान्त; (जं० ७, ८, ६) ।

उत्थल्ल—क्रि० (सं० उत् + शल् > प्रा० उत्थल्ल) उछलना, कूदना । —इ उथलना, (भ०; प० च० ३१, ३, २) ।

—न्तय, कृ०—उछलते हुए, कूदते हुए; 'पेक्खे वि उत्थल्लन्तइ छतइ' अर्थात्

उच्छलते हुए छल देखकर; (प० च० १७, ३, ५) । उत्थरिउ-भू० का० उच्छल पड़ा; त वयणु सुणप्पिणु विजयसीहू, उत्थरिउ पवर-भुव फलिह-दीहू, अर्थात् यह वचन सुनकर प्रबल और विकसित बाहुओं वाला विजय सिंह उच्छल पड़ा; (प० च० ७, ५, १) ।

उत्थल्ला—स्त्री० (दे०) परिवर्तन; (दे० ना० मा० १, ६३) ।

उत्थल्लिय—वि० (सं० उच्छलित > प्रा० उत्थल्लिय) उच्छलना हुआ; (प० च० १, ३, १३) । २- भू० का०, कूदा; (प० च० ३०, ४, ७) ।

उत्थाइ—वि० (सं० उत्थायिन्) उठने वाला; (दे० ना० मा० ८; १६) ।

उत्थाइयइ—क्रि० भू० का० (सं० उत्थापित > प्रा० उत्थाइय) उठवाये; (जस० २; २५, १६) ।

उत्थामिय—वि० (सं० उत्थापित) उठाया हुआ; (भ०) ।

उत्थि—क्रि० वि० (सं० तत्त > प्रा० तत्थ) वहाँ; (की० २, २३४) ।

उत्थि—क्रि० वि० (सं० तत्त > प्रा० तत्थ) वहाँ; (की० २, २३४) । उत्थिय—क्रि० वि०, वहाँ; (की० २, २३४) ।

उदंभो—पुं० (सं० उदम्भः) काव्य-छंद का भेद; (प्रा० पं० १, ११४) ।

उदए—पुं० न० (सं० उदक > प्रा० उदग) उदक, जल; (सि० २, ३१) ।

उदय—पुं० (सं० प्रा० उदय) अभ्युदय, उन्नति; (भ०) ।

उदयगिरि—पुं० (सं० उदयगिरि) उदय-

गिरि, उदयात्रज, पर्वत-विशेष; (जस० ३, २५, ३) ।

उदयरह—पुं० इक्ष्वाकुवंशीय राजा; (प० च० २२, ६७) ।

उदयगुदर—पुं० राजपुत्र नागपुर का; (प० च० २१, ४५) ।

उदहिकुमार—पुं० भवनवासी देव; (प० च० १, ४३) ।

उदिअ—पुं० दूतपुत्र; (प० च० ३६, ४०) ।

उदिदुठअ—वि० (सं० उदिदुठ) कथित; (जं० ६, ४, १३) ।

उदइंड—वि० (सं० उदइंड > प्रा० उददड); प्रचण्ड, उद्धन; (जस० १, २६, ५) । उदइण्ड (प० च० ३, ३, ६) ।

उदंडा—वि० स्त्री० प्रबल (प्रा० पं० २, ३४) ।

उदनुर—वि० (सं० > प्रा० उदनुर) जिसका दान्त बाहर बाहर आया हो वह; (प० च० ६, ७, ६) ।

उदम—पुं० (उद्यम) उद्योग; (की० २, ७५) ।

उदाम—वि० (सं० प्रा० उदाम) प्रचण्ड, प्रखर; "जुञ्जंती उदामे कालिका संगामे । णच्चंती हम्मरो दूरिहा मंहारो"; (प्रा० पं० २, ४२) । पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५७, ७६) ।

√उदाल—(प्रा० उदाल) छींच लेना, हाथ से छीन लेना । —इ सक्र० (भ०) —हो क्रि० आ० छीन लो, 'उदा-हो बहु वरइत्तु हणहो' —अर्थात् वधू छीन लो और वर को मार डालो; (प० च० ७, ४, ७) । उदालिउ-भू० का०

(सं० उद्दालित) छीन लिया; (रि० ८, १) । उद्दालिपिणु-पू० का० क्रि० अपहरण कर; (ण० ३, ११, ५) । उद्दालेवि—पू० का० क्रि०; 'एयहो उद्दालेवि जेमि तिय, कइयहुँ-माणेसहुँ रायसिय' अर्थात् इसको उखाड़कर, मैं स्त्री के समान कब राज्यश्री मानूगी ? (प० च० ६, ६, ५) ।

उद्दालिय—वि० (सं० उद्+दारित) आच्छिन्न, छीना हुआ, खींच लिया गया ।

भू० का० उड़ा लिया; (क० २, ८, ८) ।

उद्दिट्ठा—वि० (सं० उद्दिष्ट) कथित, प्रतिपादित; "उद्दिट्ठा जानहु," (प्रा० पै० १, ३६) । —अ वि० उपदिष्ट; (जं० १०, २, ५) ।

उद्दित्त—वि० (सं० उद्दीप्त) प्रज्वलित; (जं० १, १८, १०) ।

√उद्दिस—(सं० उद् + दिश् > प्रा० उद्दिस, उद्दिस) १- नाम निर्देशपूर्वक वस्तु का निरूपण करना, २- देखना, ३- लक्ष्य करना, ४, उपदेश देना ।

उद्दिसइ—सक० (सं० उद्दिशति); (भ०) ।

उद्दिसिअ—वि० (दे०) अनुमानित; उत्प्रेक्षित, वितर्कित; (दे० ना० मा० १, १०६) ।

उद्दीविय—वि० (सं० उद्दीपित) प्रदीपित, प्रज्वलित; (भ०) ।

उद्दुमण—वि० (सं० उद्+दुर्मनस्)

उदास, "उद्दुमण अच्छहि जा मणम्मि," —वे अपने मन में इस प्रकार उदास खड़े थे; (क० २, २१, २) ।

उद्दिस—पुं० (सं० उद्देश > प्रा० उद्दिस) लक्ष्य; (की २, ५८; जस० ३, २१,

७) ।

√उद्दिस—(सं० उद् + दिश् > प्रा० उद्दिस) नाम निर्देशपूर्वक वस्तु का निरूपण करना; (जस० १, ६, २६) । —हि सक० (विधि०) (सं० उपदेश्य) (जं० १०, १४, ८) ।

√उद्दिसिहिया, उद्दिसिहो—स्त्री० (सं० उपदिहिका) दीमक, जंतु-विशेष; (दे० ना० मा० १, ६३) ।

उद्धत—वि० (सं० उद्धत > प्रा० उद्धअ) गर्वित; (म० २, ४, २) ।

उद्ध—वि० (सं० ऊर्ध्व > प्रा० उद्ध, उद्ध) ऊँचा, सीधा खड़ा, ऊपर का; (भ०; जं० ५, १४, १२; जस० १, ६, ७) ।

उद्धच्छवि—वि० (दे०) अप्रमाणित; (दे० ना० मा० १, ११४) ।

उद्धच्छविअ—वि० (दे०) सज्जित, तैयार; (दे० ना० मा० १, ११६) ।

उद्धच्छिअ—वि० (दे०) निपिद्ध; (दे० ना० मा० १, १११) ।

उद्धत्ताणु—पुं० (सं० उद्धतता) उद्दण्डता; (व० ८, ७, ३) ।

उद्धत्थ—वि० (दे०) वञ्चित; (दे० ना० मा० १, ६६) ।

उद्धदिट्ठी—स्त्री० (सं० उर्ध्व दृष्टि) बाँखे उठाकर देखना; (जं० १, १५, ६) ।

उद्धरण—कृ० छीन लिये जाने पर, 'उद्धरण' रज्जे णिविस वि जिज्जइ ताय किह'; अर्थात् हे तात, राज्य के छीन लिये जाने पर एक पल भी किस प्रकार जिया जाता है; (प० च० ७, ११, ६) ।

√उद्धर— (सं० उद् + √ह > प्रा० उद्धर) फँसे हुए को निकालना; ऊपर उठाना । —इ सक० (सं० उद्ध-रति) उद्धार करना; (भ०) । —उ भू० का० उद्धार हुआ; (की० २, २) । —ओ-क्रि० उद्धारुँ; (की० २, ४३) । —णु भू० का० उठा रखा था; (प० च० १३, ६, २) । उद्धारिअउ-क्रि० उद्धार किया गया; (की० १, ५४) । —वु उद्यापन करे, 'उद्धखुवड' —व्रत का उद्यापन करे; (जस० २, १८, १४) । उद्धरि-क्रि० आ० उद्धार करो; (जंबू० ७, ३, १३) । उद्धरि पू० का० क्रि०-चुका कर, (की० १, ६४); उद्धार करके, (की० १, ६८); उत्पन्न करके (की० १, १०२) । उद्धरण—वि० (दे०) उच्छिद्य, जूठा; (दे० ना० मा० १, १०६) । उद्धरियलि—वि० (सं० उद्धृता) जिस का उद्धार किया गया हो, 'गड अणहिल-पुरि जेमुल राउ जिणि उद्धरियलि पुह्वि सयाउ'; (प्रा० गुं० ५, ४४) । उद्धवंत—वि० (सं० उद्धत) गवित, उद्दंड, (ण० ४, १०, ३) । उद्धवअ—वि० (दे०) फँका हुआ; (दे० ना० मा० १, १०६) । उद्धविअ—वि० (दे०) पूजित; (दे० ना० मा० १, १०७) । उद्धसिय—वि० धँसे हुए; (सं० रा०) । उद्धसिय—क्रि० भू० का० (सं० उद् + हसित) हँस उठे; 'उद्धसिय ज्पति णहे सखि-दिणिद, आकाश में चंद्र और सूर्य तत्काल हँस उठे; (मुदं० १, १, ८) ।

उद्धहत्य—वि० (सं० उद्ध + हस्त) हाथ ऊपर उठाये हुए या हाथ ऊपर किये हुए; "कयउद्धहत्यणारीणरेहिँ" —हाथ ऊपर किये हुए नर नारियों ने; (जस० २, २६, ७) ।

उद्धाअ—पुं० (दे०) १- विपमोन्नत प्रदेश; २- समूह ३- थका हुआ; (दे० ना० मा० १, १२४) ।

उद्धाइय—क्रि० (सं० ऊध्वाय > प्रा० उद्धाअ = ऊँचा होना) उठे, 'उद्धाइय मच्छर-मलिय-कर, भीसावण-पहरण-णियर-धर, अथात् मत्सर से हाथ मलते हुए भयंकर हथियारों का समूह धारण करने वाले वे उठे, (प० च० १५, १, ५) । —उ उठे हों 'दीसइ विञ्ज महीहरहौ', मेहउलु. 'गाई उद्धाइयउ' ऐसा दिखाइ देता है जैसे विन्ध्याचल से महा-मेघ उठे हों; (प० च० ८, ३, ६) ।

उद्धाइय—वि० (सं० उद् + धावित) दौड़ते हुए; (ण० ४, १४, ६) ।

उद्धाणणु—वि० (सं० उद्ध + आनन) मुँह उठाये हुए, 'विहलंघजु उद्धाणणु भभइ'-विह्वल रूप से मुँह उठाये इधर-उधर फिरता था; (क० ६, १, १२) ।

उद्धार—पुं० (सं० उद्धार = विना व्याज का ऋण) उधार, "काहु देल ऋण उद्धार;" (की० २, ६६) ।

उद्धाविउ—क्रि० भू० का० (सं० उद् + धावित) दौड़-पड़ा; (क० ५, १४, ३) ।

उद्धिरसण—वि० पराभव करने वाला "उद्धिरसणभीपणरुवधारि"; अर्थात् परा-करने वाला और भीषण रूप धारण करने वाला; (रि० २, ३) ।

उद्धुद्ध—वि० (सं० उर्ध्व + उर्ध्व) ऊपर; (ण० २, १२, ४) ।

उद्धय—वि० (सं० उद्धृत > प्रा० उद्धुय) १- पवन से उड़ा हुआ, २- फौला हुआ, 'पवणुद्धुयउ जडाउ रिसहहो रेहन्ति विसालउ' । सिहिहे वलन्तहो णाई धूमाउल-जाला-मालउ', अर्थात् ऋषभ जिनकी हवा में उड़ती हुई विशाल जटाएँ ऐसी लगती थीं मानो जलती हुई आग की धूमाकुल ज्वालमाला हो, (प० च० २, ११, ६) । ३- प्रकम्पित; (ण० ४, ८, १३) ।

उद्धुसिय—वि० (सं० उद्धुपित) रोमाञ्चित, पुलकित; (जं० १०, १३, ६) ।

उद्धयमाणु—कृ० (सं० उद्ध + धू > प्रा० उद्धू) (चामर) चलाते हुए, (प० च० १, ७, ५) ।

उद्धूलिउ—वि० (सं० उद्धूलिय > प्रा० उद्धूलिय) धूलि से लपेटा हुआ; (प० च० २, १३, ५) ।

उन—वि० (सं० ऊन) न, हीन (रा०) ।

उनाउ—क्रि० (सं० उन्नयति) ऊपर चढ़ना, ऊपर उठना; (उ० व्य० प्र० ४६-५) ।

उन्न—वि० (सं० विषण्ण) विपाद-प्राप्त, खिन्न (पङ्) ।

उन्नइउ—क्रि० भू० का० (सं० उन्नीत) उन्नत हुआ; (जं० ७, ६, ६) ।

उन्नमियय, उन्नवियय—वि० (सं० उन्नमित) उन्नत हुए, उन्नत किया हुआ, बढ़ाया हुआ; (सं० रा०) ।

उन्नय—वि० (सं० उन्नत > प्रा० उण्णय) उन्नत, ऊँचा; (भ०) ।

उन्नयण—पुं० (सं० उन्नयन) ऊपर की ओर उठाना या ले जाना; (जं० ११, १, ६) ।

उहत्त—पुं० (सं० उण्णत्व) उण्णता, गर्भी; (सं० रा०) ।

उन्हय—वि० (सं० उण्ण > प्रा० उण्ह) गरम; (सं० रा०) ।

उन्हाला—पुं० (सं० उण्णकाल) ग्रीष्म-काल, उण्ण काल; तुल० म० उन्हाळा, गु० उन्हाळो; (भ०) ।

उपइल—वि० (सं० उत्पतित) ऊँचा, उन्नत, ऊपर का । उपइल्ले; (रा० ३५) ।

उपकरति—क्रि०, व० (सं० उप + √ कृ) उपकार करना, 'ते गुणै जाणि उपजति जे सवहि न उपकरति' (उ० व्य० प्र० १०-१०) ।

उपकारिआ—वि० (सं० उपकर्त्तृ) उपकारी; (उ० व्य० प्र० १०-८) ।

उपगार—पुं० (सं० उपकार) सेवा, सहायता, अनुग्रह, आभार; (प० च० १२, ११, ४) ।

उपजति—क्रि० (सं० उत् + पद् > सं० उत्पद्यन्ते, प्रा० उप्पज्ज) उत्पन्न होना; (उ० व्य० प्र० १०-६) । उपजु-भू० का०, उपजी, (की० ३, ७४) । उप्पज्जिउ-भू० का० उत्पन्न हुआ, (जं० ४, ३, ३) ।

उपटि—पुं० का० क्रि० उपट कर, उछल कर (की० ४, १७३) ।

उपभोय—पुं० (सं० उपभोग) किसी

वस्तु के व्यवहार का मुख; (क० ६, २२, १०) ।

उपमा—स्त्री० (सं० उपमा) सादृश्य, समानता, किसी वस्तु, व्यापार या गुण को दूसरी वस्तु, व्यापार या गुण के समान प्रकट करने की क्रिया; (प्रा० पं० २, १५३) । उपमन-स्त्री० उपमा; (जस० ४, २३, १७) ।

उपमान—न० (सं० उपमान > प्रा० उपमाण) दृष्टांत, वह वस्तु जिससे उपमा दी जाए । उपमानुः (रा० ३६) ।

उपमिञ्जइ—क्रि० (सं० उपमीयते) तुलना करना; (प० व० १, ६, १; म०) ।

उपयाण—न० (सं० उप+दान) दाम (नीति), सामभेयउवयाणेषहि मग्गिय तेण कुमरि," उसने साम, भेद व दाम से उस कुमारी को मांगा; (जं० ५, ३, ४) ।

उपर—अव्य० (सं० उपरि > प्रा० उपरि) ऊपर; (कौ० २, २०५) ।

उपरवट्ट—वि० (दे०) अधिक; तुल० गु० उपरवट्ट; (प्रा० गु० २६, २२) ।

उपलु—क्रि० मू० का० (सं० उत्प्लु > प्रा० अप० उप्लु) निकला; (कौ० ४, ८) ।

उपसत्रो—अव्य० उपसंग, साथ; (कौ० ४, १०३) ।

उपसम—पुं० (सं० उपसम) मृत्यु; (कौ० ४, १०१) ।

उपसोह—स्त्री० (सं० उपसोमा > प्रा० उपसोहा) सोमा; (प० व० ६, ३, ४) ।

उपित्य—वि० (दे०) कृषित; (जिकोवी द्वारा संपादित प० व० ८, १७५) ।

उपेहिखअ—क्रि० उपेक्षा हो जाती थी; (कौ० २, १४०) ।

उपेण्वइ—क्रि० देखमान करता है; (कौ० ३, १३२) ।

उपण्वइ—वि० (सं० उत्पत्ति) १- ऊँचा गया हुआ, २- उन्नत; (म०) ।

उपण्विद्य—वि० (दे०) पंक; कीचड़ या पंक में लिप्त; (प० व० २६, ११, ३) ।

√उप्यञ्ज—(सं० उव्+√पद् > प्रा० उप्यञ्ज) उत्पन्न होना, उपजना ।-इ अक० (सं० उत्पद्यति) (परम० १, ६८; प० व० १, १२, ४; प० ३, २, ८) ।

उप्यञ्जति; (जं०-३, १, १०) । उप्यञ्जवि—पू० का० क्रि० उत्पन्न होकर; (प० व० ६, ३, ६) । उप्यञ्जेसइ—म०-का० उत्पन्न होंगे; (रि० ८, २) ।

उप्यण्ण—वि० (सं० उत्पन्न > प्रा० उप्यण्ण) उत्पन्न, उद्भूत; (म०; जस० ३, ३४, ५) ।

उप्यण्णाहा—स्त्री० (सं० उत्पन्न+आमा > प्रा० उप्यण्+आमा) उत्पन्न हुई आमा; (रि० १, १) ।

उप्यण्णइ—क्रि० मू० का० (सं० उत्पन्नः) उत्पन्न हुआ; (महा० ६६, १४६; कौ० २, २) ।

उपपत्ति—स्त्री० (सं० उत्पत्ति > प्रा० उपपत्ति) उत्पत्ति, जन्म, उत्पादन, उद्गम, प्रादुर्भाव; (प० १, १२, १०) ।

उत्पन्नमति—वि० व्युत्पन्न बुद्धिवाला
(की० १, ६६) ।

√उत्पाय—(सं० उत्+पत्) कूदना ।
उत्पाएँवि—पू० का० क्रि० उछल कर;
(प० च० १७, ८, ६) ।

उत्पर—अव्य (सं० उपरि>प्रा०
उत्परि) ऊपर; (प्रा० पै० १, १०६) ।
उत्परन्ते—अव्य० (सं० उपरान्त) अन-
न्तर, पीछे, तुल० गु० उपरांत; (प०
च० ४४, १२, ६) ।

उत्परि—अव्य० (सं० उपरि>प्रा०
उत्परि) ऊपर, उर्ध्व; (ए० १, १३,
१०; प० च० १, ३, ३; हे० ३३४, १;
की० २, १२३; भ०) २-वि० श्रेष्ठ ।
उत्परियणु—पुं० (सं० उपरितन=)
उपरनी, ओढ़नी; ऊपर का वस्त्र; तुल०
म० उपराणा; (ण० ३, ८, १०; जस०
२, ३२, ११) ।

उत्पल—न० (सं० उत्पल>प्रा०
उत्पल) पद्म, कमल; (ण० ३, ८, १३) ।
—खेडि पुं० (सं० उत्पलखेटी) उत्पल-
खेड नामक नगर; (क० ६, ११, २) ।

उत्पल्लारोँवि—कू० (सं० उद्+पर्याण
>उत्पल्लाण) उतर कर, 'तहि लय-
मण्डवेँ उत्पल्लारोँवि'; अर्थात् वहाँ लता
मण्डप में उतरकर, (प० च० ५, ४,
५) ।

उत्पलिआ—स्त्री० वणिक स्त्री, मित्तमई
की सखी; (प० च० ४८, २१) ।

उत्पाअ—पुं० (सं० उपाय>प्रा०
उवाय) साधन; (प्रा० पै० २, १२०) ।

√उत्पाअ—(सं० उत्+पादय्>प्रा०
उत्पाय) उत्पन्न करना ।—इवि पू०—

का० क्रि० (जं० ४, ३, १२) । उत्पा-
यमि—क्रि०, व० (जं० १, १३, ८) ।
उत्पायहि—भ० का० (सं० उत्पादयि-
ष्यति) उत्पन्न करेगा; (जं० ६, ४,
१४) ।

उत्पाइय—वि० (सं० उत्पादित>प्रा०
उत्पाइय) उत्पन्न किया हुआ; (जं०
१०, १, १३) ।

उत्पाड—पुं० (सं० उत्पाट>प्रा०
उत्पाड) उन्मूलन; (म० २, २२, ३;
प० च० ३३, ७, ३) ।—ण न० (सं०
उत्पाटन>प्रा० उत्पाडण) उन्मूलन;
(जस० ४, २, १२) ।

√उत्पाड—(सं० उत+√पत्>प्रा०
उत्पड, उत्पाड) उपाड़ना, उखेड़ना,
उन्मूलन करना ।—न्तु व० कृ० उखा-
ड़ता हुआ; तुल० गु० उपाडवुं; (प० च०
६, ३६) । उत्पाडिय—क्रि० भू० का०
“उत्पाडिय कुंतल कुडिलवंत”—उसने
अपने घुंघराले केशों को उखाड़ डाला;
(क० १०, २३, ६); “णिहि दक्खालेँवि
मज्झु पइँ लोयण पुणु कि उत्पाडिय”,—
तूने मुझे एक निधि दिखला कर मेरी
आंखों को क्यों उपाड़ डाला; (सुद्धं ८,
४१, १२) । वि० (सं० उत्पादित)
उत्पन्न किया हुआ; (व० ३, १५, १०) ।
उत्पाडेँवि—पू० का० क्रि० निकालकर;
(प० च० ८, ६, २) ।

उत्पाडण—पुं० (सं० उत्पादन) उत्पत्ति;
(जं० १०, २०, ४) ।

√उत्पाय—(सं० उत्+पादय्>प्रा०
उत्पाय, उत्पाएहि (सं० उत्पादयति)
उत्पन्न करना, बनाना ।—इ सक० (ण०

३, १५, ६; प० च० १, १४, ४) ।
 उप्पायमि (प० च० ६, ११, ३) ।
 उप्पायब—वि० (सं० उत्पादित > प्रा०
 उप्पाइय) उत्पन्न क्रिया हुआ; (जंबू०
 ६, १४, ३) ।
 उप्पायण— न० (सं० उत्पादन > प्रा०
 उप्पायण) उत्पादन, उपार्जन; (भ०) ।
 √उप्पाल— (सं० उत् + प्लावय् >
 प्रा० उप्पाव = उड़ाना) उड़ना; उप्पा-
 ले वि—पू० का० क्रि०, “अक्खउ गयण-
 मग्गे उप्पाले वि, आउ खणद्धे स्सिल
 संचाले वि”; (प० च० ५२, ५, ३) ।
 उप्पिंगलिजा— स्त्री० (दे०) हाथ का
 मध्य भाग; (दे० ना० मा० १, ११८) ।
 उप्पजल— न० (दे०) १. सभाग,
 २. रज; ३. अपयश; (दे० ना० मा०
 १, १३५) ।
 √उप्पिड— (सं० उत् + पत् > प्रा०
 उप्पिड) कूदना—इ अक्० उच्छल-कूद
 करना; (जंबू० ५, १०, १४) ।
 उप्पित्त्य—वि० (दे०) विधुर, आकुल;
 (दे० ना० मा० १, १८६) ।
 उप्पीलु—पुं० (दे०) १. संघात, संयोग,
 २. उत्पीड़न, दवाना; ‘जहिं मणि सिला-
 यलुप्पीलु फुट्टु’; अर्थात् जहाँ उत्पीड़न
 से शिला-तल फूट चुके थे; (प० च० १३,
 ६, ३) ।
 उप्पुंछिय—वि० (सं० उत्प्रोच्छ्रित >
 प्रा० उप्पुत्तिअ) प्रोच्छ्रित, मसृण, (ऐसा
 गाढ़ा तरल जिसमें चिकनापन और
 लायमत हो), “उप्पुंछियनिद्धजंबु-
 रू” —‘उसकी जंघाएँ स्निग्ध और
 लयनी’; (जंबू० १०, १६, २) ।

√उप्पेक्ख—१. (सं० उत् प्र + ईक्ख् >
 प्रा० उप्पेक्ख) संभावना करना, कल्पना
 करना ।—इ सक० (सुदं० ८, १५, १०) ।
 —मि० सक०, ऊपर देखना; (प० च०) ।
 २. (सं० उप + ईक्ख् > प्रा० उविकक्ख)
 उपेक्षा करना, अन्याय करना । उप्पे-
 क्खण—उपेक्षा करना, “पाविट्ठजीव-
 उप्पेक्खएण”—जो पापी जीवों की
 उपेक्षा करता है; (ण० ४, २, १३) ।
 उप्पेक्खल— वि० (सं० उत्प्रेक्षित)
 संभावित, विकल्पित; (दे० ना० मा०
 १, १०६) ।
 उप्पेत्य— वि० उन्मत्त; (ण० ८, ८,
 २) ।
 उप्पेल्लिप्र—वि० (सं० उत्प्रेरित) जो
 प्रेरित हुए हों; (जस० ३, ३, १३) ।
 उप्पेहड—वि० (दे०) उद्भट, आडंबर-
 वाला; (दे० ना० मा० १, ११६) ।
 √उप्फड—(दे०) हवा में उड़ना; (व०
 ४, २१, २) ।
 उप्फइ—क्रि० (सं० उत्पाट्य > प्रा०
 उपफाल) उठाना, छिटकना; उखाड़ना;
 (की० ४, १८२) । उफरि—पू० का०-
 क्रि० उखाड़ कर; (की० ४, २०८) ।
 √उप्फाल— (सं० आ + स्फालय्
 अथवा उद् + पाटय् > प्रा० उत्फाल)
 उठाना, उखेड़ना । उप्फालिवि—पू०
 का० क्रि० उछाल कर; ‘हत्थे उप्फा-
 लिवि गहइ चंड’, हाथ से उछाल कर
 तीव्रता से ग्रहण कर लेता था; (जस०
 १, ६, ५) ।
 उप्फालण—न० (सं० उत्फालन) उछाल-
 लना, “जुजिभरमयरकरिकहप्फालणतसि-

यतडत्ववाणरा",—उसके जल में जो मकर और हावियों का युद्ध हो रहा है उसके कारण हावियों द्वारा अपनी सूँड़ों से उद्याले हुए जल से तटवर्ती वानर अस्त हो रहे हैं; (जस० ३, १, १५) ।

उष्णकिआ—स्त्री० (दे०) कपड़ा घोने वाली; (दे० ना० मा० १, ११४) ।

उष्णडिअ—वि० (दे०) विद्याया हुआ; (दे० ना० मा० १, ११३) ।

उष्णण—वि० (दे०) आपूर्ण, भरा हुआ, व्याप्त; (दे० ना० मा० १, ६२) ।

उष्णल—वि० (सं० उत्कृलन > प्रा० उष्णल) विकसित; (जस० ४, १७, १३) ।

उष्णोडिअ—क्रि० भू० का० (दे०) सँवारी हुई थी; 'उष्णोडिअदाडिअ-वाम-कह'—उसकी दाही खूब सुंदरता से सँवारी हुई थी; (जंतू १०, १६, ६) ।

√उवल—(सं० उद्वलति) सांस लेना, जीना; 'आंग उवल'—अंगमुद्वलति । वल प्राणने ।" (उ०व्य० प्र०, ४६-७) ।

उव्वरइ—क्रि० वचता था; 'खाणि खेदि खुन्दि घिसि मारइ जीवहु जन्तु न उव्वरइ'—वहीं-वहीं खोद कर खेद कर, खूँद कर और पकड़ कर मनुष्य और पशुओं को मारा जाता था, कोई भी वचता न था, (की० ४, १३३) ।

उव्वस—वि० (दे०) ऊँड़; (परमा०) ।

उव्व्राहुल—पुं० (दे०) उत्कण्ठा; (भ०) ।

उव्व्राहुलिय—वि० (दे०) उत्कण्ठित; (भ०) ।

उव्विद्व—वि० (दे०) १. खिन्न, उद्विग्न; २. शून्य, ३. क्रान्त, ४, प्रकट वेप वाला

५. भीत, डरा हुआ, ६. उद्भट; (दे० ना० मा० १, १२७) ।

उव्विबल—न० (दे०) कल्पे जल, मैला पानी; (दे० ना० मा० १, १११) ।

उव्विबवर—वि (दे०) फीका, खिन्न; (सं० रा०) ।

उव्वूर—वि० (दे०) १. अधिक, २. पुं० समूह; ३. विपमोन्नत प्रदेश; (दे० ना० मा० १, १२६) ।

उव्वंअ—न० (सं० उद्भाण्ड) कुत्सित वचन, गाली; "उव्वंअवयण"—(भ०) ।

उव्वंअत—वि० (सं० उद्भ्रान्त) आकुल, व्याकुल, खिन्न; (दे० ना० मा० १, १४३; जस० ४, १७, १४) ।

√उव्वन—(सं० ऊव्वंय > प्रा० उव्वं) ऊँचा करना ।—इ सक० (सं० ऊव्वं-यति) तुल० प्राचीन म० उमवर्ण; गुं ऊव्वं करवुं; (भ०; प्रा० गुं २, २, २-) ।—हों—क्रि० मा० सजाओ, 'उव्वहों मणि-कव्वण—तोरणई' अथत् मणिस्वर्ग के बन्दनवार सजाओ; (प० च० १६, ३, ६) ।

उव्वनवि—पू० का० क्रि० (सं० उत्+धु) उठाकर; (व० १, १२, १३) । उभारि—पू० का० क्रि०, उभारकर (की० २, १३७) ।

उव्वनउ—वि० (सं० प्रा० उभय) दोनों; (सि० १, ३६) ।

उव्वभड—वि० (सं० उद्भट > प्रा० उव्वभड) १. भयंकर विकराल; (प० च० ४, २, ५) । २. योद्धा, "ते जिणसेणिण मिलिय पंच वि जण तह णिग्गंय उव्वभड", उसी प्रकार पाँचों निग्रन्थ योद्धा

भी आकर सम्मिलित हो गए; (म० २, ५, २) । ३. प्रचण्ड, महान् “पइसरइ दुखभाख्भडउ” — दुःख का महान् भार या पड़ता है; (ण० २, ४, ७) । ४. अत्यंत वेगवान्, फुर्तीला; (जं० ६, ७, ८) ।

उच्चन्ती—वि० १. (सं० उच्चान्ता) आकुल, व्याकुल); (प० च० २६, ५, ७) । २. उच्चमाना (सं० √ उच्च = पीड़ित करना); (प० च० २६, ५, ७) । उच्चम्— वि० (सं० ऊर्ध्वम्) ऊँचा; ऊपर का, ऊपर की ओर किए हुए; (म०) । उच्चा—वि० ऊँचे, “पुवकारहिँ उच्चा कर करेवि”, ऊँचे हाथ करके पुकार मचाने लगे; (क० ५, १५, ६) । उच्चमिय— वि० (सं० उच्च + भ्रमित) उच्चान्त, व्याकुल, भ्रान्तियुक्त, (जस० १, २२, ११) ।

उच्चरिय—भू० का० कृ० (सं० उच्च + भृत = धारण किया हुआ) भरा हुआ, “उच्चरियसुहासुहफलगरलु” — शुभाशुभ कर्मफल रूपी गरल से भरा हुआ है; (जं० ३, ७, १४) ।

उच्चव— पुं० (सं० उच्चव > प्रा० उच्चव) जन्म, उत्पत्ति, उद्गम, मूल (सं० रा०; जस० ३, ५, २) ।

उच्चविभ्र—पुं० (सं० उच्चव) उत्पत्ति, प्रादुर्भाव; (जं० ६, १२, ७) ।

उच्चाम—वि० (दे०) शांत, ठंडा; (दे० १, ६६) ।

उच्चविभ्र—न० (दे०) रमण, संभोग, सुरत, क्रीड़ा; (दे० ना० मा० १, ११७) ।

उच्चसिणि—वि० (सं० उच्च + भासिनी) प्रकाशित करने वाली; (ण० ११, ६, ६) ।

उच्चसिय—वि० (सं० उच्चसित) प्रकाशित; (जं० ८, १३, २) ।

उच्चसुअ—वि० (दे०) शोभा-हीन; (दे० ना० मा० १, ११०) ।

√ उच्चि—(सं० उच्च + घृ) । -वि० पू० का० क्रि०, ऊठा-उठाकर; ‘सरलंगुलिउच्चिबि जपिहिँ’— सरल अंगुलियों को उठा-उठाकर दोलने वाले, (जं० १, ८, १२) ।

उच्चिञ्ज—क्रि० (सं० उच्च + भृ-भरणे to support) धामना, सहारा देना उच्चिञ्जइ— “दोहिँ वि घरहिँ असमु तोरणु उच्चिञ्जइ”, दोनों ही घरों में अनुपम तोरण लगाए गए, (सुदं० ५, ४, ६) ।

उच्चिण्ण— वि० (सं० उच्च + भिन्न > प्रा० उच्चिण्ण, उच्चिन्न) रोमाञ्चित; (प० च० १७, १६, १) । उच्चिन्न; (म०) ।

उच्चिय— वि० (सं० उच्चित > प्रा० उच्चिय) ऊँचा किया हुआ, ऊर्ध्वीकृत; (प० च० १, ७, ८; जं० ७, २, ६; सुदं० ५, ५, ३) ।

उच्चुआण—वि० (दे०) उबलता हुआ; (दे० ना० मा० १, १०५) ।

उच्चुग—वि० (दे०) अस्थिर; (दे० ना० मा० १, १०२) ।

उच्चुव— वि० (सं० ऊर्ध्व + ऊर्ध्व) उत्तरोत्तर, “उच्चुवउ णं जालहिँ जलइ” — उत्तरोत्तर ही ज्वाला से

जलता है; (जस० २, १०, १४) ।

उब्भूय— वि० (सं० उद्भूत) उत्पन्न;
(जस० ४, १७, १४) ।

उब्भूसिउ—क्रि० भू० का० (सं० उद्-
भूषित) शोभायमान हुआ, "उब्भूसिउ
काहें वि तणु विहाइ",— किसी का
भूषा (वस्त्राभूषण विलेपनादि) रहित
शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा था;
(जंबू० ४, १६, १३) ।

उब्भे— अव्य० (सं० उभतस् > प्रा०
उभओ) दोनों ओर; 'उब्भे तोरण-मय-
गल-गुलीउ'— दोनों ओर तोरण बांधे
गए; (सि० २, २५, २) ।

उब्भेइ—क्रि० भू० का० (सं० ऊर्ध्वं >
प्रा० उब्भ; उब्भेउ) उठाई, "दलउ
चप्पिवि वाह उब्भेइ", भाट ने अपने
ओंठ चवाकर वीह ऊपर उठाई; (म०
२, १५, १) । उब्भेवि-पू० का० क्रि० उठा
कर; (प० च० १०, १०, ६) । उब्भेवि-
पू० का० क्रि० उठा कर, "मुक्कधाहमुब्भेवि
करयले, अंसुवाह णिवडंति धरयले"—
वे धाड़ देकर हाथ उठाकर धरातल पर
आंसू बहा रहे थे; (ण० ६, १८, १८) ।
उब्भेय— पुं० (सं० उद्भेद) उद्गम,
उत्पत्ति; (म०) ।

उभउ—वि० (सं० प्रा० उभय) दोनों;
(सि० १, १४) ।

उभय—वि० (सं० प्रा० उभय) युगल,
दो, दोनों, (प० च० ४, ७, १०; सि०
२, २२) ।

उमग— पुं० (सं० उन्मार्ग > प्रा०
उम्मग) कुपथ, उलटा मार्ग; (जंबू० ४,
११, ११; प० च० २१, ७, ८) ।

उमागि—उन्मार्ग; (प्रा० गु० १, ७५) ।

उम्मगे— पुं० उन्मार्ग या कुपथ में
(की० १, ६७) ।

उमत्त—वि० (सं० उन्मत्त) मस्त; (प्रा०
पै० २, ६७) ।

उमा—स्त्री० (सं० प्रा० उमा) गौरी,
पार्वती; (सुदं० ४, ४, ५) ।

उमात— वि० (सं० उन्मत्त > प्रा०
उम्मत्त) उन्मादयुक्त । उमातउ; (रा०
१२) ।

उमालिवि—पू० का० क्रि० भूतकाल के
रूप में प्रयुक्त (सं० √माल्, प्रा० माल
=शोभना, वेष्टित होना) सुसज्जित
किया, 'जिण सरीर कुसुमहि उमालिवि'
जिनेन्द्र के पार्थिव शरीर को पुष्पों से
सुसज्जित किया; (व० १९, ४९, १६) ।

उमुक्क—वि० (सं० उन्मुक्क > प्रा०
उम्मक्क) बंधन रहित, आजाद; (सं०-
रा०) ।

उम्मंड—पुं० (द्वै०) १- हठ; २- वि०
उद्भूत; (द्वै० ना० मा० १, १२४) ।

उम्मगिगम—पुं० (सं० उन्मार्ग + इमन्)
विपन्नगमन; (प० च० ३३, ३, ६) ।

उम्मच्छिअ—वि० (द्वै०) १- हृष्ट;
२- व्याकुल; (द्वै० ना० मा० १,
१३७) ।

उम्मड्डा—स्त्री० (द्वै०) बलात्कार,
जवरदस्ती; (द्वै० ना० मा० १, ६७) ।

उम्मण—वि० (सं० उन्मनस्) उत्कण्ठित,
उत्सुक; (ण० ४, ८, ८) ।

उम्मणदुम्मण—वि० (सं० उन्मनस् >
दुर्मनस् > प्रा० उम्मण + दुम्मण) उत्क-

ण्ठित तथा खिन्नमनस्कः (प० च० १६, १३, १) ।

उम्मत—पुं० (दि०) १- धतूरा, वृक्ष-विशेष; २- एरण्ड, वृक्ष-विशेष; (दि०-ना० मा० १, ८६) ।

उम्मत्य—वि० (दि०) अधोमुख; विपरीत; (दि० ना० मा० १, ६३) ।

उम्मर—पुं० (दि०) देहली द्वार के नीचे की लकड़ी, (दि०-ना० मा० १, ६५) ।

उम्मरिअ—वि० (दि०) उत्खात, उन्मूलित; (दि० ना० मा० १, १००) ।

उम्मल—वि० (दि०) स्त्यान (ढेर किया हुआ, गाढ़ा, कोमल, ध्वनिकारक, स्निग्ध); (दि० ना० मा० १, ६१) ।

उम्मला—स्त्री० (दि०) तृष्णा; (दि०-ना० मा० १, ६४) ।

उम्मल्ल—पुं० (दि०) १- नृप, २- मेघ, ३- बलात्कार, ४, वि० पुण्ड; (दि०-ना० मा० १, १३१) ।

उम्मल्ला—स्त्री० (दि०) तृष्णा; (दि०-ना० मा० १, ६४) ।

√उम्मह—सं० आ + मुच्, त्याग देना, छोड़ देना; —इ “जो घड़ गिसि-भोयणु उम्महइ विमलत्तरु विमल-गोत्तु लहइ” (प० च० ३४, ८, ८) ।

उम्माइय—वि० (सं० उन्मादित) उन्मत किया हुआ; (भ०) ।

उम्माइलु—वि० (सं० उन्मीलित > प्रा० (सं० उम्मित्तिय) खुला हुआ, विकसित; (भ०) ।

उम्माय—पुं० (सं० उन्माद > प्रा० उम्माय) चित्त-विभ्रम, उन्मादन; (म०

२, ५७, २) ।—उ वि० उन्मादित; (सुदं० ८, ७, ७) ।

उम्मायण—(पुं०) (सं० उन्मादन) कामाधीनता, विषय में अत्यंत आसक्ति, कामदेव के तीरों में से एक; (प० च० २७, ३, ६) ।

उम्मालिय—वि० (सं० उन्मालित) सुशोभित; (भ०) ।

उम्माह—पुं० १- (सं० उन्माय > प्रा० उम्माह) विनाश; (म० १, ४, ५) ।

२- पुं० (सं० उत्साह > प्रा० उच्छाह) उत्साह, (सुदं० ४, ३, १) ।

उम्माहय—पुं० (सं० उन्माय) विरहोत्कण्ठा; (प० च० २७, १५, १) ।

वि० १- (सं० उन्मायक) विनाशक; (भ०) । २- व्याकुल, बहु-दिवसें हिं

उम्माहय-जराणु । गिय-साउल पेक्खेवि गमण-मणु’ अर्थात् बहुत दिनों के पश्चात् पिता के लिए व्याकुल अपने साले को जाने के लिए इच्छुक; (प० च० ६, ४, २) ।

उम्माहिय—वि० (सं० उन्मायित) उन्मत, उमाहा हुआ; (सुदं० ११, ६, २०) ।

उम्माहिअ—वि० (दि०) उत्साहित; (जं० १० १६, १२) ।

उम्माहिज्जन्तय—वि० वियोग में आकुलित होना (being made to yearn in separation); (प० च० २४, १, १) ।

उम्माहिय—वि० (सं० उन्मायित) विनाशित; (भ०) ।

उम्माहियञ—वि० (दे०) उत्साहित;
(जंबू० १०, १६, १२) ।

उम्हाविञ—न० (दे०) सुरत, तम्भोग,
मंथुन; (दे० ना० मा० १, ११७) ।

√उम्मिल्ल—(सं० उद्+मोल् > प्रा०
उम्मिल्ल) विकसित होना, खिलना ।

उम्मीलइ—अक० (सं० उम्मीलति)
खोलना; (हे० ३ ५४) । उम्मीलन्त—व०

कृ० विकसित होते हुए, खुनते हुए;
'सलील-तरन्तहूँ उम्मीलन्तहूँ मुह-कम-

लहूँ केइ पधाइय'; अर्थात् 'लीलापूर्वक
तरते हुए और विकसित होते हुए मुल-

कमलों के लिए कितने ही (भीरे) बीड़े';
(प० च० १४, ५, ६) ।

उम्मिल्ल—वि० (सं० उम्मीलित)
उदित; (प० च० ३२, ६, ६) ।

उम्मी—स्त्री० (सं० उमिः) लहर;
(सुदं० २, १२, ६) ।

उम्मीलण—न० (सं० उम्मीलन > प्रा०
उम्मिल्लण) विकास, उत्थास; (जंबू०

५, ०, १७) ।

उम्मीलिय—वि० (सं० उम्मीलित > प्रा०
उम्मिल्लिय, उम्मीलिय) १- विकसित,

२- खुना हुआ; (प० च० ६, ५, ४) ।

उम्मीसिय—वि० (सं० उम्मेपित > प्रा०
उम्मिसिय) विकसित, प्रफुल्ल; (जंबू०

१, ६, ६)

उम्मुच्छिउ—पू० का० क्रि० (सं० उन्मू-
च्छित) मूर्च्छा हटते ही, "उम्मुच्छिउ

धाहावंतु राउ" —मूर्च्छा हटते ही वह
राजकुमार धाड़ मार कर रोने लगा;
(जस० २, २५, ४) ।

च्छित) मूर्च्छित हो गई; (दि० ७,
१२) ।

उम्मुह—वि० १० (सं० उन्मुख > प्रा०
उम्मुह) संमुख, ऊर्ध्व-मुख; (भ०) ।

वि० (दे०) अभिमानी; (दे० १,
६६) ।

उम्मुहय—वि० (सं० उद्+मूह) नष्ट
मोह; (प० च० ४४, ४, ३) ।

√उम्मुन—(सं० उद्+मूल्य) उखे-
ड़ना, मूल से उखाड़ फेंकना । —मि

सक०, व० (जंबू० ६, ४, ११)

उम्मुलित—क्रि० भू० का० (सं० उन्मू-
लित) उखाड़ लिया; (प० च० १३,

४२) । उम्मुलेवि—पू० का० क्रि० मूल
से उखाड़ फेंकते हुए; (प० च० १३, ३,

१०) ।

उम्मुलिय—वि० (सं० उन्मूलित > प्रा०
उम्मुलिय) मूल से उखाड़ा हुआ, (जस०

४, २२, १७) ।

उम्मेदुठय—वि० (सं० उद्+मेणुं =
महावत) हस्तीपक-रहित, महावत-

रहित, निरंकुश, (प० च० ४६, ५,
६) ।

उम्मोहियया—वि० (सं० उन्मोहनिका)
मोहित करने वाली; (ग० ६, ६,

११) ।

उम्मोहिउ—क्रि० भू० का० (सं० उन्मो-
हित) मोह से विरक्त हो गए, 'चार

देवसँई उम्मोहिउजं'; हे देव, बहुत
सुंदर जो आप स्वयं मोह से विरक्त हो
गए; (प० च० २, १०, ४) ।

उम्मोहिय—वि० (सं० उन्मोहित) जो
मोहित हुआ हो, (ग० ६, १६, ७) ।

उयपट्ट

उयपट्ट—पुं० वस्त्र-विशेष; (सधि० ४, ४, ७) ।

उयय—पुं० (सं० उदय) उदय (काल); (ण० १, ८, ८; महा० ६८, ४; सु० ६-८) । उयरु—पुं० (सि० ४, १०) ।

उययाचल—पुं० (सं० उदयाचल) पर्वत-विशेष; (जंबू० १०, १८, १४) ।

उयर—न० (सं० उदर > प्रा० उअर) पेट; (ण० ३, ५, १२) ।

उयहि—पुं० मुनि, आठवें वासुदेव के पूर्वजन्म गुरु; (प० च० २०, १७७) ।

उर—पुं० न० (सं० उरस् > प्रा० उर) वक्षः स्थल, छाती; (ण० २, ३, १७; भ०) । पुं० (सं० पुर) नगर, शहर, (ण० ३, १३, ४) ।

उरअ—पुं० (सं० प्रा० उरग > प्रा० उरअ) १- सर्प, साँप; (जस० २, ३६, ११) । २- मुनि पिगल की उपाधि; (प्रा० पै० २, १६०) । उरय—पुं० (सं० उरग) (प० च० १०, १२, ४) ।

उरगमण—पुं० (सं० प्रा० उरग) उरग, साँप, (प० च० २१, ६, ६) ।

उरभुययर—पुं० (सं० उर + भुज + चर) सर्प या उरग जाति; (जस० ४, १६, ६) ।

उरयल—पुं० (सं० उर + स्तल) १- वक्षः स्थल; (जस० १, ६, ३) । २- हृदयतल; (व० ८, १३, ४) ।

उरयारि—पुं० (सं० उरयारि) उरुड़ (व० ५, ६, ३) ।

उररि—पुं० (दे०) पशु वकरा; (दे० ना० मा० १, ८८) ।

उरस—पुं० (सं० उरस्) छाती, वक्षः स्थल; (प० च० १०, ११, ८) ।

उरसर्प—पुं० (सं० उरसर्प) सर्प का एक प्रकार; (व० १०, ८, १५) ।

उरि—अव्य० (सं० उपरि > प्रा० उपरि, उवरि) ऊपर; (च० २, १०) ।

उरिण—वि० (सं० उरुण) उरुण, ऋण-रहित, ऋण-मुक्त; (सि० १, २६) ।

उरिधाने—पुं० एक प्रकार का चावल; (की० २, २०६) ।

उरु—वि० (सं० प्रा० उरु) विशाल; (जंबू० ८, १६, ८) ।

उरुन्न उरुन्नय—वि० अधिक रोए, हँआमे; (सं० रा०) ।

उरें उरें—अव्य० संवोधन का शब्द, अरे-अरे; तुल० गु० ओरे ओरे; (प० च० १७, १४, २) ।

उल—पुं० न० (सं० प्रा० कुल, प्रा० उल) १- वंश, कुल, जाति, २- कुटुम्ब; (सि० १, २७) । —इं समूह (है० ३५३, १) । —हँ (ण० १, १२, १०) ।

उलट्टो पलट्टो—पुं० का० क्रि० उलट-पुलट कर; 'उलट्टो-पलट्टो कबन्धो पलन्तो' -कबन्धों को उलट-पुलट कर खाते थे; (की० ४, २०३) ।

उलसु—वि० (सं० उल्लसित > प्रा० उल्लसिअ) प्रसन्न; (प्रा० पै० २, २१३) ।

उलित्त—न० (दे०) ऊँचा कुँआ; (दे० ना० मा० १, ८६) ।

उलुउंडिअ—वि० (दे०) विरेचित, दस्त

कराया हुआ; (दे० ना० मा० १, ११६) ।

उलुखंड—पु० (दे०) अधजला काठ या लकड़ी, जलता हुआ काठ या लकड़ी, उल्मुक (अंगारा), लूका जलती हुई लकड़ी); (दे० ना० मा० १, १०७) ।

उलुहंत—पु० (दे०) काक, कौआ; (दे० ना० मा० १, १०६) ।

√उलुह—(सं० √लुट् (लुठ) संश्लेषणे > लुटति; लुठति, (सं० उल्लठति) लुठकना, 'पाणि वरिसे विडवा उलुह'—पानीये वृष्टे त्रिटप उल्लठति । पुट लुट संस्ते (श्ले) पे," (उ० व्य० प्र० ५२-२२) ।

उलुहलिख—वि० (दे०) तृप्ति-रहित, (दे० ना० मा० १, ११७) ।

उलोच—पु० (सं० उल्लोच) वितान या शामियाना, चंदोआ तिरपाल; (ण० ६, २१, ३४) ।

उल्लंघिय—वि० (सं० उल्लङ्घित) लांघा हुआ, अतिक्रमण किया हुआ; (व० १, ६, ६) । उल्लंघिवि—पू० का० क्रि०, उल्लंघ्य (व० २, ७, ७) ।

उल्लट्ट—वि० (दे०) खाली किया हुआ; (दे० मा० ७, ८१) ।

उल्लव—अक० (सं० उत् + लल् > प्रा० उल्लव = चलित होना, चञ्चल होना) ।

—इ १- कांपना "तो उल्लेइ चलइ खलइ तसइ ल्हसइ णीससइ पणासइ । णिसियरव्लु णिवसाहणहो णववहु जेम ससज्भय दीसइ" —तव राजा के सैन्य के समक्ष वह निशाचर की सेना कांपने, चलने, खलित होने, त्रस्त होने, खिस-

कने, श्वासें छोड़ने व भागने लगी, जिस प्रकार की नव वधू मयभीत दिखाई देती है; (सुद० ६, ४, ६) । २- प्रभा फैलना, शोभित होना; "जहिं चंदकंति माणिककदित्ति उल्लइ गयणि" —उस उज्जयिनी नगरी में चन्द्रकान्त और माणिक्य रत्नों की प्रभा आकाश में फैल रही थी; (जस० १, २२, १) । ३- उछलना, "पेल्लइ, दलइ, मलइ, उल्ललइ महाणरु घायवेवियं" —वह महाशूर वीर व्याल अपनी मार से कम्पायमान शत्रुओं को पेलता, दलता, मलता और उछालता था; (ण० ४, १५, १) ।

उल्ललण—न० (सं० उत् + √लल् > प्रा० उल्लल्ल) उछलना-कूदना; "गयगुल्ललवलण परियत्तण लंघियवारिविद्भमो" —आकाश में उछलने-कूदने, परावर्तन करने तथा जल की भौरों को लांघने में वह कुशल हो गया; (जस० ३, २, २) ।

उल्ललिय—क्रि० भू० का० (सं० उल्ललित) विकीर्ण किया, "पवणपेल्लगुल्ललियभप्परं भग्गमाणविक्खित्तप्परं" —वहाँ पवन की प्रेरणा से चित्ताओं की भस्म उड़ रही थी और फूटे-टूटे कपाल इधर-उधर बिखरे दिखाई दे रहे थे; (जस० १, १३, ८) । कृ०—पीटते हुए "उल्ललिय वइल्लु" —बैल को पीटते हुए; (जं० ५, ७, १६) ।

√उल्लव—(सं० उत् + लल् > प्रा० उल्लव) कहना । —इ सक० (भ०) । —वेइ, "उल्लवेइ सिरिगोत्तमु गणहरु"

—श्री गौतम गणधर कहते हैं, (सुदं० २, १, ३) ।

उल्लस—पुं० (सं० प्रा० उल्लास, प्रा० उल्लस) आनंद, हर्ष; (व० ५, १३, ४) ।

√उल्लस—(सं० उद्+लस>प्रा० उल्लस) उल्लसित होना, खुश होना; —इ सक० (ण० १, ७, २) ।

उल्लसिय—वि० (सं० उल्लसित>प्रा० उल्लसिय) हर्षित; (विला०) ।

उल्लाल—पुं० न० (सं० प्रा० उल्लाल) छंद-विशेष; उल्लाला छंद; (प्रा० पं० १, १०५) ।

उल्लालिय—वि० (सं० उन्नमित>प्रा० उल्लालिय) ऊँचा किया हुआ, उठाए हुए; 'किय-अङ्गई उल्लालिय-खग्गई' अर्थात् कवच पहने और खड्ग उठाए हुए; (प० च० २०, ६, १) । वि०—उल्लाला हुआ, लात खाया हुआ; (जंबू ५, ७, २३) ।

√उल्लाव—(सं० उद्+लप्, लापय) १- कहना, बोलना, २- बकवाद करना, ३- बुलवाना, ४- बकवाद करना । —इ सक० (भ०) ।

उल्लाव—पुं० (सं० उल्लाय>प्रा० उल्लाव) १- उक्ति, कथन, २- संभाषण, वार्तालाप; (प० च० १३, ६, ४) ।

उल्लावण—न० (सं० उद्+लापन आलाप, संभाषण; (जंबू० ८, ११, १४) ।

उल्लिचचण—न० (सं० उद्+रिच्>प्रा० उल्लिच=खाली करना) घटी यंत्र, २- रहट, जल उलीचने वाला; (जंबू०

४, ११, ६) ।

उल्लिय—वि० (सं० आद्रित>प्रा० उल्लिय) गीला किया हुआ; (जस० १, ४, ३; जंबू० ६, १५, ११) ।

उल्लियड—क्रि० (सं० आद्रयु>प्रा० उल्ल, उल्लेइ) गीना किया, आद्र किया; (ण० ६, २, ५) ।

√उल्लिह—(सं० उद्+लिख>प्रा० उल्लिह) १- रेखा करना, २- लिखना, ३- खिसना । —इ सक० लिखती है, कुरेदती है; (सं० रा०) ।

उल्ली—स्त्री० (दे०) चूल्हा, अलाव (दे० ना० मा० १, ८७) ।

उल्लुकइ—क्रि० (सं० नि+ली>प्रा० णिलुज, णिलुकु, णिलुकइ) छिप जाना; (प० च० १५, ३, ६) ।

उल्लुट्ट—वि० (दे०) असत्य, मिथ्या; (दे० ना० मा० १, ८६) ।

√उल्लुर—(सं० तुड् का घात्वादेश) तोड़ना । —इ सक० (भ०) ।

उल्लुह—वि० (दे०) छोटा शङ्ख; (दे० ना० मा० १, १०५) ।

उल्लूढ—वि० (दे०) १- आरुढ़-२- अंकुरित; (दे० ना० मा० १, १००) ।

उल्लेव—पुं० (दे०) हास्य; (दे० ना० मा० १; १०२) ।

उल्लेहट्ट—वि० (दे०) लम्पट, लुब्ध; (दे० ना० मा० १, १०४) ।

उल्लोच—पुं० (दे०) चंद्रातप, चाँदनी; (दे० ना० मा० १, ६८) ।

उल्लोल—पुं० (दे०) कोलाहल; (प० च० २४, २, ५) ।

√उल्लोल—(सं० उद् + लुल् > प्रा० उल्लोल, = लेटना) उछलना; 'जं जलु खलइ बलइ उल्लोलइ । रसणा-दामु तं जि णं धोलइ ।' अर्थात् जो जल खल-बल हुआ करता और उछलता है वही रसनादाम की तरह शोभित है, (प० च० १४, ३, ४) ।

√उल्लोल—(दे०) आह भरना; 'मग्गु उल्लोले हिं जाइ णग्ग्िद्वहो' (प० च० २६, ८, २) ।

उल्लोच—पुं० (सं० प्रा० उल्लोच) १- चंद्रातप, चांदनी, २- आच्छादन; (भ०) ।

उल्लोच्य—पुं० (सं० उल्लोच > प्रा० उल्लोच्य) चंद्रातप, चांदनी (वितान मित्यर्थः) (जस० १, १६, १४) ।

√उल्लव—सं० वि + ध्मापय्; ठंडा करना, आग को बुझाना । —इ सक० "अह रिउरुहिरे उल्लवइ अह अण्णणे न भन्ति" —या तो शत्रु के रक्त से उसे ठंडा कर देगा या अपने, इसमें कुछ भी भ्रंति नहीं है; (हे० ४, १६, १) ।

√उल्लस—(सं० उत् + लस्) हुल-सना । उल्लसंत—व० कृ० तुल० राज० हुलसवो; (प्रा० प० १, ७) । उल्लसित-भू० का० उल्लसित हुई, तुल० मगही हुलसइ; (भूसुकुपा, चर्यापद) ।

उल्लसिभ—वि० (दे०) उद्भट, उद्धत; (दे० ना० ना० १, ११६) ।

√उल्लाव—सं० वि० + ध्मापय् > प्रा० उल्लाव बुझ जाना; गु० ओलववु, होल-ववु; —इ क्रि०, व० (प० च० २४, १, ६) ।—मि क्रि०, उ०पु० शांत कर देना;

आग को बुझा देना; 'हउ' पुरगु वरुणु वरुणु फलु दावमि, पइँ वहमुह-दवग्गि उल्लावमि' मैं वरुण हूँ और तुम्हें वरुण फल दूँगा, तुम्हारे दस मुखों की आग को शान्त कर दूँगा', (प० च० २०, ६, ३) । उल्लावियउ-क्रि० भू० का० शांत कर दिया; (प० च० १७, १४, ६) —हि अक०

"आणि जुदागु को वि गलि लावहि संदीवउ वम्महु उल्लावहि," किसी जवान को लाकर गले लगाओ, और संदीप्त मन को बुझाओ; (जंबू० १०, १५, ८) ।

उल्लावयरु—वि० विध्मायक, धौककर प्रज्वलित करने वाला, (सं० रा०) ।

√उवअ—(√सं० उवय्) उवइ-क्रि० व० का० १- प्राप्त होना; "पक्कउ फलु तले निवडियउ विट्टे पुरगु वि जेम नउ लगइ । कम्मु वि निज्जरसाडियउ पुरगु वि न उवइ नाणे जो जगइ । अर्थात् पका फल नीचे गिरकर जिस प्रकार पुनः डंठल में नहीं लगता, उसी प्रकार जो कर्म निर्जरा (संचित कर्म का तप द्वारा निर्जरण या क्षय करना) द्वारा दूर कर दिया गया हो, वह भी व्यक्ति को पुनः प्राप्त नहीं होता जो ज्ञान में अर्थात् जानाराधना में निरंतर जागृक रहता है । (जंबू० ११, ६, १०) । २- (सं० उप + इ > प्रा० अव० अवे) समीप आता है; (की० १, २२) ।

उवइट्ट—वि० (सं० उपदिष्ट > प्रा० उवइट्ट) कथित, जिसे उपदेश दिया गया हो; ज्ञापित, निदिष्ट; (भ०) ।

√उवइस—(सं० उप + दिश् > प्रा० उवइस) उपदेश देना, दिखाना । उवए—

समि—'मपहु न जाणइ सइ उवएसमि', यह नहीं जानती, अतः मैं स्वयं इसकी शिक्षा देता हूँ; (जंबू० १०, १४, ७) ।

उवउज्ज—पुं० (दे०) उपकार; (दे०-ना० मा० १, १०८) ।

उवएइआ—स्त्री० (दे०) शराव परोसने का पात्र; (दे० ना० मा० १, ११८) ।

उवएस—पुं० (सं० उपदेश > प्रा० उव-एस) शिक्षा, सीख, दीक्षा(भ०) । उवएसु, (सु० ८, ८) ।

उवएसिय—वि० (सं० उपदेशित) उप-दिष्ट; (जंबू० ११, २, १०) ।

उवएसु—पुं० (सं० उपदेश > प्रा० उव-एस) शिक्षा, बोध; (व० २, ६, १३) ।

उवओगा—स्त्री० (दे०) दूतपत्नी; (प० च० ३६, ३६) ।

उवकण्ठ—वि० (सं० उपकण्ठ > प्रा० उवकंठ, उवअंठ) समीप का, आसन्न; (भ०) ।

उवकय—वि० (दे०) सज्जित, तैयार; (दे० ना० मा० १, ११६) ।

उवकसिअ—वि० (दे०) संहित २-परिसेवित, ३-सज्जित, ४-उत्पादित; (दे० ना० मा० १, १३८) ।

उवकिइ, उवकिदि—स्त्री० (सं० उप-कृति) उपकार; (दे० ना० मा० ४, ३४) ।

उवगय—वि० (सं० उपगत) प्राप्त, "सुरकीलायाणहो उवगयम्मि,"—देवों के क्रीड़ा स्थान को प्राप्त; (क० ५, ७, २) ।

उवगरण—न० (सं० उपकरण > प्रा० उवगरण) साधन, सामग्री, साधक वस्तु;

(जस० ४, १४, १४) ।

उवगह—पुं० (सं० उपग्रह = कृपा > अनु-ग्रह) उपकार, "उवगह सत्ति हवति सुप-यडइ" —उपकार करने की शक्ति भी उनमें स्पष्ट रूप से रहती है, (व० १०, ३२, ७) ।

उवजाइ—स्त्री० (सं० उपजाति) उप-जाति छंद, छंद-विशेष; (प्रा० पं० २, ११८) ।

उवभाय—पुं० (सं० उपाध्याय > प्रा० उवज्जाय, उवज्जय) अध्यापक, पढ़ाने वाला; २-सूत्राध्यापक जैन मुनि को दी जाती एक पदवी, "नीलवन्न उवभाय सीसापाठतां पच्छिम"; (प्रा० गु० ४०, ६) ।

उवटि—पुं० का० क्रि० (सं० उद्वर्तय > प्रा० उव्वट) चलते-फिरते हुए; (की० २, ६४) ।

उवठवियइ—क्रि० (सं० उप+स्थापय > प्रा० उवठव = उपस्थित करना) सम्पन्न की; "उवठवियइ भोयणभूपणइ —भोजन-भूषण आदि विधियाँ सम्पन्न की; (ण० ५, ८, १७) ।

उवठिडिम—स्त्री० (सं० डिण्डिम > प्रा० डिडिम) डुगडुगी, चमड़ा मड़ा हुआ एक वाजा; (सि० २, २२) ।

उवणिय—वि० (सं० उपनीत > प्रा० उवणीय, उवणिय = समीप में लाया हुआ) लिए हुए; (ण० २, १०, ३) ।

उवणी—क्रि० भू० का० (सं० उप+√जन् > प्रा० उवजा = उत्पन्न होना) उत्पन्न हुई; "सहउयरि उवणी तुज्जु राय," (जस० ४, २६, १८) ।

उवत्यि—स्त्री० सेणापुर की एक स्त्री, स्त्री-विशेष का नाम; (प० च० ३१, ५) ।

उवदाण—न० (सं० उपदान) नजराना, भेंट, (भ०) ।

उवदीव—न० (दे०) द्वीपान्तर, अन्य द्वीप; (दे० ना० मा० १, १०६) ।

उवद्व—पुं० (सं० उपद्रव > प्रा० उवद्व, उवद्व) १- ऊधम, दंगा, २- उत्पात, आकस्मिक बाधा; (भ०) ।

√उवभुञ्ज—(सं० उव + भुञ्ज > प्रा० उवहुञ्ज) उपभोग करना, कार्य में लगना । —इ सक० (जंजू० २, १३, ६) । —हि (जंजू० १०, ५, ५) ।

उवभोग—पुं० (सं० उपभोग > प्रा० उवभोग, उवभोअ । १- किसी के व्यवहार का सुख, २- व्यवहार में लाना; (भ०) ।

उवम—स्त्री० (सं० उपमा) समरूपता, समता, साम्य; (सं० रा०) । — (उवमा) उपमा; (जस० ४, १४, २) ।

उवमच्चु—पुं० पुरोहित; (प० च० ३१, २१) ।

उवमिअइ—क्रि० (सं० उपमीयते) उपमा देना; (हे० ४१८) । उवमिउजइ क्रि० उपमा देना (व० २, १६, ३) ।

उवयंठएस—पुं० (सं० उपकंठदेश) समीप प्रदेश; (जस०) ।

उवय—पुं० १, (सं० प्रा० उदय) उन्नति, उत्पत्ति (भ०) । २- (सं० उदक > प्रा० उदग, उदय) जल, (भ० १६, ४, ५) । —आगउ (सं० उदयागत)

“उदयागउ भावसरुवें,” उदयागत भाव (कर्मों) के अनुसार; (जंजू० ६, १, १८) ।

उवयद्दि—पुं० (सं० उदयाद्रि) उदयाचल, पर्वत-विशेष, जहाँ सूर्य उदित होता है; (व० १, ५, ४) ।

उवरंभा—स्त्री० त्रिधाधर नलकुव्वर की स्त्री०; (प० च०प १, ५७) ।

√उवयर—(सं० उप + कृ > प्रा० उवयर, उवयरेइ = उपकार करना) —इ सक० वचना—“छर्ते छायाउ कि उवयरइ” —क्या छत्र से आच्छादित होकर मृत्यु से बच सकता है; (ण० ६, ४, २) ।

उवयरियउ—क्रि० भू० का० उतर पड़ा; (ण० ५, २, २) ।

उवयायल—पुं० (सं० उदयाचल > प्रा० उदयायल) उदयाचल, पर्वत-विशेष; (व० ६, ८, ८) व्यावहारिक लोकोक्ति—“उवयायल-कडिणि परिट्टि ओवि रवि परियरियइ तेएँण तोवि” —उदयाचल की तलहटी में स्थित रहने पर भी रवि क्या तेज से घिरा हुआ नहीं रहता? (व० ६, ८, ८) ।

उवयार—पुं० १- (सं० उपकार > प्रा० उवयार) भलाई, हित; (प० च० १२, ११, ४) । २- (सं० उपचार > प्रा० उवयार) चिकित्सा, शुश्रूषा; (भ०) ।

उवयारि—वि० (सं० उपकारिन् > प्रा० उवयारि) उपकारक; (ण० ५, ३, १) । अ- वि० (सं० उपकारिन्) (जस० ४, ३०, ४) ।

उवयासिउ—सक०, भू० का० (प्रा०

अवयास = आलिंगन करना) आलिंगन किया; "राहव चन्दे पुगु उवयासिड;" (प० च० ३५, २, ६) ।

उवर—पुं० (सं० उदरम्) पेट; (सं० रा०; प० च० १३, ४, ५; प्रा० गु० ५, ६) । अव्य० (सं० उपरि > प्रा० उवरि) ऊपर, ऊर्ध्व; (जंजू० ७, ३, ३६) ।

उवरल—वि० (सं० उपरि+ल) उद्वृत्त, वृद्धि को प्राप्त, जोड़ वाला, "उवरल-अंक लेखि कह आणहु" —जोड़ के अंक को लिखकर लायी; (प्रा० पं० १, ३६) ।

उवराड—पुं० कोढ़ का एक भेद; (सि० १, १०) ।

उवरी—अव्य० (सं० उरि > प्रा० उवरि) ऊपर, उर्ध्व; (प० च० १७, ८, १०) । उवरि; (प० २, १, ५; सं० रा०; भ०; प० च० २, २, ६, सु० ८, ६) ।

उवरिस—वि० (सं० उपरिम) ऊपर का, ऊर्ध्व-स्थित; (जंजू० ११, १२, १) ।

उवरित्त—वि० (सं० उपरि+इल्ल (पठायथे) ऊपर का; (जंजू० ११, १२, ६) ।

उवरिल्लिय—वि० (सं० उपरि+तन > प्रा० उवरि+ल) ऊर्ध्व स्थित, ऊपर की; 'उवरिल्लियए' विमालए भिडडि-करा लए हेडिम विट्ट परज्जिय'. अर्थात् भौहों से विकराल ऊपर की विशाल दृष्टि से नीचे की दृष्टि पराजित हो गयी; (प० च० ४, ६, ६) ।

उवरोह—पुं० (सं० उवरोध > प्रा० उवरोह) अड़चन, बाधा; (जस० ४, २६, ६; भ०) ।

उवरोहिड—पुं० (सं० पुरोहित > प्रा० पुरोहिड) पुरोहित, "अहं तहिं अरिय तानु रायहो हिड कविलभट्टु णामे उवरोहिड" —उसी नगर में कपिल भट्ट नाम के राजा का प्रिय पुरोहित रहता था; (सुदं० ११, ५, ६) ।

उवल—पुं० (सं० उपल > प्रा० उवल) पापाण; (प० ३, १६, १) ।

उवलंम—पुं० (सं० उपलम्म > प्रा० उवलंम) १- उपलब्धि, प्राप्ति; (जंजू० ८, ७, १३) । २- उपालम्भ, (जंजू० २, १६, ६) ।

√उवलंम—(सं० उप+लभ्) उलाहना देना । —इ सक०; (जंजू० ६, १३, ७) ।

√उवलक्ख—(सं० उप+लक्ष्य > प्रा० उपलक्ख) जानना, पहिचाना । —इ, सक० (सं० उपलक्षयति > प्रा० उवलक्खेइ) गु० ओल्लखवुं; (भ०; प्रा० गु० २, ४, २६) । उवलक्खहिं—उपलक्षित की हैं; (व० १०, ४, ४) । उवलक्खिय—इं—क्रि० भू० का०, अवलोकन किया (जस० १, २४, ७) । —क्खि, पू०-का० क्रि० (जंजू० १०, ८, ८) ।

उवलक्खण—न० (सं० उपलक्षण > प्रा० उवलक्खण) पहिचान; (भ०) ।

उवलक्खिय—वि० (सं० उपलक्षित > प्रा० उवलक्खिय) लक्ष्य किया हुआ, संकेत से बताया हुआ; (भ०) ।

उवलग्ग—वि० (सं० उपलग्न) लगा हुआ; (भ०) ।

उवलट्ट—वि० (सं० उपलट्ट > प्रा० उवलट्ट) प्राप्त; (जंजू० ६, १७, १५) ।

उबलद्विय—क्रि० भू० का० (सं० उपल-
व्व > प्रा० उबलद्व) प्राप्त की, “उबल-
द्विय बहुविहकयमहिमा,” नाना प्रकार
की महिमा से युक्त एक जिन प्रतिमा
प्राप्त की; (क० ५, ६, २) ।

उबलभत्ता, उबलयभग्ना—स्त्री० (दे०)
वलय, कंगन; (दे० ना० मा० १,
१२०) ।

उबललय—न० (दे०) नुरत, मंथुन;
(दे० ना० मा० १, ११७) ।

उबलवण—न० (सं० उपवन > प्रा० उव-
वण) वगीचा; (ण० १, १३, ६) ।

उबवण—(सं० उपपन्न) उत्पन्न;
(जंबू०) ।

उबवयारु—पुं० (सं० उपप्रदान = राज-
स्व, रिश्वत, प्रा० उव + पदान) दाम,
'कि सामु भेद कि उबवयारु, कि दण्डु
ऽदुडिभय-परिपमारु' अर्थात् क्या
साम, दाम और भेद ? क्या दण्ड जिसका
परिणाम अज्ञात है ? (प० च० १६, ५,
४) ।

उबवस—पुं० (सं० उपवास > प्रा० उव-
वास) उपवास, अनाहार; (प० च० ३०,
१०, ६) ।

उबवसिड—वि० (सं० उपवासित) उप-
वास किये हुए; (जंबू० २, १५, ७) ।

उबवाय—पुं० (सं० उपाय > प्रा०
उवाय), हेतु, साधन उपाय; (संघि १६,
५, १३) । २- पुं० (सं० उपपाद), जन्म,
जीवों की उत्पत्ति, “तिविहु जम्मु
भासिड जिगुराए, गढ्मुववाय समुच्छण
भेए” —जिनराज से गर्भ, उपपाद और
सम्पूच्छन के भेद से तीन प्रकार के जन्म

वताए हैं। टि०—पोतज, जरायुज और
अण्डज नामक जीवों का गर्भ जन्म होता
है। देवों और नारकियों का उपपाद
जन्म होता है। शेष जीवों का सम्पूच्छन
जन्म होता है; (व० १० १२, ४) ।

उबवास—पुं० न० (सं० उपवास) उप-
वास, अनाहार; तुल० म० उपास; (ण०
६, १७, ३३; (भ०) ।

उबवासिय—वि० (सं० उपवासित)
उपवास किया हुआ; (भ०) ।

उबविट्ठ—वि० (सं० उपविष्ट > प्रा०
उवविट्ठ) बैठा हुआ; (ण० २, १२,
७) ।

उबविस—अक० (सं० उप + विश्)
बैठना। उबविट्ठु—भू० का० बैठ गया;
(द्विला०) । उबविसंत—हृ० (सं० उप +
विश् + शतृ) (जंबू० ५, १, २१) ।
उबविसिवि—पू० का० क्रि०, बैठ कर;
(द्विला०) ।

उबसंतु—पुं० (सं० उपशान्त) उपशांत
(मोह) (गुणस्थान); (व० १०, ३६,
६) ।

√उबसप्प—(सं० उप + √सृप) समीप
में जाना। उबसप्पिवि—पू० का० क्रि०
पास आकर; (द्विला०) ।

√उबसंधर—(सं० उपसं + हृ) उपसं-
हार करना। —इ सक० (सं० उपसंह-
रति) (भ०) ।

उबसंत—वि० (सं० उपशान्त > प्रा०
उवसंत) क्रोधादि— विकाररहित;
(भ०) ।

उबसग—वि० (दे०) मंद, आलसी;
(दे० ना० मा० १, ११३) ।

उवसग्गु—पुं० (सं० उवसग्गं > प्रा० उवसग्गु = उपद्रव, बाधा) विघ्न; “उवसग्गु वि हवंतु पासिज्जइ”; विघ्न के उत्पन्न होते ही उसका विनाश निश्चित है, (प० ३, ३, १०) । २- पुं० उवसग्गं (व्याकरण संबंधी); (व० ६, १, १४) । उवसप्पिणि—वि० (सं० उपसर्पिन्) समीप में जाने वाला; (म०) । स्त्री० (सं० उत्सर्पिणी) कालचक्र, “भरहेराव-एनु उवसप्पिणि विहि मि पवत्तइ तह अवसप्पिणि,” —मरत और ऐरावत दोनों क्षेत्रों में काल के उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी आरों का प्रवर्तन होता है; (जंठू० ११, ११, ७) ।

उवसम—पुं० (सं० उवजम > प्रा० उवसम) १- इन्द्रिय-निग्रह, निवृत्ति, शांति क्रोध का अभाव; (म०) । मूढित—“उवसम विणयहिं पयणिय पणयहिं । झूट्टिउ पुरिसो विगयामरिसो” —अर्थात् उपशम एवं विनय द्वारा प्रकटित प्रेम से झूषित पुरुष क्रोध-रहित हो जाता है, (व० ४, १३, १-२) ।

√उवसम—(सं० उप+शमय्) क्रोध रहित होना, शांत होना; (जंठू० २, १८, ४) । उवसमिउ—द्व० का० व्रत लिया “महद्वयइं को वि को अगुवयइं, को वि सिक्खावयइं गुणव्वयइं” । को वि दिहु सम्मत्तु लएवि धिउ, पर रावग्गु एककु ण उवसमिउ, अर्थात् कोई महाव्रत और कोई अगुव्रत । कोई शिखाव्रत और गुणव्रत । कोई दृढ़ सम्यकत्व लेता हुआ देखा गया, परन्तु रावण ने एक भी व्रत नहीं लिया; (प० ३०० १८, १, ६) ।

उवसन्तमण—पुं० (सं० उपशम+मनस्) उपशान्तमन, मन में क्रोध का अभाव होना; (जंठू० ३, ६, १५) ।

उवसल—सिरी—स्त्री० (सं० उपशम+श्री) उपशमश्री, शांति के प्राचुर्य या लालित्य; (व० २, १०, १७) ।

उवसमहृद—वि० (सं० उपशम+धर) उपशमधारी, क्रोध-रहित; (प० ६, १५, ११) ।

उवसनिव—वि० (सं० उपशमित) उपसम-प्राप्त, शांति-प्राप्त; (म०) ।

उवसामण—न० (सं० उपशमन > प्रा० उवसामण) उपशांति, उपशम; (जंठू० ८, १०, १४) ।

उवसामिग्र—वि० (सं० उपशमित) शांत किया हुआ उपसामिउ-भू० का०, उपशांत हो गया; (जंठू० ६, ५, ११) ।

√उवसाव—(सं० उप+शाय्, +शामय् > प्रा० उवसाम) क्रोध रहित होना, शांत होना । —मि (जंठू० २, ८, १०);

उवसाहिअ—वि० (सं० उपसावित > प्रा० उवसाहिय) तैयार किया हुआ; (क० ५, २, ७) ।

उवसे—पुं० (सं० उवदेय > प्रा० उव-एस) उवदेय, शिक्षा, बोध; (सि० १-४३) ।

उवसेर—वि० (दे०) रति-योग्य; (दे० ना० मा० १, १०४) ।

उवसेवय—वि० (सं० उपसेवक) सेवा करने वाला; (म०) ।

उवसेवियं—वि० (सं० उप+सेवित) सेवित; (रि० १, १२) ।

उवसोवणि—पू० का० क्रि० मोहित कर; “सव्वज्जणहो” उवसोवणि देप्पिण्णु,” (प० च० २, २, ७) ।

उवसोः—स्त्री० (स० उपशोभा > प्रा० उवसाहा) शोभा; (भ०) ।

उवसोहिय—वि० (सं० उपशोभित > प्रा० उवसोभिय, उवसोहिय) सुशोभित; (भ०) ।

√उव्हस—(सं० उप+हस) उपहास करना, हँसी करना । —इ सक० (सं० उपहनति); (भ०) ।

उव्हसिउ—वि० (सं० उपहसित > प्रा० उव्हसिअ) जिसका उपहास किया गया हो वह, उपहास करने योग्य; (जं० १०, ३, ११) । उव्हसिय; (क० ६, ४, १) ।

उव्हण—न० (सं० उपधान = धार्मिक अनुष्ठान) तप-विशेष; (सधि० १६, १, १) ।

उव्हणइ—न० (सं० उपाख्यान) उपदेशात्मक दृष्टांत; “जाणामि हउ उव्हणइ कि तुहं चवहि बहुत्तु,” —मं भी उपाख्यान जानती हूं । तू क्या बहुत बतलाती है; (सुदं० ८, ६, ३) ।

उव्हणय—न० (सं० उपधान > प्रा० उव्हण) तंक्रिया; (प० च० २४, १, १०) ।

उव्हसइ—सक० (सं० उपहसति) उपहास करना, (भ०) ।

उव्हसण—पुं० (सं० उपहासन) उपहास करने वाला; (जं० ११, १, १०) ।

उवहि—पुं० (सं० उदधि > प्रा० उवहि)

समुद्र, सागर, (ण० १; ५, २; जं० ४, १६, १३; सि० २, ५; प० च० २, १०, ५; १३, २, ६) ।

उवहुंजिय—वि० (सं० उपभुञ्जित) उपभुक्त; (जं० ४, ६, १२) ।

उवाअ—पुं० (सं० उपाय > प्रा० उवाय) हेतु, साधन; (म० २, १६, ५) । उवाउ—पुं० (व० ३, १३, ५) । उवाय—पुं० उपाय (ण० ६, १७, २०) ।

उवाइउ—न० (सं० उप+याच् > प्रा० उवाय = मनौती करना; सं० उपयाचित प्रा० उवयाइय = मनौती) मनौती, किसी किसी काम के पूरा होने पर देवता को विशेष आराधना करने का मानसिक संकल्प, “उवाइउ किज्जइ घरि जि घरे”; (रि० १, ८) ।

उवास—पुं० न० (सं० उपवास > प्रा० उववास) उपवास, अनाहार; (प्रा० गु० ३७, १) ।

उवाहि—पुं० स्त्री० (सं० उपाधि) कर्म-जनित विशेषण, “नीसेसनिरत्तयोवाहि सहइ जंगमेण अजंगमु जेम वहइ,” प्रत्येक शरीरी जीव सर्वथा अनात्मस्वरूप कर्म-जनित शरीर से सुख-दुःखात्मक उपाधि को उसी प्रकार सहन करता है, जिस प्रकार जंगम (सजीव) वलीवर्दादिक प्राणी अजंगम (निर्जीव) शकटादि वस्तु को ढोता है; (जं० २, १, ७) ।

उर्विद—पुं० (सं० उपेन्द्र) विष्णु; (जस० १, ६, २०) । उर्विदु—पुं० नारायण, (व० ३, २६, १) ।

उर्विदवज्जा—स्त्री० (सं० उपेन्द्रवज्जा > प्रा० उर्विदवज्जा) ग्यारह अक्षरों के पाद

वाला एक छंद; (प्रा० पं० १, ११६) ।
उविउ—न० (दे०) शीघ्र, जल्दी; (दे०
ना० मा० १, ८६) ।

उविदु—क्रि० भू० का० (सं० उप+√
विद्=वैठना) वैठे; (महा० ६८, ८,
१) ।

√उविड—(सं०√विल भेदने to bre-
ak, वेलयति; सं० उद्विलति) तोड़ना
'गोरू उवेल'—गोरूपाण्युद्वेलयति ।
'उविड'—उद्विलति । विल भेदने ।
(उ० व्य० प्र० ५२-१५) ।

उविय—वि० (सं० उपेत > प्रा० उवेय)
सहित, युक्त; (म०) ।

√उविस—(सं०√विश्व प्रवेशने, सं०
उद्विशाति) प्रवेश करना; 'खांत उविस'-
खाद्यमानमुद्विशाति । विश्व प्रवेशने ।
(उ० व्य० प्र० ५२-५) ।

उवेउ—पुं० (सं० उद्वेग) १. क्षोभ,
उत्तेजना, २. कांपना, हिलना; (सं०-
रा०) ।

उवेल—सक० (सं०√विल भेदने to
break, वेलयति, सं० उद्वेलयति)
तोड़ना; (उ० व्य० प्र० ५२-१५) ।

उवेस—पुं० (सं० उद्देश) नाम-निर्देश-
पूर्वक वस्तु-निरूपण; (रा० २७) ।

उवोवरणदुद—पुं० नाटकों के उपकरण
(वस्त्र, मुकुट आदि); (ण० ६, २१) ।

उव्व—क्रि० वि० (सं० पूर्व) पहले;
(सं० रा०) ।

√उव्वग्ग—(सं० उप+वल्गु > प्रा०
ओवग्ग, उव्वग्ग) आक्रमण करना ।—इ

सक० (सं० उद्वलगति) (भ०) ।

उव्वदुद—वि० (दे०) १. रोग-रहित,
२. गलित; (दे० ना० मा० १,
१२६) ।

√उव्वड—(सं० उत्+पत् > प्रा०
उप्पड) कूटना, ऊँचा जाना; उड़ना;
—इ अक० "उव्वडइ भिडइ पाडइ तुर-
डुग महि कमइ भमइ भामइ रहडुग"
(प० च० २६, ६, ५) ।

√उव्वम—सक० (सं० उद+वम् >
प्रा० उव्वम) उलटी करना, "णं मेडुणि
भीएँ उव्वमेइ"—मानों मेदिनी भय से
वमन करने लगी; (क० ४, १४, ४) ।

उव्वर—पुं० (दे०) धर्म, ताप; (दे०
ना० मा० १, ८७) ।

√उव्वर—सं० उद+वृ > प्रा० उव्वर
=शेष रहना, वच जाना —इ अक०
वचना, "मरणदिणे उव्वरइ" मरने से
वचना; (महा० ६६, ६, २; ण० ६, ४,
३) । उव्वरहि—वचने; (म० १, २६,
४) । उव्वरिया—भू० का० अवशिष्ट रहे-

वच गए. (प० च० ५, ११, ३) ।

शरण में रख लिया । उव्वरेमि—अक०
उवर जाना; "सुहदंसणु चितइ उ वरेमि

अभया चितइ सुंदर धरेमि—सुदर्शन
सोचता, मैं उवर जाऊँ या वच जाऊँ;

अभया सोचती, इस सुंदर को पकड़
रखूँ, (सुदं ८, ३१, ३) । उव्वरिउ—क्रि०

भू० का० उवर गया. निकल गया, "जइ
कहमवि उव्वरिउ हउ," (सुदं ८,
२४, १७) ।

उव्वरिअ—वि० (दे०) अधिक, वचा

हुआ, अवशिष्ट; (दे० ना० मा० १, १३२) ।

उच्चरिआ—वि० (सं० उद्भूत > प्रा० उच्चरिआ) वाम भाग 'सरित् सरिसा पति, उच्चरिआ गुरुलहु देहु' समान पंक्ति में उद्भूत (वाम भाग) में क्रमशः गुरु लघु देना चाहिए; (प्रा० पै० १, १४) ।

उच्चरिय—वि० (दे०) अवशेष, "उच्चरियपुण्यदेवीरणु" देवी के प्रति भक्ति का पुण्य अवशेष है; (जस० ४, २०, ६) । —य अवशिष्ट; (प० च० ४०, ३, १०) ।

√उच्चल—(सं० उद्+वल) पीछे लौटना । उच्चलंत—कृ० (उद्+वल शतृ); (जंबू० ४, २१, ११) ।

उच्चसि—स्त्री० (सं० उचंशी > प्रा० उच्चसी) एक अप्सरा; (प० ५, ६, ३) ।

वि० (सं० उद्रस > प्रा० उच्चस) उजाड़; (क० =, ११, =) ।

उच्चसी—स्त्री० उचंशी नामक छंद; "सहइ छंदो इमो उच्चसी भासिओ"; (सुदं० ७, ७, १०) । २. रावण की स्त्री; (प० च० ७४, =) ।

√उच्चह—(सं० उप+वह) धारण करना, उठाना । —इ सक० उद्वेलित होना, 'जाणमि करि खन्वारहणु अञ्चन्तु होइ भय-भानुरउ । पवर पहत्य मज्जु मणहो', उच्चहइ पवत्तु णाई सुरउ', अर्थात् मैं जानता हूँ कि हाथी के कंधे पर चढ़ना अत्यन्त खतरनाक होता है, फिर भी हे प्रहस्त ! मेरा मन नए सुरति-भाव से उद्वेलित हो रहा है ;"

(प० च० ११, ५, ६) । उच्चहन्ति—क्रि० व० उठाना, 'किह वाणर, गिरिवर उच्चहन्ति,' अर्थात् वानर पहाड़ उठा सकते हैं ? (प० च० १, १०, ६) ।

उच्चहण—न० (सं० उद्वहन > प्रा० उच्चहण) १. धारण, २. उत्थापन (भ०) । ३. महान् आवेश; (दे० ना० मा० १, ११०) ।

उच्चा—स्त्री० (दे०) धर्म, ताप; (दे० ना० मा० १, ८७) ।

उच्चाअ, उच्चाइअ—वि० (दे०) खिन्न, परिश्रान्त; (दे० ना० मा० १, १०२) । उच्चाउल—प० (दे०) १. गीत, २. उपवन; (दे० ना० मा० १, १३४) ।

उच्चाह—वि० (दे०) १. विस्तीर्ण, विशाल; २. दुःख रहित; (दे० ना० मा० १, १२६) ।

√उच्चार—(सं० उद्+वर्तय) त्याग करना, छोड़ देना । उच्चारिज्जइ—सक० (सं० उद्वार्यते) छोड़ देना; (हे० ४३८, १) ।

√उ+च्चास—(उद्+वासय्) दूर करना, देश निकाला देना, उद्वासित करना । —इ सक० (प्रा० पै० १, १४४) ।

उच्चाह—पुं० (दे०) धर्म, ताप; (दे० ना० मा० १, ८७) ।

उच्चाहिप्र—वि० (दे०) फेंका हुआ; (दे० ना० मा० १, १०६) ।

उच्चाहल—न० (दे०) १. उत्सुकता, उत्कण्ठा । २. वि० अप्रीतिकर; (दे० ना० मा० १, १३६) ।

उच्चैःशब्दादियत्—वि० (दे०) उत्सुक, उत्क-
ण्ठित; (भ०) ।

उच्चैःशब्दादियत्—वि० (सं० उच्चैःशब्दादियत्+इर)
उच्चैःशब्दादियत्, विद्वान्; "उच्चैःशब्दादियत् सो णिउ"
मुण्ड अंगु-विद्वान् होकर अपने अंग को
ऐसे छटपटाने लगे; (मुदं० २, १४,
६) ।

उच्चैःशब्दादियत्—वि० (दे०) १, अधिक
प्रमाण वाला; २. मर्यादा-रहित, निर्लज्ज;
उच्चैःशब्दादियत् अधिक प्रमाणो विमुक्तमर्यादा-
श्चेति द्वयर्थः;" (दे० ना० मा० १,
१३४) ।

उच्चैःशब्दादियत्—वि० (सं० उच्चैःशब्दादियत्>प्रा०
उच्चैःशब्दादियत्) संतप्त, पीड़ित, शोकग्रस्त,
चितित; (सं० रा०) ।

√उच्चैःशब्दादियत्—(सं० उच्च+वेल्) चलना,
कांपना, फैलना, पसरना । -इ फैलना,
पसरना; (भ०) । उच्चैःशब्दादियत्-क्रि० व०
वृत्त्य करना, वृत्त्य की तरह तेजी से
चलना; (प० च० ३४, ३, ८) उच्चैः-
शब्दादियत्-पू० का० क्रि० घूमने के लिए;
(प० च० ६, २, ४) ।

उच्चैःशब्दादियत्—भू० का० प्रारम्भ किया,
'केहि मि उच्चैःशब्दादियत् भरहुत्तउ,' किसी ने
भरत नाट्य प्रारम्भ किया; (प० च० २,
४, ५) ।

उच्चैःशब्दादियत्—वि० (दे०) उच्चैःशब्दादियत्;
"हुओ उच्चैःशब्दादियत् तामु पियाउ" (मुदं०
११, १, १७) ।

उच्चैःशब्दादियत्—वि० (दे०) लौटा हुआ; (दे०
ना० मा० १, १००) ।

उच्चैःशब्दादियत्—पुं० (दे०) विदारण, चूर्णन;
(प० च० ४७, ४, ५) ।

उच्चैःशब्दादियत्—वि० १. (सं० उच्चैःशब्दादियत्, उच्चैःशब्दादियत्
=इह) उद्भट, प्रवल (दे० ना० मा०
१२३) । २. (दे०) उच्चैःशब्दादियत्, उत्सिक्त
(अभिम.नी, क्रोधी, चंचल, विकल);
(दे० ना० मा० १२३) ।

उच्चैःशब्दादियत्—वि० कामोच्चैःशब्दादियत्; (जं० ६,
३, ६) ।

उच्चैःशब्दादियत्—वि० (सं० उच्चैःशब्दादियत्+इर)
उच्चैःशब्दादियत्, खिन्न, "उच्चैःशब्दादियत् उच्चैःशब्दादियत्
धावइ" —कोई उच्चैःशब्दादियत् होकर उच्चैःशब्दादियत् से
भागा; (जं० ६, १, १०) ।

उच्चैःशब्दादियत्—क्रि० (सं० उपैति>प्रा० उच्चैःशब्दादियत्,
उच्चैःशब्दादियत्; उच्चैःशब्दादियत्=निकट आना, प्राप्त होना)
पास आना; (की० ३, ४०) ।

उच्चैःशब्दादियत्—पुं० (सं० उच्चैःशब्दादियत्>प्रा० उच्चैःशब्दादियत्)
ननोवेग, चित्त की व्याकुलता; (की० ३,
५३) ।

उच्चैःशब्दादियत्—वि० (सं० उच्चैःशब्दादियत्) उच्चैःशब्दादियत्,
"संसारहो उच्चैःशब्दादियत्" संसार से उच्चैःशब्दादियत्
हो गया है; (जं० २, १६, १०) ।

उच्चैःशब्दादियत्—वि० (सं० उच्चैःशब्दादियत्>
उच्चैःशब्दादियत्) जिसकी उच्चैःशब्दादियत् की गई हो,
तिरस्कृत; (प० च० २६, २, ४) ।

उच्चैःशब्दादियत्—वि० (सं० उच्चैःशब्दादियत्>प्रा०
उच्चैःशब्दादियत्) उच्चैःशब्दादियत्, बंधन रहित किया
हुआ; (प० च० १८, १०, ४) ।

√उच्चैःशब्दादियत्—(√सं० उच्च+वेष्ट)
१. बाँधना, २. पृथक् करना, बंधन-मुक्त
करना । उच्चैःशब्दादियत्-सक०भू० का०>
बन्धन मुक्त किया, 'रणउच्चैःशब्दादियत् पइसन्तो
वइरि वहन्तो रावणु उच्चैःशब्दादियत्' अर्थात्
युद्धमुख में प्रवेश कर, दुश्मनों को खदेड़

कर रावण को मुक्त किया, (प० च० २०, ७, ६) । उब्बेहिवि-पू० का० क्रि० लपेट कर, बाँध कर, (ण० ३, १७, १०) ।

उब्बेहाविय—वि० (सं० उद्वेष्टित) बंधन-मुक्त किया हुआ (freed from siege); (प० च० २१, ७, ४) ।

उब्बेहिय—वि० (सं० उद्वेष्टित) १. बंधन-रहित किया हुआ, २. परिवेष्टित; (दे० ना० मा० ४, ४६) ।

उब्बेत्ताल—न० (दे०) निरंतर रोदन; (दे० ना० मा० १, १०१) ।

उब्बेलरं—न० (दे०) १. ऊपर भूमि, २. जघन (कटि देश, नितंब) स्थानीय केश "उब्बेलरं खिलभूमी जघनरोमाणि च;" (दे० ना० मा० १, १३६) ।

उब्बेल्लिय—वि० (सं० उद्वेल्लित > प्रा० उब्बेल्लिय) उद्वेलित; "तह खिल्लहिं किल्लिउ णउ उब्बेल्लियगयकुमरु"—उसी प्रकार गजकुमार खीलों से काले जाने पर भी उद्वेलित नहीं हुआ; (सुदं ११, ६, १०) ।

उब्बेव—पुं० (सं० उद्वेग > प्रा० उब्बेव) १. चित्त की आकुलता, २. मनोवेग; (भ०) ।

उब्बेविरु—वि० (सं० उद्+वेप्+इर) कांपता हुआ, "उब्बेविरु हिडइ महिहे दीणु" —(वह) कांपता हुआ हीन भाव से पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा; (क० ५, १५, २) । २. वि० (सं० उद्विग्न > प्रा० उब्बिग, उब्बिगिर) उद्विग्न, उद्वेग करने वाला; (सुदं ४, ३, ७) ।

उसणसेण—पुं० (दे०) बलभद्र; (दे०

ना० मा० १, ११८) ।

उसभ—पुं० प्रथम तीर्थंकर; (प० च० १, ३५) ।

उससंतिया—वि० (सं० उत्+श्वस्) उसांति लेती हुई; (सं० रा०) ।

√उत्सस—(सं० उत्+श्वस् > प्रा० उत्सस) उच्छ्वास लेना, सांस लेना ।

उसइ—अक० "....उसइ करहओ." करभ श्वांस लेने लगा, (सुदं ६, ३, ६) ।

उसह—न० (सं० औषघ > प्रा० ओसह) औषघ, दवाई, भैंसज; (क० ६, १०, १२) । पुं० घायईसंड अरिजयपुर का राजा; (प० च० ५, १०६) । —तेण पुं० उसह—जिन के गणघर; (प० च० ४, ३५) ।

उसार—न० (दे०) कमल-दण्ड, विस; (दे० ना० मा० १, ६४) ।

उसास—स्त्री० (सं० उच्छ्वास > प्रा० उस्सास) श्वास; सांस अन्दर खींचना, सांस बाहर निकालना; (सं० रा०) ।

उसिणीस—पुं० (सं० उष्णीष) फेंटा, साफा, पगड़ी, मुकुट, पहचान का चिह्न (प्रा० गु० १३, १३) ।

उसीसइ—पुं० (सं० उच्छीर्यकम्) सिर; "विहि विद्धाता वसइ उसीसइ," तुल० गु० उशीसुं; (प्रा० गु० ५, ३४) ।

उसुभ—पुं० (दे०) दोष; (दे० ना० मा० १, ८६) ।

उसुर—पुं० (सं० उत्सुर) सायंकाल संव्या; तुल० गु० असुर; (प्रा० गु० १६, १४) ।

√उत्सस—(सं० उत्+श्वस्) उच्छ्वास लेना, ऊँचा श्वास लेना । उससंतिया—

उससंतिया—

उसासि लेती हुई; (सं० रा०) । उसस्से-
पुं० (सं० उच्छ्वास); (की० ४,
२०५) ।

उस्सा—स्त्री० (सं० उस्सा > प्रा० उस्सा)
गैया, गौ; (दे० ना० मा० १, ८६) ।

उस्से-निस्से—पुं० (सं० उच्छ्वास-
निश्वास) श्वास-प्रश्वास; (की० ४,
२०५) ।

उहय—वि० (सं० उभय > प्रा० उहय)
दोनों; (प० च० ४, ११, ६; ए० ७,
६, १४) ।—मई वि० (सं० उभयमति)
दोनों प्रकार की प्रतिभा से संपन्न (काव्य-
रचना व व्याख्या करने की); (जंजू० १,
२, १०) ।

उहर—पुं० जलचर-विशेष, सुसुयार;
(प० च० १, २, २; ३, ५, ६) ।

उहु—अव्य० (सं० प्रा० अही) 'हे'
सम्बोधक शब्द; (प० च० ७, ३, ५) ।
संकेतवाचक सर्व०—वह (प० च० २६,
१२, ६) ।

ऊ

ऊ—पुं० (सं० प्रा० ऊ) अपभ्रंश वर्ण-
माला का षष्ठ स्वर-वर्ण; जिसका
उच्चारण ओष्ठ से होता है ।

ऊंचउ—वि० (सं० उच्च) ऊंचा; (रा०
१२) ।

ऊंप्ति—स्त्री० (सं० उत्पत्ति) जन्म;
(की० ३, ११०) ।

ऊंमगे—स्त्री० (दे०) जोश; उमंग, चित्त
का उभाड़, (की० ४, १७७) ।

ऊआ—स्त्री० (दे०) यूका, जू; (दे० ना०-
मा० १, १३६) ।

ऊआस—पुं० न० (सं० उपवास > प्रा०
उववास) अनाहार, वह व्रत जिसमें भोजन
छोड़ दिया जाता है; (प्रा० गु० ६, ६) ।

ऊखल—पुं० न० (सं० उदूखल > प्रा०
उऊखल, उऊहल) उलुखल, ओखली;
तुल० गु० उखळ; (संघि० ११, ६,
६) ।

ऊगट—पुं० (सं० उद्वर्तन) उवटन; तुल०
गु० ऊकटो; (प्रा० गु० २२, १०) ।

ऊजल—वि० (सं० उज्ज्वल) निर्मल,
स्वच्छ; (रा० ८) ।

ऊणदिअ—वि० (दे०) आनन्दित,
हर्षित; (दे० ना० मा० १, १४१) ।

ऊण—वि० (सं० ऊन) न्यून; हीन;
(प० च०) ।—वीसइम वि० (सं० ऊन-
विशतितम) उन्नीसवाँ; (प० च०) ।

ऊणय—वि० (दे०) उत्सुक; (प० च०
४५, १०, १०) ।

ऊणुरायउ—क्रि० भू० का०, अनुरक्त
हुआ; (ह०) ।

√ऊतर— (सं० अव + तृ > प्रा०
उत्तर) उतरना, उतरना । ऊतरिअउ,
“सोइर वानाहं सबहं ऊतररिअउ”
(उसके वर्ण से) भव वर्णों का सौंदर्य
उतर गया है, (रा० ३१) ।

ऊपर—अव्य० (सं० उपरि > प्रा०
उप्परि, उवरि) ऊपर; (रा० २१) ।

ऊपरि; (रा० २६) ।

ऊबाहुल—वि० (दे०) उत्कण्ठित; (प्रा०
गु० २३, ३८) ।

ऊभव—वि० (सं० ऊर्ध्व > प्रा० उद्ध)

उठा हुआ, ऊँचा; खड़ा हुआ; तुल० गु० उभो; (प्रा० गु० १२, ३१) ।

ऊमाहउ—पुं० (दे०) उत्कण्ठा; (प्रा० गु० २३, १६) ।

ऊमाही—वि० (दे०) उत्कण्ठिता, "प्रिय-ऊमाही गङ्ग गिरिनारि"; (प्रा० गु० २३, ३६) ।

ऊमितिभ—न० (दे०) दोनों पाश्वर्कों में आघात करना; (दे० ना० मा० १, १४२) ।

ऊम्माहियउं—क्रि० भू० का० (सं० उत्कण्ठितः) उत्कण्ठित हुआ; (प्रा० गु० १०, ५३) ।

ऊरं—पुं० न० (सं० उरस् > प्रा० उर) छाती, वक्षःस्थल "किं तुरएँ ऊरं ढंकि-एण," —और वह तुरंग कैसा, जिसका उरस्थल ढका हुआ हो, (सुदं० ११, ६, ८) ।

ऊर—पुं० न० (सं० ऊरस् > प्रा० उर) उरस्थल, छाती; (की० ४, ३२) ।

२. पुं० (दे०) १. ग्राम, २. संघ, समूह; (दे० ना० मा० १, १४३) ।

ऊरणी—स्त्री० (दे०) मेघ, भेड़; (दे० ना० मा० १, १४०) ।

ऊर पूर—वि० पूर्ण रूप से भरा हुआ; (की० ४, ३३) ।

ऊरय—वि० (सं० पूरक) पूति करने वाला; (भ०) ।

ऊरिण—वि० (सं० उक्कण) ऋण-मुक्त; (प्रा० गु० ५, ४३) ।

ऊरिया—वि० स्त्री० (सं० पूरित) भरी हुई, पूरिता; (जंजू) ।

ऊरीकय—वि० (सं० अंगीकृत) अंगीकृत;

(संघि० १८, ३, ४) ।

ऊर—पुं० (सं० प्रा० ऊर) जंघा, जाँघ; (चं० २, १०) । वि० (सं० पूर्ण) पूर्ण; (भ०) । —व पुं० (सं० ऊर); (प० च० ५५, १, १५) ।

ऊन—पुं० (दे०) गति-भंग; (दे० ना० मा० १, १३६) ।

ऊवडीय—क्रि० भू० का० (सं० उत्प-नित) उतर पड़े, "तहों उवरि खणद्धे" ऊवडीय" क्षणाद्ध" में वे उस पर्वत के ऊपर उतर पड़े; (क० ५, ४, ७) ।

ऊवें—पुं० (सं० उष्मन्) गर्मी, गर्मिहट, ग्रीष्म ऋतु; (उ० व्य० प्र० ५१-१६) ।

ऊस—स्त्री० (सं० अवश्याय > प्रा० उस्सा, ओसा) ओस; (म० १, १४, ८) ।

ऊसण—न० (दे०) गति-भंग; (दे० ना० मा० १, १३६) ।

ऊसत्थ—पुं० (दे०) १. जम्माई, २. वि० आकुल; (दे० ना० मा० १, १४३) ।

√ऊसर—(सं० +उत् +सृ) १. खिस-कना, २. दूर होना; ३. त्यागना ! —इ अक० (सं० उत्सरति > प्रा० ऊसरइ) (भ०) । ऊसरि—क्रि० आ० (सं० अपसर = हटना) हट जाओ; "जइ वीहेहि मयण तो ऊसरि," —यदि डर लगता है तो हे मदन ! यहाँ से हट जाओ; (म० २, २२, ८) ।

ऊसर—न० (सं० ऊपर) ऊपर भूमि, वह भूमि जिसमें रेह अधिक हो और कुछ न पैदा होता हो; (जस० १, १६, २) ।

—छेत्त न० (न० ऊपरखेत्र > प्रा० ऊसर+छेत्) धार-भूमि, जिसमें बीज नहीं पैदा होता हो; (सुदं० ६, ८, ९) ।

ऊसल—वि० (दे०) पीन, पुष्ट; (दे०-ना० मा० १, १४०) ।

ऊसविल—वि० (दे०) १. ऊँचा किया हुआ; २. उद्भ्रान्त; (दे० ना० मा० १, १४३) ।

√ऊसस—(सं० उद्+इवस्) उच्छ्वास लेना, ऊँचा श्वास लेना । —इ (व० ६, ६, ४) । ऊससेइ—क्रि०, व०, श्वास ले पाना, “तहो भीए को वि ण ऊससेइ,” उसके भय से कोई श्वास भी नहीं ले पाता; (क० २, ११, २) ।

ऊसह—न० (सं० औपय > प्रा० ओसह) दवाई, भौपज; (क० ६, २३, ५) ।

ऊसाअंत—वि० (दे०) खेद होने पर शिथिल; (दे० ना० मा० १, १४१) ।

ऊसाइअ—वि० (दे०) विकसित, २. उद्विष्ट; (दे० ना० मा० १, १४१) ।

√ऊसार—(सं० उद्+सारय्) हटाना, दूर करना, त्यागना । —इ, सक० (सं० उत्सारयति) (भ०) ।

ऊसार—पुं० १. (सं० उत्सार) परि-त्याग; (भ०) । २. पुं० (दे०) गर्त-विशेष; (दे० ना० मा० १, १४०) ।

ऊसारिअ—वि० (सं० अपसारित) दूर किया हुआ; (भ०) ।

ऊसारिय—वि० (सं० अपसारित) दूर किया हुआ, दूर-दूर हटाया हुआ; (जं० ७, ७, १२) ।

ऊसास—पुं० (सं० उच्छ्वास > प्रा० ऊसास) लंबी सांस, ऊपर को चढ़ती हुई श्वास; (भ०) ।

ऊसिय—वि० (सं० उत्सुक > प्रा० उत्सुअ) उत्सुक, उत्कण्ठित; (प्रा० गु० १४, २७) ।

ऊसुभिअ—न० (दे०) रोदन-विशेष, गला बँठ जाय ऐसा रुदन, (दे० ना० मा० १, १४२) ।

ऊसुसुभिअ—(दे०) देखो ऊसुभिअ; (दे० ना० मा० १, १४२) ।

ऊहट्ठ—वि० (दे०) उपहसित; (दे०-ना० मा० १, १४०) ।

ऊहण्ण—न० (सं० उहन) मोल-भाव, तर्क-वितर्क; “किउ ऊहण्ण ते सहुँ टक्क-एण” —उस टक्क (पंजाब देशवासी) के साथ मोल-भाव किया; (क० ८, १६, २) ।

ऊहसिय—वि० (सं० उपहसित) जिसका उपहास किया गया हो वह; (दे० ना०-मा० १, १४०) ।

ऋ

ऋ—(सं० ऋ) —संस्कृत या नागरी वर्णमाला का स्वर । इसका उच्चारण-स्थान मूर्द्धा है । वैदिक और लौकिक संस्कृत में इसका स्वरूप प्रयोग हुआ । इसका उच्चारण प्राकृतों में समाप्त हो गया । अपभ्रंश में प्राकृतों की अपेक्षा कुछ अधिक प्रयोग मिलते हैं । हेमचंद्र ने तरुण और वृणु, सुकिडु और सुक्रुडु, ग्रहणइ, घृण आदि में ऋकार रखा है ।

कीतिलता में 'ऋण, शृंगार, शृंगाटक' और 'उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण' में 'ऋतु' का प्रयोग उपलब्ध है। वस्तुतः अपभ्रंश में 'ऋ' का अ, इ, उ, ए, अर, रि में वगं-विकार हो गया है। आजकल लोग इसके वास्तविक उच्चारण को भूल गए हैं और 'रि' की तरह उच्चारण करते हैं।

ऋतु—पुं० (सं० ऋतु) मौसम; (उ० व्य० प्र०, १५-२४)।

ऋण—न० (सं० ऋण > प्रा० रिण)

ऋण, कर्ज; (की० २, ६६)।

ए

ए—पुं० (सं० प्रा० ए) स्वर-वर्ण-विशेष। इसका उच्चारण स्थान कण्ठ और तालु है।

एंह—सर्व० (सं० एपाम्) उनको; (उ० व्य० प्र० १६-३०)।

एरंडु—पुं० (सं० एरण्ड > प्रा० एरंड)

एरण्ड का वृक्ष, वृक्ष-विशेष; सुभाषित—“कल्पतरु तोड़ि एरंड से बव्वए” अर्थात् ‘कल्पवृक्ष को तोड़कर एरंड को बोता है;’ (भावना संधि प्रकरण)।

ए—१. सर्व० (सं० एतत् > प्रा० एज)

यह; (प्रा० पं० २, ११; उ० व्य० प्र० १६-१८)। २. अव्य० (सं० प्रा० ए)

आह्वान सूचक अव्यय, “सुसाहण जो देइ ए मच्चलोए” (म० १२, ३, १८)।

३. अव्य० (सं० एव) ही। सोए (रा० २४)। ४. एअं-सर्व० यह; (प्रा० पं० २, ६६)। ५. एअ-सर्व० यह (क० १,

११, ५)। ६. एउं-सर्व० (सं० एतत्) यह; (भ०)। —जि (सं० एतदेव) यह ही, (भ०)। ७. एउ-सर्व० (सं० एतत्) यह; ‘एउ ण जाणहुँ कहिँ गउ सन्दराणु’ अर्थात् यह भी पता नहीं लगा कि रथ कहाँ गया; (प० च० १७, ७, २; रा० २६; प्रा० पं० २, १०)। ‘एउ नाम जं मुणिणा लइयउ,’ (जं० २, १३, ७)।

ए—सक० (सं० आ+इ) आना, आगमन करना।

एइ—क्रि० व० (सं० आयाति, सं० आ+इ > प्रा० ए, एह; भ० का०—एहिइ)

आना; “णवजौव्वराणु णासइ एइ जरा,”

नए यौवन का नाश होता है और बुढ़ापा आता है, (ण० २, ४, ५, हे० ४०६)।

एज्ज—क्रि० आना; (प० च० ३७, १३, ३)।

एंत—व० कृ० (सं० आ+इ > +शतृ > प्रा० ए, एंत=आना, आगमन

करना) आते हुए; (ण० ६, ३, ७, जस० ३, २२, १)। एन्तउ—कृ० आते हुए;

(प० च० ८, ६, ७)। एन्तु—भू० का०, आता, (हे० ३५१, १)।

एअरह—वि० (सं० एकादशन् > प्रा० एआरह) ग्यारह; (प्रा० पं० १, ८६)।

एआईसेहि—वि० (सं० एकविंशति) इस्कीस; तुल० राज० अक्कीस, इक्कीस, (प्रा० पं०)।

एआरह, एआरहहि, एआरहि—वि० संख्यावाचक (सं० एकादशन्) ग्यारह;

(प्रा० पं०)।

एङ्दिय—वि० (सं० एकेन्द्रिय एक)

एक इन्द्रिय वाले जीव; (वं० १०, ५, ६)।

एइ—सर्व० (सं० एते) ये, (हे०, ३३०, ३)।

एऊर्णविसा—वि० (सं० एकोनविंशत्) उन्नीस; (प्रा० पै० २, १८६)।

एए—सर्व० (सं० एतत् > प्रा० एअ) यह; (ण० १, १७, ४)। (सं० एते)

ये; (जं० १, १८, १०)। -ण वि० (सं० एतेन) अकेला; (जं० ५, ५, ७)।

एक—वि० (सं० एक > प्रा० एक) (की० १, ३६; भ०)। एकु—वि० एक

(रा० २८)। एकक, एकका, एककइ, एककउ, एकके, एकक, एककं; सविभक्ति-

करूप एकके, एककेके, एककेण; (प्रा०-पै०)।—चूड पु० विद्याधर, वंशीय

राजा; (प० च० ५, ४५)।

एककके रंगे—पु० (सं० एकैक + रङ्ग) एक के साथ एक का युद्ध, तुमुल युद्ध; (की० ४, १७८)।

एकचोई—पु० एक चोव पर खड़ा होने वाला तम्बू, (की० ४, १२०)।

एकट्ट—क्रि० वि० (सं० एकत्र) एकट्ठा, एक जगह; (म० २, २४, ३)।

एकस्य—वि० (सं० एकस्य) एक साथ; (की० १, ६४)।

एकलडइ—वि० (सं० एकल + डह (प्र०) एकाकिन्, अकेला; तुल० गु० एकलडे;

(संघि० १३, ५, २)। एकलडउ-वि० एकाकी; (प्रा० गु० १, ३८)।

एकल्ल—वि० (सं० एकिकन् > प्रा० एक-लिय) अकेला, तुल० म० एकला; (क० ७, १०, १०; भ०) एककल्लिय-एका-

किनी (भ०)। एकल्लु; (सि० २, १४)।

एकवीसती—वि० (सं० एकविंशतिः) इक्कीस; (प्रा० पै० १, १८७)।

एकहा—वि० (सं० एकषः) एक-एक; (की० ४, ८८)।

एकै—वि० (सं० एकमेव) एक ही; (उ० व्य० प्र० ३७, ३०)।

एककंग—वि० (सं० एकाङ्ग) अकेला; (भ०)। न० (दे०) चंदन, सुगन्धि

काष्ठ-विशेष; (दे० ना० मा० १, ४४)।

एककंत—पु० (सं० एकल > प्रा० एककंत) निर्जन स्थान; तहिँ अंधकूअ

एककंति ठीउ, "वहाँ एकांत में एक अंधकूप था; (क० ७, ४, ४)।

एककंतर—वि० (सं० एकान्तर) एक का अंतर देकर पड़ने या होने वाला; एक के

वाद होने वाला; (भ०; क० ५, १०, २; जं० ३, ६, १२)।

एकक—वि० (सं० एक > प्रा० एकक) एक, प्रथम संख्या (ण० १, १४, ६)।

—इ वि० (सं० एकाकिन्) अकेला; (भ०)।—सि अव्य० (सं० एकषस् >

प्रा० एककसि) एक बार; (सुदं० ७, १३, ८)।—णउय वि० (सं० एकनवत)

९१ वां; (प० च०)।—सीय वि० (सं० एकाशीत) ८१ वां (प० च०)।

ोत्तरसय वि० (सं० एककोत्तरतम) १०१ वां (प० च०)। ली०—'एकके-हृत्

ताल कि वज्जइ'—एक हाथ से ताल नहीं वजती; (सु० च०)। एककु-वि० एक (हे० ४२२, १; सि० १, २२)।

एकक—वि० (दे०) प्रेम-तत्पर; (दे० ना० मा० १, १४४) ।

एककइया—अव्य० (सं० एकदा) एक वार; (जस० ४, ३०, ३) ।

एककई—वि० (सं० एकाकिन्) एकाकी, अकेला; (भ०) ।

एककओ—वि० (सं० एक+अपि > प्रा० एकक+अवि) एक भी; (की० ३, ११८) ।

एककखंधु—पुं० (सं० एक+स्कन्ध) खंड, विभाग, प्रदेश; "णहि ठिउ एककखंधु तिल्लोककु वि चउदहरज्जुमाणओ"—यह ब्रूलोक तो आकाश में चौदह रज्जु प्रमाण एक स्कंध के समान स्थित है । टि०—इस समस्त लोक को एक महास्कंध कहा जाता है; उसके अर्धभाग को जिनेन्द्र देश कहते हैं, और आधे के भी आधे भाग को प्रदेश कहते हैं; (जस० ४, १२, २) ।

एककखुर—वि० (सं० एकक्षुर) एक खुर वाला पशु; (सींग वाले चौपायों के पैर का निचला भाग जो बीच में से फटा होता है); (जवू० ४, १६, ७) ।

एककघरित्तल—पुं० (दे०) देवर, पति का छोटा भाई; (दे० ना० मा० १, १४६) ।

एककचित्त—पुं० (सं० एक+चित्त) एकाग्र चित्त; एककचित्त जइ सेविअइ धुअ होसइ परकार' (की० ३, ६२) ।

एककठाण—पुं० (सं० एक+स्थान) एक स्थान; (जस० ३, ३०, १६) ।

एककत्त—क्रि० वि० (सं० एकत्र) एक-ट्ठा, एक जगह; (जवू० ११, १२,

८) ।

एककत्तहे—अव्य० (सं० एकतः) १. एक ओर से, एक ओर, २. एक एक करके; (प० च० १८, ४, ३) ।

एककत्थ—वि० (सं० एकस्थ) एकत्र; (की० १, ५०) । वि० (सं० एकस्थ) एक व्यक्ति या स्थान पर केंद्रित, एकत्र; (जवू० १०, १०, १३) ।

एककन्त—वि० (सं० एकान्त > प्रा० एककंत) एकांत; निर्जन; (भ०) ।

एककवीसती—वि० (सं० एकविंशत्) इक्कीस; (प्रा० पै०) । एअवीसत्ता, एआईसेहि; (प्रा० पै०) ।

एककमण—वि० (सं० एक+मनस् > प्रा० एककमण, एगमण) एकाग्रचित्त, तल्लीन, एकाग्रमन; (प० च० १२, १२, ६) ।

एककमित्त—वि० (सं० एकमात्रम्) एक ही, केवल एक, अकेला; "एककमित्तएहि कस्स दिज्जए सुविब्भमम्," (भ०) ।

एककमुह—वि० (दे०) १. धर्म-रहित, २. दरिद्र, ३. प्रिय, इष्ट; (दे० ना०-मा० १, १४८) ।

एककमेकक—वि० (सं० एकमेक > प्रा० एककेककम) १. परस्पर, अन्योन्य; तुल० पु० एकमेक; (प० च० १७, १४, १; जवू० १, ६, २) । २. वि० प्रत्येक एकैक; (जस० ३, २, २०) ।

एकक-यल—स्त्री० एक-कला, (प० च० १४, ११, ६) ।

एककया—अव्य० (सं० एकदा) एक वार; (व० ३, ६, ४) ।

एककरयणि—स्त्री० (सं० एक+अरति)

एक अरत्ति प्रमाण, मीमांसा शास्त्र के अनुसार एक माप । विशेष-इससे प्राचीन काल में यज्ञ की वेदि आदि मापी जाती थी । यह माप कुहनी से कनिष्ठा के सिरे तक होती है; (व० १०, २०, ६) ।

एककल्ल—वि० अकेला; (जंजू० ५, ८, १७) । —उ अकेला; (जंजू० ६, १०, १६) । —वीर वि० अकेला बहादुर जिसकी कोई सहायता न कर रहा हो; तुल० गु० एकलवीर; (प० च० ५५, ७, ५) ।

एककल्लय—वि० (सं० एकल > प्रा० एककल्ल) अकेला, एकाकी; तुल० गु० एकलु, एकली; (प० च० १७, १४, १) ।

एककवयकण्ण—पुं० (सं० एक + पद + कण्ण) एक चरण व एक कान वाली जाति; (जंजू० ६, १६, ६) ।

एककवार—अय० (सं० एकवार > प्रा० एककवार, एगवार) एक वार या समय; तुल० गु० एकवार; (प० च० १८, ८, ६; भ०) ।

एककवीसम—वि० (सं० एकविंशतिम्) इक्कीस, बीस से एक अधिक; (ण० ८, ८, ६) ।

एककसाहिल—वि० (दे०) एक स्थान में रहने वाला; (दे० ना० मा० १, १४६) ।

एककसिवत्ती—स्त्री० (दे०) शाल्मली पुष्पों और नूतन फलों से युक्त; (दे० ना० मा० १, १४६) ।

एककसि—वि० (सं० एकशः) एक एक करके, अकेले; (प० च० २, १४, १) ।

अव्य० (सं० एकदा) एक वार; (जंजू०

२, १५, १४) ।

एक्का—वि० (सं० एक > प्रा० एक्क) एक; (की० ३, २५) । —णञ्य वि० (सं० एकनवत्) ६१ वां; (प० च०) । —सीय वि० (सं० एकाशीत) = १ वां (प० च०) ।

एक्कासिय—वि० (सं० एकाश्रित) एक-पक्षीय; (सुद० ५, १, ११) ।

एक्कूणासी—वि० (सं० एकोननवति) नवासी; (महा०) ।

एक्केक्क—वि० (सं० एकैक > प्रा० एक्कक्क) हर एक, प्रत्येक; (प० च० १७, १४, १) । —म वि० परस्पर, अन्योन्य; (दे० ना० मा० १, १४५) ।

एक्केक्कमेक्क—वि० (दे०) परस्पर; (जंजू० ६, ४, ६) ।

एक्को—वि० (सं० एक > प्रा० एक्क) एक; (जंजू० ५, १; सि० २, १०) ।

एक्कोयरु—पुं० (सं० एकोदर) एक उदर से उत्पन्न, सहोदर; (रि० ७, ६) । एक्कोदर; (प० च० ३१, १, ३) ।

एग—वि० (सं० एक > प्रा० एग) एक; (सं० रा०) । —कण्ण पुं० राजा-विशेष

का नाम, लंपाग देश का राजा; (प० च० ६८, ५६) । —चूड पुं० (सं० एक-चूड) विद्याधर वंश का एक राजा; (प० च०)

च०) । —ट्ठं अव्य० (सं० एकत्र) एक स्थान में; (प० च०) । —पन्नास

वि० (सं० एकपञ्चाशत्) पचास और एक । —पन्नासइम त्रि० (सं० एक

-पञ्चाशतम्) ५१ वां; (प० च०) ।

—वीसइम वि० (सं० एकविंशतितम्) ।

इक्कीसवाँ; (प० च०) । —ऋट् वि० (सं० एकषट्) ६१ वाँ; (प० च०) ।
 —सत्तर वि० (सं० एकसप्तत) ७१ वाँ; (प० च०) । —दसुत्तरस्य वि० (सं० एकादशोत्तरशततम) १११ वाँ; (प० च०) । एगुणवालीस-वि० (सं० एकोन-चत्वारिंशत्) उनचालीस । एगुणवीस-वि० (सं० एकोनविंशति) उन्नीस ।
 एगारह एगारहि, एगारह, एगाराहा—वि० (सं० एकादशन् > प्रा० एकरह) ग्यारह; तुल० राज० ग्यारा, गु० अग्यार, (प्रा० पै० १, २१) ।
 एगुणचत्ताल—वि० (सं० एकचत्वारिंश) उनचालीसवाँ, (प० च०) ।
 एगुणविंश—वि० (सं० अपगुण-विंशति (पिशेल का प्राकृत व्याकरण, ४४४) । उन्नीस ।
 एण—सर्व० (सं० एतेन) इत्के द्वारा; (जं० २, ४, ५) ।
 एगुवासिञ्ज—पु० (दि०) मेंढक; (दि० ना० मा० १, १४७) ।
 एहि—अव्य० (सं० इदानीन् > प्रा० एहिं) अघुना, संप्रति; (सुदं० ११, १८, २) ।
 एतै—वि० (सं० इयता) इतना; (उ०-व्य० प्र० २३-१६) ।
 एत्त—वि० (सं० इयत्) इतना; (प०-च० ३०, ५, २) ।
 एत्तडय—वि० (सं० एतावत्) इतना; (प०-च० १०, १०, ८; जं० ७, ७, ५) । एत्तडिय; (प० च० ३०, ८, ७) ।
 एत्तहि—अव्य० (सं० इत्स्) १. इधर;

(सुदं० ७, ४, ८) । २. (सं० एतावति) इत्, “एत्तहि महुमानहो बागमणु (भ० ८, ८, २) । ३. यहाँ; (म० २, २, १) । एत्तहिं—अव्य० (सं० इत्स्) यहाँ से; (जं० ३, १०, ४) । २. इधर; (जं० ४, ३, १) ।
 एत्तहे—अव्य० (सं० अत्र > प्रा० इत्तहे, एत्तहे) इधर; यहाँ पर, (सुदं० ८, ३, १०) । एत्तहे (प० च० ७, ११, ३; हे० ४३६, १) ।
 एत्ता—वि० (सं० एतावत् > अप० एत्तए > अव० एत्ता) इतना; (की० ३, १२६) ।
 एत्तिअ—वि० (सं० इयत्, एतावत्) इतना; (जं० ८, ६, ४; क० ४, १७, ७; जस०) ।
 एत्तिड—अव्य० (सं० इयत्) इतना; (हे०, ३४१) ।
 एत्तिय—वि० (सं० इयत् एतावत्) १. इतना; तुल० म० इत्कै; (प० च० ७, ६, २) । २. इत्, (प० च० १२, ७, २) ।
 एत्तिँ—अव्य० अद्, इत्त समय, इत्त विषय नै, अभी, अब भी; (प० च० १०, १, ७) ।
 एत्तुल—वि० (सं० एतावत् > प्रा० एत्तिल) इतना; (हे० प्रा० ४, ४०८) ।
 एत्ते—वि० (सं० एतावत्) इतने; (की० १, ४५) ।
 एत्तोअ—अव्य० (दि०) यहाँ से लेकर; (दि० ना० मा० १, १४४) ।
 एत्यन्तरि—अव्य० (सं० अत्रान्तरे) इत्त बीच में; (भ०) ।

एत्यंतर—अव्य० (सं० अत्रान्तर) इसी वीच; (जं० २, ५, ११) । एत्यंतरि; (विला०; व० ३, १६, १) ।

एत्य—अव्य० (सं० अत्र > प्रा० एत्य) यहाँ, यहाँ पर; (जस० ३, १५, ५) । एत्यि-अव्य० यहाँ; (प्रा० पै० २, १४४) । एत्यु; (ण० १, १३, ३, जस० १, ११, ७) । —त्यि (सं० अत्र + अस्ति); (क० १, ३, ५) ।

एत्यु—अव्य० (सं० अत्र > प्रा० एत्य) यहाँ; (प० च० १६, ८, ८) ।

एथु—अव्य० (सं० अत्र > प्रा० एथ) यहाँ; यहाँ पर (रा० १५) ।

एथ्यंतर—क्रि० वि० (सं० अत्र > अप० एत्य, अव० एथ्य + सं० अन्तर > प्रा० अंतर) इसके वाद; (की० ३, ४७) । इस वीच में; (की० ३, ४५) ।

एमं—अव्य० (सं० एवं > अप० एमं) ऐसा; (की० ४, २५२) ।

एम—अव्य० (सं० एवम् > प्रा० एम) १, इस तरह, ऐसा; (ण० १, ३, १२) ।

२. इस प्रकार “एम भणह मुणह छप्पअ प अ ” इस प्रकार छप्पय में छः चरणों को समझो; (प्रा० पै० १, १०५); “एम पेत्खिअ दूर दारपोल” —इस प्रकार राजद्वार दूर से दिखाई पड़ता था, (की० २, २४८) । —इं अव्य० (सं० एवमेव) ऐसा ही; (जं० २, १८, १६) ।

—हि अव्य० इस समय, अब; (भ०; जं० ८, १०, ७) ।

एमिणिआ—स्त्री० (दे०) वह स्त्री, जिसके शरीर को, किसी देश की प्रथा के अनुसार, सूत के धागे से माप कर, उस

धागे को फेंक दिया जाता है; (दे० ना० मा० १, १४५) ।

एमेव—अव्य० (सं० एवमेव > प्रा० एमेव, एमेअ) इसी तरह, इसी प्रकार; (भ०) ।

एम्बइ—अव्य० (भं० एवमेव) इसी तरह, इस प्रकार; (हे० ४२०) । टि०-सं० एवमेव को अपभ्रंश में एम्बइ आदेश होता है। एम्बहि—अव्य० (सं० इदानीम् को एम्बहि आदेश होता है) इस समय; (हे० ४२०, २) ।

एयं—सर्व० (सं० एतद्) यह; (जं० ४, १८, ४) । एय—सर्व० यह; (सं० रा०) ।

एयंतनअ—पुं० (सं० एकान्त + नय) सांख्यमत, “अह एयंतनएण अवद्धउ, अच्छउ परएँ जीउ सुविसुद्धउ” एकांतनय (सांख्यमत) से जीव अवद्ध है और पूर्णतः विशुद्ध रहता है; (जं० १०, ५, १) ।

एय—(सं० एक > प्रा० एकक) एक; (भ०) ।

एयच्चकक—पुं० (सं० एकचक) नगर-विशेष; (सुदं० ६, ३, ८) ।

एयमण—पुं० (सं० एकमनस्) एकाग्र मन; (क० ५, २, १०) ।

एयहो—सर्व० (सं० एतस्य) इसी की, “एयहो पियहो विणयगुणधामहो” (जं० ४, १, ८) ।

एयाउ—सर्व (सं० एताः, स्त्रीविग प्रथम पुरुष, व० व०) ये; (जं० ४, १२, ७) ।

एयारसंग—पुं० (सं० एकादश + अङ्ग) न्यारह अंग, “अह सवणसंघसंजुउ पवरु

एयारसंगघरु विज्जुचरु । विहरंतु तभेण विराइयच्च पुरि ताम लिच्छि संपाइयड ।” इसके अनंतर ग्यारह अंगों के धारी, एवं तप से सुशोभित श्रेष्ठ विद्युच्चर महामुनि विहार करते हुए अपने श्रमसंघ सहित ताम्रलिप्ति नामक नगर में आए; (जंबू० १०, २४, १३) ।

एयारस—वि० (सं० एकादशन्) ग्यारह; (क० १०, १६, ६) ।

एयारसमो—वि० (सं० एकादशम्) ग्यारहवाँ “... एयारसमो संधि समत्तो;” (जंबू० ११, १५) ।

एयारसि—स्त्री० (सं० एकादशी) तिथि-विशेष, प्रत्येक चांद्र मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की ग्यारहवाँ तिथि; (क० १०, १६, ६) ।

एयारह—वि० (सं० एकादशन्) प्रा० एकारह) ग्यारह; (ण० १, १२, ६) । —म वि० (सं० एकादशम्) ग्यारहवाँ; (भ०) ।

एयारहमि—वि० (सं० एकादशम्) ग्यारहवाँ; (क० १०, १६, ६) । ‘एयारहि दिणि वहु फल-फलीय,’ (सि० १, १७) ।

एयारहमे—वि० (सं० एकादशम्) ग्यारहवाँ, (जंबू० १, १८, १५) । —इ वि० ग्यारहवाँ (जस० ४, ६, १०) ।

एयारसि—वि० (सं० एतादश) ऐसा; (जस०) ।

एरासी—स्त्री० (दे०) इंद्राणी, इंद्राणी व्रत का सेवन करने वाली स्त्री; (दे० १, १४७) ।

एराषअ—पुं० (सं० ऐरावत) जंबूद्वीप के अन्तर्गत ऐरावत नामक क्षेत्र; (जंबू०

११, ११, ७) ।

एरावड—पुं० ऐरापति; छंद शास्त्र में आरि लघु पंचकल, (आदि लघु पंचकल के नाम—सुनरेन्द्र, अहित कुंजर, गजवर, दंत, दंती, मेघ, ऐरावत, तारापति, गगन, भ्रम्प, लंप; (प्रा० पं० १, २=) ।

एरावण—पुं० १. देवेन्द्र का हाथी; (प० च० २, ३८) । २. विद्याधर इंद्र का हाथी; (प० च० ७, १०) ।

एरिसि—वि० (सं० ईरिञ्च) प्रा० एरिसि) ऐसा; (प्रा० पं० १, १६४) । २. इस प्रकार; (सं० रा०) । —हि (प्रा० पं० २, १७०) एरिसि; (प्रा० पं० १, १६४) । एरिसिअं; (प्रा० पं० २, १५४) ।

एल—वि० (दे०) कुशल) निपुण; (दे० ना० मा० १, १४४) ।

एलविल—वि० (दे०) १. धनी, २. पुं० वैल; (दे० ना० मा० १, १४८) ।

एला—स्त्री० (सं० प्रा० एला) एलायची का पेड़ तथा इसका फल (भ०; विला०) ।

एल्ल—वि० (दे०) दरिद्र; (दे० ना० मा० १, १७४) ।

एव—अव्य० (सं० प्रा० एव) ही; (व० १, १५, ५) । २. इस प्रकार (की० ३, १०३) । —ञ्च अव्य० इस प्रकार (की० ४, १३४) । —विह वि० (सं० एवम्+विद्य) इस प्रकार; (क० २, १२, ७) ।

एवड—वि० (सं० ऐतावत्) इतना; तुल० गु० एवडुं; (प्रा० गु० २, ३, १३; सुदं० ८, ३६, ४) ।

एवद्—वि० (सं० एतद्) इतना अधिक, तुल० म० एवद्वा; (प० च० ३५, ३, ६) ।

एवमाई—वि० (सं० एवमादि > प्रा० एवमाइ, एमाइ) इत्यादि, वगैरह; (म०) ।

एवहि—अव्य० (सं० इदानीम्) इस समय; (प० २, ५५, १०) । अव्य० (सं० एवम्) इन तरह, इस रीति से, इस प्रकार; (क० १, १०, १०) ।

एवहि—अव्य० (सं० इदानीम्) इस समय; (प० च० १, १२, ७) । एव्वहि (म०) । एवहि—अव्य० इस समय (जं० ३, १०, ७) । एव्वहि—अव्य० अधुना इस समय; (यद्) ।

एवाप—अव्य० (दि०) यों, (की० २, २४७) ।

एवि—सर्व० (सं० एतद्) यह "जमु प्लइ से कइ पअहरह ऐक्क । चउमत्त वे वि महमार एवि" —जिस छंद में (प्रत्येक चरण) में दो चातुर्मात्रिक पड़े तथा अंत में चातुर्मात्रिक गण जगण हो, यह मधुमार छंद है; (प्रा० पं० १, १७५) ।

२- (सं० आगम्य) पू० का०क्रि०,आकर; (जं० ७, ७, ३) ।

एस—सर्व० (सं० एपः) यह; (जं० १, १२, ५) । एपा—सर्व० (सं० एपा स्त्रीलिंग) यह; (प्रा० पं० २, ६६; प० २, २, १२) ।

एसो—सर्व० (सं० एपः) यह; (प्रा० पं० २, ८४) । २. अव्य० इस प्रकार (की० ४, १०२) ।

एह—सर्व० (सं० एपः) यह; (सं० रा०;

हे० ३६२, १; प० च० १६, ७, ५; प्रा० पं० १, १६; क० १, ११, ३) ।

वि० (सं० ईहक्) ऐसा, इनके जैसा; (म०) । एह्—सर्व० यह; (रा० ३६) ।

एहत्तरि—वि० (सं० एकसप्तति) इकहत्तर, स्त्री० संख्या-विशेष । तुल० रा० इगततर; (प्रा० पं० १, ११७) । एहत्तरिहि; (प्रा० पं०) ।

एहि—(वै० सं० एभिः) इन, (की० २, १६); इससे (प्रा० पं० १, १२४) । एही—यही (की० २, २४१) । एह्—सर्व० तृतीया एक व० (सं० एतेन > प्रा० एहेण) इसके द्वारा ।

एही—सर्व० (सं० एपा) यह, "मसु एही का कहि कासु कण्ण" —मना कही तो सही यह कथा काल है और किमकी पुत्री है; (प० १, १५, ४) ।

एह्—सर्व० (सं० एपः) १. यही, (दि० सा० दो०; जं० ३, १०, २) । २. यह; (प्रा० पं० १, ३०, की० २, २३७) ।

ऐ

ऐ—इसका उच्चारण कण्ठ और तालू से होता है । महान्नाप्यकार से इसे सन्ध्यक्षर (अ+ए) बताया है । प्राकृत काल में ह्रस्वीकरण की प्रवृत्ति के कारण ऐ > अए > अइ उच्चारण होने लगा । 'कीर्तिलता, में 'ऐ' के प्रयोग—'ऐसो, दैव, पै, पैठि, पैरि और लै' तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण' में 'कैसेहि' उपलब्ध हैं ।

ऐसो—क्रि० वि० इस प्रकार; (डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल द्वारा संपादित

कीतिलता, ४, १०२) । वि० (सं० ईदृश) ऐसा; (डॉ० शिवप्रसाद सिंह द्वारा संपादित कीतिलता ४, १०५) ।

ओ

ओ—पुं० १. (सं० प्रा० ओ) स्वर वर्ण-विशेष; इसका उच्चारण ओष्ठ अं.र कंठ से होता है । २. सर्व० (सं० एतत्) यह; (प्रा० पं० १, ७६) । ३. वह; "ओ परपेसर सेहर सोहइ"—वह (चंद्रमा) शिव के मस्तक पर नुशोभित होता है, (की० १, २५) ।

ओडल—न० (दे०) केश-गुम्फ; केश-रचना; (दे० ना० मा० १, १५०) ।

ओअंक्र—पु० (दे०) गर्जित, गर्जना; (दे० ना० मा०; १, १५४) ।

ओअ—न० (दे०) वार्ता, कथा, कहानी; (दे० ना० मा० १, १४६) ।

ओअख—सक० सं० दृश् देखना । —इ (पङ्) ।

ओअग्गिअ—वि० (दे०) १. अभिभूत (१. पराजित, २. पीड़ित, ३. वशीभूत, ४. चकित), २. न० केश आदि को एकत्रित करना "ओअग्गिअं अभिभूतं केशादीनां पूञ्जीकरणं च," (दे० ना० मा० १, १७२) ।

ओअग्घिअ—वि० (दे०) घ्रात, सूँघा हुआ; (दे० ना० मा० १, १६२) ।

ओअम्मअ—वि० (दे०) अभिभूत पराभूत; (पङ्) ।

√ओअर—सक० (सं० अव+वृ० > प्रा० ओअर) जन्म-ग्रहण करना, नीचे उतरना ।

ओअरेंवि—पु० का० क्रि० उतरकर; 'तावेँहि गयणहो' ओअरेंवि अञ्जणहें वसन्तमाल मिलिय' अर्थात् इतने में आकाश से उतरकर वसन्तमाला अंजना से मिलती है; (प० च० १६, ८, १०) ।

ओअरिय—वि० (सं० अवतीर्ण > प्रा० ओअरिअ) उतरा हुआ; (प० च० १६, २, १०) ।

ओअल्ल—पुं० (दे०) १. कम्प, काँपना; (दे० ना० मा० १, १६५; पङ्) । २. खराब आचरण । ३. गोओं का वाड़ा । ४. वि० प्रक्षिप्त । ५. लटकता हुआ; (दे० ना० मा० १, १६५) ।

ओअल्लअ—वि० (दे०) १. जिसे चाही हुई वस्तु न मिले; २. जिसे धोखा दिया गया हो; (पङ्) ।

ओअलाअ—पुं० (दे०) १. ग्रामाधीश, गाँव का स्वामी; २. आदेश; ३. हुस्ती आदि को पकड़ने का गड्ढा; ४-वि० छोना हुआ; (दे० ना० मा० १, १६६) ।

ओअअव—पुं० (दे०) अस्त-समय; (दे० ना० मा० १, १६२) ।

ओआइय—क्रि० भू० का० (सं० आ+या=आना, आगमन करना) वापिस आए; (की० ३, ४४) ।

ओआरा पार—अव्य० (दे०) वार-पार, इस तरफ से उस तरफ तक; (की० ४, १८०) ।

ओआल—पुं० (दे०) छोटा प्रवाह; (दे० ना० मा० १, १६१) ।

ओआवल—पुं० (दे०) सुवह का सूर्य-

ताप; (दे० ना० मा० १, १६१) ।

ओइणी—पुं० कीर्तिसिंह का राजवंश, वंश-विशेष, (की० १, ४९) ।

ओइण्ण—वि० (सं० अवतीर्ण) > प्रा० ओइण्ण) अवतीर्ण, उतरा हुआ; (जस० ४, १७, १२) ।

ओइत्त, ओइत्तरु—न० (दे०) परिधान, वस्त्र; (दे० ना० मा० १, १६५) ।

ओइल्ल—वि० (दे०) आरूढ; (दे०-ना० मा० १, १५८) ।

ओउल्लिय—वि० (दे०) पुरस्कृत, आगे किया हुआ; (पड्) ।

ओऊल—न० (सं० अवचूल) लटकता हुआ वस्त्राञ्चल; (प० च०) ।

ओए—सर्व० (सं० एते) वे; (प० च० ३८, ७, ८) ।

ओकरा—सर्व० (दे०) उस, 'ओकरा काजरा चाँद कलंक', उस धुएँ के काजल के कारण ही चंद्रमा में कलंक है; (की० २, १३१) ।

ओवकंदी—स्त्री० (दे०) कूपतुला; (दे०-ना० मा० १, ८७) ।

ओवकणी—स्त्री० (दे०) यूका, जू; (दे०-ना० मा० १, १५९) ।

ओविकअ—न० (दे०) १- वमन, उल्टी; २- निवास, अवस्थान (जगह); (दे०-ना० मा० १, १५१) ।

ओवखंडिअ—वि० (दे०) आक्रान्त; (दे०-ना० मा० १, ११२) ।

ओवखली—स्त्री० (दे०) याली, पात्र-विशेष; (दे० ना० मा० १, १७४) ।

ओवखण्ण—वि० (दे०) १- अवकीर्ण; २- खण्डित, ३- ढका हुआ; ४- पार्श्व में

थिथिल; (दे० ना० मा० १, १३०) ।

ओख—पुं० (सं० ओप = जलन) दाह; (रा० ७) ।

ओग्गर—पुं० (सं० ओगर) एक प्रकार का चावल; घान्य-विशेष; (प्रा० पै० २, ९३) ।

ओग्गाल—पुं० (दे०) छोटा प्रवाह; (दे० ना० मा० १, १५१) ।

ओग्गिअ—वि० (दे०) अभिभूत, पराभूत; (दे० ना० मा० १, १५८) ।

ओग्गीअ—पुं० (दे०) हिम, बर्फ; (दे०-ना० मा० १, १४९) ।

ओवउ—पुं० (दे०) उपकरण-विशेष; गु० ओघो (जैन० परि०) (संवि० ११, ३, ९) ।

√ओचुंअ—(सं० अव + चुम्ब > प्रा० ओचुंअ) चुंअ करना । ओचुम्बइ—क्रि० (सं० अवचुम्बति); (भ०) ।

ओचुल्ल—न० (दे०) चुल्हे का एक भाग; (दे० ना० मा० १, १५३) ।

ओच्चेल्लर—न० (दे०) ऊपर-भूमि, जवन (१- पेड़, २- चूतड़) के रोम (रोर्जा); (दे० ना० मा० १, १३६) ।

ओच्छ्रदिअ—वि० (दे०) १- अपहृत, २- पीड़ित, (पड्) ।

ओच्छ्रत्त—न० (दे०) दंत-धवन, दत-दन; (दे० ना० मा० १, १५२) ।

√ओच्छ्राय—(सं० अव + छाद्य) आच्छादन करना । ओच्छ्राइवि—पुं० का० क्रि० (सं० अवच्छ्राय); (भ०) ।

ओच्छ्रअ—न० (दे०) केश-विवरण; (दे० ना० मा० १, १५०) ।

ओद्धृप्पिणी—स्त्री० (सं० उत्सृप्पिणी)
काल-चक्र; (जं० ३, १, १०) ।

ओज्जर—वि० (दे०) भीरु, डरपोक;
(पङ्) ।

ओज्जल्ल—वि० (दे०) बलवान्, प्रबल;
(दे० ना० मा० १, १५४) ।

ओज्जा—पुं० (सं० ऊर्जा) ओज,
“पत्रिख समूहहँ ओज्जाहारो”—पक्षी
समूहों का ऊर्जा अथवा ओज का आहार
होता है, (व० १०, ३५, ३) ।

ओज्जाअ—पुं० (दे०) गर्जित, गर्जाएव;
(दे० ना० मा० १, १५४) ।

ओज्झ—वि० (दे०) मैला, अस्वच्छ;
(दे० ना० मा० १, १४८) ।

ओज्झर—पुं० (सं० निर्झर > प्रा०
ओज्झर) झरना; (प० च० ३१, ३, ७) ।

ओज्झरउ—क्रि० भू० का० (सं० अव + झर =
संचरने to flow) निर्झर प्रवाहित हुआ;
'ताव-गलिय दागोज्झरउ, कण-चमर-हय
महुयरउ । जिग वन्दण-गवणंगमउ, परि-
वड्डिउ अइरावणउ ।' अर्थात् 'इतने में
जिससे मद्दज का निर्झर बह रहा था
और जिसका मन जिन भगवान् की
वन्दना के लिए व्याकुल था, ऐरा-
वत महागज आगे बढ़ा ।' (प० च० ३,
६, १) ।

ओज्झरिअ—वि० (दे०) १- टेढ़ी दृष्टि
से देखा हुआ; २- विक्षिप्त; ३- फेंका
हुआ; ४- परित्यक्त (दे० ना० मा० १,
१३३) ।

ओज्झा—पुं० (सं० उपाध्याय > प्रा०
उवज्झाय) उपाध्याय; 'गय मग चतुर
ओज्झा भवेस'; उपाध्याय भवेश नय मार्ग
के विद्वान् हैं; (की० ३, १४१) ।

ओज्जा—पुं० (सं० उपाध्याय > प्रा०

उवज्झाय, उवज्झाय > उवज्झा >
ओझा) पंडित; (की० २, १६६; उ०
व्य० प्र० १३-२८) ।

ओझाउलु—पुं० (सं० उपाध्यायगृहम्)
पंडित का घर; (उ० व्य० प्र० २२-२) ।

ओड्ठ—पुं० (सं० ओष्ठ > प्रा०
ओट्ठ) ओठ; (प्रा० पै० २, १६६;
जस० ३, ६, १६) । ओट्ठई; (रा० ३५) ।

ओड्ठद्वय—वि० (सं० ओष्ठ + आवद्ध)
नियन्त्रित; (प० च० ४६, ११, १०) ।
ओड्डु—स्त्री० (दे०) अंट, आड; (रा०
३८) ।

ओड्डु—पुं० (सं० ओड्डु > प्रा० ओड्डु)
ओड्डु देश का राजा; (प्रा० पै० १,
१२६) । ओड्डा; (प्रा० पै० १, १६८) ।
ओड्डिआ; (प्रा० पै० २, १२८) ।

ओडवए—भू० का० (सं० √ अपंय
> प्रा० अणिण = अर्पण करना) अर्पण
क्रिया, “परिवलु दल जो ओडवए, जिणि
पेलिउ सुरितागु । राजु करइ अन्नय
तणओं जासु अंगजिउमाणु ।” (प्रा० गु०
७, १२) ।

ओड्डिअ—वि० (सं० ओड्डीय > प्रा०
ओड्डिअ) उत्कल देशीय; (रा० ३०) ।

ओड्डिय—वि० (सं० उद्धृत) उठाने
वाला, “धम्ममहारहओड्डियकंधरु,” धम्म
रुनी महारथ (की घुरा) को कंधों पर
उठाने वाला है; (जं० १, ११, ८) ।

ओड्डुड्ड—वि० (दे०) अनुरक्त; (दे०-
ना० मा० १, १५६) ।

ओड्डण—न० (सं० उपवेष्टन > प्रा०
ओवेड्डण) ओढ़न, ओढ़नी, उत्तरीय
चादर, (दे० ना० मा० ११५५) ।

टि०—गु०, म०, राज० में इसका ओढ़ने
तथा उत्तरीय अर्थ में प्रयोग उपलब्ध है ।

√ओढ— (दे०) ओढ़ना । ओढि-
अल—सक० भू० का० (पूर्णभूत) ओढ़ा;
“धवलर कापड ओढिअल कइसे,”—जो
धवल कपड़ा ओढ़ा वह कैसा; (रा० २६,
२६) ।

√ओणल्ल—(सं० अव + लम्ब्) अवनत
होना, लटकना; “स्कन्ध केसकलाउ
खन्धि ओणल्लइ,” (भ० १६, ४, ६) ।
ओणल्लन्तउ—व० कृ० (सं० अव +
लम्ब् > प्रा० ओणल्ल = लटकना) अवनत
होते हुए, विनष्ट होते हुए (प० च० १७,
१५, ४) ।

ओणल्लय—वि० (सं० अवनत) पतित;
(प० च० २६, ५, ५) ।

ओणल्लिया—वि० (दे०) भिन्न हुआ;
!सुदं० ११, २१, ३) ।

ओणाविय—वि० (सं० अवनमित > प्रा०
ओणामिय, ओणाविय) अवनत किया
हुआ; (जस० ३, ३५, ११, भ०) ।

ओण्डव—(दे०) वल्मीक, चींटियों का
खुदा हुआ मिट्टी का ढेर; (दे० ना० १,
१५१) ।

ओणीवी—स्त्री (दे०) कटि-सूत्र, नीवि
(वह डोरी जिससे स्त्रियाँ लहंगे की गाँठ
बाँधती हैं; (दे० ना० मा० १, १५०) ।

ओणुणअ—वि० (दे०) अभिभूत, परा-
भूत; (दे० ना० मा० १, १५८) ।

ओणुल्लउ—भू० का० लुढ़क गया; “भूरी-
सउ णियरहे ओणुल्लउ;” (रि० ३,
११) ।

ओण्णिह—न० (सं० औन्निद्रय) निद्रा
का अभाव; (दे० ना० मा० १, ११७) ।

ओत्तलहअ—पुं० (दे०) विटप; (दे०-

ना० मा० १, ११६) ।

ओत्थअ—वि० (सं० अवस्तृत) आच्छा-
दित; (दे० ना० मा० १, १५१) ।

ओत्थर—पुं० (दे०) उत्साह; (दे० ना०-
मा० १, १५०) ।

ओत्थल्लपत्थल्ल—स्त्री (दे०) दोनों पार्श्वों
से परिवर्तन, ऊबलपुथल; (दे० ना० मा०
१, १२२) ।

ओत्थविअ—वि० (सं० अवस्तृत > प्रा०
ओच्छइअ > ओत्थइअ, ओत्थअ) आच्छा-
दित; (की० ४, १८८) ।

ओत्थाडिअ—वि० (सं० अवस्तृत)
विछाया हुआ; (भ०) ।

ओत्थाओत्थी—कृ० (सं० उत् + स्था
> प्रा० उट्ठाव) उठ-उठकर, (प्रा०
पै० १, १४५) ।

ओत्थाडिअ—वि० (सं० अवस्तृत) विछाया
हुआ; (भ०) ।

ओदन—न० (सं० ओदनम् > प्रा०
ओदण) भोजन, भात; (उ० व्य० प्र०
१३-२१) ।

ओदंदिअ—वि० (दे०) १. आक्रान्त,
२. नष्ट; (दे० ना० मा० १, १७१) ।

ओप्य—वि० (दे०) ओप (चमक) दिया
हुआ; (दे० ना० मा० १, १४८) ।

टिं—पुं०, म० पं० वं०, राज० में
चमक देने के अर्थ में प्रयुक्त । कन्नड में
स्वच्छ, सुंदर, ठीक, पालिश अर्थ में
प्रयोग मिलता है ।

ओप्पा—स्त्री० (दे०) शाण आदि पर
मणि आदि का धर्पण करना; (दे० ना०-
मा० १, १४८) ।

ओमंस—वि० (दे०) १. मृत; २. नष्ट,

३. भागा या हटा हुआ; (पङ्) ।

ओमल्ल—न० (सं० निर्माल्य) देवोच्छि-
ष्ट द्रव्य, किसी देवता पर चढ़ा हुआ
पदार्थ; (पङ्) । वि० (दे०) घनीभूत,
कठिन, जमा हुआ; (पङ्) ।

√ओमाल—(सं० उप+माल्) शोभना.
शोभित होना—इ (स० अवमानयति)
(भ०) ।

ओमालिय—वि० (सं० उपमालित)
१. शोभित, २. पूजित; (भ०) ।

ओमालिय—वि० (सं० उमालित >
प्रा० ओमालिअ) विभूषित, शोभित;
(प० च० २५. ७, ६) । —य (प० च०
३६, ३, ४) ।

ओमुच्छिद्य—वि० (सं० उन्मूच्छित,
अवमूच्छित) मूर्च्छा को प्राप्त; (जंजू ३,
७, ७) ।

ओमुच्छिद्य—वि० स्त्री० (सं० उन्मू-
च्छिता) मूर्च्छा को प्राप्त; (जंजू० ८, ७,
११) । —य वि० उन्मूच्छित, (प० च०
२७, ३, ७) ।

ओयणु—न० (सं० ओदन > प्रा० ओदण)
भात, रंधे हुए चावल; (महा० ६६,
११, ७) ।

ओयरइहि—स्त्री० (सं० अपवरक > प्रा०
अववरक) उपवरक, तंग कोठरी, अवधी
ओवरि, (सं० रा०)

ओयरिउ—क्रि० भू० का० (सं० अव+
तृ > प्रा० अवयर) नीचे उतरा, नीचे
आया; (ण० ५, ५, १५) ।

ओयाइय—वि० (सं० उपयाचित >
प्रा० उवयाइय) १. प्रार्थित, २. न०
मनाती, किसी काम के पूरा होने पर

किसी देवता की विशेष आराधना करने
का मानसिक संकल्प; (दे० ना० मा० ४,
२२) ।

ओरुम्भे—स्त्री० (दे०) दीर्घ मधुर
ध्वनि; (दे० ना० मा० १, १५४) ।

√ओरस—(सं० अव+तृ) नीचे उत-
रना । —इ सक० (सं० अवतरति)
“अवनरेरोहओरसौ” (भ० ४, ८, ५) ।

ओराए—भू० का० वीतती; (की ३,
१४८) । उरइ=समाप्त होना वीतना ।

√ओराल—(दे०) गर्जना, ओरालेवि-
पू० का० क्रि० (प० च० ३८, ६, ५) ।

ओरालिउ—न० (सं० औदारिक, > प्रा०
ओरालिय) शरीर; (व० १०, ६, ११) ।

ओरालिय—वि० (दे०) १. बहुत जोर
की आवाज या चिल्लाहट से युक्त;

“आसन्न विहुर उल्लावइहि ओरालिउ
एहि निज्जावइहि”; (भ० ७, ११,
१०) । २. पोंछा हुआ, “मुहि करयलु

देविपुणु ओरालिउ मुहकमलु,” (भ०
१५, १०, १२) । ३. फँसाया हुआ,

प्रसारित, “दसदिसि वहकयंबु ओरा-
लिओ,” (भ०) ।

ओरिल्ल—पुं० (दे०) दीर्घकाल; (दे०
१, १५५) ।

ओरुंज—न० (दे०) क्रीडा-विशेष (दे०
ना० मा० १, १५६) ।

ओरुंजइ—अक० (दे०) गरजता है,
“णं केसरि-किसोर ओरुंजइ,” मानो सिंह

का नवजात शिशु गरजता है; (रि० ५,
२) ।

ओरुम्भेवि—पू० का० क्रि० (सं० अव-

वृद्ध > प्रा० शोकह्य) वक्र कर, (१० व० ६; ६, ६) ।

शोकह्य—न० (सं० अवरोह्य) नीचे उतरना; (५० व०) ।

शोकमिच्छ—वि० (सं० अव + लम्बित > प्रा० शोकमिच्छ) आश्रित, निम्नका अवलम्ब लिया गया हो वह; (५० १, २, ६) । शोकमिच्छ, अवलम्बित; जं० ५, २, २५) ।

शोक—वि० (सं० अनुत् > प्रा० अउत्) सुंदर, अनुत्पन्न; (श्री० २, १२६) ।

२. वि० (सं० आर्) गोला हुआ, (जस० १, ४, ३) । —शोक वि० (सं० आर्) ओठ-प्रोत ललकलिकाई कृहि-रोलकोय"—उसकी लपकपाती हुई जीभ रक्त से ओठ-प्रोत थी; (जस० १, ६, ५) ।

शोकल—पुं० (द्वि०) १. स्त्रिय पक्षी, २. अपलाप; (द्वि० ना० ना० १, १६२) ।

शोकलनी—स्त्री० (द्वि०) नदीदा, कुल-हित; (द्वि० ना० ना० १, १६०) ।

शोकल्य—वि० (सं० अवलगित) १- शरीर में सटा हुआ, (द्वि० ना० ना० १, १६२) ।

√शोकल्य— (सं० उल्लङ्) देहना; (सं० वि २, १३, ६) ।

शोकल्लिय—वि० (सं० उल्लङ्कित > प्रा० शोकल्लिय) गहिराना हुआ; तुल० न० शोकल्लिये; (न०) ।

शोकल्लि—स्त्री० (द्वि०, प्रा० शोकल्लि) सेवा, चाकरी, सक्ति; (ना० १४) ।

शोकल्लिण—पुं० (द्वि०, प्रा० शोकल्लिण)

सेवक; तुच० पु० राज० शोकल्लिणो, । शोकल्लिणा श्रौ० सेविका "ला शोक-गाथा," (प्रा० पु० २६, १०) ।

शौलिंग—वि० (सं० अवलगित् > प्रा० शौलिंग) सेवा करने वाला; 'शौलिंगि मुष्टि आहोत आद्य -अवलग्य मुष्टी भवन्तास्ते, भविष्यति वा, मुष्टी वेति,' (उ० व्य० प्र० ११-१३) ।

√शौलिंग—(सं० अव + √लग् > प्रा० शौलिंग) —इ सक० सेवा करना; (५० व० ७, ९, ५) । शौलिंगिहृत्—सक० पीछे लगेगा, "शौलिंगिहृत्—अवलगि-प्यासि," (उ० व्य० प्र० २०-१३) ।

शौलिंग—स्त्री० (सं० अवलग् > प्रा० शौलिंग, शौलिंगा) सेवा; "परब्रह्मणम् विष्णुं शौलिंगम्" —नरपति के आंग उसकी सेवा में स्थित हुए; (मुद्र० ६, १६, ४; ५० व० २५, ३, १०) ।

—ए स्त्री० सेवा; "तिहुअण-मुहें जाहि शौलिंगम्" अर्थात् त्रिभुवन स्वामी की सेवा में जाओ; (५० व० २, ३, ९) ।

शौलिंग, शौलिंग—वि० (सं० अवलान् > प्रा० शौलिंग) १- सेवक; नौकर; २- निस्तेज, निर्बल; (द्वि० ना० मा० १, १६४) । वि० अनुलग्न, पीछे लगा हुआ; (न०) ।

शौलिंगि—पुं० का० क्रि० (सं० अव + लगित, अथवा लग्न = पीछे लगा हुआ) चलते ही-हो कर "सहसति तुरंगम रहु मुरगि हाहाकार करंजहें । शौलिंगि विलग्या नयगयर सुरणवरहें पियंत्रहें ।" विद्यावर-गण सहना ही तुरंगम-रथ छोड़-छोड़कर हाहाकार करते हुए देवों और

मनुष्यों के देखते-देखते ही उलटे होकर गिरने लगे; (व० ५, १७, २०) ।

ओलग्गिअ—वि० (सं० अव+लग्न > प्रा० अवलग्न) संलग्न, लगा हुआ, सहित; "ओलग्गिअ भावें दिणि जि दिणे ..."; (ण० १, २, ६) ।

ओलम्बिय—वि० (सं० अवलम्बित) किसी के आधार या सहारे पर ठहरा या टिका हुआ; (प० च० ४, १२, ८) ।

ओल्लर—(सं० लल् > प्रा० लल; सं० अवललति) विलास करना, मीज करना, "सेज ओल्लर-श्यायामवललति" (उ० व्य० प्र० ६-२०) ।

ओलाँधि—पू० का० क्रि० लाँधि कर; "पवंत ओलाँधि पार क मारिअ," (की० ४, ४५) ।

ओलावअ—पुं० (दे०) श्येन, वाज पक्षी; (दे० ना० मा० १, १६०) ।

ओलाभा—स्त्री० (दे०) उपदेहिका, दीमक; (दे० ना० मा० १, १५३) ।

ओलि—स्त्री० (सं० आवलि, लीक देखा, पंक्ति, श्रेणी; (भ०) । ओली; (सं० आवलि) (जस०) ।

ओलुट्ट—वि० (दे०) १- असंगत, २- मिथ्या; (दे० ना० मा० १, १६४) ।

ओलेहड—वि० (दे०) १- अन्यासक्त, २- प्रवृद्ध (१. पूरा बढ़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त, २. विस्तारित, ३. घमंडी, ४. प्रचण्ड, ५. पूरा, गहरा) ६. तृष्णा-पर, लोभी, प्यासा; (दे० ना० मा० १, १७२) ।

ओलोअण—न० (सं० अबलोकन > प्रा० ओलोअण) १- देखना, २- दृष्टि; (सं० वि०

६, १, २१) ।

ओल्ल—वि० (सं० आद्र > प्रा० उल्ल) गीला, आद्र; (प० च० ४, ८, ८) ।

ओल्लणी—स्त्री० (दे०) दही में चीनी और मसाले डाल कर बनाया गया स्वा-दिष्ट पदार्थ; (दे० ना० मा० १, २४५) ।

ओल्लरण—न० (दे०) निद्रा, सोना; (दे० ना० मा० १, १६३) ।

ओल्लरिअ—वि० (दे०) चुप्त, सोया हुआ; (दे० ना० मा० १, १६३) ।

ओल्ला—पुं० (अ० मुल्ला) मुसलमान चुल्ला, मौलवी, या मुसलमान एलची; (प्रा० पै० १, १४७) ।

ओल्लिय—वि० (सं० आद्रित > प्रा० ओल्लिअ, उल्लिअ) गीला किया हुआ; तुल० म० ओले; (भ०; प० च० ११, ८, ३) ।

ओल्लु—वि० (सं० आद्र > प्रा० उल्ल, ओल्ल) गीला; (ण० ३, ८, ६) ।

ओव—न० (दे०) हाथी आदि को बाँधने के लिए किया हुआ गड़ड़ा; (दे० ना० मा० १, १४६) ।

ओवग्ग—(सं० उप+ वल्) १- पराभव करना, २- आक्रमण करना । —इ (भ०) । ओवग्गवि—पू० का० क्रि० (भ०) ।

ओवग्गिय—वि० (सं० उपवत्तिगत्) आक्रान्त; (प० च० ४, ११, ३) ।

ओवङ्क—(सं० अप+वक्) घृणा के कारण चेहरे का फेर लेना या मोड़ लेना; (turn away face in dislike) —हि क्रि०, आ० (प० च०) ।

ओवच्च—सक० (सं० उव + च्च्) पास जाना; (घ०) ।

ओवद्विज—न० (दे०) खुशामद, चाप-लूसी, मधुर तथा प्रिय वचन, मीठी बात; (दे० ना० मा० १, १६२) ।

√ओदड—(सं० अव + पत्) गिर पड़ना, गिरना, नीचे पड़ना; —इ अक० (प० च० ५३, १, ७) ।

ओवडिड—कृ० (सं० अवपतित) झपट कर; “तद्वक्षणे ओवडिड पेविस्रवि भिडिड रहकरितुरंग संकिष्णइ” —उस समय ‘उन दोनों को एक दूसरे पर झपटकर भिड़े हुए देखकर रख, हाथी और तुरंगों से संकीर्ण’; (जंजू० ६, १०, १०) ।

ओवड्हा—स्त्री० (दे०) ओढ़नी का एक भाग; (दे० ना० मा० १, १५१) ।

ओव्याह—पुं० (सं० उपचार > प्रा० उवयार = पूजा, सेवा, आदर, भक्ति) उपचार (नमस्कार); ‘पणमिड विणएण सणकुमार । तेण वि सो विहिड किओव-यार’ —उससे वितय से मनस्कुमार को प्रणाम किया । उसने भी, वह किया गया उपचार (नमस्कार) किया; (विला०) ।

ओवर—पुं० (दे०) निकर, समूह; (दे०-ना० मा० १, १५७) ।

ओवरी—स्त्री० (सं० अपवरक) एकांत गृह, छोटा घर, कोठरी; (की० २, ६७) ।

ओवसेर—न० (दे०) चंद्रन, १- नुगं-धित काष्ठ विशेष; २- वि० रति-योग्य; (दे० ना० मा० १, १७३) ।

ओवहि—पुं० (सं० उद्वि) सागर; (व० १०, ६, २) ।

ओवाअज—पुं० (दे०) आपातप, जल-समूह की गरमी; (पड्) ।

ओवास—पुं० (सं० उपवास) उपवास; (प० च०) ।

ओविअ—वि० (दे०) १- आरोपित, २- परित्यक्त, ३- छीना हुआ, ४- न० खुशामद, ५- रोदन; (दे० ना० मा० १, १६७) ।

ओस—स्त्री० (सं० अवघ्याय > प्रा० उस्साव > प्रा० उस्सा, ओसा, ओस) तुपार, शवनम; (सं० रा०) ।

ओसट्ट—वि० (दे०) विकसित, प्रफुल्लित; (पड्) ।

ओसडिअ—वि० (दे०) व्याप्त; (पड्) ।

ओसण—न० (दे०) उद्वेग, खेद; (दे०-ना० मा० १, १५५) ।

ओसपिणि—स्त्री० (सं० अवसपिणी) दश कोटाकोटि सागरोपम परिमित काल-विशेष, जिसमें सर्व पदार्थों के गुणों की क्रमशः हानि होती जाती है; (प० च० १, ११, ६) ।

√ओसर—(सं० अप + मृ > प्रा० ओसर = १-पीछे हटना, २-सरकना, दिस-कना) —इ अक० हटना; ‘खुडु धीरत्तणु होइ मगूसहो’, लच्छि कीत्ति ओसरइ ण पासहो’, अर्थात् यदि मनुष्य में थोड़ा वैर्य हो, तो उसके पास से लक्ष्मी और कीर्ति नहीं हटती; (प० च० ८, ३, ७) ।

—मि व० अपसरण करना; (सुदं ११, १६, २४) । ओसरहि—क्रि० भा० हट जाओ; (जंजू० ५, ७, २४) । ओसरंत-व० कृ० (सं० अप + मृ + शतृ); (जंजू०

६, १२, ११) । ओमरसु—क्रि० आ० हट जा, “लविप्रं सुकृण्ठेण मा मरसु ओसरसु” —इस पर सुकृण्ठ ने कहा—अरे मर्रो मत, यहाँ से हट जा, (ण० ७, १३, ७) । ओसरु—क्रि० आ०, हट; ‘ओसरु हुट्ट दारें,’ अर्थात् ‘हे दुष्ट स्त्री, हट; (प० च० १८, १०, ८) । ओसारि-क्रि० आ० हटा लीजिए; (प० च० १३, २, ६) । ओसारि-वि० पू० का० क्रि० हटाता हुआ, मार्ग से वचाता हुआ; (ण० ४, १२, १३) । ओसारेपिरसु पू० का० क्रि० हटाते हुए, (प० च० २०, ४, ३) ।

ओसरिअ—वि० (दे०) १- आकीर्ण, व्याप्त; २- आँख के इशारे से संकेतित; (एड्) । ३- अधोमुख, अवनत; ४- आँख का इशारा; (दे० ना० मा० १, १७१) ।

असरिय—वि० (सं० अपमृत > प्रा० ओसरिअ) पीछे हटा हुआ; (जंबू० ७, ६, १०) ।

ओसरिया—स्त्री० (सं० अपसार = निकास, प्रा० ओसार । अथवा सं० उपशाल) आंगन, अलिन्दक, बाहर के दरवाजे का प्रकोष्ठ; तुल० राज० ओसारो (दालान, वरामदा), गु० ओसरी (वरामदा, मकान के सामने का भूभाग) (दे० ना० मा० १, १६१) ।

ओसविय—वि० (सं० उच्छ्रित, उद् + श्रि + क्त) उदयापित, ऊँचा किया हुआ; (प० च०) ।

ओसविविअ—वि० (दे०) १- शोभा-रहित; २- न० अवसाद, खेद; (दे० ना० मा० १, ६८) ।

ओससिउ—वि० ओससिक्त, उच्छ्वसित (सं० रा०) ।

ओसह—न० (सं० औपघ > प्रा० ओसह) १- दवाई, भैषज; (ण० ३, १, १४) । लो—‘ओसहु निरु मिट्ठं विज्जुव्इत्ठ अहुजण काचुन होई पिउ’—अतिशय मधुर वैद्य निर्दिष्ट औषध किसे प्रिय नहीं, (प० सि० च०) ।

ओसहत्यु—पुं० (सं० औपघ + अर्थ) औषधि के लिए; “ओसहत्यु लुउ पुच्छ-सकण्णउ” —‘औषधि के लिए उत्सकी पूँछ व कान काट लिये’; (जंबू० ६, ११, ८) ।

ओसहि—स्त्री० (सं० औपघि > प्रा० ओसहि, ओसही) जड़ीबूटी, वनस्पति; (प० च० ४, ६, १०) ।

ओसा—स्त्री० (सं० अवश्याय > प्रा० ओसाअ) ओस; (दे० ना० मा० १, १६४; ण० ४, ८, १६) । —सिक्त वि० (सं० अवश्याय + सिक्त) धोत से सिंचे हुए; (जस० ४, ४, १६) ।

ओसार—पुं० (सं० उत्सार > प्रा० ऊसार, ओसार) परित्याग; (भ०) ।

√ओसार—(सं० अप + सारय् > प्रा० ओसार) दूर करना । —इ सक० (सं० अपसारयति) (भ०) ।

ओसारिअ—वि० (सं० अपसारित > प्रा० ओसारिअ) १- दूर किया हुआ, (प० च० ४, ६, ३) । २- उत्सारित, हटाए गए; (सं० रा०) । ओसारिय (ण० १, ८, १२) । ओसारिय-पेतयु-

वि० जिसने आज्ञा को टाल दिया हो ऐसी; (रि० ३, १५) ।

ओसास—पु० (सं० उच्छ्वास)
१- साँस, साँस अन्दर खींचना, साँस बाहर निकालना; तुल० म० उसासा; (भ०) । २- पु० (सं० अवकाश > प्रा० ओवास) अवकाश; (भ०) ।

ओसिघिम—वि० (दे०) घ्रात, सूँघा हुआ; (दे० ना० मा० १, १६२) ।

ओसिम—वि० (दे०) १- बल-रहित, २- अपूर्व, असाधारण; (पङ्) ।

ओसिखिम—न० (दे०) १- गति-व्याघात; २- अरति-निहित; (दे० ना० मा० १, १७३) ।

ओसित्त—वि० (दे०) उपलिप्त (besmeared) — (१) आलेपन किया हुआ, चिपचिपे या चिकने पदार्थ से लेप किया हुआ, पोता हुआ, लेसा हुआ, अपमानित किया हुआ; (२) अभिषिक्त, (anointed); (दे० ना० मा० १, १५८) ।

ओसिरण—न० (दे०) व्युत्सर्जन, परित्याग; (पङ्) ।

ओसीभ—वि० (दे०) अबोध, अवगत; (दे० ना० मा० १, १५८) ।

√ओसीस—अक० (सं० अप+वृत्)
१- पीछे हटना, २- घूमना, फिरना; (दे० ना० मा० १, १५२) । ३- स्त्री० अपवृत्त (ह्रास reduction to a common measure); (दे० ना० मा० १, १५२) ।

ओसुखिम—वि० (दे०) उत्प्रेक्षित, कल्पित; (दे० ना० मा० १, १६१) ।

ओसुक्क—वि० (सं० अवचुक्क) सूखा,

हुआ; (प० च०) ।

ओसुद्ध—वि० (दे०) विनपतित (१- विनाशित; नष्ट किया हुआ, २- मारा हुआ, ३- फेंका हुआ); (दे०-ना० मा० १, १५७; जेकोवी द्वारा संवादित प० च० १, १५७) ।

ओसुविणायई—क्रि०, व० (सं० उत्स्वप्नाय्) स्वप्न देखना; (प० च० १७, १५, ३) ।

ओसोवणि—स्त्री० (सं० अवस्वापनी > प्रा० ओसोयणी, ओसोवणिया, ओसोवणी) विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से दूसरे को ग्राह्य निद्रावीन किया जा सकता है; (प० च० १०, ६, ८) ।

ओहंक—पु० (दे०) हास, हँसी, हँसने की क्रिया; (दे० ना० मा० १, १५३) ।

ओहंस—पु० (दे०) १- चंदन, २- जिस पर चंदन घिसा जाता है वह शिला, चन्द्रौटा; (दे० ना० मा० १, १६८) ।

ओह—पु० (सं० प्रा० ओघ, प्रा० ओह) मसूह, संघात; (जस०) ।

ओहच्छमि—वि० (सं० अव या अप+आस्) (देखिए अच्छ) वैठना; (ण० ८, १४, ८) ।

ओहट्ट—क्रि० (सं० अवघटते, सं० अप+√घट्ट > प्रा० ओहट्ट) कम होना, ह्रास पाना, ह्रास होना; “धर्मं वाढत पापु ओहट्ट” —धर्मं वर्द्धमाने पामवघटते; (उ० व्य० प्र० ५-२४) ।

ओहट्ट—वि० (दे०) १- अपसृत, पीछे हटा हुआ; तुल० म० ओहटी; (भ०) । २- ह्रास को प्राप्त; तुल० मु० ओट; (प० च० ४२, ११, ८) । पु० (दे०)

१- अवगुण्डन; २- कटि-वस्त्र, नीवी,
४- वि० शीघ्र हटा हुआ, (दे० ना० मा०
१, १६६) ।

१/ओहट्ट—(सं० अघ + घट्ट > प्रा०
ओहट्ट) कम होना, ह्रास को प्राप्त
होना । —३ (सं० अघट्टने) क्रि० व०
गिरिण्डपुरुष ओहट्टइ वलु,” अर्थात्
वल गिरि नदी के पूर के लगान ह्रास को
प्राप्त होना है; (जंजू० ८, ७, ७) ।
—मि व०, ए०, पीछे हटना (प०
च० ४६, २, ६) । ओहट्टन्तय—व०
कृ० (सं० अघ + घट्ट > प्रा० ओहट्ट
=कम होना, ह्रास पाना) नष्ट होती
हुई; (प० च० १७, ३, ४) ।

ओहट्टिअ—वि० (दे०) दूसरे को दबा
कर हाथ से गृहीत; (दे० ना० मा० १,
१५६) ।

ओहट्ट—पुं० (दे०) हान, हँसी; (दे०-
ना० मा० १, १५३) । वि० (सं० अघ-
घट्ट) घिसा हुआ; (प० च०) ।

ओहडणी—स्त्री० (दे०) अर्गला; (दे०
ना० मा० १, १६०) ।

ओहत्त—वि० (दे०) अवनत; (दे० ना०-
मा० १, १५६) ।

ओहर—पुं० जलचर-विशेष, ओघर
नामक जलचर जीव; (प० च० २३,
१३, ६, व० १०, ८, १२) ।

ओहरण—न० (दे०) १- हिंसा,
२- असंभव अर्थ की संभावना; (दे०-
ना० मा० १, १७४) ३- वि० आघ्रात;
(पङ्०) ।

ओहरिस—वि० (दे०) आघ्रात, सूँघा
हुआ; (दे० ना० मा० १, १६६) ।

ओहसिअ—चि० (सं० उपहसित)
जिसका उमहास किया गया हो वह;
(दे० ना० मा० १, १७३) ।

ओहाइअ—वि० (दे०) अधोमुख; (दे०
ना० मा० १, १५८) ।

ओहाडणी—स्त्री० (दे०) पिधानी,
चादर, एक प्रकार की ओडनी; (दे० ना०
मा० १, १६१) ।

ओहामिअ—वि० (सं० अघम + कृत)
लज्जित; “णियणेत्तोहामियहरिणणेत-
“जितने अपने नेत्रों की शोभा से हरिण
के नेत्रों को भी लज्जित कर दिया था,
(प० १, १४, ७) । २- वि० तिरस्कृत;
(सुदं० ४, २, ४) ।

ओहामिय—वि० (दे०) १- तिरस्कृत,
२- अभिभूत; “चरणोहामिय-कोमलक-
मल” —अपने चरणों की शोभा से
कोमल कमलों को तिरस्कृत करने वाली;
(जंजू० ८, ५, ५) । २- स्थगित;
(जेकोवी द्वारा संपादित प० च० ४६,
६) ३- क्षीण, “देहि ताम ओहामिय
छायहो” अर्थात् जिसकी कान्ति क्षीण हो
गई, (प० च० ११, १३, ६) । बाहो-
मिया; वि० स्त्री० (सं० अघःकृता) तिर-
स्कृता, (सुदं० ७, ७, ६) ।

ओहार—पुं० (दे०) १- कच्छप;
२- द्वीप, ३- अंश, विभाग; (दे० ना०-
मा० १, १६७) ।

ओहालिअ—वि० (सं० अवलिप्त)
१- लगा हुआ, २- सना हुआ; “घाए
नयणगइ हुउ वियलमइ कीलालोहालिय-
देहउ,” बाघातों से नगनगति विकलमति
(विह्वल) और लोहु-बुहान शरीर हो

गया; (जं० ६, १०, १३) ।

ओहाव—सक० (सं० आ+क्रम् का घात्वादेश आक्रमण करना; (पङ् १) ।

ओहादण—न० (सं० अवभावना) अनादर, तिरस्कार, अपमान; (प० च० ३७, ८, ५) ।

ओहासिय—वि० (सं० उपहासित) जिसकी मजाक या हंसी उड़ाई गई हो, वह; (सुदं० ४, ३, ९) ।

ओह्हिय—न० (दे०) १- विपाद, खेद; २- वेग; ३- विचारित, (दे० ना० मा० १, १६८) ।

ओहीरिञ्च—वि० (दे०) १- खिन्न, २- ऊँचे स्वर में गाया हुआ; (दे० ना० मा० १, १६३) ।

√ओहुंज—(सं० उपङ्भुक्ते, उप+√भुज् > प्रा० उवहुंज) उपभोग करना, —इ सक० (भ०) ।

ओहु—सर्व० वह, “ओहु पास दरवार सएल महि मण्डल उप्परि,” (की० ३, ५८) ।

ओहुअ—वि० (दे०) अभिभूत, पराभूत; (दे० ना० मा० १, १५७) ।

ओहुड—वि० (दे०) निष्फल, विफल; (दे० ना० मा० १, १५७) ।

ओहुह—वि० (दे०) १- अवनत, २- खिन्न, ३- ध्वस्त; (दे० ना० मा० १, १५७) ।

ओहुल्ल—वि० (सं० अवफुल्ल, उत्फुल्ल का विलोम) अप्रसन्न, खिन्न, “जाम न दइरिमुहइ ओहुल्लइ; (भ० १४, ११, ५) ।

ओहुल्लिय—वि० (दे०) प्रा० ओहुल्ल) नीचा किए हुए, (प० च० ५, २, २) ।

औ

औ—इसका उच्चारण स्वर अ+ओ के मिलाने से बनता है। संस्कृत वर्णमाला का वारहवाँ वर्ण ‘औ’ प्राकृत काल में उपलब्ध नहीं होता है। ‘कीर्तिलता’ में औकार के प्रयोग औका, चौदिस, चौपट, चौस, चौहट्ट, ती, तौन, तौलन्ति, दौरि आदि उपलब्ध हैं, जिनको प्रस्तुत कोश में समाविष्ट किया गया है। प्राकृत काल में ‘औ’ सन्ध्यक्षरत्व से विवटित होकर ‘अउ’ में परिणत हो गया था, परन्तु चौदहवीं शताब्दी के कवि विद्यापति के अवहट्ट भाषा के काव्य में ‘औ’ का प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण स्थान कठ और ओष्ठ है।

औका—वि० अओक, दूसरे ‘एक हाट के ओर औका हाट के कोर’ (डॉ० शिव-प्रसाद सिंह ‘कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा २, १२६) ।

औकी—स्त्री० (सं० अवक्रीता > प्रा० अवकिका) पण्य स्त्री; (की० २, ८१ तथा २, १२६) ।

औकीहाट—(सं० अवक्रीता हट्ट) पण्य स्त्रियों का बाजार, शृंगारहाट; (की० २, १२६) ।

क

क—पुं० (सं० प्रा० क) १- अपभ्रंश वर्णमाला का प्रथम व्यञ्जनाक्षर, जिस का उच्चारण-स्थान कण्ठ है। ब्रह्मा; (प० ८, २, ५; दे० ना० मा० ५,

२६) । ३- न० जल, पानी; "एवकमेवक
सिचयति पंजलीहिं कं घिचति"; (जस०
३, २, १८) । ४- सर्व० (सं० कस्य)
किसका; (उ० व्य० प्र० १५, १) ५- प०
का०, संबंध की विभक्ति, (की० २,
१०७) । टि०—काक विभक्तियों के
लोप की प्रक्रिया अपभ्रंश काल से दिखाई
पड़ती है । अवहट्ट भाषा तक आते-आते
प्रायः विभक्तियों का स्थान परसर्गों ने ले
लिया था । ६- सर्व० (सं० कः=क्या)
कीन, कोई; (सं० रा०) ।
कं—१- पुं० (सं० कम्) जल; (प० च०
५३, ६, ५; जंबू० १०, २, ६) ।
२- अव्य० किसी तरह, (की० ४,
२४७) ।
कं कं—पुं० (ध्व०) काँव-काँव; (जंबू०
६, ५, १०) ।
कंक—पुं० (सं० कङ्क > प्रा०-कंक)
पक्षी-विशेष, बक पक्षी; (जस० १, १०,
५; जंबू० ४, १८, ७) ।
कंकड—पुं० (सं० कङ्कट > प्रा० कंकड)
रक्षा-कवच, वस्त्र; (जंबू० ११, ३,
२) । पुं० राजा; (प० च० ३२, ३२) ।
कंकरा—न० (सं० कङ्करा > प्रा०
कंकरा) १- हाथ का आभरण-विशेष,
कौंगन; (भ०) । २- गुरु वर्ण; (प्रा० पं०
२, १८०) । ३- चक्र (जंबू० १०, २०,
६) ।
कंकर—पुं० (सं० कंकर) कंकर, कीड़ी;
(जंबू० ४, २, ८) ।
कंकाल—न० (सं० कङ्काल > प्रा०
कंकाल) शरीरास्थि, चमड़ी और मांस-
रहित अस्थि-पञ्जर; (जंबू० १, ६,

११) । — धारि वि० कंकालधारी;
(जंबू० १०, २५, २) ।
कंकल्लि—पुं० (सं० कङ्कल्लि > प्रा०
कंकल्लि) कंकल्ली, अशोक का पेड़, वृक्ष-
विशेष; (व० १, ६, २) ।
कंकल्लि—पुं० (सं० कङ्कल्लि) अशोक
वृक्ष; (जस० २, १२; दे० ना० मा० २,
१२) । कंकल्ली; (सुदं० ४, ३, २) ।
कंकोड—न० १- (दे०) वनस्पति-विशेष,
ककरैल, एक प्रकार की सब्जी जो वर्षा-
काल में होती है; (दे० ना० मा० २,
७) । २- पुं० (सं० कंकोट > प्रा०
कंकोड) एक नागराज, आठ मुख्य सर्पों
में से एक; (पड्) ।
कंख—सक० (सं० काङ्क्ष > प्रा० कंख)
चाहना; (जस० २, २१, ८) ।
कंख—स्त्री० (सं० काङ्क्षा > प्रा०
कंखा) चाह, अभिलाषा; (ण० ४, ३,
४) ।
कंखिर—वि० (सं० काङ्खितृ) चाहने
वाला, अभिलाषी; (जस० ३, ७, ७;
भ०) । वि० स्त्री० आकांक्षा वाली;
(सं० रा०) ।
कंखिर—पुं० (सं० काङ्क्षा > प्रा०
कंखा) आकांक्षा, (जंबू० ८, ११, १४)
कंगु—स्त्री० न० (दे०) घान्य-विशेष;
(दे० ना० मा० ७, १) ।
कंचरा—पुं० (सं० काञ्चन > प्रा०
कंचण) सोना, सुवर्ण; (व० १, ६, ६;
भ०) । —गुह; स्त्री० (सं० काञ्चन +
गुहा > प्रा० कंचण + गुह) कांचनगुफा,
गुफा-विशेष; (ण० ६, १, ६) । —गुहइ,
स्त्री० काञ्चनपृथिवी; (भ०) । —महि,

स्त्री० काञ्चनमही (भ०) । —माला, स्त्री० काञ्चनमाला, नाम-विशेष, (भ०) । कंचणाभा- स्त्री० रानी-विशेष का नाम, पियवय की पत्नी; (प० च० ३६, ७७) ।

कंचणार—पुं० (सं० कञ्चनार > प्रा० कंचणार) वृक्ष-विशेष; (प० च० ५३, ७६) ।

कंचना—पुं० (सं० काञ्चन) सुवर्ण; (की० ३, ११६) ।

कंचाइणी—स्त्री० कात्यायनी नामक स्त्री, चामुण्डा, (सुदं० ६, १५, २, जंबू० ७, ६, ८) ।

कंचि—स्त्री० (दे०) लहंगा, धोती; (व० ८, ६, ७) ।

कंचिपुर—पुं० (सं० काञ्चीपुर) नगर-विशेष; (जंबू० ६, ११, ३) ।

कंचिवाल—वि० काञ्चीदेशोत्पन्न; (जंबू० ८, १२, ११) ।

कंची—स्त्री० १- (दे०) मुशल के (धान कूटने का मूसल) मुँह पर रखी जाने वाली लोहे की एक बलयाकार वस्तु; (दे० ना० मा० २, १) । २- स्त्री० (सं० काञ्चि, ंञ्ची > प्रा० कंचि, कंची) कटिमेखला, कमर का आभूषण, कांचीदाम; (ण० १, १६, १०) ।

—कलाव पुं० (सं० काञ्ची + कलाप) “कंचीकलाव गुर्ध्रतियाउ” —कटिमेखला को दूर करती हुई; (जस० ४, २, १८) ।

कंचुअ—पुं० (सं० कञ्चुक > प्रा० कंचुअ) १- चोली (रा०) । कंचुअ—चोली; (जंबू० ४, ११, ८) । २- वस्त्र

कपड़ा, “तो उञ्जिऊण लज्जा (लज्जं), ओईंघई कंचुअं सरीराओ,” (प० च० ३४, १५) ।

कंचुइ—स्त्री० (सं० कञ्चुक > प्रा० कंचुअ) कंचुकी, चोली; (विला०) ।

२- पुं० (सं० कञ्चुकिन्) अंतःपुर का प्रतीहार, चपरासी, (प० च० ८, ३६) ।

कंचुलिय—स्त्री० १- (सं० कञ्चुलिका > प्रा० कंचुलिया) चोली, कंचुकी;

(जस० २, ३२, १०) । २- (सं० कञ्चुक > प्रा० कंचुअ) कंचुली, साँप की काँचली; (पाहु० १५) ।

कंचुली—स्त्री० (सं० कञ्चुलिका > प्रा० कंचुलिया, कंचुल्ली) चोली; स्त्री का

स्तनाच्छादक वस्त्र; तुल० म० कांचोळी; (भ०) ।

कंचू—पुं० (सं० कञ्चुक > प्रा० कंचुअ) चोली; (प्रा० गु० २६, १७) ।

कंचुल्ली—स्त्री० (दे०) हार, कण्ठा-भरण; (भ०) ।

कंज—पुं० (सं० कञ्ज) कमल; (जंबू० ४, ११, ५) । —केसर पुं० (सं० कमलकेसर) बाल को तरह पतले-पतले वे सीके कमल के बीच में रहते हैं; (व० २, ३, ११) ।

कंजिअ—पुं० (सं० काञ्जिक > प्रा० कंजिअ) एक प्रकार का खट्टा रस जो

कई प्रकार से बनाया जाता है और जिसमें अचार और बड़े आदि भी पड़े

रहते हैं; (जस० ३, ३१, १) । कंजिय; (जंबू० ३, ६, १३) ।

कंजिउ—पुं० (सं० काञ्जिक) कांजी; (सु० ८, ८) ।

कंठअ—पुं० (सं० कण्टक > प्रा० कंटग)
काँटा; (सं० रा०) । कंटय; (भ०) ।

कंटइय—वि० (सं० कण्टकित > प्रा०
कंटिय) कँटीला; कण्टक-युक्त; (ण० १,
६, २) ।

कंटउच्चि—वि० (दे०) कंटे से विद्ध
किया हुआ; (दे० ना० मा० २, १७) ।

कंटक—पुं० (सं० कण्टक > प्रा०
कंटग) काँटा; (की० ३, ६४) । कंटय—
पुं० काँटा, (जंबू० ५, ८, २४) ।

कंटयतरु—पुं० (सं० कण्टकतरु) कँटीला
वृक्ष; (जस० २, २८, ५) ।

कंठिवोरी—स्त्री० कंटीली वेरी, (जंबू०
५, ८, ६) ।

कंडुल, कंटोल—न० (दे०) वनस्पति-
विशेष, ककरैल; (दे० ना० मा० २,
७) ।

कंठ^१—पुं० (दे०) १- सूकर, सूअर;
२- मर्षादा, सीमा; (दे० ना० मा० २,
५१) ।

कंठ^३—पुं० (सं० कण्ठ > प्रा० कठ)
गला; (प्रा० पै० १, ६८; जस० २, ३,
३) । —अ पुं० कण्ठा, कण्ठाभरण;

(जंबू० ३, १४, १३) । —कंदलि स्त्री०
(सं० कण्ठ + कन्दल) गला और गाल

तथा कनपटी, “त रसइ कंठ-कंदलि स-
कोड दंसाण्ड विसहर इव सुभोड,”

अर्थात् किसी ने उस शत्रु-भट की कण्ठ-
कंदलि में इस प्रकार काटा, जिस प्रकार
कि सर्प अपने फण से (अपने शत्रु को)

काट लेता है; (व० ५, १४, ६) ।

कंठकल—पुं० (सं० कण्ठ + कल) कण्ठ-
कृजन, (जंबू० १, १२, ३) ।

कंठदीणार—पुं० (दे०) छिद्र, विवर;
(दे० ना० मा० १, २४) ।

कंठमल्ल—न० (दे०) १- ठठरी, मृत-
शिविका; २- वाहन; (दे० ना० मा० २,
२०) ।

कंठाग्रहणउ—क्रि० आ० (सं० कण्ठ + आग्र-
हण) कंठ को ग्रहण करो, “का वि भणइ

पिय कंठाग्रहणउ, करि लइयमेरउ कंठाह-
रणउ” —कोई कहती है हे प्रिय, मेरे कण्ठ

को ग्रहण करो और मुझे अपना कण्ठा-
भरण बना लो; (ण० ३, १०, ३) ।

कंठाल—पुं० (दे०) कडाह, भार, काँठी;
(जंबू० ४, ११, ८) ।

कंठाहरण—पुं० न० (सं० कण्ठ + आभ-
रण > प्रा० कंठ + आहरण) कंठ का

आभूषण; (ण० ३, १०, ३) ।

कंठिअ—पुं० (दे०) चपरासी, प्रतीहार;
(दे० ना० मा० २, १५) ।

कंड^१—पुं० न० (सं० काण्ड > प्रा०
कंड) १- वाण; (जस० १, १६, १) ।

२- धनुर्दण्ड; (जस० १, १२, १२) ।

३- खण्ड (जस० ४, २५, ३) ।

कंड^३—पुं० (दे०) १- फेन; २- वि०
दुर्बल, ३- विपन्न; (दे० ना० मा०

२, ५१) ।

कंडपंडवा—स्त्री० (दे०) यवनिका,
परदा; (दे० ना० मा० २, २५) ।

कंडवइ—पुं० (सं० काण्डपति) कर्णधार,
नाविक; तुल० म० काण्डरी; (भ० ७,
३, ४) ।

कंडवडु—पुं० (सं० काण्डपट) एकांत
विभागीय पर्दा; (व० ४, २४, १०) ।

कंडु—पुं० (सं० कन्दुक) खेलने के लिए

गेंद; "वंभिय कंडु कइय णेराइय,"
(भ०) ।

कंडुअं—पुं० (सं० कन्दुक) गेंद; (दि०-
ना० मा० ३, ५६) ।

कंडुअं—सक० (सं० कण्डूय) खुजवाना ।
कंडुयंत—व० कृ० (सं० कण्डूय + अतृ);
(जं० १०, २६, ७) ।

कंडुयण—न० (सं० कण्डूयन > प्रा० कंडु-
यण) खुजली, खाज, रोग-विशेष; (ण०
८, ६, ४) । कंडुवण—(जं० ८, १६,
६) ।

कंडुरु—पुं० (सं० कण्डुरु) एक प्रसिद्ध
राजा, जिसने रामचंद्र के भाई भरत के
साथ जैनी दीक्षा ली थी; (प० च० ८५,
५) ।

कंडू—स्त्री० (सं० कण्डू > प्रा० कंडू)
१- खुजलाहट, २- रोग-विशेष; (जस०
२, १०, ७) ।

कंडूयण—न० (सं० कण्डूयन > प्रा०
कडूयण, कंडुयण) खुजली, खाज; (जस०
२, १०, ७) ।

कंडूर—पुं० (दि०) बक, बगुला; (दि०
ना० मा० २, ६) ।

कंडोहिय—वि० (दि०) मथित; (जस०
३, ३, १२) ।

कंड—पुं० (सं० कण्ठ) गला; कंठि;
(रा० १६) ।

कंडी—स्त्री० (सं० कण्ठिका) गले का
आभरण; (रा० १६) ।

कंतं—पुं० (सं० कान्त > प्रा० कंत)
पति, स्वामी; राज० गु० कंत; (प्रा०
पं० १, ६) । कन्त; (की० ३, १) ।
कन्तु; (हे० ३४५, १) ।

कंतं—स्त्री० (सं० कान्ता > प्रा० कंता)
स्त्री, नारी, सुंदरी; (ए० १, १७, ३) ।
कंता—स्त्री०, १- स्त्री (जम० २, ८,
१०) । रावण की एक पत्नी का नाम;
(प० च० ७४, ११) ।

कंतरि - न० (सं० कान्तार > प्रा०
कंतार) अरण्य, वन; (जस० २, २१,
२) । कन्तार—जंगल; (की० ४, १२६) ।
कंतावसाण—वि० (सं० कान्ता + वशा-
नाम्) कान्ता के वशवर्ती; (जं० ४,
१८, १०) ।

कंतासोग—पुं० (सं० कान्ताशोक)
राजा-विशेष का नाम, विजयावती के
समीपवर्ती मत-कोकिलरव नामक ग्राम का
राजा; (प० च० १०३, १२६) ।

कंति—स्त्री० १- (सं० कान्ति > प्रा०
कंति) कांति, सौंदर्य, चमक, दीप्ति, प्रेम
के कारण बढ़ा हुआ सौंदर्य, शृंगार
(सं० रा०; ण० १, १४, ३) । २- गाथा
का भेद; (प्रा० पं० १, ६०) । -वंतु
वि० (सं० कान्तिवान् > प्रा० कंतिवंत)
कान्ति-युक्त; (व० २, ३, ५) । -विणि-
ज्जिय वि० (सं० कान्ति + विनिजित)
कान्ति से जीतने वाला; (व० २, ४,
६) ।

कंतिउर—पुं० (सं० कान्तिपुर) एक
कस्बा जो कि ग्वालियर के उत्तर में २०
मील दूरी पर स्थित है और अब कोट-
वाल कहा जाता है; (भ०) ।

कंतिल्लु—वि० (सं० कान्ति + मत् >
प्रा० कंति + ल्ल) कान्ति-युक्त; (रि० ८,
६) ।

कंती—स्त्री० (सं० कान्ति > प्रा० कंति)

शोभा, सौन्दर्य; “लपेग कामु कंतीरु चंदु;” (जस० १, ११, २) । —इस्त्री० कांति ‘कंतीइ चंदु तेएण भाणु’—वह कांति में चन्द्रमा और तेज में सूर्य था; महा० ६८, ६, ६) ।

कंतु—पुं० (दे०) काम, कामदेव; (दे०-ना० मा० २, १) ।

कंधारी—स्त्री० (सं० कन्धारी) वन-स्पति-विशेष; (संघि० ५, ६, ५) ।

कंद—पुं० १- (सं० कन्द > प्रा० कंद) मूल, जड़; (प्रा० पै० १, ६८; व० १०, १६, ६) । २- पुं० (दे०) मेघ; ‘पमायणासु कंदमासु संजओ दयावरो,’—‘(वे) प्रमादों के विनाशक, मेघ के समान गंभीर-ध्वनि, संयमी व दयापरायण थे,’ (सुदं० १०, ३, १७) ।

कंद—वि० (दे०) १- दृढ़, २- उन्मत्त, ३- न० आच्छादन; (दे० ना० मा० २, ५१) ।

√कंद—(सं० क्रन्द > प्रा० कंद) रोना । —इ, क्रि० व० (सं० क्रन्दति) (भ०) । —हि (विधि०) (जंबू० २, २, ६) ।

कंदण—पुं० (सं० क्रन्दन) विलाप, रोदन; (जंबू० ४, २१, ११) ।

कंदप्प—पुं० (सं० कन्दर्प > प्रा० कंदप्प) १- कामदेव, अनंग; (ण० २, ६, १३) । २- प्रेम; (सं० रा०) ।

कंदर—न० (सं० कन्दर > प्रा० कंदर) गुहा, गुफा, कंदरा; “भरंतहंदकुंडकूवंकंदरं;” (जस० ३, १६, ३) । कंदरी-स्त्री० (सं० कन्दरा > प्रा० कंदरा, कंदरी) कंदरा; (व० १, १३, ३) ।

कंदल—पुं० (सं० कन्दल > प्रा० कंदल) अङ्कुर; (जस० १, १७, २१) । २- न० (दे०) कपाल; (दे० ना० मा० २, ४) । ३- पुं० न० (सं० कन्दल) कलह, झगड़ा; (जंबू० ४, २, १६) । शोरगुल; (व० ४, ३, ११) । कन्दल—पुं० (सं० कन्दल) लड़ाई-झगड़ा; (की० ४, ६३) ।

कंदलि—स्त्री० गर्दन के चारों ओर पहने जाना वाला एक आभूषण, “कंतु कंठकंदलिए खन्नड;” (भ० ६, १७, ४) ।

कंदावण—वि० (सं० क्रन्दापन) हलाने वाले, “एणं तिर्यसिदविदं कंदावणे रावणे कुद्धे सुरवल” —अर्थात् जैसे कि देवगणों को हलाने वाले रावण के क्रुद्ध होने पर देवों की सेना की दशा हुई थी; (ण० ४, ११, २)

कंदाविय—वि० क्र न कराने वाला, हलाने वाले, (जंबू० १०, १, १२) ।

कंदिअ—न० (सं० क्रन्दित > प्रा० कंदिय) रोदन; (ण० ३, १६, १०) ।

कंदियं—वि० (सं० क्रन्दित > प्रा० कंदिय) आक्रान्त; (रि० १, १२) ।

कंदिर—वि० (क्रन्द + इर; सं० क्रन्दिन् > प्रा० कंदिर) क्रन्दन करने वाला; (भ०) ।

कदिवसु—अव्य० किसी दिन; (प० च० २२, ३, ४) । कन्दिवसु—अव्य० किसी दिन; (प० च० ४७, ३, ५) ।

कंदुट्ट—न० (सं० कन्दोट) नील कमल; (सं० रा०) ।

कंदुल्ल—[सं० कन्द + उल्ल (प्र०)] कंद; “कंदुल्लगहरगद्भु जेत्यु;” जहाँ

- वनगर्दभ कन्दों से युक्त वनअटवी में दिखाई पड़ता है; (जस० २, २७, १०) ।
- कंदोट्ट—न० (सं० कन्दोटः) नील कमल; (दे० ना० मा० २, ६; जस० ४, १७, १३; भ०) ।
- कंध—पुं० (सं० स्कन्ध > प्रा० कंध, खंध) कन्धा; (की० ४, ३०) । -र, पुं० कन्धा; (ण० ६, १६, १०) ।
- कंप—अक० (सं० कम्प > प्रा० कंप) कांपना । —इ; (हे०, प्रा० व्या० १, ३०) । कांपंत—व० कृ० (√कम्प + शतृ); (जंबू० ७, ८, ११) । कांपता—वर्तमान; कालिक कृ० एक व० (सं० कम्पत्) कांप रहा; (प्रा० पै० २, ८६) । कांपावइ—क्रि० (सं० कम्पयति); भ० । कांपिया—क्रि० भू० का०, कांप गया; (की० ३, ६७) । कम्पाइ—क्रि०, व० कांपता है; (की० २, २२६) । कम्पा—कांपती है; (की० ४, ११०) ।
- कंपड—पुं० (दे०) पथिक, मुसाफिर; (दे० ना० मा० २, ७) ।
- कंपण—न० (सं० कम्पन > प्रा० कंपण) कम्प, हिलन, कांपकांपी; (व० २, २१, १) ।
- कांपावण—न० (सं० कम्पन > प्रा० कंपण) कांपावन । वि० (सं० कम्पिन् > प्रा० कांपि) कांपाने वाला; (जंबू० ५, १३, ६) ।
- कांपि—स्त्री० रसिका छंद का भेद; (प्रा० पै० १, ८६) ।
- कांपिय—वि० (सं० कम्पित > प्रा० कांपिअ) कांपा हुआ; (व० २, १३, ४) ।
- कांपिरंग—पुं० (सं० कम्पित् + अङ्ग) कांपने वाला अंग; (जंबू० १०, १७, १६) ।
- कांपिर—वि० (सं० कम्पित् > प्रा० कांपिर) कांपने वाला; (क० १०, १६, १०) ।
- कांपिल्ल—पुं० (सं० काम्पिल्या) शहर-विशेष का नाम, (भ०) । —पुर न० (सं० काम्पिल्यपुर) नगर-विशेष; (प० च० ८, १४३) ।
- कांब—स्त्री० (सं० कम्बा > प्रा० कांबा, कांब) यष्टि, चाबुक; (जंबू० ६, ४, ५) ।
- कांबर—पुं० (दे०) विज्ञान; (दे० ना० मा० २, १३) ।
- कांबी—स्त्री० (मं० कम्बी = वांस की गांठ) यष्टि; (संघि० २, ११, ६) ।
- कांबु—पुं० (सं० कम्बु > प्रा० कांबु) शङ्ख; (जंबू० ५, १२, १४) । २- इस नाम का द्वीप; (प० च० ४५, ३२) । ३- पर्वत-विशेष; (प० च० ४५, ३२) ।
- कांबोज—पुं० (सं० कम्बोज) देश-विशेष; (प० च० २७, ७) ।
- कांब्यडिअ—स्त्री० (देशज) कान का एक आभरण । —हि; (रा० १६) ।
- कांबल—पुं० न० (सं० कम्बल > प्रा० कांबल) कामरी, ऊनी कपड़ा; (जस० ३, १६, ४) ।
- कांस—पुं० (सं० प्रा० कांस) श्रीकृष्ण का मातुल, पुरुष-विशेष; (ण० ४, ६, ११) । राजा का नाम; (प्रा० पै० २, ७१) ।

कंसार—(दे०) कंसैरा, ठठेरा; (जंबू० ५, ७, १७) ।

कंसाल—पुं० (सं० कांस्याल > प्रा० कंसाल) वाद्य-विशेष; (प० च० २४, २, ३; प्रा० गु० ३२, ३) । —य पुं० (सं० कांस्यतालक) वादित्त, वाद्य-विशेष, (प० च० ५७, २३) ।

कंसैरी—स्त्री० (सं० कांस्यकार > प्रा० कंसयर > अप० कंसैर + ई प्र०) कंसैरों का बाजार; (की० २, १०१) ।

कअ—वि० (सं० कृत > प्रा० कड, कय) किया हुआ, बनाया हुआ; (ण० १, १८, १) ।

कआ—पुं० (सं० प्रा० काय) शरीर, देह; (प्रा० पै० २, ६४) ।

कइंद—पुं० (सं० कवीन्द्र) नाम-विशेष; (ण० ५, २, ४) ।

कइ—वि० (सं० कति > प्रा० कइ) कई, कितना; “कइहिं दिणोहिं परिणाविउ देविउ, णन्दसुणन्दाइउ सिय-सेयिल,” अर्थात् कई दिनों बाद, उन्होंने नन्दा सुनन्दा नामक श्री से सेवित दां देवियों से विवाह किया, (प० च० २, ८, ७) ।

पुं० (सं० कवि > प्रा० कइ) कवि (ण० १, २, १०; की० २, १४) । प० (सं० कौ > कइ) की; (की० ४, २७) । पुं० (सं० कपि) बंदर; (ब० १०, १८, १) । प० —के (संघि १२, ४, ८) । फ्रि० वि० (सं० कदा > प्रा० कया) कभी; (की० १, ६३६) । —अरो पुं० (सं० कविवरः) श्रेष्ठ कवि; (प्रा० पै० १, २०) ।

—कुल, पुं० (सं० कविकुल) बंदरों का समूह (जंबू० ५, ८, ३४) । (सं० कवि-

कुल) कविजन; (की० २, १४) ।

—केय, पुं० (सं० कपिकेतन) कपिव्वज, वानर-द्वीप के एक राजा का नाम; (प० च० ४८, १३, ६) । —यण पुं० (सं० कविजन) कवियों; (सुदं० २, ३, २) । —रव न० (सं० कैरव > प्रा० कइरव) कमल; “वियासाविय-कइरख-कलिय कैरव-कलियों को विकसित करने वाला; (ब० ६, ६६) । —वय, —वाह वि० (सं० कतिपय) कई एक; (प० च० ६१, १६) । कईसा-पुं० (सं० कवीश > प्रा० कईस) श्रेष्ठ कवि; (प्रा० पै० २, १४५) ।

कइअंक, कइअंकसइ—पुं० (दे०) निकर, समूह; (दे० ना० मा० २, १३) ।

कइउल्ल—वि० (दे०) धोडा, अल्प; (दे० ना० मा० १, २१) ।

कइगई—स्त्री० (सं० कौकयी) राजा दशरथ की रानी; (प० च० ६५, २१) ।

कइत—पुं० (सं० कवित्त) १- कविता, पद्य; (प्रा० पै० १, १५२) । २- पुं० (सं० कवित्त्व) १- काव्य का गुण; २- काव्य-रचना शक्ति; (जंबू० १, ५, १३) । —ण पुं० (सं० कवित्त्व) १- काव्य-रचना-शक्ति, २- काव्य का गुण; (जस० ४, १४, १५) । —घाम पुं० (सं० कवित्त्वघाम) कवित्व से संपन्न; (जंबू० ११, १, १) ।

कइत्य—वि० (सं० कृतार्थ) कृतज्ञ; (सुदं० ११, ११, ६) ।

कइदिण—पुं० (सं० कतिपय + दिनम् प्रा० कइअ + दिण) कई दिन; (जंबू० १०, २१, ६) ।

- कइद्वय—पुं० वानरवंशीय राजा; (प० च० ६, ८३) ।
- कइमइ—स्त्री० (सं० कवि+मति > प्रा० कइ+मइ) कवि की बुद्धि; (जस० १, २३, १०) ।
- कइयलगिग—क्रि० वि० कव से; (सं०-रा०) ।
- कइयहूँ—अव्य० (सं० कदा) कव; (प० च० ६, ६, ५) ।
- कइयह—अव्य० (सं० कदापि) कभी; (म०) । -ा (कइयहा) (सं० कदा) कव, किस-समव (सण०; जस० १, ५, १२) ।
- कइरव—न० (सं० कौरव > प्रा० कइरव) कमल; (जंबू० ८, १४, १५) ।
- कइराअ—पुं० (सं० कविराज) श्रेष्ठ कवि; (जस०) ।
- कइलास—पुं० (सं० कैलाश > प्रा० कइ-लास) कैलाश पर्वत; (प० च० १३, ६, २) । -गिरि (सं० कैलाशगिरि) कैलाश पर्वत; (जंबू० ६, ६, १) ।
- कइल्लवइल्ल—पुं० (दे०) स्वच्छन्द-चारी वल; (दे० ना० मा० २, २५) ।
- कइवंसिय—वि० (सं० कपिवंशिक) कपिध्वजी; (प० च० १२, २, ७) ।
- कइवइ—पुं० (सं० कवि+पति > प्रा० कइवइ) श्रेष्ठ कवि; कविराज; (जस० २, १०, ३) ।
- कइवय^१—वि० (सं० कतिपय) कई एक; (ण० ४, ७, १०) ।
- कइवय^२—पुं० (सं० कतिव) कपट, झूठ, धोखा, चालवाजी; (ण० ८, १२, १०) ।
- कइवार—पुं० स्तुति पाठ (panegyric); तुल० प्राचीन गु० कइवार; (प० च० ३५, ८, ६) ।
- कइवित्त—पुं० (सं० कवित्व) कविपन; (ण० ६, ६, ८) ।
- कइस—वि० (सं० कीदृश) कैसा; (रा०) । कइसीं (रा० १४) । कइसउ (रा० २४) । कइसे; (रा० २०; की० २, १४६) ।
- कई—वि० (सं० कति > प्रा० कई) कितना-कितनी; (प्रा० पै० १, ४६) ।
- कउ—क्रि० भू० का० (सं० कृत) किया "शिगगन्थु णिएँ वि उवहासु कउ," अर्थात् 'निग्रन्थ देख कर उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया'; (प० च० ६, १५, ४) ।
- कउ—अव्य० (सं० कुतः) कहाँ से 'कउ दीसन्ति पडीवा उज्झहिँ एवकहि-मिलिया' अर्थात् 'कहाँ से वे एक साथ मिलकर अब अयोध्या में दिखाई देंगे,' (प० च० ५, १२, ६; हे० ४१६, १) ।
- २- (सं० कथं) कैसे; (हे० ४१८, १) ।
- कैसा, "अण्णु वि एत्तिउ सोहग्गु कउ । जें कङ्कग्गु देइ कुमाए तउ" अर्थात् 'और तुम्हारा इतना सौभाग्य कैसे हो सकता है कि कुमार तुम्हें कंगन दे,' (प० च० ११, २, ३) । ३- प०, को; "हर कउ भगत हरदत्त नाम"; (की० ३, १३७) ।
- कउअ—वि० (दं०) प्रधान, मुख्य, २- चिह्न; (दे० ना० मा० २, ५६) ।
- कउच्छेअय—पुं० (सं० कौक्षेयक) पेट पर बँधी हुई तलवार; पड़) ।
- कउडी—स्त्री० (सं० कपटिका) कौडी; गु० कौडी, (प्रा० गु० १६, ४०) ।

कउण—सर्व० (सं० कः+पुनः>प्रा० कवण) कौन । कउणु; (रा० ४१) ।
 कउतिग—पुं० (सं० कौतुक) आश्चर्य; (संधि० २, १, ६) ।
 कउतुकमङ्गल—पुं० (सं० कौतुकमङ्गल) नगर-विशेष; (प० च० २१, २, १) ।
 कउत्तल—पुं० (सं० कुन्त>प्रा० कुंत) भाला; (क० ३, १३, ६) ।
 कउल—पुं० (सं० कौल) कापालिक, शैव मत का तांत्रिक साधु, कुलाचार्य; (जस० १, ५, २१) । २- न० संप्रदाय-विशेष; (ण० ६, ६, २) । ३- न० सूत्रा गोवर, करीप; (दे० ना० मा० २, ७) ।
 ४- पुं० (सं० कपोल) गाल; (संधि० २, १३, ३) । —उल पुं० (सं० कौल+कुल) कापालिक आदि दुष्ट धार्मिक समूह; (जस०) ।
 कउलेवड—वि० (सं० कवलित>प्रा० कवलित) कवलित, भक्षित; 'काले कउलेवड हउ मि तेम' — उसी प्रकार मैं भी काल से कवलित होऊँगा; (महा० ६८, ११, ३) ।
 कउसंवि—स्त्री० (सं० कौशाम्बी) नगर-विशेष; (क० १, ७, ६) ।
 कउसीसे—पुं० (सं० कपिशोर्ष>प्रा० कविसीस) कंगूरा; "मरिणमय तोरण दंड घज कउसीसे नव घाट," तुल० गु० कोशीसु; (प्रा० गु० १०, १६) ।
 कउह—पुं० (सं० ककुभ) ककुभ वृक्ष, अजुन का पेड़; (जंजू० ५, ८, १२) ।
 न० (दे०) नित्य, सदा; (दे० ना० मा० २, ५) । पु० न० (सं० अकुद) वैल के कंधे

का कुब्जड; (पड़) ।
 कउमहग्ग—पुं० (सं० ककुभ्+मार्ग>प्रा० कउहा+मग्ग) दिशा-मार्ग; (प० च० १०, १, ८) ।
 कए^१—प० (सं० कृते) लिये; (प्रा० पं० १, ६७) ।
 कए^२—क्रि० भू० का० (सं० कृत>प्रा० कए) किया, "अन्तरिण्ख अप्सरा विमल कए वीजए अञ्चल," अर्थात् आकाश में अप्सराएँ पुण्यात्मा वीरों के ऊपर अंचल से पंखा भलती थी, (की० ४, २, १६) ।
 व० कृ० - करके; "तुम्हे सत्तुहि मित्त कए भुञ्जह तिरहुत राज," तुम्हे शत्रु को मित्र बनाकर तिरहुत का राज भोगना चाहिए; (की० २, २७) ।
 कओन्न—पुं० (सं० कमोलः) गाल; (मं० रा०) ।
 ककुः—पुं० इक्ष्वाकुवंशीय राजा; (प० च० २२, २६) ।
 कक्कड^१—वि० (सं० कर्कश>प्रा० कक्कस, कक्कखड) कठोर, परुष; (प० च० ३५, १, ५३) ।
 कक्कड^२—पुं० (सं० कर्कर>प्रा० कक्कर) कर्कराशि (कर्क नक्षत्र); "जिह गयणु तेम सो मीणजुत्तु जिह गयणु तेम कक्कडविचित्तु" —वहाँ मछलियाँ भी थीं और अतः वह मीन राशि युक्त गगन के समान था । वह कर्कश और विचित्र था, अतएव कर्कराशि और चित्रा नक्षत्र से युक्त गगन के समान था; (सुदं० २, १४, २) ।
 कक्कर—वि० (सं० कर्कर>प्रा० कक्कर) कठोर; (ण० ७, १०, ८; प०

च० ८, १०, ८) । पु० (सं० कर्कर > प्रा० कक्कर) कंकर, कंकड; तुल० गु० कांकरी; (प० च० २४, ३, ६) ।

कक्कस^१—वि० (सं० कर्कश > प्रा० कक्कस) कटोर; (भ०; जस० २, ३१, २) ।

कक्कस^२, कक्कसार—पु० (दे०) करम्ब, दध्योदन; (दे० ना० मा० २, १४) ।

कक्केशण—पु० न० (सं० कर्कतन) रत्न की एक जाति; (प० च० ३, ७५) ।

कक्खंतर—पु० (सं० कक्ष + अन्तर) पेट, कुक्षि; “कक्खंतर कहेइ क वि कवणें मउलिनयणकण्णकंडुवणें,” —कोई आंखे बंद करके कान खुजलाने के बहाने से अपनी कुक्षि को बतलाने लगी; (जंबू० ८, १६, ६) ।

कक्ख—वि० (सं० कर्कश > प्रा० कक्कस) कटोर; (जस० १, ५, १६) । पु० (सं० कक्ष > प्रा० कक्ख, कच्छ) कमरा; तुल० म० काख; (प० च० १६, १५, ३) । —ड (पु० सं० कक्ष) लतावृक्ष आदि गुल्म (ऐसा पौधा जो एक जड़ से कई तनों के रूप में निकले, जैसे ईख, बाँस आदि); (जस० ३, ३२, ६) ।

कक्खड—वि० (सं० कर्कश > प्रा० कक्कस, कक्खड) १- कटोर, परस; (प० च० १३, ८, ४) । “पहुआएसु सकक्खडमारुड;” (भ० १०, ४, १) । २- तीक्ष्ण; (प० च० १३, ८, ४) । ३- पीत, पुष्ट; (दे० ना० मा० २, ११) ।

कक्खट—पु० कटाक्ष; “कक्खट दावइ मुहु विवसावइ”—अर्थात् “कटाक्ष देती;

मुहु विकसाती;” (मृद० ८, २८, ८) । कक्खडंगी—स्त्री० (दे०) सखी, सहेली; (दे० ना० मा० २, १६) ।

कगलंतउ—पु० (सं० कङ्काल > प्रा० कंकाल) चमड़ी और मांस-रहित अस्थि-पञ्जर; कंकाल; “वंदिणु आवंतउ एं कगलंतउ खुडियसीसु विग्गुत्तउ” वन्दी को मुड़े सीस व विकृत अवस्था में कंकाल जैसे आते हुए; (म० २, १६, ११) ।

कग्घाड—पु० (दे०) १- चिरचिरा; २- दूध की मलाई; (दे० ना० मा० २, ५४) ।

कचोर—पु० सूखा हुआ और भूना हुआ या छींका हुआ अचार (dried and fried pickles); तुल० गु० काचरी, भ० कच्चरा; (प० च० ५०, ११, ६) ।

कच्च—न० (सं० काच > प्रा० कच्च) शीशा, काँच; (प० च० २२, १०, ८) । लो०—कच्चे, पत्लट्ट को रयणु, पित्तलह हेम विक्कह कवणु—अर्थात् ‘काँच से रत्न को कौन बदलेगा ? पीतल से सोने को कौन बेचेगा ? तुल० पं० कच्च; (जस०) । २- न० (सं० कृत्य) कार्य; (दे० ना० मा० २, २) ।

कच्चरा—स्त्री० (दे०) कचरा, कच्चा खरबूजा २- कचरा को सूखाकर, तल कर और मसाला डालकर बनाया हुआ खाद्य-विशेष, एक प्रकार आचार; तुल० गु० काचरी, म० काचन्या, कचोन्या, “पुणो कच्चरा पप्पडा दिण्णभेया,” (भ० १२, ३, ८) ।

कच्चासण—पु० (सं० कषण + अशन)

कच्चा भोजन, अन्न पर न पका हुआ भोजन; (सा० १४) ।

कच्चें—न० (सं० काच > प्रा० कच्च)

काँच, शीशा; (जंबू० २-१८) ।

कच्चोल—पुं० (प्रा० कच्चोल, कच्चो-लय) पात्र-विशेष, प्याला, कटोरा; तुल० म० कचोलें; (जस० २, २३, १०; प० च० २५, ११, ३) । —अ (मुद० ८, १७, १०) ।

कच्छ^१—पुं० (सं० कच्छप) दोहा छंद का भेद; (प्रा० पै० १, ८०) । २- पुं० (सं० प्रा० कच्छ) (१.) लँगोट; (प० च० ४, ११, ८) । (२.) देश-विशेष; (भ०) । —डँअ (य) कछौटा, कछौटक; (जंबू० ५, ७, १३) । —व, पुं० कच्छ, देश-विशेष; (भ०) । —भवणीसु पुं० कच्छ देश का राजा; (व० ३, ३०, २) ।

—जरेसर पुं० (सं० कच्छनरेद्वर) कच्छ देश का नृप; (व० ३, ३०, २) ।

कच्छ^२—पुं० (सं० कच्छप > प्रा० कच्छभ) कच्छुआ; तुल० प० कच्छ; (रि० २, २) ।

कच्छप—पुं० (सं० कच्छप > प्रा० कच्छभ) कूर्म, कछुवा; (व० १० ८, १२) । कच्छव—पुं० (सं० कच्छप); (जंबू० ४, ६, ५) ।

कच्छर—पुं० (दे०) पङ्क, काँच, कर्दम; (दे० ना० मा० २, २) ।

कच्छरिच्छ—पुं० (सं० कअ + ऋअ) नक्षत्रमाला; (ण० ३, ६, १५) ।

कच्छा—पुं० (सं० प्रा० कच्छ) कच्छ देश; (व० ८, १, २) । स्त्री० (सं० कक्ष्या) विभाग, अंश; (प० च० १६,

१०) ।

कच्छी—स्त्री० कटिवस्त्र, कच्छा; (जंबू० ५, १०, ८) ।

कच्छुरिअ—वि० (दे०) ईपित, जिसके साथ ईर्ष्या की जाए वह; (दे० ना०-मा० २, १६) ।

कच्छुरी—स्त्री० (दे०) कपिकच्छु, केवाँच; (दे० ना० मा० २, ११) ।

कच्छेल्ल—पुं० कच्छ देश; (जंबू० ६, १६, ४) ।

कछु—सर्व० (सं० कश्चित्) कुछ; (की० २, ४१) ।

कज्जंत—पुं० (सं० कायन्तिर) कार्य का अंतर; (जंबू० ८, ६, ११) ।

कज्ज—पुं० (सं० काय > प्रा० कज्ज) १- काज, अदालती फर्याद या दरवारी अर्थात् (परिभाषिक शब्द), (की० २, ११५) । २- काम; (ण० १, ३, १०; प्रा० पै० १, ३६) । —कज्जि; (व० १, ७, १२) । वज्जु (व० १, १६, १) ।

—उड पुं० (दे०) अनर्थ; (दे० ना० मा० २, १७) । —गइ (सं० कायंगति)

(जंबू० ६, १६, ५) । —त्थिअ वि० (सं० कार्यार्थी + क) कित्ती पदार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील;

(जंबू० ६, १२, ३) । —बंध पुं० सं० (कार्य-बन्ध) कार्य का बंधन, (प्रा० पै० १, ३७) ।

—लुद्ध वि० (सं० कार्यलुद्ध); (जंबू० ४, १७, ५) । —कज्ज—पुं० (सं० कार्य + अकार्य)

(जंबू० ५, १३, १६) । —आणुराअ—पुं० (सं० कायानुराग); (जस० १, ८, १) । कज्जु—पुं० (सं० कार्यम्) कार्य; (विला०; हे० ३४३,

२) । कज्जे—पुं० कारण, हेतु, के लिए, "सिरिकण्ठकज्जे थिउ देवि सिर" अर्थात् 'श्रीकण्ठ के लिए अपना सिर तक देने को तैयार था'; (प० च० १२, ५, ५) ।

कज्जल—न० (सं० प्रा० कज्जल) काजल; (की० २, ८९) ।

कज्जलध्वज—पुं० (सं० कज्जलध्वज) दीपक; (की० १, ८) ।

कज्जव—पुं० (दि०) विष्टा; (प० च० २, ११) ।

कज्जे^(१)—प० (सं० कार्य) के लिए ।

कज्जेण—सर्व० (सं० कः+पुनः>प्रा० कवण) कौन; (की० ३, १९) ।

कञ्चण—न० (सं० काञ्चन>प्रा० कंचण) सोना; (प० च० १, ५, ८) ।

२- पुं० कंचन नामक वृक्ष; (प० च० ३, १, १०) ।

कञ्ची—स्त्री० (सं० काञ्चि, ञ्ची>प्रा० कंची) काञ्ची नगर; (प० च० ४६, ८, ६) ।

कञ्चु—(सं० कञ्चुक>प्रा० कंचुअ, कंचु) चोली, स्त्री का स्तनाच्छादक वस्त्र; (प० च० २६, ११, ६) ।

कञ्चुआ—स्त्री० (सं० कञ्चुकं>प्रा० कंचुअ, कंचु) कञ्चुक, चोली; (हिं० ४३१, १) ।

कञ्चुय—पुं० (सं० कञ्चुक>प्रा० कंचुअ, कंचु) कवच, वसस्त्राण, जिरह-वस्त्र; (प० च० ४, ७, १०) ।

कज्ज—पुं० (सं० कज्जः) कमल; (प० च० १८, ६, १) ।

कटक—पुं० (सं० कटक) सेना, राजनि-विर; (की० ३, ९२) । —नाल पुं० (सं० कटकपाल) सेनापति; (उ० व्य० प्र० ५१-११) ।

कटकाई—स्त्री० सेना की यात्रा, फौज की कूच; (की० ३, १५६) ।

कटकात्री—स्त्री० कटकाई, कटक या सेना का प्रयाण; (की० ४, १०६) ।

कटरि—अव्य० आश्चर्य, आश्चर्योद्गार; (सवि० १, ८, ५) ।

कटाक्ष—पुं० (सं० कटाक्ष) १- तिरछी चितवन, २- किसी पर आक्षेप करने के लिए कही जाने वाली कोई व्यंग्यपूर्ण बात; (की० २, १५१) ।

कटारिय—न० (दि०) कटारी, धुरिका; (सि० २, २४) ।

कटारी—स्त्री० (दि०) कटारी, छुरी; (दि० ना० मा० २, ४) ।

√कट्ट—(सं० कृत्>प्रा० कट्ट) काटना, छेदना । —इ, क्ति० (सं० कर्त-यति) तुल० म० काटणे, गु० काटवुं (म०) । कट्टि-पू० का० क्ति० कट कर; (की० ३, ७) । कट्टिअ, (प्रा० पै० १, १३४) । —द्विवि पू० का० क्ति० (क० ८, १०, ६) । कट्ट-वि० (सं० कर्तुं) कर्ता; (पइ) ।

कट्टण—न० (सं० कर्तन>प्रा० कत्तण) काटना; (सि० ६, १५) ।

√कट्ठ^१—(सं०√कर्प्) काटना, निकालना कट्ठण्ड; (प्रा० पै० २, ७१) ।

कट्ठ^२—न० (सं० काठ) काठ लकड़ी; तुल० म० काठी; (प० ५, १२, १०) ।

कट्ठाइ (काष्ठ+आदि); (जं० ११, १५, ६) । - कम पुं० न० (सं० काष्ठ+कर्म) काष्ठकर्मन्, काठ का काम, व्यापार; (जस० १, २४, ४) । -मअ-वि० (सं० काष्ठमय) लकड़ी-युक्त; (ए० ६, ७, १०) । कट्ठिय-घर—वि० (सं० काष्ठिका-घर) लकड़ी को रखने वाले; (प० च० ३, ५, १०) । कट्ठियवाले—पुं० (सं० काष्ठिका+पाल) दण्डधारी; (प० च० ३, ६, ९) । कट्ठीहर—वि० (सं० काष्ठ+घर > कट्ठ+घर) काष्ठ-घर, पहरेदार “कट्ठीहरम्मि आउच्छियए,” यष्टिधारी पहरेदार ने पूछा; (सुद० ८, १२, ५) ।

कट्ठ^१—पुं० (सं० कष्ट > प्रा० कट्ठ) दुःख, पीड़ा, व्यथा; (की० ४, १२३) । —डा पुं० कष्ट (दे० सा० दो०) । —भार पुं० कष्टभार; (जं० १०, १३, १) । —मय वि० कष्टमय; (जं० ६, १, ६) । —वुत्तं पुं० (सं० कष्ट+उक्त) (ण० ६, १७, २७) । कट्ठे—पुं० कष्ट; (की० ३, १०५) ।

कट्ठिअ—पुं० (दे०) चपरासी, द्वारपाल, प्रतिहार; (दे० ना० मा० २, १५) । कट्ठियघर—वि० (सं० काष्ठघर) काष्ठ को धारण करने वाला, दण्डघर; (जं० ७, ७, ११) ।

कठिण—वि० (सं० कठिन > प्रा० कट्टिण, कठिण) १- कठिन; (सं० रा०; भ०) । २- कठोर; (प्रा० पै० १, ७६) ।

कठिणि—स्त्री० (सं० कठिनी) मेखला, करघनी; (रि० ६, १) ।

कट्टु—न० (सं० कष्टम् > प्रा० कट्ठ) दुःख, पीड़ा, व्यथा; (उ० व्य० प्र० ४६-११) ।

कडंतर—न० (दे०) पुराना सूर्प (छाज) आदि सामग्री; (दे० ना० मा० २, १६) ।

कडंतरिअ—वि० (दे०) विदारित, विनाशित; (दे० ना० मा० २, २०) ।

कडंभुअ—न० (दे०) १- कुम्भगीव-नामक पात्र-विशेष, २- घड़े का कण्ठ-भाग; (दे० ना० मा० २, २०) ।

कडअ—पुं० (सं० कटक) छावनी; (जं० ६, १, १८) ।

कडअल्ल—पुं० (दे०) द्वारपाल, प्रतिहार; (दे० ना० मा० २, १५) ।

कडअल्लो—स्त्री० (दे०) कण्ठ, गला; (दे० ना० मा० २, १५) ।

कडइअ—पुं० (दे०) बढई, स्थपति; (दे० ना० मा० २, २२) ।

कडइल्ल—पुं० (दे०) प्रतिहार, दरवान; (दे० ना० मा० २, १५) ।

कडउ—पुं० (सं० कटक) कड़ा, कंकण, चूड़ा; (जं० ३, १४, १३) ।

कडउल्ल—पुं० न० (सं० कटक+उल्ल (स्वार्यं)] सेना के रहने का स्थान; “को रक्खइ एवहिं कडउल्लउ” —ऐसी अवस्था में कौन कटक की रक्षा करे; (ण० ३, १३, १०) ।

कडउल्ला—पुं० (दे०) आभूषण-विशेष, कटिसूत्र; तुल० गु० कडलु; (प० च० १४, ५, ७) ।

कडकियं—वि० (सं० कडकडकृत) कडक-ढायित (ध्वन्य०); (जं० ७, ८, १२) ।

√कडकल—सक० (सं० कटाक्षय) कटाक्ष करना। —इ, क्रि० (सं० कटाक्षयति) (भ०; जं० ११, १४, ११)।

कडकल—पुं० (सं० कटाक्ष > प्रा० कडकल) कटाक्ष, तिरछी चितवन, आँख का संकेत, भावयुक्त दृष्टि; तुल० म० कडाखा; (सं० रा०; प्रा० पै० १, ४; ण० ६, १४, २; म० २, ७८, ३)।

कडकलण—न० (सं० कटाक्षण) कटाक्ष करना; (भ०)।

कडकलिय—वि० (सं० कटाक्षित) जिस पर कटाक्ष किया गया हो वह; (जं० २, २०, ११)।

कडकल—पुं० (सं० कटाक्ष > प्रा० कडकल) कटाक्ष, तिरछी चितवन; (जं० ६, १३, ५)।

कडकल—स्त्री० (दे०) चमची, करदुल, कछी; तुल० पं० कडली; (दे० ना० मा० २, ७)।

कडकल—न० (सं० कटितल > प्रा० कडकल) कटितल, कटि-प्रदेश; (सि० २, २४)।

कडकल—स्त्री० (दे०) लोहे का एक प्रकार का हथियार, जो एक धार वाला तथा वक्र होता है; (दे० ना० मा० २, १६)।

कडकलिय—वि० (दे०) विदारित, विनाशित; (भ०)।

कडकल—पुं० का० क्रि० कड-कड करके; (रि० ५, ८)।

कडकलिय—वि० (दे०) १- छिन्न, काटा हुआ; २- न० छिद्रता; (पड)।

कडकलिय—वि० (दे०) दारित, चीरा हुआ; (भ०)।

कडकल—पुं० (दे०) कलाप, समूह, निकर; तुल० पुं० कडपली, म० कडप्पा; (पं० च० १३, ६, १; भ०)। कडकल (पं० च० १३, ८, ४)।

कडकलण—पुं० विनाश, विध्वंस; (पं० च० ३६, ५, ३)। विनाशक; (पं० च० ३७, १३, १)।

कडकल—पुं० न० (सं० कटक > प्रा० कडकल, कडकल) १- शिविर, सेना का रहने का स्थान; (ण० ७, १०, ३)। १- सेना; (सि० २, १४)। २- आभूषण; (च० १०, ३१, १६)। ४- कड़ा; (जं० २, २०, २१)।

कडकलड—व० कृ० (सं० कडकलय + शतृ) (ध्वन्या०) कड़-कड़ की आवाज करते हुए; तुल० पुं० कडकडतुं; (जं० ११, १५, ६)।

कडकलड—पुं० (सं० कडकड > प्रा० कडकलड) कटकट या कड़-कड़ की आवाज; (म० २, ८१, ७; ण० ४, १५, ६)।

कडकलडिय—वि० (सं० कडकलयति, ध्वन्या०) कड़-कड़ की आवाज करने वाला; (जं० ७, ५, ६)।

कडकलडियण—पुं० (सं० कृत + विमर्दन) १- रौंदना, कुचलना, २- नाश, ध्वंस, "पत्तमोह-पडिय-जोह-कडकलडियण"; मूच्छित होकर; पड़े हुए योद्धाओं का मर्दन हो रहा था; (जं० ६, १०, ४)।

कडकली—स्त्री० (दे०) श्मशान; (दे० ना० मा० २, ६)।

कडकल—पुं० (सं० कटमु > प्रा० कडकल)

वृक्ष-विशेष, कटहल; (जंजू० ५, ८, १०) ।

कडाय—पुं० (सं० कटाह > प्रा० कडाह) कडाही; (व० ४, २१, १३) ।

कडार—न० (दे०) नारियल; (दे०-ना० मा० २, १०) ।

कडाह—पुं० (सं० कटाह > प्रा० कडाह) कडाह, लोहे का पात्र, लोहे की बड़ी कड़ाही; तुल० म० कढई, बडें; (जस० २, २८, ३; भ०) । २- वृक्ष-विशेष; (प० च० ५३, ७६) ।

कडाहपल्हस्तियं—न० (दे०) 'दोनों पाश्वर्कों का पलटाव या उलट-फेर, पाश्वर्कों का घुमाना-फिराना; (दे० ना० मा० २, २५) ।

कडि—१- स्त्री० (सं० कटि > प्रा० कडि) कमर, कटि; (जस० १, १६, ३) । —हृत्पुं० (सं० कटि+हस्त) कमर पर रखा हुआ हाथ; (दे० ना० मा० २, १७) । २- स्त्री० तलहटी, "उदयायल-कडिणि परिट्टिओवि"—उदयाचल की कटमी—तलहटी में स्थित होने पर भी; (व० ६, ८, ८) ।

कडिअ—वि० (दे०) प्रीणित, प्रसन्न किया हुआ; (षड्) ।

कलिखंभ—पुं० (दे०) कमर पर रखा हुआ हाथ; (दे० ना० मा० २, १७) । २- कमर पर किया हुआ आघात; (दे० ना० मा० २, १७) ।

कडित्त—पुं० (सं० कटित्त १- करघनी, मेखला, २- घोती, कमरबंद; (म० २, १५, २) ।

कडित्तु—न० (दे०) जुआ खेलने का

तस्ता या फलक, द्यूतफलक; "कि कडित्तु णं णं गयणंगरु" अर्थात् द्यूतफलक क्या है मानो गगनरूपी आंगन है; (ण० ३, १२, ५) ।

कडिदोरय—पुं० (सं० कटिदोरक) कटिसूत्र; (सुदं० ३, ७, ८) ।

कडिपरिहाण—पुं० (सं० कटि+परिघान) कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र; (जंजू० ६, १२, १३) ।

कडिबिब—पुं० (सं० कटि+विम्ब) कटितल, "वियडकडिबिबखिन्नाएँ थक्किज्जए" - 'जहाँ अपने कटितल की विशालता से क्लान्त हुई'; (जंजू० ५, ६, ११) ।

कडियल—न० (सं० कटितल > प्रा० कडियल) कटी-प्रदेश; (भ०) ।

कडित्तल—(दे०) १- वन (प० च० २, ५२) । २- वि० छिद्र-रहित; (दे० ना० मा० २, ५२) । ३- न० (दे०) कटिवस्त्र, कमर में पहनने का वस्त्र; (भ०) । ४- विपक्ष, शत्रु; (दे० ना० मा० २, ५२) । कडित्तलई—न० कटिवस्त्र (रि० ६, ७) । —य (प० च० ४६, ५, ६; दे० ना० मा० २, ५२) ।

कडिसरउ—न० (सं० कटिसूत्र > प्रा० कडिसुत्त) करघनी, मेखला, कमर में पहनने का एक गहना; (प० च० १३, ६, ३) ।

कडिसुत्त—न० (सं० कटि+सूत्र > प्रा० कडिसुत्त) कमर का आभूषण, मेखला, (ण० ३, १०, ५; भ०) —य (सं० कटिसूत्र+क) मेखला; (जस० १, ६, ६) ।

कडिहार—न० (सं० कटिहार) कमर पर पहने जाने वाला आभूषण; “कडिहारदोरकुंडलधरहो,” अर्थात् कटिहार, कटिसूत्र और कुण्डलों को धारण करने वाली; (जंबू० ३, ३, १४) ।

कडु—वि० (सं० कटुक > प्रा० कडुअ) तिक्त रस वाला, कडुआ; (ण० ३, १४, २; हे० ३३६, १) । —यत्न वि० कटु; (जस० ३, १२, १५) । —यसर पुं० (सं० कटुक + स्वर) कटु स्वर; (जस० १, १४, ७) ।

कडुआल—पुं० (दे०) घण्टा; (दे० ना० सा० २, ५७) ।

कडुआविय—वि० (सं० कटु + वृत्त > प्रा० कडुइय) १-कडुआहट से पूर्ण, (प० च० ११, १२, ५) । २- चिन्तित, भारी विषय में फंसा हुआ, खराब; (भ०) । ३- पीड़ित, पराभूत; (प० च० २५, १५, ७) ।

कडुवक—वि० (सं० कटुक > प्रा० कडुअ) कडुआ, तिक्त; (जंबू० ७, ६, १०) ।

कडुवा—वि० (सं० कटुक > प्रा० कडुअ) कडुवा; तुल० गु० कडवुँ, म० कडूँ; (प० च० १२, ७, १) ।

कडुरडिय—पुं० (सं० कटु + रटित) कटु रदन; (जंबू० ४, २२, १८) ।

कडुवयण—पुं० (सं० कटु + वचन) कडुवे वचन; (जंबू० ६, १२, ६) ।

कडेवर—न० (सं० कलेवर > प्रा० कडेवर) कलेवर, शरीर, देह; (प्रा० गु० ३६, २८) ।

√कडड—(सं० कृप् > प्रा० कडड) खींचना । —इ सक० (सं० कर्पति);

भ० । —मि क्रि०, व० निकालना, खींचना; (प० च० १५, २, ७) । कडडंत-व० कृ० (कृप् + षत्) (जंबू० ४, १५, १६) । कडडंतल-कृ० खींचते हुए; (विला०) । कडडि-भू० का० निकालनी; (की० ३, ७२) । कडडिज्जइ-क्रि०, व० खींच लिया जाना, काट लिया जाना “वच्चु पियंतु खीर कडडिज्जइ” वछड़े के पीते-पीते ही गाय का दूध काट लिया जाता है, (ण० ६, ६, २) । कडडिवि-पू० का० क्रि० निकाल कर (ण० ४, ११, ३) । कडडेवि पू० का० क्रि० खींच कर; (मुदं० ८, १८, ४) । तुल० म० काटणे ।

कडडण—न० (सं० कर्पण > प्रा० कडडण) आकर्षण; (जंबू० ७, ६, २६) ।

कडडणिय—वि० (सं० कर्पणीय) निकसनशील; (जंबू० ५, ७, २४) ।

कडडय—वि० (सं० कर्पक) खींचने वाला; (जस० ३, २२, १) ।

कडडाकडडि—स्त्री० (सं० कर्पापकर्पि) खींचतान करते हुए लड़ना; (fight involving mutual tugging and pulling) (प० च० ५२, ६, ५) ।

कडडियु—वि० कठिन; (व० ५, १, ६) ।

कडडिये—वि० (सं० कृष्ट > प्रा० कडडिये) निकाला हुआ, खींचा हुआ; (ण० ५, १, ६; प० च० १४, १३, ६) ।

कडडिय—क्रि० भू० का० (सं० कृष्ट > प्रा० कडडिये) आकर्षित किया; (रि० ३, १) ।

कड—सक० (सं० क्वय्) १- क्वाथ

करना २- उबालना, ३- तपाना, गरम करना। कड़ंत-व० कृ० (सं० क्वय् + शतृ); (जं० २, २, २)।

कढए—पुं० न० (सं० कटक > प्रा० कडग) पर्वत का मूल भाग; (प० च० ७, १, २)।

कढन्ता—कृ० का० वर्तमान में प्रयोग क्रिया की तरह हुँदुआहुँ है सं० कृप् का धात्वादेश प्रा० कड्ढ = पढ़ना, उच्चारण, करना, (हे० प्रा० ध्या० ४, १८७) + 'अन्त' (शतृप्रत्यान्त); (की० २, १७२)।
 √कढकढकढ—कड़-कड़ की आवाज के साथ उबलना (boil intensely)।
 —न्ति-क्रि० व०, व० (प० च० २७, ५, ६)।

कढकढकढेंत—वि० (सं० कडकडायमान) कड़-कड़ आवाज करता; (प० च० २१, ५०)।

कढकढन्त—व० कृ० (सं० क्वयन्) क्रोध से जलते हुए; (भ०)।

कढिआ—स्त्री० (दे०) कढ़ी, भोजन-विशेष; (दे० ना० मा० २, ६७)।

कढिएण—वि० (सं० कठिन > प्रा० कठिण) कठिन, कर्कश, कठोर; (ण० ७, ७, ६)। —त्तु पुं० काठिन्य; (व० ३, २३, ११)।

कढियल—न० (सं० कटि + तल > प्रा० कडियल) कटी-प्रदेश; (ण० ३, १०, ५)।

कढियाइ—स्त्री० कढ़ी, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ; (दे० ना० मा० २, ६७)।

कढोर—वि० (सं० कठोर) कठोर,

निष्ठुर; (प० च० २३, १५, ६)। पुं० इस नाम का एक राजा; (प० च० ३२, २३)।

√कण—क्रि० (सं० क्वण् > प्रा० कण) शब्द करना, आवाज करना। —इ सक० (ण० १, ७, ३)। व० कृ०—कणंत (ण० ८, १, ४)। कणेइ—व० ध्वनि करना; "सरिकमलु धुणइ दीहरु कणेइ; (क० ४, १५, ६)।

कण—पुं० (सं० प्रा० कण) १- धान्य; (व० २, ११, १०)। २- कन, कण, लेश, अंश; तुल० पुं० कणी (a small particle) (व० २, १७, १२; सं० रा०, जस० १, ३, ११)। —भर वि० कण-भर (धान्यभार); (जस० ४, २३, ८)।

कणअ—पुं० (सं० कनक > प्रा० कणग) सोना; (प्रा० पै० १, १०)। २- प्रथम द्विकल गण (S) का नाम; (प्रा० पै० १, १३३)। ३- राजा जनक के भाई; (प० च० २७, २५)। ४- राक्षस योद्धा; (प० च० ५६, ३२)।

कणइर—कंठ—न० सं० कर्णिकार + कम्ब) कर्णिकार-यष्टिका, कनेर के वृक्ष की लकड़ी; तुल० गु० कणेरनी कांब; (प्रा० गु० २, ३, २५)।

कणइलु—पुं० (सं० कर्णफल) करनफल, कान का एक आभूषण; (पुष्पदंत, आदि-पुराण)।

कणइल्ल—पुं० (दे०) चुक, तोता; (दे० ना० मा० २, २१)।

कणई—स्त्री० (दे०) लता, वल्ली; (दे० ना० मा० २, २५)।

कणउज्ज—पुं० (सं० कान्यकुब्ज) नगर-
विशेष; (क० २, १०, ४) ।

कणए—पुं० (दे०) वाण; (प० च०
११, ८, ४) ।

कणओघरी—स्त्री० रानी-विशेष का
नाम; (प० च० १७, ५५) ।

कणकाणिय—वि० (सं० कणक्वणित)
कण-कण आवाज वाला; (सुदं० ७, ६,
३) ।

कणग—पुं० मत्तिघावई का एक वणिक्;
(प० च० ४८, १६) । —प्पह पुं०

विद्याधर राजा; (प० च० १०३, १०८) ।

कणयंदी—स्त्री० (दे०) वृक्ष-विशेष,
पाढल; (दे० ना० मा० २, ५८) ।

कणय—न० (सं० कनक > प्रा० कणग,
(कणय) सुवर्ण, सोना; (ण० १, ६,
१३; सं० रा०; सा० २११) । पुं०

(दे०) शर, वाण, तीर, इपु, (प० च०
२, ५, ६) । पुं० राजा जनक के एक

भाई का नाम, (प० च० २८, १३२) ।

रावण का इस नाम का एक सुभट; (प०
च० ५६, ३२) —वनी स्त्री० कणया-

वली; एक राज-पत्नी; (प० च० ७,
४५) । —उरु पुं० (सं० कनकपुर)

नगर-विशेष; (व० ७, ११२) । —कूट
कनककूट (व० १, १२, ७) । —कूला

स्त्री० (सं० कनककूला) नदी-विशेष;
(व० १०, १६, ३) । —देवि स्त्री०

(सं० कनकदेवी) दिक् कुमारी। (व०
६, ५, १०) । —द्वज पुं० (सं० कनक-

ध्वज) राजकुमार; (व० ७, १२, १०) ।

—प्पभा स्त्री० रावण-स्त्री; राजा मरुअ
की पुत्री; (प० च० ११, १००) ।

—प्पह स्त्री० (सं० कनकप्रभा) कन्या;
(व० ७, ३, १०) । —प्पहु पुं० (सं०

कनकप्रभ) राजा-विशेष, (व० ७, २,
१) । —मइ स्त्री० (सं० कनकवती)

स्त्री-विशेष का नाम; (क० ६, १४,
६) । —मय वि० (सं० कनकमय)

सोने से युक्त; (जस० २, १३, १) ।

—माल स्त्री० (सं० कनकमाला) स्त्री-
नाम-विशेष; (व० ३, १६, २) ।

—माला स्त्री० (सं० कनकमाला) कुस
की स्त्री; (प० च० ६८, ४) । —रह

पुं० कंचण नगर का विद्याधर राजा;
(प० च० १०६-१, २) ।

कणय-डोर—स्त्री० (सं० कनक+दोर
> प्रा० कणग, कणय+दोर) सोने की

करधनी; तुल० गु० कन्दोरो; (प० च०
७, २, ७) ।

कणयदीद—पुं० (सं० कनकद्वीप) एक
द्वीप या देश का नाम; (भ०) ।

कणयसिरी—स्त्री० विद्याधररानी; (प०
च० ६, २४१) ।

कणया—स्त्री० (सं० कनक > प्रा०
कणग) सोना; (सि० २, १८) । —भा

स्त्री० १- सोदास की रानी; (प० च०
२२, ७६); २- सत्तुदमण की रानी;

(प० च० ३८, २७); ३- पियवय की
पत्नी; (प० च० ३६, ७६); ४- अयल

की माता; (प० च० ८८-१७);

५- विद्याधर रानी; (प० च० १०३,
५८) ।

कणयावली—स्त्री० १- विद्याधर राज-
पुत्री; मालवंत की स्त्री; (प० च० ६,

२४१) । २- लोकपाल कुबेर की माता; (प० च० ७, ४५) ।

करणंति—क्रि० कन-कन का शब्द होना, कनकना उठना, “करणंति कडियलकिकणियउ,” (ण० ७, १४, ११) ।

कणा—स्त्री० कन्या (प० च० १२, ४, १) । कणालगउ कृ० (सं० कर्ण+आलग्न) कान से लग कर; (ण० ३, १७, १२) ।

कणिआरिअ—वि० (दे०) १- कानी आंख से जो देखा गया हो वह, २- न० कानी नजर से देखना; (दे० ना० मा० २, २४) ।

कणिउ—न० (सं० क्वणित) ध्वनि “किकिणकणिउ सुणे विहसंतउ,” घंटियों की ध्वनि सुनकर हँसने लगा; (सुदं० ३, ७, ८) ।

कणिका—स्त्री० (सं० कणिक) रोटी के लिए पानी से भिगोया हुआ आटा; (दे० ना० मा० १, ३७) ।

कणिक—स्त्री० (सं० प्रा० कणिका) गुँधा हुआ आटा लोई; (dough); तुल० गु० कणक, कणक । कणिका, कणिकका दे० ना० मा० १, ३७) । (प० च० ४५, १२, ४) ।

कणिट्ठ—वि० (सं० कनिष्ठ > प्रा० कणिट्ठ) लघु, छोटा; (ण० ४, ७, ९) । —अ वि० (सं० कनिष्ठ+क) लघु; (जस० ४, २४, ४) ।

कणिय—स्त्री० (सं० कणी) कणी, कनी, कणिका; “हीरयकणिय कवरु फिर पावइ,” (जंबू० ११, १३, २) ।

कणियार—पुं० (सं० कणिकार) कनेर का वृक्ष; (जंबू० ५, ८, ११) ।

कणिर—वि० (सं० क्वणितृ) आवाज करने वाला; (भ०) । क्वणित; (जंबू० ३, ८, ३) ।

कणिस—न० (सं० कणिश) धान की बाल, धान्य का अग्रभाग; तुल० म० कणिस cornear; (दे० ना० मा० २, ६; ण० १, १३, ५) । न० (दे०) सस्य (अन्न, किसी वृक्ष के केल का अग्रभाग) “धान्यशीर्षनाची तु कणिस शब्दः संस्कृत-भवः”; (दे० ना० मा० २, ६) ।

कणोड्डिआ—स्त्री० (दे०) गुञ्जा, घुँघची; (दे० ना० मा० २, २१) ।

कणोवअ—न० (दे०) गरम किया हुआ जल, तेल आदि; (दे० ना० मा० २, १६) ।

कण्ठाइ—न० (सं० कण्ठिका > प्रा० कंठिआ) गले का आभूषण, तुल० गु० कंठी; (प० च० ७, २, ६) ।

कण्ठि—स्त्री० (सं० कण्ठ > प्रा० कंठ) कण्ठ, घाँटि; (हे० ४४४, १) ।

कण्ठिय—स्त्री० (सं० कण्ठिका > प्रा० कंठिआ) कंठा, गले का एक आभूषण; (प० च० १, ४, ३) ।

कण्ड—पुं० न० (सं० काण्ड > प्रा० कंड) ब्राण, शर; (की० ४, १७२) ।

कण्डाकण्डि—स्त्री० काण्डाकाण्डि (a fight employing arrows); (प० च० ५२, ६, ३) ।

कण्डुइय—क्रि० (सं० कण्डूय > प्रा० कंडुअ, कंडुअइ) खुजवाना, “लङ्गूलदण्ड कण्डुइय-सिरु” अथत्ति जो पूँछ के दण्ड से अपने सिर को खुजला रहा है,

(प० च० १६, ७, १०) ।

कण्डूल—पुं० काण्डोर, दाशरथी भरत के साथ दीक्षित राजा; (प० च० ८५, ५) ।

कण्णंजलि—स्त्री० (सं० कण्णञ्जलि) कर्ण रूपी अंजलि, “जिण वयणु-रसायणु पवित्रलुवि, कण्णंजलि-पुडहि पियहि खलु वि,” अर्थात् दुष्ट स्वभाव होते हुए भी उस सिंहे ने जिनवाणी रूपी रसायन का अपने कर्ण रूपी अंजलि-पुटों से पान किया; (व० ६, १६, २) ।

कण्णंत—पुं० (सं० कर्ण + अन्त > प्रा० कण्णंत) कानों का सिरा; “कण्णंतपत्तन-यण जि धवला सिरभाह पुष्फमाला विमला,” — उसके नेत्र कानों के सिरे तक पहुँचे हुए हैं, तथा धवल पुष्पमाला उसके सिर पर भारमात्र है; (जंबू० ५, २, १६) ।

कण्णंबाल—न० (दे०) कान का आभूषण-कण्डल आदि, (दे० ना० मा० २, २३) ।

कण्ण—पुं० (सं० कर्ण) राजा का नाम, कुन्तीमुत (प्रा० पं० १, ६६, जस० १, ५, १) । स्त्री० (सं० कन्या > प्रा० कण्णा) कन्या, जस० १, १५, १) । पुं० द्विगुरु चतुष्कल गण का नाम (SS), (प्रा० पं० २, ८८) । १- पुं० (सं० कृष्ण > प्रा० अप० कन्ह) कृष्ण; (की० २, ५१) । २- (सं० प्रा० कण) कण, (सुदं० ३, ८, ४) । पुं० कर्णराज, (जंबू० १०, १, ६) । पुं० किनारा, (जंबू० ५, १०, २४) । पुं० न० (सं० कर्ण > प्रा० कण्ण) कान; (ण० १, १५,

४; की० ३, १) । —पवित्त (सं० कर्णप + मात्रम्) कान का आभूषण (ण० ३, १३, ५) । —पुड पुं० (सं० कर्ण-पुट; (जंबू० ३, १, २) । —माणु वि० (१) विनयशील, लज्जायुक्त, (२) कर्ण + मरज (सम्मान); (सुदं० २, ३, ३) । —रख पुं० (सं० कर्ण + ख) कानों में होने वाली आवाज; (क० ४, ६, ५) । —रवा स्त्री० सं० कर्णरवा, नदी-विशेष; (प० च० ४०, १३) । —वडिख वि० (सं० कर्ण + पतित) जोर के दारण कान में पड़ी हुई या आयी हुई आवाज सुनाई न पड़ना; (जंबू० ४, ७, १३) । —सूल पुं० (कर्णसून) कान की पीड़ा; (जस० ४, ६, ३) । —हीण वि० (सं० कर्ण + हीन) बहरा; (जंबू० ६, २, ६) ।

कण्णल—स्त्री० (सं० कन्या > प्रा० कण्णा) कन्या, लड़की; (सि० २, ११, रि० १, १३) ।

कण्णलज्ज—पुं० (सं० कान्यकुब्ज > प्रा० कण्णलज्ज) कन्नौज नगर; (जंबू० ६, १६, १३) ।

कण्णलाड—पुं० (सं० कर्ण + जाप > प्रा० कण्ण + जाव) मन में देवता का स्मरण; कान में मन्त्र का जाप या जप, “मुणि कण्णलाड दिण्णल वरेण,” मुनि ने कान में णमोकार मंत्र का जाप दिया; (क० ८, २०, ८) ।

कण्णलड—पुं० (सं० कर्णाट > प्रा० कण्णाड) कर्नाटक प्रदेश, कन्नड़वासी व्यक्ति; (सि० २, ६) ।

कण्णलडय—पुं० (सं० कर्ण > प्रा० कण्ण) १. कर्ण, कान, २. काना, वस्तु के छोर

का एक अंश (हे० प्रा० व्या० ४, ४३२) ।
कण्णवान—पुं० (सं० कन्यादान) विवाह
वर को कन्या देने की रीति; (व० ४, ४,
६) ।

कण्णला—पुं० (सं० कर्णाट > प्रा०
कण्णाड) कर्णाट देश के लोग; (प्रा० पै०
२, १२८) ।

कण्णस्सरिय—वि० (दे०) १. कानी
दृष्टि से देखा हुआ २. न० कानी
दृष्टि से देखना; (दे० ना० मा० २,
२४) ।

कण्णा—स्त्री० (सं० कन्या > प्रा०
कण्णा) कन्यारत्न; (व० ८, ४, ४) ।

कण्णाउज—पुं० (सं० कान्यकुब्ज नगर-
विशेष; (ण० ५, २, ११) ।

कण्णाड—पुं० (सं० कर्नाट > प्रा०
कण्णाड) प्रदेश-विशेष, जो आजकल
कर्नाटक नाम से प्रसिद्ध है; (जंबू० ६,
६, ११) ।

कण्णाडि—स्त्री० (सं० कर्णाट > प्रा०
कण्णाड, पुं०) कर्णाटि स्त्री, कर्णाट
(आजकल कर्नाटक) देश की स्त्री, कर्ना-
टक वासिनी, कर्नाटी; (जंबू० ४, १५,
६) । कण्णाडी; (सुदं० ४, ६, ६) ।

√कण्णारय—(सं० कर्ण + आर) आंकुस
या पैना चूभोना (to goad); (प० च०
४३, ६, ११) कण्णारिउ-भू० का०;
कानों के पास अंकुश लगाया, (प० च०
१६, १४, २) कण्णारियय-भू० का०
पैना चूभोया (goaded); (प० च०
२७, १०, १) ।

कण्णारयण—पुं० (सं० कन्या + रत्न)
कन्यारत्न, कन्या रूपी रत्न; (जंबू०

७, १३, ६) ।

कण्णावत्तंस—पुं० (सं० कर्ण + अवत्तंस)
करनफूल, कान की वाली, वालीनुमा एक
आभूषण; (जंबू० ४, १५, ६) ।

कण्णास—पुं० (दे०) पर्यन्त, अन्त-
भाग; (दे० ना० मा० २, १४) ।

कण्णिम्मा—स्त्री० (सं० कर्णिका) कमल
का बीज-कोप; (दे० ना० मा० ६,
१४०) ।

कण्णिय—स्त्री० (सं० कर्णिका > प्रा०
कण्णिआ) वाण-विशेष; (जंबू० ७, १०,
५) ।

कण्णुप्पल—न० (सं० कर्णात्पल) कान
का आभूषण-विशेष; (व० ४, ६, ३) ।

√कण्णे—कान देना; (प० च० १२।६
२) ।

कण्णोच्छडिआ—स्त्री० (दे०) दूसरे की
वात छिपकर सुनने वाली स्त्री; (दे० ना०
मा० २, २२) ।

कण्णोडिडआ—स्त्री० (दे०) स्त्रियों का
पहनने का वस्त्र-विशेष; (दे० ना० मा०
२, २०) ।

कण्णोत्ती—स्त्री० (दे०) १. चञ्चु,
२. चोंच; भूषण-विशेष, शेखर; (दे० ना०
मा० २, ५७) ।

कण्णोवगण्णिम्मा—स्त्री० (सं० कर्णाक-
णिक) कानाफूसी, चर्चा, कानाकानी;
(दे० ना० मा० २, ६१) ।

कण्णोस्सरिय—(दे०) देखो कण्णास्स-
रिय; (दे० ना० मा० २, २४) ।

कण्ह—पुं० (सं० कृष्ण > प्रा० कण्ह)
श्रीकृष्ण, माता देवकी और पिता वासुदेव
से उत्पन्न नववां वासुदेव; (ण० ७, १५,

३)। —डणंदण पुं० (सं० कृष्ण + नन्दन) कृष्ण के पुत्र गन्धर्व, “गन्धर्वे कण्हडणंदणे”; (जस० ४, ३०, १४)।

—पुत्त पुं० (सं० कृष्ण + पुत्र) कृष्ण का पुत्र पण्डित ठाकुर; “हो पण्डियठकुर कण्हपुत्त; (जस० ४, ३०, ४)। —राय पुं० (सं० कृष्णराज) पुरुष-विशेष; (ण० १, १, ११)।

कण्हवण्ण—स्त्री० (सं० कृष्णववर्णा) नदी-विशेष; (प० च० ३६, १, ३)।

कण्हायण्णु—न० (सं० कृष्ण + अजिन) कृष्ण-मृगर्च, काले हिरन का रोंएदार चमड़ा; (ण० ६, ६, ५)।

कण्ह—पुं० (सं० कृष्ण > प्रा० कण्ह) श्रीकृष्ण, माता देवकी और पिता भ्रामु-देव से उत्पन्न नववाँ वासुदेव; (महा०)।

कत्त—वि० (सं० कत्ति) कितने अनेक; (की० ३, ६६)। अव्य० (सं० कुत्त) कहीं; (रा० १६)। अव्य०—क्यों; (की० ३, १४८); कौन; (की० ४, ५८); कैसा; (की० ४, ८४)। —न्हिक वि० कितनों का; (की० ४, ८८)। —हुं अव्य० (सं० कुत्त) कहीं; (रा० १६)।

—हुं कहीं; (की० २, १६४)। कतेहु—वि० (सं० कत्ति) कितने ही; (की० २, ७४)।

कत्तवार—पुं० (दे०) कूड़ा-करकट (दे० ना० मा० २, ११)।

कत्त—अव्य० (सं० कुत्त > प्रा० कत्तो) कहां तक; (की० ३, १३६)। वि० (सं० कियत् > प्रा० कित्त) कितनी; (की० ३, १३८)।

कत्तउ—वि० (सं० कर्त्तु > प्रा० कत्तु)

कर्ता, करने वाला; (व० २, ६, ८)।

कत्तरि—स्त्री० सामरिक या युद्ध संबंधी साहसिक कार्य; “ढोक्करकत्तरिकरणप-वंचइ;” (भ० २, २, ७)।

कत्तरी—स्त्री० (सं० कर्त्तु > प्रा० कत्तरी) कतरनी, कैंची; (ण० ६, १८, १२)।

कत्तविरिय—पुं० सावत्थी नरेश; चक्र-वर्ती सुभूम के पिता; (प० च० २०, १३६)।

कत्तार—वि० (सं० (कर्त्तु) कर्ता, करने वाला; (जस० २, १६, १३)।

कत्ति—स्त्री० (सं० कृत्ति > प्रा० कत्ति) चर्म, चमड़ा (ध्यात्र आदि का चर्म); (जस० १, १६, १४)।

कत्तिवेअ—पुं० (सं० कार्तिकेय) महा-देव का चक्र पुत्र, पडानन; (दे० ना०-मा० ३, ५)।

कत्तिग—पुं० (सं० कार्तिक > का० कत्तिय) कार्तिक मास; (प्रा० गु० २३, ११)।

कत्तिय—स्त्री० (सं० कर्त्तु > प्रा० कत्तरी) कटार; (ण० ६, ६, ७)। पुं० (सं० कार्तिक) कार्तिक मास; (भ०)।

—मासि कार्तिकमास; (व० १०, ४०, १२)।

कत्तियसाढ—पुं० (सं० कार्तिक + अषाढ > प्रा० कत्तिय + आसाढ) कार्तिक एवं अषाढ मास; (ण० ६, २१, २०)।

कत्ती—स्त्री० (सं० कर्त्तिका > प्रा० कत्तिया) कतरनी, कैंची; (क० १०, १६, ८)।

कत्तीअ—पुं० (सं० कार्तिक > प्रा०

कत्तिय) कार्तिक मास; (ण० ६, २०, ४) ।

कत्थ—अ य० (सं० कुत्र > प्रा० कत्थ) कहीं; (म० १, २१, २) । कहीं-कहीं, (प्रा० पै० १, ४) —इं, अव्य० (सं० कुत्रचित् > प्रा० कत्थइ) कहीं, किसी जगह; (सुदं० ७, ५, १०) । —ए, अव्य० कहीं (सुदं० १०, ६, ६) ।

कत्थइ—अव्य० (सं० क्वचित् अथवा सं० कुत्रचित्) कहीं, किसी जगह; (भ०; जंबू० ७, १, १६) ।

कत्थवि—अव्य० (सं० कुत्रापि) कहीं भी; (प्रा० पै० १, ७६) ।

कत्थूरिय—स्त्री० (सं० कस्तूरिका > प्रा० कत्थूरिया) कस्तूरी, एक सुगंधित पदार्थ जो एक प्रकार के नर हिरन की नाभि के पास की गाँठ में उत्पन्न होता है और दवा के काम में आता है; (जंबू० ८, १४, १६) ।

कथकेस—पुं० (सं० कथकैशिक) जनपद नाम; (जस० १, २५, १) ।

कथा—स्त्री० (सं० कथा > प्रा० कहा) हाल; (की० २, ६८) ।

कथिअ—सक० (सं० कथय् > प्रा० कह) बखान करना; (की० ४, १४५) ।

कदंबअ—पुं० (सं० कदम्ब) कदंब के फूल; (प्रा० पै० १, १८८) ।

कदिहि—अव्य० (सं० कदापि) कभी; गु० कदी; (प्रा० गु० ४०, ५) ।

कद्म—पुं० (सं० कदम > प्रा० कद्म, कद्मग) कीच; (ण० ४, १०, ६; जस० १, ६, ५) । कद्मु; (व० ४, २३, ३) ।

कद्मिअ—पुं० (दे०) महिष, भैंसा; (दे० ना० मा० २, १५) ।

कद्मिउं—वि० (सं० कदमित) कीच-युक्त, पंक-युक्त; (व० ४, १४, ३) ।

कद्मित्तल—वि० (सं० कदम + इल्ल) कीचड़-युक्त, “वंकएहि पंकएहि कद्मेल्ल-कुल्लतल्लपूरिया,” बांके पंकजों से छोटी नदी (अथवा नाले) के कदम-युक्त तल को पूर दिया; (जंबू० ४, २१, ६) ।

कद्मिय—वि० (सं० कदमित > प्रा० कद्मिअ) पंक-युक्त, कीच वाला; (जंबू० ४, २२, ३) ।

कद्दिउ—अव्य० (सं० कदा) कब; तुल० गु० कदी (किसी दिन); (प० च० २६, २, ६) ।

कद्दिवसु—अव्य० किसी दिन; (प० च० ४५, ७, १०) ।

कनध्र—पुं० (सं० कनक > प्रा० कणग) स्वर्ण; (की० २, ८६) ।

कनवास—पुं० (सं० कर्ण + पार्श्व) कान का एक आभरण । —हीं; (रा० ३४) ।

कनिक—पुं० (सं० कणिक) गेहूँ; (की० ३, १००) ।

कनिठ्ठ—वि० (सं० कनिष्ठ > प्रा० कणिठ्ठ) लघु, छोटा; (की० १, ६०) ।

कन्ता—स्त्री० १. रावण की स्त्री; (प० च० ७४, ११) । २. दाशरथी भरत की प्रणयनी; (प० च० ८०, ५०) ।

कन्द—पुं० वानर योद्धा; (प० च० ६१, २७) ।

कन्द—पुं० न० (सं० कर्ण > प्रा० कणग) कान; (की० ४, २३६; प० सि० च० ३, ७, ६६) । स्त्री० कन्या; (विला०;

भ०) । —धारी वि० (सं० कर्णधारी);
(भ०) ।

कन्नपंगुरण—पुं० (सं० कर्णप्रावरण)
पर्वतीय जन-जाति; (भ०) ।

कन्नाड—पुं० (सं० कर्णाट > प्रा०
कर्णाड) प्रदेश-विशेष, जो आजकल
'कर्णाटक' नाम से प्रसिद्ध है; (भ०) ।

कन्नाडी—स्त्री० (सं० कर्णाटी) कर्नाटक
देश की स्त्री; (संघि० ६, ५, १०) ।

कन्नारिय—वि० (विभूषित, अलंकृत);
(भ०) ।

कन्या—स्त्री० (सं० कन्या > प्रा०
कर्णा) अविवाहित लड़की या पुत्री;
(उ० व्य० प्र० ५१-३) ।

कन्ह—पुं० (सं० कृष्ण > प्रा० कण्ह)
श्रीकृष्ण, कान्ह; तुल० गु० कहान; (प्रा०
गु० १८, १७; प्र० चि०) ।

कपासि—स्त्री० (सं० कर्पास > प्रा० प्रा०
कर्पास) कपास, रुई; तुल० पं० कपाह;
(परमा०) ।

कपूर—पुं० (सं० कपूर > प्रा० कप्पूर)
सफेद रंग का एक प्रसिद्ध सुगन्धित द्रव्य
जो दारचीनी की जाति के पेड़ों से निक-
लता है; (की २, १८५; सि० २,
३१) ।

कप्पंधिव—पुं० (सं० कव्य + आंध्रिपः)
कल्पवृक्ष; (जव० १, १, ८) ।

कप्पंत—पुं० (सं० कल्प + अन्त) काल-
विशेष का अंत; (जंबू० ५, ५, ५) ।

√कप्प^१—(सं० √कृप् > प्रा० कप्प)
काटना । —इ, (सं० कृन्तति) काट
दिया गया है; तुल० म० कापर्णे, गु०
कापवुं; (प० च० २६, ८, ५) ।

कप्पे^२वि—पुं० का० क्रि०, "खणे
तिलु तिलु कप्पे^२वि मारहु," (सुदं० ८,
३७, २२) ।

√कप्प^३—(सं० √कल्प > प्रा० कप्प)
कल्पना करना, (प्रा० पं० २, २०७) ।

√कप्प^४—(सं० √कम्प् > प्रा० कंप)
कांप गई, "पाओ पहारे पुहवि कप्प
गिरि सेहर दुट्टइ," —पैरों के आघात से
घरती कांप गई और पहाड़ों की चोटियां
टूटने लगीं, (की० ४, १६२) । कप्पंत-
कृ० (सं० कल्पमान्) कांपते हुए; "के
वि कोवेण धावंति कप्पंतया" —कितने
ही कोप से कांपते हुए दौड़े; (क० ३,
१४, ६) ।

कःप^५—पुं० (दे०) १. प्रमाण, तुल्य
"अट्ठवरिस कप्पेण कुमारे" —आठ वर्ष
की आयु होने पर, (जंबू० ४, ६, ४) ।

२. बन्दी का उद्धार मूल्य, मुक्ति-मूल्य;
"सो नात्थि जां न महु देह कप्पु,"
(भ०) । ३. (सं० कल्प > प्रा० कप्प)
काल-विशेष, काल का एक विभाग, जिसे
ब्रह्मा एक दिन कहते हैं और जिसमें १४
मन्वन्तर या ४३२००००००० वर्ष होते
हैं; (जस० ४, २७, १८) । —जाय पुं०

(सं० कल्पजात) देव; (१०, १३, १०)
—तरु पुं० (सं० कल्पतरु) कल्पवृक्ष;
(की० ३, १५७) । —दुट्टमु पुं० (सं०
कल्पद्रुम) कल्पवृक्ष; (व० २, १२, ८) ।

—यरु पुं० (सं० कल्पतरु) कल्पवृक्ष;
(सा० २१६; वा १, ६) । —रुक्ख
पुं० (सं० कल्पवृक्ष) कल्पवृक्ष; (क० २,
१, ३) । —वच्छ पुं० कल्पवृक्ष; (क०
७, ५, १०) । —वास पुं० (सं० कल्प-

वास) कल्पवृक्ष; (क० २, १, ३) । —वच्छ पुं० कल्पवृक्ष; (क०
७, ५, १०) । —वास पुं० (सं० कल्प-

वास) स्वर्गवास; (व० ६, १, ११) ।
 —विक्रत पु० (सं० कल्पवृक्ष) कल्पतरु;
 (जस० ४, २५, ६) । —विडड पु०
 (सं० कल्पवित्प) कल्पवृक्ष; (सि० १,
 ३१) । कप्पामार—पु० (सं० कल्पामार)
 देव; (व० १०, १, २) ।
 कप्पड—पु० (सं० कर्पट > प्रा०
 कप्पड) कपडा, वस्त्र; (भ०; जंबू० ११,
 ७, ४, महा० ३६, ८, ६); कप्पडु (क०
 १०, २०, ६) । तुल० म० कापड ।
 कप्पण—न० (सं० कल्पन > प्रा०
 कप्पण) कतरना, काटना; (जंबू० ७,
 ६, ११) ।
 कप्पदुम—पु० (सं० कल्प + द्रुम >
 प्रा० कल्प + द्रुम, द्रुम) कल्पवृक्ष, मनो-
 वाञ्छित फल को देने वाला वृक्ष-विशेष;
 (पं० ५, १२, ६; जंबू० ३, ३, ११) ।
 कप्पधारि—वि० (सं० कल्पधारिन्) देह
 को नवीन और नीरोग करने की क्रिया
 को करने वाला व्यक्तित्व; "हउ जइ ण
 धिप्पमि कप्पधारि" — फिर भी मैं जमा-
 ग्रस्त नहीं हुआ, मैं कल्पधारी जो ठहरा;
 (जस० १, ६, ६) ।
 कप्पयर—पु० (कल्पतरु) कल्पवृक्ष;
 (जंबू० ४, १६, ८) ।
 कप्परिअ—वि० (दि०) विदारित, चीरा
 हुआ; (दि० ना० मा० २, २०) । कप्प-
 रिय; (प० च० ३६, ६, ६) ।
 कप्पवासि—पु० (सं० कल्प + निवासिन्)
 कल्पवासी देव; (जंबू० १, १६, ६) ।
 कप्पिय—वि० (सं० कर्त्तित) कतरा
 हुआ, काटा हुआ; (प० च० ३६, ७,
 ५) ।

कप्पुरिस—पु० (सं० कापुर्यः) डरपोक;
 (प० च० ३६, ४, ८) ।
 कप्पूर—पु० (सं० कपूर् > प्रा० कप्पूर)
 कपूर, सुगंधित द्रव्य-विशेष; तुल० म०
 कापूर, गु० कपूर; (पं० ७, ५, ८; की०
 २, ८६) । —फार पु० (सं० कपूर् +
 स्फार = आधिक्य) कपूर् की सुगंध,
 "कप्पूरफारमहयरमिलंतु"; (जस० ४,
 ७, ८) ।
 कप्पूरायर—पु० (सं० कपूर् + अयर)
 कपूर् व अयर "सुमहुर कप्पूरायर
 ड्वज्जइ," सुगंधित कपूर् व अयर
 जलाया; (जंबू० ८, १६, ५) ।
 कफाड—पु० (दि०) गुफा, गुहा; (दि०-
 ना० मा० २, ७) ।
 कबंध—पु० १. (सं० कबन्ध > प्रा०
 कबंध) घड़, कबंध नामक दैत्य; (प्रा०
 पं० २, १८३) । २. कवच, (जंबू० ६,
 १४, ३) । कबन्धो—पु० विना सिर का
 घड़; (की० ४, २०४) ।
 कवावा—पु० (अ० कवाव) —गोशत के
 भूने हुए टुकड़े; (की० २, १७८) ।
 कव्व—न० (सं० काव्य > प्रा० कव्व)
 (संदेशरासक प्रक्रम १, छंद. १७) ।
 कव्वाड—पु० (दि०) कवाड़ीपन; "किसि
 कव्वाडु सेव मणइ वरु," कृपि, कवाड़
 कवाड़ीपन) व सेवा को ही अच्छा मानते
 हैं; (सुदं० ६, २३, ५) ।
 कव्वुर—वि० (सं० कव्वुर > प्रा०
 कव्वुर, कव्वुरय) कवरा, चितकवरा,
 चित्तला; (पं० २, १४, ३) ।
 कव्वुरिय—वि० (सं० कव्वुरित > प्रा०

कम्बुरिख) अनेक वर्ण वाली, चितकबरा किया हुआ; (भ०) ।

कम्भ—पुं० (सं० कफ) एक गाढ़ी, लसीली चीज जो प्रायः खांसने से बाहर आती है, श्लेष्मा, बलगम; (षड्) ।

कमंडलु—पुं० न० (सं० कमण्डलु > प्रा० कमंडलु) संन्यासियों का एक मिट्टी या काष्ठ का पात्र; (जस० ४, १५, १४) ।

कम—पुं० (सं० क्रम > प्रा० कम) पद, पाँव, चरण; (ग० ३, ४, १०; सं० रा०; भ०) । —ग पुं० (सं० क्रमाग्र) चरणाय, (प्रा० गु० ३५, ११) ।

√कम^१—(सं० √क्रमु पाद विक्षेपे, क्रामति) चलना, पदार्पण करना । —इ “कइया वि तुरइ आरुहिवि भमइ धर खुंदिवि खरखुरखण्णु कमइ,” कभी तो वह राजा घोड़े पर सवार होकर भ्रमण करता और घोड़ों के तीक्ष्ण खुरों से धरा रो रँद कर खोद डालता था; (जस० १, ५, १२) ।

√कम^२—(सं० कम् प्रा० कम) चाहना, वाञ्छना । कमंत; (जंबू० ५, १४, २) ।

कमट्ठ—पुं० (सं० कमं + अष्ट) अष्ट कर्म, आठ कार्य; “विउलइरिसिहरि कमट्ठत्तु, सिद्धालय—सासयक्खपत्तु,” विपुलगिरि के शिखर पर अष्ट कर्मों को त्याग मोक्ष के शाश्वत सुख को प्राप्त किया; (जंबू० १०, २४, ६) ।

कमठ—पुं० (सं० कमठ > प्रा० कमठ) कूर्म, कछुआ; (प्रा० पं० १, ६२) ।

कमठाय—पुं० (सं० कर्मस्थानि) कार्य करने का स्थान; तुल० गु० कमठाण,

कमठायो; (प्रा० गु० ७, ३०) ।

कमढ—पुं० (दे०) १- दही की कलशी, २- हंडी, हँडिया, मिट्टी की रिकावी; ३- बलदेव; ४- मुख; (दे० ना० मा० २, ५५) ।

कमढि—स्त्री० (सं० कमठ > प्रा० कमढ) कभठ, कछुआ, (प्रा० गु० १२, १६) ।

कमण^१—सर्व० (सं० कः पुनः > प्रा० कवण) कौन; (की० २, ५३; प्रा० पं० २, २६) । कमन—कौन; (की० ४, २४३) । कमने—किसने; (की० २, २२, ७) ।

कमण^२—पुं० राक्षस योधा; (प० च० ७१, ३६) ।

कमणी—स्त्री० (दे०) सीढी; (दे० ना० मा० २, ८) ।

कमल^१—न० १- (सं० प्रा० कमल) भरविंद, पद्म; (भ०) २- षट्कलगण का नाम; (प्रा० पं० १, १५) । —इं, न०, व० (सं० कमलानि) कमलों; (हे० ३५३, १) । —कंता स्त्री० साध्वी; (प० च० ३०, ६७) । —दलच्छि वि० (सं०

कमलदल + अभि) कमलदल के समान नेत्र वाली; (जंबू० ३, ३, १) । —।सण पुं० (सं० कमलासन) ब्रह्मा, विधाता; (दे० ना० मा० ७, ६२) ।

कमल^२—पुं० (दे०) १- स्थाली, हंडि, हँडिया, २- ढोल, पटह, ३- हरिण, ४- मुख; (दे० ना० मा० २, ५४), ५- कलह, भगड़ा; (षड्)

कमलगव्भ—पुं० मुनि; (प० च० ३१-१६, २४) । —नामा स्त्री० वानर

सुग्रीव की पुत्री; (प० च० ४६, १४) ।
कमलम्पह—स्त्री० (सं० कमलप्रभा)
स्त्री-विशेष का नाम; (ण० ७, ११,
८) ।

कमलब्रंधु—पुं० इक्ष्वाकुवंशीय राजा;
(प० च० २२, ६८) ।

कमलमई—स्त्री० दाशरथी भरत की
प्रणयिनी; (प० च० ८०, ५१) ।

कमलमहासिरि—स्त्री० (सं० कमलम-
हाश्री) स्त्री-विशेष का नाम; (भ०) ।

कमलमाला—स्त्री० राजा आनन्द की
रानी; (प० च० ५, ५२) ।

कमलरुह—पुं० ब्रह्मन्; (ण० १, ५,
१०) ।

कमलसिरी—स्त्री० (सं० कमलश्री)
१- स्त्री-विशेष का नाम; (ण० ७, ११,
८) । २- विद्याधरी, लक्ष्मण की स्त्री;
(प० च० ५४, ४२) । ३- रावण की
स्त्री; (प० च० ७४, ६) ।

कमला—स्त्री० (सं० प्रा० कमला)
१- लक्ष्मी; (जंबू० ३, ३, २) ।
२- रावण की एक पत्नी; (प० च० ७४,
६) ।

कमलाञ्जल—पुं० छप्पय छंद का भेद;
(प्रा० पं० १, १२३) ।

कमलायर—पुं० (सं० कमल + आकर
प्रा० कमलावर) कमलाकर, सरोवर,
तालाव, पुष्कर; “कमलायरो व्व गोवि-
सनिहाणु मंडलबइ व्व महिसीपहाणु”
वह जल (गो) और पद्मिनी (विस) के
अंकुरों के निधान कमलाकर के समान
अनेक गायों (गो) और वृषभों (विस)
का निधान था; (जंबू० २, ५, ३) ।

२- पुं० कमलाकर, मुनिराज; (व० ६,
१७, ६) ।

कमलाहारो—पुं० (सं० कवलाहार)
अन्न या भोज्य पदार्थ की वह मात्रा जो
खाने के लिए एक वार मुँह में डाली
जाए; (व० १०, ३५, २) ।

कमलु—पुं० (सं० कमल) रोला छंद का
भेद; (प्रा० पं० १, ६३) ।

कमलुज्जल—वि० (सं० कमल +
उज्ज्वल) कमल के समान उज्ज्वल,
“कमलुज्जलत्तरीरा,” कमल सदृश
उज्ज्वल शरीर वाली; (जंबू० ३, ३,
२) ।

कमलुल्ल—न० [सं० कवल + उल्ल
(स्वार्थे)] कमल; (ण० ५, ६, ६) ।

कमलुस्सवा—स्त्री० राजपुत्री; देशभूषण
और कुलभूषण की भगिनी; (प० च०
३६, ६४) ।

कमवह—पुं० (सं० क्रम + पधिन् > प्रा०
कत + यह) पैरों का रास्ता; (रि० ३,
६) ।

कमान—स्त्री० (प्रा० कमान) धनुष;
(की० ४, ८०) ।

कमायज—वि० (सं० क्रमागत)
१- क्रमशः किसी रूप को प्राप्त, २- जो
सदा से होता आया है, परंपरागत; (जंबू०
२, ४, ८) ।

कमिज—वि० (दि०) पास आया हुआ;
(दि० ना० मा० २, ३) ।

कम्म—पुं० (सं० कर्मन् > प्रा० कम्म
कर्म, काम, क्रिया; (ण० १, १२, ६;
की० २, १८) । तुल० पं० कम्म ।
—इ, न० ब०—कर्मों (महा० ६८, १) ।

—कर पुं० (सं० कर्मकर) मेहतर, प्राचीन काल की एक जाति जो सर्व्व सेवा-कर्म करती थी; (जंबू० १०, १७, ७) । —यर वि० (सं० कर्मकर > प्रा० कम्मयर) नौकर, चाकर; (भ०) । कम्मिय—वि० (सं० कम्मिन् > प्रा० कम्मिअ) कर्म करने वाला; (भ०) । कम्म—सक० (सं० कृ) १- हजामत करना, और-कर्म करना । —इ, (पइ) । २- (√भुज्) भोजन करना । —इ; (पइ) ।

कम्मकिअ—वि० (सं० कर्मक्रीत) कर्मों का रास; (जंबू० १०, ६, =) ।

कम्मकिस—वि० (सं० कर्म+कृण) क्षीण कर्म वाले; (जंबू० २, ३, ६) ।

कम्मक्खय—पुं० (सं० कर्मलय) कर्मों का विनाश । टि०—भूतकाल में किये गए पापकर्मों का विनाश उनके विपरीत पुण्य कर्म करने से प्राप्त होता है; (जंबू० ११, १४, =) ।

कम्मट्ठण्ठि—स्त्री० (सं० कर्म+अष्ट+ग्रन्थि) अष्ट कर्म रूपी ग्रन्थि; (क० ३, २२, ६) ।

कम्मडहण—वि० (सं० कर्म+दहन) कर्मों का दहन करने वाला, “अणसणु पहिलारउ कम्मडहणु, नियमियदिणेषु आहारचयणु” सर्वप्रथम कर्मों का दहन करने वाला अनशन नामक तप है, जिसमें नियमित दिनों (अष्टमी चतुदशी आदि) में आहार त्याग किया जाता है; (जंबू० १०, २१, =) ।

कम्मपयडि—स्त्री० (सं० कर्म+प्रकृति) कार्य की प्रकृति; (जस० ३, २२,

१३) ।

कम्मपास—पुं० (सं० कर्म+पास) कर्म-बंधन; (जस० ४, ७, १४) ।

कम्मफल—पुं० (सं० कर्म+फल) पूर्व जन्म में किये गए कर्मों का फल. दुःख-सुख आदि; (जंबू० ११, ४, ६) ।

कम्मबंध—पुं० (सं० कर्म+बन्ध, बन्धन) अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु का बंधन; (जस० ३, २३, २) ।

कम्मभूमि—स्त्री० (सं० कर्मभूमि) कर्म-क्षेत्र; (ठ० १०, ६, १०) ।

कम्ममल—पुं० (सं० कर्म+मल) कर्मों का मल अर्थात् पाप; (जस० २, ५, १) ।

कम्मरइ—स्त्री० (सं० कर्म+रति प्रा० कम्मरइ) कर्म में आसक्ति; (जंबू० १०, ५, १२) ।

कम्मवस—वि० (सं० कर्मवश) कर्म के वशीभूत; (जंबू० ११, ३, १) ।

कम्मविवाय—पुं० (सं० कर्म+विपाक) पूर्व जन्म में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का भला और बुरा फल; (जस० ३, २२, ११) ।

कम्मसत्ति—स्त्री० (सं० कर्म+शक्ति) > प्रा० कम्मसत्ति) कार्य करने की शक्ति, “नाणु वि कम्मसत्तिसंवलियउ, जायइ मिच्छादंसणे मिलियउ”; (जंबू० १०, ४, ११) ।

कम्माण—पुं० (क्रा० कमान) धनुष; (की० २, १६०) ।

कम्मायत्त—वि० (सं० कर्म+आयत्त =आधीन) कर्म के वशीभूत, “संभु वि

बुभु वि वि कम्मोयत्तउ" -शम्भु और सुह्या जी भी कर्म के वशीभूत है; (जस० ३, २२, ११) ।

कम्मोवणि—स्त्री० (सं० कर्म+अवनि, नी>प्रा० कम्म+अवणि) कर्मभूमि; (व० १०, ६, १०) ।

कम्मोसय—पुं० (सं० कर्म+आसव) १. कर्माश्रय, कर्मों के विकार या दोष; (जंबू० २, ७, ११) । २. कर्म का बहाव; "जय हंभियकम्मोन्नववहंत," —आपने कर्म के प्रवाह को अवलुब्ध कर डाला है; (क० ४, १०, ६) ।

कम्मिघण—पुं० (सं० कर्मन्घन>प्रा० कम्म+इंघण) कर्म रूपी ईंघन; "कम्मिंघण भाव हो कम्मवि तिह" —कर्म रूपी ईंघन कर्म कर्म-भाव से परिणमन को प्राप्त होता है; (व० १०, ३६, १६) ।

कम्मोवहि—स्त्री० (सं० कर्म+उपाधि) कर्म की वह स्थिति जिसके संयोग से कोई वस्तु और की और अथवा किसी विशेष रूप में दिखाई दे; "मासु वि तड-यडंतु तुट्टंतउ पेक्खइ कम्मोवहि खुट्टंतउ," —मांस के तड़-तड़ करके टूटने की वह महामुनि कर्मोपाधि के खंड-खंड होने के समान देखता; (जंबू० ११, १५, ५) ।

कम्मूदीप—पुं० (सं० कम्मूदीप) द्वीप-विशेष का नाम; (प० च० ४४, ६, ६) ।

कम्मिहअ—पुं० (दे०) माली, मालाकार; (दे० ना० मा० २, ८) ।

कयंजलि—वि० (सं० कृत+अञ्जलि >प्रा० कय+अंजलि, ली) कृताञ्जलि

नमंस्कार के लिए जिसने हाथ ऊंचा किया हो वह; (प० ३, ७, ४; जस० ३, ५, ४) ।

कयंत—पुं० १. राजस योधा; (प० च० ५६, ३१) । २. दाशरथी राम का सेनापति; (प० ८६, ४७) । पुं० (सं० कृतान्त >प्रा० कयंत) पाप-कर्म, "कलिविलसियदुरिय कयंतएण," कलिकाल के विलास रूप पापों का विनाश करने वाले; (प० १, ३, २) । २. यमराज; "जीवियंति सोणिहज कयंतै;" (व० २, १६, ५) । ३. रावण का इस का नाम का एक योद्धा; (प० च० ५६, ३१) ।

—मुह पुं० (सं० कृतान्तमुख >प्रा० कयंतमुह) रामचंद्र के एक सेनापति का नाम; (प० च० ६४, ६२) । —वयण पुं० (सं० कृतान्तवदन >प्रा० कयंतव-यण) राम का एक सेनापति; (प० च० ६४, २०) । कयंपु—पुं० (सं० कृतान्त) यम; (सि० २, २१) ।

कयंब—पुं० १. (सं० कदम्ब >प्रा० कलंब) वृक्ष-विशेष; (भ०) । २. समूह; "तुट्टु पड्टु दिट्टु नुहंतंबे खड्ड फाडिवि नउलकयंबे," —प्रसन्न होकर वहाँ लाल मुँह वाले नकुल समूह ने उसे देखा, और फाड़कर खा लिया ? (जंबू० ६, १०, २०) । —विडव पुं० राजस योद्धा; (प० च० ५६, ३८) ।

कय—(१) वि० (सं० कृत >प्रा० कड, कय) किया हुआ, बनाया हुआ, (प० ३, ४, ६) । (२) संयो० अथवा, कि, तुल० गु० के, (प्रा० गु० ३७, ४) । २. पुं० (सं० कय >प्रा० कय) खरी-

वना, (म०) । —आग्रं पु० (सं० कृत
+आदर) प्रदग्नि आदर, (प० १, ४,
१०) । —उज्जम पु० (सं० कृतोद्यम)
क्रिया हुआ प्रयत्न, की हुई मेहनत, (व०
४, ३, =) । —विता स्त्री० रावण-पुत्री;
(प० च० ११, १०१) । —वम्भ पु०
कंडिलपुर का राजा, तीर्थंकर विमल के
पिता; (प० च० २०, ३६) ।

कयटन—पु० (सं० कृतपुत्र्य) क्रिया
गया पुत्र्य, (म०) ।

कयगह—कृ० (सं० कृत+आग्रह
वाग्रह करके, "बोल्दइ वरिणि कयगह
पुरु पुनु" ग्रहिणी आग्रह करके पुनः
पुनः कहने लगी, (जं० ६, ४, ३) ।

कयडिल्ल—न० (द्वे०) कटिवस्त्र, कमर
में पहनने का वस्त्र, (जं० ६, १२, ३;
द्वे० ना० मा० २, ५, २) ।

कयणाएँ—पु० (सं० कृतनाद) आवाज
करना; "मारिउ ताम जाण कयणाएँ";
(जं० ६, ११, १४) ।

कयणिच्छय—वि० (सं० कृत+निश्चय)
जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, कृत
संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञ; (जस० २, २६,
८) ।

कयनीडई—न० (सं० कृत+नीड) प्रा०
कय+णिड्ड, णीड) बनाया गया
घोंसला, "कयनीडई वीडई बुणियाडई,"
विस्तीर्ण घोंसलों में रहने वाले पक्षियों
को भी भयभीत कर दिया गया; (जं०
५, ३, १२) ।

कयतविडवि—पु० (सं० कृत+विटपिन्
> प्रा० कय+विडवि) समृद्धि लपी वृक्ष;
(जं०) ।

कयत्य—वि० (सं० कृतार्थ) प्रा०
कयत्य) सफल मनोरथ, कृतकृत्य; (जं०
६, १, २) ।

कयत्यकिय—क्रि० भू० का०, कृतार्थ
क्रिया; (रि० ४, १२) ।

कय्य—वि० (सं० कृतार्थ) १- कृतकृ-
त्य, जिसका अभिप्राय दूरा हो चुका हो;
२. संतुष्ट; (म०) ।

कयदोष—वि० (सं० कृतदोष) दोष
करने वाले, अपराधी; "कयदोसेनु रोमु
वंचिज्जइ" —दोष अपराध करने वालों
के प्रति रोष का त्याग करना चाहिए;
(जं० ११, १४, २) ।

कयपयज्ज—वि० (सं० कृत+प्रतिज्ञ)
जिसने प्रतिज्ञा कर ली हो; (जं० ८,
४, १) ।

कयपारण—वि० (सं० कृत+पारण)
जिसने उद्धार किया हो; (जस०) ।

कयपुमय—वि० (सं० कृत+पुलक)
पुलकित; (जस० १, १५, १३) ।

कयबंध—पु० (सं० कच+बन्ध) केम-
बंध; (जं० ८, ११, २५) ।

कयमण—वि० (सं० कृतमनस्) कृत-
मना, जिसने मन में निश्चय कर लिया
हो; (जं० ८, ४, १) ।

कयद—वि० (सं० कृत+दप) रूप बनाये
हुए; "पासट्टिओ वि तरणीनियर मण्णइ
वहिपुंजउ व्व कयद," अर्थात् पास में
स्थित तरणी-समूह को वह रूप बनाये
हुए व्याधिपुंज के समान मानने लगा;
(जं० ३, ६, ६) ।

कयरोल—पु० (सं० कृत खण) क्रिया
गया कोलाहल; (सुद० ४, १२, ६) ।

कयल—पुं० (दे०) अलिजर, पानी रखने का मिट्टी का घड़ा, सुराही आदि; (दे० ना० मा० २, ४) ।

कयलि—स्त्री० (सं० कदली > प्रा० कयलि, ली) केले का पेड़; तुल० गु० केळ; (प्रा० गु० १३, ४२) । कयली; (ण० ८, ११, ८) ।

कयवन्नउ—पुं० (सं० कृतपुण्य > प्रा० कय + पुण्य, पुण) कृतपुण्य, किया गया पुण्य कर्म, “भणइ कयवन्नउ अभय-कुमार”; (प्रा० गु० २५, १) ।

कयवर—पुं० (सं० कृतिकर) मायावी, नट; (सं० रा०) ।

कयाइ—अव्य० (सं० कदाचित् > प्रा० कयाइ) किसी समय भी, कभी भी; (भ०) ।

कयाण—पुं० ब्राह्मण, व्यक्ति-विशेष-नाम; (प० च० ३०, ६, १) ।

कयाणउ—न० (सं० क्रयाणकम् > प्रा० कयाण) वेचने योग्य वस्तु; तुल० गु० करियाणु; (प्रा० पु० ३२, ३) ।

कयापर—वि० (सं० कृत + आदर-प्राप्त, “पडिपुच्छियकुसलकयापरेण मायामामेण विञ्जुच्चरेण,” अर्थात् कुशल समाचार-पृच्छा आदि के द्वारा प्राप्त छद्म मामा विद्युचर; (जंबू० १०, १) ।

कयार—पुं० (दे०) तृणाद्युत्कर, कवाड, कचरा, कतवार, कूड़ा, मँला; (प० च० ५४, ११, १; भ०; दे० ना० मा० २, ११; क० ६, १८, ७) ।

कयावि—अव्य० (सं० कदापि > प्रा० कयावि, कयाइ) कभी भी, किसी समय

भी; (विला०; प० च० ४, ३, ३; भ०) ।

कयल—पुं० (सं० कज्जल) काजल; (रा० १६) ।

करंक—पुं० (सं० करङ्क = नारियल का बना पात्र) १. भिक्षापात्र । २. (दे०) अशोक वृक्ष; (दे० ना० मा० २, ५५) । ३. पुं० न० (सं० करङ्क > प्रा० करंक) अस्थि, घड़; (जंबू० ६, ६, १०) ।

करंज—पुं० (सं० करञ्ज) १. वृक्ष-विशेष, कंजा, एक प्रकार का छोटा जंगली पेड़; (दे० ना० मा० १, १३) । २. सुखी त्वचा; (दे० ना० मा० २, ८) ।

करंड—पुं० (सं० करण्डक > प्रा० करंडग, करंड) करंडक, बाँस का बना छोटा पिटारा या पेटिका; (जस० २, ३४, ३) ।

करंब—पुं० (सं० करम्ब) दही और भात का बना हुआ एक खाद्य पदार्थ; (दे० ना० मा० २, १४) ।

करंबिय—वि० (सं० करम्बित) १. व्याप्त; (भ०) । २. मिश्रित; (जस० ४, १७, २५) ।

कर—पुं० (सं० प्रा० कर) हाथ; (भ०) । लो०—“करे कंकरु कि आदि से दीसइ” —हाथ कंगन को आरसी क्या अर्थात् जो चीज सामने हो उसके लिए किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है, (सुदं०) २. किरण, अंश, (सं० रा०) ३. गुण्डा; (जंबू० ४, २२, ७) । ४. टैक्स; (की० १, ३८) । —अल पुं०

अंतगुह चतुष्कल (115) (प्रा० पै० १, १७) । —अलु पु० छप्पय छंद का भेद (प्रा० पै० १, १०३) । —यल पु० (सं० करतल) हथेली ।

√कर—(सं० कृ > प्रा० कर) करना ।
—इ, सक० व० (सं० करोति > प्रा० करइ) करना (ण० २, १, ११) । —उ (सं० करोमि); (उ० व्य० प्र० १६, ७) ।
—उ आ० (सं० कुर्यात्) करो, करे, (उ० व्य० प्र० १०, १, की० १, ७७, महा० ६८, ८, १५) । —ओ करता है; (की० ३, २५) । —ह आ० करो; मगही करहु (भूसुकुपा, च०) । करत-कृ० (सं० कुर्वत) करते हुए; (जस० १, ५, २०) । करंतहो—भू० का० कर रहे थे, “सरि जल कील करंतहो”; (ण० २, १, १२) । करति-क्रि० व०, करती है, (ण० १, १, ५) । करन्ता-कृ० व० के रूप में प्रयुक्त, करते हैं, (की० २, २२, ७) । करि-करो “म सोउ करि—” शोक मत करो; (विला०) । करि-कृ० (कृत्वा) करके; (हे० ३५७, ३) । करिअ-भू० का०, किया; (की० ३, ८५) । करिअइ-कीजिए; (की० २, २४) । करिअउ-भू० का० किया; (की० १, ४१) । करिज्जइ-व० करना चाहिए; (की० ३, ५७) । करिवि-पू० का० क्रि० करके; (महा० ६६, ६, १) । करिहसि-भ० का० (सं० करिष्यसि) करेगा; (उ० व्य० प्र० २०-१३) । करह-क्रि० आ० (सं० कुरु=कृ) करो, (उ० व्य० प्र० ६, ३०; हे० ३३०, २) । करेइ-क्रि० (सं० कारयति) कराता है;

(हे० ४१४, ४) । करेज्जसु-व० करना, “विणउ करेज्जसु” विनय करना, (ण० ५, १३, ६) । काउ-कृ०, सं० कृत्वा करके; (भ०) । तुल० राज० करवो-वो, गु० करवु । किज्जइ-कर्म-वाच्य कराया जाता है, (जस० १, २०, १) । विध्यर्थ, किया जाय, (ण० ३, २, १०; हरिवंश पुराण ५१/७) । विध्यर्थ, कर (महा० ६८, ७) । करना चाहिए (सुअंध २, ११) तुल० प्राचीन गु० कीजे । किज्जइ-कर्मवाच्य व०; (प्रा० पै० १, ५२) । कित्तिअ भू० का०, किया; (की० १, ६६) । कियउ-भू० का० (सं० कृतम्) किया; (हे० ३७१, १) । कुरु-विध्यर्थ (जंबू० १०, १४, १३) ।

करअडी-स्त्री० (दे०) स्थूल वस्त्र, मोटा कपड़ा; (दे० ना० मा० २, १६) । करककण-न० (सं० कर+कङ्कण > प्रा० करककण) करकंगन; (सि० २, १७) ।

करकट्ट-पु० (दे०) ले जाने योग्य वस्तुएँ; (जंबू० ५, ६, ५) ।

करकत्तिया-स्त्री० (सं० करकत्तिका) कैंची; (जंबू० ७, ६, १४) ।

करकँटा-पु० स्त्री० (दे०) जंतु-विशेष, करकँटा (जंबू० ६, १०, १४) ।

करग्ग-पु० (सं० कराग्र) उँगल; (जस० ३, १०, ७) ।

करघायल-पु० (दे०) दूध की मलाई; (दे० ना० मा० २, २२) ।

करजोडण-पु० (सं० कर + योजन)

हाथ मिलाना; (सुदं० ४, ५, ११) ।

करडंत—व० कृ० (ध्व०) करड-करड ध्वनि करते हुए; (जंबू० १०, १२, ७) ।

करड—पुं० (सं० करट > प्रा० करड) हाथी का गण्ड-स्थल; (ण० ७, १३, २) । वि० (दे०) कठिन; (जस० १, १६, ८) । पुं० वाद्य-विशेष; (सुदं० ३, ४, ३) । —डाह पुं० (सं० करट+ओघ) वाद्यसमूह; (सुदं० ७, ६, ६) । पुं० (दे०) श्राद्ध-विशेष; (दे०-ना० मा० २, ५५) । वि० (दे०) चित्त-कवरा; (दे० ना० मा० २, ५५) ।

करडयल—पुं० (सं० करट+स्थल) हाथी के गाल की जगह, कुम्भस्थल, हाथी का गण्ड-स्थल; (जंबू० ७, ५, ३) ।

करडि—स्त्री० (दे०, प्रा० करडी) वाद्य-विशेष; (प्रा० गु० ३२, ३) । पुं० (सं० करटिन् > प्रा० करडि) हाथी, हस्ती; (जंबू० ६, ६, १०) ।

करडिम्ब—पुं० कानों में पहना जाने वाला एक आभरण; (रा० ११) । टि०—करट अर्थात् गण्डस्थल पर लटकते रहने के कारण इसका यह नाम पड़ा होगा ।

करण—न० (सं० प्रा० करण) कृति, क्रिया, विधान; (जस० १, ७, २) । २. राजसाधन, पैतरा, ३. मय्युन-विधि; (जंबू० ६, १३, १२) । —नाम पुं० (सं० इन्द्रियग्राम) इन्द्रिय-समूह, (जंबू० २, १, ११) ।

करणाहिवद्—पुं० (सं० करणाधिपति

> प्रा० करणाहिवद्) जेल का अव्यक्ष; (भ०) ।

करणि—स्त्री० (दे० (रूप, आकार; दे० ना० मा० २, ७) ।

करणिय—वि० (सं० करणीय) करने योग्य; (भ०) ।

करखु—न० आज्ञा, “पणवद् णियमिच्चहु करहि करगु” —अपने इस सेवक को आज्ञा दीजिए, (ण० ८, ६, १२) ।

करतक्कड—पुं० (दे०; ध्व०) करत-क्कड की ध्वनि का होना; (जंबू० १, १५, ५) ।

करतण—पुं० (सं० कर्तृत्व) कर्ता का भाव, कर्ता का धर्म; (क० १०, १२, ८) ।

करतार—पुं० (सं० कर्तार) सृष्टि करने वाला, ईश्वर; (प्रा० गु० ५, १६; की० २, २३७) ।

करधखु—पुं० (सं० कर+धनु) धनुष; (जंबू० ७, १०, २) ।

करप्पियद्—क्रि० कर्मवाच्य, करपत्त (आरा) से चीरा जाता है; (सं० रा०) ।

करफंसण—पुं० (सं० कर+स्पर्शन) हाथ से स्पर्शन; (जंबू० २, १०, ३) ।

करम—वि० (दे०) क्षीण, दुर्बल; (दे०-ना० मा० २, ६) ।

करमर—पुं० (दे०) वृक्ष-विशेष; (जंबू० ४, १६, ५) ।

करमरी—स्त्री० (दे०) बांदी, दासी; (दे० ना० मा० २, १५) ।

करमुद्द—स्त्री० (सं० कर+मुद्रा) मुद्रिका; (जंबू० ४, १३, ७) ।

करम्बिय—वि० (सं० करम्बित) मिश्रित,

मिला-जुला; (प० च० २६, ६, ७) ।

करयंदी—स्त्री० (दे०) मल्लिका, बेला का पेड़; (दे० ना० मा० २, १=) ।

करयद्यु—वि० (सं० कर+द्यु) करवे में रखा हुआ; (जं० १, ५, ११) ।

√करयर— (सं० करकराय) कर-कर आवाज करना; (मुद्रं० ११, १५, २) । करयरंत-व० कृ० (सं० करकरत्) चन्दानुकरग्ये; (जस० १, १३, ३) । करयरिठ—वि० [सं० करकरायित (च-न्यात्मक)] किटकिटाता हुआ; “थोवतरे कटयदुमे णिविठ करयरिठ रिठ्ठु,” (मुद्रं० ८, १५, ७) ।

करयल—पुं० (सं० करयत् > प्रा० कर-यल) हथेली; (जं० ४, १७, २०) ।

करवह—पुं० (सं० करवह) पंजा; “केसरि-करवह-दारिय मयगलि” —कहीं सिहों के पंजों से मदनमत्त हाथी विदारित हो रहे थे; (वी० १, २) ।

२. नख; (जं० २, १५, १५) । ३. पुं० राजा-विशेष-नाम, पुष्पावतीर्ण नगर का राजा; (प० च०) ।

करवंद—पुं० (सं० करमदं, करमदक) करौंदा, फल-विशेष, करौंदा, वृक्ष-विशेष, (जस० २, ३५, १२) ।

करवंदि—स्त्री० (सं० करमन्दी > प्रा० करवंदी) करौंदा वृक्ष; (जं० ५, ८, १२) । करवंदी—स्त्री० लता विशेष, एक प्रकार का पेड़; (दे० ना० मा० ८, ३५) ।

करवत्त—पुं० (सं० करपत्त > प्रा० कर-वत्त) करपत्त, आरा, शस्त्र-विशेष, एक

दंतदार औजार जिससे लकड़ी काटी जाती है; (सं० रा०; जस० २, ३१, ६) ।

करवाल—पुं० (सं० प्रा० करवाल) लड़ग; (प्रा० पै० १, १०६; प० च० १२, ४, ५) । —हिं करवाल से (की० ३, ७४) । करवालु; (हे० ३३६, १) ।

करवावढ—वि० (सं० कर+व्यापृत) व्याकुलहस्ता; (जं० ८, १५, १०) ।

करसंगह—पुं० (सं० कर+संग्रह) पाणिग्रहण, (जं० ८, १२, ५) ।

करसाहु—स्त्री० (सं० कर+शाखा) टँगली; (सं० रा०) ।

करहंच—पुं० करहंच छंद, (प्रा० पै० २, ६२) ।

करह—पुं० (सं० करभ > प्रा० करह) ऊँट, उष्ट्र; (सि० २, १२; प० ५, ४, २) । —उल्ल (स्वार्य) (ण० ७, २, ३) । करहु—ऊँट; (व० ४, २१, ६) ।

करहाड—पुं० (सं० करहाटक) नगर-विशेष; (जं० ६, १६, १०) ।

करहाडह—पुं० (सं० करहाटक) देश-विशेष; (प० च०) ।

करही—स्त्री० रड्डा छंद का भेद; (प्रा० पै० १, १३६) ।

करहु—पुं० करमः, दोहा छंद का भेद; (प्रा० पै० १, ८०) ।

कराइणी—स्त्री० (दे०) शालमली-वृक्ष, सेमल का पेड़; (दे० ना० मा० २, १८) ।

कराइय—क्रि०, भू० का० (सं० कारा-पित) किया; (व० २, १३, १०) ।

कराफोडि—स्त्री० (सं० कर+स्फोट)
अंगुलिस्फोट; (व० ६, ११, ७) ।

कराल—१. वि० (सं० प्रा० कराल)
भयंकर; (भ०; जंबू० १०, २६, १) ।
२. वि० (सं० कडार) कपिल, भूरा रंग;
(जस०) ।

कराली—स्त्री० (दे०) दतवन, दांत
साफ करने का काष्ठ; (दे० ना० मा०-
२, १२) ।

करावलि—स्त्री० (सं० कर+अवलि)
किरण-जाल; (जस० १, ३, ३) ।

करावए—क्रि० कराता है; (की० ३,
२८) । करावहुँ—(सं० कृ+णिच्)
वनवायेंगे; "जिणविव करावहुँ तहि
रण"; (क० ५, ७, ३) । कराविय—
भू० का० कर्मवाच्य करवायी; (सि० २,
१३, ६) । कारविउ—भू० का०, कर्म-
वाच्य, कराया गया; "अट्भंतरु सुंदर
कारवीउ"; उसका भीतरी भाग सुंदर
कराया गया; (क० ५, ३, २) ।

करिदु—पुं० (सं० करिन्+इन्द्र) हाथी,
"आयउ वणकरिदु"; (ण० ३, १५,
१३) ।

करि—पुं० (सं० करिन् > प्रा० करि)
हाथी; (सं० रा०; वी० १, २; महा०
६८, १०६) । पुं० (सं० कर) हाथ;
(व० ५, २, १३) । —कर पुं० (सं०
करिन्+कर) चुण्डा, सूँड; (जस० १,
५, ३) । —दंत पुं० (सं० करिन्+
दन्त) गाजदंत (व० ४, ६, २) ।

—मिहुण पुं० (सं० करि+मिथुन)
हाथी और हस्तिनी का जोड़ा; हाथी और

हस्तिनी का समागम, संभोग; (जस० ४,
१३, ३) । —राअ पुं० (सं० करिराज)

ऐरावत हाथी; (क० १, १६, ३) ।

करिआ—स्त्री० (दे०) मदिरा परोसने
का पात्र, (दे० ना० मा० २, १४) ।

करिखंधरोह—पुं० (सं० कर+स्कन्ध+
आरोह) महावत; (जंबू० ६, ११,
४) ।

करिघड—पुं० (सं० करि+घटा) गज-
समूह; (जंबू० ५, ७, १) ।

करिठाण—पुं० (दे०) पैतरा, दाव-पेंच;
(जंबू० ५, १४, २१) ।

करिणि—स्त्री० (सं० प्रा० करिणी)
हथिनी, हस्तिनी; (जंबू० १, १४,
१०) ।

करिण्या, करिणी—स्त्री० (सं०
करिणी) हस्तिनी, हथिनी; (प० च०
८०, ५३) ।

करिल्ल—न० (दे०) वांस का नया
कल्ला, कोंपल; (दे० ना० मा० २,
१०) ।

करिविसाणु—पुं० हाथी दांत; (रि०
६, ६) ।

करिसण—न० (सं० कर्पण > प्रा०
करिसण) १. कृषि; (जंबू० १, ८, ५) ।
२. आकर्षण, खींचाव; (ण० १, ६,
८) ।

करिसार—पुं० (सं० करि+सार =
अत्युत्तम) श्रेष्ठ हाथी; (जंबू० ५, १०,
१) ।

करिसिरमुक्ताहल—पुं० (सं० करि+
शिर+मुक्ताफल) गजमुक्ता, गज के

भस्तक से निकलने वाला मोती; (जंबू० ८, १५, १३) ।

करीर—पुं० (सं० प्रा० करीर) करील का पेड़, झाड़ी; (जंबू० १०, ७, ३) ।

करीत—पुं० (सं० करीश) हाथियों में श्रेष्ठ, गजराज; (व० ४, २२, १) ।

करुआ—वि० (सं० कटुक > प्रा० कडुअ) कडुआ; (की० ३, १०३) ।

करुण—वि० (सं० करुण > प्रा० कलुण) १. दया-जनक; (भ०) । २. कोमल; (जंबू० ४, १६, ५ भ०) । कर्हण;

स्त्री० (सं० प्रा० करुणा) दया, करुणा.

“हियउल्लउ करुण कपियउ”; (जस० २, १४, ५) । करुणु—वि० करुण; (व० २, २१, ३) । —वंत वि० (सं० करुणा + वत्) करुणावान् (क० ६, ६, ३) ।

—सर पुं० (सं० करुण + स्वर) करुणामय आवाज; (क० ७, १०, १४) ।

करुणाघर—वि० (सं० करुणाकर) करुणा उत्पन्न करने वाला; (जस० ४, २८, ६) ।

करेडु—पुं० (दे०) गिरगिट; (दे० ना०-मा० २, ५) ।

करेश्रो—प०, का; (की० २, १०३) ।

करेवअ—वि० (सं० कर्त्तव्य) करने योग्य; (ण० ७, ४, १०) ।

करोड—पुं० (दे०) १. नारियल, २. कौआ, ३. वृषभ, बैल; (दे० ना०-मा० २, ५४) ।

करोडी—स्त्री० १. (सं० करोटि = कटोरा या पात्र) कांस्य-पात्र विशेष; (दे० ना० मा० ७, १५) । २. स्त्री० (दे०) एक प्रकार की जूँटी, क्षुद्र-जंतु

विशेष; (दे० ना० मा० २, ३) ।

करोह—पुं० (सं० करौघ) किरण-समूह; (व० १, १२, ८) ।

कर्मवियार—पुं० (सं० कर्म + विकार) कर्म-दोष, कर्मों का बुरा होना; (जंबू० ६, १३, १३) ।

कलंक—पुं० (सं० कलङ्क > प्रा० कलंक) दाग, दोष, लाच्छन; (भ०) ।

पुं० (दे०) वाँस; (दे० ना० मा० ३, ८) । —वइ वाड, काटि आदि से

घिरी हुई स्थान-परिधि; (दे० ना० मा०-२, २४) ।

√कलंक—(सं० कलङ्कय) कलंकित करना । —इ क्रि० व० (सं० कलङ्क-यति) कलंकित करना; (भ०) । कलङ्क-केइ - क्रि०, व० (सं० कलंकय्) दागी

करना; (की० ४, १६३) ।

कलंबु—स्त्री० (दे०) १. बल्ली-विशेष, २. नालिका (पद्मदंड); (दे० ना० मा० २, ३) ।

कल—पुं० कदंभ, कीच; तुल० गु० कळ; (प्रा० गु० २०, ३) ।

√कल—(सं० कलय्) १. संख्या करना, २. आवाज करना, ३. पहिचानना, ४. संबंध करना । कलइ-क्रि०, व० (सं० कलयति) (सं० कलय् > प्रा० कल =

जान लेना, पहिचानना,) सुन लेना; “वोल्नु कुमारहो कलु कलइ,” कुमार के

मधुर बोल को सुन लेती है; (जंबू० ४, १७, २३; सुद० ४, ६, २) ।

कलंत-कृ० (सं० कलय् + शतृ) जानकर; (जंबू० ६, १४, १) ।

कलइत्तथ—वि० (सं० कलायुक्त + क)

कलायुक्त; (जंबू० १, ११, ७) ।
 कलउ—पुं० (सं० प्रा० कला) किसी कार्य को भलीभाँति करने का कौशल; किसी काम को नियमानुसार करने की विद्या; (क० २, १८, ६) ।
 कलकंठ—पुं० (सं० कल+कण्ठ) मनोहर कंठ; (व० २, ८, ६) ।
 कलकलाब—पुं० (सं० कलाकलाप) कला समूह; (जस० १, २३, ३) ।
 कलकलिए—न० (सं० कलकलित) कोलाहल; (दे० ना० मा० ६, ३६) ।
 कलकोकिल—स्त्री० (सं० कल+कोकिल > प्रा० कल+कोइल) मधुर शब्द करने वाली या कलकंठी कोकिला; (जंबू० ३, १२, ६) ।
 कलघोषु—पुं० (सं० कल+घोष) कलकल ध्वनि; (जस० १, २६, १५) ।
 कलचुलि—पुं० कलचुरि वंश का राजा; (प्रा० पै० १, १८५) ।
 कलखुल्ल—पुं० (सं० कलन=शब्द√उल्ल (स्वार्थे) कर्षणाजनक, “णिविधरि-णिहिं कंदिउ कलुखुल्लउ,” —तव राजा के अन्तःपुर की स्त्रियों ने कर्षणाजनक आक्रंदन किया, तुल० म० काळजी=चिता (प० ३, १६, ८) ।
 कलत्त—न० (सं० कलत्त) पत्नी; स्त्री, भार्या; (भ०; प्रा० पै० २, ११७; हरिवंश पुराण ५१, ७) । कलत्तु; (महा० ६६, ६, २) ।
 कलभ—पुं० स्त्री० (सं० प्रा० कलभ) हाथी का बच्चा; (जस०) ।
 कलम—पुं० (सं० कलम) चोर, तस्कर; (दे० ना० मा० २, १०) ।

कलमसालि—पुं० (सं० कलम√शालि) कलम और शालि किस्म के धान्य या चावल (जस० १, २१, १) ।
 कलयंठ—पुं० (सं० कल+कण्ठ > प्रा० कल+कंठ) मधुर गला; (जंबू० ४, १६, ७) ।
 कलयंठि—स्त्री० (सं० कल कण्ठी > प्रा० कल+कंठी) कोकिला, कोकिल (प० २, १, १०; सं० रा०) ।
 कलयंदि—वि० (दे०) १. प्रसिद्ध, विख्यात; २ स्त्री० वृक्ष-विशेष; पाढल; (दे० ना० मा० २, ५८) ।
 कलय—पुं० (दे०) १. अर्जुन वृक्ष; २. सुवर्णकार; (दे० ना० मा० २, ५४) ; —ज्जल न० (दे०) ओष्ठ-लेप, होठ पर लगाया जाने वाला, (भ०) ।
 कलयल—पुं० (सं० प्रा० कलकल > प्रा० कलयल) कलकल का शब्द; ध्वन्यात्मक शब्द; (प० २, ६, ७; जंबू० १, १५, १) ।
 √कलयल—अक० (सं० कलकलाय > प्रा० कलकल) ‘कल-कल’ आवाज करना; (जस० २, १०, १४) । कलयलंत-कलकल ध्वनि; “कलयलंत-कोइल खाउले,” कोकिलों की कल-कल ध्वनि से आकुल था; (व० १, ८, १०) । कलयलंति-क्रि०, व० प्र०पु०, व० कल-कल शब्द करना; (विला०) ।
 कलयसि—स्त्री० (दे०) कलरव; (वी० १, २) ।
 कलरव—पुं० (सं० कल+रव) ‘कल-कल’ का शब्द; (जस० २, ३, ७) ।
 कलरुहाणी—स्त्री० (सं० कालरुहाणी)

रसिका छंद का भेद; (प्रा० पै० १, ८६) ।

कलरोल—पुं० (सं० कल+रवण) 'कलकल' ध्वनि; (जंजू० ६, १३, ११) ।

कलल—न० (दे०) वीर्य और शोगित का समुदाय, "पाइज्जंति रडंता सुतत्त-वुतं वसंनिभं कललं" (प० च० ११८, ८); "वसकलजसंभसोणिय"; (प० च० ३६, ५६) ।

कलवेणु—पुं० (सं० कल+वेणु) मधुर-वंशी; (जंजू० ४, ८, ६) ।

कलस—पुं० १- (सं० कलश) घड़ा; तुल० पं० कलस, म० कलशी; (रा०) ।

२. स्कंधक छंद का भेद; (प्रा० पै० १; ७५) । —सर पुं० (सं० कल+स्वर) मधुर स्वर; (क० २, ८, १२) । —हो पुं० कलश; (सु० ८, ६) ।

कलहंस—पुं० (सं० कलहंस) १. हंस, २. राजहंस; (भ०; महा० ६६, १०, १०) । कलहंसि—स्त्री० कलहंसिनी; (व० ८, १, ८) ।

कलह—पुं० (सं० प्रा० कलभ, प्रा० कलह) हाथी का वच्चा; (ण० २, १३, २) । —मूल पुं० (सं० कलह+मूल) कलह का मूल, "रे रे वड्डारिउ कलह-मूलु," (जंजू० ६, १२, ६) । न० (दे०) तलवार की म्यान; (दे० नां० मा० २, ५) । —य पुं० (सं० कलभक) हाथी का वच्चा; (प० च० ७८, २८) ।

कलह—पुं० राजा-विशेष-नाम; (प०-च० ३७, ७) ।

कलहारिणी—वि० (सं० कलहकारिणी)

कलह उत्पन्न करने वाली; (प्रा० पै० १, १६६) ।

कलहावणोय—(सं० कलभ+आपन्न=प्राप्त) भू० का०, कलह हुआ; "चंद्रणहिं चार कलहावणीय," चंद्रनखा के कारण वहाँ कलह हुआ था, (जंजू० ५, ८, ३३) ।

कलहि—वि० (सं० कलहिन्) भगड़ा-खोर; (दे० नां० मा० ५, ५४) ।

कलहोय—न० (सं० कलधौत>प्रा० कलहोय) सुवर्ण, सोना; (जंजू० १, १२, ४) ।

कला—स्त्री० (सं० कला) (छंदशास्त्र में) मात्रा छंद; (प्रा० पै० १, १२) ।

कलाथाण—पुं० (सं० कला+स्थान>प्रा० कला+थाण) कला का धाम; "सयलविज्जा-कलाथाणु संपत्तओ"; (जंजू० ३, ४, ६) ।

कलामरण—पुं० (सं० कला+भरण=धारण करने वाला) चंद्रमा; (प्रा० पै० २, १५५) ।

कलायर—पुं० (सं० कलाकर) कलाओं का आकर, कलाघर, चंद्र; (क० २, १६, ६) । टि०—पुराणों के अनुसार चंद्रमा में अमृत विद्यमान है, जिसे देवता पीते हैं । चंद्रमा शुक्ल पक्ष में कला-कला करके बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन उसकी सोलहवीं कला पूर्ण हो जाती है । कृष्ण पक्ष में उसके एकत्रित अमृत को कला-कला करके पी जाते हैं । यह माना जाता है कि पहली कला को अग्नि, दूसरी कला को भानु, तीसरी को विश्वेदेवा, चौथी को वरुण, पाँचवी को

वषट्कार, छठी को इंद्र, सातवीं को देव ऋषि, आठवीं को अजयएकपात्, नवीं को यम, दसवीं को वायु, ग्यारहवीं को उमा, बारहवीं को पितृगण, तेरहवीं को कुबेर, चौदहवीं को पशुपति, पंद्रहवीं को प्रजापति और सोलहवीं कला अमावस्या के दिन जल और अपधियों में प्रवेश कर जाती है, जिनके खान-पान से पशुओं में दूध उत्पन्न होता है। दूध से घी होता है और यह घी आहुति द्वारा चंद्रमा तक पहुँचता है।

कलाव—पुं० १. (सं० कलापम् > प्रा० कलाव) समूह, “सुकलाकलाव” —सुंदर कलाओं के समूह (ण० २, १०, १; उ० व्य० प्र० १२-६)। = (सं० कलाप) मयूर (प० च० २७, १५, ६)। ३. पुं० तरकश, तूणीर, जिसमें वाण रखे जाते हैं; (दे० ना० मा० २, १५)।

कलाहर—पुं० (सं० कलाधर) चंद्रमा; (व० ८, २, ६)।

कालिङ्ग—पुं० (सं० कलिङ्ग > प्रा० कालिङ्ग) देश-विशेष, यह उड़ीसा से दक्षिण की ओर गोदावरी के मुहाने पर है, कालिङ्ग देश; (जंबू० ६, १६, १५)।

—चार पुं० १. कलिङ्ग (राजा), २. आम्रवृक्ष धारक; (जंबू० ५, ८, २२)। —ह्रिज पुं० (सं० कलिङ्गाधिप) कालिङ्ग का राजा; (जस० ४, २७, २७)। कलिङ्गा-कालिङ्ग देश; (प्रा० वै० १, १४५)।

कालिङ्गपति—पुं० (सं० कलिङ्गपति) कालिङ्ग देश का राजा; (जस० ३, ३७, १७)।

कालिङ्ग—न० (दे०) छोटी लकड़ी; (दे०-ना० मा० २, ११)।

कालिङ्गर—पुं० पर्वत-विशेष; (क० १, १२, ६)।

कलि—१. पुं० (सं० प्रा० कलि) युग-विशेष, कलि-युग; (जम० १, १४, ३)। २. पटकल गण का नाम; (प्रा० वै० १, १५)। ३. झगड़ा, कलह, ४. शत्रु; (जंबू० ४, १, ११)। न० (सं० कल्य = आने वाला अगला दिन) कल; (वैराग्य-सार)।

कलिअ—वि० (सं० कलित > प्रा० कलिअ) १. युक्त, सहित; (क० १, २, २)। २. प्राप्त, गृहीत ३. ज्ञात; (दे०-ना० मा० २, ५६)। ४. वि० (दे०) गवित, गर्व-युक्त; (दे० ना० मा० २, ५६)।

कलिम—न० (दे०) कमल, पद्म; (दे०-ना० मा० २, ६)।

कलिय—स्त्री० (सं० कलिका > प्रा० कलिआ) अविकसित पुष्प; (ण० ८, १, ६)। वि० (सं० कलित > प्रा० कलिअ) युक्त, सहित; (जस० १, २१, १३)।

कलिया—स्त्री० (सं० कलिका > प्रा० कलिआ) सखी, सहेली; (जस० १, १२, ३)।

कलियारउ—वि० (सं० कलि + कारक) कलह करने वाला; (रि० ४, ४)।

कलियारय—वि० (सं० कलिकारक) कलह-कारक; (प० च० २१, १, ८)।

कली—स्त्री० (सं० कलि) कलिका, विना

खिला फूल; तुल० पं० कली; (सं० रा०) ।

कलुख—न० (सं० कलुप > प्रा० कलुख) वृष्टि; (की० ३, १४२) ।

कलुण—वि० (सं० करुण > प्रा० कलुण) दया-जनक, करुण; (सुदं० ६, १२, १; जस० ४, २४, १६; म० २, ६६, १०) ।

कलुप्त—न० (सं० कलुप > प्रा० कलुप्त) पाप, दोष, मैल; (ण० १, ११, ६) ।
—भाव पुं० (सं० कलुप + भाव) पाप-पूर्ण विचार; (जस० २, २६, ६) ।

कलेर—पुं० (दि०) १. कंकाल, अस्थि-पञ्जर; २. वि० भयानक; (दि० ना० मा० २, ५३) ।

कलेवर—न० (सं० प्रा० कलेवर) शरीर; (प्रा० पं० १, १०६; जस० २, २६, ४) ।

कलोह—पुं० (सं० कला + बोध) कला-समूह; (जस० १, १७, ७) ।

कल्ल^१—न० (सं० कल्य > प्रा० कल्ल) कल, गया हुआ या आगामी दिन; (सुदं० ८, २४, १८) । —इं सं० स्वः, कल; (जस० २, १२, १) ।

कल्ल^२—वि० (सं० कल्य) १. स्वस्थ, रोग-रहित, २. दब, चतुर; (दि० ना० मा० ८, ६५) ।

कल्लविल—वि० (दि०) १. आद्रित, २. विस्तारित; (दि० ना० मा० २, १८) ।

कल्ला—स्त्री० (दि०) मद्य, दारु; (दि० ना० मा० २, २) ।

कल्लाण—पुं० (सं० कल्याण > प्रा०

कल्लाण) मंगल-क्षेम; (म०) । कल्लान; (की० ३, १३) । —गुणधर पुं० मुनि-विशेष-नाम; (प० च० १३, ४४) ।

—माला स्त्री० राजा वालिविल्ल की पुत्री; (प० च० ७६, ८) । —मित्त पुं० (सं० कल्याणमित्र) पुरुष-विशेष का नाम; (जस० ३, ३८, ६) । —मुणि पुं० मुनि-विशेष; (प० च० ८८, १२) ।

—य दि० (सं० कल्याणक) कल्याणकारक; (व० १, २, २) ।

कल्लाल—पुं० (सं० कल्यपाल > प्रा० कल्लाल) दारु वेचने वाला; मद्य-विक्रेता; (जस० २, १७, ७; जंबू० ५, ७, २१) ।

कल्लि—न० (सं० कल्य > प्रा० कल्लि) कल, गया हुआ या आगामी दिन; (जंबू० २, १३; ११) ।

कल्लूरिय—स्त्री० (दि०) कान्दविकी, मीठा दनाने वाली; पाक-स्त्री; (प० च० ४५, १२, ४) ।

कल्लोल—पुं० (सं० प्रा० कल्लोल) १. तरंग, ऊर्मि, लहर; (सं० रा०; की० २, १०४; जंबू० ७, ६, ६) । कल्लोलु; (सि० २, १२) । २. पुं० शत्रु, दुश्मन; (दि० ना० मा० २, २) ।

कल्लोलिनी—स्त्री० (सं० कल्लोलिनी > प्रा० कल्लोलिणी) नदी; (की० २, १४४) ।

कल्होड—पुं० (दि०) वत्सतर, बछड़ा; (जंबू० ५, ७, २३; दि० ना० मा० २, ६) ।

कल्होडी—स्त्री० (दि०) बछिया जवान

गाय जो व्याधी या गाभिन न हो; (दे०-
ना० मा० २, ६) ।

कवद्वय—वि० (सं० कवचित) वस्त्रर
वाना, वमित; (प० च० ७०, ७१) ।

कवए—पुं० न० (सं० कवन > प्रा०
कवय) लोहे की कड़ियों का वह आव-
रण जो लड़ाई के समय जोड़ा पहनते थे;
(प० ५, ७, १५) ।

कवच—पुं० न० (सं० कवच > प्रा०
कवय) कवच, वस्त्रर; (गी० ४,
१=४) ।

कवड—न० (सं० कपट > प्रा० कवड)
माया, छद्म; (जम० ३, १=, ६; जं०
१०, =, ४; भ०) ।

कवडकूट—पुं० (सं० कवडकूट > प्रा०
कवडकूट) कपट युक्त वस्तु (मुद्द० ८,
३५, ५) ।

कवडा—पुं०, व० (सं० कपटकान्)
बड़ी कौड़ियां; (उ० व्य० प्र० ५१-
८) ।

कवटी—स्त्री० (सं० कपटिका > प्रा०
कवट्टिया) कौड़ी; तुल मगही कौड़ी;
(श्रीम्विपा; चर्यापद) ।

कवटि-जकल—पुं० (सं० कपटियक्ष)
जटाजूटधारी वक्ष; “कवटि-जकल तद्
धीनवडं संघ-वरु अवधारि”; (प्रा० गु०
१६, १६) ।

कवट्ट—पुं० (सं० कपटं) बड़ी कौड़ी;
(दे० ना० मा० १, ११०) ।

कवण—सर्व० (सं० कः पुनः > प्रा०
कवण) कौन, तुल० गु० कोण, (ण०
३, १३, १२; हे० ३५०; कौ० १, १३;
सं० रा०) । २. कौन-सी (जं० १, ३,

१) । —हिं सर्व० (सं० कश्मिन्) किस
(हे० ४२५, १); कवणु—सर्व० कौन,
तुल० मगही कउन, कौन; (सरह, दोहा-
कोण; प० च० १३, ५, १०; म० २,
१६, ६) । कवणें—सर्व० किस;
(विना०) । कवणे—सर्व० किस (की०
२, २२७) । कवणेण—सर्व० (सं० केन)
किस, (हे० ३६७, ३) ।

कवए—पुं० न० (सं० कवच > प्रा०
कवय) लोहे की कड़ियों के जाल का
बना हुआ पहनाया जितं योड़ा मुद्द के
समय पहनते थे । जिरह-वकतर; (जं०
६, १३, ६) । २. न० (दे०) वनस्पति-
विशेष; (दे० ना० मा० २, ३) ।

कवरी—स्त्री० (सं० कवरी, कवरी >
प्रा० कवरी) । युयी हुई चोटी, चोटी-
बंद, केशपाण; (जं० ४, ११, १०) ।

कवल—पुं० (सं० प्रा० कवल) कवल,
ग्रास, भोज्य पदार्थ की वह मात्रा जो
खाने के लिए एक वार मुँह में डाली
जाए; (जं० २, २०, ५) । कवलु;
(प० च० १२, १०, ७) ।

कवल—सक० (सं० कवल्य > प्रा०
कवल) ग्रसना, हड़प करना । कवलिज्जइ-
ग्रसित किया जाता है (रि० ६, ६) ।

कवलिस—वि० (सं० कवलित > प्रा०
कवलिज) ग्रसित, भक्षित; (जं० ८,
१४, २१; जस० २, २५, १४) ।

कवसी—वि० (सं० कपिश) पीला-भूरा
या लाल-भूरा; “सिहि-सिहि-कयासु
कवसी कयासु”; —दिशाओं को लाल-
भूरा (उज्ज्वल) बना देने वाला अग्नि-
शिखर-समूह; (व० ६, ६, २६) ।

कवहु—अव्य. १. कभी-कभी; (की० २, २४) । २. कव; (प्रा० पै० १, २०२) ।

कवाड—पुं० न० (सं० कपाट > प्रा० कवाड) किवाड़; तुल० म० कवाड; (ण० ५, १०. १८) ।

कवाण—पुं० न० (सं० कपाट > प्रा० कवाड) किवाड़; (सि० २, ३२) ।

कवाल—न० (सं० कपाल > प्रा० कवाल) खोपड़ी, खोपड़ी की हड्डी (ण० २, ३, १६; सं० रा०) । —कुट्ट पुं० (सं० कपाल+कोष्ठ) खोपड़ी; (जं० ७, ६, ८) ।

कवालिय, कावालिय कावालिया—पुं० स्त्री० (सं० कापालिकः) शैव संप्रदाय के अंतर्गत विशिष्ट संप्रदाय का अनुयायी जो मनुष्य की खोपड़ियों की माला धारण करते हैं और उन्हीं में खाते-पीते हैं; (सं० रा०) ।

कवि—सर्व० (सं० किम्+अपि) कोई; (जं० ४, १०, ९) ।

कवि—पुं० (सं० प्रा० कवि) कविता करने वाला; (जस० १, १८, १०) ।

—गुण पुं० (सं० काव्यगुण) काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्त्व । धोज, प्रसाद, माधुर्य); (जं० १, ४, ४) ।

—लहो भूदेव पुं० (सं० कपिल-भूदेव) कपिल भूदेव नामक ब्राह्मण, (व० २, १६, ६) । —लाइय—पुं० कपिल आदि; (व० २, २५, १०) ।

कविट्ट—पुं० (सं० कपित्थ > प्रा० कवित्थ, कइत्थ) वृक्ष-विशेष, कैथ का पेड़; (प० च० ४२, ६) ।

कविड—न० (दे०) घर का पिछला

आंगन; (दे० ना० मा० २, ९) ।

कवित्त—पुं० (सं० कवित्त्व) १. काव्य, कवित्त; (प्रा० गु० २०, ६३) । २. कवि का भाव; (सं० रा०) ३. काव्यप्रबंध (जं० ५, १, ३) ।

कवित्थ—पुं० (सं० कपित्थ > प्रा० कवित्थ, कइत्थ) १. वृक्ष-विशेष, कैथ का पेड़, २. फल-विशेष, कैथ; (भ०) ।

कविल—पुं० १. (सं० कपिल > प्रा० कविल) वर्ण-विशेष, भूरा रंग; (ए० ७, ५, ८; प्रा० पै० २, ९७) । २. पुं० विप्र-वालक; (प० च० ३५, ५६) ।

—केस पुं० (सं० कपिलकेश) कपिलकेश नामक राक्षस; (क० २, १२, ३) ।

कविस—न० (दे०) दारु, मद्य, मदिरा; (दे० ना० मा० २, २) ।

कवोय—पुं० (सं० कपोत) म्लेच्छ देश-विशेष; (प० च० २७, ७) ।

कवोल—पुं० (सं० कपोल > प्रा० कवोल) गाल, गण्ड; (भ०; जस० १, ९, ५) । —तय पुं० (सं० कपोल+त्वचा) गाल का चर्म; (जं० २, १८, १२) ।

कवडंग—पुं० (सं० काव्य+अङ्ग) काव्य; के अंग; (जं० ८, १, ३) ।

कव्व—पुं० (सं० काव्य > प्रा० कव्व) काव्य; (की०, १, १७; प्रा०-पै० १, ११; म० १, ३, ३; ण० १, ३, ४) । —ह (कव्वह) काव्य; (की० १, ३१) । —हीं (कव्वहीं) काव्य; (की० २, ९१) ।

—कलाउं स्त्री० काव्य-कला; (की० १, ७) । —पिसल्ल वि० काव्य-धुरंधर (प० १, २, १०) ।

कव्वड—पुं० न० १. (सं० कपाट > प्रा० कवाड) क्वाड (ण० ३, १५, १०) । २. (सं० कर्पट > प्रा० कप्पड) कपडा; (भ०) । ३. खराब गांव; (सि० १, ३) ।

कव्वत्य—पुं० (सं० काव्यायं) काव्य का भावार्थ; (जस० १, २३, १०) ।

कव्वपोजस—पुं० (सं० काव्य+पीयूष) काव्य रूखी अमृत; (जंजू० ३, १, १) ।

कव्वनेअ—पुं० (सं० काव्य+भेद) काव्य के भेद; (जंजू० १, ३, ४) ।

कव्ववर—पुं० (सं० काव्यवर) श्रेष्ठ-काव्य; (प्रा० पै० २, १६०) ।

कव्वाड^१—पुं० (दे०) दाहिना हाथ; (दे० ना० मा० २, १०) ।

कव्वाड^२—पुं० (दे०) कवाड़ीपन; "होसइ कव्वाडण वि भोयणु," अपना भोजन तो कवाड़ीपन से भी चलता रहेगा; (जंजू० ६, २, १६) ।

कव्वाडिअ—पुं० (दे०) कवाड़ी; "संखिणि नाम को वि कव्वाडिअ," संखिणी नाम का कवाड़ी रहता था; (जंजू० ६, २, २) ।

कव्वामय—पुं० (सं० काव्य+अमृत; (जंजू० ७, १, १) ।

कव्वाल—न० (दे०) १. कर्म-स्थान; कार्यालय; २. घर; (दे० ना० मा० २, ५२) ।

कव्वुरं—वि० (सं० कवुर > प्रा० कवुर) कबरा, चितकबरा; (सुदं० २, १, ७) ।

कस—पुं० (दे०) कश, चाबुक, अंकुश; "सामंतकुमरकस हयहरिल्लु," -सामंत-

कुमारों के कशों (चाबुकों) से आहत होते हुए अश्वों; (जंजू० ५, ७, ११) ।

कस—वि० (सं० किव्व > प्रा० कीस) कैसा; (उ० व्य० प्र० ३२-१) । सर्व० (सं० कस्य) किसका; (संवि० १५, २, ६) । पुं० (सं० कप > प्रा० कस) कसांटी; (जंजू० १, ४, २) ।

कसई—स्त्री० (सं० कशुक) फल-विशेष, गवेपुक या कशुक नामक पौधे के फल, जो कि गोल लंबोतरे और एक ओर नुकीले होते हैं; (दे० ना० मा० २, ६) ।

कसण—वि० (सं० कृष्ण > प्रा० कसण) कृष्ण वर्ण, काला; (रा० १, १३, १०; प० च० २७, २, २) ।

कसण पखिअ—स्त्री० (सं० कृष्ण पक्ष) १. वह पक्ष जिसमें चंद्रमा का ह्रास हो; २. अंधियार पक्ष; (सु०) ।

कसणाणण—पुं० (सं० कृष्णानन) कृष्ण मुख; (व० २, २, १२) ।

कसणोरय—पुं० (सं० कृष्ण+उरग) कृष्ण वर्ण का सर्प; (व० १, ४, १२) । —आलि (अ० आली) कृष्ण वर्ण के बड़े या लंबे सर्प; (व० १, ४, १२) ।

कसताडणु—पुं० (सं० कश=चाबुक+ताडनम्=मारना-पीटना) कौड़ा मारना; "णरणाहे तुरयहो सुयछलेण कसताडणु किउ कोऊहलेण," -राजा ने कौड़ूहलवच सूए की आंख बचाकर घोड़े को एक कौड़ा मारा; (क० २, ६, ५) ।

कसमस—स्त्री० (दे०) कसमसाहट, कसमसाना; (म० २, ५५, १०) ।

कसमसत्ति—स्त्री० (सं० कृशं + शक्ति)
दुर्वल; (जस० ३, १४, १२) ।

कसमीर—पुं० (सं० कश्मीर > प्रा०
कसमीर, कम्हीर) प्रदेश का नाम; (जंबू०
६, १६, १०) ।

कसर—पुं० (दि०) गरियार, अधम वैल;
मट्टर (वैल) २. (दि० ना० मा० २, ४;
जंबू० ७, ३, १३) ।

कसरक्क—पुं० (दि०) कुड्मल, फूल की
कली; (जंबू० ७, १, २) ।

कसवट्ट—पुं० (सं० कपपट्ट > प्रा० कस-
श्ट्ट) कसौटी का पत्थर; तुल०
गु० कसोटी, (की० ३, ११६) । —उ
पुं०; (प्रा० गु० ३८, ६) ।

कसाइयंत—कृ० (सं० कपायमानः)
कसौला बनाता हुआ; (जंबू० ४, १५,
१४) ।

कसाय—पुं० (सं० कपाय > प्रा० कसय)
चतुर्विध कसाय—क्रोध, मान, माया, और
लोभ; (ण० १, १२, ५) ।

कसार—पुं० (सं० कसर > प्रा० कंसार)
कसार, चीनी मिला हुआ भुना आटा
तथा सूजी; (भ०) ।

कसिट—वि० (सं० कृष्ट) खींचा हुआ,
आकृष्ट, चासा हुआ; (पड्) ।

कसिण—वि० (सं० कृष्ण > प्रा० कसण)
कृष्ण वर्ण वाला; (जंबू० १०, २५,
१०) । पुं० वर्ण-विशेष; (सं० रा०) ।

कसिव—पुं० (सं० काशी + अधिप)
काशी का राजा; (प० च० १०४,
११) ।

कसीदा—पुं० (अ० कसीदः) उडू या
फारसी भाषा की एक प्रकार की कविता

या नज्म, जिसमें प्रायः किसी की स्तुति
या निंदा हो । उसमें किसी महान् पुरुष
की प्रशंसा की जाती है परंतु उस प्रशंसा
में यथार्थता कम पाई जाती है; (की० २,
१७२) ।

कशीस—स्त्री० (फ्रा० कशिश) खिचाव;
(की० ४, ६५) ।

कसु—सर्व० (सं० कस्य) किसका;
(जंबू० ४, २२, २५) ।

कसेर—पुं० न० (सं० कशेरु > प्रा०
कसेरु, कसेरुय) जलीय कंद-विशेष, तृण-
विशेष; (ण० १, ६, १२) । कसेरु;
(महा० १, ३, १२) । —दल पुं० (सं०
कशेरु + दल) जलीय कंद-विशेष का
समूह; (जस० २, ३५, ११) ।

कस्स—पुं० (दि०) कर्दम, पङ्क, कीचड़;
(दि० ना० मा० २, २) ।

कस्सीर—पुं० (सं० कश्मीर) नगर-
विशेष; (ण० ५, ७, ७) । —य, पुं०
(सं० कश्मीरज) केसरु; (सुदं० ८, २६,
३) ।

कस्सु—सर्व० (सं० कस्य) किसका; (हे०
४२२, ६) ।

कप-वट्टइ—स्त्री० (सं० कपं-पट्टिका
> प्रा० कसवट्टिवा) एक प्रकार का
काला पत्थर जिस पर रगड़ कर सोने की
परख की जाती है; तुल० पं० कसवट्टी;
(हे० ३३०, १) ।

कहं—अध्य० (सं० कथं) १. कैसे; (प्रा०
पै० १, ६६) । २. क्यों, किस लिए;
(पड्) ।

कहंतरं—पुं० (सं० कथान्तर) पूर्व जन्मों
की कथा; (जस० ४, ४, १) ।

कहंतर—पुं० (सं० कथा + अंतर) दूसरी घटना; (ण० ४, १, ५; संधि० ६८, १) ।

कह—स्त्री० (सं० कथा > प्रा० कहा) कथा, वार्ता; (ण० ६, ६, २७; सं० रा०; म० १, ३, ३) ।

कह—अव्य० (सं० कथम् > प्रा० कहं) कैसे, किस तरह; (भ०) । कह व-अव्य० (सं० कथम् + अपि > प्रा० कहं + अवि) कैसे भी, किसी तरह भी; (ण० ३, ६, ७) ।

कह—सक० (सं० क्वथ्) क्वाथ करना, ज्वालना । —इं; (पह्) ।

√कह—(सं० √ कथ् > प्रा० कह) बोलना । —इ सक० व० (सं० कथयति > प्रा० कहइ) कहना, बोलना; (महा० ६८, ८; ण० १, ५, ४) । कहउं—क्रि०

व०, कहता हूँ (की० १, ५०) । कहए—व० कहता है (की० ३, १६) । कहओ—कहूँ; (की० ३, १३६) । कहणह, कहणु

—कहने के लिए; (सं० रा०) । कहमि—

क्रि०, व०, कहना (म० १, ३, ३) ।

—वा कहूँ (की०, १, ६८) । —सि

कहो, बखान करो; (की० १, ४०);

—हु भा०, कहो, बखान करो; (की० २,

३) । तुस० राज० कहवो, गु० कहेवुं;

(प्रा० पं० २, १६६) । कहंत—कृ० (सं०

कथय् + शतृ); (जंबू० ५, ४, ६) ।

कहण लग्ग—क्रि० कहने लगे; (संधि०

१२, ८, २३) । कहल—क्रि० भू० का०

बतला दिया, “काहु वाट कहल सोऊ”

—अर्थात् किसी ने सीधा रास्ता बतला दिया; (की० २, ७२) ।

कहकह—पुं० (सं० प्रा० कहकहकह) हँसी की आवाज; (प० च० २८, १२, १) ।

√कहकह—अक० कहकह आवाज करना, (संधि० १२, २, ८) । कहकहंत—कह रहे थे; (जस० १, १६, ६) ।

—न्ति क्रि० व० जोर, से हँसना; (प० च० ३२, ६, २) ।

कहण—न० (सं० कथन > प्रा० कहण) कथन, उक्ति; (जंबू० ७, १, ६) ।

कहनी—स्त्री० (सं० कथानिका) हाल-चाल, वार्ता; तुल० पं० कहाणी; (की० ३, १६) ।

कहबंध—पुं० (सं० कथा + प्रबन्ध) कथा की गठन या वंदिश; (जंबू० १, ७, ५) ।

कहय—वि० (सं० कथक > प्रा० कथग) कहने वाला । पुं० कथाकार; (दि० ना० मा० १, १४५) ।

कह व—अव्य० (सं० कथम् वा) १. किसी तरह; (जंबू० २, १६, ७) ।

२. (सं० कथम् अपि) किसी प्रकार भी; (क० १, २, ६) । २. कदापि, कभी; (क० २, १४, १) ।

कहा—स्त्री० (सं० कथा > प्रा० कहा) कथा; (जस० ३, ११, १४; की० ४, २३५; विला०) । —वसेस पुं० (सं०

कथा + अवशेष) कथा का शेष भाग; (जंबू० ६, १४, ५) —विराम पुं०

(सं० कथा + विराम) कथा का रुकना; (जंबू० ४, ४, ६) ।

कहा—अव्य० (सं० कथम्) क्या; (रा०

२६) । सर्वे सं कस्य, कोई, "तं
निगुवि न कही" अच्छारित जाट," किन्तु
वह देसकर कोई आन्वय-वक्ति नहीं था;
(व० १, ५, ६) ।

कहागय—न० (सं० कथानक > प्रा०
कहागय, कहागय) क्या, वाना; (मुर्व०
७, १०, ६) । कहागय (म०) । तुल०
म० कहाणी ।

कहाणी—स्त्री० (सं० कथानक > प्रा०
अम० कहागय) १. पूरी वार्ता या हास्य
चाल; (की० ५, १४१) । २. कहाणी;
(क० २, १६, १) ।

कहार—पुं० (सं० कन्व मार-क >
प्रा० काहार) टीमर, एक हिंदुओं की
जाति जो पानी भरने और डोली उठाने
का कार्य करती है; "करह-वसह-कहा-
रियहि संवाहिय करकट्ट," उठो; वलों
व कहारो द्वारा मे जाने योग्य वस्तुएँ ले
जायी जाने लगीं; (जंबू० ५, ६, ५; उ०
व्य० प्र० ४६-२६) ।

कहि—क्रि० वि० (सं० क्व > प्रा० कहि,
कहिया) वहाँ, कहाँ, किस स्थान में
(सं० रा०) । कहि-कहाँ (प० २, १,
७, हे० २५७; म०; महा० ६६, ८,
१३) । कहि; क्रि० वि० (जंबू० १, ६,
११) । कहि मि-क्रि० वि० (सं०
क्वापि) कहाँ भी; (जंबू० १, १५,
२) ।

कहिय—वि० (सं० कथित > प्रा०
कहिया) कथित, उक्त; (जस० १, १,
६) । कहिय; (जस० १, २५, ५; प०
२, २, १) ।

कहिनी—स्त्री० (सं० कथनी) बातचीत;

(की० २, ११७) ।

कहियंतर—पुं० (सं० कथित-अन्तर)
कहा हुआ अन्तर; (जंबू० ७, ५, ६) ।

कहूँ—क्रि० वि० (सं० कृतः) १. कही से
भी, (की० ५, १४७) । २. कहाँ; (प्रा०
प० १, १-६) । ३. व० क० (सं०
कृत्वा > काट > कट, कहुँ) करके;
(की० १, ५७) ।

कहु—१. सर्वे (सं० कस्य) किसका;
(जंबू० ७, १, १६) । कही-सर्वे
किसका; (जंबू० ३, ६, ८) । २. क्रि०-
वि० (सं० कृतः) किसी तरह, कहीं से
भी; (की० ५, २२३) । ३. कहाँ से;
(पट्ट) । ३. किस से; (म०) । ४. किससे;
(महा० ६६, १५, ८) ।

कहेड—वि० (दि०) तरुण, युवक; (दि०-
ना० मा० २, १३) ।

कहूँ—पुं० (सं० कृष्ण) कृष्ण, (की०
१, २१) ।

काइ—अव्य० कैसे, क्यों कर; (की० १,
१५) । -

कांचिडय—स्त्री० (दि०) एक कर्णामरण;
कांचिडय; (रा० ११) ।

कांठ—पुं० (सं० कण्ठ) गला; कांठहि;
(रा० २३) ।

कांठी—स्त्री० (सं० कण्ठिका) गले का
एक अमरण; (रा० ३) ।

कांठ—पुं० (सं० काण्ठ) तीर, बाण;
(की० ५, १६३) ।

कांती—स्त्री० गायी छंद का मंत्र; (प्रा०
प० १, ६०) ।

कांञ—पुं० (सं० कन्व > प्रा० कांञ,

खंघ) कंघा, कांघ; (उ० व्य० प्र० ६-२१) ।

कांवल—पुं० न० (सं० कम्बलम् > प्रा० कंवल) कामरी, ऊनी कपड़ा; (उ० व्य० प्र० ५-१५) ।

कांही—अव्य० (सं० कुत्र) कहाँ; (उ० व्य० प्र० ३०-३) ।

काँ—प० का (की० २, १३) ।

काँघे—पुं० (सं० स्कन्ध > प्रा० कंघ) स्कन्ध, कंघा, (की० ४, ४४) ।

का—१. सर्व० (सं० कः या किम्) क्या; तुल० मगही का; (सरहपा, चर्यापद; की० १, २७) । २. प० (सं० कः) संबोधक परत्सर्ग; (प्रा० पै० २, १२०) । ३. सर्व० सं० कस्य, किसका; (उ० व्य० प्र० १५-१) । ४. सर्व० स्त्री० (सं० का) कोई; (जंबू० २, १४, ६) ।

काअ—पुं० (सं० प्रा० काय) शरीर; (ण० १, ६, २) । पुं० (सं० प्रा० काक) कौआ; (प० च० ८, ७६) । —। स्त्री० (सं० काय) शरीर; (की० ४, १६४) । काअय—पुं० (सं० कायस्थ) कायस्थ नामक जाति; (फ़ी० २, १२१) ।

काअर—वि० (सं० कातर) दीन; (की० २, ३६; प्रा० पै० १, १५७) । २- कायर; (प्रा० पै० १, १६३) ।

काइँ—सर्व० न० (सं० विम् = कानि) क्या; तुल० मारवाड़ी काइँ, गु० कां; (प० च० ३४, १, १; हे० ३५७, ३; क० ४, १२, ६) काइँ—सर्व० न०, क्या; (प्रा० पै० १, ६) । काइँ—सर्व, न० (सं० किम्) कैसे, “इय रूव-सरिच्छड हियउ तिरिच्छड सल्लु काइँ तुम्हहं

यियउ,” अर्थात् इस सद्य रूप तुम्हारे हृदय में कुटिल शल्य की भाँति कैसे स्थित रहा? (जंबू० २, १८, १४) ।

काइ—सर्व० क्या, (की० ४, १४५) ।

काइ—पुं० (सं० प्रा० काय) शरीर; (सं० रा०; महा० ६८, ८, १२) ।

काइणी—स्त्री० (द्वे०) गुञ्जा, लाल रत्ती; (दे० ना० मा० २, २१) ।

काउ—पुं० (सं० प्रा० काक) कौआ, वायस, “हंसु व काउ न याणइ धूयडु’ —उल्लू हंस के समान (दीखने वाले)

कौवे को पहचान नहीं पाया; (जंबू० ८, १५, १४) । कृ० (सं० $\sqrt{\text{कृ}} + \text{तुमुन्} = \text{कर्तुम्}$) कर; “एत्यंतरे” पिय परिवरिय काउ रायहोँ धुर अण्पिवि सुअहोँ जाउ,” (व० १, १२, १) ।

काउरिस—पुं० (सं० कापुरप > प्रा० काउरिस) कायर पुरुष; (जंबू० ७, २, १६) ।

काउल—पुं० (सं० प्रा० काक) काक, कौआ; (जस० १, १०, ६) ।

काउडाइँ—न० (सं० प्रा० केवल) केवल ज्ञान; (क० ६, १३, ८) ।

काउल्ल—पुं० (द्वे०) बक, बगुला; (दे० ना० मा० २, ६) ।

काउसग—पुं० (सं० कायोत्सर्ग) १. जैन शिल्प में अर्हत् की वीतरागावस्था में खड़ी मूर्ति, २. जैन धर्म के अनुसार एक प्रकार की अग्नि । तपस्या; (संवि० १, ६, २) । काओत्सग; (भ०) ।

काए—पुं० (सं० प्रा० काय) शरीर; (विला०) ।

काएथ्य—(सं० कायस्थ) कायस्थ नामक जाति; (की० ३, ११६) ।

काओल—पुं० देश-विशेष; (प० च० ४६, ८, १५) ।

कागलि—स्त्री० (सं० काकलि, -ली > प्रा० कागलि, ली) मंद मधुर स्वर, स्वर-विशेष, सूक्ष्म गीत-ध्वनि; (क० ३, ६, ३) ।

कागोणंद—पुं० (सं० काकोनन्द) काको-नंद नाम की चक म्लेच्छ-जाति; (प०-च० ३४, ४१) ।

काचले—वि० (सं० कृत्य > प्रा० कच्च) कामदार या जड़ाऊ; (की० ४, ४२) ।

काद्य—स्त्री० (सं० कक्षा) कमर पर बांधने का एक वस्त्र; (रा० २६) । (सं० कक्ष्या) पार्श्व भाग, (की० ४, १६) ।

काजर—पुं० (सं० कज्जल) काजल, कालिमा; तुल० पं० कज्जल; (की० २, १३१) ।

काटि—सक०, भू० का० (सं० कृत् > कट्ट) काटते थे; (की० ४, ७८) ।

काठहू—न० (सं० काष्ठ > प्रा० कट्ठ) काठ, लकड़ी; (उ० व्य० प्र० १३-२१) ।

√काढ—(सं० √कृप् > प्रा० कड्ढ) खींचना; गु० काढवुं; (संघि० १६, ५, ८) ।

काढल—क्रि० भू० का० (सं० कृप् > प्रा० कड्ढ) निकाले गए; “सिन्धु पार सम्भूत तरणि रथ वहइते काढल,”—वे सिन्धु पार के देश में उत्पन्न हुए थे और सूर्य के रथ को खींच कर निकाले गए थे; (की० ४, ५३) ।

काढिय—वि० (सं० कपित) खींची हुई; (जंबू० ६, ४, ६) ।

काण—वि० (सं० प्रा० काण) काना, अक्षिविकल, एकाक्ष; तुल० पं० काणा; (जस० २, १७, ३) ।

काणच्छि—स्त्री० (दे० (टेढ़ी नजर से देखना, कटाक्ष; (दे० ना० मा० २, २४) ।

काणण—न० (सं० कानन > प्रा० काणण) १. जंगल; (जंबू० २, १३, १२) । २. उपवन; (प्रा० पै० १, १३५) ।

काण्डी—स्त्री० (दे०) परिहास; (दे०-ना० मा० २, २८) ।

काणा—वि० (सं० प्रा० काण) काना, एकाक्ष; तुल० राज० काणू; (प्रा० पै० १, ११६) ।

काणि—स्त्री० (दे०) मर्यादा का ध्यान, लोक-लज्जा, संकोच; (संघि० १, ३, ५) । २. चिन्ता; (प्रा० गु० ७, २३) । ३. वि० काणी, अक्षिविकला, (जस० २, ३६, ६) ।

काणिउँ—क्रि० भू० का० (दे०) छिद्र गए; “भक्खंतेण दंत-वणे काणिउँ,” (उसे) खाते-खाते उसके दांत व मुख छिद्र गए, (जंबू० ६, ११, ३) ।

काणीण—पुं० (सं० कानीन > प्रा० काणीण) कुंवारी कन्या से उत्पन्न पुत्र, कुमारी-पुत्र, कन्याकाजात; (प० च० ३४, २, ७; जस० २, १७, ३) ।

काष्ण—पुं० न० (सं० कर्ण > प्रा० कण्ण) कान; मुहा० ‘काष्ण समाइअ अक्षिरस’—कानों में अमृत रस समाना

अर्थात् श्रवण से आनन्द होना;
(की०) ।

काती—अच्य० (सं० कुतः) 'काती
पढिअ ककरें घर'—कुतः पठ्यते गृहे
कस्य? (उ० व्य० प्र० २८, ८) ।

कादम्बरि—स्त्री० (सं० कादम्बरो) एक
विशेष प्रकार की श्रेष्ठ सुरा; (की० ४,
७५) ।

कादी—पुं० (अ० काजी) काजी, न्याय-
कर्ता, मुंसिफ; (की० ४, ७) ।

कान—पुं० न० (सं० कर्णं > प्रा०
कण्ण) श्रोत्र, कान; तुल० पं० कन्न्;
(उ० व्य० प्र० ५१-१२) ।

कानोड—पुं० (सं० कर्णाट+ओड्)
मोनियर विलियम्स ने ओड् शब्द का
अर्थ इस प्रकार दिया है—"of a co-
untry (the modern Orissa) the
inhabitants of that country,
कर्णाट से मिले हुए उड़ीसा प्रांत का
निवासी । —उं; (रा० १०) ।

कान्ति—स्त्री० (सं० कान्ति > प्रा०
कंति) सौंदर्य, शोभा; (की० १, ७१) ।

कान्ह—पुं० (सं० कृष्ण > प्रा० कण्ह)
कृष्ण; तुल० राज० कान्ह; (प्रा० पै० १,
६) ।

कान्हइ—अव्य० समीप में; "कहिय वात
कान्हइ वइसारिउ," तुल० गु० कने,
(प्रा० गु० ७, १८) ।

कापड—पुं० (सं० कर्पट > प्रा० कप्पड)
कपड़ा; (रा० २६) ।

कापडी—पुं० (सं० कार्पटिकः) तीर्थ-
यात्री; (उ० व्य० प्र० ५-२५) ।

कापडु—पुं० (सं० कर्पट > प्रा० कप्पड)

१. पुराना, जीर्ण-शीर्ण या थगली लगा
कपड़ा, २. कपड़ का टुकड़ा; (उ० व्य०
प्र० ५२-१२) । कापडो; (की २, ६५) ।

कापल—पुं० (सं० कर्पट > प्रा० कप्पड)
वस्त्र, कपड़ा; (की० २, ६५) ।

कापि, कावि—सर्व० (सं० कोऽपि)
कोई, कोई, भी; (सं० रा०) ।

कापिट्ठ—पुं० कापिठ नामक विशेष
कल्प; "कापिट्ठए कप्पि विसिट्ठए देवा-
णंदं सुरुवउ," —देवों को आनंदित करने
वाले कापिठ नामक विशेष कल्प में स्व-
रूपवान् देव हुआ; (व० ७, ८, १२) ।

कामंडुहा—स्त्री० (सं० कामदुघा) काम-
धेनु; (प० च० ८२, १४) ।

√काम—(सं० √कामय्) इच्छा करना ।
कामंती—वि० कामयमाना, (प्रा० पै० १,
३) ।

काम—पुं० (सं० प्रा० काम) १. छंद-
विशेष; (प्रा० पै० २, ३) । २. कामदेव
(सं० रा०); ३. इच्छा; (जवू० ११, १, ३;
की० १, ४०) । —गह पुं० (सं०
काम+गृह) कामाग्रह; (ण० ३, ६, ८) ।

—जर पुं० (सं० काम+ज्वर); (जस०
२, १०, १२) । —न, इच्छा (की० २,
१३३) । —ह्व पुं० (सं० कामरूप)
स्थान-विशेष; (ण० ८, २, ६) । —लेह,
पुं० छंद; (सुदं० ७, ८, १६) । —वाण
पुं० छंद (सुदं० ३, ६, १६) ।

कामएड—पुं० (सं० कामदेव) कंदर्प,
मदन, कामदेव; (विला०) । —बंधु पुं०
(सं० कामदेव+बन्धु) वसन्त, "पत्तु
कामएव-बंधु उच्छलंत-फुल्ल-गंधु"; (व०
२, ३, ८) ।

कामकरि—पुं० (सं० काम+करि) मदन-हस्ति; (जंबू० ४, ११, ५) ।

कामकरेणु—स्त्री० (सं० काम+करेणु) कामोन्मत्त हस्तिनी; "दरिसावइ कामकरेणु कील," अर्थात् कामोन्मत्त हस्तिनी के समान क्रीड़ा दिखाने लगी; (जंबू० ४, ११, ५) ।

काम-कित्ति—स्त्री० (सं० काम+कीर्ति > प्रा० काम+कित्ति) काम रूपी कीर्ति; "जोण्हणाई काम कित्ति," वह काम रूपी कीर्ति के लिए ज्योत्स्ना के समान था; (व० २, ३, १६) ।

कामकील—स्त्री० (सं० काम+क्रीडा) रति-क्रिया, संभोग; (जंबू० १०, १३, ३) ।

कामगिग—पुं० राक्षस योद्धा; (प० च० ५६, ३६) ।

कामदाइणी—स्त्री० (सं० कामदायिनी) ईप्सित फल को देने वाली विद्या-विशेष; (प० च० ७, १३५) ।

कामदेउ—पुं० (सं० कामदेव > प्रा० कामदेव, कामदेव) मदन, कंदर्प रतिपति, अनंग, स्त्री पुष्ट के संयोग की प्रेरणा करने वाला एक पौराणिक देवता, जिसकी स्त्री रति, साथी वसंत, वाहन कोकिल, अस्त्र फूलों का धनुष वाण है; (व० १, ५, २) ।

कामधेणु—स्त्री० (सं० कामधेनु > प्रा० कामधेणु) ईप्सित फल देने वाली गाय; (जंबू० ४, १८, ६) । कामधेणु; (भ०) ।

कामपंडुर—वि० (सं० काम+पाण्डुर) कामोद्देक के पाण्डुर वर्ण वाली "काम-

पांडुरकवोला," अर्थात् कामोद्देक पाण्डुर वर्ण कपोल-वाली (कामिनी); (जंबू० १, ६, ४) ।

काम-मयहु—पुं० (सं० काम+मद, काममद); "काम-मयहु जोवाहो," काममद को जीतने वाले; (व० २, ४, १३) ।

कामरूप—पुं० (सं० कामरूप > कामरूप) आसाम का एक जिला जहाँ काम-ध्या देवी का स्थान है; (प्रा० पं० २, १११) । पुं० कामरूप नामक शत्रु; (व० ३, १०, ३) ।

कामरुव—पुं० (सं० कामरुव > प्रा० कामरुव) असम-प्रदेश, प्रदेश-विशेष; (जंबू० ६, १६, १५) ।

कामलय—स्त्री० (सं० काम+लता) वेश्या; (जंबू० ६, १२, ४) ।

कामवण—पुं० राक्षस योद्धा; (प० च० ५६, ३५) ।

कामवेअ—पुं० (सं० काम+वेग) कामोत्तेजना; (जंबू० ४, १६, १) ।

कामस्थान—पुं० (सं० काम+स्थान > प्रा० काम+ठाण) कामक्रीडा का स्थल; (जंबू० ६, १३, ६) ।

कामाउर—वि० (सं० काम+आतुर > प्रा० काम+आउर) काम से पीड़ित; (प० ३, २, १५; जंबू० ६, ७, २) ।

कामाउल—वि० (सं० काम+आकुल > प्रा० काम+आउल) कामातुर; (जंबू० २, ६, ६) ;

कामार्थ—पुं० (सं० काम+अर्थ) काम और धन, "धम्मकामत्थसेवासु"; (जंबू० ५, ६, १५) ।

कामालसु—वि० (सं० काम+अलस)
काम में आसक्त; (जस० २, १, १) ।
कामावधार—पुं० (छंशास्त्र में) कामा-
वतार नामक छंद; (प्रा० पौ० २,
५०) ।

कामिञ्जुल—पुं० (दे०) कामिञ्जुल
पक्षी-विशेष; (दे० ना० मा० २,
२६) ।

कामिणि—स्त्री० (सं० कामिनी > प्रा०
कामिणी) १. मनोहर और सुंदर स्त्री;
२. सामान्य स्त्री; (सं० रा०) । —या
स्त्री० कामिनि (जस०) ।

कामिणी—स्त्री० (सं० कामिनी > प्रा०
कामिणी) स्त्री, कांता; (जवू० १, ६,
३) । —जणावलि स्त्री० (सं० कामिनी-
जन+अवलि) कामनियों की पंक्ति;
(जवू० ५, १, ८) ।

कामिनी—स्त्री० (सं० कामिनी > प्रा०
कामिणी) कामिनी, कांता, स्त्री; (की०
१, १०५) ।

कामिय—वि० (सं० कामुक > प्रा०
कामुख) प्रेमी, कामातुर; (सं० रा०) ।

कामी—वि० (सं० कामिन् > प्रा०
कामि) विषयाभिलाषी; (जस० १, १२,
१६) ।

कामुअ—वि० (सं० कामुक > प्रा०
कामुअ, कामुअ) कामी, विषयाभिलाषी;
(जंजू० ४, २१, ६) । कामुय; (जंजू० ३,
१२, ४) ।

कामुककोयण—पुं० (सं० काम+उत्को-
पन > प्रा० काम पुं० उत्कोयण, उत्को-
यण न०) कामोद्दीपन; "परिहरियई कामु-
क्कोयणाई" —उसने कामोद्दीपन का

परिहार किया; (क० १०, २७, ७) ।
कानुच्छाह—पुं० (सं० काम+उत्साह
> प्रा० काम+उच्छाह) कामोत्साह
(जंजू० १०, २, २) ।

कामुय—वि० (सं० कामुक > प्रा०
कामुअ, कामुग) कामी, विषयाभिलाषी;
(ण० १, १७, २) ।

कानेसर—पुं० (सं० कामेश्वर) कामे-
श्वर नामक राजा; (की० १, ६६) ।

कायंचुल—पुं० (दे०) कामिञ्जुल, जल-
पक्षी-विशेष; (दे० ना० मा० २, २६) ।

कायंधी—स्त्री० (दे०) परिहास, उपहास;
(दे० ना० मा० २, २८) ।

कायंधुग्र—पुं० (दे०) कामिञ्जुल, जल-
पक्षी-विशेष; (दे० ना० मा० २,
२६) ।

कायंबर—न० (सं० कादम्बर) कदम्ब के
फूलों की शराव; मद्य-विशेष; (प० च०
१०२, १२२) ।

काय—पुं० (सं० काक > प्रा० काय)
१. कौआ; (भ०) । २. पुं० (सं० प्रा०
काय) देह, शरीर; (जंजू० २, २०, ३) ।

३. पुं० (दे०) १. लक्ष्य, निशाना;
२. उपमान, जिस पदार्थ की उपमा दी
जाए; (दे० ना० मा० २, २६) ।

कायउल—पुं० (सं० काककुल) कौवों का
समूह; (जस० १, १३, ३) ।

कायपिउच्छा, कायपिउला—स्त्री० (दे०)
कोकिला, कोयल, पिकी; (दे० ना० मा०
२, ३०) ।

कायमाण—पुं० (दे०) आसन; (जंजू०
८, १३, ३) ।

कायम्बरि—स्त्री० (सं० कादम्बरी >

प्रा० कादंबरी) मदिरा; (प० च० ३८, ११, ४) ।

कायर—वि० (दे०) प्रिय, स्नेह-पात्र; (दे० ना० मा० २, ५८) । २. (सं०

कातर) डरपोक; तुल० गु० कायर; (प० च० ३२, २, ७) ।—णर पु० (सं० कातर नर > प्रा० कायर णर) डरपोक मनुष्य; (व० २, १, १०) ।

कायरी—वि० स्त्री० (सं० कातरा) अधीर, डरपोक; (जं० ६, १७, १) ।

कायर—वि० (सं० कातर > प्रा० कायर) डरपोक; (व० २, १, १०) ।

कायल—पु० (दे०) १. कौआ; २. वि० प्रिय, स्नेह-पात्र; (दे० ना० मा० २, ५८) ।

कायाकिलेश—पु० (सं० काया + क्लेश) काया का कष्ट; (जं० १०, २२, ८) ।

कारं०कड—वि० (दे०) कठिन, कठोर; (दे० ना० मा० २, ३०) ।

कारं०ड—पु० (सं० कारण्ड > प्रा० कारं०ड) पक्षी-विशेष; (सि० १, ८; जस० १, १२, ७) । २. पु० (दे०) मण्डल, नीड़; (सं० रा०) ।

कार—सक० (सं० कारय् > प्रा० कार) करवाना, बनवाना; (जं० ६, ३, ७) ।

कारिवि—पू० का० क्रि० (जं० ३, १३, १३) । कारेवि—पू० का० क्रि० (जं० ६, ३, ७) ।

कार—वि० (दे०) कटु, कड़वा; (दे० ना० मा० २, २६) । वि० (सं० प्रा० कार) करने वाला; (प० च० १७, ७) ।

कारण—न० (सं० प्रा० कारण) हेतु, कारण; (जं० ४, १२, १२) ।

कारवस—पु० (सं० कारवश) देश-विशेष; (भ०) ।

कारा—स्त्री० (सं० कारा) जेल, कैद-खाना; (दे० ना० मा० २, २०) ।

—गार पु० न० (सं० कारागार) कैद-खाना, (जस० ४, २७, ३०) ।

कारायणी—स्त्री० (दे०) सेमल का पेड़; (दे० ना० मा० २, १८) ।

कारावह—वि० (सं० कारित > प्रा० काराविअ) करवाया हुआ; (व० १, १२, ७) ।

कारावय—वि० (सं० कारक) कराने वाले; (महा० ६६, १५, ११) ।

काराविअ—वि० (सं० कारित > प्रा० काराविअ) करवाया हुआ, बनवाया हुआ; (ण० ३, १५, ६) ।

काराविधय—वि० (सं० कारित > प्रा० कारिय) कराया हुआ, बनाया हुआ; (प० च० ३०, ११, ७) ।

कारिअ—वि० (सं० कारित > प्रा० कारिय) कराया हुआ, बनाया हुआ; (जं० २, १६, ५) ।

कारिम—वि० (दे०) कृत्रिम, वनावटी; (दे० ना० मा० २, २७; जस० ४, १८, १) ।

कारिमय—वि० (दे०) कृत्रिम, रचित, निष्पादित; (प्रा० गु० ५, १६) ।

कारिय—वि० (सं० कारित) कराया हुआ, बनवाया हुआ; (भ०) ।

कारु—पु० (सं० प्रा० कारु) कारीगर, शिल्पी; (सं० २, १३, ७) ।

कारुण्य—न० (सं० कारुण्य > प्रा० कारुण्य, करुण्य) दया, करुणा; (ण० ३, ७, ११) । कारुण्य; (सं० रा०) ।

कारोहण—पुं० (सं० कारु=पहाड़ी) वन, “कारोहणे गड बम्हरणु वलेवि,” (क० १०, १६, ७) ।

कालंगुलि—स्त्री० कनिष्ठिका उँगली; (सं० रा० २, ८०-८१) ।

कालंजर—पुं० (सं० कालिञ्जर > प्रा० कालिजर) देश-विशेष; (प्रा० पै० १, १२८) ।

काल—पुं० (सं० प्रा० काल) समय; (सं० रा०; जस० १, १, ६) । २. पुं० मृत्युराज; (जबू० २, १६, १) ३. न० (दे०) अंधकार; (दे० ना० मा० २, २६) । ४. पुं० राजा-विशेष का नाम; (प० च० ८, १५६) । विभीषण का मुख्य भट; (प० च० ५५, २३) ।

वानरयोद्धा; (प० च० ५७, ११) । दाशरथी राम की प्रजा का अगुजा; (प० च० ६३, १७) । —ग्नि पुं० विद्याधर राज; (प० च० ७, ४६) ।

काइल—क्रि० काला करती है; (महा० ५४, २, २-५) ।

कालड—वि० काली; (उत्तर पुराण) ।

कालकूड—न० (सं० कालकूट > प्रा० कालकूड) उत्कट विष विशेष; (जंबू० १०, ५, ६) ।

कालक्षर—पुं० न० (सं० कालाक्षर) अल्प ज्ञान; (ण० ३, १, ३) ।

कालगोचर—वि० (सं० कालगोचर) यम-गोचर, यम से साक्षात्कार; (जस० १, १३, २) ।

कालरोव—पुं० (सं० कालारोव, काल + अर्णव > प्रा० काल + अणव) काला समुद्र; (व० १०, १०, १) ।

कालदव्व—पुं० (सं० कालद्रव्व > प्रा० कालदव्व) काल-परिमाण; “सव्वु वि कालदव्वु तहु तिणसमु जे संपन्ननाणसा,” परन्तु जो ज्ञान-लक्ष्मी संपन्न है, उनके लिए तो समस्त कालद्रव्य (काल-परिमाण) भी एक दिन के समान है; (जंबू० ३, १, ८) ।

कालभुयंग—पुं० (सं० काल + भुजङ्ग) काल लुपी सर्प; (जंबू० ३, ८, १०) ।

कालय—वि० (दे०) घूर्त, ठग; (दे०-ना० मा० २, २८) ।

कालरत्ति—स्त्री० (सं० काल + रात्रि) श्रधेरी और भयावनी रात; (जबू० १०, १३, ७) ।

कालवट्ठ—न० (सं० कालपृष्ठक) घनुप; (दे० ना० मा० २, २८; जंबू० ५, १४, २१) ।

कालवेवला—स्त्री० (सं० कालापेक्षा) काल पर समय-समय पर दृष्टि रखना; (जस०) ।

काला—स्त्री० (छंदशास्त्र में) कला, मात्रा 'चारी हारा अट्ठा काला, (जहाँ) चार हार (गुरु) हों, आठ कलाएँ (मात्राएँ) हों, (प्रा० पै० २, २७) ।

कालाणल—पुं० (सं० कालाणल > प्रा० काल + अणल) प्रलयकालीन अग्नि; (जस० १, २८, १) ।

कालाहि—पुं० (सं० काल + अहि) कृष्ण सर्प; (जंबू० १, १८, ८) ।

कालिग—वि० (सं० कालिङ्ग) कलि-

ङ्ग देश में उत्पन्न; (प० च० ६६; ५५) ।

कालिगी—स्त्री० (सं० कालिङ्ग > प्रा० कलिग पुं०) कलिङ्ग देशवासिनी स्त्री; (सुदं० ४, ६, ६) ।

कालिजण—न० (दे०) श्याम तमाल का पेड़ या फूल; (दे० ना० मा० २, २६) ।

कालिजर—पुं० (सं० कालिञ्जर > प्रा० कालिजर) १- पर्वत-विशेष; (क० ६, २, ४) । २- जंगल-विशेष; (प० च० ५८, ६) ।

कालिदी—स्त्री० (सं० कालिन्दी) एक इन्द्राणी, शकंठ की एक पटरानी; (प० च० १०२, १२६) ।

कालि—पुं० (सं० प्रा० काल) समय, वस्तु; “जाहि काल ललिय भू-सुंदरीएँ, कुसुमाउह-केसरि-कंदरीएँ,” (व० १, १३, ३) । पुं० राक्षसयोधा; (प० च० ६१, २७) ।

कालिभ्र—पुं० (सं० प्रा० कालिय) कालिय नाग, इस नाम का एक सप; (प्रा० पै० १, २०७) ।

कालिभा—स्त्री० (दे०) १- शरीर, देह, २- कालांतर; ३- मेघ; (दे० ना० मा० २, ५८) ।

कालिवका—स्त्री० (सं० कालिका) चंडिका, काली, कालिका नामक देवी; “जुञ्जती उद्दामे कालिवका संगामे”— उद्दाम संग्राम में युद्ध करती तथा नाचती कालिका हमारे दुःख का नाश करे, (प्रा० पै० २, ४२) ।

कालिया—वि० (सं० > प्रा० काला =

श्याम वर्ण वाली) काली; “रुगु-भुगति भमरालि कालिया;” (व० १, ८, १) ।

कालि-सवरी—स्त्री० (सं० काल+शवरी) काली नामक शवरी; “सवरु कालि-सवरी-भुव-लालिउ” (उत्त मुनीन्द्र ने) एक शवर को काली नामक शवरी के साथ देखा; (व० १, १३, ३) ।

काली—स्त्री० (सं० प्रा० काली) रसिका छंद का भेद; (प्रा० पै० १, ६६) ।

कालेज्ज—न० (दे०) श्याम तमाल का वृक्ष; (दे० ना० मा० २, २६) ।

कावडिअ—पुं० (दे०) कावर अथवा बहङ्गी से भार ढोने वाला; (प० च० ७५, ५२) ।

कावडिय—पुं० दास-विशेष-नाम; (प० च० ५, १०२) ।

कावालिअ—पुं० (सं० कापालिक > प्रा० कावालिअ) शैव मत का तांत्रिक साधु; (हे० ३८७, ३) । कावालिनी स्त्री० कापालिनी; (ण० ८, १४, ५) ।

कावि—सर्व० (सं० कोविपि) कोई; (व० १, ११, १०) ।

कावेरि—स्त्री० (सं० कावेरी) नदी-विशेष, (प० च० ४८, १०, ४) ।

कास—पुं० (सं० काश > प्रा० कास) १- कास पुष्प, कास का पुष्प जो सफेद और शोभायमान होता है; (प्रा० पै० १, ७७) । २- पुं० (सं० काश, कास > प्रा० कास) खाँसी, रोग-विशेष; (जंबू० २, १३, ६) । ३- न० (सं० कांस्य > प्रा० कंस) धातु-विशेष, काँसा; (पड्) ।

कासग—पुं० (सं० कायोत्सर्ग) १- जैन

शिल्प में अर्हत् की वीतरागवस्था में खड़ी मूर्ति । २- जैन धर्म के अनुसार एक प्रकार की अग्नि । तपस्या; (प्रा० गु० २७, ४) ।

कासद्वय—पुं० उवरंभा के पिता; (प० च० १२, ७०) ।

कास्य—पुं० (सं० कृपक) किसान; (दे० ना० मा० १, ८७) ,

कासव—पुं० दाशरथी राम की प्रजा का अगुथा; (प० च० ६३, १७) ।

कासवगोत्र—पुं० (सं० काश्यपगोत्र > प्रा० कासवगोत्र) काश्यप नाम का गोत्र; (जस० ४, ३१, २) ।

कासा—स्त्री० (सं० कृशा) दुबल स्त्री; (पङ्) ।

कासायपड—पुं० (सं० कापायपट > प्रा० कासायपड) कपाय रंग से रंगा हुआ वस्त्रादि, (जस० २, १८, ४) ।

कासार—न० (दे०) धातु-विशेष, सीस-पत्रक; (दे० ना० मा० २, २७) ।

कासिअ—न० (दे०) १- सूक्ष्म वस्त्र, वारीक कपड़ा; २- सफेद वस्त्र; (दे० ना० मा० २, ५६) ।

कासिज्ज—न० (दे०) काकस्यल-नामक देश; (दे० ना० मा० २, २७) ।

कासिपुर—न० (सं० काशिपुर) काशी नगरी, बनारस शहर; (प० च० ६, १३७) ।

कासिय—पुं० (सं० काशि > प्रा० कासि) काशी-देश; (प० च० ४६, ८, १४) ।

कासिव—पुं० (सं० काशि + अधिपः) काशीदेश का राजा; (प० च० १०४,

११) ।

कासीस—पुं० (सं० काशि + ईस) काशीराज; टि०—काशीराज की प्रशंसा करते हुए कवि ने कहा है कि काशीश, चंद्रमा आदि श्वेत पदार्थों ने उनकी कीर्ति को जीत लिया है, (प्रा० पै० १, ७७) । —२ पुं० काशीश्वर नामक राजा; (प्रा० पै० १, १४५) ।

कासु—सर्व० (सं० कस्य) १- किसका; (व० १, ३, १४, हे० ३५८, २; ण० १, १५, ४) । २- किसे; (महा० ६६, ६, ६) ।

काष्ठा—स्त्री० (सं० काष्ठा) सीमा चरम अवधि; (की० ३, १२०) ।

काह—क्लि० वि० (सं० कथम्) क्या; (की० ३, ५६) । काहु; (रा० २१) । २- सं० किम् क्यों; (उ० व्य० प्र० १६-२३) ।

काहणअ—न० (सं० कथानक > प्रा० कहाणग, कहाणय) कथा, वार्ता; (ण० ६, २०, १४) ।

काहल—पुं० (सं० काहल—वाण ने हर्ष की सैनिक यात्रा के समय पांच वाजों का उल्लेख किया है—पटह, नांदीक, गुंजा, काहल और शंख) बड़ा ढोल, वाद्य-विशेष; तुल० म० कहळा; (सि० १, ११; की० ४, १५६; सं० रा०, जस० २, २०, ३) २- वि० लघु; (प्रा० पै० १, ३१) । ३- पुं० कोल, भील; (जंजू० ५, ८, २१) । वि० (दे०) १- मृदु, कोमल; २- ठग, धूर्त; (दे० ना० मा० २, ५८) ।

काहलिय—पुं० (सं० प्रा० काहला =

बड़ा ढोल) १- काहली, वाद्य-विशेष; (जस० १, २१, ५) । २- वि० कातर; (सि० २, २२) ।

काहली—स्त्री० (दे०) तरुणी; (दे०-ना० मा० २, २६) ।

काहा—अव्य० (सं० कुत्र) कहां; (उ० व्य० प्र० २७-६) ।

काहार—पुं० (दे०) कहार, एक हिंदुओं की जाति जो पानी भरने और डोली उठाने का काम करती है; (भ०; दे० ना० मा० २, २७) ।

काहावण—पुं० (सं० कार्पापण) सिक्का-विशेष; (पङ्) ।

काहि—सर्व० (सं० कस्या) किसकी; (जं० ४, ११, १) । २- (सं० कस्मै) किस के लिए; (उ० व्य० प्र० २२-२७) ।

काहितौ—अव्य० (सं० कस्मात्) किस से; (उ० व्य० प्र० ३२-२) ।

काहिल—पुं० (दे०) भाला; (दे० ना०-मा० २, २८) ।

काहु—सर्व० किसी ने; (की० २, ६५) ।

काहें—सर्व० (सं० केन) किस लिए, 'देउ काहें घाए'— देवें केन ध्यायति, (उ० व्य० प्र० २२-६) ।

काहे—क्रि० वि० क्यों, किस लिए; (प्रा० पै० २, १४२) ।

काहेखु—स्त्री० (दे०) गुञ्जा, लाल रस्ती; (दे० ना० मा० २, २१) ।

कि—सर्व० (सं० किम्) १- क्या; (प्रा० पै० १, ६; जं० २, १४, ११) ।

२- क्रि० वि०—क्यों; लो०—'कि सुक्के

सक्खें सिच्चिएण'—सूखे वृक्ष को सींचने से क्या? (जस०) । सुभाषित—“कि लोहइ घडिउं हियं तुज्झ,” क्या तुम्हारा हृदय लोहे का बना है? (भावना, संधि प्रकरण) । —पि (सं० किमपि) कुछ भी; (प्रा० पै० १, १०५) ।

किंकर—पुं० (सं० किङ्कर) > प्रा० किंकर) नीकर, दास; (जस० १, ८, ३) ।

किकिअ—वि० (दे०) सफेद; श्वेत; (दे०-ना० मा० २, ३१) ।

किकिणि—स्त्री० (सं० किङ्किणी) > प्रा० किकिणी) क्षुद्र घण्टिका; (भ०; जं० २, ३, ७) ।

किच्चि—अव्य० (सं० किच्चित्) कुछ; (विला०) ।

किच्चुणा—वि० (सं० किच्चिद् + ऊन) > प्रा० किच्चुण) कुछ कम, पूर्ण-प्रायः; (व० १०, ३८, २) ।

किजक्ख—पुं० (दे०) सिरस का पेड़; (दे० ना० मा० २, ३१) ।

किणर—पुं० (सं० किन्नर) > प्रा० किन्नर) देवों की एक जाति “लयाहरत्य-कीलमाणकिणर,” लतागृहों में स्थित होकर किन्नर क्रीड़ा कर रहे थे; (जस० ३, १६, ६) ।

कितु—अव्य० (सं० किन्तु) > प्रा० कितु) परंतु, लेकिन; (वैराग्यसार) ।

किबुअ—पुं० (सं० कन्दुक) कन्दुक, गेंद; (भ०) ।

किधर—पुं० (दे०) छोटी मछली; (दे०-ना० मा० २, ३२) ;

किपय—वि० (दे०) कृपण, कंजूस;
(दे० ना० मा० २, ३१) ।

किपाग—पुं० (सं० किम्पाक) वृक्ष
विशेष; (प० च० ३३, ४२) ।

किपि—अव्य० (सं० किम्+अपि) कुछ,
बुछ भी; (सं० रा०; जंबू० ८, ७,
१) ।

किपुरित्त—पुं० (सं० किपुरिप)
१- किन्नर, देव, २- नीच या हीन पुरुष;
(जंबू० ६, १२, १०) । २- सिहिपुर का
नागरिक; (प० च० १३, २६) ।

किबोड—वि० (दे०) स्थलित, गिरा
हुआ, झुला हुआ; (दे० ना० मा० २,
३१) ।

किसारु—पुं० (सं० किशारु) सस्य या
किसी भी पौधे के फल का अग्र भाग;
(दे० ना० मा० २, ६) ।

किसुय—पुं० (सं० किशुक>प्रा०
किसुअ) पलाश का पुष्प; (जंबू० ३,
१२, १३) । टि०—पलाश के फूल सुग्गे
की चोंच की तरह कुछ टेढ़े और लाल
होते हैं; इसी से पलाश का यह नाम
पड़ा ।

किसुया—स्त्री० (सं० किशुक>प्रा०
किसुअ) पलाश, वृक्ष-विशेष; (विला०) ।

कि—अव्य० (सं० किम्>प्रा० कि)
क्या; मगही की, का; (सरहपा, दोहा
कोश) ।

किअ—वि० (सं०कृत>प्रा० कड्, कय
किअ) किया हुआ, बनाया हुआ; रचित;
(जस० १, ६, ७; ण० १, ५, १०) ।

किअड—क्रि० भू० का० (सं० कृत>
प्रा० कड, कय, किअ) किया; (की० ३,

८) । किउ—भू० का०, किए; (पाहुं०) ।

किआ—भू० का० (सं० कृत>प्रा०
कड, कय, किअ) किया; 'दुई कपोल
जैसे (विधाता) ने किए (बनाए); (रा०
३३, ३४) ।

किउ—क्रि० भू० का० (सं० कृत>प्रा०
कड, कय, किअ) किया; (व० १, ५,
१०) ।

किक्कंडि—पुं० (दे०) सर्प, सांप; (दे०-
ना० मा० २, ३२) ।

किक्किंध—पुं० (सं० किक्किन्धा>प्रा०
किक्किंधा) नगरी-विशेष; (जंबू० ६,
१६, ४) ।

किक्किंधि—पुं० (सं० किक्किन्धि)
पर्वत-विशेष; (प० च० ६, ४५) ।
२- विद्याधर राजा; (प० च० १०,
२०) । ३- वानर वंशीय नाम का वृष;
(प० च० ६, १५४) । —दंड पुं०
हाथी; (प० च० ६८, १) । —पुर न०
(सं० किक्किन्धिपुर) नगर-विशेष; (प०
च० ६, ४५) ।

किक्किन्ध—पुं० (सं० किक्किन्धि)
पर्वत-विशेष; (प० च० ३१, १, ८) ।
—णयरि स्त्री० सं० किक्किन्धनगरी
(प० च० ४३, ११, १) ।

किच्चिहर—पुं० (सं० कृत्तिघर) महा-
देव, शिव; (षड्) ।

किच्छु—न० (सं० कृच्छ>प्रा० किच्छु)
दुःख, कष्ट, (जंबू० ६, ४, १६) ।

किच्छु—अव्य० (सं० किञ्चित>प्रा०
किचि) अल्प, थोड़ा; (उ० व्य० प्र०
१५-५) । सर्व०, वि० (सं० कश्चित्)

कोई कुछ; (की० २, ४१; प्रा० पै० १, ३८) ।

किच्छउं—अव्य० (सं० कीदृश) कैसा; (प्रा० गु० २७, ४, १) ।

किट्ठ—वि० (सं० कृष्ट > प्रा० किट्ठ) हल से जोता हुआ, "हल किट्ठेत्तमालेसु संदु"; हल चलायी हुई क्षेत्र-मालाओं में खूब घना; (जंबू० ६, ६, १०) ।

किडि—पुं० (सं० किरि > प्रा० किडि) सूकर, सूअर; (ण० १, ४, ८; सुदं० ११, २१, १०) ।

किडिकिडजन्त—कृ० सूखी हड्डी की आवाज करते हुए; emitting rattling sound (as of dry bones) (प० च० ४७, ५, १) ।

किणक—वि० (सं० किणाङ्कित) चिह्न-युक्त, किणयुक्त; "परकज्जभारधुरधरण-गरुयनिहसणकिणकदिदखंधा," अर्थात् दूसरे के कार्य भार के धुरे अर्थात् जूए को धारण करने से उसके गुरुतर घर्षण से जिनके कंधे किणयुक्त हो गए हैं; (जंबू० ७, ४, ७) ।

किण—सक० (सं० क्री > प्रा० कौण) खरीदना । —वि पू० का० क्रि०, खरीद कर; (जंबू० १०, ११, ५) । —ह (विध्यर्थक म० पु०) (जंबू० ६, १, २) ।

कि (ण) —अव्य० सं० कि (न) क्या नहीं; (प० च० ३२, १४, ३) ।

किण—अव्य० (सं० किम्) क्या; (प० च० २८, १२, ५) ।

किणइय—वि० (दे०) शोभायमान, विभूषित; (प० च० २, ३०) ।

किणिय—वि० (सं० क्रीत > प्रा० किणिय) खरीदा हुआ; (जंबू० १०, ११, २) ।

किणोस—सक० (सं० शानय् का धात्वा-देश) शान निशाने to sharpen) तीक्ष्ण करना । —इ व० (प्रा० पै० १, १८८) ।

किणो—अव्य० (सं० किमित) क्यों, किस लिए; (दे० ना० मा० २, ३१) ।

किण्ण—अव्य० (सं० किनु > प्रा० किण्ण) क्या नहीं? प्रश्नार्थक अव्यय; "जलहि-जलहो महत्तु आहासइ किण्ण तरंग संनइ," —समुद्र की तरंग पंक्ति, क्या उसके जल की अति गंभीरता को नहीं वतला देती? (व० ५, १, ४) ।

किण्णरी—स्त्री० (सं० किन्नरी > प्रा० किनरी) किन्नर देव की स्त्री; (ण० ३, ६, २) ।

किण्ह—वि० १- (सं० कृष्ण > प्रा० किण्ह, कण्ह) कृष्ण या काला रंग; (जस० ४, ७, ११) । २- न० (दे०) वारीक कपड़ा, सफेद कपड़ा; (दे० ना० मा० २, ५६) ।

कित्तउ—अव्य० (सं० कियत्) कितना; (हे० ३६७) ।

कित्तव—पुं० (सं० कित्तव=धूर्त, कपटी) जूआरी; (दे० ना० मा० ४, ८) ।

कित्तेवा—स्त्री० (अ० कित्ताव) कुरान शरीफ; "कित्तेवा पढन्ता तुक्कका अनन्ता," (की० २, १७२) ।

कित्त—पुं० पाँसा (a stake at dice); (ण० ३, १२, ५) ।

कित्तण—न० (सं० कीत्तन > प्रा०

कित्तण) वर्णन, "गुणकित्तणाइ" गुणों का कीर्तन; (ण० ४, ३, ३) ।
 २- श्लाघा, स्तुति, "दियवरवरकइकित्तणि पुज्जइ," द्विजवरों तथा कविवरों के कीर्तन से पूजा होती है; (जस० ३, २६, ६) ।
 कित्ति—स्त्री० (सं० कीर्ति > प्रा० किति) १- विद्या-देवी; (प० च० ७, १४१) । २- रावण की स्त्री; (प० च० ७४, ११) । पुं० मुनि, पांचवें बलदेव के गुरु; (प० च० २०, २०५) ।
 ३- सुख्याति, यश; (ण० ५, ७, ७) ।
 —घर पुं० (सं० कीर्तिघर) १- इक्ष्वकु राजा; (प० च० २१, ७८) । २- मुनि; (प० च० ७४, ३४) । ३- एक जैन मुनि, द्वितीय बलदेव के गुरु; (प० च० २०, २०५) । —घवल पुं० राक्षसवंशीय राजा; (प० च० ५, २६६) । —नाम पुं० वानर योद्धा; (प० च० ५७, ६) ।
 —मई स्त्री० वणिक् स्त्री; (प० च० ५, ८३) ; अंजना की सास; (प० च० १५, २७) । —लय स्त्री० (सं० कीर्तिलता) यश की वेल; (जंबू० १०, १, १२) । —वलि स्त्री० (सं० कीर्तिवलि > प्रा० कित्तिवलि) कीर्तिलता; (की० १, १५) । किली-स्त्री० यश; (प्रा० पं० १, ५३) ।
 कित्तिम—वि० (सं० कियत् > प्रा० कित्तिय) कितना; (जस० २, २३, ४) ।
 कित्तिय; (व० २, १५, ६) ।
 कित्तिउ केत्तिउ—वि० (सं० कियत्) कितना; (परम० २, १४१) ।
 कित्तिम—वि० (सं० कृत्रिम > प्रा०

कित्तिम) बनावटी, नकली; (जस० २, २३, ४; की० २, १३२) ।
 कित्तिय—अव्य० (सं० कुत्र) कहाँ; तुल० पं० कित्थे; (जंबू० १०, १०, ३) ।
 किवियम्मू—पुं० (सं० कृतिकर्म) किए जाने वाले कार्य; (सुदं० ११, ३, ३) ।
 किद्धउ—क्रि० भू० का० (सं० कृत) किया; तुल० गु० कीधुं, कयुं; (संधि० १२, ६, ३) ।
 किन्न—अव्य० (सं० किनु > प्रा० किण्ण) क्या नहीं? (व० ४, १८, १) ।
 किपाड—वि० (दे०) गिरा हुआ; (षड्) ।
 किपिरण—वि० (सं० कृपण) कंजूस; (जंबू० ७, ८, १४) ।
 किम—अव्य० (सं० किम् + इमं = किमिदम्) क्या यह, (जस०) ।
 किम—अव्य० (सं० कथम्) क्यों, क्या, कैसे; (जंबू० ५, ४, ३; सं० रा०; भ०) ।
 किमु—अव्य० (सं० किम्) क्या, तुल० गु० केम; (संधि० १८, ४, १६) ।
 किमि—पुं० (सं० कृति > प्रा० किमि) कीट, विशेष, क्षुद्र-जीव; (जस० ३, १३, १२) । —उल पुं० (सं० कृमि + कुल) कीट-विशेष का कुल; (जस० २, २८, ७) । अव्य० (सं० कथम् > प्रा० किम्) कैसे; (की० १, २८) । —प्राग, राय पुं० (दे०) किरमीजी का रंग; (दे० ना० मा० २, ३२) ।
 कियंत—पुं० (सं० कृतान्त) पापकर्म, "जहि खयहो पवच्चइ कलिकयतु,"

जहाँ कलिकृतान्त धय हो जाता है,
(जं० ८, ८, १५) ।

किय—वि० (सं० कृत > प्रा० कठ, कय,
किय) किया हुआ; (जस० २, ३७,
५) ।

किय—स्त्री० (सं० क्रिया > प्रा०
किरिया, किया) क्रिया, कृति, व्य.पार,
प्रयत्न; (भ०) । वि० (सं० कृत) किया
हुआ; (भ०) । — (किया) स्त्री०
(सं० क्रिया > प्रा० किरिया) क्रिया;
(जं० २, १६, ६) ।

कियत्य—वि० (सं० कृतार्थ) जिसका
अभिप्राय पूरा हो चुका हो, कृतकृत्य;
(भ०) ।

किर—अव्य० (सं० किल > प्रा० किर)
इन अर्थों का सूचक अव्यय १- संभावना,
२- निश्चित कारण, ३- संशय, ४- अलक्षि
५- असत्य, "पारीखवई किर केण
होय," —कौन ऐसे हैं जो नारी के रूप
से विनष्ट न हुए; (जस० २, ६, ६) ।
६- निश्चयार्थक, निश्चय ही, वैशक; (ण०
३, १०, ६; हे० ४१६, १; प्रा० पं० १,
६७) । ७- संवोधनार्थ; (क० ३, ६,
३) ।

किर—पुं० (दे०) सूकर, सूबर; (दे०-
ना० मा० २, ३०) ।

किरण—पुं० न० (सं० प्रा० किरण)
१- प्रभा (जं० १, ६, ७) । २- रश्मि;
(जस० १, ३, ३) । —मंडला स्त्री०
विद्याधर रानी; (प० च० १०१,
५८) ।

किरणाहय—वि० (सं० किरण + आहत)
किरणों को तिरोहित करने वाले; (जं०

१, १७, १) ।

किरणोलि—स्त्री० (सं० किरणावलि
किरण + आवलि) किरणों का समूह;
(व० ५, ६, ६) ।

किरणोह—पुं० (सं० किरणोघ) किरण-
समूह; (जस० १, २, ६) ।

किराड—पुं० (सं० किरात > प्रा०
किराड, किराय) भील, एक जंगली
जाति; (ण० ६, २२, १०; उ० व्य०
प्र० १०-१७) । किराय—किरात; (क०
८, १६, २) ।

किराण—पुं० (सं० क्रयानक) करि-
याना, किराना; तुल० म० किराणा, गु०
करियागुं, पं० करयाना (grocery);
(प्रा० पु० १४, १६) ।

किरि—अव्य० (सं० किल > प्रा० किर)
निश्चय ही, निःसन्देह, वैशक; (सं०
१७, १, ३; सं० रा०) । २- पुं० (सं०
किरि=सूअर) भानु की आवाज,
"कत्यइ हिरिति कत्यइ छिरिति कत्यइ
छिरिति रिच्छापं सद्दे," (प० च०
६४, ४५) ।

किरिइरिआ, किरिकिरिआ—स्त्री०
(दे०) १- कर्णोपकार्णिक, एक कान से
दूसरे कान गई हुई वात, गय, २- कुनू-
हल; (दे० ना० मा० २, ६१) ।

किरिकिरि—कि० (व्यन्यात्मक) किर-
किर की आवाज करना; (सुदं० ७, ६,
१२) ।

किरिमाल—पुं० वृक्ष-विशेष; (जं०
५, ८, ११) ।

किरिय—स्त्री० (सं० क्रिया > प्रा०

किरिता) क्रिया, कृति, प्रयत्न; (संवि० १०, ४, ४) ।

किरिया—स्त्री० (सं० क्रिया) कृति, प्रयत्न, क्रिया; “किरियागुणविवाज्जिओ” क्रिया-गुण से रहित; (जस० ३, २३, १) । —वर वि० (सं० क्रियापर) अनु-ष्ठान-कुशल; (पङ्) ।

किरिरि—स्त्री० वाद्य-विशेष; (जंबू० ५, ६, ११) ।

किरीड—पुं० वानरयोद्धा, (प० च० ५७, ६) ।

किरिस—वि० (सं० कृश) कमजोर; (की० ३, १०६) ।

किलंत—वि० (सं० क्लान्त) श्रांत, खिन्न; (भ०; पङ्) ।

किल—१- अव्य० (सं० किल > प्रा० किर) निश्चयार्थक अव्यय; (प्रा० पं० २, १२०) । २- पुं० मनुष्य-जाति-विशेष; (संवि० १०, २, ४) ।

किलकिल—अक० (सं० किलकिलाय > प्रा० किलकिल) खुशी से चिल्लाना, तुल० गु० किलकिलाट = खुशी की चिल्लाहट । किलकिलंति—क्रि० ‘किल-किल’ आवाज करना; (ग० ४, १५, ८; सुदं० ११, १५, ४) । किलकिलंत-व० कृ० (ध्वान्यात्मक) (सुदं० ८, १६, ३) । किलकिलंत-व० कृ० किलकिलाते हुए; (जस० १, १३, ५) ।

किलणी—स्त्री० (दे०) रथ्या, गली, (दे० ना० मा० २, ३१) ।

किलाचक्क—पुं० (सं० क्रीडाचक्क) छंद का नाम; (प्रा० पं० २, १८२) ।

किलाड—पुं० (दे०) दूध का विकार-विशेष, मलाई; (दे० ना० मा० २, २२) ।

किलामिअ—वि० (सं० क्लमित) खिन्न किया हुआ, पीड़ित, हैरान किया हुआ; (प० च० १०३, २२) ।

किलाविय—वि० (सं० √क्लमय > प्रा० किलाम = क्लान्त करना, खिन्न करना) पीड़ित, “भुक्खाइ किजावियणिद्वणाहँ सो देहइ भोयणु विहिँ जणाहँ;” वह भूख से पीड़ित व निर्धन हम दोनों को भोजन देगा; (क० ६, ५, ३) ।

किलिट्ठ—वि० (सं० क्लिष्ट) कठिन, विषम; (भ०) ।

किलिण्ण—वि० (सं० क्लिन्न) आर्द्र, गीला; (भ०) ।

किलित्त—वि० कल्पित, रचित; (पङ्) ।

किलीण—वि० (सं० क्लिन्न > प्रा० किलिण्ण, क्लिन्न) आर्द्र, गीला; (भ०) ।

किलेस—पुं० (सं० क्लेश > प्रा० किलेस) दुःख, पीड़ा; (जस० २, १, ५) ।

किध—स्त्री० (सं० कृपा > प्रा० किवा) दया, मेहरबानी; (ण० ६, १०, ११) ।

किवण—वि० (सं० कृपण > प्रा० किवण) कृपण, कंजूस; (दे० ना० मा०-२, ३१; सि० १, ३४) । किविण-दीन, कृपण; (जंबू० ३, १, ७) ।

किवाड—पुं० (सं० कपाट > प्रा०

कवाड, कवाल) किवाड़; तुल० गु०
कमाड, (प्रा० गु० ५, २३) ।
किवाण—पुं० न० (सं० कृपाण > प्रा०
किवाण) खड्ग, तलवार; (ण० ४, ११,
३; जस० १, २, १२) ।
किवालु—वि० (सं० कृपालु) दयालु;
(प० ज० ३४, ५०) ।
किवावन्न—वि० (सं० किवापन्न) कृपा-
प्राप्त; (प० च० ६५, ४७) ।
किवि—क्रि० वि०, वि० (सं० किम्+
अपि) कुछ, कुछ भी; (सं० रा०) ।
किविड—न० (दे०) १- खलिहान,
२- वि० खलिहान में जो हुआ हो वह;
(दे० ना० मा० २, ६०) ।
किविडी—स्त्री० (दे०) १. किवाड, २. घर
का पिछला आंगन; (दे० ना० मा० २,
६०) ।
किविण—वि० (सं० कृपण > प्रा०
किविण, किवण) कंजूस; (भ०) ।
किविस—पुं० (सं० किल्विष) पाप;
(जं० १०, ५, ७) ।
किस—वि० (सं० कृश) दुर्बल;
(भ०);
किसउ—वि० (सं० किदृशम्) कैसा;
तुल० गु० केवुं (संधि० १३, ६,
४) ।
किसण—वि० (सं० कृष्ण) कृष्ण, काला;
(सं० रा०) ।
किसणु—पुं० छप्पय छंद का भेद;
(प्रा० पं० १, १२३) ।
किसरा—स्त्री० (सं० कृशरा) खिचड़ी,
चावल-दाल का मिश्रित भोजन-विशेष;
(दे० ना० मा० १, ८८) ।

किसलय—पुं० न० (सं० प्रा० किसलय
नव पल्लव, नया पत्ता; (जस० १, १२,
७) ।
किसाण—पुं० (सं० कृपाण) कृपक,
किसान; (जं० ६, १३, १३) ।
किसाणु; (सि० १, ३१) ।
किसाणु—पुं० १- (सं० कृशानु > प्रा०
किसाणु) अग्नि; (ण० १, १४, ८) ।
किसि—स्त्री० (सं० कृषि > प्रा० किसि)
खेती; (जं०) ।
किसिय—वि० (सं० कृशित > प्रा०
किसिअ) कृशता-युक्त; (भ०) ।
किसोयरी—वि० (सं० कृशोदरी) पतले
पेट वाली; (क० ७, १३, १०) ।
किसोर—पुं० (सं० किशोर) बाल्याव-
स्था के बाद की अवस्था वाला बालक;
(जं० ५, १२, १४) ।
किह—अव्य० १- (सं० कुत्र) कहाँ;
(जस० ४, २६, १०) । २- अव्य०
(सं० कथं > प्रा० कहं, किहं, किह;
(ण० ३, ११, २; हे० ४०६; ३) ।
किहु—अव्य० कुछ; (सं० रा०) ।
कीहु—सर्व० (सं० किम् > प्रा० कि)
क्या; (की० ४, १४५) ।
कीड—स्त्री० (सं० क्रीडा > प्रा० कीड,
किड्ड) क्रीडा; (भ०) । पुं० (सं०
कीट > प्रा० कीड) क्रीडा, क्षुद्र-जंतु;
तुल० पं० कीडा; (जं० ७, २, १२) ।
कीडी—स्त्री० (सं० कीटिका) पिपी-
लिका, चींटी; (दे० ना० मा० २,
३) ।
कीनि—कृ० (सं० क्री > प्रा० कीण=

खरीदना, मोल लेना) खरीदकर; (की० ३, ६५) ।

कीय—वि० १- (सं० क्रीत) मूल्य देकर लिया हुआ; (भ०) । २- वि० (सं० कृत) किया हुआ, अनुष्ठित, किर्यान्वित; (क० १, २, ७) ।

√कीर—(सं० कृ > प्रा० कर) करना; (जस०) । —इ (√कृब करणे, कर्मणि क्रियते) (भ०; विला०) । (सं० करोति) करना; (क० १, १०, १) ।

कीर—पुं०—(सं० प्रा० कीर) १- शुक, तोता; (दे० ना० मा० २, २१; जस० १, ३, १२) । २- देश-विशेष; (जंबू० ६, १६, १०) । —ल पुं० कीरल, देश-विशेष; (प० च० ६८, ६४) । —आलि (कीरालि) स्त्री० (सं० कीर+आवलि) शुकपंक्ति; (व० १, ८, १०) ।

कील^१—स्त्री० (सं० क्रीडा > प्रा० कीला) क्रीडा, खेल, (ण० ६, ७, १०; विला०) । (सं० कीलः) खूँटी; (संधि० १०, २, १३) ।

कील^२—पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५७, १२) ।

√कील^३—अक० (सं० क्रीड् > प्रा० कील) क्रीडा करना; (ण० २, ८, ५) । कीलंत—व० कृ० (ण० ५, ७, २) । कीलति—व०, व० व०, क्रीडा करती हैं; (विला०) । —सि व० (प्रा० पं० १, ७) ।

√कील^४—(दे०) कीलना, मन्त्रादि से किसी को जड़ कर देना; (सि० १, १८) ।

कील^५—वि० (दे०) अल्प, थोड़ा; (दे०-

मा० मा० २, २१) ।

कीलण—न० (सं० क्रीडण > प्रा० कीलण) क्रीडा, खेल; (भ०) । —अ न० (सं० क्रीडनक > प्रा० कीलणअ) खिलौना; (जंबू० ५, २, १६) । —त्य क्रीडनार्थ; (क० ५, ४, २) ।

कीलणिष्ठा, कीलणी—स्त्री० (दे०) रथ्या, गली; (दे० ना० मा० २, ३१) । कीला—स्त्री० (दे०) १- नव-वधू, दुल-हिन; (दे० ना० मा० २, २३) ।

२- सुरत समय किया जाता हृदय-ताड़न विशेष; "कीला सुरत उरः प्रहणन-विशेष"; (दे० ना० मा० २, ६४) ।

३- स्त्री० (सं० क्रीडा > प्रा० कीला) खेल; (जस० ३, ३, ४) —इ स्त्री० क्रीडा; (महा० ६८, ६) । —घर पुं० (सं० क्रीडागृह) क्रीडा का स्थान; (क० ४, ४, ६) ।

कीलामहिहर—पुं० (सं० क्रीडा+महिघर) क्रीडापर्वत, "मुणिवर-मंडियकीलामहिहर," बाहर मुनिवरों से शोभायमान क्रीडापर्वत हैं; (जंबू० ३, २, ७) ।

कीलाल—न० (सं० प्रा० कीलाल) रक्त, रधिर; (जस० १, १५, ६; जंबू० ६, १०, १३) । —लीला रधिर-प्रवाह; (जंबू० १०, २६, १) ।

कीलिय—न० (सं० क्रीडित > प्रा० कीलिअ) क्रीडा, रमण; (ण० ७, १०, ४) ।

कीव—पुं० (सं० कलीव > प्रा० कीव) नपुंसक; (जंबू० ४, १५, १५) ।

कीस—वि० (सं० (कीडश) किस तरह का, कैसा; (क० १०, १, ३) । — ।

(कीता) कैसा; (प० च० २८, १२, ३) ।

कुंकुम—न० (सं० कुङ्कुम > प्रा० कुंकुम) १- केसर, २- लाल रंग की बुकनी जिसे स्त्रियाँ माथे में लगाती हैं; (जं० १, ६, ३; जस० १, ४, १०) ।

—पिड्डु पु० (सं० कुङ्कुम + पिण्ड) कुंकुमपिड; (जस० २, १२, ७) ।

कुङ्ग—पु० (सं० कुङ्ग) देश-विशेष; (भ०) ।

कुञ्च—पु० मनुष्य-जाति-विशेष; (सं० १०, २, ६) । पु० न० (सं० कूचं) दाढ़ी; (जं०) ।

कुञ्चइय—वि० (सं० कुञ्चित > प्रा० कुञ्चिय) संकुचित; (जं० १, ६, ६) ।

वि० (सं० कञ्चुकित) १- कञ्चुतिक, जो कञ्चुक युक्त हों, २- जो कवच धारण किए हों, "तह्य कुसग्ग कुञ्चइय-सिवरवि दूण दीव्व दूणवुहि पुणरवि," तथा पुनः कुसर्गं कञ्चुकित अर्थात् 'भूमि पर व्याप्त दूने-दूने विस्तार वाले द्वीप और समुद्र हैं,' (व० १०, ६, ८) ।

कुञ्चण—पु० (सं० आकुञ्चन) सिकुड़न, संकोचन; (जस० २, १७, १३) ।

कुञ्चल—न० (दे०) मुकुल, कलि, वौर; (दे० ना० मा० २, ३६) ।

कुञ्चिय—वि० (सं० कुञ्चित > प्रा० कुञ्चिय) सकुचित; (भ०) ।

कुञ्ज—पु० क्रीच; (सं० रा०) ।

कुञ्जर—पु० (सं० कुञ्जर > प्रा० कुञ्जर) हाथी; (जस० १, १०१; सं० रा०; जं० १, १४, २) । कुञ्जर १- हाथी; (व० १०, २६, ७) ।

२- छप्पय का भेद; (प्रा० पं० १, १२२) ।

कुण्ट—वि० १- (सं० कुण्टक = मोटा, स्थूल) कुञ्ज, कुवड़ा; (जस० २, १७, २) । २- वि० (सं० कुण्ट > प्रा० कुण्ट) हस्त-रहित; (सुदं० ६, ११, ६) । कुण्टिड-वि० दूंटी स्त्री (सुदं० ६, १५, ६) ।

कुण्ठ—वि० (सं० कुण्ठ > प्रा० कुण्ठ) दूंठा, कुण्ठित, "वायाकण्ठु वण्ठु दप्पुभण्डु," जो वाणी से कुण्ठित है, मूक है, अत्यंत अभिमानी है; (जस० ३, २४, ३) ।

कुण्ड—न० (सं० कुण्ड > प्रा० कुण्ड) हीज, जलद्रोणी, जलाशय-विशेष; (जस० ३, १६, ३; महा० ४-३-७) । —उरि स्त्री० (सं० कुण्डपुर) ग्राम-विशेष; (व० ६, १६, २) । —पुर पु० (सं० कुण्ड-पुर) नगर-विशेष; (व० ६, १, १५) ।

कुण्ड—पु० वानरयोद्धा; (प० च० ५४, २१) ।

कुण्डयं—पु० (दे०) कुण्डा, छोटा पात्र- (दे० ना० मा० २, ६३) ।

कुण्डल—पु० १- (सं० कुण्डल > प्रा० कुण्डल) कान का आभूषण; (भ०; जस० २, १६, ४) । २- प्रथम द्विकल गण (५) का नाम; (प्रा० पं० १, २१) । ३- कुण्डल, द्वीप-विशेष; (व० १०, ६, ७) । ४- राजा-विशेष-नाम; (प० च० २६, ६५) ।

कुण्डलिया—स्त्री० छंद का नाम; (प्रा० पं० १, १४६) ।

कुण्डलियंग—पु० (सं० कुण्डलित +

अट्टम) मोन आकार वाले अंग; (जंबू० ८, १०, ८) ।

कुंडलिय—वि० (सं० कुंडलिन्) मण्ड-
नाहत, कुण्डली मारे हुए, गौनाहार;
(सं० २०) ।

कुंडली—स्त्री० (सं० कुण्डली) पोड़े
की हरिया या मंडनाकार चाल;
“मुद्रणी मुद्रणी कुंडली अट्टति नाना गति
करते भान मन”; (सी० ४, ४८) ।

कुंडपाल—पुं० मन्हन, कुंडल, कुंडली,
(तनुं); (सं० २०) ।

कुंडिल—पुं० (दि०) गंध का मुखिया;
(दि० २, ३३) ।

कुंडिलरेतज—न० (दि०) ब्राह्मण-विट्टि,
कहाला का छंदा, ब्राह्मण की मसदूरी का
नेवा; (दि० ना० मा० २, ४३) ।

कुंडय—न० (दि०) १- चुन्हा, २- छोटा
रगतन; (दि० ना० मा० २, ६३) ।

कुंत—पुं० १- (सं० कुन्त > प्रा० कुंत
भावा, प्रायुध-विशेष, अस्त्र; (प० २,
२, ३, ४० १, १४, ५) । भावा (सं०
पं० २, १७१) । २- वानरघोटा; (प०
न० ५६, ३८) । —अतः पुं० अनुकूल
गण का नाम; (प्रा० पं० १, १७६) ।

कुंतल—पुं० १- (दि०) कृम-विशेष;
(दि० ना० मा० २, ३६) । २- पुं० (सं०
कुन्तल > प्रा० कुंतल) केंद, बाल; (जस०
१, १७, २६) । —अतः पुं० (सं०
कुन्तल + भार) केंद्रकलाप; (जंबू० ४,
१५, १०) ।

कुंतली—स्त्री० (दि०) परीमन का एक
उपकरण; (दि० ना० मा० २, ३८) ।

कुंताउह—पुं० (सं० कुन्तायुध) कौंत

नामक आयुध; (जंबू० ७, १०, १३) ।

कुंती—स्त्री० (दि०) मञ्जरी, वीर;
(दि० ना० मा० २, ३४) ।

कुंतीपुत्र—पुं० द्विगुरु चतुष्कल गण,
कर्ण; (प्रा० पं० २, ८०) ।

कुंतीपोट्टल्य—वि० (दि०) चतुष्कोण,
चार कोण वाला; (दि० ना० मा० २,
४३) ।

कुंभु—पुं० (सं० कुम्बु > प्रा० कुंभु)
१- एक जिन-श्रेय, सतरहवां तीर्थकर;
(न०) । कुम्बनाथ (तीर्थकर); (प० १,
१, ११) । २- कुम्पादि जीव; (प० १,
१, ११) । ३- हरिवंश का एक राजा;
(प० न० २२, ६८) । ४- जति सूदन

गौर वाला प्राणि-विशेष; (जस० ३,
२२, १४) । —पह्लुअनिसदय-वि कुंभु
आदि शरीरधारी जीवों पर दया करने
वाले; (जम० १, २, ६) ।

कुंद—पुं० (सं० कुन्द) १- कुंद पुष्प,
(प्रा० पं० १, ७७) । २- कुंद नामक
वृक्ष; (जंबू० ४, ११, १४) । ३- रोला
छंद का भेद; (प्रा० पं० १, ६२) ।
४- छप्पय छंद का भेद; (प्रा० पं० १,
११२) ।

कुंदय—वि० (दि०) कृम, कुर्मल; (दि०-
ना० मा० २, ३७) ।

कुंदलया—स्त्री० (सं० कुन्दलया)
माधवी-नता; (प० न० २१, ४६) ।

कुंदीर—न० (दि०) विम्बी-फल, कुन्दरन
का फल; (दि० ना० मा० २, ३६) ।

कुंधर—पुं० (दि०) छोटी मछली; (दि०-
ना० मा० २, ३२) ।

कुंपल—पुं० न० (सं० कुम्पल > प्रा०

कुंपल) मुकुल, कलि, कलिका; तुन० गु० कूपल; (प्रा० गु० ३८, ३४) ।
 कुंभ—पुं० (सं० कुम्भ > प्रा० कुंभ)
 १- घड़ा, कलण; (ण० १, १०, ५) ।
 २- हाथी का गण्डस्थल; (व० ५, १३, १४) । ३- स्कंभ का भेद; (प्रा० पै० १, ७५) । ४- कुंभकर्ण का पुत्र; (प० च० ७१, ३६) । ५- मिथिलापुरी का राजा; जितमन्त्री के पिता; (प० च० २०, ४५) । —कण्ण पुं० (सं० कुम्भकर्ण) रावण का भाई; (प० च० ७५, ५) ।
 कुंभस्थल—पुं० (सं० कुम्भ + स्थल) हाथी का गण्ड-स्थल; (ण० २, १३, ७) ।
 कुंभयल—पुं० (सं० कुम्भस्थल) हाथी का गंडस्थल; (जंबू० ४, २०, ८) ।
 कुंभयलोलोवलल विदहं—न० गंडस्थल रूपी चंचल ऊखल; (रि० ६, ११) ।
 कुंभविलया—स्त्री० पतिहारिन, घटवारिणी; (जंबू० १, ६, १) ।
 कुंभि—पुं० (सं० कुम्भिन् > प्रा० कुंभि) हस्ती, हाथी; (जंबू० ८, १५, ३) ।
 कुंभिल—पुं० (सं० कुम्भिल) १- चोर, २- दुर्जन; (दे० ना० मा० २, ६२) ।
 कुंभिल्ल—वि० (दे०) खोदने योग्य; (दे० ना० मा० २, ३६) ।
 कुंभी—स्त्री० (दे०) केश-रचना, केश-संयम; (दे० ना० मा० २, ३४) ।
 कुंभोद्भव—पुं० (सं० कुम्भ + उद्भव) घड़े से उत्पन्न पुरुष, अगस्त्य; (की० ४, २४) ।
 कु—सर्व० को, कोई; (जंबू० १०, ७,

५) ।

कुइअ—वि० (सं० कुपित > प्रा० कुइअ) कोप-युक्त, क्रुद्ध; (ण० ४, ८, १०) ।

कुड—पुं० (सं० कूप) कुआँ, (सि० २, ५) ।

कुडआ—स्त्री० (दे०) तुंवी-पात्र, तुंवा; (दे० ना० मा० २, १२) ।

कुडल—न० (दे०) नीवी, १- वह डारी जिससे स्त्रियाँ लहंगे की गाँठ बाँधती हैं; २- साड़ी या चादर का सिरा, पल्ला; (दे० ना० मा० २, ३८) ।

कुइइ—पुं० (सं० कु + कवि > प्रा० कु + कइ) दुरा कवि; (ण० ३, ११, १२) । —तण पुं० (सं० कु + तिव) त्राद या कुत्सित काव्य; (जस० १, ३, ६) ।

कुकम्म—पुं० (सं० कुकमन्) दुरा कार्य; (जस० २, २७, १५) ।

कुकलत्त—न० (सं० कु + कलत्त > प्रा० कु + कलत्त) दुरी पत्नी, दुष्ट चरित्र वाली स्त्री, खोटी स्त्री; “कुकलत्तहि अण्णामत्तहि चित्तु प केण वि धिप्पड्,” किन्तु अन्य पुरुष में आसक्त हुई दुष्ट-चरित्रा के चित्त को कोई नहीं जान पाता; (जस० २, १२, २२) । कुकलत्तु; (रि० ३, १५) ।

कुकवित्त—पुं० (सं० कुकवित्त्व) निकृष्ट काव्य; (सं० रा०) ।

कुकुला—स्त्री० (दे०) नवोढ़ा, दुलहिन; (दे० ना० मा० २, ३३) ।

√कुक्क—(प्रा० कोक्क) बुलाना, आह्वान करना । कुक्कतिहँ—[कुक्क इति शब्दानुकरणे (शानुः)] “दोहिँ मि

कुक्कतिणें लाग्दियट," -हम दोनों ने कुक्कुड-शू की रट लगा दी; (जस० ३, १४, ५) ।

कुक्कुड—१- वि० (दि०) मत्त, उमत; (दि० ना० मा० २, ३७) । २- पुं० (सं० कुक्कुट > प्रा० कुक्कुड) मुर्गा; तुल० म० कुक्कुड; (म०) । —अ पुं० (सं० कुक्कुट + क) मुर्गा; (जन०) कुक्कुडिवा-स्त्री० (सं० कुक्कुडिका) मुर्गी; (जस० ३, १३, १७) ।

कुक्कुर—पुं० (सं० प्रा० कुक्कुर) कृता; (प० व० ६, ४, ८०) । कुक्कुरी—स्त्री० कृकरी; (जस० २, ३१, १) ।

कुक्कुरड—पुं० (दि०) निकर, समूह; (दि० ना० मा० २, १३) ।

कुक्कुस—पुं० (दि०) धान्य खादि का छिलका, भूसा; (दि० ना० मा० २, ३६) ।

कुक्किल—स्त्री० (सं० कृक्किल > प्रा० कृक्किल, कृक्किल) उदर, पेट; (म०; व० ३, १६, ३) ।

कुगइ—स्त्री० (सं० कु + गति) १- दुर्गति; (जद्व० ११, ७, ७) २- कुरी चाल; (प्रा० प० १, ६) । —अह पुं० (सं० कुगतिपय) दुर्गति वाला रास्ता; (जद्व० २, १६, २) ।

कुगुरु—पुं० (सं० कु + गुरु) कुरा या कुट्ट चरित्र वाला गुरु; (जस० ३, ३१, १२) ।

कुक्किल—स्त्री० (सं० कृक्किल > प्रा० कृक्किल) उदर, पेट; (व० १०, २५, २५) । —अह स्त्री० (सं० कृक्किलमती) गभिणी; (दि० ना० मा० २, ४१) ।

कच्छिप—वि० (सं० कृक्किल > प्रा० कृक्किल) १- खराब, निरक्षित; (प० ४, ३, ७) । २- खोटी । —अह वि० खोटी बुद्धि वाला; (महा० ६८, ६) ।

कुच्छेजय—पुं० (सं० कौशेयक) तलवार, खांडा, खड्ग; (दि० ना० मा० १, १६१) ।

कुजन्म—पुं० (सं० कुजन्म) कृत्स्न जन्म; "अच्छमि जाम कुजन्मि पवण्णउ;" (जस० ३, ७, ५) ।

कुज्जउ—पुं० (सं० कुज्जक) कुज्जक नामक संस्त्रान; "कुज्जउ वामणु णग्गोहं-गउ तिरिय षरहं णियकम्म-वमंगउ;" —इनी प्रकार कुज्जक, वामन, न्यग्रोध (तथा स्वानि) नामक संस्त्रान तिरियवों व मध्यों को जन्म-अपने कर्मावृत्तार प्राप्त होते हैं; (व० १०, ११, १२) ।

कुज्जय—पुं० (सं० कुज्जक) वृक्ष-विशेष; (प० व० ५३, ७६) ।

कुट्टिअरि—स्त्री० (सं० कुट्टिअरि) पत्नी; (प्रा० प० २, ६५) ।

कुट्ट—मक० (सं० कुट्ट > प्रा० कुट्ट) कुटना, पीटना, ताड़न करना । कुट्टिए—पुं० का० इर्मवाच्य, कुटे गए; (व० २, १०, =) ।

कुट्ट—पुं० (सं० कुट्ट > प्रा० कुट्ट = कुटना, पीटना, ताड़न करना) प्रहार; (सं० रा०) ।

कुट्टप—न० (सं० कुट्टप > प्रा० कुट्टप) १- छेदन, भेदन, २- कुटना, ताड़न; (जन० २, १३, १४) ।

कुट्टिणी—स्त्री० (सं० कुट्टिणी > प्रा० कुट्टिणी) कुट्टनी, कुट्टी; (जद्व० ५, ७)

२४) । कुट्टिणी-स्त्री० कुट्टिनी; (जं० ४, १६, २०) ।

कुट्टा—स्त्री० (दे०) गौरी, पावंती; (दे० ना० मा० २, ३५) ।

कुट्टाय—पुं० (दे०) चर्मकार, मांची; (दे० ना० मा० २, ३७) ।

कुट्टिम—पुं० (सं० प्रा० कुट्टिम, प्रा० कोट्टिम) पक्का फर्श; (की० २, ८०) ।
वि० (सं० कृत्रिम) वनावटी; (व० ६, २, ३) ।

कुट्टोश्चरश्च—पुं० (सं० कूटोदार) शयनागार; (जस० २, ८, ८) ।

कुट्ट—न० (सं० काष्ठ) लकड़ी; (ण० ५, ८, १२) । २- पुं० न० (सं० कुष्ठ) रोग-विशेष, कोढ़; (जस० २, ११, ११) । पुं० (सं० कोष्ठ > प्रा० कुट्ठ) कोठा, धान्य भरने का बड़ा भाजन; (जं० ७, ६, ७) । — गड्ढरव पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५७, ६) ।

कुडंग—पुं० न० (सं० कुटङ्क) १- झाड़ी; (सं० ५, ६, ५) । २- लता-गृह, लता से आच्छादित घर; (दे० ना० मा० २, ३७) । — स्त्री० (सं० कुटङ्का) लता-विशेष; (प० च० ५३, ७६) ।

कुडंब—वि० (सं० कुटुम्बिन् > प्रा० कुडुंवि) कूटुम्बी; (जं० ४, ६, १) ।

कुड—पुं० (सं० कुट) घड़ा, कलश; (दे० ना० मा० २, ३५) ।

कुडय—पुं० न० (सं० कुटज > प्रा० कुडय) कुटज वृक्ष; (जं० ५, ८, ११) ।

कुडि—पुं० (सं० कुटि = देह, शरीर)

शरीर; “कुडि दासंती गंवि न आवइ,” (प्रा० गु० ५, १५) । स्त्री० (सं० कुटी) कुटिया; (जं० ६, १०, २) ।

कुडिआ—स्त्री० (दे०) बाड़ का विवर; (दे० ना० मा० २, २४) ।

कुडिच्छ—न० (दे०) १- बाड़ का छिद्र, २- कुटी; ३- वि० वृद्धित, छिन्न; (दे० ना० मा० २, ६४) ।

कुडिल—वि० (सं० कुटिल > प्रा० कुडिल) १- वक्र, टेढ़ा; (ण० १, ११, ३) । २- कपटी, जालसाज; (सं० रा०) । — त्तण, पुं०, कुटिलत्व (ण० १, १७, ५) । — भाव पुं० (सं० कुटिल भाव) कपटयुक्त भाव; (जव० ११, ७, ६) ।

कुडिला—स्त्री० (सं० कुटिला) विद्या-विशेष (प० च०) ।

कुडिल्ल—१- स्त्री० (सं० कुटी > प्रा० कुडी + इल्ल (स्वार्ये)] कुटिया; “विच्छि-
णघणचम्मछाइयकुडिल्लम्मि,” वहाँ की कुटियाँ काटे हुए सघन चमड़ों से छायी गयी थीं; (जस० ३, १३, १३) । २- वि० (सं० कुटिल) वक्र टेढ़ा; (भ०) ।

कुडिहर—पुं० कुटीगृह > प्रा० कुडीहर) झोंपड़ा, पर्णशाला, कुटी; (जस० ३, २७, २०) ।

कुडी^१—वि० (सं० कुटिल) कपटी; (सं० १६, ६, १०) ।

कुडी^२—स्त्री० (सं० कर्पाद) कौड़ी; (रा० २२) ।

कुडीर—न० (सं० प्रा० कुडीर) कुटीर, कुटी, झोंपड़ा, (प० च० ३३, ८५) ।

—उं न० कुडी (प्रा० गु० ३६, २२) ।

कुडीरय—न० (सं० कुटीर+क प्रा० कुडीर+अ) वृणग्रह, कुटीर; (प० च० २२, ६, ४) ।

कुडुंग—पुं० (दे०) लताग्रह, लताओं से ढका हुआ घर; (पड) । —ण पुं० (दे०) लताग्रह; (जस० १, २१, ६) ।

कुडुंभी—वि० (सं० कुटम्बिन् > प्रा० कुडुंवि) कुनवे वाला, ग्रहस्थ; (जं० १, २, ७) ।

कुडुंयु—न० (सं० कुटुम्ब > प्रा० कुडुंव) परिजन, परिवार; (सुअं० १, २, २; प० ६, ६, ३) ।

कुडुल्ली—स्त्री० (सं० कुटी) कुटिया; (हे० ४२२, १२) ।

कुडुव—पुं० न० (सं० कुतुप > प्रा० कुतुव) तेल आदि भरने का चमड़े का पात्र; (सि० १, ६) ।

कुड्डं—पुं० (सं० कुड्य > प्रा० कुड्ड) भीत; "क वि लज्जएँ कुड्डंतरिय थक्के," (सुदं० ३, १२, २) । कुड्ड न० भित्ति; (जं० १, १६४) ।

कुड्ड, कोड्ड—न० (दे०) आश्चर्य; (दे० ना० मा० २, ३३) ।

कुट—पुं० न० (दे०) १. चुरायी हुई वस्तु की खोज में जाना; (दे० ना० मा० २, ६२) । २. छीनी हुई चीज को वापिस लेने वाला; (दे० ना० मा० २, ६२) ।

कुडार—पुं० (सं० कुडार > प्रा० कुडार) कुल्हाड़ी, परता; (जं० ६, १५,

१४) ।

कुडे—क्रि० वि० पीछे, नीचे; "कुडे लग्गज जं रयणियर-बलु," (प० च० १२, ३, ७) ।

कुण—क्रि० (सं० क्वणति > कृणइ) शब्द करना; (सं० रा०) । २. (सं० कृ०, प्रा० कृण) करना । कृणइ—क्रि० (सं० करोति; भ०; प० ६, ४, १; ६, ३, १५) । कुणंत—कृ० (सं० कूर्वत्) (जस०) ।

√कृण—करना—इ (सं० कृणोति, पंचमगण का 'कृ' घातु) । टि-वेदों में कृणोति, कृणुते अवेस्ता में क्अरुअनओ-इति (प्राचीन फ्रा० 'अकुनवं') रूप पाया जाता है; (प्रा० पै० १, ३) । कुणंतउ कृ० (सं० कूर्वत्) करता हुआ, (क० १, ६, २) । कृणहु क्रि० आ० (प्रा० पै० १, ६४) । कृणहु आ० (प्रा० पै० १, ६४) । कृणिवि—पू० का० क्रि० (जं० १०, १७, १२) । कृणेहि—क्रि०, आ० मध्यम पुरुष एक व० (प्रा० पै० १, ६३) ।

कुणिआ—स्त्री० (दे०) वाड़ का छिद्र; (दे० ना० मा० २, २४) ।

कुणिम—पुं० हरिवंशीय राजा; (प० च० २१, ३०) ।

कुतक्क—पुं० (सं० कुतक) गलत तर्क; (जस० ४, १४, १६) ।

कुतत्ती—स्त्री० (दे०) मनोरथ, वाञ्छा; (दे० ना० मा० २, ३६) ।

कुतपस्वी—पुं० (सं० कु+तपस्विन्) खराब तपस्वी; (प० ४, ३, १) ।

कुताई—न० (सं० कुन्त > प्रा० कुंत

पुं०) भाला, हृद्यियार-विशेष; (क०) ।
 कृतित्य—पुं० (सं० कु + दीर्घ) कृत्स्नत
 स्थान; 'पंगुलड कुतीर्यपंधगमणि नृजड
 विकहावण्णगइ"—कुतीर्य-पंध में गमन
 करने में लगेड़ा एवं अवार्मिक कथा-वर्णन
 में मूक रहता है; (जस० ३, २०,
 १४) ।

कुतुब—पुं० न० (सं० कुतुप) तेल
 खादि भरने का चमड़े का पात्र; (दे०-
 ना० मा० ५, २२) ।

कुट्यर—न० (दे०) विज्ञान; (दे० ना०-
 मा० २, १३) ।

कुत्थिय—वि० (सं० कृत्स्नत) १. नीच,
 दुष्ट, अथम; २. निन्दित, खराब; (जस०
 १, २८, ७) ।

कुत्युहवत्य—न० (दे०) नीदी, इजार-
 बंद; (दे० ना० मा० २, ३८) ।

कुदिट्टि—स्त्री० (सं० कृ० + ट्टि) वुरी
 ट्टि; (ए० ४, ३, ३) ।

कुदेव—पुं० (सं० कुदेव) १. वुरा
 देवता, २. राक्षस, ३. जैनियों के अनु-
 सार ऐसे देवता जो उनसे भिन्न धर्म के
 हों; (जस० १, ६, १२) ।

कुदाल—पुं० (सं० प्रा० कुदाल) कुदाल,
 भूमि खोदने का लोहे का बना एक
 औजार; (म० २, १६, २) ।

कुद—वि० (सं० कृद > प्रा० कुद)
 कृपित, क्रोध-युक्त; (जंबू० ५, ८,
 १४) ।

कुदड—वि० (सं० कृद) क्रोधित;
 (महा० ६६, ८, ३) ।

कुदमण—पुं० (सं० कृदमनस) क्रोधित
 मन; (जंबू० ६, ७, ८) ।

कुन्द—पुं० (सं० कुन्द > प्रा० कुंद)
 पुष्प-विशेष; (क्री० १, ७५) ।

कुपत्त—वि० (सं० कुपात्र) १. किसी
 विषय का अनधिकारी, अव्यव्य; २. वह
 जिसे दान देना शास्त्रों में निषिद्ध है;
 (जस० ४, २०, ११) ।

कुपह—पुं० (सं० कुपय > प्रा० कुपह)
 वुरा मार्ग; (भ०) ।

कुपुरिपु—पुं० (सं० कु + पुरिपु) वुरा
 व्यक्ति; (व० २, १, १०) ।

√कुप्प—(सं० √कुप् > प्रा० कृप्,
 कृप्पइ) क्रोध करना, कोप करना । —इ,
 क्रि० (सं० कृप्यति > प्रा० कृप्पइ) (भ०;
 ण० ५, ६, ६) कृप्पिअ—व० नाराज
 होना; (प्रा० षं० २, १३०) ।

कुप्प—सक० (सं० √भास् का धात्वा-
 देश) बोलना, कहना । —इ; (भ०) ।

कुप्पर—१. पुं० (सं० कृपर > प्रा०
 कृप्पर) कौहनी, हाथ का मध्य भाग,
 'अण्णोग्गुप्पेस्सिलय कुप्परहेहि' (मुदं० ६,
 १०, ७) । २. न० (दे०) नुरत के
 समय किया जाने वाला हृदय-ताड़न
 विशेष; ३. सदाचार, ४. हँसी, ठट्ठा;
 (दे० ना० मा० २, ६४) ।

कुप्पास—पुं० (सं० कृपासक) चोली,
 कञ्चुक; (सं० रा०) ।

कुप्पिस—देखो कुप्पास; (दे० ना० मा०-
 २, ४०) ।

कुवेर—पुं० (सं० प्रा० कुवेर)
 १. काञ्चनपुर के एक राजा का नाम;
 (प० च० ७, ४५) । —कंत पुं० अम्य-
 णपुर (प्रा० अम्यणपुर) का राजा; (प०
 च० ६८, ५८) । —दत्त पुं० इश्वरकुर्व-

शीय राजः; (प० च० २२, ६८) ।

कुवेरी—स्त्री० दाशरथी भरत की प्रणयिनी; (प० च० ८०, ५१) ।

कुमोयधरा—स्त्री० (स० कु+भोग+धरा) कुभोगभूमि (जिस भूमि पर सयम से भोगोपभोग न हुआ हो); (जस० ४, २०, १२) ।

कुमति—पुं० (सं० कु+मति) बुरा मंत्री; (ण० ३, ६, ६) ।

कुमइ—स्त्री० (सं० कु+मति) खराब बुद्धि; (जंबू० ५, १३, २३) ।

कुमग—पुं० (स० कुमार्य > प्रा० कुमग) बुरा रास्ता; (महा० ६६, ३, ११; जस० १, २७, ४) ।

कुमखु—वि० (सं० कु+मनस्) बुरे विचारों से युक्त मन; (जस० २, १८, १६) ।

कुमन्त—पुं० (सं० कुमन्त्रणा) बुरा विचार; (की० ४, १४४) ।

कुमयेमग्गे—पुं० (सं० कुमतिमार्ग > प्रा० कु+मइ+मग) खराब बुद्धि उत्पन्न करने वाला मार्ग; (व० २, १६, १) ।

कुमर—पुं० (सं० प्रा० कुमार) कुंवर, युवराज; (संधि० १, ८, ५) । —त्तण पुं० (सं० कुमारत्व) कुआरापन; (क० ६, ८, ६) ।

कुमरी—स्त्री० (सं० कुमारी) अविवाहित कन्या; (जस० १, १८, ३१) ।

कुमागुसत्त—पुं० (सं० कु+मनुष्यत्व) बुरा मनुष्य; (जंबू० ११, ७, ७) ।

कुमार—पुं० (सं० प्रा० कुमार) १. स्वामिकार्तिकेय; (प्रा० पं० २,

११०) । २. युवराज, युवावस्था या उससे पहले की अवस्था वाला पुत्र; (जस०) । —भाव पुं० (सं० कुमार+भाव) कुमारावस्था; (जंबू० ४, १४, १२) ।

कुमारिया—स्त्री० (सं० कुमारिका) कुमारी; (जंबू० ४, १२, ७) ।

कुमारिलभट्ट—पुं० (सं० कुमारिल-भट्ट) नाम-विशेष; प्रसिद्ध मीमांसक और शत्रु भाष्य तथा अन्य श्रौत सूत्रों के टीकाकार; (जस० ३, २६, ११) ।

कुमारी—स्त्री० (सं० प्रा० कुमारी) अविवाहित कन्या; (जस० १, १८, ११) । स्त्री० गौरी, पार्वती; (दे० ना०-मा० २, ३५) ।

कुमात्त—पुं० (सं० कुल्माप) १. कांजी, एक प्रकार का अनाज, २. कुलथी, ३. उर्द, माप, ४. बोरो धान, ५. वह अन्न जिसमें दो भाग धा दल हों, जैसे—चना, उर्द, मटर आदि; (प्रा० गु० ६, २६, ३०) ।

कुमुअ—पुं० १. (सं० कुमुद > प्रा० कुमुअ) कुमुदिनी, चंद्र-विकासी कमल; (प्रा० पं० २, २०५) । २. वानरयोद्धा-प्रमुख; (प० च० ६२, ३०) । कुमुय; (प० सि० च० ३-२) ।

कुमुइणि—स्त्री० (सं० कुमुदिनी > प्रा० कुमुइणी) सफेद कमल का पौधा; (ण० ८, १, १०) ।

कुमुय—न० (सं० कुमुद > प्रा० कुमुअ) लाल कमल; (प० च० ४३, २) ।

कुमुयायर—पुं० (सं० कुमुदाकर) सरो-

वर जो कमलों से भरा हो; (ण० ६, २, १०) ।

कुमुयावत—पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५७, ३) ।

कुमुली—स्त्री० (दे०) चुल्हा; (दे० ना०-मा० २, ३६) ।

कुम्म—पुं० (सं० कूर्म > प्रा० कुम्म) कच्छप, कछुआ; (प्रा० पै० २, ५६; जस० १, १०, ७) । कुम्मु—पुं० कूर्म जिसकी पीठ पर पृथ्वी स्थित है, (क०) । कुम्मायार पुं० (सं० कूर्म + आकार) कूर्म का आकार; (जंबू० ४, १३, १७) ।

कुम्मण—वि० (दे०) म्लान, शुष्क; (दे० ना० मा० २, ४०) ।

कुम्मी—स्त्री० (सं० कूर्मी) १. स्त्री-कछुआ, कच्छपी, २. नारद की माता का नाम; (प० च० ११, ५२) ।

कुम्मागारु—पुं० कच्छप, कछुआ; (प० च० १३, ६, १०) ।

कुम्मासणट्ट—वि० (सं० कूर्मासन + स्थ) योग के एक विशेष आसन में स्थित । इस आसन में दोनों पैरों को तले ऊपर रखकर एँड़ियों से गुदा को दबाकर घुटनों के बल खड़ा होना पड़ता है; (जंबू० ५, १४, २१) ।

कुम्मी—स्त्री० ब्राह्मणी-विशेष- नाम; (प० च० ११, ५०) ।

कुरंग—पुं० (सं० कुरङ्ग > प्रा० कुरंग) मृग, हरिण; (जस० ३, १, १४) । —सिसु पुं० (सं० कुरङ्ग + शिशु) हरिण का बच्चा; (जंबू० ५, १०, १५) ।

कुरंगि—स्त्री० (सं० कुरङ्गी > प्रा० कुरंगी) हिरनी; (सं० रा०) ।

कुरणंकुर—पुं० (सं० किरणांकुर) प्रकाश की वह सूक्ष्म रेखा जो प्रज्वलित पदार्थ से निकलती है; (व० ७, १५, ५) ।

कुरवय—पुं० (सं० कुरवक) कुरवक नामक फूल और उसका वृक्ष, लाल कट-सरैया; (प० च० ६२, ७) ।

कुरर—पुं० (सं० प्रा० कुरर) पक्षी-विशेष, कुरल-पक्षी; (वी० १, २; जस० १, १०, ५) ।

कुररी—स्त्री० (सं० प्रा० कुररी) गाथा का भेद; (प्रा० पै० १, ६१) । स्त्री० (दे०) पशु, जानवर; (दे० ना० मा० २, ४०) ।

कुरली—स्त्री० (सं० कुरली) कुरल-पक्षी; (प० च० १७, ७६) ।

कुरवध—पुं० (सं० कुरवक) १. कुरवक वृक्ष-विशेष । २. वि० (सं० कु + रत) कुरत, वुरी बातों में रुचि लेने वाला; (जंबू० ४, १७, २) । कुरवय—पुं० कट सरैया; (दे० ना० मा० ५, ६) ।

कुरु—पुं० (सं० कुरु) आर्य देश-विशेष, जो उत्तर भारत में है; (भ० (१) —वह पुं० (सं० कुरुपति) कुरु देश का राजा; (भ०) ।

कुरुआ—पुं० (सं० कुरुवक > प्रा० कुरुवक) कटसरैया, अड़से की तरह का एक कटिदार पौधा, जिसमें पीले, लाल-नीले और सफेद कई रंग के फूल लगते हैं । उसके दानों से बहुत ही घटिया तरह

का तेल निकाला जाता है; (की० ३, १०१) ।

कुरुकुरिअ—न० (दे०) औत्सुक्य; (दे०-ना० मा० २, ४२) ।

कुरुचिल्ल—पु० (दे०) १. कुलीर; जल-जंतु-विशेष; २. न० ग्रहण, प्राप्त करना; (दे० ना० मा० २, ४१) ।

कुरुड—वि० (सं० क्रूर) १. निर्दय; निष्ठुर; तुल० गु० करडुं (कठोर); (प० च० २५, १८, ७; दे० ना० मा०-२, ६३) । २. (दे०) निपुण, चतुर; (दे०-ना० मा० २, ६३) ।

√कुरुड—त्र०, (सं०कृत्) काटना । —हिं व०, प्र० पु०, व० “कुरुडहिं सपयासं”—प्रयास-पूर्वक काटर हे हैं, (सुद० ६, १६, ६) ।

कुरुडुम—पु० (सं० कुरुद्रुम > प्रा० कुरु + दुम) कुरुवृक्ष; “चउ गुणिय पणरह विहंग सरि पवहंति कुरु-डुमइ दहवीस गयदंत दिप्पंति,” — १५ की चार गुनी भर्थात् ६० विभंग नदियां प्रवाहमान रहती हैं । कुरुवृक्ष १० तथा देदीप्यमान २० गजदंत हैं; (व० १०, १६, ६) ।

कुरुम—पु० (सं० कूर्म) कच्छप या कच्छुआ नामक जंतु; (की० ३, ३६) ।

कुरुल—पु० (सं० कुरुल = वालों का गुच्छा) कुटिल केश, वक्र बाल; (दे०-ना० मा० २, ६३; जस० ४, २, १२) । (सं० प्रा० कुरर) कुरल-पक्षी; (स्त्री०-कुररी); (प० च० १४, १८) । पु० (दे०) पर्वत; (जंबू० ५, १०, ११) । —भंग पु० (सं० कुरुल + भङ्ग) केश-भंगिमा; (जंबू० ४, १५, ८) ।

कुरुव—पु० (सं० प्रा० कुरु) इस नाम

का एक वंश; (भ०) ।

कुरुवक—पु० (तुर्की कूरवेग) शस्त्रास्त्र और शाही झंडों का अधिकारी; (की० ३, ४१) ।

कुरुविवा—स्त्री० (सं० कुरुविन्दा) इस नाम की एक व्यापारी (वणिज्) भार्या; (प० च० ५५, ३८) ।

कुलंकर—पु० (सं० कुलङ्कर) इस नाम का एक राजा; (प० च० ८२, २६) ।

कुल—पु० न० (सं० प्रा० कुल) १. वंश; (प्रा० पै० १, १८२) ।

२. कूल, किनारा (हिं का० च० ३८) ।

३. पूर्वज; (की० १, १५४) । ४. कौल,

“भोक्खं वजोमां कुलमगलगा” —कुल (कौल) मार्ग में लगे रह कर मोक्ष प्राप्त करते हैं; (प्रा० पै० ११५) । —उत्तिया

स्त्री० (सं० कुलपुत्रिका) कुलपुत्री; (जस० ४, ३, ३) । —उत्ती स्त्री०

(सं० कुलपुत्री) कुलपुत्री, कुलीन कन्या; (जस० २, ७, १०) । —कम पु० (सं०

कुलपरंपरा; (जंबू० ५, ३, १५) ।

—ककम पु० (सं० कुलक्रम) कुल-परंपरा (व० १, १५, ६) । —गुरु पु० (सं०

कुलगुरु) वंश या खानदान का गुरु; (जस० २, १५, ११) । —दिनमणि-

पु० कुल को सूर्य की तरह प्रकाशित करने वाला व्यक्ति; (व० २, ७, ३)

—दीव पु० (सं० कुलदीपक) वंश को दीप की तरह प्रकाशित करने वाला

व्यक्ति; (व० ४, ६, ३) । —देवय पु० (सं० कुलदेवता) वह देवता जिसकी

पूजा किसी कुल में परंपरा से होती

आयी हो; (जस० १, ६, २) । —देवी स्त्री० (सं० कुलदेवी) वह देवी जिसकी पूजा किमी कुल में परंपरा से होती आयी हो; (जस० २, १४, २) —धम्म पु० (सं० कुलधर्म) पूर्व पुरुषों द्वारा पालित धर्म, वंश-परंपरा से आने वाला कर्त्तव्य-कर्म; (जस० ३, ३२, ३) । —मग्न पु० (सं० कुल-मार्ग) कौल-मार्ग, कुल-क्रम से आगत मार्ग; (जस० १, ६, २) —पर पु० (सं० कुल + परम) श्रेष्ठ कुल; (जंबू० ४, १, १२) । —पहु पु० (सं० कुलप्रभु) कुल देवता; (जंबू० ६, १०, १४) । —वालिया स्त्री० (सं० कुलवालिका) कुल की लड़की; (जंबू० २, ६, १४) । —भूषण पु० न० (सं० कुल + भूषण > प्रा० कुल + भूषण) कुल के शृंगार; (जंबू०) । —मंगल न० (सं० कुल + मङ्गल > प्रा० कुलमंगल) कुल का कल्याण; (जंबू० ४, ७, ११) । —मग्न पु० (सं० कुलमार्ग > प्रा० कुलमग्न) कुलमार्ग, पतिव्रत धर्म, "विष्णु नाहें किह कुलमग्नो ठिया," अर्थात् पति के विना क्या वह कुलमार्ग (पतिव्रत धर्म) में स्थित रही; (जंबू० २, १७, ७) । —मग्नचारि वि० (सं० कुलमार्ग-चारिन्) कुल के मार्ग पर चलने वाला, (जस० १, ६, २५) । —यर पु० (सं० कुलकर) कुल का आदि पुरुष; (जस० २, २५, १४) । —यार पु० (सं० कुल + आचार > प्रा० कुलाचार) कुलाचार, वंश-परम्परा से चला आता रिवाज; (जंबू० २, १६, ३) । —सार वि० (सं० कुलसारः)

श्रेष्ठ; (प्रा० पै० १, १०१) । —हर न० (सं० कुल + गृह > प्रा० कुलघर, कुलहर) पिता का घर; (ण० ३, ५, ६) ।

√कुलकुल— (सं० कुरकुराय > प्रा० कुरुकुरु) कुलकुलाना, कुर-कुर की आवाज करना; (जंबू० ५, १०, १६) । —इ; (भ०) । कुलकुलंति व०, प्रथम पुरुष, व०, (सुदं० ११, १५, १०) ।

कुलख—पु० (सं० कुलक्ष > प्रा० कुल-क्ख) मनुष्य-जाति-विशेष; (संधि० १०, २, ५) ।

कुलछल—पु० (सं० कुल + छल) कुल-चातुरी; (जंबू० ७, ५, १५) ।

कुल-भूषण—पु० मुनि, सिद्धत्यनगर का राजकुमार; (प० च० ३६-८७, ११२) ।

कुलमंती—स्त्री० (सं० कुलवन्ती) कुलीन पतिव्रता; (प्रा० पै० १, ६३) ।

कुलमइलण—वि० (सं० कुल + मलिन) कुल को मलिन करने वाला; (जंबू० ४, ३, ४) ।

कुलवद्धण—पु० कुलवर्द्धन; मधु राजा का पुत्र; (प० च० १०५, १०६) ।

कुलवयमालिणी—स्त्री० छंद का नाम; (सुदं० ११, १६, १८) ।

कुलसंतइ—स्त्री० (दे०) चुल्हा; (दे०-ना० मा० २, ३६) ।

कुलाल—पु० (सं० प्रा० कुलाल) कुंभ-कार, कुम्हार; (व० ५, ३, ७) ।

कुलाहल—पु० (सं० प्रा० कोलाहल) कोलाहल, शोरगुल; (सि० १, ४०) ।

कुलिग—वि० (सं० कुलिङ्ग) बुरे लिंग का; (जस० १, ६, १२) ।

कुलिर—पुं० (सं० कुलिर) कर्कराशि; (प० च० १७, १०८) ।

कुलिस—पुं० न० (सं० कुलिश > प्रा० कुलिस) वज्र, इंद्र का मुख्य आयुध; (ण० २, ७, ५) । —उदर पुं० राक्षस-योद्धा; (प० च० ५६, ३१) । —घार पुं०, कुलिशधर नामक विप्र, (प० च० ८८, ७) । —मज्ज न० (सं० कुलिश-मध्य) एक प्रकार की तपश्चर्या; (प० च० २२, २४) ।

कुलीण—वि० (सं० कुलीन > प्रा० कुलीण) प्रतिष्ठित, उत्तम कुल में उत्पन्न । अकुलीण—वि० अप्रतिष्ठित; (रि० ७, ५) ।

कुलीर—पुं० (सं० कुलीर) जंतु-विशेष; (जस० ३, ४, ८; दे० ना० मा० २, ४१) ।

कुलुत्तिय—स्त्री० कुल स्त्री; (भ०) ।

कुल्ल—पुं० (दे०) १. ग्रीवा; २. वि० असमर्थ, ३. छिन्न-पुच्छ, जिसका पूँछ कट गया हो वह; (दे० ना० मा० २, ६१) ।

कुल्ल—अक० (सं० कूद्) कूदना । कुल्लंत—व० कृ० (प० च० ५३, ७६) ।

कुल्लड—न० (दे०) कुल्लड, मिट्टी का बना छोटा पात्र; (दे० ना० मा० २, ६३) ।

कुल्लतल्ल—पुं० (सं० कुल्या + तल) छोटी नदी या नाले का तल; (जंबू० ४, २१, ७) ।

कुल्लरिअ—पुं० (दे०) कांदविक, हलवाई; (दे० ना० मा० २, ४१) ।

कुल्लह—पुं० (दे०) शृगाल, सियार; (दे० ना० मा० २, ३४) ।

कुवइ—क्रि० (सं० कुप्यति, √कुप्) क्रोध करती है; (सं० रा०) ।

कुवत्तय—पुं० (सं० कु + पात्र + क) कुपात्र, अयोग्य व्यक्ति; (ण० ४, ३, १) ।

कुवरि—स्त्री० (सं० प्रा० कुमारी) अविवाहित कन्या; (सि० १, ६) ।

कुवलअच्छि—वि० स्त्री० (सं० कुवलय + अक्षि) नीलकमल के समान नेत्र वाली; (जंबू० ४, १२, ६) ।

कुवलघन्दु—पुं० (सं० कुवलयचन्द्र) चंद्र विकासी कमल; (सि० २, १४) ।

कुवलय—न० (सं० प्रा० कुवलय) नीला कमल, २. पृथ्वीमण्डल, (ण० १, १०, ७) । —चंद्र पुं० (सं० कु + वलय + चन्द्र) पृथ्वीमंडल के चंद्र; (जस० ३, ४, १२) ।

कुवाइ—वि० (सं० कुवादिन्) दूसरे दर्शनों के प्रवर्तक, कुवादी; "अणिहणाहि अणाइहि समिय-कुवाइहि पणविवि अरहंतावलिहि," (जस० १, २, १४) ।

कुवार—क्रि० पुकार मचाना । —रेवि "तो पहाए कुवारेवि डंभण गंजाविओ" फिर प्रभात होने पर पुकार मचाकर दंभ से तेरा अपमान कराया, (सुदं० ११, ६, ५) । —पुं० (दे०) पुकार (सुदं० ८, ३५, १) ।

कुवि—सर्व० (सं० कोऽपि) कोई भी; (जंबू० ६, ५, ७, सं० रा०) ।

कुविअ—वि० (सं० कुपित > प्रा० कुविय) क्रुद्ध; (जंबू० ७, ७, १०) ।
कुविय; (भ०) ।

कुविवेय—पुं० (सं० कु + विवेक) दृष्ट-
तापूर्ण विवेक या ज्ञान; (जस० ३, १२,
६) ।

कुवेर—पुं० (सं० प्रा० कुवेर) धना-
धिप, एक देवता जो इंद्र की नी निधियों
के भंडारी और महादेव जी के मित्र
माने जाते हैं, (व० ७, १०, ६) ।

कुसंग—पुं० (सं० कु + सङ्ग) बुरे
लोगों का साथ; (जस० ३, १२, ६) ।

कुस—पुं० न० (सं० कुश > प्रा० कुस)
१. तृण-विशेष, कांस की तरह की एक
पवित्र घास; "कुसुम-पत्त-कुस-पत्ती
धारणु;" (व० २, १६, ६) । २. (सं०

कुशा) लगाम, रस्सी; (ण० ३, १४,
४) । पुं० सीता का पुत्र; (प० च०
१००, २) । —ग पुं० (सं० कुशाग्र >
प्रा० कुसग) दर्भ या कुश का अग्र भाग
जो अत्यंत तीक्ष्ण होता है; (व० १०, ६,
८) । —द्वय पुं० (सं० कुशध्वज) कुश-
ध्वज नामक ब्राह्मण; (प० च० १०३,
१०५) ।

कुसण—न० (दे०) आद्र करना; (दे०-
ना० मा० २, ३५) ।

कुसुमगमु—पुं० (सं० कुसुमोद्गम >
प्रा० कुसुम + उगम) कुसुम की उत्पत्ति;
(व० १, ५, ५) ।

कुसरीर—वि० (सं० कुशरीर) बुरे
शरीर वाला; (भ०) ।

कुसल—वि० (सं० कुशल > प्रा० कुसल)
निपुण, दक्ष; (भ०) ।

कुसलु—पुं० (सं० कुशल) खैरियत,
राजीखुशी, "कुसलत्तु कुसलु ता तेण
कहिउ" —कुशल प्रश्न पूछने पर अपनी
कुशल की बात कही; (जस० १, २५,
५) ।

कुसलत्त—पुं० (सं० कुशलत्व) कुशल-
वृत्त, क्षेम, मंगल; (जस० १, २५, ५) ।

—त्तण पुं० (सं० कुशलत्व) कुसलता ।

कुसामि—पुं० (सं० कु + स्वामी)
पृथ्वीपति; (जंबू० ७, ६, २५) ।

कुसासन—पुं० (सं० कु + शासन)
१. बुरा शासन । २. (सं० कुश + अशन)
घास खाना या चरना; (ण० ७, १,
६) ।

कुसी—स्त्री० (सं० कुशी = हल की
फाल) लोहे का बना हुआ एक हथियार;
(दे० ना० मा० ८, ५) ।

कुसीलु—पुं० (सं० कु + शील) कुत्सित
आचार; (ण० ४, ३, १) ।

कुसीस—पुं० (सं० कु + शिष्य) बुरा
शिष्य; (ण० ७, १, १६) ।

कुसुंभ—पुं० (सं० कुसुम्भ > प्रा०
कुसुंभ) रंग-विशेष, कुसुम्भ के पुष्प से
बना रंग; (जंबू० ६, १४, १३) ।

कुसुंमिल—पुं० (दे०) पिशुन, दुर्जन,
चुगलीखोर; (दे० ना० मा० २,
४०) ।

कुसुइ—पुं० (सं० कु + श्रुति) झूठे
शास्त्र; (ण० ४, ३, १) ।

कुसुंभर—न० (सं० कुसुम + अम्बर >
प्रा० कुसुम + अंबर) पुष्प और
बस्त्र; (व० ५, ८, १) ।

कुसुम—न० (सं० प्रा० कुसुम) पुष्प;

(प्रा० पै० १, ६७; जस० १, १२, १) - कुसुमंकिष्—वि (सं० कुसुम + अङ्कित) पुष्पों से सुशोभित; (जंबू० १, १७, २) । —चए पु० (सं० कुसुमचय) कुसुम-समूह; (व० ३, २२, ११) । —दाम न० (सं० कुसुमदामन् > प्रा० कुसुमदाम) फूलों की माला; (जंबू० १, ६, ३) । —वाण पु० (सं० कुसुमवाण) कामदेव; (जस० ३, २६, ७) । —माल पु० १. वानर-योद्धा; (प० च० ५७, ६) । २. पु० (सं० प्रा० कुसुममाला) पुष्पमाला; (व० २, १७, १०) । —सर पु० (सं० कुसुमशर) मदन, कामदेव, "तुहूँ देउ भडारउ कुसुमसर, तुहूँ सांमि महारउ हिययहर," —मेरे तो आप ही पूज्य देव हो, कामदेव हो और तुम्हीं मेरे हृदयहारी स्वामी हो," (जस० २, ७, ६) । —सिरि स्त्री० (सं० कुसुमश्री) पुष्प-शोभा, (व० ४, ११, १६) । —शय्या स्त्री० (सं० कुसुम-शय्या) फूलों की सेज; (की० २, २४५) । —आअर (कुसुमाअर) पु० (सं० कुसुमाकरः) छप्पय छंद का भेद; (प्रा० पै० १, १२३) । —सर पु० (सं० कुसुमशर) कामदेव; (सं० रा०) —आई न०, व० व०, (प्रा० पै० १, ६७) —अह पु० (सं० कुसुमायुध > प्रा० कुसुमाअह) काम, कामदेव; (क० १, १३, ३) । —अंकरिय वि० (सं० कुसुमालंकरित) पुष्पों से सुसज्जित; (व० २, १२, ६) । —अवई स्त्री० (सं० कुसुमावती) इस नाम की एक नगरी; (प० च० ५, २६) । कुसुमाअह—पु० वानरयोद्धा; (प० च०

५७, ६) ।

कुसुमाल—पु० (सं० कुसुमाल) चोर; (प० च० २५, ३, २; जंबू० ६, १५, ७) ।

कुसुमालिअ—वि० (दे०) भ्रांत-चित्त; (दे० ना० मा० २, ४२) ।

कुसुमिअ—वि० (सं० कुसुमित) पुष्पित, खिला हुआ, (प० च० ३३, १४८) ।

कुसुमिय; (जस० १, ३, ७) कुसुमियउ; (परमा०) ।

कुसुमो—पु० (सं० कुसुमं) (छंदशास्त्र में) पंचकल गण के भेद का नाम (ISA); (प्रा० पै० १, १६) ।

कुसुमोह—पु० (सं० कुसुमौघ) फूलों का समूह; (सि० २, २७) ।

कुसुय—पु० (सं० कु + श्रुत) कुश्रुति, कुशास्त्र; (ण० ६, १२, ७) ।

√कुह—(सं० क्रुध्) क्रोध करना; (जस०) ।

√कुह—(सं० कुय्) सड़ना । —इ (सं० कुय्यति > प्रा० कुहइ); दुर्गंध करना; (हे० ३६५) । तुल० गु० कोहवुं —न्ति (प० च० ३३, ७, ६) ।

कुहड—वि० (दे०) कूबड़ा; (दे० ना०-मा० २, ३६) ।

कुहर—न० (सं० प्रा० कुहर १- गुफा, पर्वत का अंतराल; (प्रा० पै० १, ६३५ जस० ३, ३, २) । २. पु० देश-विशेष; (प० च० ६८, ६७) । ३. न० गर्त, गड्ढा; (सं० रा०) ।

कुहाड—पु० (सं० कुठार) कुल्हाड़, फरसा; (प० च० ६६, २४) ।

कुहाडी—स्त्री० (सं० कुठारिका) छोटा

कुल्हाड़ा; (संघि० १४, ४, ८) ।
 कुहिम्र—वि० (दे०) लिप्त, पोता हुआ;
 (दे० ना० मा० २, ३५) ।
 कुहिणि^१—स्त्री० (दे०) मार्ग; (प० च०
 ३८, १०, ५; जस० ४, ८, ३) ।
 कुहिणी^१—स्त्री० (दे०) १. हाथ का
 मध्य भाग; २. रथ्या, मार्ग; (दे० ना०-
 मा० २, ६२) ।
 कुहिय—वि० १. (सं० क्रोधित) क्रुद्ध;
 (जस०) २. वि० (सं० कुथित > प्रा०
 कुहिस) व्याधि दूषित, दुर्गंध वाला;
 (जस० ३, २७, २०) ।
 कुहुरव—पुं० कोकिला की ध्वनि; (प्रा०
 पं० २, १३४) ।
 कुहेड—पुं० (दे०) ओषधी-विशेष, गुरे-
 टक; (दे० ना० मा० २, ३५) ।
 कुहेडय—पुं० (सं० कुहेट + क > प्रा०
 कुहेडअ) चमत्कार उपजाने वाला मंत्र-
 तंत्रादि ज्ञान; (प० च० ५४, ११,
 ४) ।
 कुअ—पुं० (सं० कूप > प्रा० कूय)
 कूप, कुआ; (जंजू० १०, १७, ४) ।
 कुइय—न० (सं० कूजित > प्रा० कूइय)
 अव्यक्त आवाज; (जंजू० ४, ६, ३) ।
 कुकर—पुं० (सं० प्रा० कुक्कुर) श्वान,
 कुत्ता; (सि० १, ४४) ।
 कुच—पुं० (सं० कूर्च) दाढ़ी; (प्रा० गु०
 ४, २८) ।
 कुजा—स्त्री० (फ्रा० कूज:) सुराही;
 तुल० पं० कुज्जा (a small earthen
 pot); (की० २, १६२) ।
 कूट—पुं० न० (सं० कूट > प्रा० कूड)
 १. पहाड़ समूह; (की० ४, १६) ।

२. शिखर (प० २, ३, ३; व० १, १३,
 ६) ।
 कूड—पुं० न० (सं० कूट > प्रा० कूड)
 भ्रांतिजनक वस्तु, कूड़ा, बेकार वस्तु
 (रा०) । २. छल, कपट, असत्य; (सि०
 २, २; जस० ४, १६, ४) । पुं० दास-
 विशेष का नाम; (प० च० ५, १०२) ।
 कूडउं—वि० (सं० कूटम् > प्रा० कुड)
 भ्रमपूर्ण; "नवि कूडउं वचन न दोह
 कीव," तुल० गु० कूडुं (संघि० २०,
 ३, ७) । कूडउ—वि० (सं० कूट + क
 > प्रा० कूडअ) झूठे, छल-युक्त, "कूडउ
 दम्मु निएवि विमत्तिएँ," -झूठे (द्रम एक
 प्रकार का सिक्का) को देखकर खेद करते
 हुए; (जंजू० ६, १३, ४) ।
 कूडमंतु—पुं० (सं० कूटमन्त्र) कूट मंत्र;
 "महिलाकिउ सयलु वि कूडमंतु," यह
 सारा (प्रपंच) महिला कृत कूट मंत्र है;
 (जंजू० ४, १७, १७) ।
 कूडायर—पुं० (सं० कूट + आदर >
 प्रा० कूड + आयर) झूठा या दिखावटी
 आदर; (जस० ४, १६, ३) ।
 कूणिअ—वि० (दे०) थोड़ा खिला हुआ;
 (दे० ना० मा० २, ४४) ।
 कूरंतरंगु—पुं० (सं० क्रूर + अंतरंग)
 क्रूरता से बढ़ा हुआ अंतरंग; "गल-
 गज्जिएँ वहिरंतउ दिसाउ, कूरंतरंगु
 वड्ढिय-कसाउ;" अर्थात् गल-गर्जना
 करता हुआ अपना बाह्य रूप दर्शाता
 हुआ तथा निर्दयता या कठोरता से बढ़े
 हुए कषाय वाले अंतरंग को दिखाता
 हुआ पंचाननासिंह उठा; (व० ३, २६,
 १०) ।

क्रूर—न० (सं० प्रा० क्रूर) १. ओदन; (प० च० २५, ११, ७) । २. पुं० रावण का इस नाम का एक योद्धा; (प० च० ५६, २६) । अव्य० घोड़ा; अल्प; (पङ्) ३. वि० (सं० क्रूर > प्रा० क्रूर) निर्दयी; (जस० १, ८, ६) । —गह पुं० (सं० क्रूर + ग्रह) अहितकारी ग्रह; (जंबू० १०, २५, १०) । —भाव पुं० (सं० क्रूरभाव) निर्दयतापूर्ण विचार; (व० २, ८, ८) । —णणु वि० (सं० क्रूरानन > प्रा० क्रूर + आणण) क्रूर मुख-वाला; (व० २, ७, ११) । —सणु वि० (सं० क्रूर + अशन > प्रा० क्रूर + अक्षर) क्रूरभक्षी; (व० ३, २६, ८) ।

क्रूरउरि—स्त्री० (सं० कूलपुर) नगर-विशेष; (व० ६, २०, १२) ।

कूल—न० (सं० प्रा० कूल) १. तट, किनारा; (जस० ३, १, ८) । २. राजा-विशेष का नाम; (व० ६, २०, १३) । ३. न० (दे०) सैन्य का पिछला भाग, (दे० ना० मा० २, ४३) । —अवहि (कूलावहि) (सं० कूल + अधि) कूल तट, "लवण्यकूलावहि," लवणोदधि के कूल तक; (जंबू० १, १०, १४) ।

कूव—पुं० (सं० कूप > प्रा० कूव) कुआ; तुल० मगही कूआ, गु० कूवो; (सा० ६६; सरह दोहाकोश; जस० ३, १६, ३) ।

कूवडिय—पुं० (सं० कूपिका) छोटा कुआं प्रा० गु० २२, १५) ।

कूवतुला—स्त्री० (सं० कूप + तुला) डेंकी, सिचाई के लिए कूएँ से पानी

निकालने का एक यंत्र; (दे० ना० मा० १, ६३) ।

कूवयहं—पुं० सं० (कूपकः) कूएँ (सा० ६६) ।

कूवल—न० (दे०) जघन-वस्त्र, जघन (पुट्टा, कूल्हा, चूतड़, २. स्त्रियों के पेड़) पर पहने जाने वाला वस्त्र, "कूवलं जघनवसनम्," (दे० ना० मा० २, ४३) ।

कूवार—पुं० (सं० पूतकार) कर्ण पुकार; किसी अत्याचार या कष्ट निवारण के लिए प्रजा द्वारा सामूहिक रूप में राजा के सम्मुख कर्ण पुकार के साथ किया गया निवेदन; (रि० १, ६) ।

कूवारें—पुं० 'णरणाहह कय सामुद्धारें ता पयगय सयल वि कूवारें,' (पुष्पदंत, महा०) । — पुं० (सं० कू + रव)

१. सकर्ण विलाप "तं कूवारु चुणवि" (भ० ८, १४, १); "एम करोवि सुइह कूवारउ" (भ० ६, १५, १२) ।

२. अत्यधिक मुसीबत में सहायता के लिए की गई पुकार; (प० च० २३, ४, ११, १०, ७, ११, ७) । कूवार—पुं० (सं० क + रवे > कोवार > कूवार) पुकार; (रि० ६, ६) । कूवार—पुं० (सं० कूपार) समुद्र, "तुमं पत्तसंसारकूवार-तीरो," —आप इस संसार सागर के तीर पर पहुँच गए हो; (जंबू० १, १८, ६) ।

कूवि—स्त्री० (सं० कूप > प्रा० कूव) कुआं; (महा० ६६, ३, ११) ।

कूसार—पुं० (दे०) खड्डा, गर्त जैसा स्थान. "कूसारो गर्तकारः," (दे० ना० मा० २, ४४) ।

कै—सर्व० (सं० कः) कौन; (जंबू० ७, ३, १०; रा० ३४) ।

कैकाय—अक० (सं० केङ्काय्) कै—कै आवाज करना । कैकायतं—व० कृ० "पिच्छद् तयो जहागि कैकायतं महीप-डियं," (प० च० ४४, ५४) ।

के—प०, के लिए; (की० २, १९) ।

केअइ—स्त्री० (सं० केतकी > प्रा० केअइ) केतकी-पुष्प, पुष्प-विशेष; (प्रा० पं० २, ९७) ।

केआ—स्त्री० (दे०) रज्जु, रस्सी; (दे० ना० मा० २, ४४) ।

केइ—(सं० केन) किससे, किसके द्वारा; (उ० व्य० प्र० २१-३) । केइ (सं० केन); (उ० व्य० प्र० २७-४) ।

केइय—वि० (सं० केका=मोर की बोली) शब्दित; (प० च० ५३, ९, ७) ।

केउ—पुं० (सं० केतु > प्रा० केउ) ध्वज, पताका; (जस० १, १, ९) ।

राक्षस योद्धा; (प० च० ५६, २९) ।

—मइ स्त्री० (सं० केतुमती) स्त्री-विशेष का नाम; (क० ६, १२, १); अंजना की सास; (प० च० १५, २७) ।

केउर—पुं० न० (सं० केयूर > प्रा० केउर) हाथ का आभूषण-विशेष; (सि० २, ९) । २. दीर्घ अक्षर (S); (प्रा० पं० १, ३१) । केऊर; (ण० ३, १०, ६) ।

केऊरे; (व० ४, १, १६) ।

केऊ—पुं० (दे०) कंद, कांदा, एक गुल्म जिसमें प्याज की तरह गांठ पड़ती है, गांठदार या गूदेदार जड़, "केऊ य कन्दमि," (दे० ना० मा० २, ४४) ।

केकइय—पुं० (सं० प्रा० केकय) मनुष्य-जाति-विशेष (केकय देशीय); (संघि० १०, २, ६) ।

केकई—स्त्री० (सं० केकयी) राजा दशरथ की एक रानी, केकय देश के राजा की कन्या; (प० च० २२, १०८) ।

केकय—पुं० (सं० केकय) केकय देश का राजा; (प० च० २२, १०८) ।

केकसी—स्त्री० रावण की माता व विद्याधर राजा वोर्मविदु की पुत्री; (प० च० १, ४९) ।

केकाण—पुं० अश्व-जाति-विशेष; (प्रा० गु० ५, १३) ।

केकई—देखो केकई (प० च० ७९, २६) ।

केककार—पुं० (सं० केङ्कार) पक्षियों का शब्द-विशेष; (जस० १, २०, १२) ।

केगई—देखो केकई; (प० च० १, ६४) ।

केडुआल—पुं० (दे०) पतवार; (हि का०, च ३८) ।

केडव—पुं० कैटभ, राजा-विशेष का नाम; (प० च० १०५, १३) ।

केण—सर्व० (सं० केन) कौन; 'रइ-नाहह खंडिय आण केन'; (विला०) ।

केणय—पुं० (सं० क्रीत > प्रा० किणिय) क्रय योग्य वस्तु; (जंबू० ५, ११, ३) ।

केणिय—वि० (सं० क्रीत > प्रा० किणिय) खरीदे हुए; "कयकिणियहो न सोह इह हारहो," —मूल्य से खरीदे हुए हार की यहाँ कोई शोभा नहीं है; (जंबू० ६, ३, ३) ।

केत—वि० (सं० कियत्) कितना —उ;
(रा० ३४) ।

केतडड—वि० (सं० कियत् > केत्तिअ)
कितना; (सुदं० ८, २५, ५) ।

केतडय—वि० (सं० कियत् > प्रा०
केत्तिअ) कितना; (प० च० २१, १) ।

केतहो—अव्य० (सं० कुवचित्) कहीं;
पुरानी हिंदी कितहूँ (कहीं भी); (क० ६,
८, १०) ।

केत्तिअ—वि० (सं० कियत् > प्रा०
केत्तिअ) कितना; (पड) । केत्तिय; (प०
२, १३, ८; प० च० २१, ११, ६) ।

केत्थु—अव्य० (सं० कुत्त, कुत्तः) कहीं,
किस जगह; (भ०) ।

केदार—पुं० (सं० केदार) केदार नामक
वृक्ष; "जाचक सिद्धि केदार दाने पंचम
वलि जानल," —याचकों के लिए कल्प-
वृक्ष (सिद्धि केदार) के समान मनोवांछित
फल देने वाले थे और पांचवे दान में
वलि के समान दानी थे; (की० १,
७२) ।

केन—सर्व० (सं० केन) किस; "केन
पआरे निरसिअउ वड समघ्य असलान,"
(की० ४, १४२) ।

केम—अव्य० (सं० कयम्) कैसे, किस
तरह; तुल० गु० केम; (भ०; जं० ५,
४, २१) ।

केय—पुं० (सं० केकिन्) मोर;
(भ०) ।

केयई—स्त्री० (सं० केतकी) एक प्रकार
का झाड़ू या पीघा, केवड़ा; (प० च०
५३, ७६) ।

केयण—न० (सं० केतन) ध्वजा;

(सुदं० १, ६, ४) ।

केयइ—स्त्री० (सं० केतकी) एक प्रकार
का छोटा झाड़ू या पीघा; (जस० १,
१२, ६) ।

केयरी—स्त्री० वृक्ष-विशेष; (प० च०
४२, ६) ।

केयार—पुं० (सं० केदार) १. वह खेत
जिसमें धान बोया जाता है, "जहिं चुम-
चुमति केयारकीर," उस प्रदेश के खेतों
में चुफ चुन-चुनकर धान्य खाते हैं; (जस०
१, २१, १) । २. क्यारी; (व० १, ३,
६) । —वाण पुं० (दे०) पलाश का
वृक्ष; (दे० ना० मा० २, ४५) ।

केर—प० १. संबंधकारक परसर्ग जो
'का' और 'के' विभक्तियों के स्थान में
आता है; (जस०) —अ प० संदंकारक
परसर्ग; (जं० ६, २, ३; जस०) ।
२. वि० (प्रा० केर, केरय) संबंधी वस्तु;
(ग० १, ३, १४) । ३. पुं० (दे०)
सेवा; (म० १, २२, ४) ।

केरल—पुं० (सं० केरल) दक्षिण भारत
का एक प्रदेश; (जं० ६, १६, १) ।

—नयरि स्त्री० केमलनगरी, केरलनयरि-
पएसहो," —केरलनगरी प्रदेश; (जं०
५, ५, १७) । —पुरी स्त्री० केरलपुरी;
(जं० ५, ३, ६) । —बल पुं० (सं०
केरल + बल) केरल सैन्य; (जं० ६,
१६, १) । केरलि—स्त्री० केरल प्रदेश
की रहने वाली; (जं० ४, १५, ८) ।

केरा—प० का; (की० १, ६८) ।

केरिस—वि० (सं० कीट्टिश) कैसा;
(जं० ४, १८, ११) ।

केरी—प० संबंधकारक परसर्ग; (जस० १, ६, २) ।
 केलास—पुं० (सं० कैलाश > प्रा० केलास) पर्वत-विशेष; (ण० ३, १५, १३; प्रा० पं० १, ७३) ।
 केलि—स्त्री० (सं० केलि, ली > प्रा० केलि, ली) ब्रीड़ा, खेल; (भ०) ।
 २. स्त्री० (सं० कदली > प्रा० कयली, कैली) केले का पेड़; (जंबू० ८, ७, १२) ।
 केलिदंड—पुं० (सं० केलिदण्ड) कदली-दण्ड, "उत्थिय चंदोवा केलिदड;" (जस० २, २५, १७) ।
 केलिदत्त—पुं० (सं० कदली + पत्र) कदली पत्र; (सं० केलि + वृत्त) ब्रीड़ा-वार्त्ता; (ण० १, १०, ४) ।
 केली—स्त्री० (दे०) कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री; (दे० ना० मा० २, ४४) ।
 केलीगिल—वि० (सं० कैलीकिल) केली-किल स्थान में उत्पन्न; (प० च० ५५, १७) । पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५४, २१) ।
 केलीहर—पुं० (सं० केलिगृह > प्रा० केलिघर, हर) श्रीड़ागृह, "कुष केलि-विउले केलीहरए," विशाल ब्रीड़ाघर में ब्रीड़ा करो; (रि० १, १०) ।
 केव—वि० (सं० कथम्) कैसे; (हे० ३४३, १) । केव—वि० (सं० कथम्) (क० ४, १३, ७) ।
 केवट्ट—पुं० (सं० कवर्त > प्रा० केव-ट्ट) धीवर, मच्छीमार; (जस० ३, ३, ११) ।
 केवट्टिणदिणि—स्त्री० (सं० कवर्तन-

न्दिनी) केवट की कन्या; "हारासर चलि-यमणु मुयवि लज्ज केवट्टिण दिणि" (सुदं० १०, ६, २) ।
 केवड—वि० (सं० कियत् > प्रा० केत्तिअ, केत्तिल) कितना (पाइअ०, पृ० २६१) ।
 केवल—वि० (सं० केवलिन् > प्रा० केवलि) सर्वज्ञ, केवल ज्ञान वाला "केव-लेण तित्थयर" जाणिय," -केवली तीर्थ-करो द्वारा ज्ञात है; (व० १०, १७, ६) ।
 न० (सं० प्रा० केवल) ज्ञान-विशेष; (ण० ६, ३, १) । वि० अकेला; (भ०) ।
 —णाण पुं० केवल ज्ञान; (जस० १, १, १२) । —दीपक पुं० (सं० केवल + दीपक) ज्ञान-दीपक; (जंबू० ४, ३, १४) ।
 —णाणि पुं० (सं० केवलज्ञानिन्) मुनि —णाणि वि० (सं० केवलज्ञानिन्) भ्रांतिहीन या विशुद्ध ज्ञान वाला व्यक्ति; (व० १०, ४०, ४) । —नाण न० (सं० केवल + ज्ञान > प्रा० केवल + णाण) संपूर्ण ज्ञान; (जंबू० १०, २१, ६) ।
 —वाह वि० (सं० केवल + वाहक > प्रा० केवल + वाहय) ज्ञानवाहक; (जंबू० १, १६, २) ।
 केवलाअ—सक० आरम्भ करना । —इ; (पड्) ।
 केवलि—वि० (सं० केवलिन्) सर्वज्ञ; "आहाकम्मुद्देसहिं चत्तउ पिडु लेमि जिह केवलिवुत्तउ," मैं आधा कर्म और उद्देश्य से रहित शुद्ध आहार लेता हूँ जैसा केवली भगवान् ने कहा है; (जस० ३, २१, ७) ।
 केवि—सर्व० (सं० कोऽपि) किसी ने; (की० ३, ८०) ।

कैसंतरे—वि० (सं० केश+अन्तर > प्रा० केश+अंतर न०) केशों में छिपा हुआ; “चक्करहे” कैसंतरे लुलिउ सुइ मूलि णिहालिउ णव-पलिउ,” अर्थात् श्रुतिमूल (कान के पास) में केशों में छिपा हुआ एक नवपलित—श्वेत केश देखा; (व० ८, ७, १२) ।

केस—पुं० (सं० केश > प्रा० केस) वाल; (भ०) । —पासाए—पुं० (सं० केशपाश) वालों की लट; (सणतु० ४४४) । —बंध पुं० (सं० केशबन्ध) वाल बाँधने का फीता; “सियकुसुमुब्भा-सियकेसबंधु,” अर्थात् केशबंध श्वेतबंध श्वेत कुसुमों से उद्भासित; (जंबू ५, १२, १८) । —भरु पुं० (सं० केश+भार) केशपाश; (जंबू० १०, १६, ५) । —रालु वि० केशर-जटाओं वाला, “भू-भीसरगु भासुर-केसरालु,” अर्थात् भीषण भीहों वाला, भास्वर केशर-जटाओं वाला; (व० ३, २६, ६) । —रोह पुं० (सं० केशर+ओत्र) केश-समूह; (ण० ४, १०२) ।

केसर—पुं० (सं० प्रा० केसर) अयाल, घोड़े और सिंह आदि की गरदन के वाल; (की० ३, १५०) । २. पुं० केसर-तिलक, वृक्ष-विशेष; (जंबू० ४, १७, ३) । ३. पुं० पराग; (प्रा० पं० २, १६३) । केसर-पराग; (विला०) । केसरि^१—पुं० (सं० केसरिन् > प्रा० केसरि) केशरी सिंह; (हे० ३३५, १; भ०) ।

केसरि^२—पुं० १. विद्याधर योद्धा; (प० च० १२, ६८) । २. राजा-विशेष-नाम;

(च० च० ३७, ११) ।

केसरिविट्ठर—पुं० सिंहासन “पुगु केसरिविट्ठर पुगु विमाणु,” अर्थात् फिर सिंहासन, फिर विमान; (रि० ८, ५) ।

केसलडी—स्त्री० (सं० केश+लट्वा) केशों की लटें, केश-पाश, वालों का गुच्छा; (जंबू० ६, १८, ३) ।

केसव—पुं० (सं० केशव) लक्ष्मण; (प०-च० ३२, २, ११) । २. नारायण; (जंबू० ४, ४, ४) । ३. कृष्ण, नारायण; (व० १०, १६, ८) ।

केसि—पुं० केशी नामक दैत्य; (प्रा० पं० २, ७१) ।

केसी—१. पुं० लक्ष्मण “अन्ने जंपन्ति भडा, सत्ती वि हु रामकेसीणं,” दूसरे भट राम और लक्ष्मण की शक्ति के बारे में कह रहे थे; (प० च० ७५, २०) । २. स्त्री० (सं० केशी) सातवें वासुदेव की माता; (प० च० २०, १८४) ।

केपु—पुं० (सं० किशुक) टेसू के फूल; (प्रा० पं० १, १३५) ।

केसुब्भड—वि० (सं० केश+उद्भट) भयंकर; (जस०) ।

केन्ने—क्रि० वि० कैसे; (प्रा० पं० १, ६७) ।

केह—वि० (सं० कीदृश्) कैसा, किस तरह; (भ०) । —उ वि० कैसा, किस तरह (सुदं० २, १, १३) ।

केहअ—वि० (सं० कीदृश् > प्रा० केह) कैसा; (ण० ७, ११, १) ।

केहउ—वि० (सं० कीदृश्) कैसा; (जस० ४, २३, १६) ।

केहि—अव्य० लिए, वास्ते; (दि० ना०-मा० ४, ४२५) ।

केही—वि० (सं० कीदृशी) कैसी; (प्रा० गु० ३८, १३) ।

कैसे—वि० (सं० कीदृशात्) कैसे, “कैसे काह करत;” (उ० व्य० प्र० ३२-१) ।

कोंकण—पुं० (सं० कोङ्कण > प्रा० कोंकण) प्रदेश-विशेष; दक्षिण भारत का एक प्रदेश जिसके अंतर्गत कनारा, रत्न-गिरि, कोलाव और थाना आदि हैं ।

टि०—प्राचीन काल में केरल, तुलव, सौराष्ट्र, कोंकण, करहाट, कर्णाट और वर्वर मिलकर सप्तकोंकण बनाते थे; (जंबू० ६, १६, ४) ।

कोंकणवासिनी—स्त्री० (सं० कोङ्कणक + निवासिन्) कोंकणवासिनी स्त्री; (सुदं० ४, ६, ८) ।

कोंग—पुं० कुर्ग देश; (जंबू० ९, १६, १४) ।

कोंचा-ताल—पुं० (सं० कुञ्चिक = ताली, कुंजी; + सं० तालकम् = कुण्डी) ताला-ताली; मगही कुंजी-ताला; (गुण्ड-रीपा, चर्यागीति) ।

कोंडिग्र—पुं० (दि०) ग्राम-निवासी लोगों में फूट करा कर छल से गाँव का मालिक बन बैठने वाला, “भेएण गाम-भोत्ता य कोंडिओ,” (दि० ना० मा० २, ४८) ।

कोंडिण्ण—न० (सं० कौण्डिन्य > प्रा० कोडिण्ण) वसिष्ठ गोत्र की शाखा रूप एक गोत्र; (ण० १, ३, ३) ।

कोंडिल्ल—पुं० (सं० कौण्डिन्य) गोत्र-विशेष; (जस० १, १, ३) ।

कोंडुल्लु—पुं० (दि०) उल्लूक, उल्लू, पक्षी-विशेष; (दि० ना० मा० २, ४६) ।

कोंत—पुं० (सं० कुन्त > प्रा० कुंत) हथियार-विशेष, भाला; (ण० ४, ७, १५) । —कोडि स्त्री० (सं० कुन्त + कोटि) भाले की नोक; (जंबू० ४, २१, ११) । —ग पुं० (सं० कुन्ताग्र) अस्त्र-विशेष; (जंबू० ७, ६, १) । —आउह (कोंताउह) न० (सं० कुन्त + आयुव) शास्त्र-विशेष; (जंबू० ६, ६, ६) ।

कोअ—पुं० १. (सं० प्रा० कक) चक्र-वाक पक्षी; (दि० ना० मा० ८, ४३) ।

को—सर्व० (सं० कः) कौन; (म०; की० १, ५६) ।

कोअंड—पुं० (सं० कोदण्ड > प्रा० कोदंड, कोअंड) घनुप, घनु; (जस० १, १६, १) ।

कोइ—सर्व० (सं० कः + अपि, कोऽपि) (१) कोई; (परम० २, १८३) । (२) किसी को; (की० १, २१) ।

कोइल—स्त्री० (सं० कोकिल) कोकिला, कोयल; तुल० गुं कोयल; (ण० २, ६, ७; जंबू० ५, १०, १६; सं० रा०) । २. रोला छंद का भेद; (प्रा० पै० १, ६३) ।

कोइला—पुं० (सं० कोकिलः = जलती हुई लकड़ी) काष्ठ के अंगार, कोयला; (दि० ना० मा० २, ४६) ।

कोउ—सर्व० (सं० कोऽपि) कोई; (उ० व्य० प्र० २१-१८) । पुं० (सं० कोप) क्रोध; (व० २, १०, १५) ।

कोउआ—स्त्री० (दि०) करीपाग्नि,

जगली कंडा या वन उपला की अग्नि;
(दे० ना० मा० २, ४८) ।

कोऊहल— पुं० (सं० कौतूहल)

१. जिज्ञासा, २. उत्सुकता, ३. आश्चर्य-
जनक; (सं० रा०; जस० १, ६, ७) ।

—त्थ पुं० (सं० कौतूहल + अर्थ) कौतू-
हल औत्सुक्य, (जंबू० ६, १२, १३) ।

—यर (सं० कौतूहल + कारक) कुतूहल
वर्धक; (व० ४, २१, १०) ।

√कोक—क्रि० (दे० प्रा० कोक)
बुलाना, आह्वान करना; (रा०) ।

कोकाविउ—भू० का बुलाया; “कोका-
विउ सो ते सुत्तधारि,” (क० ४, १२,
४) ।

कोक—पुं० (सं० कोक) चक्रवाक पक्षी,
(दे० ना० मा० ८, ४३) ।

कोकनदे—न० (सं० कोकनद > प्रा०
कोकणय) कमल; (की० ३, ३४) ।

√कोक्क—(प्रा० कोक्क) बुलाना,
कूकना । —इ (भ०) । तुल० म०

कोकणो । —उ, क्रि०, भू० का० बुल-
वाया; (ण० ३, १३, ७) । कोक्कत-

व० कृ० ‘को-को’ शब्द करते हुए; (जस०
२, २७, ५) ।

कोक्कासिय—वि० (दे०) विकसित,
प्रफुल्ल; (दे० ना० मा० २, ५०) ।

कोच्छर—वि० (दे०) कुत्सित; (सुदं०
४, ६, ६) ।

कोञ्च—पुं० १. (सं० क्रीञ्च > प्रा०
कौञ्च) पक्षी-विशेष; (प० च० ३, ५,
५) । २. पुं० कौञ्ज नामक वृक्ष; (प०

च० ३, १, ११) ।

कोञ्चणइ—स्त्री० (सं० क्रीञ्चतदी)

नदी-विशेष; (प० च० ३६, १, ६) ।

कोट्टिह—वि० (सं० कोटि > प्रा० कोडि)
करोड़ों; (का० दो० को०) ।

कोट्ट—पुं० (सं० कोट) दुर्ग, किला;
(जंबू० ५, ३, १३) । —ट्टाल पुं०

(दे०) कच्चे फलों का समूह; (जंबू० ६,
४, १) । —वाल पुं० (सं० कोटपाल)

कोतवाल; नगररक्षक; तुल० गु० कोट-
वाळ; (जंबू० ५, ११, ३; प० च०

५१, १२, ७) ।

कोट्टिब—पुं० (दे०) द्रोणी, नीका,
जहाज; (दे० ना० मा० २, ४७) ।

कोट्टिम—वि० (सं० कृत्त्रिम) वनावटी;
(प० च० ६६, ३६) ।

कोट्टी—स्त्री० (दे०) १. दोह, दोहन,
दुहना, दुग्धपात्र, दूध दूहने का पात्र;

२. लड़खड़ाने की क्रिया, सत्पथ से भ्रष्ट
होना; “कोट्टी दु दोहरखलणासु;” (दे०

ना० मा० २, ६४) ।

कोट्टुभ—पुं० न० (दे०) हाथ से
फेंका हुआ जल, “कोट्टुभं कराहतं

वारि;” (दे० ना० मा० २, ४७) ।

कोट्ट—पुं० (सं० कोष्ठ > प्रा० कोट्ठ,
कुट्ठ) कोठा, कमरा । तुल० राज०

कोठो; (ण० १, १२, १) । —य, पुं०
अपवरक; (सुदं० १, ६, ५) । —

(कोट्ठा) (सं० कोठ + क) कोठा;
(जंबू० १, १६, ४) ।

कोट्टार—पुं० न० (सं० कोष्ठागार)
भाण्डागार; (प० च० २, ३) ।

कोट्टु—पुं० (सं० क्रीट्टु) गीदड़,
शृगाल; (पड्) ।

कोडंब—न० (दे०) कार्य, काज; (दे०-ना० मा० २, २) ।

कोड—पुं० १. (सं० क्रोड) गोद, —इं; (रा० ३५) । २. कौतुक; (जंजू० ३, ११, ८) ।

कोडि—स्त्री० (सं० कोटि > प्रा० कोडि) राशि; “कणयरयणकोडिहिं बडिउ” जो स्वर्ण और रत्नों की राशि से गढ़ा गया है; (ण० १, ६, १३) । २. किनारा, अग्रभाग; (जंजू० ६, ७, ४) । २. पुं० दे० कुक्कुट, (जस० २, १३, ६) । करोड़, कोटि (पाहू०) ४. कौतुक, (पाहू० १७७) । —य (दे०) दुर्जन, चुगलीखोर; (सुदं० ३, १, ७) ।

कोडियं—न० (दे०) छोटा मिट्टी का पात्र, लघु शराव, (द० ना० मा० २, ४७) ।

कोडिल्ल—पुं० (दे०) पिशुन, दुर्जन, चुगलीखोर; (दे० ना० मा० २, ४०) । कोडिसिला—स्त्री० लक्ष्मण द्वारा उठायी गई शिला; (प० च० ४८, ६६) ।

कोडु—न० (दे०, प्रा० कुड्ड) कौतुक, कुतूहल; (प० च० ३६, ११, ७) ।

कोड्ड—न० (दे०) कौतुक, कुतूहल, आश्चर्य; तुल० म० कोड; (व० ५, २१, १, जंजू० ३, ११, ८, दे० ना०-मा० २, १६) ।

कोड्डावणय—वि० कौतुकोत्पादक; (प० च० ३६, १) । कोड्डावणिय—वि० कौतुककारक (प० च० २६, ५, ६; जस० ३, २६, १४) ।

कोड—पुं० (सं० कुष्ठ > प्रा० कोड्ड, कोड) कुष्ठ-रोग; (सुदं० ८, ५, ८) ।

कोडिअ—वि० (सं० कुष्ठिन् > प्रा० कोडि) कुष्ठ रोग से ग्रस्त; (सुदं० ८, ५, ८) । कोडिय-कोड़ी; (सि० १, १४) ।

कोडिरि—स्त्री० (सं० कुष्ठिन्) कुष्ठ-वती, कुष्ठ-रोग से पीड़ित; (जस० ३, ११, ६) ।

कोडियण—पुं० (सं० कुष्ठिन् + जन) कोड़ी जन; (सि० १, १५) ।

कोणंत—पुं० (सं० कोण + अन्त) कोना, “संगामकालम्मि कोणंत दडिएहिं,” युद्ध के समय इसमें चढ़कर डर से कोने में जाने से क्या लाभ, (जंजू० ५, १५, १६) । —र पुं० (सं० कोण + अन्तर) एक कोना; (जंजू० २, १६, १३) ।

कोण—वि० (दे०) १. काला, श्याम वर्ण वाला; २. लकड़ी, यण्टि; “कोणो कृष्णवर्णः । लकुट इत्यन्ये,” (दे० ना० मा० २, ४५) । ३. दानरयोद्धा; (प० च० ५७, १३) ।

कोण—स्त्री० (दे०) रेखा, लेखा, लकीर; (दे० ना० मा० २, २६) ।

कोणी—पुं० (सं० कोण) गृह-कोण, घर का एक कोना; (दे० ना० मा० २, ४५) ।

कोतलंका—स्त्री० (दे०) मद्य परोसने का एक पात्र; (दे० ना० मा० २, १४) ।

कोत्यर—न० (दे०) विज्ञान; (दे० ना०-मा० २, १३) ।

कोत्यल—पुं० (दे०) १. कोष्ठ, कूभून, अन्न भरने का कोठार; (दे० ना० मा०-

२, ४८) । २. थैला; (की० ४, ८६) ।

कोत्थुह—पुं० (सं० कौस्तुभ > प्रा० कोत्थुह) वांसुदेव के वक्षस्थल का मणि; (रि० ८, १) ।

कोत्थुहमणि—स्त्री० (सं० कौस्तुभमणि > प्रा० कोत्थुभ, कोत्थुह) पुराणानुसारं एक रत्न जो समुद्र मथने के समय निकला था और जिसे विष्णु अपने वक्षस्थल पर पहने रहते हैं; (व० ५, १०, १) ।

कोद्व—पुं० (सं० कोद्व > प्रा० कोद्व, कुद्व) धान्य-विशेष, कोदव, कोदों; (व० ८, ५, १०) ।

कोध—पुं० (सं० कोध) इस नाम का राजा; जिसने दशरथि भरत के साथ जैन दीक्षा ली थी, (प० च० ८५, ४) ।

कोप्प—पुं० (दे०) अपराध, गुनाह; (दे० ना० मा० २, ४५) ।

कोपिअ—वि० (सं० कुपित) क्रोधित; (की० ३, ३२) ।

कोबेरी—स्त्री० (सं० कोबेरी) विद्या-विशेष; (प० च० ७, १४२) ।

कोमल—वि० (सं० प्रा० कोमल) मृदु, सुकुमार; (भ०) ।

कोमालय—वि० (सं० प्रा० कोमल) कोमल; (क० ८, १६, ६) ।

कोमाणय—वि० (दे०) म्लान, शुष्क; (प० च० २५, १६, ६) । कुम्मण; (दे० ना० मा० २, ४०) ।

कोमार—वि० (सं० कौमारः) कुमारी से उत्पन्न; (दे० ना० मा० १, ८१) ।

कोमारी—स्त्री० (सं० कौमारी) विद्या-विशेष. (प० च० ७, १३७) ।

कोमुई—स्त्री० (सं० कौमुदी) १. शंरद ऋतु कौ पूर्णिमा; (दे० ना० मा० २, ४८) । २. नगरी-विशेष; (प० च० ३६, १००) । —नंदण पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५७, १८) ।

कोयंड—पुं० (सं० कोदण्ड > प्रा० कोदंड) घनुप; (सं० रा०) । कोर—वि० (सं० केवल) कोरा, जो वरता न गया हो, अनुपभुवत (वस्त्र); (क० १०, १७, ४) ।

कोरयंकुर—पुं० अंकुरित कोरकवृक्ष; (व० २, ३, ११) ।

कोरिंटय—पुं० (सं० कोरण्ट + क > प्रा० कोरंटग कोरंट, कोरिट, कोरिंटय, कोरेंट) वृक्ष-विशेष; (प० च० ५३, ७६) ।

कोल—पुं० १. (सं० प्रा० कोल) शूकर, वराह, सूअर; (प्रा० पं० २, १०७, ए० १, ६, २, की० ४, ६७) । २. (सं० क्रोड > प्रा० कोल) गोद; क्रि० वि० भीतर, अभ्यंतर, (की० २, १२६) । कोलं (क्रोड); (उ० व्य० प्र० ६-२०) । ३. पुं० (सं० कोल) देश-विशेष; (प० च० ६८, ६६) ।

कोलंब—पुं० (दे०) १. स्थाली, मिट्टी की रिकावी, हॉडिया; २. गृह, (दे० ना० मा० २, ४७) ।

कोलावसुंदर—पुं० विद्याधर राजा, (प० च० १०, २१) ।

कोलाहल—पुं० (सं० प्रा० कोलाहल) शोरगुल; (जस० ३, ३, १४) ।

२. पक्षी की आवाज; (दे० ना० मा०-
२, ५०) ।

कोलिअ—पु० (दे०) जाल का कीड़ा,
मकड़ा; (दे० ना० मा० २, २५) ।

कोलिय—पु० (सं० कौलिक > प्रा०
कोलिअ) जुलाहा, तंतुवाय, कोरी; (सं०-
रा०) ।

कोलीर—न० (दे०) लाल रंग का एक
पदार्थ, कुखिंद; (दे० ना० मा० २,
४६) ।

कोल्लर—पु० (दे०) स्थाली, पिठर
(वटलोई, देगची); (दे० ना० मा० २,
४७) ।

कोल्हुअ—पु० (दे०) कोल्हू, चरखी,
ऊख से रस निकालने की कल; तुल० पं०
कोल्हू, (दे० ना० मा० २, ६५) ।

कोल्हुय—पु० (दे०) शृगाल, सियार;
(प० च० २, ६५; दे० ना० मा० २,
६५) ।

कोदंड—पु० (सं० कोदण्ड > प्रा०
कोदंड) कमान, धनुष; (ग० ८, ६, १;
म० १, ५, २) ।

कोध—पु० १. (सं० कोपम् > प्रा०
कोध) क्रोध; (ग० ८, १५, १३; उ०
व्य० प्र० ६-३१) । २. राक्षसयोद्धा;
(प० च० ५६, १४) ।

कोधग्नि—स्त्री० (सं० कोपाग्नि > प्रा०
कोधग्नि) क्रोधाग्नि; (जस० १, ४, १४;
व० ३, २६, २) ।

कोदण्ड—पु० (सं० कोदण्ड > प्रा०
कोदंड) कोदण्ड, धनुष, धनु; (प० च०
३२, २, ११) ।

कोवाहणु—वि० (सं० कोपाहणु) क्रोध

से लाल होकर; (जस० ३, ३६, २) ।

कोवि—सर्व० (सं० कोऽपि) कोई; तुल०
मगही कोई; (सरहपा, दोहाकोश) ।
को वि (कोऽपि); (प० च० २५, १५,
७) ।

कोविआ—स्त्री० (दे०) शृगाली; (दे०-
ना० मा० २, ४६) ।

कोविय—वि० (सं० कुपित > प्रा०
कोविय) क्रुध; (जंजू० ६, ४, ६) ।

कोविलडी—स्त्री० (सं० कोकिल > प्रा०
कोइल) कोकिला; तुल० गु० कुवेलडी;
(प्रा० गु० ३८, १) ।

कोविला—स्त्री० (सं० कोकिला > प्रा०
कोइला) स्त्री-कोयल; (व० २, ३,
१०) ।

कोवीणु—न० (सं० कौपीन) लंगोटी;
“कोवीणु कर्मडलु भिक्खपत्तु,” (जस०
४, १५, १४) ।

कोसंब—पु० (सं० कोशाम् > प्रा०
कोसंब) फल वृक्ष-विशेष; (जंजू० ५, ८,
१३) ।

कोस—पु० (सं० क्रोश > प्रा० कोस)
कोस, २ मील, मार्ग की लम्बाई का
परिमाण; तुल० पं० कोह (a distance
of two miles); (ग० ६, ६, ६) ।

कोसु; (सुअंध १, ८, १) । २. (दे०)
कुसुम्भ रंग से रंगे वस्त्र; ३. समुद्र; (दे०
ना० मा० २, ६५) । ४. (सं० कोश, प
> प्रा० कोस) लजाना, भण्डार; (जंजू०
८, १४, ५) ।

कोसट्टइरिआ—स्त्री० (दे०) पार्वती,
गौरी; शिव-पत्नी; (दे० ना० मा० २,
३५) ।

कोसयं—न० (सं० कोशक=drinking vessel) कोसा, लघु शराव (सं० शराव > हि सराव), कसोरा, कटोरा, मद्य पीने का प्याला (दे० ना० मा० २, ४७) ।

कोसल—न० (दे०) नीची, नारा, इजार-वन्द; (दे० ना० मा० २, ३८) । पुं० इक्ष्वाकुवंशीय राजा; (प० च० २२, ५) ।

कोसलणन्दन—पुं० (सं० कोसलन्दन) राम; (प० च० २२, १) ।

कोसलपुरि—स्त्री० (सं० कौशलपुर) नगर-विशेष; (व० २, १६, ६) ।

कोसलि—स्त्री० (सं० कोसल पुं०) कौशल देशवासिनी स्त्री; (सुदं० ४, ६, ३) ।

कोसलिअ—न० (सं० कौशलिक) उपहार; (दे० ना० मा० २, १२) ।

कोसल्लिअ—न० (सं० कौशलिक) भेंट, उपहार; (दे० ना० मा० २, १२) ।

कोसिय—न० (सं० कौशिक > प्रा० कोसिय) मनुष्य का गोत्र-विशेष; (भ०) । स्त्री० (सं० कौशिकी) कौशिकी नाम की कामिनी या पत्नी; "तहो कोसिय कामिणि जण-मोहण;" (व० २, १८, ११) । स्त्री० केकसी की भगिनी; (प० च० ७, ५४) ।

कोसिया—स्त्री० (सं० कोशिका) इस नाम की एक विद्याधर-राज-कन्या; (प० च० ७, ५४) ।

कोसिल्ल—पुं० [सं० कौशली (=उपहार, चढावा > प्रा० कोसल्लिअ) उपहार, भेंट; (सं० रा०, दे० ना० मा० २,

१२) ।

कोसेय—न० (सं० कौशेय > प्रा० कोसेअ) रेशमी वस्त्र, रेशमी कपड़ा; (क० १, ४, ४) ।

कोहंडी—स्त्री० (सं० कूष्माण्डी) कुम्हड़ा नामक वृक्ष; (दे० ना० मा० २, ५०) ।

√कोह—(सं० कुप् > प्रा० कुप्प; सं० कुप्यति) कोप करना, क्रोध करना; (उ० व्य० प्र० ८-४) ।

कोह—पुं० (सं० क्रोध > प्रा० कोह) कोप, गुस्सा (की० २, २४; ण० ३, ३, १४; रा०) । कोहाइ—क्रोधादि (क० ६, १०, ८) कोहाणल—पुं० (सं० क्रोधानल) क्रोध रूपी अग्नि; (क० २, ४, ७) । कोहे; (की० २, २५) ।

कोहण—वि० (सं० क्रोधन) क्रोधी; (प० च० ३५, ७) । २. पुं० इस नाम का रावण का एक योद्धा; (प० च० ५६, ३२) ।

कोहली—स्त्री० (सं० कूष्माण्डी) कोहले का वृक्ष; (दे० ना० मा० २, ५०) ।

कोहल्ल—न० (सं० कुतुहल > प्रा० कुऊहल, कोहल) कौतुक, उत्सुकता; (पङ्) ।

कोहल्ली—स्त्री० (सं० कूष्माण्डी > प्रा० कोहंडी) कोहले का गाढ़; (पङ्) ।

कोहाए—क्रि० (सं० क्रोध > प्रा० कोह > नाम घातु कोहाए । सं० क्रुद्ध > प्रा० कुऊभ से 'कोहाना' नहीं बन सकता) क्रोध करना, (की० २, १७५) ।

कोहाणा—वि० (सं० क्रोधन > प्रा० कोहण) क्रोधित; (की० ४, १८०) ।

कौडि—स्त्री० (सं० कर्पदिका > प्रा० कर्पदिका) कौडी, वन, द्रव्य; 'बहुल कौडि कनिक थोड'—कौडिया अत्रिक और गेहूँ के दान थोड़े थे; तुल० पं० कौडी; (की० ३, ६६) । टि.—हिन्दू युग और मुसलमानों काय में मंडी में फुटकर क्रय-विक्रय के लिए कौडियों का प्रचलन था ।

कौतुक—पुं० (सं० कौतुक) दिनोद वेन-तमाशा; (की० २, ६२) ।

कौसील—पुं० (सं० कपिनीर्व > प्रा० कविनील) कंगुरे; (की० २, ६=) ।

किय—वि० (सं० कृत > प्रा० कड, कय) किया हुआ, बनाया हुआ, रचित; (पं० च० ४६, ६, ०) ।

क्यालिय—वि० (सं० कालित) बया हुआ, नाक किया हुआ; (जं० १, १३, ५) ।

क्रीडाजल—पुं० न० (सं० क्रीडा + जल) क्रीडा-मन्त्र; (की० २, २४४) ।

क्रेङ्गार—पुं० क्रेङ्कार ध्वनि, "अष्टधातु घटना टाङ्गारे कसेरी पनरां कांस्य क्रेङ्गार," अष्टधातु के घड़ने की टंकार और कसेरों के स्थान में फँसे हुए कसि के वत्तनों की क्रेङ्कार ध्वनि हो रही थी, (की० २, १०१) ।

कसा—स्त्री० (सं० कसा > प्रा० कसा) चित्त की एक प्रकार की वृत्ति जिससे व्यक्ति हमारे के द्वारा दिए गए कष्ट को सहन कर लेता है और बदला लेने की इच्छा नहीं करता है; (उ० व्य० प्र० ६-३६) ।

कुण्ण—वि० (सं० कुण्ण > प्रा० कुण्ण) दलित; (की० १, ६६) ।

केम—न० (सं० केम > प्रा० केम) कुंयाय, कल्याण, नंगल, हिन; (उ० व्य० प्र० २१-१२) ।

ख

ख—पुं० (सं० प्रा० ख) व्यञ्जन-वर्ण-विशेष, इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ है । २. न० आकाश, गगन; (जं० २, ३, ७) ।

खं—न० (सं० ख) आकाश; (जं० ५, ७, ४) ।

खंख—क० (सं० कृष्) १. खीचना, २. वषा में करना । —इ क्रि० (सं० कर्पति) (म०) । —हिं० द्विवि० (जं० ५, ११, २६) । खंखवि—पू० का० क्रि० (मुदं० २, १५, ६) । तुल० म० खंखणे । खंख—खीचना, तुल० पु० खंखवुं; (प्रा० पु० १२, ३०) । खंख करि—पू० का० क्रि०— खिच कर; (प्रा० पु० ३७, ४) ।

खंखण—पुं० (सं० कर्पण √ कृष्) खीचना । खंखणु < खिचने लगे, "रहवर खंखणु", बड़े-बड़े रथ खिचने लगे, (पं० ५, ४, १२) ।

खंखिय—वि० कृष्ट, खींचा हुआ; (क० ३, ८, ६) ।

खंज—वि० (सं० खञ्ज > प्रा० खंज) लंगड़ा, लूना । खंजयाई—न० लंगड़ा; (क० १, ५, ६) ।

खंखण—पुं० (सं० खञ्जन > प्रा० खंखण) १. खंखन, पक्षी-विशेष; (प्रा० पं० १, १३२; दे० ना० मा० २७०) । २. पुं० (दे०) कदम, क्रीच; (दे० ना० मा० २, ६६) ।

खंजर— पु० (दि०) सूखा हुआ पेड़;
(दि० ना० मा० २, ६८) ।

खंजा—स्त्री० छंद का नाम; (प्रा० पं०
१, १५८) ।

खंड— पु० (सं० खण्ड > प्रा० खंड)
१. खांड; तुल० पं० खंड (sugar);
(पं०सि० च० ४, ७, ८६) । २. टुकड़ा,
अंश; खण्ड, भाग; (जस० १, १२, ७;
भ० १, ५; प्रा० पं० १, १०८) ।

√खंड— (सं० खण्डय > प्रा० खंड)
तोड़ना, टुकड़े करना, विच्छेदः करना ।
खंडिआ; (प्रा० पं० २, ७०) । —इ
(सं० खण्डयति > प्रा० खंडइ) तोड़ना,
खण्डित करना; (भ०) । खण्डइ; (हे०
३६७) । —मि० (जंबू० २, १५, १५) ।

खंडिअ— क्रि० भू० का०, नष्ट कर
दिया; (की० १, ६५) । खंडिउ—
भू० का० १. उखाड़ डाला, (सा०
२१६) । २. काट लिया, “खंडिउ विवा-

हव; अर्थात् उसके विवाधर को काट
लिया; (जस० २, ६, १२) । खंडी—
भू०का० खण्डित किया; (सि० १, ३१) ।
खण्डंते—क्रि०, भू० का०, काटती थीं;
(की० २, १३६) ।

खंडई—स्त्री० (दि०) असती, कुलटा;
(दि० ना० मा० २, ६७) ।

खंडणु—न० (सं० खण्डन > प्रा० खंडण)
विच्छेद, भञ्जन; (पाहु० १३५) ।

खंदयंद—पु० (सं० खण्ड + चंद्र) चंद्र-
कला; “गिरिसुय-जड-कंदल-खंदयंद”,
अर्थात् वे (महादेव) पार्वती, जटाओं एवं
कपाल पर खंडचंद्र (चंद्रकला) से युक्त
हैं, (जंबू० ५, ८, ३६) ।

खंडा— पु० (सं० खड्ग) खड्ग;
(परम० १, १२१) ।

खंडाविय—क्रि० भू० का० (सं० खण्डा-
पित) कटवा लिया, “ता एककहि दिणि
ते वंस तेण, खंडाविय तिणिण वि तुरिय-
एण”, अर्थात् तब किसी एक दिन उसने
शीघ्रता से उन तीनों बाँसों को कटवा
लिया; (क० २, ८, ६) ।

खंडिनी— वि० खंडिनी, खंडन करने
वाली; (प्रा० पं० २, ३४) ।

खंडिय—वि० (वि० (सं० खण्डित >
प्रा० खंडिअ) छिन्न, विच्छिन्न; (ण०
१, ६, २) ।—उं.वि०खंडित “महु एवकु
तं पि मुहुं खंडियउं”—“भेरा एक ही मुख
है और वह भी खंडित”, (महा० ६६,
१) ।

खंडिर— वि० (सं० खण्डित > प्रा०
खंडिअ) खण्डनशील; (जस० ३, १५,
४) ।

खंडी— वि० (सं० खण्डिन्) खंडिनी,
खंडन करने वाली; (प्रा० पं० २,
३४) ।

खंत—वि० (सं० क्षान्त > प्रा० खंत)
क्षमा-शील; (जस० १, १५, १५) ।

खंतव्य— वि० (सं० क्षन्तव्य) क्षमा
करने योग्य; (भ०) ।

खंतव्व— वि० (सं० क्षन्तव्य > प्रा०
खंतव्य) क्षमा-योग्य; (जंबू० ७, १२,
१२) ।

खंति— स्त्री० (सं० क्षान्ति > प्रा०
खंति) क्षमा; (भ०; ण० २, ८, १४) ।

खंदग— पु० (सं० स्कन्दक) मुनि-
विशेष; (संधि० ३, ११, ५) ।

खंधंत—पु० (सं० स्कन्ध + अन्त) कंधे

का सिरा; (जंबू० १०; १६, ५) ।

खंघ— पुं० १. (सं० स्कन्ध > प्रा० कंघ) कंघा; तुल० म० खान्दा; (ण० ८, ७, १, म० २, ५२, १३) । २.

समूह; (जंबू० ७, ४, ७) । खंघा— स्त्री० (प्रा० पै० १, ७३) ।

खंघमस— पुं० (दे०) भुजा, हाथ; (दे० ना० मा० २, ७१) ।

खंघमसी— स्त्री० (दे०) हाथ, स्कंध-यष्टि; (पठ) ।

खंघयट्टि— स्त्री० (दे०) भुजा, हाथ; (दे० ना० मा० २, ७१) ।

खंघाण— पुं० छंद का नाम; (प्रा०-पै० १, ७५) ।

खंघार— पुं० (सं० स्कन्धावार) देश-विशेष; (जस० ४, २४, २६) ।— पुं० देश-विशेष; (प० च० ६८, ६६) ।

खंघावार— पुं० (सं० स्कन्धावार > प्रा० खंघावार) छावनी, सेना का पड़ाव; (सि० २, १८) ।

खंघीधारो— पुं० (दे०) बहुत गरम जल की धारा; (दे० ना० मा० २, १८) ।

खंघोह— पुं० (सं० स्कन्ध + ओघ) स्कंध-समूह, "पाणु वि खंघोहि गलियण", प्राण भी स्कंध-समूह में गलित हो जाता है; (जस० ४, १०, ४) ।

✓ खंप— सं० सिच्, सींचना, छिटकना, आर्द्र करना ।— (भ०) ।

खंपण— न० (सं०) क्षति, लाञ्छन; तुल० तुल० गु० खांपण, खोड; (प्रा० गु० ५, ५०) ।

खंभ— पुं० (सं० स्तम्भ > प्रा० खंभ)

खंभा, थंभा; तुल० म० खांभ; (सुद० ७, ३, २; ण० ६, ५, ५; जंबू० १, १०, १२) ।

खंभाइत्त— पुं० (सं० स्कम्भावती > खंभाइत्त) १. खंभात, स्तम्भतीर्थ, (गुजरात के पश्चिम प्रांत का एक राज्य जो इसी नाम के एक उपसागर के किनारे है) २. इस राज्य की राजधानी, ३. अरवसागर की एक खाड़ी; (सं० रा०) ।

खंभायच्च— पुं० खम्भायत नामक नगर, "तहो धारिणि मणोहर बिहिवसइ णिय खंभायच्चहो पट्टणहो", (क० ८, १२, १०) ।

खंभायति— स्त्री० (सं० स्कम्भावती) खंभात, गुजरात के पश्चिमी प्रांत का एक राज्य जो इसी नाम के उपसागर के किनारे पर है, "खंभायति वर-नयरिर्विवु निप्पज्जए"; तुल० गु० खंभात; (प्रा०-गु० ७, ३७) ।

खअ— पुं० (सं० क्षय) नाश; (जस० १, १, ८; जंबू० ६, ७, १५; कौ० १, ५५) ।

खइअ— वि० १. (सं० खादित > प्रा० खइअ) खाया हुआ; (भ०) । २. (सं० क्षयित) क्षय-प्राप्त (भ०; जंबू० ३, ५, ८) । ३. (सं० खचित) १. जटित, २. मण्डित; (जंबू० ७, १०, २३) ।

खइर— पुं० (सं० खदिर) खैर का वृक्ष, वृक्ष-विशेष; (जंबू० ५, ८, ६) ।

खए— पुं० (सं० क्षय > प्रा० अय० खय) विनाश (कौ० ४, ६३) ।

खगणाहु— पुं० (सं० खगनाथ) गरुड,

“खगणाहु परिसरिउ सुरराउ धरहरिउ”,
अर्थात् ‘खगनाथ खिसक गया और सुर-
राज धरर् उठा; (क० ३, १८, ६) ।

खगविज्जा— स्त्री० (सं० खगविद्या)
(आकाशसंचारसामर्थ्यमित्यर्थः) आकाश
में चलने की सामर्थ्य (जस० १, ७,
१५) ।

खगामिणी— स्त्री० (सं० खगामिनी)
विद्या-विशेष; (प० च०) ।

खगिद—पुं०(सं० खगेन्द्र) गरुड़; (जस०
१, १८, १) ।

खगंक— पुं० (सं० खङ्ग+अङ्क)
खङ्ग की गोद, “घाराखंडणभीयव्व जय-
सिरि वसइ जस खगंके”, (जंबू० १,
११, १०) ।

खग— पुं० (सं० खङ्ग) तलवार,
खांडा, खङ्ग; (प्रा० पं० १, ११; सि०
२, १८; हे० ३३०, ४; जंबू० ६, ३,
४) ।—ग पुं० खङ्ग का अग्र भाग
(की० ४, ७१) ।—फरु पुं० (खङ्ग-
फलक) जंबू० ६, १४, ६) । खगो—
पुं० (सं० खङ्ग) तलवार; (की० ३,
२८) ।

खगिअ—पुं० (दे०) गांव का मुखिया;
(दे० ना० मा० २, ६६) ।

खच्चल्ल— पुं० (दे०) भाऊ; (दे०-
ना० मा० २, ६६) ।

खच्चोल— पुं० (दे०) व्याघ्र, शेर;
(दे० ना० मा० २, ६६) ।

खजुहाव—क्रि० (सं० खज्जंति) मांजना,
सफा करना, शाड़ना-पोछना, पवित्र
करना, “दुं हाथे खजुहाव’—द्वाम्यां हस्ता-
भ्यां खज्जंति । खज्जे माज्जेने”; (उ०

व्य० प्र० ७-१३) ।

√खज्ज— (सं० खिद; खिद्यते)
खीझना; (व० २, १, २) ।

खज्ज—न० (सं० खाद्य) खाद्य-विशेष;
(भ०) ।

√खज्ज—सं० खाद् > √खा का कर्म-
वाच्य passive be eaten । खज्जेसहे;
(प० च० ३२, ६, ६) । —इ (सं०
खाद्यते) खाना; (हे० ४२३; जंबू० २,
२, २) । खज्जंत— कृ०(सं०√खा+
शतृ) (जंबू० ६, १, १०) ।

खज्जय—देखो खज्ज=खाद्य; (प० च०
६६, १६) ।

खज्जा—न० (सं० खाद्य > प्रा० खज्ज)
खाद्य-विशेष; खाजा; (सुदं० ५, ६, ६) ।
तुल० म० खाजा ।

खज्जिअ—वि० (दे०) १. जीर्ण; सड़ा
हुआ; २. जिसको उलाहना दिया गया
हो वह; (दे० ना० मा० २, ७८)]

खज्जिर— वि० (सं० खाद्यमान) जो
खाया गया हो वह; (सण०) ।

खुज्जुल्लिय—वि० (सं० कुज्ज+उल्ल
+क (स्वार्थे) कुवड़ी; “खुज्जुल्लिय अम्ह
उवरि पडिय”, (तभी) एक कुवड़ी मेरे
ऊपर आ पड़ी; (जस० ३, २, २०) ।

खज्जूर—न० (सं० खजूँर) खजूँर-फल;
तुल० पं० खजूँर, (प० च० ४, १, ६) ।

खज्जुरी—स्त्री० (सं० खजूँरी > प्रा०
खज्जुरी) खजूँर का वृक्ष; (प० च० ५३,
७६) ।

खज्जूरय—पुं० (सं० कर्ण+खजूँरक)
लगभग एक बलिष्ठ का एक विषैला

कीट; तुल० गु० कानखजूरो; (सिध० ११, ५, ५) ।

खज्जोअ— पु० (दे०) नक्षत्र; (दे० ना० मा० २, ६६) ।

खज्जोय— पु० (सं० खद्योत > प्रा० खज्जोअ) जुगमू; (सं० रा०) ।—य पु० (सं० खद्योतक > प्रा० खज्जोयय) कीट-विशेष, जुगनू; (जंजू० ७, २, १३) ।

खट्टंग— १. (सं० खट्टांग > प्रा० खट्टंग) चारपाई का पैर, कापालिक की एक धारणीय वस्तु (सं० रा०) । २. न० (दे०) छाया (दे० ना० मा० २, ६८) ।

खट्ट—न० (दे०) तीमन, कढ़ी; (दे० ना० मा० ३, ६७) ।

खट्टा— स्त्री० (सं० खट्टा खट्टा, खाट, चारपाई; (ण० ७, ६, ११; प० च० ३६, ६, ६; म० २, ५५, ७) ।

खट्टाहिडोल—पु० झूलती हुई शय्या; (की० २, २४५) ।

खट्टावण— पु० खट्टे स्वाद वाली कढ़ी (curry) का प्रकार; (प० च० ५०, ११, ११) ।

खट्टिअ— पु० (सं० खट्टिक > प्रा० खट्टिअ) खटीक, कसाई; (दे० ना० मा० २, ७०) ।

खड—न० (दे०) १. तृण, घास; (जस० ३, १४, ४; दे० ना० मा० २, ६७) ।

यासी वि० (सं० तृण + आशिन) घास-फूस खाने वाले पशु “खडयासीखेडय उछालडू”—अर्थात् घासफूस खाने वाले पशुओं के खेतकों को (वह हाथी) नष्ट कर डालता था; (ण० ३, १५; ११) । २.

खली; “गाइ पइण्णइ खडमुसइ”; गाय को खली-भूसा खिलाया जाता है, (दे० सा० दो०) ।

खडइअ—वि० (दे०) संकुचित; (दे० ना० मा० २, ७२) ।

खडक्क—पु० पर्वत; तुल० गु० खडक; (प० च० ३१, ३, ६) ।

खडक्कउ—पु० (सं० खट्टकृत) खड-खड आवाज; “णिसुणेवि खडक्कउ णिरु डरंति” (सुदं० २, १० १०) ।

खडक्किया, खडक्की— स्त्री० (दे०) खिड़की; (दे० ना० मा० २, ७१) ।

खडक्किय—क्रि० भू० का० (सं० खट्टकृत) ध्व०, खड़खड़ा उठे, “खडक्किय-वीरकरवाल”, वीरों के करवाल खड़खड़ा उठे; (जंजू० ७, ६, ५) ।

खडक्की— स्त्री० (सं० खट्टिकका) खिड़की, दरीचा, झरोखा (दे० ना० मा० २, ७१) ।

खडखडिय—वि० (सं० खट्टकृत, ध्व०) खड़खड़ाती हुई, “रणं घडिय-खडखडिय-तिक्खासिधार”, वह आपस में मिलकर खड़खड़ाती हुई तीक्ष्ण असिधारा से युक्त था; (जंजू० ६, ७, ३) ।

खडफड—क्रि० (दे०) छटपटाना; (म० २, ५५, १३) ।

खडयासी—वि० (सं० तृण + आशिन) घास खाने वाले; (ण० ३, १५, ११, दे० ना० मा० २, ६७) ।

खडहड— पु० छंद-विशेष; (प० त्र० २३, १, ७) ।

खडहडी—स्त्री० (दे०) गिलहरी, गिल्ली, जंतु-विशेष; (दे० ना० मा० २, ७२) ।

खडा—वि० (सं० पट्) छड़; (प्रा० पै० २, ५१) ।

खडिया—स्त्री० (सं० खटिका > प्रा० खडिआ) खड़िया; (जंबू० ६, १४, १५) ।

खडुआ—स्त्री० (दे०) मोती; (दे० ना० मा० २, ६८) ।

खड्ड, खड्डग— न० (दे०) श्मश्रु, दाढी-मूँछ; (दे० ना० मा० २, ६६) ।

खड्डा—पुं० १. (सं० खात) पर्वत का खड्ड, गड्डा; (दे० ना० मा० २, ६६) ।
२. स्त्री० (दे०) खानि आकर; (दे० ना० मा० २, ६६) ।

खड्डाग—वि० (सं० क्षुल्लक) थोड़ा, हलका; तुल० गु० हलकुं; (संधि० ८, १, ६) ।

खणंतर—पुं० (सं० क्षणान्तर) क्षणमात्र; “विस्फुरइ खणंतरि विज्जसिद्धि”, मेरी विद्यासिद्धि क्षणमात्र में स्फुरायमान हो जाती है, (जस० १, ७, १) ।

खण— पुं० (सं० क्षण > प्रा० खण) लमहा, निमेष, एक सैकंड से ४/५ भाग के बराबर समय की माप, काल-विशेष, बहुत थोड़ा समय; तुल० म० खिण, मगही छन, खन; (तिलोपा, दोहाकोश; सि० १, ४१) । खणंतर—पुं० क्षणान्तर; (जंबू० २, १६, १३) । —दिट्ठ वि० (सं० क्षण + षट्) (जंबू० ६, १२, ६) ।

—द्व पुं० (सं० क्षण + अट्) क्षणार्ध (जंबू० ५, ५, १५) । खणा-क्षण; (प्रा० पै० १, २०४) । खणु—पुं० क्षण; (महा०) ।

√खण—(सं० खन > प्रा० खण)

खोदना । —इ, क्रि० (सं० खनति); तुल० म० खणणै; (म०) । खणखणंत— व० कृ० (सं० खनखनाय् + शतृ) (जंबू० ५, १०, ७) । खणन्त—व० कृ० खोदते हुए; (प० च० १२, ८, ५) ।

खणवखण, खणखणखण—अक० (सं० खणखणाय्) ‘खण-खण’ आवाज करना; (प० च० ३६, ५३) ।

खणवखेव—पुं० वानरयोषा; (प० च० ५७, १४) ।

खणखण—पुं० (सं० खणखणाय् > प्रा० खणवखण) खन-खन की ध्वनि; “खेल्लिवि खणखणसँदै वलियहँ जित्तँ आहरणइ मंडलियहँ,” खन-खन ध्वनि के साथ पासा खेल कर बलवान माण्डलिकों के आभरण जीत लिये; (ण० ३, १२, १०) ।

खणखणाकार—पुं० (ध्वन्यात्मक) तल-वारों के टकराने से होने वाली खन-खन की ध्वनि; (प० च० ४६, ४, ३) ।

खणण—न० (सं० खननः) खोदना; (जंबू० ६, ७, ६) ।

खणाव—वि० (सं० खानयति) खोद-वाना, खुदवाना; “खणाव-खानयति खन अवदारणे,” (उ० व्य० प्र० ४६-२२) ।

खणि—स्त्री० (सं० खनि) खान; (जस० ३, १, १७) ।

खणित्त—न० (सं० खनित्त) खोदने का यंत्र; (दे० ना० मा० ४, ४) ।

खणिय—वि० (सं० खणित्त) खुदा हुआ; (क० ४, ८, ७) ।

खयुस—स्त्री० (दे०) मन का दुःख या पीड़ा । —इं; (रा० ३४) ।

खयुसा—स्त्री० (सं० खिन्न-मनस्) मन का दुःख, मानसिक पीड़ा, (दे० ना०-मा० २, ६८) ।

खण्ड-पयार—पुं० (सं० खण्ड-प्रकार) मिष्टान्त-भेद; (प० च० २५, ११, ३) ।

खण्डय—पुं० (सं० खण्ड) तलवार; तुल० गु० खांडुं; (प० च० ५२, १, ६) ।

खण्डसोल्ल—पुं० शककर से तैयार की गई मिठाई का एक प्रकार, गुडसोल्ल (सोल=पक्व); (प० च० ५०, ११, २) ।

खण्डिया—स्त्री० छोटा गुप्त द्वार; "सोपान तोरण यन्त जोवण जाल जाल-ओष खण्डिया," अर्थात् नगर के विभिन्न भागों में सीढियाँ बड़े द्वार, यंत्रवारागृह और गुप्तद्वार थे; (की० २, ८५) ।

खण्ण—वि० (दे०) छोटा हुआ; (जस० १, ५, १२; दे० ना० मा० २, ६६) ।

खण्णु—पुं० (सं० स्याणु > प्रा० स्याणु) कूठा वृक्ष; (दे० ना० मा० २, ६६) ।

खण्णुप्र—पुं० (सं० स्याणुक) कौलक, खोंटी; (दे० ना० मा० २, ६८) ।

खत—पुं० (अ० खत, त) फरमान, शाही हुकुम, परवाना; (की० ४, ८) ।

खत्त—वि० (सं० क्षात्र > प्रा० खत्त) क्षत्रिय-संबंधी, क्षत्रिय का; (प० १, १४, ६) । पुं० (सं० क्षत्र > प्रा० खत्त) क्षत्रिय, मनुष्य-जाति-विशेष; (म०) ।

न० (दे०) गड्ढा, गर्त; (दे० ना० मा० २, ६६) ।

खत्तवम्म—पुं० (सं० क्षत्रवर्म) क्षत्रिय धर्म; (जस० १, २३, २) ।

खत्ति—पुं० स्त्री (सं० क्षत्रिय > प्रा० खत्ति) क्षत्रिय नामक जाति; (प्रा० पं० १, ११७) ।

खत्तिअ—पुं० स्त्री० (सं० क्षत्रिय > प्रा० खत्तिअ) क्षत्रिय वर्ण, हिंदुओं के चार वर्णों में एक वर्ण; (की० १, ५५) ।

खत्तिणी—स्त्री० (सं० क्षत्रियाणी) क्षत्रिया, क्षत्रिय जाति की स्त्री; (प्रा० पं० १, ६४) ।

खत्तिय—पुं० (सं० क्षत्रिय > प्रा० खत्तिय) क्षत्री, मनुष्य की एक जाति; (म० २, ७, १०) ।

खत्तीअ—पुं० स्त्री० (सं० क्षत्रिय) क्षत्रिय नामक एक जाति; (प्रा० पं० २, २०७) ।

खट्ट—वि० (दे०) १. ख़ाया हुआ, भुक्त, भक्षित, २. हत, "लक्ष्मणक व खट्टलंकेसठ" - वह लक्ष्मण के हाथ के समान था जो लंकेय रावण को खा गया था, (प० ३, १४, ५, दे० ना० मा० २, ६७; जस० १, १२, २) ।

खन्धय—पुं० (सं० स्कन्धक) छंद-विशेष; (प० च० २३, १, ६) ।

√खप—(सं० क्षय्) नष्ट होना । खपिअट; (रा० ३४) । खप्पिअ—दि० (सं० क्षपित) "कौ कुमन्त पट्टु कखि हीन वयण का समअ खप्पिअ," विद्वाना चाहिए; (की० ४, १४४) ।

खप्पर—पुं० (सं० खपर > प्रा० खप्पर)
खोपड़ी; तुल० भ० खपर; (भ०) ।
२. घट आदि का टुकड़ा; (प० च० २०,
१६६) । वि० (दे०) निष्ठुर, ल्हा;
(दे० ना० मा० २, ६६) ।

खन्नालइ—क्रि० (सं० क्षोभ्य > प्रा०
खोभ) विचलित करना, क्षोभित करना;
(सुदं० ८, २७, १०) ।

खम—सक० (सं० क्षम् > प्रा० खम)
क्षमा करना; (जस०) । खमंतु (विधि०)
(जंबू० ८, १, २) । खमाविमड—क्रि०
भू० का० क्षमा मांगी; (प० च० १६,
१४, १) ।

खम—१. वि० (सं० क्षम) उचित, योग्य,
पर्याप्त सक्षम; (सि० २, ५) ।
२. स्त्री० (सं० क्षमा > प्रा० खमा) क्षमा,
“जय खमदमसमजमणिवहणिलय,” आप
क्षमा, दम, शम और यमादि गुणों के
समूहों के निधान हैं; (ण० १, ११, =) ।

—वह पुं० (सं० क्षमापथ) क्षमा का
मार्ग; (जस० ४, १५, ७) ।

खमा—स्त्री० (छंदशास्त्र में) गायका
भेद; (प्रा० पै० १, ६०) ।

खमिय—वि० (सं० क्षमित) क्षमा किया
हुआ; (जंबू० ८, ७, १०) ।

खम्भ—पुं० (वै० सं० स्कम्भ > प्रा०
खंभ) खंभा, यंभा, तुल० गु० खंभो;
(प० च० ७, ५, ४) ।

खम्मखम—पुं० (दे०) १. संग्राम,
लड़ाई; २. मन का दुःख; (दे० ना० मा०
२, ७६) ।

खयंकर—वि० (सं० क्षयकर) नाश-
कारक; (ण० ४, १४, २) ।

खय—अक० (सं० क्षि) क्षय पाना, नष्ट
होना । खड—क्रि० आ० नष्ट हो; (प०
च० १२, ६, ५) । टि०—हेमचंद्र ने ८,
४, ३८ में विध्यर्थक क्रिया में इ, उ, ए
का विधान किया है ।

खय—पुं० (सं० क्षय > प्रा० खय)
१. क्षय, विनाश; (सि० १, ४१; ण०
३, २, ६) । २. रोग-विशेष; (भ०) ।
३. खग; (जस०) ।

खयकरि—वि० (सं० क्षयकारी) नाश
या तवाही करने वाला; (जंबू० ८, ७,
१६) ।

खयकालु—पुं० (सं० क्षयकाल > प्रा०
खयकाल, गाल) प्रलयकाल, अवनति का
समय; (सि० २, १) ।

खयच्चियड—वि० (सं० क्षत + चित्)
क्षतयुक्त; “णं नहखयच्चियड निट्टुरहियड
कण्णाडविलासिणिजोव्वरुणु;” (जंबू० ६,
६, ११) ।

खयर—पुं० (सं० खचर > प्रा० खयर)
विद्याघर, विद्या बल से आकाश में चलने
वाला मनुष्य; “सुरणरविसहरवरखयरस-
रुणु, कुनुमसरपहरहरसमवसरुणु” —राजा
ने तीर्थंकर के उस समोसरण में प्रवेश
किया जहाँ देव, मनुष्य, नाग और विद्या-
घर विराजमान थे, (ण० १, ११, १) ।

—कुल; पुं० (सं० खचरकुल) विद्याघर-
कुल; (जस० ४, २६, १७) ।

खयरसंभ—वि० (सं० खेचर + भन्तक =
भारक) खेचरों के कालस्वरूप; (जंबू०
७, ११, १४) ।

खयरवइ—पुं० (सं० खेचरपति) विद्या-
घर (विद्या बल से आकाश में चलने

वाला मनुष्य, आकाशचारी) "बलिउ खयरवेइ तउ भिडिउ रणे मणिसहो,"
—वह खेचरपति रत्नसेन वापिस लौटा
और रण में भिड़ गया; (जंबू० ७, ५,
१०) ।

खयरवि—पुं० (सं० क्षय + रवि) प्रलय-
सूर्य; (जंबू० ५, १३, १४) ।

खयराउ—पुं० (सं० खगराज) गरुड़;
(वा० १, ६) ।

खयरामर—पुं० (सं० खचरामर) विद्या-
घर एवं देव; (व० १, १२, १०) ।

खयराहिव—पुं० (सं० खचराविप)
ज्वलनजटी नामक व्यक्ति; (व० ४, २,
३) ।

खयर—पुं० (सं० खेचर) खेचर-विद्याघर
(जाति) (जंबू० ५, ४, १२) । २. खेचर,
"इउ करिवि खयर विज्जात्रलेण णिय-
भवणु गयउ पुरणु णहयलेण", अर्थात् यह
सब करके, वह खेचर विद्या के बल से
नभस्तल द्वारा अपने भवन को गया;
(क० २, २१, ८) ।

खयरूव—पुं० (सं० क्षयरूप) विनाश का
रूप; (जस० ३, ४०, १४) ।

खयरेश—पुं० (सं० खचरेश) ज्वलजटी
नामक व्यक्ति; (व० ४, ४, ७) ।

खयरोअ—पुं० (सं० क्षयरोग) रोग-
विशेष; (जंबू० ३, ११, ३) ।

खयरोरय—पुं० (सं० खचरोरग) विद्या-
घर और नाग; (व० २, १४, ८) ।

खयसमए—पुं० (सं० क्षय-समय) प्रलय-
काल; (व० ४, २०, ८) ।

खयहि—अक० (सं० क्षयति, क्षि क्षये)
क्षीण होती है; (सं० रा०) ।

खयाण—पुं० खदान, खड्डा; (जंबू०
५, १०, ७) ।

खयाल—पुं० कंदरा "..... निवसइ
सिहरिखयालहि,"—जो सिंह गिरिकंदरा
में (जाकर) रहता है; (जंबू० ५, १३,
३२) ।

खर—पुं० १. खर पृथ्वी; "खर वानुआइ
भिज्जइ णमहिणिव्भर सलिल-पवाहहि
—खर, वानुका आदि (नरक—) पृथि-
वियाँ निरंतर जलप्रवाह से भेदी नहीं जा
सकतीं; (व० १०, ६, १३) । २. पुं०
(सं० प्रा० खर) गधा; (सि० १, १३) ।
३. छुप्य छंद का भेद; प्रा० पं० १,
१२२) । ४. तिनका, तृण; (की० ३,
६०) । ५. वि० (सं० प्रा० खर) कठोर,
तीक्ष्ण, प्रखर, (महा० ६८, ७; प्रा०
पं० १, ३६) । —किरण पुं० सूर्य;
(जस०) ।

खरडिअ—वि० (दे०) १. रुस्त; २. भग्न,
नष्ट; (दे० ना० मा० २, ७६) । खरदू-
सण—पुं० रावण का वहनोई; (प०
च० १, ७४) ।

खरमुही—स्त्री० (सं० खरमुखी) वाद्य-
विशेष, (प० च० ५७, २३) ।

खरदहुलु—पुं० खरवहुल, पृथ्वीखण्ड;
(व० १०, २२, ८) ।

खरसयण—पुं० (सं० खरशयन) कठोर
शयन; (व० १०, २५, १६) ।

खर-सिल—पुं० (सं० खरशिला)
आधारशिला; (प्रा० गु० ७, ३२) ।

खरहिअ—पुं० (दे०) पोता, पीत्र;
(दे० ना० मा० २, ७२) ।

खरिय—वि० (दि०, प्रा० खरिअ) ध्रुक्त, भक्षित; (भ०) ।

खरी—वि० (सं० खर=तीक्ष्ण) विल्कुल, पूरी; तुल० मगही खरी; (विन्दयचंद्रसूरि, नेमिनाथ, चतुष्पादिका) ।

खरल—वि० (दि०) १. कठिन, कठोर; २. विपम और ऊँचा; (दि० ना० मा०—२, ७=) ।

खल—वि० (सं० प्रा० खल) १. दुष्ट, दुर्जन; (प्रा० पै० १, १६६, जस० १, १७, २=) । २. खलिहान; (द० ६, १, ११) । ३. स्त्री० (सं० खलि, खली > प्रा० खली) तिल-पिण्डिका, तिल आदि का तेल रहित चूंगे, खल —भक्खरि तासु कि चित्तु जाइ; (संघि० २, १०, ४) ।

√खल—(सं० स्वल् > प्रा० खल) १. विसकना, स्वलित होना । —इ व० (सं० स्वलति > प्रा० खलइ) (प्रा० पै० १, १६०) । २. पड़ना, गिरना । —इ; व० (प० च० १४, ३, ४) । तुल० म० खळणें । खलंत—व० कृ० (सं० √स्वल् + शतृ) गिरते हुए, पड़ते हुए; (जंजू० ३, ८, ३) । खलंतु—व० कृ० मटकता हुआ; (क० २, ३, १) । खले—क्रि० स्वलित होना; (की० ४, १६२) । खीलित—क्रि० भू० का० स्वलित हो गया, गिर गया; (प० च० १३, १, ३) ।

खलइयं—वि० (अ० खाली) खाली, जो भरा न हो, रिक्त (दि० ना० मा० २, ७१) ।

खलखल—अक० (सं० खलखलाय्)

खल-खल की आवाज करना । खलखल-खलन्ति—खल-खल की आवाज करना (gurgling); तुल० गु० खळखळती; (प० च० ३१, ३, ६) । खलखलिय—क्रि० भू० का० (सं० खलखलित) खल-खला उठे, “खयखल खलखलिय”—खेचर समूह खलखला उठे, (मुद० ६, १२, ६) ।

खलखलिय—वि० (खलखलायित) खल-खल की ध्वनि करने वाले “कहिं मि पञ्जरियखलखलियजलवाहला,”—कहीं खल-खल करके भरते हुए जल के छोटे-छोटे प्रवाह थे; (जंजू० ५, ८, २१) ।

खलगंडिअ—वि० (दि०) मत्त, उन्मत्त; (दि० ना० मा० २, ६७) ।

खलण—न० (सं० स्वलन) निपतन, गिर जाना; (जंजू० ४, १५, १०) ।

खलणा—स्त्री० (सं० स्वलना) गिर जाना, निपतन; (दि० ना० मा० २, ६४) ।

खलनल—पुं० (दि०) क्षोभ, खलभलाहट (म० २, ५२, १५) ।

खलनलिय—वि० (दि०) क्षुब्ध, क्षोभ-प्राप्त; (भ०) ।

खलहल—१. वि० (प्रा० खलभलिय) क्षुब्ध, क्षोभ-प्राप्त; तुल० गु० खळभळवुं (प० च० १३, ५, २) । २. पुं० (सं० प्रा० खलखल, प्रा० खलहल) (ध्व०) जल-प्रवाह के कारण उत्पन्न खलखल का शब्द; (जस० ४, ७, ४) ।

खला—अक० (दि०) खराब करना, नुकसान करना; (भ०) ।

खलाइ—न० (सं० खलान्) खलों की, दुष्टों की; (हे० ३३४, १) ।

खलिअ—वि० (सं० स्वलित > प्रा० खलिअ) १. गिरा हुआ, पतित, २. रुका हुआ; (ण० ६, ४, ६; जस० २, २१, ५) । खलिय; (क० ३, १२, ४) ।

खलिअ—वि० (सं० खलिक) खल से व्याप्त; (दे० ना० मा० ४, १०) ।

खलिज्जइ—क्रि० (सं० स्वल् > प्रा० खल) स्वलित करना, "तुह पोरिसु किर केण खलिज्जइ," तुम्हारा पीरुष कौन स्वलित कर सकता है; (ण० ७, ६, ८) ।

खलिण—पुं० (दे०) लगाम; (व० ४, २४, ७) ।

खलियार—पुं० (सं० खलीकार = १. चोट पहुँचाना, २. दुर्व्यवहार, ३. अनिष्ट) तिरस्कार, निर्भत्सना; (प० च० ३६, ११६) । टि०—प्रा० में खलियार (सं० खली-कृ) घातु भी है, जिसका अर्थ तिरस्कार करना, घूत्कारना है ।

खलियारिअ—वि० (सं० खलीकृत) तिरस्कृत; (प० च० ६६, २) ।

खली—स्त्री० (सं० खली) तेल की तलछट, तिल-पिण्डिका; तुल० पं० खल्ल; (दे० ना० मा० २, ६६) ।

खलु—वि० (सं० प्रा० खल) दुर्जन (भ०; हे० ३३७, १, महा० ६६, ३, ४) ।

खल्ल—न० (दे०) १. उपानह, जूता; (संघि० १२, ४, ८) । २. बाइ का छिद्र, ३. विलास; (दे० ना० मा० २, ७७) ।

४. खाली, रिक्त; (दे० ना० मा० १,

३८) ।

खल्लइअ—वि० (दे०) १. संकुचित, २. हर्ष-युक्त, (दे० ना० मा० २, ७६) ।

खल्ला—स्त्री० (सं० खल्ल > पा० खल्ल > प्रा० खल्ला) शरीर का ऊपरी आवरण, चर्म, चमड़ा, त्वचा; तुल० पं० खल्ल; (दे० ना० मा० २, ६६) ।

खल्लिरा—स्त्री० (दे०) संकेत; (दे० ना० मा० २, ७०) ।

खल्लिहडउ—पुं० (सं० खल्वाट > प्रा० खल्लीड) जिसके सिर पर बाल न हों, गंजा; (हे० ३८६, १) ।

खव—पुं० (दे०) १. वायाँ हाथ, २. गर्दभ; (दे० ना० मा० २, ७७) ।

√खव—(सं० क्षपय्) १. नाश करना, २. डालना, प्रक्षेप करना, ३. उल्लंघन करना । —इ क्रि० (सं० क्षपयति > प्रा० खवेइ) (जंजू० २, १, १५) । —न्ति क्रि०, व०; (प० च० ३०, १०, ६) ।

खवओ—पुं० (सं० स्कन्ध > प्रा० खंव) खवा, कन्धा; (दे० ना० मा० २, ६७) ।

खवडिअ—वि० (दे०) स्वलित; (दे० ना० मा० २, ७१) ।

खवण—न० (सं० क्षपण > प्रा० खवण > खवणअ) क्षय, नाश; (जस० ३, १८, ५) ।

खवणय—पुं० (सं० क्षपणक > प्रा० खवणय) जैन भिक्षुक; (सि० १, ६) ।

खवय—पुं० (दे०) स्कन्ध, कंधा; (दे० ना० मा० २, ६७; भ०) ।

खबल—पुं० (दे०) क्षोभ, खलबलाना; (म० १, ३०, ४) ।

खबलिअ—वि० (दे०) कुपित, क्रुद्ध; (दे० ना० मा० २, ६७) ।

खवालिउ—क्रि० (सं० क्षोभय् > प्रा० खोभ) क्षोभित करना, क्षोभ उत्पन्न करना; “जइ वि खवालिउ, तइ वि ण चालिउ” —यद्यपि उसने क्षोभ उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, तो भी वह चला-यमान नहीं हुआ, (सुदं० ८, २८, १३) ।

खविअ—वि० (सं० क्षपित) १. विनाशित; (जस० २, ८, ५) । २. पीड़ित; (जस० १, १२, १३) ।

खविउ—क्रि० (सं० क्षपित > प्रा० खविअ) खपाया जाना, “भरणुं किं ण पाउ धम्मं खविउ” कहिए, ऐसा कौन सा पाप है, जो धर्म के द्वारा न खपाया जा सके; (ण० ६, ५, ६) ।

खवियारि—पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५६, १२-१४) ।

खव्व—पुं० (दे०) १. बाँया हाथ, २. गधा; (दे० ना० मा० २, ७७) ।

खबुल—न० (दे०) मुख, मुँह; (दे० ना० मा० २, ६८) ।

खस—पुं० (सं० प्रा० खस) १. खस देश में रहने वाला मनुष्य; (भ०) । २. वर्तमान गढ़वाल और उत्तरे उत्तर-वर्ती प्रांत का प्राचीन नाम; (प० च० ६८, ६६) । ३. खश; खुजली (व्याधि); (जंबू० ६, १६, ७) । — १. पुं० जन-पद-विशेष; (प० च० ६८, ६६) ।

खस—अक० (दे०) खिसकना, गिर

पड़ना । —हुं स्वलित हो; (वैराग्य-सार) ।

खांदि—वि० सुंदर; (हि० का०, च० ३८) ।

√खा—(सं० खादति, प्रा० खाअइ) भोजन करना, भक्षण करना; (उ० व्य० प्र० ११, १६) । —इ व० खाना; (प० च० १६, ३, २) । —उ, भू० का० (ण० ७, ६, ६) । —ए (प्रा० पै० २, १८३) । —हि (प्रा० पै० २, १२०) । खज्जंत, खज्जमाण—व० कृ०, (प० च० २२, ४३; १७, ८१; ८२, ४०) ।

खाउं—कृ० (सं० खादितुम्) भोक्तुम्, खाने के लिए; (जंबू० १०, २६, ५) ।

खाहु—क्रि० आ० खाओ; तुल० मगही खाहु; (सरह, दोहाकोश) ।

खाअ—वि० (सं० खादित) भुक्त, भक्षित; (भ०) ।

खाइआ—स्त्री० (सं० खातिका > पा० खाअ > प्रा० खाइआ) खाई, परिखा; (दे० ना० मा०, २, ७३) । तुल० गु० खाई । खाइय; (व० १, ४, ५; प० च० २३, ६, ६) । खातिका; (दे० ना० मा० २, ७३) ।

खाट—स्त्री० (सं० खट्वा > प्रा० खट्टा) खाट, चारपाई; (उ० व्य० प्र० ४६, २७; शबरपा, चर्या० २८) ।

खाइअ—वि० (दे०) प्रतिविम्बित, प्रतिफलित; (दे० ना० मा० २, ७३) ।

खाण—न० (सं० खादन > प्रा० खाण) भोजन, भक्षण; (प० च० २, ८, ४) । २. पुं०—(तुर्की-खाने) पठानों की उपाधि, खान, खान साहब; ३. पुं० (सं० स्थारु

> प्रा० खाणु) "तसु अछए मन्ति आनन्द खाणु," —अर्थात् उस माता के पास आनन्देश्वर नाम का मंत्री है; (की० ३, १२६) । टि०—नाम के अंत में 'खाण' शब्द का अर्थ शिववाची ईश्वर शब्द से है । —पाण पुं० खान-पान; (सि० १, ३७) ।

खाण—पुं० (सं० खानि > प्रा० खाणि) खान, खदान; (सि० १, ४४) । खाणि—स्त्री० (सं० खानि) खान; (दे० ना० मा० २, ६६) ।

खाणाविउ—क्रि० भू० का० खनायित खनवाया, "खाणाविउ करकंडे" खणेण," करकण्ड (राजा) ने क्षणमात्र में उस वामी को खुदवाया; (क० ४, ८, ५) ।

खाणि—स्त्री० (सं० खानि > प्रा० खाणि) । खान, निधान; (जंबू० १०, १८, ८) । खाणी; (ण० २, ३, १३) ।

खाणेक्कु—पुं० (सं० क्षणैक) एक क्षण; (व० १, १६, ३) ।

खाति—स्त्री० (सं० ख्यातिम्) प्रसिद्धि; (उ० व्य० प्र० १०—१७) ।

खानी—स्त्री० (सं० खानि > प्रा० खाणि) खदान, खान, आकर; (सि० २, ११) ।

खाम—वि० (सं० क्षाम > पा० खाम) १. क्षीण, २. दुर्बल, ३. पतला; (दे० ना० मा० ६, ४६; जस० १, २५, ६) ।

खामियअ—वि० (सं० क्षमित + क) जिसके पास क्षमा मांगी गई हो वह; (जंबू० २, ८, ५) ।

खामोपरिय—स्त्री० (सं० क्षामोदरी) दुर्बल पतली कटिवाली; (सं० रा०) ।

खाय—वि० (सं० खादित > प्रा० खाइअ) खाया हुआ; (भ०) ।

खारंफिडी—स्त्री० (दे०) गोधा, गोह, जंतु-विशेष; (दे० ना० मा० २, ७३) ।

खार—पुं० (सं० क्षारक > प्रा० खार) खार, रेह; तुल० पं० खार, (सं० रा०) ।

—दूसण पुं० खरदूपण का मंत्री; (प० च० ४५—१५) । —समुद्र पुं० (सं० क्षार समुद्र) खारा सागर (जंबू० ६, १, १३) ।

खारय—न० (दे०) मुकुल, कली; (दे० ना० मा० २, ७३) ।

खारिय—वि० १. चिढ़े हुए; (प० च० ६, १, ६) । २. (सं० क्षारित) खारे पानी में से टपकाया हुआ; (भ०) ।

खाविय—वि० (सं० खादित) भक्षित; "मुंडखंडखावियचामुंडई," —मुण्डों के टुकड़े-टुकड़े होने लगे, और उन्हें चामुण्डा खाने लगी; (ण० ७, ७, ५) ।

—उ, भू० का० भक्षण किया (प० च० ६, ११, २) ।

खासण—वि० (सं० कासिन् > प्रा० खासि) खांसी का रोग वाला; (सुदं० ८, ५, ३) । पुं० (सं० कास > प्रा० खास) खांसना; (सुदं० ६, १६, ६) ।

खिखिणी—स्त्री० १. (दे०) शृगाली; (दे० ना० मा० २, ७४) । २. (सं० किङ्किणी) वाद्य-विशेष; (प० च० १७, ११४) ।

खिखिखंड—पुं० (दे०) गिरगिट; (दे०-
ना० मा० २, ७४) ।

खिखिखरी—स्त्री० (दे०) डोम आदि के
स्पर्श के परिहार अथवा रोकने की
लकड़ी; (दे० ना० मा० २, ७३) ।

खिच्च—पुं० न० (दे०) कूसरा, खिचड़ी,
एक में दाल मिलाया या मिलाकर पकाया
हुआ चावल; (दे० ना० मा० १,
१३४) ।

√खिज्ज—(सं० खिद > प्रा० खिज्ज)
१. खेद करना, अफसोस करना, २. उद्धि,
मन होना, थक जाना । (सं० रा०)
तुल० गु० खीजवुं; (प्रा० गु० ६, १२,
सं० रा०) । खिज्जइ—क्रि०, व० (सं०
खिद्यते) खीझना, (रि० १, ७) ।

खिज्जइ—क्रि० (सं० क्षयति, √क्षि क्षये)
१. क्षीण होना "दिणि दिणि रयणीमागु
जहं खिज्जइ, —दिन प्रतिदिन जैसे
रात्री का परिमाण घटता जाता है, (जंबू०
३, १२, सुदं० ५, २, १) । २. (सं०
खिद > प्रा० खिज्ज) खेद करना; तुल०
म० खिजणे; (ण० ५, १, ११) ।

खिज्जिअ—न० (दे०) उपालंभ; (दे०-
ना० मा० २, ७४) ।

खिड्ड—न० (सं० खेल) क्रीड़ा;
(भ०) ।

खिणि—स्त्री० फल-विशेष, खिन्नी,
खिरनी; (क० ६, २१, ५) ।

खितिधर—पुं० वानरयोद्धा; (प० च०
५७, ११) ।

खित्त—वि० १. (सं० क्षिप्त > प्रा०
खित्त) १. फेंका हुआ, २. प्रेरित (सं०
रा० जस० २, २६, १३) । २. पुं०

(सं० क्षेत्र) कृषि-भूमि, खेत, (संधि० २,
७, १; जंबू० १०, २०, ८) । —क्रम
पुं० क्षेत्रक्रम (जंबू० ११, ११,
१०) ।

खित्तय—न० (दे०) १. अनर्थ, नुकसान,
२. वि० दीप्त, प्रज्वलित; (दे० ना०-
मा० २, ७६) ।

खित्तुअभव—पुं० (सं० क्षेत्रोद्भव)
"खित्तुअभव ताणउं माणसिउ अवरुवि
असुराईरिउ अन्नोन्नाइउ इयपंचविहु दुहु
नारइयहेंईरिउ," अर्थात्-क्षेत्रोद्भव दुःख,
मानसिक दुःख और असुरों द्वारा प्रेरित
दुःख परस्परकृत दुःख तथा नारकियों
द्वारा प्रेरित दुःख इस प्रकार नारकियों के
पांच प्रकार के दुःख कहे गए हैं; (व०
१०, २७, २६) ।

खिन्न—वि० (सं० खिन्न > प्रा० खिण्ण)
खिन्न, श्रांत; (जंबू० ५, ६, ११) ।

खिन्नि—वि० (सं० खिन्न > प्रा० खिण्ण)
श्वसाद प्राप्त, खिन्न, कष्टग्रस्त,
उदास, दुःखी, पीड़ित (सं० रा०) ।

√खिर—अक० (सं० √ क्षर)
१. गिरना, गिर पड़ना, २. टपकना;
—इ व० (जंबू० १, १३, ७) । खिरंत-
व० कृ० (प० च० १०, ३२) ।

खिलिहिलन्त—कृ० हिनहिनाते हुए (प०
च० ४०, १६, ५) ।

खिल्ल—अक० (सं० खेल्) खेलना, गु०
खेलवुं; (प्रा० गु० ६, १८) । खिल्लंतय
कृ० क्रीड़ा करते हुए; (सं० रा०) ।

खिल्ल—स्त्री० (सं० कील) खूंटी;
(सुदं० ६, १८, ६) । खिल्लिअ—वि०

(सं० कीलित) बंवा हुआ, बढ; (सुदं० ६, १८, ६) ।

√खिव—(सं० क्षिप् > प्रा० खिव)
१. फेंकना, २. डालना, ३. प्रेरना ।
—इ व० (सं० क्षिपति > प्रा० खिवइ, खिवेइ) (म०) ।

खिसिय—क्रि०, भू० का० (दे० प्रा० खिस) खिस पड़ा, गिर पड़ा; (सं० रा०) ।

खीण—वि० (सं० क्षीण > प्रा० खीण)
क्षय-प्राप्त, “घणु खीणु वि विहलिय पोष-
णेण” —धन यदि निर्धनों के पालन-
पोषण में व्यय हो; (ण० ८, १३, ८;
म० १, २३, २) । —कसाय पुं० (सं०
क्षीणकपाय) गुण-स्थान; (व० १०, ३६,
६) ।

खीना—वि० (सं० खिन्ना) उदास, अव-
साद-प्राप्त; (प्रा० गु० २३, ६) ।

खीनि—वि० (सं० क्षीण > प्रा० खीण)
१. क्षय-प्राप्त, २. दुर्बल, कृश; (की० २,
१४६) ।

खीरंबुहि—पुं० (सं० क्षीराम्बुधि) क्षीर-
सागर; (व० ६, १४, ७) ।

खीर—न० (सं० क्षीर > प्रा० खीर)
दूध; (सि० १, १५, प० च० २, ५८) ।

पुं० (छंदशास्त्र में) स्कंध छंद का भेद;
(प्रा० पै० १, ७५) । —कयंब पुं० वसु
राजा के गुरु, खीरकयंब नामक ब्राह्मण;
(प० च० ११, ६) । —कवारि पुं०

क्षीर-सागर; (व० ६, २०, ८) । —णीर
पुं० (सं० क्षीर-नीर) दूध और जल;

(व० २, १५, ५) । —धारा स्त्री०
किपुरिस की स्त्री; (प० च० १३, २६) ।

—महणव पुं० (सं० क्षीर + महार्णव)

क्षीर-सागर; (जंबू० ८, १५, ६) ।
—समुद्र पुं० (सं० क्षीर + समुद्र) क्षीर
सागर; (प० च० ३, १०७) ।

खीरोदहि—पुं० (सं० क्षीर + उदधि)
क्षीरसागर; (प० च० २, २५) ।

खीरोयसागर—पुं० (सं० क्षीरोदक +
सागर) क्षीरसागर; (प० च० ३,
६३) ।

खीरोवरु—पुं० श्रीरवर नामक द्वीप,
(व० १०, ६, ६) ।

खीलय—पुं० (सं० कीलकः) १. कील,
काँटा, मेख, २. खंवा, स्तंभ; “खीलय-
कारणि देवउलु णउ जुतउ णासेवि”; एक
खीले के लिए देवालय का नाश कर
डालना उचित नहीं, (सुदं० ८, ६,
१६) ।

खीलिय—वि० (सं० कीलित) pinned
down स्थिर कील से गड़ा हुआ; (प०-
च० २५, १७, ८) ।

खीव—पि० (सं० क्षीव) मदोन्मत्त, मत-
वाला; (दे० ना० मा० ८, ६६) ।

खीसण—पुं० (दे०) खीसना, भूरना;
(सुदं० ८, २४, १०) ।

खुंखणी—स्त्री० (दे०) रथ्या, मुहल्ला;
(दे० ना० मा० २, ७६)

खुंखुणय—पुं० (दे०) नाक का छिद्र;
(दे० ना० मा० २, ७६) ।

खुंट—पुं० (दे०) खूँटा, “णारीखुंटई
पसु पुरिसु...;” (जस० ४, १०, १२) ।

खुंटण—पुं० (सं० त्रोटण) काटना,
खण्डित करना “णिरहु वि अयसिर खुंटणं
पडियउ” —निरीह (निस्पृह) होकर अज

(ब्रह्मा) का सिर काटने में प्रवृत्त हो सकता है; (ण० ६, ७, ५) ।

खुट्ट—पु० (दे०) खूट, ठूठ (वह पेड़ जिसकी डालें, पत्तियाँ आदि न रह गई हों) “खुट्टु वि तहो कम्मे हूउ पलासु,” उसके कर्म से वह ठूठ भी मांस-भक्षी राक्षस बन गया, (सुदं० २, १४, ५) ।

खुडय—वि० (दे०) स्वलित; (दे०-ना० मा० २, ७१) ।

खुद—पु० (दे०) खुदा, वाद्य-विशेष; (जं० ५, ६, १२) ।

√खुद—(सं०√क्षुद) खोदना, खुदि; (प्रा० पं० १, २०४) ।

खुपा—स्त्री० (दे०) वृष्टि को रोकने के लिए बनाया जाने वाला एक तृणमय उपकरण; (दे० ना० मा० २, ७५) ।

खुज्ज—वि० कुञ्ज, कूबड़ा, वामन; “जइ खुज्जे ससिहर तोडिज्जइ,” यदि कुञ्ज मनुष्य चंद्रमा को तोड़ सकता हो; (म० १, १४, ६) । —य वि० (सं० कुञ्ज+क) कूबड़ा; (प० च० २६, ४८; जस० २, ६, ६) ।

खुज्जिया—वि० (सं० कुञ्जक) दासी; (जस० २, ३४, ७) ।

खुज्जुल्लिय—वि० [सं० कुञ्ज+उल्ल+क (स्वार्थे)] कूबड़ा; (जस० ३, २, २०) ।

खुट्ट—वि० (सं० वृटित्त) टूटा हुआ । खुट्टी—बालकों की एक क्रिया जिससे वे परस्पर संबन्ध विच्छेद करते हैं, कुट्टी । (दे० ना० मा० २, ७४) । तुल० म० खुटले ।

√खुट्ट—सक० (सं० वृट्ट) तोड़ना, खण्डित करना । —इ; (जं० ३, ८, ६) । खुट्टंत-कृ०√वृट्ट+शतृ (जं० ११, १५, ५) ।

खुड—वि० विनाशक; (प० च० ४४, १३, ६) ।

√खुड—(सं०√क्षुट्ट) खण्डित होना, चोट पहुँचाना । खुडिअं—भू० कृ० (सं० खुटित > खुड + अ) खण्डित होना; (प्रा० पं० १, ११) । √खुड (सं०√तुड् > खण्डित करना; (जस० २, १०, ११, प्रा० खुट्ट, खुड) तोड़ना, —इ क्रि० व० (सं० वृट्टयति > प्रा० खुडइ) (भ०) । खुडिउ—भू० का०; खण्डित कर दिया, काट डाला “खुडिउ सुकंठहो सीसु” —उसने सुकण्ठ के सिर को काट डाला; (ण० ७, १४, १३) ।

२. टूट गया, ‘कालेण खुडिउ अइपक्कु पडिउ’ —जो यथाकाल अपरिपक्व होकर टूट गया; (सुदं० ५, ७, १५) । तुल० म० खुडणें खुडन्त—व० कृ० (प० च० ४१, ७, ६) । खुडिउ—क्रि० भू० का० (सं० खण्डित १. काट लिया तोड़ लिया, खोटा लिया, “णं खुडिउ सरोवरसिह खण्णेण,” —मानो एक क्षण में ही सरोवर का सिर काट लिया गया हो, (क० १०, २, ८) । २. फोड़ दिया, ‘इय भाणि तहो सिह चक्के खुडिउ उच्छलंत-सोणिय जलु,’ —इस प्रकार कह कर उस (ह्य-ग्रीव) के सिर को चक्र से फोड़ दिया, जिससे शोणित (रक्त) रूपी जल उछल पड़ा, (व० ५, २३, २१) । खुडियउ—

क्रि० (सं० तुड् > प्रा० खुट्ट) तोड़ा;

क्रि० (सं० तुड् > प्रा० खुट्ट) तोड़ा;

(प० च० १३, १०, १०) । खुडेवि—
पू० का० क्रि० (सं० तुड् > प्रा० खुट्ट)
काट कर, खण्डित कर; (प० च० १७,
७, २) ।

खुडक—अक० (दे०) १. शल्य की तरह
चुभना, २. नीचे उतरना, ३. खलित
होना; ४. क्रोध से मौन रहना । खुडु-
विकउ—क्रि० भू० का०, खटकी; “खर-
खरीहिं णिरु णिट्ठरु मुक्कउ, काणणहरि-
णहँ कण्णँ खुडुविकउ” — गधा-गधी की
निष्ठुर रेंक वन के हरिणों के कानों में
खटकी; (ण० ७, २०, १०) ।

खुडिय—वि० (सं० खण्डित > प्रा०
खुडिअ) लुटित, खण्डित, विच्छिन्न; (प०
च० १७, १२, ५) ।

खुड्ड—वि० (सं० क्षुद्र) लघु (दे० ना०-
मा० २, ७४) ।

खुड्डय—वि० (सं० क्षुल्लक) लघु,
छोटा; (जस० ४, १७, २४) ।

खुगुषखुडिआ—स्त्री० (दे०) नाक,
नासिका; (दे० ना० मा० २, ७६) ।

खुणखुणति—क्रि० खुनखुनाने की ध्वनि
होना; (ण० ८, ३, ८) ।

खुण्ट—(सं० √ तुड्) तोड़ना, खुण्टेवि-
पू० का० क्रि०; (प० च० ४०, ६,
११) ।

खुण्ण—वि० १. (सं० क्षुण्ण > प्रा०
खुण्ण) भग्न, (मुदं० ७, १७, १०) ।
२. क्षुण्ण, मदित; (जंजू० ४, २१, ८) ।
३. परिवेष्टित; (दे० ना० मा० २,
७५) ।

खुत्त—वि० (दे०, प्रा० खुत्त) निमग्न,
डूबा हुआ; तुल० गु० खुत्तवु; (प० च०

१४, ७, ६) । २. आसक्त, क्षुण्ण;
मुदं० ८, ६, ६) ।

खुत्तउ—वि० (दे०) निमग्न, डूबा हुआ;
“धरइ मोह संसारि खुत्तउ;” तुत्त० गु०
खुत्तो, (प्रा० गु० ६, १७) ।

खुद्द—वि० (सं० क्षुद्र) तुच्छ, नीच,
अधम; (ण० ४, ६, १२) । —अ वि०
(सं० क्षुद्र+क) १. क्षुद्र जन २. (सं०
क्षुद्राः) वेश्याजन; (जंजू० ६, १२,
१६) । —जंतु पु० (सं० क्षुद्रजंतु) लघु
जंतु; (जंजू० ६, १०, १२) ।

खुदुडु—वि० (सं० क्षुद्र) तुच्छ, नीच,
दुष्ट, अधम; (जंजू० ३, ११, ६) ।

खुप्पइ—क्रि० (प्रा० खुप्प) खपना, निमग्न
होना, “चंचलु खुप्पइ कुच्छिरंगइ”
चंचल मन खोटी रंगरेलियों में खपता है;
(ण० ७, ६, ८) । खुप्पन्त—वृ० कृ०
(प० च० २३, ६, ७) । —उ व० कृ०

निमग्न, डूबा हुआ; गलिय-धुसिण कद्दमे
खुप्पन्तउ” अर्थात् गलित केशर की
कीचड़ में निमग्न; (प० च० २०, १०,
५) । खुप्पन्ति—क्रि० व०, गड़ गए, रह

खुप्पन्ति,” अर्थात् ‘रथ गड़ गए,’ (प०
च० १७, २, ६) ।

खुप्पाविय—वि० मज्जित, निमग्न;
“रुहिर-कुसुं भहँ सच्च वि राइय; रस-
वस-नसकद्दमे खुप्पाविय,” उनके पैर
काट लिये जाने से (बाहर निकली हुई)
आंतों के गुल्फ वन गए एवं विद्याधर
सैनिक वसा एवं नसों के कद्दम में निम-
ग्न कर दिए गए; (जंजू० ६, १४,
१२) ।

√खुम्भ—(सं० क्षुम्भ > प्रा० खुम्भ) डरना,

धवड़ाना । —ए (सं० धुन्यते)
(भ०) ।

गुडन—वि० (सं० धुव्य) अगांत, भीत;
(प० ३, १४, ६) । —य वि० (सं०
धुव्य + क) (बुडितायें) (जस० ४,
१६, १) ।

गुग्मिष—वि० (सं० धुव्य) क्षोभ-गुप्त;
(प० ४, २४, १) ।

गुर—पुं० (सं० प्रा० गुर) घोड़े के
गुर; (प्रा० पं० १, २०४) ।

गुरप्प—पुं० (सं० धुग्म > प्रा० गुरप्प)
१. गुरपा, घास काटने का लोहे का
झोडार, (महा० ११-१-६) । २. शस्त्र-
विशेष, "तिक्तरुप्पि यणि दोहायिड,"
उन्होंने अपने तीक्ष्ण चूड़ग से क्षणमात्र में
दो टुकड़े कर दिया; तुल० म० गुरप्प;
(जस० ३, ७, ११) ।

गुरसाण—पुं० (सं० गुरज्ञान) देग का
नाम; (प्रा० पं० १, १५१) ।

गुरहगुह्री—स्त्री० (दे०) प्रणय-कोप;
(पद्) ।

गुरप्प—देगो गुरण; (प० च० १७,
६, ४) ।

गुलुह—पुं० (दे०) पंर की गाँठ; (दे०-
ना० मा० २, ७४) ।

गुल्ल—वि० (सं० धुल्ल + क) छोटा
सभृ; (जस०) । —य वि० (सं० धुल्लक)
धुद्र; (मि० १, २) । —त पुं० (सं०
धुल्लकत्व) सभृता; (जस० ४, २८,
२०) ।

गुल्ल—न० (दे०) कुटी, कुटीर; (दे०-
ना० मा० २, ७४) ।

गुल्लणा—वि० (सं० धुल्लक) धुद्र,

दुष्ट, छोटा; तुल० राज० खोळ्ळो, (प्रा०
पं० १, ७) ।

गुल्लिरी—स्त्री० (दे०) संकेत; (दे०-
ना० मा० २, ७०) ।

गुवइ—क्रि० दूर करती है; (सं०
रा०) ।

गुवय—पुं० (दे०) वृण-विशेष; (दे०-
ना० मा० २, ७५) ।

गुह—अक० (सं० धुम्) धुव्य होना,
पवड़ाना; गुहिअ; (प्रा० पं० १, १५१) ।

गुहिड—क्रि० भू० का० (सं० धुम् >
प्रा० तुभ, खुमइ) धुभित हुआ, धुव्य
हो गया; (प० च० १५, ४, ६; जंजू०
४, १०, ८) ।

गुहिय—वि० (सं० धुभित) क्षोभ-प्राप्त;
(प० ४, ६, १२) ।

गुभ—क्रि० (सं० धुम्) क्षोभ पाना,
धुभित होना । —इ व० (रा० ३२) ।

गुट—क्रि० (दे० सुट्ट) खूटना, कम
पढ़ना । —उ; (रा० ३४) ।

गुधी—भू० का० धुव्य हुई, जहि
आवति रति आपणइ हिअइ बति सुठु
गुधी—जिसके आते ही अपने हृदय में
रति अत्यंत धुव्य हुई, (रा० ४४,
१४) ।

सेअ—पुं० १. (सं० सेद > प्रा० सेअ)
नेद, उद्वेग, शोक (सं० रा०; जंजू० १०,
१६, ८) । २. पुं० वानरयोद्धा; (प०
च० ५७, १५) ।

सेअरिख—पुं० (सं० सेचरेन्द्र) सेचरों
का राजा; (प० च० ६, ५२) ।

सेआलु—वि० (दे०) १. मंद, आलसी;
२. असहिष्णु, ईर्ष्यालु; (दे० ना० मा०-

२, ७७) ।

खेउ—पुं० १. (सं० खेद > प्रा० खेव) उद्वेग, खेद, क्लेश, खिन्नता; (प० च० १०, १०, ७; रि० २, ६) । २. पुं० [काल] क्षेपः] काल का व्यतीत होना; (प० च० ३१, १६, ७) । ३. क्षेम तुल० प्राचीन म० खेव; (भ०) ।

खेए—पुं० (सं० खेद > प्रा० खेअ) शोक; (व० २, २, ३) ।

खेड—न० (सं० खेटक > प्रा० खेडय) १. खेड़ा, गाँव; (सि० १, ३) । २. न० (सं० खेल) खेल, क्रीड़ा; (जं० ४, १६, १६) । —य न० क्रीड़ा, खेल; (हे० ४२२, ६) । —य न० (सं० खेटक > प्रा० खेडय) छोटा गाँव; तुल० म० खेड; (ण० ३, १५, ११) । न० (सं० खेट + क = मूसल) आयुध-विशेष; (प० च० ७१, २१) ।

खेडामगाम—पुं० (सं० खेट + ग्राम) खेड-गाँव; (ण० १, ६, ३) ।

खेडिअ—वि० (दि०) हल-से विदारित; (दि० ना० मा० १, १३६) ।

खेडु—न० (सं० खेल > प्रा० खेड्ड, खेड्डय) क्रीड़ा, खेल; (प० च० ६, ७, १) । खेडुड—न० खेल, क्रीड़ा; (सुद० ८, १८, ६) ।

खेड्ड, खेड्डय—न० (सं० खेल) खेल, क्रीड़ा; (भ०; प० च० ३१, १६, ७) ।

खेड्ड—अक० (सं० खेल > प्रा० खेड्ड, खेड्डय) क्रीड़ा करना । (भ०) । खेडिय—भू० का० क्रीड़ा करने लगा, "खेडिय अण्डुह व्व जलधारहि, ताम दसाणणु वरुण-कुमारो हिं" अर्थात् तब तक दशानन

वरुणकुमारों के साथ उसी प्रकार क्रीड़ा करने लगा जैसे बँल जलधाराओं से, (व० च० २०, ७, ६);

खेतं—पुं० न० (सं० क्षेत्र > प्रा० खेत) कृषि-भूमि, क्षेत्र; "खेतं हंसिएं व्रीहिलविति कमारे" —क्षेत्रं दात्रेण व्रीहिलो लूयन्ते कर्मकरेण इत्यत्र, कर्मकरः; तुल० पं० खेत; (उ० व्य० प्र० १३-२२) ।

खेतल—पुं० (सं० क्षेत्रपाल) क्षेत्ररक्षक, खेत का रखवाला; (प्रा० गु० १२, ५८) ।

खेद्ध—पुं० न० (सं० क्षेत्र > प्रा० खेत) खेत, कृषि-भूमि; (सि० २, १८, ण० १, १३, ६) । —कर्म पुं० (सं० क्षेत्रकर्म) क्षेत्रसंख्या; (जं० ११, ११, १०) । —वाल पुं० क्षेत्रपाल; (जस० ३, ३६, ६) ।

खेत्ती—स्त्री० (सं० क्षेत्रिय > खेत्तिय) कृषि, खेती, खेत में अनाज बोने का कार्य; (सा० ५५) ।

खेदि—पू० का० क्रि० पीछा करके; "एहु पाए दरमलिअ ओहु सच्चान खेदि खा," वे (खरगोश और चूहे सैनिकों के) पैरों से कुचले जा रहे थे और आकाश के पक्षियों को वाज भ्रष्ट कर खा रहे थे; (की० ४, १३१) ।

खेमंकर—पुं० १. तृतीय कुलकर; (प० च० ३, ५२) । २. मुनि-विशेष-नाम; (प० च० २१, ८०) । ३. राजा-विशेष-नाम; देशभूषण व कुलभूषण के पिता; (प० च० ३६, ८६) ।

खेमंधर—पुं० चतुर्थ कुलकर; (प० च० ३, ५२) ।

खेम—न० (सं० खेम > प्रा० खेम)
 १. कुशल, कल्याण; (भ०) । २. प्राप्त
 वस्तु की देखभाल (लब्धस्य रक्षणम्);
 (जस० ३, ३६, ३) । ३. द्वीप-विशेष;
 (प० च० ६, ३३) । खेमु; (व० ३, ४,
 १३) । १. दाशरथी राम की प्रजा का
 अगुआ; (प० च० ६३, १७) ।
 खेमञ्जलि—स्त्री० (सं० खेमाञ्जलि)
 नगर-विशेष; (प० च० ३१, ४, १) ।
 खेमा—स्त्री० (सं० खेमा) खेमपुरी नामक
 नगरी-विशेष; (प० च० २०, १०) ।
 खेमापुरी—स्त्री० (सं० खेमापुरी)
 नगरी-विशेष; (व० ८, १, ३) ।
 खेयर—पुं० (सं० खेचर > प्रा० खेअर,
 खयर) विद्याधर, विद्याबल से आकाश में
 चलने वाला मनुष्य; (सि० २, २) ।
 —त पुं० (सं० खेचरत्व) आकाश-
 गमन की सामर्थ्य; (जस० १, ७, ४) ।
 —अरिष्ट पुं० वानरवंशीय राजा; (प०
 च० ६, ८४) ।
 खेयरा—पुं० विद्याधर “कीलमाण निरु
 णायरा णरा, णउ सरंति णिय-णिउल
 खेयरा,” —जहाँ नागरजन बहुत क्रीडाएँ
 किया करते हैं तथा विद्याधर अपने घर
 (वापस लौटकर) नहीं जाना चाहते;
 (व० १, ८, ११) । टि०—अपभ्रंश में
 यद्यपि दीर्घ स्वरान्त शब्द स्त्री लिंग में
 प्रयुक्त होते हैं, परन्तु लोक-व्यवहार में
 ‘खेयरा’ शब्द ‘खेयर’ के अर्थ में ही प्रयु-
 क्त है । अपभ्रंश में आकारान्त शब्द पुं०
 भी हैं, यथा—अम्भा (बादल) ।
 खेर—पुं० (दि०) द्वेष, नाश; (व० ३,
 २४, ११) ।

खेरि—स्त्री० (दि०) १. कल्पिता, उद्देग;
 (प० च० १३, १०, १०) । २. द्वेष,
 (प० ८, १५, १३) । ३. क्षोभ, चिन्ता,
 वैचैनी; (प० च० ४०, १६, ३) ।
 ४. वर, (जस० ४, १, ५) ।

√खेल—अक० (सं० खेल > प्रा० खेल)
 खेलना; (उ० व्य० प्र० ५२-१७) ।
 खेल्लइ; (की० २, ६३) । खेलंत—व०
 कृ० (प्रा० पं० १, १५७) । खेलन्त
 —व० कृ० खेलते हुए; (प० च० ६,
 ४, १) । खेलन्ते—क्रि० भू० का०
 “सिंकार खेलन्ते, तीर मेलन्ते,” वे
 सिंकार करते और तीर फेंकते चल रहे
 थे; (की० ४, १३६) ।

खेजरइ—पुं० स्त्री० (दि०) खिलाड़ी;
 (व० ५, १३, ४) ।

खेला—पुं० १. खेला नामक पुरुष,
 पुरुष-नाम-विशेष; (जस० ४, ३०, १) ।
 २. स्त्री० (सं० खेलन + क) खेल, क्रीडा
 तुल० गु० खेल; “सालिभद्-मुणि-रासो
 जे खेला द्विती, तेसि सासण-देवी जणउउ
 सिव-संती,” (प्रा० गु० १४, ४२) ।
 खेलत्तणें; खेल के लिए, हँसी के
 बहाने; (की० १, १८) ।

खेलाखेली—स्त्री० पुनः पुनः खेलना,
 “ताह होउ सवि-वार, खेलाखेलि खेम-
 कुशल;” (प्रा० गु० १२, ५७) ।

√खेलाव—(सं० खेलयति खिलाना;
 “पुतलीं पे (खे) लाव” —पुत्रिकाभिः
 खेलयति; (उ० व्य० प्र० ५२-१७) ।

√खेलिअ—(सं० खेल्यते) खेलना; (उ०
 व्य० प्र० २०-५) ।

√खेल्ल—(सं० खेल > प्रा० खेल) क्रीडा

करना; (जस० २, ३२, ६) । —इ; व०
खेलना; (की० २, ६३) । खेल्लन्ति (हि०
३८२) । खेल्लिवि—पू० का० क्रि०,
खेलकर; (ण० ३, १२, १०) ।
खेल्लण—न० (सं० खेलन + क > प्रा०
खेलण) खिलौना; (संवि० ३, ६, २) ।
—उ न० खिलौना (जंबू० ६, ३,
६) ।

खेल्लिअ—प्र० (दि०) हँसी, ठट्ठा; (दि०
ना० मा० २, ७६) ।

खेव—पुं० (सं० क्षिप्र) शीघ्र; “जाणा-
वहि पइसारहि खेवे,” खबर दो और
शीघ्रता से हमारा प्रवेश कराओ; (म०
१, २३, ६) । २- खेद; (क० २, १४,
२) ।

खेवइ—क्रि० (सं० क्षेपयति) फेंकना;
(भ०) ।

खेविय—वि० (सं० खेदित) खिन्न किया
हुआ; (भ०) ।

खेह—पुं० न० (दि०) रज, धूल; (प्रा०
पै० २, १११; प्रा० गु० १२, १८) ।

खोट्टिया—स्त्री० (सं० खोटिः=चालाक
और चतुर स्त्री) दासी; (जंबू० ४, २१,
१२) ।

खोट्टी—स्त्री० (दि०) दासी, चाक-
रानी; (दि० ना० मा० २, ७७) ।

खोट—वि० (दि०) १. धार्मिक,
२. लँगड़ा; (दि० ना० मा० २, ८०) ।

—उ वि० (दि०) लँगड़ा; तुल० राज०
खोट्यो (प्रा० पै० १, ११६) ।

खोटि—स्त्री० (दि०) क्षति; “एह ज
अम्हह खोटि जं धर-सूरत्तखु वहइ;” तुल०
गु० खोटि; (प्रा० गु० ३८, ५५) ।

खोडी—स्त्री० (दि०) गर्दभी; “दिण्णव-
ल्लिगल-खोडीसंगम संचारिय मंडुरहि
तुरंगम,” अर्थात् गले में बेलें डालकर
बाँधी हुई गवियों के संगम के लिए धृढ-
सालों में घोड़ों का संचार कराया गया;
(जंबू० ५, १०, २२) ।

खोणि—स्त्री० (सं० क्षोणि > प्रा०
क्षोणि) पृथ्वी; (की० ४, ३७; सुदं० ७,
६, २; प० च० ६, १०) । खोणी;
(जंबू० १, १५, ३; भ०, जस० १, १८,
६) ।

खोणिरय—स्त्री० (सं० क्षोणीरज > प्रा०
क्षोणिरय) पृथ्वी की धूल; (व० ५, ७;
१२) ।

खोणियल—पुं० (सं० क्षोणीतल >
प्रा० क्षोणियल) पृथ्वीतल; (जस० ४,
३, ११) ।

खोणीरह—पुं० (सं० क्षोणीरह) वृक्ष;
(जंबू० ४, १६, ३) ।

खोदालम्ब, खोदालम्म—पुं० (फ्रा०
खुदा + अ० आलम) संसार के बधिपति;
(की० ३, ११) ।

खोभ—पुं० (सं० क्षोभ) इस नाम का
रावण का एक योद्धा; (प० च० ५६,
३२) ।

खोभ—सक० (सं० क्षोभय्) १. विच-
लित करना; २- आश्चर्य उपजाना;
३. रंज पैदा करना । खोभंत—व० कृ०
(प० च० ३, ६६) ।

खोभण—न० (सं० क्षोभण) क्षोभ उप-
जाना, विचलित करना; (प० च० २,
८२) ।

खोयण—न० (सं० खनन) खोदना;
(जं० ६, ८, १६) ।

खोर—न० (दे०) पात्र-विशेष, पिटारी;

खोर, "पच्छएँ जं घणु लद्धु चउगुणु,
नियसोहगखोरे" निक्खई पुणु," —पीछे
जो चौगुना घन, मिला, उसे अपनी
शृंगार-पिटारी में डाल लिया; (जं०
६, १३, ६) ।

खोल—पुं० (दे०) १. छोटा गवा; (दे०-
ना० मा० २, ८०) । २. वस्त्र का एक
देश; (दे० ना० मा० २, ८०) ।

खोलिर—वि० क्रीडनशील, खेलते हुए;
(जस० ३, १, १७) ।

खोल्ल—वि० (दे०) गम्भीर; तुल०
म० खोल; (जस० ३, १, १७) ।

खोसलय—वि० (दे०) लम्बे और बाहर
निकले हुए; दांत वाला; (दे० ना० मा०-
२, ७७) ।

खोसला—स्त्री० (दे०) दंतुल स्त्री, लम्बे
और बाहर निकले हुए दांत वाली स्त्री;
(सुदं० ४, १४, ८) ।

खोह—पुं० (सं० क्षोभ > प्रा० खोभ,
खोह) विचलता, संभ्रम; (ण० १, ६,
६) । खोह; (सुअं० १, ६, ४; जं०
६, ११, ४) ।

√खोह—(सं० क्षोभय > प्रा० खोभ)
१. विचलित करना, २. धैर्य से च्युत्
करना, ३. आश्चर्य उपजाना, ४. दुःख
पैदा करना । —इ सक० (सं० क्षोभ-
यति) (भ०, क० १०, २६, ७) ।

खोहण—वि० (सं० क्षोभणक > प्रा०
खोभण, खोहण) क्षुभित करने वाला;
(की० ४, ३१) ।

खोहिय—वि० (सं० क्षोभित > प्रा०
खोभिय, खोहिय) विचलित किया हुआ;
(सुदं० ११, २, ६) ।

ग

ग—पुं० (सं० प्रा० ग) व्यंजन-वर्ण-
विशेष, इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ है ।

गंग—स्त्री० (सं० गङ्गा > प्रा० गंगा;
गंग) गंगा नदी; (क० १, ३, ३) ।

—इत्त पुं० मुनि-विशेष-नाम; नवम
वासुदेव का पूर्वजन्म-नाम; (प० च०
२०, १७२) ।

गंगा—स्त्री० (सं० गङ्गा > प्रा० गंगा)
नदी-विशेष; (भ०; जं० ६, ११, ५,
प्रा० पं० १, ८२) । —वाडी स्त्री० गंग-
राजाओं की राजधानी (आंध्र प्रदेश में) ।

—सअर पुं० (सं० गङ्गा + सागर);
प्रसिद्ध तीर्थ-विशेष, जहाँ गंगा समुद्र में
मिलती है; (दो० को०) । —सरि स्त्री०

(सं० गङ्गा + सरित्) गंगा नदी;
(जस० २, ३०, ८) । —हर पुं० विद्या-
घर राजपुत्र; (प० च० ८, १६५) ।

गंगोवहि (पुं० (सं० गङ्गा + उदधि)
गंगासागर; (जं० ६, ११, १५) ।

गंगेअ—पुं० (सं० गाङ्गैय > प्रा०
गंगेअ) भीष्मपितामह; (ण० १, ४,
४) ।

गंछ, गंछय—पुं० (दे०) वरुड, इस नाम
की एक म्लेच्छ जाति; (दे० ना० मा०-
२, ८४) ।

√गंज—हरा देना । गंजिअ भू० का०
कृ० मारा, (प्रा० पं० १, १२६) ।

गंजिया—भू० का०, मार दिया, (प्रा०
पै० २, १२८) ।

गंज—पुं० (दे०) गाल; (दे० ना० मा०—
२, ८१) ।

गंजण—न० (दे०) विनाश; (सि० २,
१) ।

गंजा—स्त्री० (सं० गञ्जा) सुरा या मद्य
की दुकान; (दे० ना० मा० २, ८५) ।

गंजिअ—पुं० (सं० गाञ्जिक) कलाल,
दारू बेचने वाला; (दे० ना० मा० २,
८५) ।

गंजिउ—क्रि० भू० का० (सं० गञ्जन
=पराजित करना) मर्दित, पराजित
हुआ; “कण गंजिउ भुवणि महिलाहं”—
भुवन में महिलाओं द्वारा कौन पराजित
नहीं हुआ, (म० १, ७, १) ।

गंजिल्ल—वि० (दे०) १. वियोग-प्राप्त,
वियुक्त; २. भ्रांत-चित्त, पागल; (दे०-
ना० मा० २, ८३) ।

गंजोल—वि० (दे०) व्याकुल; (पङ्) ।

गंजोल्लिय—वि० (दे०) १. वश में करने
वाला; “तां पणभइ वाणि गंजोल्लियमणु,
णग्गउ रुद्धु घुलिघूसरतरणु,” अर्थात् इस
पर वणिक् बोला—अहो, मन को वश में
करने वाला रुद्र भी तो नग्न और घूलि-
घूसरित शरीर होता है, (जस० ३, ३६,
५) । २. रोमांचित; (दे० ना० मा० २,
१००; म०) । ३. न० गुदगुदी, गुदपुदा-
हट, हँसाने के लिए किया जाने वाला
अंग-स्पर्श; (दे० ना० मा० २, १००) ।

गंठ—सक० (सं० ग्रथ् > प्रा० गंठ)
१. गूथना, २. बनाना, ३. गठना;
(पङ्) ।

गंठि—पुं० स्त्री० (सं० ग्रन्थि > प्रा०
गंठि) १. गांठ, जोड़ २. बाँस आदि की
गिरह; (सं० रा०) । २. छल (जंबू० ५,
६, १६) ।

गंठिअ—वि० (सं० ग्रथित) गठा हुआ,
गूथना हुआ; गंठिया; (रा० २३) ।

गंठिआ—स्त्री० (सं० ग्रन्थि + क > प्रा०
गंठि + अ) गांठ; (प्रा० पै० २,
७७) ।

गंड^१—पुं० न० (सं० गण्ड > प्रा० गंड)
गंडस्यल, गाल, कपोल; (जस० १, ३,
६; सं० रा०, जंबू० ५, १३, १०) ।
—यल पुं० (सं० गण्ड + तल) गण्ड-
स्यल; (जंबू० ४, २२, १६) ।

गंड^२—पुं० आदि गुरु चतुष्कल (श्ल);
(प्रा० पै० १, २७) ।

गंड^३—पुं० (दे०) १- वन, जंगल;
कोतवाल, ३. छोटा हिरण; ४, नाई;
(दे० ना० मा० २, ६६) ।

गंडअ—न० (सं० गण्डुत्) तृण-विशेष;
(दे० ना० मा० २, ७५) ।

गंडआ—स्त्री० गंडका, छंद का नाम;
(प्रा० पै० २, १६८) ।

गंडक—स्त्री० (सं० गण्डकी) नदी-
विशेष, एक नदी जो गंगा में गिरती है
और नेपाल में हिमालय से निकलती है,
पैरि तुरंगम पार भइल गंडक के पानी;
(की० ४, १५६) ।

गंडयव्मालण—पुं० (दे०) गण्डमाला
(रोग); (जंबू० ८, ७, ८) ।

गंडय—पुं० (सं० गण्डक > प्रा० गंडय)
गंडा, जानवर-विशेष, जलमहिप; तुल०

म० गेंडा; (ण० ६, २५, १०; सि० १, ६; जस० १, १०, ३) ।

गंडयलुल्ल—पुं० न० (सं० गण्ड+तल+उल्ल (स्वार्थे) > प्रा० गंड+यल+उल्ल) कपोल-तल; (ण० ५, ६, ६) ।

गंडीरी—स्त्री० (सं० गण्डिका > प्रा० गंडिया, गंडीरी) गंडेरी, ईख या गन्ने का छोटा टुकड़ा; (दे० ना० मा० २, ८२) ।

गंडीव—न० (सं० गांडीव = अर्जुन का घनुष) घनुष (अर्थ विस्तार), मूत्र शब्द अर्जुन का घनुष; (दे० ना० मा० २, ८४) ।

गंडो—पुं० काव्य छंद का भेद; (प्रा० पै० १, ११३) ।

गंध—पुं० (सं० ग्रन्थ > प्रा० गंध) पुस्तक; (जस० ४, १७, २२) ।

गंधि, गंधि—स्त्री० (सं० ग्रन्थ+ग्रन्थि) ग्रन्थ-ग्रन्धि, एक प्रकार का रोग रक्त विगड़ जाने के कारण होता है और जिसमें गोल गांठों की तरह सूजन हो जाती है, ये गांठें प्रायः पक जाती हैं; ग्रन्थ-गांठ, रोग-विशेष; 'काई गंधि गंधि वि मरह'—तुम लोग ग्रन्थ-ग्रन्धि में क्यों मरते हो; (प्रा० पै० १, १०७) ।

गंधुद्धरिज—वि० (सं० ग्रन्थ+उद्धृत) ग्रन्थों में उद्धृत; (जंबू० १, ५, ४) ।

गंधीणी—स्त्री० (दे०) क्रीड़ा-विशेष, जिसमें आंख बंद करके खेलते हैं; (दे० ना० मा० २, ८३) ।

गंधुअ—पुं० (सं० कन्दुक > प्रा० गेंदुअ) गेंद; (पड़) ।

गंध^१—स्त्री० (सं० गन्ध > प्रा० गंध) वास, महक; (जस० १, २, १०; जंबू० ४, ६, १) । —लुद्ध वि० (सं० गन्ध+लुद्ध) गंध का लोभी; (जंबू० ६, ६, २) ।

गंध^२—पुं० १. लघुवर्ण (१) २. दैत्य का नाम; (प्रा० पै० १, १०१) ।

गंधक—स्त्री० (सं० गन्धक) एक खनिज पदार्थ जो वैद्यक में उपधातु माना जाता है; (सि० २, २१) ।

गंधकरसि—स्त्री० (सं० गन्धोत्कर्ष > प्रा० गंध+उक्कोस) गंध का प्रकर्ष या अतिशय; (सं० रा०) ।

गंधगए—पुं० (सं० गन्धगज) गंधहस्ति, वह हाथी जिसके कुंभस्थल से मद निकलता है; (व० ४, १७, ६) ।

गंधगिरि—पुं० (सं० गन्ध+गिरि) पर्वत-विशेष-नाम; (जस० ४, २३, १०) ।

गंधजुक्त—वि० (सं० गन्धयुक्त) गंध से युक्त; (जस० ४, २३, १०) ।

गंधपिसाय—पुं० (दे०) गान्धिक (१. गंधी, २. गंधद्रव्य, ३. गांधी नाम का कौड़ा); (दे० ना० ना० मा० २, ८७) ।

गुंजरपटवय—पुं० (सं० गुञ्ज+पर्वत) पर्वत-विशेष; (प० व० ८, ८८) ।

गंधमोअ—पुं० (सं० गन्ध+आमोअ > प्रा० गंध+आमोअ) गंध से प्राप्त हर्ष या खुशी; (सं० रा०) ।

गंधलया—स्त्री० (दे०) नासिका, घ्राण; (दे० ना० मा० २, ८५) ।

गंधवंतु—वि० (सं० गन्धवत्) गन्धवान्,

“तं छंधवंतु तं स्ववंतु;” (जस० ४, १२, ४) ।

गंधवहि—वि० गंध वहन करने वाला, सुगंधित, (सं० रा०) ।

गंधव्व—न० (सं० गन्धर्व > प्रा० गंधव्व) गान-विद्या; (ए० ३, १, ३) ।

पुं० (सं० गन्धर्व) १. विद्याधर राजा; (प० च० ५१, १२) । २. कवि-नाम; (जस० १, २७, २३) । पुं० जनपद-

विशेष; (प० च० १७, ८२) । —गीय-नयरा स्त्री० जनपद-विशेष; (प० च० ५५, ५२) । —लच्छी स्त्री० गन्धर्व-

लक्ष्मी, (जस० ४, २४, ७) । —सिरी स्त्री० (सं० गन्धर्वश्री) स्त्री-विशेष-नाम; (जस० ४, २३, २०) । —सेन पुं०

(सं० गन्धर्वसेन) नाम-विशेष; (जस० ४, २३, १८) । — स्त्री० जनपद-विशेष; (प० च० ७, ५०) ।

गंधव्वा—स्त्री० विद्याधर राजकुमारी; (प० च० ५, २४३) ।

गंधव्वाणुलग्ग—वि० (सं० गन्धर्व + अनुलग्ग) गंधर्वों के समान; (जंबू० १, १०, २) ।

गंधहरिण—पुं० (सं० गन्धहरिण > प्रा० गंधहरिण) कस्तूरिकामृग, कस्तुरिया-

हरिण (जस० ४, २३, ११) ।

गंधाणा—स्त्री० (सं० गन्धान > प्रा० गंधाण) मात्रिक छंद का नाम; (प्रा० पं० १, ६४) ।

गंधारि—स्त्री० (सं० गान्वारी > प्रा० गंधारि) स्त्री-विशेष; (ण० ८, १२, ८) ।

गंधारी—स्त्री० विद्याधर राजवधु; (प०

च० ५, २४३) ।

गंधिधिर—वि० गंध से आसक्त; (जंबू० ५, १०, ६) ।

गंधि—स्त्री० (सं० गन्ध > प्रा० पुं०) गंध; तुल० म० गंध; (प्रा० गु० ५, १५) ।

गंधि—वि० (सं० गन्धिन् > प्रा० गंधि) गंध-युक्त; (भ०) । —अ वि० दुर्गंध-युक्त; (दे० ना० मा० २, ८३) ।

गंधीय—पुं० (मं० गान्धिक > प्रा० गंधिअ) गंधी, अतर फुलेल वेचने वाला, गंध-द्रव्य-वेचने वाला; (संधि० १७, १, २) ।

गंधु—पुं० (दे०) घ्राणेंद्रिय; (व० १०, ८, ५) ।

गंधुत्तमा—स्त्री० (सं० गन्धोत्तमा) मदिरा, सुरा; (दे० ना० मा० २, ८६) ।

गंधुदंत—वि० (सं० गन्ध + उद्वाव् + शतृ) गंध से घ्राकृष्ट; (जंबू० ८, १२, ४) ।

गंधेल्ली—स्त्री० (दे०) १- छाया; २. शहद की मक्खी; (दे० ना० मा० २, १००) ।

गंधोल्ली—स्त्री० (दे०) १. इच्छा, अमि-

लापा; २. रजनी; (दे० ना० मा० २, ६६) ।

गंधोवड—न० (सं० गन्धोदक > प्रा० गंधोदग, गंधोदय) सुगंधित जल; (सि० १, ८, १८) ।

गंघि—पू० का० क्रि० (सं० गमय् > प्रा० गम) जा कर; (भ०; ण० ३, १२, ६) ।

गंघि, गत्वा (प० च० २, ७, ५) ।

- गम्भिर्यु-पु० का० क्रि० जा कर (प० च० १, १५, ६) ।
- गंभीर-वि० (सं० गम्भीर > प्रा० गंभीर) गहरा; (जस० १, १७, १८, की० २, १०४) । —तण पुं० (सं० गम्भीरत्व) गंभीरता; (भ०) ।
- गंभीरा-स्त्री० रसिका छंद का भेद; (प्रा० पै० १, ८६) । २. नदी-विशेष; (प० च० ३२, ११, १६) ।
- गंभीमा रव-पुं० (सं० गम्भीर रव) गम्भीर स्वर; (व० २, १२, ४) ।
- गंभीरि-वि० (सं० गम्भीर > प्रा० गंभीर) गम्भीर; (व० १, २, ८) ।
- गभ-वि० (सं० गत > प्रा० गय) गया हुआ; (जस०) ।
- गभ-पुं० (सं० गज > प्रा० गय) हाथी; (प्रा० पै० १, १३२) । २. राक्षस-योद्धा; (प० च० ५६, २) ।
- जूहः पुं० (सं० गजयूथ) हाथियों का समूह; (प्रा० पै० १, ६२) ।
- गभगंग-पुं० गगनांग, एक मात्त्रिक छंद का नाम; (प्रा० पै० १, १५०) ।
- गभण-न० (सं० गगन > प्रा० गगरा) १. आकाश; २. आदि लघु पंचकल (ISS) । (प्रा० पै० १, ३४) । गभरु-पुं० गगन स्कंधक का भेद; (प्रा० पै० १, ७५) ।
- गभणाराए-पुं० (सं० गणेशराय) गणेशराय नामक राजा; (की० ३, १७) ।
- गभरोस-पुं० (सं० गरुडेश्वर) लणेश्वर नामक राजा का नाम, (की० १, ५६) ।
- गभवाल-पुं० (सं० गयापाल) नगर-विशेष, "गभवाल तिथि आतिन्ह जुड'-गयापालस्तीर्थयात्रिकान् जुडति । जुड शुन गतौ; (उ० व्य० प्र० ५१-२८) ।
- गभा-वि० (सं० गत > प्रा० गभ, गय) गया हुआ, गुजरा हुआ, मरा हुआ; (की० ४, १६८) ।
- गइंद-पुं० (सं० गजेन्द्र > प्रा० गइंद) श्रेष्ठ हाथी; (ण० ३, १७, १४) ।
- गइंवर-पुं० (सं० गजवर) प्रधान हाथी; तुल० राज० गेमर; (प्रा० गु० ११, ११) ।
- गइ-स्त्री० (सं० गति > प्रा० गइ) १. लोकोत्तर में गमन या स्वर्ग प्राप्ति; (की० ३, ४२) । २. गति; (जस० १, २८, ४; ण० २, १, १७; पाहु० १६६) ।
- गई स्त्री० दशा, गति; (प्रा० पै० २, १२०) ।
- ग, ठारण-पुं० (सं० गतिस्थान > प्रा० गइ । ठाण) गति व स्थिति; (जस० ४, १३, ७) ।
- गइय-क्रि०, भू० का० (सं० गताः) चली; (प० च० १२, ६, ६) ।
- गइवेयड-न० (सं० ग्रैवेयक) हार; (ण० १, १७, १३) ।
- गज-क्रि०, भू० का० (सं० गत > प्रा० गय) गया; (परम० १, ६; जंबू० ३, १२, २१) । २. समाप्त हुआ, (ह०) ।
- व० कृ० जा कर; (प० च० १२, २, ३) । गज-भू० का० गया; (की० २, १५) । गया-भू० का० गया; तुल० गु० गया; (भ०) ।
- गजड-पुं० (सं० गौड > प्रा० गजड) गौड देश; (ण० ४, ७, १३) ।

गउडी—स्त्री० (सं० गौडी) गौड देशीय स्त्री; (संघि० ६, ५, १०) ।

गउर—वि० (सं० गौर) गौर वर्ण वाला; (ण० १, १६, १०) ।

गउरव—पुं० (सं० गौरव > प्रा० गारव, गउरव) १. वडप्पन, महत्त्व, २. सम्मान; (भ०; जं० ६, १६, १३) ।

गउरविद्य—वि० (सं० गौरवित) गौरव-युक्त किया हुआ; (ण० ५, ६, १२; जस० २, ६, १८) ।

गउरि—स्त्री० (सं० गौरी > प्रा० गउरी) पार्वती, "णं गउरि महेशहो कामरुद्र," अर्थात् जो महेश की देवी गौरी के समान सुन्दरी थी; (क० २, २, ७) । —अ स्त्री (सं० गौरी) पार्वती; (प्रा० पं० २, ४८) ।

गए—क्रि० भू० का० (सं० गताः) गए; (उ० व्य० प्र० २०-१७) । गओ—भू० का० गया; (पा०) ।

गगनपथ—पुं० (सं० गगन + पथ) आकाश-मार्ग; (की० ३, ६८) ।

गगगर—वि० (सं० गद्गद > प्रा० गगगर) गद्गद आवाज वाला, 'पुगु किय गरहण गगगर-गिरेण" अर्थात् गद्गद स्वर में अपनी निंदा करने लगा; (प० च० १३, ८, ७, सणतु० ४५६) ।

गगगर-सर—पुं० (सं० गद्गद स्वर) गद्गद आवाज वाला स्वर; (रि० ४, ७) ।

गगरी—स्त्री० (सं० गगरी > प्रा० गगरी) छोटा घड़ा, जलपान, गगरी; (दे० ना० मा० २, ८६) ।

गगिर—स्त्री० (सं० गद्गद > प्रा०

गगिर, गगगर) १. हकलाने वाला, अव्यक्त एवं अस्पष्ट-वात कहने वाला; (सं० रा०) । २. गद्गद आवाज वाला; (भ०) ।

गगिरगिर—स्त्री० (सं० गद्गद + गिर > प्रा० गगार + गिरा) गद्गद स्वर; "अम्माएविणं गगिरगिरए, जं भासिउ दिट्ठपरंपरए," अर्थात् परम्परा को जानने वाली मेरी अम्मा देवी ने गद्गद स्वर में कुछ कहा; (जस० २, १६, ६) ।

गङ्गा—स्त्री० (सं० गङ्गा > प्रा० गंगा) गंगा नदी; (प० च० २३, ६, ३) ।

गङ्गाहिसेय—पुं० (सं० गङ्गाभिपेक) शङ्कर; (प० च० ४३, ६, ६) ।

√गच्छ—(सं० √गम् > प्रा० गच्छ) जाना, गमन करना; (जस० २, १, १०) । —इ व० (जं० २, ८, १८) ।

—ह (विधि०) (जं० ६, ४, १२) ।

गच्छि—विधि० (जं० १०, ८, ११) ।

गच्छंत—व कृ० (सं० गच्छत्) जाते हुए; (जस० ४, १०, ८) । गच्छमाण—व० कृ० (सं० गच्छत्) (जस० ४, १२, ६) ।

गच्छ—पुं० (सं० गच्छ) वृक्ष, पीघा, गाछ, छोटा पेड़; (प्रा० पं० २, ६३) ।

गजवडि—स्त्री० (सं० गज + पटि, पटी) गजपटी, गजचित्रयुक्त वस्त्र; (प्रा० गु० २४, ७) ।

√गज्ज—(सं० गज्ज > प्रा० गज्ज) गर्जना करना, गरजना, घड़घड़ाना; (प्रा० पं० २, १८१; सं० रा०) । —इ क्रि०, व० गरजना, (जं० ५, १३,

२३)।—हि क्रि० व० गरजना; “कीर्त्तिं गज्जहि सुहृदभन्तरे,” अर्थात् सुभटों के बीच में कितना गरज रहा है; (प० च० २०, ६, ४)। गज्जंत—व० कृ० (सं० गर्ज + शतृ); (जंजू० ५, ८, १४)।—साग व० कृ० (सं० गर्ज + शानच्); (जंजू० ७, ४, १५)। गज्जु—व० चिल्लाना; (हे० ४१८)। गज्जे वि-पू० का० क्रि० गरज कर; (प० च० १०, ८)।

गज्ज—न० (सं० गर्जन > प्रा० गज्जण) गर्जन, भयानक ध्वनि; “पलअ घण गज्ज सुनि इअर रव लुक्किआ;” अर्थात् प्रलय-काल के मेघों का गर्जन सुनकर अन्य शब्द छिप गए; (की० ३, ७०)।

गज्जणा—स्त्री० (सं० गर्जन > प्रा० गज्जण, न०) गर्जना, भयानक ध्वनि; (प० च० १७, ११, १०)।

गज्जन्ता—क्रि० भू० का० गरज रहे थे, “हुङ्कारे वीरा गज्जन्ता;” अर्थात् हुंकार करते हुए वीर गरज रहे थे; (की० ४, १७४)।

गज्जर—पुं० (सं० गृज्जन > प्रा० गज्जर) कन्द-विशेष; गाजर; (संघि० १४, ४, ५)।

गज्जिय—वि० (सं० गजित > प्रा० गज्जिअ) जिसने गर्जन किया हो वह, तुल० म० गाजणें; (भ०)।

गज्जिख—पुं० (सं० गजि + ख) गर्जन; (जंजू० ४, २०, १२)।

गज्जु—विज्जु—स्त्री० (सं० गजित + विद्युत् > प्रा० गज्जित्त, गज्जिर + विज्जुआ) गर्जन करने वाली विजली;

तुल० गु० गाजवीज; (प्रा० गु० २३, ३५)।

गज्जिउ—क्रि० पीड़ित किया; तुल० मराठी गांजणे; (हे० ४१०)।

गज्जोल्लिय—वि० पुलकित, रोमाञ्चित; (प० च० १७, ११, १०)।

गज्जुअ—न० (दे०) स्तनों के ऊपर की वस्त्र-प्राधि; (दे० ना० मा० २, ६३)।

गडयडइ—क्रि० (दे० प्रा० गडतड = गर्जन करना) गिड़गिड़ाना; (जंजू० ६, १४, ४)।

गडारउ—पुं० (सं० गतं > प्रा० गड्) गड्ढा, गड्ढा, खड्ड; तुल० गु० गडारो; (प्रा० गु० ७, ३२)।

गड्—न० (दे०) शय्या, विछोना; (दे० ना० मा० २, ८१)।

गड्ढरी—स्त्री० (दे०) छागी, अंजा, बकरी; (दे० ना० मा० २, ८४)।

गड्ढा—पुं० (सं० गतं > प्रा० गड्ढ) गड्ढा, गड्ढा; तुल० गु० खाडो; (संघि० १४, ३, ६)।

गड्ढिवि—पू० का० क्रि० (दे०) गाड़ कर; (जंजू० ६, ८, १७)।

गड्डी—स्त्री० (सं० गन्ती > प्रा० गंति, गंती, गड्ढिआ) गाड़ी, यान, शकट; (दे० ना० मा० २, ८२)।

गड्ढुय—स्त्री० (सं० गन्ती > प्रा० गड्ढिआ, गड्ढी) शकट, गाड़ी; तुल० गु० गाडुं; (संघि० ३-२, ६)।

√गढ—(सं० √घट > प्रा० घड, गढ) गडना, बनाना; (प्रा० पं० ३, १६७)। गडइ; (हे० प्रा० व्या० ४, ११२)।

गढ—पुं० (दे०) दुर्ग, किला; (दे० ना० मा० २, ८१) । गढु; (प्रा० चि०) ।

गण्—क्रि० (सं० गणय् > प्रा० गण) गिनना, गिनती करना (रा०) । —इ

व०; ए० (सं० गणयति) गिनना; (हे० ३५८, जंजू० ६७, १४) । —हि व०,

म० पु०, ए०; (प० च० ६, १०, ४) । गणति—क्रि०; व० गिनना; (पाठ०) ।

गणन्ता—व० कृ० सोचते हुए; (की० २, २२६) । गणन्ति—व० कृ० (सं० गण-

न्त्याः) गिनते हुए; (हे० ३३३, १) । गणिज्जे—आज्ञायक, गिनी जाएँ; (प्रा०

पै० १, १०७) । गणितो—क्रि० (सं० गणय् > प्रा० गण) वार-वार अनुभव

करना; (की० ३, ५२) । गण—पुं० (सं० प्रा० गण) समुदाय,

समूह; (जस० २, १, ७; सि० १, ४०) । २. वार्षिक या मासिक गण (प्रा०

पै० १, १२) । गणण—न० (सं० प्रा० गणण) गणना,

गिनती; (जंजू० ८, ८, ४) । गणसम—वि० (दे०) गोष्ठी-रत; (दे०-

ना० मा० २, ८६) । गणहर—पुं० (सं० गणघर) एक प्रकार

के जनाचार्य जो तीर्थकरों के शिष्य होते हैं, ये लोग तीर्थकरों के उपदेशों का शिष्यों

में प्रचार करते हैं; “गणहरयमुहसवण ठिय एककहिं,” —एक कोठे में गणघर

को प्रमुख करके सब श्रमण बैठे थे; (प्रा० गु० ५, ४२; जंजू० १, १६, ५) ।

गौतम; (व० १०, १, १) । गणहृ—न० (सं० ग्रहण > प्रा० ग्रहण)

पकड़ना “तासु वियट्टोहो” अम्बिट्टोहो”

कवरणु गहरणु किर रावरणु;” अर्थात् ‘युद्ध में प्रवृत्त होने पर उसे रावण को

पकड़ना कौन-सी बड़ी बात है,’ (प० च० १२, ६, ६) ।

गणणाइआ—स्त्री० (सं० गणनायिका) पार्वती, चण्डी; शिव-पत्नी; (दे० ना०-

मा० २, ८७) । गणायमह—पुं० (दे०) विवाह-गणक;

(दे० ना० मा० २, ८६) । गणाहिषइ—पुं० (सं० गणाधिपति)

जिनदेव का प्रधान शिष्य; (प० च० २६, ४) ।

गरिण—स्त्री० (सं० प्रा० गण पुं०) समूह, समुदाय, यूथ; (वी० १, २) ।

गणितिया—स्त्री० (दे०) अक्षमाला, रुद्राक्ष की माला; (प० च० ११, ३६) ।

गणिय—न० (सं० गणित > प्रा० गणिय) १. गणित शास्त्र; (प० ३, १, ३) ।

स्त्री० (सं० गणिका > प्रा० गरिया) वेश्या, (प० ५, २, १०) । —उ स्त्री०

गणिकाजना; वेश्याएँ; “नउलुअउ ताउ किर गणियउ;” (जंजू० ६, १२,

७) । गरियाणण—वि० (सं० गणित + ज्ञानिन्) गणितज्ञ; (व० १०, १,

१४) । गणियार—पुं० गरिणकार, वृक्ष-विशेष; (जंजू० ५, ८, ११) ।

गणियारि—स्त्री० (दे०) करिणी, हस्तिनी, “णहाइ गइन्दु व सहुँ गणिया-

रिहिं;” —जैसे हाथी अपनी हथिनियों

के साथ नहा रहा हो; (प० च० ५, १४, ७; २६, १३, ८) ।

गणेशरु—पुं० (सं० गणेश्वर > प्रा० गणेशरु) छंद-विशेष; रोला छंद का भेद; (प्रा० पं० १, ६३) ।

गण्ठि—स्त्री० (सं० ग्रन्थि > प्रा० गंठि) गंठि; (हिं० ४२०, ३) ।

गण्ठिवाल—वि० (सं० ग्रन्थिपाल) भाण्डागारपालक; (प० च० १४, २, ५) ।

गण्ड—पुं० (सं० गण्डक > प्रा० गंडय) गेंडा, जानवर-विशेष; (प० च० ३, ५, ५) ।

गण्डजे—वि० (सं० गण्डक > प्रा० गंडज) चार की गिनती; (की० ३, ११२) ।

गण्डवास—पुं० (सं० गण्डपाश्र्वं > प्रा० गंड + वास) गाल का पार्व-भाग, गण्ड-वास (surface of the cheeks); (प० च० १३, १२, ७) ।

गण्ण—न० (सं० गणन > प्रा० गणण) गिनती, गणना; (प० च० २७, २, ६) ।

गण्णु गणना; (व० ३, १४, १०) ।

गत्त—न० (दे०) १. चौपाई की लकड़ी-विशेष; २. पंक, कदम; (दे० ना० मा०-२, ६६) । ३. वि० गथा हुआ; (पङ्) ।

गत्त—न० (सं० गात्र > प्रा० गत्त) शरीर; (प्रा० पं० २, १२३, जस० १, १४, १; जंबू० ६, ७, ६) । गत्ता; (व० १, १४, १३) ।

गत्तरकरव—वि० (सं० गात्ररक्षक > प्रा० गत्त + रक्त्वज) अंगरक्षक; (प० च० १६, १५, ५) ।

गचाडो—स्त्री० (दे०) १. वनस्पति-

विशेष; २- गाने वाली स्त्री; (दे० ना०-मा० २, ८२) ।

गद्म—पुं० (सं० गर्दम > प्रा० गद्म) गधा; (जस० २, २७, १०) ।

गद्ह—पुं० (सं० गर्दम > प्रा० गद्ह) गधा, खर; (दे० ना० मा० २, ८०; की० ४, ११४) । न० (दे०) कुमुद, चंद्र-विकासी-कमज; (दे० ना० मा० २, ८३) ।

गद्विअ—वि० (दे०) गवित, गर्व-युक्त; (दे० ना० मा० २, ८३) ।

गन्तय—कू० (सं० गं > प्रा० गा, गाअ; (सं० गायत्) गाते हुए; (प० च० २६, ११, ६) ।

गन्दा—पुं०, व० व०, कर्त्तकारक, (फ्रा० गोंयन्दः) गुप्तचर; (की० २, १६०) । पुं० (सं० कन्दुकः) गेंद; (की० २, १६१) ।

गन्दुअ—पुं० (सं० कन्दुक > प्रा० गेंदुअ, गेंदुअ) गेंद; (प० च० १८, ३, ६) ।

गन्धव—पुं० (सं० गन्धर्व > प्रा० गंधव्व) गन्धर्व, एक प्रकार की देव-जाति; (प० च० २५, १८, ८) ।

गन्धार—पुं० (सं० गान्धार > प्रा० गंधार) स्वर-विशेष, रागिनी-विशेष; (प० च० १३, ६, ६) ।

गन्धुक्कड—वि० (सं० गन्धोत्कट > प्रा० गंध + उक्कड) तीव्र या उत्कट गंध वाली; (प० च० १, १५, ३) ।

गन्धोदय—न० (सं० गन्धोदक > प्रा० गंधोदग, गंधोदय) सुगंधित जल; (प० च० २२, १, २२) ।

गन्त—न० (सं० गणन > प्रा० गणण)

गिनती; "सारासारपरिकल्पणगन्दई,"
 (भ० २, २, ८) । पु० (सं० गण्ड >
 प्रा० गंड) गाल, कपोल; (रा० १६) ।
 गव्म—पु० (सं० गर्भ > प्रा० गव्म
 गर्भशय, उत्पत्ति-स्थान; तुल० म०
 गाभा; (भ०; जस० २, २८, १) ।
 —व्मंतर पु० (सं० गर्भ + आम्ब्यान्तर)
 (जं० ४, ७, २) ।
 गव्मवई—स्त्री० (सं० गर्भवती) गर्भिणी
 स्त्री; (जं० ४, ७, ८) ।
 गव्मावयार—पु० (सं० गर्भावितार)
 गर्भावितरण, "जसु गव्मावयारे" संजा-
 यज;" (व० २, १२, १) ।
 गव्मासय—पु० (सं० गर्भशय) स्त्रियों
 के उदर में वह स्थान जिसमें वच्चा रहता
 है, वच्चादानी; "गव्मासइ महु अवलोइ-
 यइ अट्ठंगइ कंपंतइ," अर्थात् राजा ने
 गर्भशय में मेरे आठों अंगों को कांपते
 (छटपटाते) हुए देखा; (जस० ३, ७,
 १३) ।
 गव्मिण—वि० (सं० गर्भित > प्रा०
 गव्मिण) गर्भ-युक्त; (प० च० २५, २,
 ४) ।
 गव्मिणी—वि० (सं० गर्भिणी > प्रा०
 गव्मिण) गर्भवती, जिसे गर्भ हो; (क०
 ८, २, १) ।
 गव्मिण्य—वि० (सं० गर्भित > प्रा०
 गव्मिण्य) गर्भ-युक्त; (भ०) ।
 गव्म्वभुज—वि० (सं० गर्भ + उद्भूत)
 गर्भ से उत्पन्न; (जं० १, ५, ८) ।
 गव्मेसर—वि० (१) (सं० गर्भेश्वर)
 जन्म से विशिष्ट गुण वाला; (soverei-
 gn by birth) (२) गर्बाला, "तेण

समाणु परम गव्मेसर, दिवखइ ठिय
 चउरासी णरवर" अर्थात् उनके साथ
 अत्यंत गर्बाली चौरासी राजाओं ने दीक्षा
 ली," (प० च० ३, १०, २) ।
 गव्मेसरि—वि० गर्भवती; (प० च०
 १६, ६, ५) ।
 गव्मोरुय—वि० (सं० गर्भ + उरु + ज)
 गर्भ से उत्पन्न; "रंभागव्मोरुयरइरा-
 महो," (जं० ४, १३, १६) ।
 गभीरणाळ—पु० राक्षस-योद्धा; (प०
 च० ५६, २८) ।
 गम—पु० (सं० गमनम् > प्रा० गमण,
 गम) गमन; गति, चाल; (भ० ७, ३,
 ६, प० च० १, २६) ।
 √गम—(सं० गम् > प्रा० गम) जाना,
 चलना । गमिअ; 'गमिअ दिण पुणु ण
 मिलु'—गए दिन किर नहीं मिलते; (प्रा०
 प० २, १६१) । गमिही—क्रि० (सं०
 गमिष्यति) वीत जायेगी; (हे० ३३०,
 २) । गम्पि—पू० का० क्रि० (सं०
 गत्वा) जाकर; (टि०—अपभ्रंश में गम्
 घातु से परे एप्पि प्रत्यय में एकार का
 विकल्प से लोप (हे० ४४२; हे०
 ४४२।१) । गम्पिणु—पू० का० क्रि०
 सं० गत्वा, जाकर; (टि०—अपभ्रंश में √
 गम से परे जो एप्पि और एप्पिणु प्रत्यय
 के एकार का विकल्प से लोप होता है,
 हे० ४४२; हे० ४४२।१; (प० च०
 २७, १४, ६) ।
 गमण—न० (सं० गमन > प्रा० गमण)
 गमन, गति, चलना, "भोजण भव्खण
 छाड नहि गमणे न हो परिभूत," अर्थात्
 भोजन और भक्षण उन्हें किसी समय

छोड़ता न था, और न चलने से ही वे थकते थे; (की० ४, १०३; प० च० १८, १०, ३)। —मगु वि० (सं० गमन + मनस्) जाने के लिए इच्छुक, (प० च० ६, ४, २)।

गमणि—वि० स्त्री० (सं० √गम् > प्रा० गम) गमनी, जाने वाली; (जंजूः १०, ८, १)।

गमय—वि० (सं० गमक > प्रा० गमग) बोधक, निश्चायक; (प० च० ५, १५, २)।

गमागम—पुं० (सं० गम + आगम) गमनागमन; (जंजू० ५, १३, २७)।

गमार—वि० (सं० ग्राम्य > प्रा० गमार, गवार) असम्य, गँवार, मूर्ख, “काँ मन गाड, गोवोलि गमारन्हिछाड;” (प्रा० गु० २३, १६)।

गमारि—वि० गँवार; तुल० मगही गमार; (विनयचंद्रसूरि, नेमिनाथ, चतुष्पादिका)।

गमिग्र—वि० (सं० गमित > प्रा० गमिय) गत, गुजारा हुआ; (जस०)।

गमु—पुं० (सं० गमन > प्रा० गमण) गमन, “तं णिसुणे वि पवर-कड्डएहि । गमु सज्जिउ किक्किन्धएहिं,” अर्थात् यह सुनकर किक्किन्ध और अन्धक दोनों प्रवल कपिध्वजियों ने जाने की तैयारी की; (प० च० ७, १, ६)।

गम्भीर—पुं० १. गम्भीर नामक राक्षस योद्धा; (प० च० ५६, ३)। २. विद्याधर राजा; “चन्दहो गम्भीरो, विराहिओ चव दढसत्तो;” (प० च० ११४, १६)।

३. देश-विशेष; (प० च० ३०, २, १०)।

गम्भीरसत्तण—स्त्री० (सं० गम्भीरत्व) गम्भीरता, गहराई, “णव-जोयणाइ तुङ्गत्तणेण, वारह सप्पासङ्गत्तणेण । अट्ठोयर गम्भीररत्तणेण……” अर्थात् ऊँचाई में नी योजन, लम्बाई-चौड़ाई में वारह योजन, गम्भीरता में आठ; (प० च० ४, ६, ८)।

गम्म—वि० (सं० गम्य > प्रा० गम्म) जानने योग्य; (ण० १, २, ८)।

√गम्म—(सं० गम् > प्रा० गम) जाना; —इ, (सं० गम्यते); (पाठु० २१३)।

गम्वारिव—स्त्री० (सं० ग्राम + पाल + इमा) ग्रामीणता, ग्राम्यता; (रा० ६)।

गयंद—पुं० (सं० गजेन्द्र) श्रेष्ठ हाथी; (जंजू० ४, २१, १३)।

गय—वि० (सं० गत) १. गुजरा हुआ; (दे० ना० मा० १, ५६)। २. घृणित धुमाया गया; (दे० ना० मा० २, ६६)।

३. मृत, निर्जीव; (दे० ना० मा० २, ६६)। क्रि० भू० का० चले गए; (महा० ६६, १४, २)। गई; (विला०)।

स्त्री० (सं० गदा > प्रा० गया) गदा, लोहे का मुग्दर या लाठी, लोहे का पापाण का अस्त्र-विशेष; (प० च० ११, ८, ५)। वि०—(सं० गत > प्रा० गय)

प्राप्त “जय दसदिसिगयजसपसरधवल,”—जय हो आपकी, जिनकी कीर्ति के प्रसार से दसों दिशाएँ उज्ज्वल हो रही हैं; (ण० १, ११, ७); गया हुआ; (प० च० १, ८, २); रहित ‘गयरुवउ;’ रूप-रहित, (महा० ६८, ८, १४)। न० (सं० गद)

एक प्रकार का रोग, व्याधि (ण० ६, ६, ८) । न० (सं० गत > प्रा० गय) गति, गमन; (सं० रा०) । पुं० (सं० गज > प्रा० गय) हाथी; (प० च० ६, ६, ८, हे० ३३५, १) । —उलं पुं० (सं० गज + कुल) (ण० ३, १७, ५) । —काल पुं० (गतकालः) व्रीता हुआ समय; (व० १०, ३६, ३) । —कुम्भइं न० (सं० गज + कुम्भ > प्रा० गय + कुंभ) हाथी का गण्ड-स्थल (हे० ३४५, १) । —पित्रो वि०, प्रिया रहित (सणतु ४४६) । —पुर पुं० नगर-विशेष; (प० च० २०, १२४) । —वइ स्त्री० (सं० गज + गति > प्रा० गयगइ) हाथी का गमन; (प० १४, २, ८) । —सालउ स्त्री० (सं० गज + शाला > प्रा० गय + शाला) गजशाला; (भ० ४, १०, ४) ।

गयउर—पुं० (सं० गजपुर > प्रा० गय-उर) नगर-विशेष, कुरु देश का प्रधान नगर, हस्तिनापुर; (भ०) ।

गयलेव—पुं० (सं० गतक्षेप) गतकाल, वीता हुआ समय; (जं० ६, ३, ५) ।

गयगंड—पुं० (सं० गज + गण्ड > प्रा० गज + गंड) हाथी का गंडस्थल; (जं० ५, ७, ८) ।

गयधाय—पुं० (सं० गदाघात) गदा का प्रहार; "गय-धायं गज्जते वलेण;" (व० ५, २०, १०) ।

गयणंगण—पुं० (सं० गगन + आङ्गन) गगनांगन, "गयणंगणे जंतहो जणघणउं;" (जं० ५, ४, ७) ।

गयण—न० (सं० गगन > प्रा० गयण) गगन, आकाश, अंबर; (हे० ३६५, ४; भ० १, ५, प० च० १२, ७, ६; सं० रा०) । गयणंगण—न० (सं० गगन + अङ्गन) गगन रूपी आंगन, "कि कडित्तु णं णं गयणंगणु;" शुनफलक क्या है मानो गगन रूपी आंगन है; (ण० ३, १२, ५) । —यल न० (सं० गगन तल) (सुदं० १, ८, १०) ।

गयणगई—पुं० (सं० गगगगति) व्यक्ति नाम-विशेष, विद्याधर; "गयणगइसमाणु विमाणवंतु निविसेण जि केरलनयिर पत्तु;" अर्थात् गगनगति के साथ विमान में बैठकर निमिषमात्र में वह केरल नगरी को प्राप्त हुआ; (जं० ५, ११, ६) ।

गयणचंद—पुं० मुनि-विशेष-नाम, वालि (मुग्रीव के ज्येष्ठ भाई) के दीक्षागुरु; (प० च० ६, ४६) ।

गयणतटि—पुं० रावणमंत्री; (प० च० ८, १५) ।

गयणयल—पुं० (सं० गगनतल > प्रा० गयण + यल) आकाश-मण्डल (व० २, १२, १) ।

गयणयलवडिअ—वि० (सं० गगनतल-पतित) आकाश-मण्डल से गिरा हुआ; (जस० २, २३, १०) ।

गयणविज्जू—पुं० विद्याधर राजा; (प० च० ८, १३२) ।

गयणाग्र—पुं० राक्षसयोद्धा; (प० च० ५६, ३८) ।

गयणाणंद—पुं० वानरवंशीय राजा; (प० च० ६, ८४) ।

गयणि—स्त्री० (सं० गगन > आ० गयण न०) आकाश, “जहिं जल-खाइयहि तरंग पति, सोहइ पवणाह्य गयणि जंति,” अर्थात् जहाँ जल-खाति की तरंग-पत्तियाँ पवन से आहत होकर आकाश में जाती हुई-सी प्रतीत होती है; (व० १, ४, ५) ।

गयणिदु—पुं० विद्याधर राजा; (प० च० ५, ४५) ।

गयणुज्जल—पु० राक्षसयोद्धा; (प० च० १२, ६२) ।

गयदंत—पुं० (सं० गजदन्त > प्रा० गय + दंत) हाथी का दांत; (व० १०, १६, ६) ।

गयदप्प—वि० (सं० गतदपं > प्रा० गय-दप्प) मान से मुक्त, “दोसुज्झिउ गयद-प्पु असंकिउ;” अर्थात् दोषों से रहित, मान से मुक्त व निश्चिंका था; (जस० ४, २४, २) ।

गयपमाय—वि० (सं० गतप्रमाद > प्रा० गय + पमाय) प्रमाद-रहित; (व० १, ४, ६) ।

गयपवर—पुं० (सं० गज + प्रवर > प्रा० गय + पवर) श्रेष्ठ हाथी; (क० ३, १८, १०) ।

गयपुच्छ—वि० (सं० गत = रहित + पुच्छ) पुच्छ कटे हुए; (व० ४, ७, ५) ।

गयसंदगमणि—वि० (सं० गज + मन्द + गामिन् > प्रा० गय + मंद + गामि) गज के समान मंदगामिनी; (जस० ४, १८, ६) ।

गयमोत्त्व—वि० (सं० गत + मूल्य)

अमूल्य; “गयमोत्त्वइ जणणयणहें पिवाइ, तहिं वणिणा ताहें समप्पियाइ;” (क० २, १७, ३) ।

गयराउ—वि० (सं० गतराग) वैराग्य-युक्त, वीतराग; (व० १, १६, १४) । गतराय; (क० ५, ६, ६) ।

गयवइ—स्त्री० (सं० गत + पति > प्रा० गय + पइ, वइ) विधवा, वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो; (विला०) । —य स्त्री० (सं० गतपतिका) स्त्री-विशेष-नाम; (जं० ८, १५, ४) ।

गयवरण—वि० (सं० गज + वन > प्रा० गय + वण) गज-युक्त वन; (व० १, ३, ८) ।

गयवर—पुं० (सं० गजवर > प्रा० गय + वर) श्रेष्ठ हाथी; (जस० १, ४, ३) ।

गयवरघोष—पुं० किसी वानरयोद्धा का नाम; (प० च० ५४, २१) ।

गयवरतास—पुं० वाररयोद्धा का नाम; (प० च० ५७, १०) ।

गयवल्लभा—स्त्री० जनपद-विशेष; (प० च० ५५, ५२) ।

गयवाहरण—पुं० (सं० गजवाहन) गज-वाहन नामक राजा; (प० च० ६५, ६४) ।

गयसाउल, गयसाउल्ल—वि० (दे०) विरक्त, वैरागी; (दे० ना० मा० २, ८७) ।

गयसारि—स्त्री० (सं० गज + शारि = हाथी का पलान या झूल) युद्ध के लिए हाथी का प्रयाण; (जं० ७, ११, २) ।

गयसुंड—पुं० (सं० गत् + शुण्डा > प्रा० गय + सुंडा) गजशुण्ड नामक सीधे खड़ा होकर किया जाने वाला आसन, "गयसुंडयगोदुह आसणेहिं," अर्थात् वि स्थित होते थे तो गजशुण्ड (सीधे खड़े) या गोदुह (उकड़ू आसन) से; (जस० ४, १६, २) ।

गयसुंडय—पुं० (सं० गुज + शुण्डा > प्रा० गय + सोडा, सुंडा) हाथी की सूंड; (जस० ४, १६, १२) ।

गया—स्त्री० (सं० गदा > प्रा० गया गदा, लोहे की मुग्दर, आयुष-विशेष; (प० च० ५२, ७) ।

गयारि—पुं० राक्षस राजा, राजा-विशेष-नाम; (प० च० ५६, २८) ।

गयास—वि० (सं० गत + आशा > प्रा० गय + आसा) आशाहीन, निराश; (क० ५, ६, ६) ।

गरल—न० (सं० प्रा० गरल) विष, जहर; (प्रा० पै० २, १३८; जस० ३, ३६, १२) । गरलु; (व० ३, ७, ३) ।

गरलुल्ल—न० (सं० गरल + उल्ल (स्वार्थे प्र०) विष, जहर; (जस० ३, ६, १५) । टि०—उल्ल > उल का रूपांतर है; करम + उल जैसे प्रयोग से यह तथ्य पुष्ट होता है । इसका स्त्री० उल्ली है ।

गरह—(सं० √ गृह् > प्रा० गरह) निंदा करना, घृणा करना; (जस० २, ७, ३) । गरहन्ति—व० निंदा कर रहे हैं; (प० च० २; १४, ५) ।

गरहण—न० (सं० गर्हण > प्रा० गरहण) आत्म निंदा; (प० च० १३, ८,

७) । गरहण (गर्हण); (जस० ३, ३६, २) ।

गरहा—स्त्री० (सं० गर्हा > प्रा० गरहा) निंदा, घृणा; (की ४, ६६) ।

गरहिय—वि० (सं० गर्हित > प्रा० गरहिय) निंदित, घृणित; (प० च० ५, १, ६) ।

गरास—पुं० (सं० ग्रास) निवाला, कौर; (प्रा० पै० २, १३४) ।

गरिट्ट—वि० (सं० गरिष्ठ > प्रा० गरिट्ट) अति गुरु, बड़ा भारी, श्रेष्ठ; (सं० रा०; जं० १०, २६, ६) । श्रेष्ठ; (की० १, ६०) ।

गरिल—वि० (सं० गरिष्ठ > प्रा० गरिट्ट) १. सबसे भारी; २. अत्यंत महत्त्वपूर्ण; (जं० ७. ११, १) ।

गरुअ—वि० (सं० गुरु + क > प्रा० गरुअ) १. बड़ा, महान्, गुरु; (प० च० १६, ६, ४; की० १, ८१) । २. श्रेष्ठ; (की० १, ७६) । —ओ वि० श्रेष्ठ; (की० ४, ५) । गरुउ—वि० बड़ा, (क० २, १०, १) । गरुआरउ—वि० (सं० गुरुतर) विशुद्ध; (क० १०, ५, ३) । गरुएँ—वि० गौरवशाली, (व० ४, ४, ११) । गरुय—वि० गुरु, बड़ा, महान्, तुल० गु० गरवी, (सं० रा०) ।

गरुवय—वि० बड़ा; (प० च० ५५, १) ।

गरुजे—क्रि० (सं० गुरुकाय > प्रा० गरुअ, गरुआ) बड़ा बनाना, गुरु करना; "गव्व कए गरुजे दापे," अर्थात् गर्वोक्तियों द्वारा दर्प को और अधिक बढ़ा रहे थे; (की० ४, ६५) ।

गुरुडंक—पुं० (सं० गुरुडाङ्क) १. विष्णु, वासुदेव; २. इक्ष्वाकु वंश के

एक राजा का नाम; (प० च० ५, ७) ।

गरुड—पुं० (सं० गरुड > प्रा० गरुल)

१. गरुडवाण; (व० ५, २२, ७) ।

२. विष्णु का वाहन, गरुड पक्षी, पक्षी-राज; (प्रा० पै० २, ७५; जम० २, ३६, १०) । ३. छप्पय छंद का भेद, (प्रा० पै० १, १२३) । —केउ पुं० गरुडकेतु

(त्रिपुण्ड्र), नाम-विशेष; (व० ५, २३, ४) । गरुड्ड—पुं० गरुड; (व० ४, ७, ७) । —त्य न० (सं० गरुडास्त्र) अस्त्र-विशेष; (प० च० १२, १३०) ।

गरुडा—स्त्री० गरुडा, विद्या-विशेष;

(प० च० ५६, ८४) । —ह्रि व पुं० (सं० गरुडाधिपति) गरुड देवों का अधिपति; व राजा खेमंकर का पुनर्भव नाम; (प० च० ५, ७) ।

गरुयचंदाभ—पुं० वानरयोद्धा का नाम; (प० च० ६६, ७) ।

गरुयत्त—पुं० (सं० गुरुत्व) उत्कृष्टता

(ण० १, ४, ८) । —ण पुं०, विशालता, “कडिय लगरुयत्तरु तं पहाणु” (ण० १, १७, ६) । —यार (गरुयार) वि०

(सं० गुरुतर) भारी; “जसु पय-भाणरे” गरुयारेण हउं किउ कुम्मादारउ,” अर्थात्

जिनके पदभार से मैं कछुए के आंकार का बना दिया गया था; (प० च० १५, ६, १०) । —यारी (गरुयारी) वि०

(सं० गुरुतर) जेठी; (ण० ३, ६, ३) ।

गरुवत्तणय—पुं० गुरुत्व; (प० च० ३४, ४, ६) ।

गरुयपवास—पुं० (सं० गुरुप्रवास) दीर्घ प्रवास; (जस०) ।

गरुलिया—स्त्री० शस्त्रविद्याभ्यासस्थल; (प० च० ८८, २५) ।

गरुलोवलथल—पुं० हरिन्मवणि पन्ना द्वारा निमित्त स्थल; (व० ३, २१, ५) ।

गरुंगड—पुं० गौरवांग नामक पर्वत; (व० २, ७, ६) ।

गरुवि—वि० (सं० गुर्वी) गरवी, बड़ी, श्रेष्ठ; (की० २, १=६) । —जाखरी स्त्री० राजनर्तकी; (की० २, १=६) ।

√गल—(सं० गल् > प्रा० गल) गलना,

गल जाना; (सं० रा०) । —इ व० (सं० गलति > प्रा० गनइ) गलना; (की० ३, ७३) । गलंत—व० कृ० (सं० गलत्),

(क० ६, ४, ११) । गलन्तएँ—कृ० (सं० गल् > प्रा० गल = समाप्त होना)

बीतने पर, “काले गलन्तएँ” अर्थात् समय के बीतने पर, (प० च० २, ७, ६) ।

गलन्ति—क्रि० (सं० प्रा० गल्) गलना (हे० ४०६) । गलेँ वि—पू० का० क्रि० गलकर

“कहँ वि कसण रोमावलि दिट्ठी । काम-वेणि णं गलेँ वि पइट्ठी” अर्थात्

किसी की काली रोमावली दिखाई दी मानो कामवेणी ही गलकर वहाँ प्रवेश कर

गई; (प० च० १४, ७, ७) ।

गल—पुं० (सं० प्रा० गल) गला; ग्रीवा, कण्ठ; (प्रा० पै० १, १११; सि० २, ६, जस० १, ६, ६) ।

गलगंडरोय—पुं० (सं० गलगंडरोग)

गले का एक रोग, गलगंड, कंठमाला, एक रोग जिसमें गले में छोटी छोटी बहुत सी फुड़ियाँ लगातार माला की तरह एक

पंक्ति में निकलती हैं, (सुदं० १२, ७, ७) ।

√गलगज्ज—(सं० गल + गर्ज् > प्रा० गल + गज्ज, गज्जई) गरजना; (गले की गर्जना का होना) (म० १, ७, ५) ।

—इ (प० च० १७, १०, ३) । गलगज्जेवि—पू० का० क्रि० गरजता हुआ; (प० च० २०, ३, ६) । गलगज्जन्तएँ—गरजना करने लगा; “तहि अइरावणे गलगज्जन्तएँ,” (प० च० ३, ६, ६) ।

गलगज्जि—स्त्री० (सं० गल + गर्जि > प्रा० गल + गज्जि) गलगर्जन; (व० ३, २६, १०) ।

गलगज्जिय—न० (सं० गल + गर्जित > प्रा० गलगज्जिय) गल-गर्जन; (प० च० २०, ५, ७; सुदं० ११, ६, १६) ।

गलघोस—पुं० (सं० गल + घोषः) गलगर्जना; (व० ६, ६, ८) ।

गलच्छिय—वि० (दे०) पीडित, प्रेरित; (जस० ३, १, ६) ।

गलणालि—स्त्री० (सं० गल + नालि) गले की नाली; (जस० ३, ६, १) ।

गलत्यइ—क्रि० (सं० गल + हस्त > गल-हस्त > गलत्य) फेंकना, गले में हाथ द्वारा डालना; (भ०) ।

गलत्यण—न० (सं० प्रा० गलत्यइ) क्षेपण; (गलत्यिअ=क्षिप्त, दे० ना० मा० २, ८७) । (प० च० ४१, १, ५) ।

गलत्यलिअ—वि० (दे०) फेंका हुआ; २. प्रेरित; (दे० ना० मा० २, ८७) ।

गलत्थिय—वि० (सं० गल + स्थित >

प्रा० गल + थियर, थिर) गले में स्थित; (सं० रा०) ।

गलत्थियउ—क्रि० भू० का० १. प्रेरित हो गया, “हा कम्मे केण गलत्थियउ;” अर्थात् हाथ, मैं किस कर्म से प्रेरित हो गया; (क० ४, १५, ८) । गलत्थियउ—क्रि० २. सं० कर्दाहित, विडम्बना में पड़े “सयलु वि कम्मे ग गलत्थियउ;” सभी कर्मों की विडम्बना में पड़े; (ण० २, ५, ११) । ३. पीडित हुआ; (महा० ६६, १) ।

गलय—पुं० (सं० गल + क) कण्ठ; (जस० १, १५, ८) ।

गलरव—पुं० (सं० कलरव) शोर; (ण० ३, १७, ५) ।

गलवेविय—वि० (सं० गल + वेपित > प्रा० गल + वेविय) कण्ठ में काँपते हुए; कम्पित कण्ठ; (ण० ८ १५, ५) ।

गलिअ—वि० (सं० गलित > प्रा० गलिअ) गला हुआ, (जस० २, ३, १) ।

वि० (दे०) याद किया हुआ, स्मृत; (दे० ना० मा० २, ८१) । गलिय—वि० नष्ट, नाश-प्राप्त, बीता हुआ; (ण० ६, २, ७) ।

गलियगवु—वि० (सं० गलितगर्व) निर-हंकारी; (व० १, ६, ३) ।

गलिय + छम्म—पुं० (सं० गलित + छद्म) नाश-प्राप्त] या नष्ट हुआ कपट; (क० ७, १६, ६) ।

गलियवेस—पुं० (सं० गलित + द्वेष) नष्ट हुआ द्वेष; (क० २, १२, ३) ।

गलियसर—पुं० (सं० गलित + शर) स्थलित बाण; (क० ३, २१, ८) ।

गलेलगी—क्रि० भू० का० गले लगी;
(व० ४, ७, ४) ।

गल्ल—पुं० (सं० गल्ल) १. गाल,
कपोल; तुल० गु० गाल; (प्रा० गु० ३३,
५; दे० ना० मा० २, ८१) । २. हाथी
का गण्ड-स्थल; (पङ्) ।

गल्लफोट—पुं० (दे०) डमरु, वाद्य-
विशेष, चमड़े से मढ़ा जाने वाला एक
छोटा बाजा जो बीच में पतला होता है
और हिलाने पर उसमें लगी घुंड़ियों से
बजता है, (दे० ना० मा० २, ८६) ।

गवक्ष—पुं० (सं० गवाक्ष > प्रा० गव-
क्ष) गवाक्ष, वातायन, क्षरोत्वा; (जंबू०
८, १५, ६) । —य; (प० च० १८, ६,
७) । तुल० गु० गौक्ष ।

गवण—न० (सं० गमन > प्रा० गमण)
चाल; (की० ४, ५३) ।

गवत्त—न० (दे०) घास, तृण; (दे०-
ना० मा० २, ८५) ।

गवय—पुं० (सं० प्रा० गवय) नील
गाय; (जंबू० ५, ८, १५) ।

गवल—पुं० (सं० गवल) जंगली भैंसा,
जंगली पशु-विशेष, (प० च० ८८,
६) ।

गवा—स्त्री० (सं० गो) गाय; (प० च०
८०, १३) ।

गवाक्ष—पुं० (सं० गवाक्ष) झरोखा;
(सि० १, ३४) ।

गवायणी—स्त्री० (सं० गवादनी =
१. गोचर भूमि, २. नाँद जिसमें गौओं
को सानी खिलायी जाती है) वनस्पति-
विशेष; (दे० ना० मा० २, ८२) ।

गविम्र—वि० (दे०) निश्चित; (पङ्) ।

गविट्ठ—वि० (सं० गवेपित) खोजा
हुआ; (भ०) ।

√गवेस—सं० गवेपय् > प्रा० गवेस
(सं० गवेपयति > प्रा० गवेसइ) गवेसइ—
क्रि० गवेपण करना, खोज करना; (हे०
४४४, प० च० ११, १३, २, प० ७,
२, २) । गविट्ठउ—क्रि०, भू० का० (सं०
गवेपित > प्रा० गविट्ठउ) खोज
कर ली; (प० च० ३, ११, १०) ।
गवेसन्त— व० कृ० (प० च० १६,
१७, ६) । गवेसु—क्रि०, भा०, खोजो
(पाठु०) । टि०— मूल शब्द, गवेपणा
का अर्थ गाय खोजना है । 'अन्वेपण' में
अर्थ-विस्तार हुआ ।

गवेसय—वि० (सं० गवेपक > प्रा० गवे-
सग, गवेसय) खोज करने वाला; (प०
च० १४, १०, १) ।

गव्भु—पुं० (सं० गर्भ > प्रा० गव्भ)
गर्भ, पेट के अंदर का वक्का, भ्रूण;
“धारिउ तहो मज्जएँ गव्भु;” (व० २,
२, ११) ।

गव्व—पुं० (सं० गर्व > प्रा० गव्व)
अहंकार, अभिमान; (की० ४, ६५) ।

गव्वि—वि० (सं० गविन्) अभिमानी,
गर्व-युक्त; (दे० ना० मा० ७, ६१) ।

गव्विठ्ठ—वि० (सं० गविष्ठ) विशेष
अभिमानी; (दे० ना० मा० १,
१२८) ।

गव्वीआ—वि० (सं० गविताः) गवित;
(प्रा० पं० २, १५७) ।

√गस—(सं० ग्रस् > प्रा० गस) खाना,
निगलना, भक्षण करना । —इ व०
(जंबू० १०, १२ १०) । गसेइ—क्रि०

व० (सं० ग्रसते > प्रा० गसइ) (भ०) ।
गसंत—व० कृ० (सं० ग्रस् + शतृ) निग-
लते हुए, भक्षण करते हुए; (ण० ७, ५,
२) ।

गसिञ्ज—वि० (सं० ग्रस्त > प्रा० गसिञ्ज)
भक्षित; (जंजू० १०, १३, १३) ।

गसिर—वि० ग्रसनशील; (जस० २,
१८, १०) ।

गह—पुं० (सं० ग्रह > प्रा० गह)
तल्लीनता, आसक्ति; (की० २, १७४) ।

२. सूर्य, चंद्र, तारे आदि ज्योतिष्क देव,
“मयण-गह पीडणेण; (विला०) ।

३. भूत आदि का आक्रमण, आवेश;
“तं पेक्खे वि सस तुम्हहं केरि । काम-
गहेण ह्य विवरेरी” ; अर्थात् उसे देख
कर तुम्हारी वहन कामग्रह से पीड़ित हो
उठी; (प० च० ५, ५, ३; ण० २, ६,
१) । टि०—अर्थात्तरण से शिक्षाच । अर्थ-
संकोच से घृणा ग्रह । ४. ग्रहण, निरोध;
(जस० १, २३, ५) ।

गह—सक० (सं० ग्रह > प्रा० गह)
ग्रहण करना; (जस० १, ६, ५) गहिञ्ज
क्रि० भू० का० पकड़ लिया; (जस० १,
२४, ३) । गहिउ—क्रि०, भू० का०
ग्रहण कर लिया, वरुण, जाइवि राए तवु
गहिउ, (महा० ६६, १०, १) ।

गहिवि—पुं० का० क्रि० (सं० गृहीत्वा)
पकड़कर; (सं० रा०) ।

गहकल्लोलु—पुं० (सं० ग्रह > प्रा० गह
+ दे० प्रा० कल्लोल = शत्रु) ग्रहवैरी
राहु, ग्रह-विशेष; (प० च० ११, ४) ।
कल्लोल = वैरी (दे० ना० मा० २,
२) ।

गहखोन—पुं० राक्षसवंशीय राजा; (प०
च० ५, २६६) ।

√गहगह—अक० (दे०) हर्ष से भर
जाना । —इ व० (भ० ३, १, १२) ।
गहगहखुल्ल—पुं० (सं० ग्रह + ग्रहण +
उल्ल) ग्रहों की गति; (स्वार्थे प्र०)
(जस० ३, २८, १०) ।

गहचक्का—स्त्री० ग्रहचक्रा, प्रासादभूमि-
नाम-विशेष; (जस० २, ४, ८) ।

गहवो—क्रि० (सं० √ग्रह > प्रा० गह)
पकड़ूँगा; “पर पुर मारि सवो गहवो,”
अर्थात् शत्रु को उसके नगर में मार कर
मैं अकेला ही उसे पकड़ूँगा; (की० २, ४१)
टि०—‘गहवो’ क्रि० भविष्यकाल में उ०
प्र०, ए० में प्रयुक्त हुई है । ‘वो’ वाला
रूप मैथिल भाषा के प्रभाव से हुआ है ।
मूल रूप ‘गहवो’ है ।

गहण—न० (सं० ग्रहण > प्रा० गहण)
१. आदान, स्वीकार, (ण० १, १३,
२) । ३. लेना; (जंजू० १०, १०, ८) ।
४ भाग्य (प० च०) । ५. आमंत्रण,

“जुएण पमिद्धी कित्ति जाहे”, देवाविउ
गहणउ तेण जाहे”, अर्थात् उसने जिसकी
जुए में कीर्ति प्रसिद्ध थी, उसकी ग्रहण
(आमंत्रण) दिलाया; (क० ८, १५, ६) ।

गहण—वि० (सं० गहन > प्रा० गहण)
गहन (वन), दुर्गम, दुर्भेद्य; (जस० १,
१४, ३) । न० (दे०) जल-रहित प्रदेश;
(दे० ना० मा० २, ८२) ।

गहणी—स्त्री० (दे०) जवरदस्ती हरण
की हुई स्त्री, दासी, वादी; (दे० ना०-
मा० २, ८४) ।

गहर—पुं० (दे०) गीब पक्षी, गिड
(गृधः) (दे० ना० मा० २, ८४) ।

गहवइ—पुं० (दे०) १. चांद,

२. गामीण; (दे० ना० मा० २, १००) ।
पुं० (सं० गृहपति) गृहस्थ, कुटुम्बिन्;
(प० च० २५, १, २; जस० १, ३,
१२) ।

गह्वरिओ—वि० (दे०) ध्रुव, व्याकुल;
“देखि कुमरि मन गह्वरिओ, मइ मेल्हि वि
गउ नेमि-कुमारो;” तुल० गु० गभरावुं;
(प्रा० गु० २४, ५) ।

गहिअ—वि० (दे०) १. टेढ़ा किया
हुआ, मोड़ा हुआ; (दे० ना० मा० २,
८५) । २. वि० (सं० गृहीत) जात,
उपलब्ध, विदित; (पड्) ।

गहिआ—स्त्री० (दे०) काम-भोग के लिए
जिसकी प्रार्थना की जाती हो वह स्त्री;
(दे० ना० मा० २, ८५) । २. ग्रहण
करने योग्य स्त्री; (पड्) ।

गहिय—वि० (सं० गृहीत) ग्रहण किया
हुआ; (ण० ७, १३, ३) । क्रि०, भू०
का० पकड़े; (विला०) । —ण (सं०
गृहीत + अन्य) अन्य ग्रहण किए “गहिय-
णारुवँजुयलो,” अर्थात् अन्य युगल रूप
निर्माण किए; (जंबू०, संधि० १,
६) ।

गहियाहर—वि० (सं० गृहीत + अघर)
काटे गए होठ, क वि पियगहियाहर
वहइ वयणु, छिज्जंतरोसु पसरंतमयणु;”
कोई प्रिय से काटे हुए अघरयुक्त मुख
को धारण कर रही है, जिसका रोग क्षय
हो रहा है, और मदन बढ़ रहा है;
(जंबू० ४, १७, १४) ।

गहिरवखर—पुं० (सं० गम्भीर +
अक्षर) गम्भीर घोष; “जय-जय गहिर-
वखरभासणेण;” जय-जय का गम्भीर

घोष करते हुए; (जंबू० १, १४, २) ।
गहिरसर—पुं० (सं० गम्भीर + स्वर)
गम्भीर स्वर “नियवि पुत्ताणणं गहिरसर
वाइणा;” (जंबू० ३, ४, ४) ।

गहिरिमा—स्त्री० (सं० गभीरिमन् >
प्रा० गहीरिम) गाम्भीर्य; गम्भीरता;
(क० १, १६, ६) ।

गहिरु—वि० (सं० गम्भीर > प्रा०
गंभीर) गहरा, तुल० म० गहिरा, मगही
गहिर; (प० च० १, ५, ३) । गहीरु—
वि०, गहरा; (ण० १, ३, १) ।

गहिल—वि० (सं० ग्रहिल > प्रा०
गहिल) भूतादि से आविष्ट; (सुदं० ४,
४, ६) ।

गहिलत्तणं—पुं० (सं० ग्रहिलत्वं) पाग-
लपन, व्यर्थ हठ; तुल० गु० धेली; (प्रा०
पं० १, ३) ।

गहिलिय, गहिल्ल—वि० (दे०) आवेश-
युक्त, पागल, भ्रांत । टि०—उपयुक्त शब्द
(सं० ग्रहिल (१. लेने वाला, स्वीकार
करने वाला, २. अटल, कठोर) से व्यु-
त्पन्न नहीं है ।

गहिली—वि० स्त्री० (सं० ग्रहिल >
प्रा० गहिल) उन्मत्त; तुल० गु० धेली;
(प्रा० गु० २, ३, ३६) ।

गहिल्ल—वि० (सं० ग्रहिल > प्रा० गहि-
ल्ल) १. गृहीत; (म० १, १४, २) ।
२. आवेश-युक्त, पागल, भ्रांतचित्त;
(म०) ।

गहिल्लिय—वि० (सं० ग्राहिल + क)
१. उन्मत्त, पागल, २. मूख, गँवार (सं०
रा०) । ३. ग्रसित (ण० ६, ७,
१०) ।

गहीर—वि० (सं० गभीर > प्रा० गहिर, गहीर) गहरा, गम्भीर; (जस० १, १८, १३; दे० ना० मा० १, १०१) ।

√गहण—सक० (सं० ग्रह् > प्रा० गह) १. ग्रहण करना, लेना; २. जानना—इ व० (पङ्) ।

गाँउ—पुं० (सं० ग्रामम् > प्रा० गन्म) गाँव; (उ० व्य० प्र० ११-२१) ।

गांग—स्त्री० (सं० गङ्गा) गंगा नदी । (उ० व्य० प्र० ५-२३); गांगहि; (रा० २५) ।

गा—सक० (सं० गी० > प्रा० गा) गाना, अलापना । —इ क्रि०, व०; (प्रा० पैं० २, १६२) । —इज्जइ कर्मवाच्य, गाइ-

ज्जइ मंगलु घवलसारु," अर्थात् घवल व श्रेष्ठ मंगल गाए जाने लगे; (जंबू० ४, १५, १) । गाइज्जंत-व० कृ० (जस०) ।

गाइज्जमाण—कृ० (क० ३, १, ६) । —उ क्रि० व०; (प्रा० पैं० २, १६२) ।

गायइ—व० (सं० √ गै) गाना; (जस० १, ५, १७) । गायंत—व० कृ० (सं० गै+शतृ) गायत्; (जंबू० ५, १, १६) ।

गायंती—व० कृ० गाती हुई; (प० च० १४, १०, ८) । गाव—क्रि० व० गान करना, "भक्त पताका पिगल गाव' पिगल

इस मात्रा पताका का गान करता है; (प्रा० पैं० १, ४८) । गाविज्जए—कर्म-

वाच्य गीत गाए जाते थे, "नीलनेसणत-गोवीएँ गाविज्जए," नीले वस्त्रों वाली गोपी द्वारा गीत गाए जाते थे; (जंबू० ५, ६, ११) । गिज्जइ—

कर्मवाच्य (सं० गीयते) गया जाता है, "गिज्जइ नच्चिज्जइ न पढिज्जइ;" अर्थात् (जंबू-स्वामी का नाम लेकर) गाया, नाचा

व पढ़ा नहीं जाता; (जंबू० ४, १०,

२) । गिज्जंत—व० कृ० गीयमान; (ण० ६, २२, ६) । तुल० प्राचीन म० गीजे ।

गा—क्रि० (सं० गतः) गया; (उ० व्य० प्र० १४-३०) ।

गाअ—न० (सं० गाअ प्रा० गाअ) शरीर, देह; (प्रा० पैं० २, ८६) ।

गाइ—स्त्री० (सं० गो > प्रा० गाई) गैया; गाय; (प्रा० पैं० २, ६३; ण० ६, ६, २) ।

गाइअ—न० (सं० गीत > प्रा० गाइअ) गीत, गाना; (ण० ७, १२, १) ।

गाइति—स्त्री० (सं० गायत्री) स्त्री-विशेष; (ण० ८, १२, ६) ।

गाइय—न० (सं० गीत > प्रा० गाइय) गीत; गाइयाई— न०, व० (क० ३, ८, ५) ।

गाई—स्त्री० (सं० गो) गाय, गैया; (दे० ना० मा० ४, १८) ।

गाउं—पुं० (सं० ग्राम > प्रा० गाम) गाँव; (उ० व्य० प्र० १६-१४) ।

गाएवउ—पुं० (सं० गीत > प्रा० गाइअ) गाना, "गाएवउ नच्चेवउ सच्चितु;" अर्थात् विविध प्रकार का गाना व नाचना सीखा; (जंबू० ४, १२, १३) ।

गागेज्ज—वि० (दे०) मथित, आलोडित; (दे० ना० मा० २, ८८) ।

गागेज्जा—स्त्री० (दे०) नबोड़ा, दुल-हिन; (दे० ना० मा० २, ८८) ।

गाइ—पुं० (सं० गच्छ) वृक्ष; पेड़; (प्रा० पैं० २, १४४; की० ४, १६) ।

√गाड—(दे०) गड़ जाती धी; "काँ

मन गडि गोवोलि गमारन्हि छाड;” अर्थात् गेवार ग्वालों को छोड़कर नागरिकों के मन में गड़ जाती थी; (की० २, १५१) ।

गडिअ—वि० (दे०) विधुर, विद्युक्त; (दे० ना० मा० २, ८३) ।

गाडू—पुं० (वै० सं० कद्रुक (ऋ० १०। १४।१६) > कद्रुअ > गड्डुअ > गाडुअ) गडुआ लोटा, वधना; (की० २, १८३) ।

गाढ—वि० (सं० प्रा० गाढ) दृढ़; (जस० २, ८, १; जंबू० ६, ४, ६) ।
—क्षण पुं० (सं० गाढत्व) दृढ़ता; (जंबू० ८, ११, ६) । —य वि० (सं० प्रा० गाढ) १. गाढा, जो पानी की तरह पतला न हो, २. विकट, ३. घनिष्ठ, गहरा; (सं० रा०) ।

गाडिअ—वि० (सं० प्रा० गाढ) गाढ़, गाढ़ी, दृढ़; (जंबू० १०, १४, ३) ।

गाडिम—वि० (प्रा० गाढ = दृढ़, मजबूत, अत्यंत, अतिशय) तेज, जोर से, “जोअण्णा घावहि, तुरय णचावहि वोलहि गाडिम बोला;” अर्थात् युवक सैनिक घोड़ों को दौड़ाते हुए नचा रहे थे और जोर की बोली में बोलकर उन्हें डपट रहे थे; (की० ४, ११०) ।

गाण—वि० (सं० गायन) गवैया; (दे० ना० मा० २, १०८) ।

गाणी—स्त्री० (दे०) वनस्पति-विशेष; (दे० ना० मा० २, ८२) ।

गाघ—वि० (सं० प्रा० गाघ) उथला, जो गहरा न हो; (दे० ना० मा० ५, २४) ।

गामंतर—पुं० (सं० ग्रामान्तर) दूसरा गांव; (जस० ४, ११, ४; क० ५, १०, ४) ।

गाम—पुं० (सं० ग्राम > प्रा० गाम) गांव; तुल० म० गांव, गु० गांम; (ण० ३, १५, ८; जस० १, ३, १५) ।

—लग वि० (सं० ग्राम + लग्) ग्राम के निकट; (जंबू० २, १६, १०) ।

गामो—पुं०, ए०, अधिकरण कारक; गांव में; (की० २, ६३) ।

गामउड, गामऊड—पुं० (दे०) ग्राम का मुखिया, (दे० ना० मा० २, ८६; प०-च० ६६, ८) ।

गामगोह—पुं० (दे०) गांव का मुखिया; (दे० ना० मा० २, ८६) ।

गामणह—न० (दे०) ग्राम-स्थान; ग्राम-प्रदेश; (षड्) ।

गामणि, गामणी—पुं० (दे०) गांव का मुखिया; (दे० ना० मा० २, ८६) ।

गामणी—वि० (सं० ग्रामणी) १. श्रेष्ठ, प्रधान, नायक; (षड्) २. पुं० तृण-विशेष; (दे० ना० मा० २, ११२) ।

गामरोड—पुं० (दे०) छल से अथवा ग्राम के लोगों में फूट उत्पन्न कर गांव का मालिक या मुखिया वन बैठने वाला; (दे० ना० मा० २, ६०) ।

गामहण—न० (दे०) ग्राम-स्थान, गांव का प्रदेश; (दे० ना० मा० २, ६०) ।

गामा—स्त्री० (सं० ग्राम > प्रा० गाम) गांव; “मार्यंग घणासु कला भवणा गामा रंग शिरंतरे,” (यह भारतवर्ष) मातंगों (हाथियों), धन-धान्यों, सुंदर कलापूर्ण

भवनों एवं रंग-विरंगे गांवों से निरंतर
मंडित रहता है; (व० ६, १, २) ।

गामार—वि० (दे०) ग्रामीण; (जं० ५,
६, १) ।

गामि - वि० (सं० गामिन्) गामी, जाने
वाला; (जं० ३, ५, २) । गामी—वि०
जाने वाली; (जं० १, १८, ७) ।
ग्राम; (व० २, १७, १) ।

गामिअ—वि० (सं० ग्रामिक) देहाती,
गँवार; (दे० ना० मा० २, १००) ।

गामिणि—वि० स्त्री० (सं० गामिनिका
> प्रा० गामिणिआ) गमन करने वाली,
“रे घणि मत्तमअंगगामिणि, खंजलोअणि
चंदमुही;” (प्रा० पै० १, १३२) ।

गामिनी—वि० स्त्री० (सं० गामिनिका >
प्रा० गामिणिआ) गमन करने वाली
स्त्री; (भ०) ।

गामिय—वि० (सं० गामिन् > प्रा०
गामि) जानने वाला; (भ०) ।

गामिल्ल, गामिल्लुअ, गामीण—वि०
(सं० ग्रामिक) ग्रामीण, गँवार; (प० च०
७७, १०८; दे० ना० मा० ८, ४७) ।

गामीणजण—पुं० (सं० ग्रामीण जन >
प्रा० गामीणजण) गाँव के निवासी लोग;
(जं० ३, १, १६) ।

गामेणी—स्त्री० छापी, अजा, बकरी;
(दे० ना० मा० २, ८४) ।

गामेल्ल-भास-स्त्री० (सं० ग्रामीण +
भाषा > प्रा० गामिल्ल, गामिल्लुअ +
भासा) ग्रामीण भाषा; (प० च० १, ३,
११) ।

गामेश—पुं० (सं० ग्रामेश) गाँव का
राजा; (दे० ना० मा० २, ३७) ।

गाय—पुं० (सं० ग्राह > प्रा० ग्राह)
मगर, घड़ियाल; (जस० १, १०,
७)]

गायअ—वि० (सं० गीत > प्रा० गाइअ)
गाया हुआ; (ण० १, ३, १४) ।

गायण—पुं० (सं० गायन > प्रा०
गाअण) गाने वाला, गवैया; (प० च०
८, १, ७; सि० १, २६) । स्त्री० गाने
वाली; (जस० १, २७, २) । गायणु—
पुं० गायक; “वर गायणु कवि देपालु
ए,” (प्रा० गु० २६, ७) ।

गायरी—स्त्री० (दे०) गर्गरी, कलशी,
छोटा घड़ा; (दे० ना० मा० २, ८६) ।

गार—वि० (सं० कार) कार्य करने
वाला, कारक, कर्त्ता; (भ०) ।

गारउ—पुं० (सं० गौरवम् > प्रा०
गारव) १. महत्त्व, बहृष्पन; (भ०) ।
२. अभिमान; (प्रा० गु० ५, ३५; सुदं०
१२, २, ४) । गारव; (म० २, १६,
१०) ।

गारह—वि० (सं० एकादश > ऐं गारह
(प्रा० पै०), इगारह (प्रा० पै०) >
गारह) ग्यारह; (प्रा० पै० १, १७७) ।

गारि—वि० (सं० कारिन्) करने वाला;
(भ०) स्त्री० गाली; (की० २, १८६) ।

गारि—क्रि० (दे०) गारता है, गिराता
है; (की० २, १८३) ।

गारी—क्रि० (सं० गालय् > प्रा० गाल,
गालयइ) गारना, छानना, गिराना, पीना;
(की० २, १८३) ।

गालिम—पुं० (अ० गिलमानं) नोजवान
छोकरे; (की० २, २१६) ।

गालि-मसूरा—स्त्री० (दे०) सं० गण्डो-

पधान; तकिया, मसकद; "सोहई जासु कपोल-पालि जसु गालि-मसूरा;" तुल० गु० गालमसूरिउं; (प्रा० गु० २२, १४) ।

गाली—स्त्री० (सं० प्रा० गालि) गाली, अपशब्द, असभ्य वचन; (सुदं० ६, २०, ६) ।

गाव—वि० (दे०) गत, गया हुआ, गुजरा हुआ; (पह) ।

गाव—पुं० (सं० गर्व > प्रा० गव्व) अहंकार, घमण्ड; (भ०) ।

गावि—वि० (सं० गवित > प्रा० गव्विय) गर्व-युक्त, जिसको अभिमान हो गया हो वह; (भ०) ।

गावि—स्त्री० (सं० गो > प्रा० गावी) गैया, गी; (उ० व्य० प्र० १३-२७) ।
—उ व० (सं० घेनवः) गाह; "गाविउ खीरु खिरंति अमोहउ," (जंबू० १, १३, ७) ।

गास—पुं० (सं० ग्रास > प्रा० गास) कवल, घास; (भ०; जस० २, ७, १३) ।

गाह—पुं० (सं० गाथा > प्रा० गाहा = १. छंद-विशेष, आर्या, २. प्रतिष्ठा, ३. निश्चय) १. स्तुति, २. कथा, वृत्तान्त; (सं० ग०) । पुं० (सं० ग्राह) आग्रह, पूर्वाग्रह, हठ; (भ० १, १६, ५) । पुं० (सं० ग्रह) कुग्रह; (जंबू० ६, २, ७) । गाहु—पुं० (दे०) स्नेह, "तव चरणहों उवरि णिवद्धु गाहु;" (जस० ४, २, ६) ।

गाह—सक० (सं० ग्राह्य > प्रा० गाह) ग्रहण करना; (जंबू० १०, १४, ६) ।

(सं० गाह > प्रा० गाह) गाहना, ढूँढना । गाहंतउ—कृ० प्रविष्ट होने पर; (जस० ४, २६, ३) । गाहंते—कृ० प्रवेश करके, "दुग्गम गाहंते कर चाहंते वेरि सथ संह-एइ जम;" अर्थात् दुग्गम स्थानों में प्रवेश करके कर वसूल करते हुए उसने वैरियों के समूह का यमराज के समान संहार किया; (की० ३, ८२) ।

गाहा—स्त्री० (सं० गाथा > प्रा० गाहा) छंद का नाम; (प्रा० पै० १, ५७) ।

गाहिणी—स्त्री० (सं० गाहिनी > प्रा० गाहिणी) गाथा का भेद; (प्रा० पै० १, ५१) ।

गाहुलि—पुं० स्त्री० (दे०) ग्राह, मगर, घड़ियाल; (दे० ना० मा० २, ८६) ।

गाहू—स्त्री० (सं० प्रा० गाहु) छंद-विशेष, मात्रिक छंद का नाम; (प्रा० पै० १, ५१) ।

गिहू—स्त्री० (सं० कन्दुक > प्रा० गेंदुअ) गेंद; (प्रा० पै० १, १५७) ।

गिभ—पुं० (सं० ग्रीष्म > प्रा० गिम्ह) गरमी का मौसम ग्रीष्म; (ण० ३, १४, १०; जस० ४, १६, ७; सुदं० ११, ४, १; सं० रा०) । —आगम (गिभागम) पुं० (सं० ग्रीष्मागम) ग्रीष्म ऋतु का आना; (सुदं० ६, १७, ४) ।

गिभयाल—पुं० (सं० ग्रीष्म+काल) ग्रीष्मकाल; (क० १, ११, ४) ।

गिमारी—पुं० (सं० ग्रीष्म+अरि) ग्रीष्मकाल रूपी शत्रु; "गिभारिहि रुट्ठउ सुरडु जिह;" (जस० २, ३२, ८) ।

गिज्जं—पुं० (सं० गीत > प्रा० गीय) गेय, गीत, "कइया कि पुरउ गिज्जं व

गीउ-अपॅणु गायइ रहसि अभीउ;”
अर्थात् कभी वह अपने सम्मुख होते हुए
गीत को स्वयं अकेले में निर्भीक होकर
गाता; (जस० १, ५, १७) ।

गिञ्ज—वि० (सं० ग्राह्य > प्रा० गिञ्ज)
ग्रहण करने योग्य; (जस० ४, ८,
८) ।

√गिण्ह—(सं० ग्रह > प्रा० गह) ग्रहण
करना; (जस० ४, १५, ११) । गिन्हइ
—क्रि०, व० (सं० गृह्णाति > प्रा०
गिण्हइ) ग्रहण करना; (भ०) ।

गिद्ध—पुं० (सं० गृध्र > प्रा० गिद्ध)
गीघ, पक्षी-विशेष; (प० च० १७, १३,
८) ।

गिद्धि—स्त्री० (सं० गृद्धि > प्रा० गिद्धि)
आसक्ति, लम्पटता; (सि० १, ६) ।

गिम्ह—पुं० (सं० ग्रीष्म > प्रा० गिम्ह)
गरमी का मौसम; (सं० रा०; जस० २,
२८, ११) । —याल पुं० (सं० ग्रीष्म-
काल > प्रा० गिम्हकाल) गरमी का काल;
(प० च० १३, १, ७) ।

गिम्हि—स्त्री० (सं० ग्रीष्म > प्रा०
गिम्हि) ग्रीष्म ऋतु; (सणतु० ४४७) ।

गियउ—क्रि० भू० का० गया; ‘एहु जम्मु
नग्गहं गियउ’ यह जन्म नागा (व्ययं)
गया; (प्र० चि०) ।

गिर—स्त्री० (सं० गिर् > प्रा० गिरा)
वाणी, भाषा, वाक्; (सं० रा०; जंबू०
५, १३, १३) ।

√गिर—(सं० गृ > प्रा० गिर =
कहना) बोलना उच्चारण करना, कहना,
निगलना; (पड्) । गिरि-पू० का० क्रि०
कहकर; (की० ४, ६०) । “वेवि सहो

अर राअ गिरि लहिअउ वेवि तुरङ्ग,”
अर्थात् दोनों भाइयों ने सुलतान से कह-
कर दो घोड़ें प्राप्त किए; - (की० ४,
६०) । —गयर पुं० (सं० गिरिनगर)
नगर-विशेष (ण० १, १५, ६) ।
—सिहर पुं० (सं० गिरिशिखर) नगर-
विशेष; (ण० ६, ८, ६) ।

गिरा—स्त्री० (सं० गिर् > प्रा० गिरा)
वाणी, भाषा, वाक्; (जस० ३, ३०,
६) ।

गिरिद—पुं० (सं० गिरि + इन्द्र) हिमा-
लय; (जंबू० ४, १०, ५) ।

गिरि—पुं० (दे०) वीज-कोश; (दे०-
ना० मा० ६, १४८) ।

गिरि—पुं० (सं० प्रा० गिरि) गिरि,
पर्वत; (जस० १, १७, ६; प्रा० पै० १,
७४) । —कडणि स्त्री० (सं० गिरिक-
टनी) गिरिमेखला; (जंबू० ५, ८,
१४) ।

गिरिकंदर—पुं० (सं० गिरिकन्दरा)
पर्वत की गुफा; (व० २, २, ७) ।

गिरितणय—स्त्री० (सं० गिरितनया)
पार्वती; (जंबू० ५, ६, १४) ।

गिरितुल्ल—वि० (सं० गिरितुल्य) गिरि
के समान; (जंबू० ६, ४, १०) ।

गिरिदरि—स्त्री० (सं० गिरिविवर)
पर्वत की दरार; (जंबू० ६, १०,
१६) ।

गिरिदारिणी—स्त्री० (सं० प्रा० गिरि-
दारिणी) विद्या-विशेष; (प० च० ७,
१३६) ।

गिरिनंद—पुं० वानरवंशीय राजा; (प०
च० ६, ८४) ।

गिरिनइ—स्त्री० (सं० गिरिनदी) गिरिनदी; (जं० ८, ७, ७) ।

गिरिभूइ—पुं० विप्र-विशेष-नाम; (प० च० ५५, ३५) ।

गिरिवइ—पुं० (सं० गिरिपति) पर्वत; “गिरिवइ-संठिउ अइ-उक्कंठिउ;” (व० २, २०, १५) ।

गिरिखरि—पुं० (सं० गिरिखर) गिरिराज, पर्वत, (व० २, ७, ८) ।

गिरिसंग—न० (सं० गिरि+शृङ्ग > प्रा० गिरि+संग) पर्वत के ऊपर का भाग, शिखर; (जं० ७, ८, ७) ।

गिरीस—पुं० (सं० गिरीश > प्रा० गिरीस) १. हिमालय, २. शिव; (प्रा० पं० १, २०६) ।

√गिल—(सं० गृ > प्रा० गिल) गु० गळवुं । —इ निगलना; (प० च० १६, ३, २; जस० २, २०, ८) । गिलंत—व० कृ० गिलत् (जस० ३, ३०, १) ।

गिलंति—क्रि० निगलना; (सुदं० ६, ६, ८) । गिलती—क्रि० स्त्री० निगल रही थी; (क० ३, १७, १०) । गिलिउं—

भू० का निगल लिया; (महा० ६८, १०, १२) । गिलिज्जइ—क्रि० भू० का० निगल गया; (सुदं० ५, ७, २१) ।

“णिसिरक्खिण्णं ताम गिलिज्जइ,” निशाराअसी ने उसका निगल लिया, (सुदं० ५, ७, २१) । गिलिज्जइ-कर्मवाच्य (सं० गिल्यते) निगली जाती है; (हे० ३७०, २) । गीलेसि-व० निगलता है; (सरह, चर्यापद) ।

गिलण—न० (सं० गरण) ग्रसन, निगलना; (जस० १, ६, १०) ।

गिलिअ—वि० (सं० गिलित > प्रा० गिलिअ) निगला हुआ, ग्रसित, भक्षित; (जं० ८, ५, ८) गिलिय; (ण० ७, ३, २) ।

गिल्ल—वि० गीला, आर्द्र; (ण० ८, १५, १; महा० २६-५-३) ।

गिल्लगंडु—वि० गीले गंडस्थल वाला; “तहि ण्हाउ णाउ णं गिल्लगंडु.” उस (सरोवर) में उन्होंने स्नान किया, जैसे गीले गंडस्थल वाला हाथी हो; (रि० ६, ४) ।

गिव—पुं०-(सं० ग्रीवा) गला; (प्रा० पं० १, ६८) ।

गिवाण—पुं० (सं० गीर्वाण > प्रा० गिवाण) सुर, देव; (जं० ७, ११, ३) । —पुरी स्त्री० (सं० गीर्वाणपुरी) स्वर्ग-पुरी; (व० ७, १०, ८) । —सेल पुं० (सं० गीर्वाणशैल) सुमेरुपर्वत; (व० ६, १३, ५) ।

गिह—क्रि० (सं० गृह्णति) ग्रहण करना; (उ० व्य० प्र० ७-२६) ।

गिहथहि—स्त्री० (सं० गृहस्थम्) गृहस्थी, गृही; (उ० व्य० प्र० ४६-२०) ।

गिहवइ—पुं० (सं० गृहपति) गृहपति रत्न (कोषागारामात्य), “कण्णा-सेणा-वइ-थवइ-मंति गिहवइ-तुरंगु-करि विहिय-सति,” अर्थात् कन्यारत्न (रानी), सेनापति रत्न, स्थलपतिरत्न (शिल्पी) मन्त्री रत्न (पुरोहित), गृहपति रत्न (कोषागारामात्य), तुरंग रत्न और करि रत्न (मातंग—गज), (व० ८, ४, ४) ।

गिहवार—न० (सं० गृह+द्वार) गृहद्वार; (ण० ६, २०, १६) ।

गिहवास—पुं० (सं० गृहवास > प्रा० गिहवास) घर में निवास; (व० २, १६, १) ।
 गिहासम—पुं० (सं० गृहाश्रम > प्रा० गिहासन) गृहस्थ-आश्रम; (भ०; जं० २, ६, ३) ।
 गिह्वरण—पुं० ग्रहण, “माऊर इति गिह्वरण-कण्ठः,” अर्थात् मयूरी उन्हें बार-बार पकड़ने के लिए आती है; (व० १, ४, १२) ।
 गीम—स्त्री० (सं० ग्रीवायाम्) कण्ठ; (उ० व्य० प्र० ६-२२) ।
 गीअं—न० (सं० गीत > प्रा० गीय) गीत; (जस० १, २७, २; की० २, ६१) ।
 गीअड—पुं० (सं० गीता > प्रा० गीआ) छंद-विशेष; (प्रा० पै० २, १६६) ।
 गीडु—क्रि० (सं० गृहीत > प्रा० गाहिअ) उठाए है, “जइ कुम्भे धरियउ धरणिवीडु, तो कुम्भु पडन्तउ केण गीडु” अर्थात् यदि धरती की पीठ कछुए ने उठा रक्खी है तो तिरते हुए कछुए को कौन उठाए है,” (प० च० १, १०, २) ।
 गीति—स्त्री० (सं० गीति > प्रा० गीइ) गीत, गान; “गंधव्य गीति दुन्दुहिय वर परिमल परिचए जान को;” (की० ४, २१८) ।
 गीय—न० (सं० गीत > प्रा० गीय) गान, ताल और वाजे के अनुसार गाना; (ण० ६, १५, ५) । बि० जो गाया जा जा सके; (प० च० १६, ६, १; जस० १, ५, १७) । —सद् पुं० गीतशब्द; (जस० ४, १७, १२) ।

गीयपुरा—न० (सं० गीतपुर > प्रा० गीयपुर) जन-द-विशेष; (प० च० ५५, ५३) ।
 गीव—स्त्री० (सं० ग्रीवा > प्रा० गीवा) गरदन; (ण० १, १७, ३) ।
 गीवा—स्त्री० (सं० ग्रीवा > प्रा० गीवा) कण्ठ; (क० ३, १५, ६) ।
 गुंछ—पुं० (सं० प्रा० गुच्छ) गुच्छा, स्तवक; (जस० १, २३, १२) ।
 गुंछा—स्त्री० (दे०) १. विदु; २. दाही-मूँछ; ३. अधम, नीच; (दे० ना० मा० २, १०१) ।
 गुंजकियं—क्रि०, भू० का० (सं० गुञ्ज-इकृत) गुंज उत्पन्न कर दी; (जं० १०, १६, ४) ।
 √गुंज—(सं० √गुञ्ज > प्रा० गुंज) गुन-गुन करना । गुंजत-व० कृ० (सं० गुञ्ज + शतृ); (जं० ४, २२, ४) ।
 गुंजरिया—क्रि० भू० का० (सं० गुञ्जारिता) गुंजारित हो रही थी; “कहिँ मि हयदंडवगधेहिँ गुंजारिया;” (जं० ५, ८, १५) । गुंजिय—क्रि०, भू० का० (सं० गुञ्जित) गुंजार करते थे, “मुहम-रमिलंतगुंजियभमरु;” अर्थात् मुख की सुगंधित आश्वास से आकृष्ट होकर एकत्र हुए भौरे गुंजार करते थे; (जं० १, १२, ५) ।
 गुंजरी माला—स्त्री० सं० गुञ्जा + माला > प्रा० गुंजा + माला) गुंजा माला; (हि का० च० २८) ।
 गुंजा—स्त्री० (सं० गुञ्जा > प्रा० गुंजा) १. गुंजा, फल-विशेष; (जस० १, ६, १०) । २. गुंजा वृक्ष-विशेष;

“सिरिसु सेवन्ति-सेहालिया-सिसमी सज्ज-
गुंजा-समी-” अर्थात् कहीं सिरिप,
सेवाणि, शेफानिका, शीशम, सजं, गुंजा
और शमी के वृक्ष थे; (जंबू० ५, ८,
१०) ।

गुंजाविहाणनयर—पुं० नगर-विशेष;
(प० च० १०१, ५६) ।

गुंजुज्वल—वि० (सं० गुञ्जा +
उज्ज्वल) गुंजा के समान उज्ज्वल,
दटाहर गुंजुज्वललोयगु;” ओठों को
काटते हुए गुंजा के समान चमकीले
लोचन; (जंबू० ५, १३, ११) ।

गुंजेह्लिअं—स्त्री० (फ्रा० गुंजलक)
१. गुंजलक, गेंडुली, २. कपड़े आदि की
शिकन । टिप्पणी-दे० ना० मा० में इसका
अर्थ ‘पिण्डी कृतम’ दिया है, अर्थात् सूत,
रस्सी आदि का गोल लच्छा (दे० ना०-
मा० २, ६२) ।

गुंजेस्तिलभ—वि० (दे०) इकट्ठा किया
हुआ; (दे० ना० मा० २, ६२) ।

गुंठ—पुं० (दे०) अधम अश्व, दुष्ट
घोड़ा; (दे० ना० मा० २, ६१) । वि०
(दे०) कपटी, मयावी; (जंबू० ४, २१,
११) ।

गुंठिअ—वि० (सं० गुण्ठित = धिरा
हुआ, ढका हुआ) १. धूसरित, २. व्याप्त;
३. आच्छादित; (दे० ना० मा० १,
८५) ।

गुंठी—स्त्री० (दे०) स्त्री० का वस्त्र-
विशेष; (दे० ना० मा० २, ६०) ।

गुंड—न० (दे०) मोया (एक प्रकार की
घास) से उत्पन्न होने वाला तृण-विशेष;
(दे० ना० मा० २, ६१) ।

गुंथइ—क्रि० (सं० ग्रथ्) गूथना, गर्तना;
(प० ५, ८, १४) ।

गुंदा, गुंपा—वि० (सं० गुण्डक =
मलिन) १. दुर्व, पापी, कुमार्गी, बदमाश
२. छेला; (दे० ना० मा० २, १०१) ।
३. स्त्री० (दे०) विदु; (दे० ना० मा०
२, १०१) ।

गुंफा—पुं० (सं० गुम्फ) १. रचना,
२. गूथना, ग्रन्थन; (दे० ना० मा० १,
१५०) । २. गुप्ति, कारागार, जेल;
(दे० ना० मा० २, ६०) ।

गुंफा—पुं० (सं० गुल्फ एड़ी के ऊपर
की गांठ, टखना, धुट्टी; “गूढेहिं गुंफेहिं,
णं मंतगुंफेहिं,” इनके गुल्फ गूढ़ है मानों
कोई गम्भीर मंत्रणा कर रहे हों; (जस०
१, १७, १४) ।

गुंफा—स्त्री० (दे०) क्षुद्र कीट-विशेष,
करखजूरा; (दे० ना० मा० २,
६१) ।

गुंआल—पुं० (सं० गोपालक > प्रा०
गोवल) ग्वाला, गौ पालने वाला; (उ०
व्यं० प्र० ५-१४) ।

गुंगुल—पुं० (सं० प्रा० गुंगुल) सुगंधित
द्रव्य-विशेष; (सुद० ६, १०, ६) ।

गुंगुंरावत—पुं० (सं० गुलगुलायित >
प्रा० गुलगुलाइय) गम्भीर गर्जन करने का
शब्द; गड़गड़ाहट, हाथी का हृषित गर्जन;
(की० २, १०४) ।

गुंजंर—पुं० (सं० गूर्जर > प्रा० गुज्जर)
१, गुजंर देश का राजा, २. गुजरात के
निवासी, ३. गुजंर जाति, (प्रा० पं० १,
१५१) । ४. गुजरात प्रदेश; तुल० म०
गुंजर; (भ०) ।

गुञ्जरि—स्त्री० (सं० गुञ्जरी) गुञ्जर देश (गुजरात) की स्त्री; (सुदं० ४, ६, ७) ।

गुञ्जलिअ—वि० (दे०) संधटित; (पङ्) ।

गुञ्ज—वि० (सं० गुह्य > प्रा० गुञ्ज) गोपनीय, छिपाने योग्य; (प० च० १४, ७, ६; सुदं० ४, ११, ७; जस० ३, ३६, ३) ।

गुञ्जवत्त—पुं० (सं० गुह्यवार्ता > प्रा० गुञ्ज + वत्त) गोपनीय वातचीत; (सि० १, २०) ।

गुञ्जहर—वि० (सं० गुह्यघर) रहस्य-भेदी; गुप्त वात को सबके सामने कह देने वाला; (दे० ना० मा० ३, ६३) ।

गुड—पुं० (सं० प्रा० गुड) कवच-विशेष; (प० च० ४०, ६, १०) ।

२. गुड, शक्कर, "गुडसक्करलड्डु व लेवि खणे;" (क० २, ७, १) ।—सारि कवच; (व० ५, ७, ११) ।

गुड—सक० (सं० गुड > प्रा० गुड) हाथी को हीदा आदि लगा कर सजाना, 'हाथि गुड'—हस्तिनं गुडति । गुड रक्षायाम् । गुडति—क्रि०, व० व, (जं० ५, ६, ४) ।

गुडवालिअ—वि० (दे०) इकट्ठा किया हुआ; (दे० ना० मा० २, ६२) ।

गुडसोल्ल—पुं० (सं० गुड + सोल्ल = पक्क) गुड से तैयार की गई एक प्रकार की मिठाई; (प० च० ५०, ११, १२) ।

गुडाई—स्त्री० (सं० गुड + आदि) दाख आदि, "जत्थ गुडाईण जहा महुरत्त

भिण्ण-भिण्णभुवलंभो;" गुड आदि से जहाँ-जहाँ भिन्न-भिन्न माधुर्य की उपलब्धि होती है; (जं० १०, १, ३) ।

गुडिआ—स्त्री० (सं० गुटिका > प्रा० गुडिआ) गोली, गुलेल; (प्रा० पं० १, ६७) ।

गुडिउ—वि० (सं० गुडित) कवचयुक्त; "करि दुक्कु सपहरसु सरिउ गुडिउ," अर्थात् वहाँ स्मरण करने से कवच एवं शस्त्रों से युक्त हाथी उपस्थित हुआ; (जं० ६, ११, ३) ।

गुडोलिआ—स्त्री० (दे०) चुंबन; (दे० ना० मा० २, ६१) ।

गुडिया—स्त्री० (दे०) पत्ताका; तुल० गु० गूडी; (प्रा० गु० १५, ६) ।

गुडुउ—पुं० (दे०) गोड, पावें, पैर, चरण; तुल० गु० गूडी; (प्रा० गु० ३६, २६) । गोडुउ; (प्रा० गु० १२, ४१) ।

गुडु—पुं० (सं० गौड > प्रा० गौड) गौडदेशवासी, ब्राह्मणों का एक वर्ग, मनुष्य-जाति-विशेष; (संघि० १०, २, ३) ।

गुडुडर—पुं० (दे०) तंबू, डेरा; (जं० ५, १०, ३३) ।

गुडुडु—पुं० (दे०) गुहार (युद्ध में प्रयाण करने हेतु की गई ध्वनि) "गुडुडु उब्भिय अरियण खुब्भिय," अर्थात् अरि-जनों को क्षुब्ध कर देने वाली गुहार ध्वनि कर दी गई; (व० ४, २४, १) ।

√गुण—(सं० गुण्य > प्रा० गुण) गिनना ।—इ व० (सं० गणयति) गिनना;

(प्रा० पै० १, १०७) । गुणि—पू० का०
कि०; (प्रा० पै० २, २१४) ।

गुण—पुं० न० (सं० प्रा० गुण)
१. धनुष की प्रत्यंचा; (जंबू० ५, १४,
११) । २. गुण अच्छाई; (जस० १, २,
७; प्रा० पै० १, ६५) । —ग्राम वि०
गुणों का आगार; (की १, ८५) ।

—जुत्त वि० गुण, स्वभाव, धर्मयुक्त;
(जंबू० ४, ६, ११) । —टंकोर पुं०
धनुष की टंकार; (व० ५, १०, ७) ।

—ठाण पुं० (सं० गुणस्थान); (क० ६,
१६, ८) । —थाण वि० (सं० गुण-
स्थान) गुणों के निधान; (जंबू० ४, ४,
५) । —थाम वि० (सं० गुणस्थान)

गुणवान; “पिय गोत्तवइ तासु गुणथा-
महो;” (जंबू० ४, २, ३) । —घर
पुं० वणिक पुत्र का नाम; (प० च०

१०३, ८) । —निलउ वि० (सं० गुण-
निलय) गुण-निधान; (जंबू० २, ५, २) ।

—निहि पुं० गुणनिधि, नुनि-विशेष-
नाम; (प० च० ८२, ६५) । —परिमिअ
वि० (सं० गुणपरिमित) गुणों से वेष्टित;

(जंबू० ३, ६, १) । —बंध पुं० मेख-
लाबन्ध, रस्सी, डोरी; (जंबू० १०, १८,
११) । —भाय वि० (सं० गुण + भाग)

गुणभाजन; (जंबू० ५, १३, ३०) ।
—मंत वि० गुणवान्; (प्रा० पै० २,
१४६) । —मन्ता वि० गुणवान् (की०

२, १३४) । —मंदिर वि० (सं० गुणम-
न्दिर) गुण-निधान; (जंबू० ३, २, १२) ।
—वंत वि० (सं० गुणवत् > प्रा० गुण-

वंत) गुणी, गुण-युक्त; (प्रा० पै० २,
४४) । —वंति वि० (सं० गुणवती)

गुणवान; (प्रा० पै० १, १७१) । —वई
स्त्री० वानररानी; (प० च० ६, ६६) ।

—सीला वि० (सं० गुणशीला) गुणों से
युक्त; (जंबू० २, ११, ७) । —हार
पुं० हार की लड़; (जंबू० ८, १६,
६) ।

गुणंति—कि० डोरी चढ़ाना; ‘गुणंति
घणु’ धनुष पर डोरी चढ़ाना; (महा०
६६, १३, ६) ।

गुणक्खय—पुं० (सं० गुण + क्षय) गुणों
का क्षय; (रा० ६, १४, ३) । —ठान

(गुणठान—पुं० (सं० गुण + स्थान)
आत्मा की उन्नति की चौदह अवस्थाएँ
वतायी गई हैं, जिन्हें गुणस्थान कहा जाता

है; (ण० १, १२, ११) । —धम्म (गुण-
धम्म) पुं० (सं० गुण + धर्म) पुरुष-
विशेष; (ण० १, २, ४) । —वइ स्त्री०

(सं० गुणवती) स्त्री-विशेष (ण० ७, ४,
६) ।

गुणगुणंति—कि० (सं० गुणगुनाय्) ध्व-
न्यात्मक, गुणगुनाना; “चाउदिसु मसया
गुणगुणंति,” चारों दिशा में मशक

(मच्छर) गुणगुनाए; (सुद० ११, १५,
७) ।

गुणग्गल—वि० (सं० गुणार्गला) गुण-
शालिनी, “मरिवि जसोहहो पत्ति गुण-
ग्गल हुई चंदलच्छि चंदुज्जल,” अर्थात्

वह जीव मरकर यशोध राजा की गुण-
शालिनी, चंद्र के समान उज्ज्वल चंद्र-
लक्ष्मी नामक पत्नी हुई; (जस० ४, २७,
३) ।

गुणाणिकेअ—वि० (सं० गुणानिकेत)
गुणों का घर; (क० २, २, ८) ।

- गुणाणियर—वि० (सं० गुणनिकर) १, १५, ४) ।
- गुणों का समूह; (क० ५, १८, ४) ।
- गुणणिलअ—वि० (सं० गुणनिलय) गुणों का निधान; (क० ३, १६, ६) ।
- गुणणिहाखु—वि० (सं० गुणनिधान) गुणागार, गुणी; (व० १, १०, ११) ।
- गुणभरिध—वि० (सं० गुणभृत) गुणों से भरपूर; (क० १, १५, ११) ।
- गुणमह—स्त्री० (सं० गुणमति) १. दाशरथी भरत की प्रणयनी; (प० च० ८०, ५) । २. वणिक् पुत्री का नाम; (प० च० १०३, ६) ।
- गुणमाला—स्त्री० विद्याधर राजपुत्री; (प० च० ५४, ४२) ।
- गुणमेलअ—वि० (सं० गुणमेलक) गुणसमूह; (जस० १, २३, ३) ।
- गुणमोयण—वि० (सं० गुणमोचन) गुणों का अपहरण करने वाले, "तं भोयणु गुणमोयणु पिसुणसमानउ दीसइ;" (जस० २, २३, १३) ।
- गुणरसाइ—पुं० (सं० गुण + रस + आदि) रसादि गुण; (जस० ४, १३, ४) ।
- गुणराइय—वि० (सं० गुण + राजित) गुणों से शोभायमान; (जस० ४, २४, २५) ।
- गुणलच्छि—स्त्री० (सं० गुणलक्ष्मी) गुणों रूपी लक्ष्मी; (व० २, ५, १५) ।
- गुणवंत—वि० (सं० गुणवत् > प्रा० गुणवंत) गुणी, गुण-युक्त, गुणवान् (भ०; महा० ६६, १३, १२) ।
- गुणवमाल—वि० गुणों से भरपूर; (क० १, १५, ४) ।
- गुणवय—न० (सं० गुणवत् > प्रा० गुणव्य) जैन गृहस्थ को पालने योग्य व्रत-विशेष; (भ०) ।
- गुणवल्ली—स्त्री० रानी-विशेष-नाम; (प० च० १३, २६) ।
- गुणविणीय—वि० (सं० गुणविनीत) गुणविनीत, विनम्र; (क० ५, १६, ७) ।
- गुणसम्मुदा—स्त्री० दाशरथी भरत की प्रणयिनी; (प० च० ८०, ५२) ।
- गुणसायर—वि० (सं० गुणसागर) गुणों का समुद्र, गुणों से भरा; (जस० ४, २७, १) । पुं० मुनि-विशेष-नाम; (प० च० २१, ७१) । —गुणसायर वि० गुणों का सागर; (व० २, १, १०) ।
- गुणसिधु—वि० (सं० गुणसिन्धु) गुणों का समुद्र; (जस० ४, २८, १) ।
- गुणसेडि—स्त्री० (सं० गुणश्रेणि) गुण की सीढ़ी "गुणसेडिठाणेण, जोइ व्व णाणेण," अर्थात् गुण की सीढ़ी पर चढ़ने से योगी का अज्ञान दूर हो जाता है; (जस० १, १७, ४) ।
- गुणहणणि—वि० (सं० गुणहननी) गुण-घातिक, (जस०) ।
- गुणाणुरक्त—वि० (सं० गुणानुरक्त) गुणों में अनुरक्त, "विहिय गुणाणुरक्त मेइणि-वहु," अर्थात् पृथ्वी रूपी वधु को गुणों से अनुरक्त कर लिया; (व० २, २, ४) ।
- गुणायर—वि० (सं० गुणाकर) गुणों की खान; (क० ३, ३, ११) ।
- गुणाल—वि० (सं० गुणवत् > प्रा० गुणि-

ल) गुणी (पुरुष), गुण-युक्त; (ण० ३, ३, ६; क० १०, २७, १) ।

गुणासिउ—वि० (सं० गुणाश्रित)

गुणाश्रित; (व० ४, २२, १३) ।

गुणिअ—वि० (सं० गुणित > प्रा०

गुणित) पठित, शिक्षित; (ण० २, १, ७) ।

गुणिय—वि० (सं० गुणित) अम्यस्त;

(जस० १, २४, ६) ।

गुणु—पुं० न० (सं० प्रा० गुण) उप-

कार, भलाई; (प० च० १२, ५, ११) ।

गुण्डा—पुं० (फा० गुंदः) खमीरी आटे

का फूना हुआ गोला; (की० २, १७४)

गुत्त—पुं० न० (सं० गोत्र > प्रा० गोत्त,

गुत्त) गोत, वंश, कुल, जाति; (जंबू० ८, १०, १२) । वि० (सं० गुत्त > प्रा०

गुत्त) गुत्त, प्रच्छन्न; (जंबू० ८, १६, ६;

ण० ६, २५, १६) ।

गुत्तण्हाण—न० (दे०) पितृ-तर्पण; (दे०-

ना० मा० २, ६३) ।

गुत्तापर—पुं० (सं० गोत्राचार) खान-

दान का आचरण; (जंबू० ८, १२, ६) ।

गुत्ति—स्त्री० (सं० गुत्ति > प्रा० गुत्ति)

कंदखाना; (ण० १, १२, ४) । स्त्री०

(दे०) १. बंधन; २. सिर पर पहनी

जाने वाली फूल की माला; (दे० ना०-

मा० २, १०१) ।

गुत्तितउ—पुं० (सं० गुत्तित्तय) मन,

वचन और शरीर को अद्युभ प्रवृत्ति से

रोकना; (जंबू० १०, २०, ७) ।

गुती—स्त्री० (सं० गात्री, गात्रिका)

गांती, वह चद्दर जिसे प्राचीन काल में

लोग अपने सिर पर लपेटते थे और अब

भी साधु लोग अपने गले में बाँधे रहते

हैं। स्त्रियाँ वच्चों के गले में अब भी

बाँधती हैं, (दे० ना० मा० २,

१०१) ।

गुत्यंड—पुं० (दे०) पक्षी-विशेष; (दे०-

ना० मा० २, ६२) ।

गुत्य—वि० (सं० ग्रथित > प्रा० गुत्य)

गूथी हुई, गुम्फित; (विला०) ।

गुद—पुं० स्त्री० (सं० गुद न०) गुदा,

मलद्वार; (दे० ना० मा० ६, ४६) ।

गुन—पुं० न० (सं० प्रा० गुण) गुण;

(की० १, ७६) ।

गुनिज—क्रि० (सं० गुणय् > प्रा० गुण)

स्मरण करना, सोचना, चिन्ता करना;

(की० ३, ५२) ।

गुन्ड—क्रि० (सं० गुणय् > प्रा० गुणइ

> अप० गुणइ) आवृत्ति करना, याद

करना; (की० २, १७) ।

गुप्पंत—न० (दे०) १. शय्या २. वि०

रक्षित; ३. समूह, घबड़ाया हुआ, व्या-

कुल; (दे० ना० मा० २, १०२) ।

गुप्पन्त—वि० (दे०) स्त्री० गुप्पन्ती;

व्याकुल; (प० च० ४६, ४, ३) ।

—उ वि० ढका हुआ, "रसणा-हार-दाम-

गुप्पन्तउ" अर्थात् 'करघनी, हार और

मालाओं से ढका हुआ,' (प० च० २०,

१०, ५) ।

√गुप्प—(सं० गुप् > प्रा० गुप्प) व्या-

कुल होना; —इ व० (ण० ५, ६, ८) ।
गुप्पमाण—कृ० (सं० गुप्पमान); (ण० ८,
१५, ८) ।

गुप्पविअ—वि० (सं० गोप्य > प्रा०
गुप्प) गोपित, छिपाने योग्य; (क० १०,
१३, १) ।

√गुप्प—(दे०) निकलना “अंताइं
गुप्पति, रुहिरैण थिप्पति,” अर्थात् अंति
निकल रही हैं, रुधिर से सन रही हैं;
(क० ३, १५, ८) ।

गुप्फाविय—क्रि०, भू० का० (सं० गुल्फा-
यित) गुल्फ बन गए; “चलणलुलंत-अंत-
गुप्फाविय,” अर्थात् उनके पैर काट
लिये जाने से अंतों के गुल्फ बन गए;
(जंबू० ६, १४, १२) ।

गुफगुमिअ—वि० (दे०) सुगंध-युक्त;
(दे० ना० मा० २, ६३) ।

गुमगुम—क्रि० (सं० गुमगुमाय् > प्रा०
गुम-गुम, गुमगुमाअ) गुमगुम आवाज
करना, (ए० २, १४, १०) । (सुदं०
११, १२, ६; जस० २, २७, ५) ।
गुमगुमंत-व० कृ० गुनगुनाते हुए; (हं०
१७, ३) । गुमगुमंति—गुन-गुन करना;
(विला०) । गुमुगुमुगुमंत-व० कृ० गुन
गुनाते हुए; (ण० २, १४, ३) । गुमुगु-
मुगुमन्त-व० कृ० (ध्वन्यात्मक) गुम-
गुम करते हुए (humming); (प० च०
४०, १६, ६) ।

गुमगुमिय—वि० (सं० गुमगुमायित >
प्रा० गुमगुमाइय) जिसने गुम-गुम
आवाज किया हो वह; (सुदं० ६, ११,
४) ।

गुमिल—वि० (दे०) १- मूढ़, मुग्ध,

२. गहन, गहरा; ३. प्रस्खलित,
४. आपूर्ण, भरपूर; (दे० ना० मा० २,
१०२) ।

गुम्म—पुं० न० (सं० गुल्म) सेना-
विशेष, जिसमें २७ हाथी, २७, रथ, ८१
घोड़ा और १३५ प्यादा से ऐसी सेना;
(प० च० ५६, ५) ।

गुम्मइअ—वि० (दे०) १. मूढ़, मूर्ख;
(दे० ना० मा० २, १०३) । २. पूर्ण
किया हुआ; ३. स्खलित, ४. मूल से हटा
हुआ; ५. विघटित, वियुक्त; (दे० ना०-
मा० २, १०३) ।

गुम्मिअ—वि० (दे०) मूल से उखड़ा
हुआ, उन्मूलित; (दे० ना० मा० २,
६२) ।

गुम्मी—स्त्री० (दे०) इच्छा, अभिलाषा;
(दे० ना० मा० २, ६०) ।

गुम्मु—पुं० न० (सं० गुल्म > प्रा०
गुम्म) लता, बल्ली, वनस्पति-विशेष;
(व० ४, २२, ३) ।

गुरु—वि० (सं० प्रा० गुरु) बड़ा, महान्;
(सं० रा०) । २. शिक्षक (उ० व्य० प्र०
५०-२३) । ३. द्रोणाचार्य; “गुरु आस-
त्थाम-कलिगचार,” (भारत रणभूमि)
गुरु (द्रोणाचार्य) अश्वत्थामा और कलिग-
राज के संचरण से युक्त थी; (जंबू० ५,
८, ३२) ४. वृहस्पति; (व० १०, ३४,
१७) । —लोए पुं० गुरुजन; (की० २,
२३) । गुरुव—देखो गुरु: ‘जो गुरुवे
साहीणे धम्मं साहेइ पोढवुद्धिओ,’ (प०
च० ६, ११४) । —गुरुक; (प्रा० पं०
१, २१) । —अर वि० (सं० गुरुतर)
तुलनात्मक रूप से अधिक भारी; (प०

च० ४, १०, ६) । —कमारूढ वि० (सं० गुरुकमारूढ) गुरु परंपरा-प्राप्त; (जस०) । —क्क वि० (सं० गुरु+क) महत्; (जस० १, १४, ४) । —क्कउ वि० [सं० गुरु+क (स्वार्थे) > प्रा० गुरुअ] महान्, बड़ा; (सुदं० ११, १३, १२) । —क्किय वि० (सं० गुरुकृत) महान्; (सुदं० ८, ७, ३) । —क्की वि० (सं० गुर्वी > प्रा० गरुई, गरुगी) बड़ी “जाय जिणहो” ता सङ्क गरुक्की,” अर्थात् जिनको बड़ी शंका हुई; (प० च० २, १०, १) । —जुअल पुं० (सं० गुरुयुगल) (छंदशास्त्र में) द्विगुरु चतुष्कल (५५) का नाम; (प्रा० पं०) । —ता स्त्री० गुरुता (प्रा० पं० १, ४१) —दक्खिण्ण स्त्री० गुरुदक्षिण; (रि० ४; ५) । —पंथः पुं० (सं० गुरुपथ) दीर्घयात्रा; लंबा पथ; (जंबू० १०, ८, १२) । —यण पुं० गुरुजन; (जस० २, १५, १०) । —यरु वि० (सं० गुरुतर) (व० १, १७, १६) ॥ —व पुं० विवाह-भोज; तुल० गु० गोरव; (प्रा० गु० ११, १७) । २. वि० (सं० गुरुक) भारी, “गुरुवपवाहपड्डिउ गउ सायरे;” (जंबू० ६; ५, ७) । —हर पुं० (सं० गुरु-भर) भारी वजन या बोझ; (प० च० ७, १०, ८) ॥ —हार वि० (सं० गुरुभारा = किसी भी भार को धारण करने वाली स्त्री) गभंवती, “गुरुहार हूअ एत्तहे विसइ” अर्थात् ‘यहां वह सती गभंवती’ हो गई; (प० च० १६; १; ६) टि०—मूल अर्थ में-परिवर्तन । २. वि० (सं० गुरुभार), अधिक भार; (जंबू० ४, ७, ३) ।

गुल—न० (दे०) चुंबन; (दे० ना० मा० २, ६१) ।

गुलखेड—पुं० ग्राम-विशेष; (जंबू० १, ४, १) ।

√गुलगुल—(सं० गुलगुलाय > प्रा० गुलगुल) हाथी का हर्ष से गरजना, गुल-गुल आवाज करना । —इ अक० (भ०) ।

गुलगुलंति—क्रि० (सुदं० ११, १५, १०) । गुलगुलंतं—व० कृ० (सं० गुलगुलाम+शतृ) कृ० (सुदं० ६, १६, २) । गुलगुलायति—कृ० (ध्व०) (प० च० १००, २०) । गुलगुलेवि—पू० कां० क्रि०, गुलगुल आवाज करते हुए (प० च० १०, १०, ६) । तुल० म० गुल-

गुल ।

गुलामा—पुं० गुलाम, सेवक, नौकर-चाकर; “गोहन नहि पावहि वथ्यु नचा-वहि भूलल भुत्तहि गुलामा;” अर्थात् अपने घरों या डेरों को पहचानने में भूले हुए गुलाम या सेवक इधर-उधर घूमते रह जाते थे; (की० ४; ११७) । गुलामो पुं०, व० कर्त्ताकारक (की० २, १६६) ।

गुलिअ—वि० (दे०) मथित, विलोडित; (सं० दे० ना० मा० २; १०३; सुदं० ६, १६, १२) ।

गुलिआ—स्त्री० (दे०) १. गेंदे, कंदुक; २. गुच्छा; (दे० ना० मा० २, १०३) । गुलिया स्त्री (दे०) कंदुक, पत्थर की गेंदे; (क० ७; ५, ११) ॥

गुलियउ—पुं० (सं० गुलच्छ > गुलु-च्छ) गुच्छा, स्तवक; “जहि दक्ख रसा-लउ । गुलियउ अमरेहि मि । ईहि (य) ।

उ; "अर्थात् जहाँ मीठी द्राक्षा लताएँ हैं, जिनके गुच्छे देवों के द्वारा चाहे गए हैं"; (प० च० ६, ५, ६) ।

गुलिया—वि० (सं० गुल पु० = गुड) मधुर, "गुल नामिहिं पिययम लियइ, कि मुह गुलिया हुंति;" (प्रा० गु० ६, १६) । —रभ वि० मधुरतर; तुल० गु० गुळयु = मिठाई; (प० च० ५०, ११, १४) ।

गुलियाठाण—पु० (सं० गुलिका + स्थान) गुटिका रखने का स्थान, "गुलियाघुगु विणोएँ कामे किउ, गुलियाठाणु नाहिमंडल किउ;" अर्थात् उनका नाभि-मंडल ऐसा प्रतीत होता था, मानो काम-देव ने विनोदपूर्वक गुलिया-धनुष (गुल्ल) बनाया हो, जिसमें उनका नाभिमंडल तो गुलिया था; (जंबू० ४, १३, १३) ।

गुली-गुहाडा—पु० (दि०) हल्ला; तुल० मगही गुल-गुहाड (शबरपा, चर्यापद) ।

गुलुछ—पु० (सं० गुलुच्छ > प्रा० गुलुछ) गुच्छ, गुच्छा; (दि० ना० मा० २, ६२) ।

गुलुगु छिभ—वि० (दि०) वाड़ से अंत-रित या ढका हुआ या पृथक् किया हुआ; (दि० ना० मा० २, ६३) ।

√गुलुगुल—चिघाड़ना; —न्ति व०, व० (प० च० ३२, ३, ७) ।

गुलुछ—वि० (दि०) भ्रमित; घुमाया हुआ, फिराया हुआ; (दि० ना० मा० २, ६२) ।

गुल्लिणी—स्त्री० (सं० गुल्लिणी) गंध-

वती स्त्री; (प्रा० पं० १, ६५) ।

गुसुव—पु० (सं० गो + सुत) बछड़ा; (सि० १, ६) ।

√गुह—(सं० गुह संवरणे, √गुह > प्रा० गुह; सं० गूहति) छिपाना, गुप्त रखना; (उ० व्य० प्र० ४६-२८) ।

गुह—पु० (सं० प्रा० गुहा) गुफा, कंदरा; (प० च० १६, ६, ६; जस० ४, १६, ११) । —मुह पु० (सं० गुफा-मुख) गुफा का प्रवेश-द्वार; (व० २, ८, ६) ।

गुहिर—वि० (सं० गम्भीर > प्रा० गुहिर) गहरा, सघन, रहस्यमय, कठि-नता से समझने योग्य । (सं० रा०) ।

गुहिल—वि० (दि०, प्रा० गुहिर) गहन, गहरा; (प० च० २७, १४, ६) ।

गुहिलु—वि० व्याप्त, "पवलङ्कुरु इन्द-णील-गुहिलु"; अर्थात् 'प्रवालों और इन्द्रनील से व्याप्त है,' (प० च० ६, ५, ३) ।

गूफ—(सं० गुत्फ ग्रन्थे to string together) बांधना, गूथना; (उ० व्य० प्र० ५१, ३७) ।

गूपा—पु० (सं० गुवाक = the betel nut tree) एक प्रकार की सुपारी; (रा० २२) ।

गूगुलिभा—स्त्री० ब्राह्मण-जाति-विशेष, तुल० गु० गूगळी; (प्रा० गु० ७, ५) ।

गूजरदेसु—पु० (सं० गूजंरदेश) गुजरात; (प्रा० गु० ७, १०) ।

- गूढ—वि० (सं० प्रा० गूढ) गुप्त, प्रच्छन्न; (भ०) । —तण पुं० (सं० गूढ-त्व) गहनता, जिससे कोई अर्थ छिपा हुआ हो; (ण० १, १७, ५) । —पुरिस पुं० (सं० गूढपुरुष) जासूस, भेदिया, गुप्तचर; (प० च० १६, १, १) । —मंदिर पुं० (सं० [गूढमन्दिर] मंत्रणाक्षय; (व० ४, ११, १२) ।
- गुणि—स्त्री० (सं० गौणिक > प्रा० गौण) गौण, एक प्रकार का बीरा; (म० १, १४, ७) ।
- गूतउ—वि० (दे०) ध्याकुलीकृत; “ससि-वयणि-गूतउ, मेह-कलि खूतउ, रंगि निर-खइ निखूतउ;” (प्रा० गु० २०, ३) ।
- √गृणह—(सं० ग्रह उपादाने) प्राप्त करना । —इ सक० (सं० गृह्णाति) ग्रहण करना; (हे० ३३६, १) ।
- गेंठि—स्त्री० (सं० ग्रन्थि > प्रा० गेंठि) गाँठ; (की ३, ३३) ।
- गेंदुल्ल—न० (दे०) कञ्चुक, चोली; (दे० ना० मा० २, ६४) ।
- गेंडुई—स्त्री० (दे०) क्रीड़ा, खेल; (दे० ना० मा० २, ६४) ।
- गेअ—न० (सं० गेय > प्रा० गेअ) गीत; (जंबू० १०, ८, ६) । —रव पुं० (सं० गेय + रव) गीतरव; (जंबू० ६, २, ६) ।
- गेग्गडु—पुं० (ध्वन्यात्मक) ढोल के पीटने की आवाज; (प० च० ५६, १, ११) ।
- गेज्ज—न० (सं० गीत > प्रा० गीय) गीत, “मणोज्ज गेज्ज पन्तिणो,” जैसे सुंदर गीत पंक्तियाँ हों, (प० च० १७, १६, ८) । वि० (दे०) मथित, विलो-द्वित; (दे० ना० मा० २, ८८) ।
- गेज्ज—न० (सं० ग्रैवेयक) हार, कंठा; (प० च० २६, १३, ३) । —ल न० ग्रीवा का आभरण; (दे० ना० मा० २, ६४) ।
- गेज्ज—वि० (सं० ग्राह्य > प्रा० गेज्ज) ग्रहण-योग्य; (जस० ३, २२, ४) ।
- गेड्ड—न० (दे०) १. पंक, कीच; २. यव, अन्न-विशेष; (दे० ना० मा० २, १०४) ।
- गेणिहअ—न० (दे०) स्तनाच्छादक वस्त्र; (दे० ना० मा० २, ६४) ।
- √गेण्ह—(सं० √ग्रह् > प्रा० गह) —इ क्रि० व० (सं० गृह्णाति) गेण्हंत—व० कृ० (सं० गृह्णात्) ग्रहण कर; (ण० ५, ७, २) । गेण्हि—पू० का० क्रि०; लेकर; (ण० ३, ८, १५) । गेण्हे—वि० पू० का० क्रि० (प० च० २, ११, ६) । गेण्हेविणु—पू० का० क्रि० (सं० ग्रह + एविणु (व० २, १६, १०) । गेण्हु—भू० कर्म कृ०; (प्रा० पं० २, १२७) ।
- गेण्हण—न० (सं० ग्रहण > प्रा० गेण्हण) आदान, ग्रहण; (प० च० २५, १७, ३) ।
- गेदधु—पुं० (सं० गृध्र > प्रा० गिदध) गिदध, पक्षी-विशेष; (व० ५, १२, १३) ।
- गेय—पुं० (सं० गेय > प्रा० गेअ न०) गान, गीत; “गोवालगेयरंजियमणेण;” अर्थात् वहाँ ग्वालों के गीतों से मनोमुग्ध होकर; (जस० १, ३, १४) ।
- गेयाइ—न० (सं० गेय > प्रा० गेअ) गान; (प० च० २, ४, ३) ।
- गेरुअ—वि० (सं० गैरिक > प्रा० गेरिअ)

गेरुआ, गेरु रंग का; (व० ५, १३, १०) ।

गेल—भू० का० (सं० $\sqrt{\text{गम}} > \text{प्रा०}$ गच्छ) गया, गए; तुल० मगही गेल (कुक्कुरीपा, चर्यापद; की० ३, ३६) । टि०—अवहट्ट भाषा में 'ल' प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में किया गया है । इसके दो रूप मिलते हैं, १. कहल, चलल आदि; २. गेल, भेल आदि ।

गेवज्ज—न० (सं० ग्रैवैयक > प्रा० गेदिज्ज, गेवेज्ज, गेवेज्जय) ग्रैवैयक देवों का विमान; (जंबू० ११, १२, ५) २. स्वर्ग; (व० १०, २०, १६) ।

गेवेज्जिअ—न० (सं० ग्रैवैयक > प्रा० गेदिज्ज, गेवेज्ज, गेवेज्जय) ग्रैवैयक देवों का विमान; (जंबू० ११, १२, २) ।

गेह—न० (सं० प्रा० गेह) घर, मकान; (प० च० १, १६, ५; प्रा० पैं० २, ६६; जस० १, २६, १७) । गेहु, (सा० १८४) ।

गेहस्य—पुं० (सं० गृहस्य) ब्रह्मचर्य-पालन के पश्चात् विवाह करके दूसरे आश्रम में प्रवेश करने वाला, गृही । घर-वार वाला; (प० ६, २०, १६) ।

गोहालु—वि० (सं० गेहवत्) घरवाला, गृहस्य, गृहस्याश्रमी; (प० च० ३१, ८३) ।

गेहिणि—स्त्री० (सं० गेहिनी > प्रा० गेहिणी) गृहिणी, स्त्री; (जस० ३, २७, १२) ।

गोछ—पुं० (सं० प्रा० गुच्छ) गुच्छा, स्तवक; (प० १, ६, १२) ।

गौजी, गौठी—स्त्री० (दे०) मंजरी,

वीर; (दे० ना० मा० २, ६५) ।

गोंड—न० (दे०) कानन गोंड देश का जंगल, तुल० ते० कोन्ड; (दे० ना० मा० २, ६४) ।

गोंडी—स्त्री० (दे०) मंजरी; वीर; (दे० ना० मा० २, ६५) ।

गोंदल—पुं० (सं० गुन्दल = मूदंग का शब्द; प्रा० गुंदल = खुशी की आवाज) आक्रंद, घोर संग्राम; 'सुहडगोंदलुदाम-कलयल'—घोर संग्राम में अच्छे-अच्छे योद्धाओं की पंक्तियाँ टूट गई; (प० ४, १०, ७) । गोन्दल—न० १. आनंद ध्वनि; (प० च० २४, २, २) ।

२. सुरत (संभोग) व्यापार संग्राम; (प० च० २६, ५, ८) । ३. अव्यवस्थित जनसमूह; (प० च० ४०, ७, ३) ।

गोंदलिय—वि० (सं० गुन्दल > प्रा० गुंदल) खुशी में लीन, "जहिँ मणहरमर-गयहरियपिछ, मायंदगोछि गोंदलिय रिछ" और जहाँ मरकत मणि के समान मनो-हर हरे पंखों से युक्त शुक आमों के गुच्छों पर आनंद-मग्न दिखाई पड़ते हैं; (प० १, ६, १२) ।

गो—स्त्री० (सं० प्रा० गो) १. धेनु; (जस० १, ३, ६) । २. जल; (जंबू० २, ५, ३) । ३. नेत्र; (प० च० २६, १०, १०) । पुं० (सं० गः) गुरु वर्ण (५); (प्रा० पैं० २, १) । —इल्ल वि० (सं० गो + मत्) गो-युक्त, जिसके पास अनेक गाय हों वह; (दे० ना० मा० २, ६८) ।

गौअंट—पुं० (दे०) गौ का चरण,

२. स्थल में होने वाला शृङ्गाट का वृक्ष;
(दे० ना० मा० २, ६८) ।

गोअग्गा—स्त्री० (दे०) रथ्या, मुहल्ला;
(दे० ना० मा० २, ६६) ।

गोअला—स्त्री० (सं० गोपालक > प्रा०
गोवालअ) दूध बेचने वाली स्त्री ग्वालिन;
(दे० ना० मा० २, ६८) ।

गोआ—स्त्री० (दे०) गर्गरी, कलशी,
छोटा घड़ा; (दे० ना० मा० २, ८६) ;

गोआल—पुं० (सं० गोपाल) मध्यगुरु
चतुष्कल (।।।); (प्रा० पै० १,
२५) ।

गोआलिआ—स्त्री० (दे०) तीन चार
अंगुल लंबा एक बरसाती कीड़ा जिसे
घिनौरी या गिजाई भी कहा जाता है
(प्रावृषि कीट-विशेषः) (दे० ना० मा०-
२, ६८) ।

गोआसण—स्त्री० गोशाला; (सं०
रा०) ।

गोइ—वि० गुप्त “राअ चरित्त रसाल
एहु एाह न राखहि गोइ;” (की० १,
५८) ।

गोउर—न० (सं० गोपुर > प्रा० गोउर)
नगर का दरवाजा; (प० अ० १, ७, ७;
जंबू० १, ६, १) ।

गोउल—न० (सं० गो + कुल > प्रा०
गो + उल) गौओं का समूह; (ण० ८,
१६, ६) ।

गोचरिअ—क्रि० गोचर करना, साक्षात्
भेंट करना; (की० ३, ६) । —उँ भू०-
का० भेंट की; (की० ३, १५२) ।

गोच्चय—पुं० (दे०) कोड़ा, चाबुक,
वह बटे हुए चमड़े की डोर जिससे जान-

वरों को चलाने के समय मारते हैं;
प्राजन-दण्ड (कोड़ा, चाबुक, अंकुश);
(दे० ना० मा० २, ६७) ।

गोच्छ—पुं० (सं० प्रा० गुच्छ, प्रा०
गुच्छय) गुच्छा, मंजरी; (प० अ० ६,
६, ५) ।

गोच्छा—स्त्री० (सं० प्रा० गुच्छ > प्रा०
गुच्छय) मंजरी, वीर; (दे० ना० मा०-
२, ६५) ।

गोज्ज—पुं० (दे०) गवैया, गायक;
(प० अ० ८५, १६) ।

गोट्टओ—पुं० (सं० गोष्ठी > प्रा० गोट्टि
> अव० गोट्ट, गुट्ट) समूह; (की० २,
२१२) ।

गोट्ट—पुं० (सं० गोष्ठी > प्रा० गोट्ट)
गायों के रहने का स्थान, गोयान,
गोवाड़ा; (जंबू० ८, १५, ११) । गोट्ट-

ठंगण—पुं० (सं० गोष्ठी + आङ्गन)
गोठ-प्रांगण; (जंबू० १, ७, ६) । “जिह
गोट्टङ्गणे मणि-रयण-वत्थु;” अर्थात्
‘जिस प्रकार गोठ प्रांगण में मणि, रत्न
और वस्त्र; (प० अ० ४, १, २) ।

गोट्टि—स्त्री० (सं० गोष्ठी > प्रा०
गोट्टि) (मण्डली, समान वय वालों की
सभा; (सुदं० १०, ६, १) ।

गोठिय—पुं० (सं० गोष्ठीक > प्रा०
गोट्टिल्लय) एक मण्डली के सदस्य,
समान-वयस्क; “अभिह धुरि गोठिय आव-
युह आगे अछह निवारु;” (प्रा० गु० ७,
२३) ।

गोडं—पुं० (दे०; प्रा० गोड) पाद,
चरण, पैर; ‘गोडं धरि कूकुर भित्ति
अभेड’ —चरणों धृत्वा श्वानं भित्तावा-

म्येडयति; (उ० व्य० प्र० ५०-१८) ।

गोड—पुं० १. (सं० गौड > प्रा० गोड) देश-विशेष; (म०) । २. गौड देश का राजा (प्रा० पं० २, १३२) । —राज गौड देश का राजा, (प्रा० पं० २, १११) । —हिंविइ पुं० (सं० गौडाधिपति) गौड देश का राजा; (प्रा० पं० १, १२६) ।

गोण—पुं० (दे०) साक्षी; (दे० ना० मा० २, १०४) ।

गोणा—स्त्री० (दे०) गाय, गैया; (पड्) ।

गोणिकक—पुं० (दे०) गायों का समूह; (दे० ना० मा० २, ६७) ।

गोती—वि० (सं० गोत्रिन् > प्रा० गोत्ति) समान गोत्र वाला, कुटुम्बी; “जे साजण ते खल वियई गोती तूका गोताचारा; (प्रा० गु० ५, ३०) ।

गोत्तकली—स्त्री० (सं० गोत्र-कलह) वंश, कुल अथवा जाति की कलह; (सुदं० ३, १, ६) ।

गोत्त—पुं० न० (सं० गोत्र > प्रा० गोत्त) गीत, वंश, कुल जाति; (जस० १, १, ३; जंबू० ८, ७, १६) । —वंचव वि० (सं० गोत्र-वान्चव) अपने गीत के लोग, सगोत्र वांचव, (प्रा० पं० १, ३, ७) । —वइ-स्त्री० (सं० गोत्रवती) गोत्रवती नामक स्त्री; (जंबू० ४, २, ३) ।

गोत्तकज—पुं० (सं० गोत्र + क्रम) वंश, गीत का क्रम; (ए० ६, ८, ६) ।

गोत्तमु—पुं० (सं० गीतम) व्यक्ति-नाम-विशेष, गीतम (द्विज); (व० २,

१८, १०) ।

गोदा—स्त्री० (सं० प्रा० गोदा) गोदा-वरी, दक्षिण भारत की एक नदी; (पड्) ।

गोदाण—पुं० (सं० गोदान) गाय का दान; (जस० ३, ६, ३) ।

गोदुह—पुं० [सं० गोदोह = गाय का दोहन (जो उकड़ू बैठकर किया जाता है)] उकड़ू आसन, “गयसुंडयगोदुहआसणेहिं, दिणपक्खमासकयपारणेहिं;” अर्थात् वे स्थित होते थे तो गजगुण्ड (सीधे खड़े) या गोदुह (उकड़ू आसन) से । वे आहार करते थे एक दिन या एक पक्ष या एक मास के अंतर से; (जस० ४, १६, १२) ।

गोघण—पुं० (सं० गो + घन) गायों का समूह; (जंबू० १, ६, १२) ।

गोघूम—पुं० (सं० गोघूम > प्रा० गोहूम) गेहूँ; (जंबू० ५, ८, २६) ।

गोपय—न० (सं० गोप्पद) गौ का खुर; (प० च० ४६, २, ४) ।

गोपुर—पुं० नगर का प्रधान द्वार; (की० २, ६७) ।

गोप्पय—पुं० गोपद, गाय के खुर से जमीन में पड़ने वाला गड्ढा, “जं अन्तर गोपयसायराहुं,” (जो अंतर गोपद और समुद्र में; (प० च० १८, ७, ५) ।

गोमूइ—पुं० विप्र-विशेष-नाम; (प० च० ५५, ३५) ।

गोमंडल—पुं० (सं० गौ (पृथ्वी) + मण्डल) १. गायों का संघात या समूह, २. पृथ्वीमंडल; (जंबू० १, ११ १३) ।

गोमठ—पुं० (फ्रा० गुम्बद, गुम्बज़) गुमठ, गुम्बज, मकबरा; (की० २, २०८) ।

गोमहा—स्त्री० (दे०) रथ्या (वह स्थान जहाँ कई एक सड़कें एक दूसरे को काटती हों, रथों के आने जाने का मार्ग या सड़क); मुहल्ला; (दे० ना० मा० २, ६६) ।

गोमय—पुं० (सं० गोमय) गोबर, गौ का गू; (जंबू० २, ६, २) ।

गोमाउ < पुं० (सं० गोमायु > प्रा० गोमाउ, गोमांअ) गीदड़; (प० च० ६६, १३) ।

गोमिणि—स्त्री० (सं० गोमिनी) गोपी; (जस० ३, ३, ३) ।

गोमुह—पुं० (सं० गो+मुख) गौ का मुँह; (सि० १, १७) ।

गोमेघ—पुं० (सं० गोमेघ > प्रा० गोमेह) यज्ञ-विशेष, जिसमें गौ का वध किया जाता है; (सि० १, ३४) ।

गोमेह—पुं० (सं० गोमेघ) गोसव यज्ञ, यज्ञ-विशेष, जिसमें गौ का वध किया जाता था, अश्वमेघ के प्रकार का एक यज्ञ । टि०—इस यज्ञ में गो से यज्ञ किया जाता था । इसका अनुष्ठान कलियुग में वर्जित है । मनु के अनुसार ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए गोभिल गृह्यसूत्र के अनुसार पुष्टिकामना से इस यज्ञ का अनुष्ठान होता है ।

गोयंगण—स्त्री० (सं० गोपाङ्गना) गोप जाति की स्त्री । पुं० गौओं का समूह; (सं० रा०) ।

गोयम—पुं० (सं० गौतम) गौतम, व्यक्ति-विशेष-नाम; (प्रा० गु० १०, ७) । २. महावीर के गणघर इंदुभूइ; (प० च० २०, ६३) ।

गोयर—वि० (सं० गोचर) भूमि में विचरने वाला, “मंसरतफेकरंतरक्ख-साण गोयर,” अर्थात् मांस के लोभ में विचरने वाले राक्षस फे-फे करते वहाँ फिर रहे थे; (क० १, १७, ६) ।

गोरंगी—वि० स्त्री० (सं० गौर+अङ्गी) गौर अंग वाली; (जंबू० ३, ३, ६) ।

गोरंफिडी—स्त्री० (दे०) गोधा, गोह, जंतु-विशेष; (दे० ना० मा० २, ६८) ।

गौर—वि० (सं० गौर) श्वेत वर्ण वाला । गौरी; (रा० १५) ।

गोरड—स्त्री० (सं० गौरी > प्रा० गौरी) शुक्ल-वर्णा-स्त्री; “अरे आगए तुह बलि जीतज्यो गोरड-करउ बालंभु । अरे इसई वचतु निसुणेविणु आणयउ रलिय वसंतु;” तुल० गु० गोरडी; (प्रा० गु० २१, ४) ।

गोरडित्त—वि० (दे०) ध्वस्त; (पड्) ।

गोरविअ—वि० (सं० गौरवित्) सम्मानित; (दे० ना० मा० ४, ५) ।

गोरस—पुं० न० (सं० प्रा० गोरस) दूग्ध, दूध; (जंबू० ८-१२) । —वियार-

पुं० १. (सं० गोरस+विकार) दही, मट्ठा आदि २. गो (वाणी) +रस+विचार) वाणी का विचार; (जंबू० १, ३, ३) ।

गोरा—स्त्री० (दे०) १. लाङ्गल (हल

के आकार का शहतीर या लट्ठा) रेखा; २. आँख, ३. ग्रीवा; (दे० ना० मा० २, १०४) ।

गौरि^१—स्त्री० (सं० गौरी > प्रा० गौरि) १. गौरवर्णा स्त्री; (जंजू० ४, १८, १२) । २. पार्वती; तुल० राज० गु० गौरी; (प्रा० पं० १, ३) । २. गाथा का भेद; (प्रा० पं० १, ६०) । ३. स्त्री-विशेष-नाम; (ण० ८, १२, ८) ।

गौरि^२—स्त्री० (फ्रा० गोर = कन्न, मृतक समाधि) कन्न; (की० २, २०८) ।

गोरू—पुं० (सं० गोरूप) सींग वाला पशु । गाय, बैल, भैंस इत्यादि चौपाया; "गोरू उवेल गोरूपाण्युद्वेलयति;" (उ० व्य० प्र० ५२-१५ की० ४, ८५) ।

गोल—पुं० (दे०) साक्षी; (दे० ना० मा० २, ६५) ।

गोलच्छ—वि० (दे०) पुँछकटा; (व० ४, ७, ५) ।

गोला—स्त्री० १. गोदावरी नदी-विशेष; (पं० च० ३१, ३, २; दे० ना० मा० २, १०४) । २. स्त्री० (दे०) गौ, गैया; (दे० ना० मा० २, १०४) ।

गोली—स्त्री० (दे०) मथनी, दही मथने की लकड़ी; (दे० ना० मा० २, ६५) ।

गोल्ली—स्त्री० (सं० गौल्य > प्रा० गोल्ल पुं०) गौल्य देश की स्त्री; (सुदं० ४, ६, ६) ।

गोल्हा—स्त्री० (दे०) विवी, वल्ली, विशेष; कुँदरुन का वृक्ष; (दे० ना० मा० २, ६५) ।

√गोव—(सं० गोपय् > प्रा० गोव)

छिपाना । —इ सक० (सं० गोपायति) छिपाना; (हे० ३३८) ।

गोवड्डण—पुं० (सं० गोवर्धन) व्यक्ति-नाम-विशेष, श्रेष्ठिनाम; (जस० ४, २३, २) ।

गोवद्वण—पुं० (सं० गोवद्वंन > प्रा० गोवद्वण) पर्वत-विशेष; (महापुराण; ण० ३, १७, १५) । २. नगर-विशेष; (प० च० २०, ११५) ।

गोवयण—पुं० (सं० गोवदन) गोमुख; (जंजू० ६, १६, १२) ।

गोवर—पुं० १. (सं० गोमल > प्रा० गोव्वर) गोवर, गाय, बैल आदि का मल (दे० ना० मा० २, ६६) । २. पुं० (सं० गोपुर), नगर का द्वार, शहर का फाटक; (सं० रा०) ।

गोवाल—पुं० (सं० गोपाल) १. पृथ्वी पालक राजा; २. गायों का पालक, ग्वाला; (जंजू० ५, ६, ५) ।

गोवि—स्त्री० (सं० (गोपी) ग्वालिनी; (जस० २, २, ६) । —उ स्त्री० (सं० गोपिका > प्रा० गोविआ) गोपांगना, अहीरिन; (रा० ८, १६, ६) । —हि स्त्री० गोपी; (उत्तरपुराण) ।

गोविअ—वि० (दे०) नहीं बोलने वाला; (दे० ना० मा० २, ६७) ।

गोविउ—वि० (सं० गोपित) गुप्त, छिपाया गया; (व० १०, ६, १२) ।

गोविद्धि—स्त्री० (सं० गो (भूमि) + पृष्ठ) भूमितल; "गोविद्धि णिविट्ठ णरिद सव्व," अर्थात् वे सभी नरेंद्र भूमितल पर बैठ गए; (जस० २, १३, ११) ।

गोविल्ल—न० (दे०) कञ्चुक, चोली;
(दे० ना० मा० २, ६४) ।

गोवी—स्त्री० (सं० गोपी) गोपिका;
(जं० ५, ६, ११) । २. (दे०) कन्या,
कुमारी, लड़की; (दे० ना० मा० २,
६६) ।

गोवोत्ति—पुं० (सं० गो + सं० गम् का
धात्वादेश वोल = चलना, गमन करना,
हेम० ४/१६२) गायों को हाँकने वाले,
गायों के साथ घूमने वाला; (की २,
१५१) ।

गोस—पुं० (दे०, प्रा० गोस) प्रभात,
सुबह; (सं० रा०; संधि० २, २०, ६) ।
—किरण स्त्री० (प्रा० गोस + सं० प्रा०
किरण) प्रभात किरण; (व० ४, ६,
५) ।

गोसग्ग—पुं० न० (दे०) प्रातःकाल,
प्रभात; (दे० ना० मा० २, ६६) ।

गोसण्ण—वि० (दे०) मूर्ख, (दे० ना०-
मा० २, ६७; पङ्) ।

गोसवि—वि० (सं० गो + स्वामिन्)
गोस्वामी, इंद्रियविजयी, “गोसवि जण-
णीगमणु विचित्तिउ” — इंद्रियविजयी
होकर भी जननी गमन की बात सोची;
(ण० ६, ६, ६) ।

गोसाउत्ति—पुं० (सं० गो + स्वामी)
स्वामियों को; (की० २, ११) ।

गोसामि—पुं० (सं० गो + स्वामी)
गोपालक, “वीएण वलहें दामिएण पडि-
भारिउ बोञ्जु गोसामिएण;” अर्थात्
दूसरे बंध में किए हुए (अभ्यस्त) बँल
पर गोस्वामी ने पुनः बोझ लादा; (जं०
५, ७, १५) ।

गोसामिणि—स्त्री०, व० (सं० गो
+ स्वामिनी) गोपियाँ; “घरेँ घरेँ जहिँ
नेउररवभामिणि, दावइ हंसहोँ गइ गोसा-
मिणि;” अर्थात् जहाँ घर-घर में नूपुर
ध्वनि करती हुई गोपियाँ हंसों को चलना
सिखलाती हैं; (जं० १, १०, ३) ।

गोसाला—स्त्री० जनपद-विशेष; (प०
च० ६८, ६५) ।

गोसिग—न० (सं० गोश्रुंग) गौ का
सिग; (जस० ३, २१, ६) । लो०—
गोसिगइँ कि दुट्टइँ सवति—गोश्रुंग से
क्या दूध झरता है? (जस०) ।

गोसीर—न० (सं० गोशिरस् अथवा
गोशीर्ष गोसीस) चंदन-विशेष; (प० च०
३४, १२, ६) ।

गोसुय—पुं० (सं० गोसुत) बँल; (जस०
२, २६, १६) ।

गोह—स्त्री० (सं० गोधा > प्रा० गोहा)
गोह, एक जंगली जंतु जो आकार में
नेवले से बड़ा होता है, प्राणि-विशेष;
(जस० ४, १६, १) । पुं० (दे०)
पुरुष; (जस० १, ५, ४) । पुं० (दे०)

१. गाँव का मुखिया; २. भट, योद्धा;
(दे० ना० मा० २, ८६; सुदं० ५, १,
७) । ३. जार, उपपत्ति; (प० च० २६,
५, ८) । —डिय स्त्री० गोधा; (प्रा०
गु० ४, १८) । —य स्त्री० गोधा; (जस०
१, १०, ७) । —याह, पुं० (सं० गोधा
+ ग्राह) गोह की पकड़; (सुदं० ८, ८,
११) । —। (गोहा) पुं० (दे०) ग्राम

प्रमुख, योद्धा, पुरुष । (रा० ६) ।

गोहण—पुं० (सं० गो + घन) १. गाय
रूपी घन, पशु घन; (ण० १, ६, ७) ।

२. पृथ्वी-घन; (जंबू० ण, ६, ५) ।
—णाह पुं० (सं० गोघन+नाथ)

ग्वाला; (क० ८, ३, ५) ।
गोहृत्तण—पुं० (दे०) पुरुषत्व, पीरुष;

(जंबू० ५, ४, ४) ।
गोहन—पुं० (दे०) संग, साथ; 'गोहन

नहि पावहि," पुकारना; अर्थात् वे साथ
नहीं पकड़ पाते थे; (की० ४, ११७) ।
√गोहराव—(सं० गो+ आह्वयति)

आह्वान करना, बुलाना, पुकारना; (उ०-
व्य० प्र० ७-६)

गोहा—स्त्री० (सं० प्रा० गोघा) गोह,
छिपकली की जाति का एक जंगलीजंतु
जो आकार में नेवले से कुछ बड़ा होता
है । टि०— इसकी फुफकार में बहुत विष
होता है । इसके काटने पर मांस गलने
लगता है और फिर शरीर में विष फैलने
के कारण मर जाता है; (दे० ना० मा०
२, ७३) । थलचर जीव; (व० १०, ८,
१५) ।

गोहाणिय—पुं० (सं० गोघानिक) गोघा-
निक नामक वणिक-विशेष; (प० च०
७७, १११) ।

गोहारि—स्त्री० [सं० गो+आकालयति
(=गायों की रक्षा के लिए बुलाना)>
गो आआरयइ>गोहारइ>गोहारइ]
रक्षा के लिए पुकार; (की० ४,
१५१) ।

गोहु—क्रि० (सं० गुह् > प्रा० गुह)
छिपाना, "ते वोल्लिउ कि महु अत्थि
गोहु"; तब उसने कहा—मुझसे क्यों
अपना मर्म छिपाती हो; (ण० ८, १३,
२) ।

गोहुर—न० (दे०) गोमय, गो-विष्टा;
(दे० ना० मा० २, ६६) ।

गोहूम—पुं० (सं० गोघूस>प्रा० गोहूम)
गेहूँ, अन्न-विशेष; (व० ८, ५, १०) ।

गोहेर—पुं० (सं० गौवेर, अमरकोश
द्वितीय काण्डम् श्लोक ६) जंतु-विशेष,
साँप की तरह का जानवर; (प० च०
४८, ६२) ।

गौरव—न० (सं० गौरव>प्रा० गौरव)
१. गुरुत्व, २. सम्मान; (की० २,
१३४) । 'गौरवे मान'—गौरवितान्
मानयति, मानति वा, (उ० व्य० प्र०
४२, २०) ।

ग्धविय—स्त्री० (दे०) शोकसूचक
ध्वनि; (जंबू० २, ५, १६) ।

ग्रास—पुं० (सं० ग्रास>प्रा० गास)
ग्रास, कवल, आहार; "न थिर वअण
न थोर ग्रास"; अर्थात् 'न तो वात का
पक्कापन था, न आहार का संयम था;
(की० ४, ६८) ।

घ

घ—पुं० (सं० प्रा० घ) कण्ठ-स्थानीय
व्यंजन वर्ण-विशेष ।

घंघ—पुं० (दे०) गृह, मकान; (दे०-
ना० मा० २, १०५) ।

घंघल—न० (दे०) झगड़ा, कलह; (दे०-
ना० मा० २, १०५; जस० २, ३१,
५) । २. दंगल; (व० ४, ३, १३) ।

—साल पुं० (सं० शाल > प्रा०
साला) अनाथालाय; (संघि० ५, २,
८) ।

घंघल—वि० (दे०) मंथन करने वाले
“परवल जलघंघल बलमंहत” -शत्रुबल
रूपी जल को मंथन करने वाले महान्
बलशाली ये; (ण० ४, १, १०)।

घंघोर—वि० (दे०) भ्रमणशील, भटकने
वाला; (दे० ना० मा० २, १०६)।

घंट—पुं० स्त्री० (सं० घण्ट > प्रा० घंट)
घण्टा, वाद्य-विशेष; तुल० राज० घंटौ;
(प० च० ३, ७३; जंबू० ५, ६,
६)।

घंटा—पुं० (सं० घण्ट > प्रा० घंट)
घण्टा, कांस्य-निमित्त वाद्य-विशेष;
(भ०)।

घञ—न० (सं० घृत् > प्रा० घिञ) घी;
(ण० ५, ८, ११)।

घञअंद—न० (दे०) दर्पण; (पङ्)।

घड़—अव्य० (दे०) १. क्षीप्रतावाची,
२. वर्तमान समय संबंधी; (प० च० २८,
८, ४)।

घग्घर—पुं० (सं० घर्घर) १. खोखला
गला। २. न० (दे०) घघरा, लहंगा,
स्त्रियों के पहनने का एक वस्त्र; तुल०
राज० घाघरौ; (दे० ना० मा० २,
१०७)। ३. पुं० क्षुद्रघण्टिका; (प०
च० ४६, १, ३)। ४. घग्घर की
आवाज, शब्द-विशेष; (प० च० ६, ११,
५)। — १ स्त्री० (घग्घरा) किङ्किणी;
(जस० ३, २, ७)।

घग्घरियगिर—स्त्री० (सं० घर्घरित +
गिरा) खोखली वाणी; (जंबू० २, १८,
१०)।

घग्घरोली—स्त्री० (सं० घग्घर + ओली)
किङ्किणीपंक्ति; (जस० १, १६, ५)।

घघर—पुं० (सं० घर्घर > प्रा० घग्घर)
शब्दानुकृति, घर्घर; (प्रा० पै० १,
२०४)।

घङ्घल—पुं० (दे०) उजड़ी हुई भूमि;
(प० च० ४५, ७, ८)।

घञ्चर—पुं० (सं० घर्घर > प्रा० घग्घर)
शब्द-विशेष, घर्घर (ध्वनि); (मुदं० ३,
७, ७)।

घट—पुं० (सं० घटा) घटा, मेघ, बादल
“जसु जय-सिरि दाहिण-बाहु-दंडि, निव-
सइ गय-घड-चूरण-पर्यंडि;” अर्थात् गज
रूपी घटाओं को चूर करने में प्रचण्ड उस
राजा के दाएँ बाहुदण्ड में जयश्री विरा-
जमान रहती थी; (व० ३, २२, २)।

√घट—(दे०) घटना, कम होना।
—इ क्रि०, व०. प्र०, पुं०ए०; (प्रा० पै०
१, ८८)।

√घट—सं० घट > प्रा० घड (जस०
१, २६, ११)। रचना करना। घडिउ-
भू० का०।

घटना—स्त्री० (सं० घटन > प्रा० घडण)
घडना, कृति, निर्माण; तुल० राज०
घडण; (की० २, १०१)।

घटपिड—पुं० (सं० घटपिण्ड) घर-
पिण्ड; “रहिउ सतेल्ल दसीएण दीवउ कि
न उणीवइ घड-पिड-दीवउ;” अर्थात् घर-
पिण्ड को प्रकाशित करने वाला दीपक
स्नेह-तेल रहित होने पर भी क्या बत्ती
के बिना बुझ नहीं जाता? (व० ४, १५,
५)।

घटित—वि० (सं० √घटय > प्रा० घड
=मिलाना, जोड़ना) जटित, जड़ाऊ;
(की० २, २४२)।

घट्ट—अक० (सं० √भ्रंश का घात्वा-

देना) १. भ्रष्ट होना । —इ; (पड़)
२. घटित होना । —इ; (प० घ० १५,
१३, ६) ।

घट्ट—पु० (दे०) १. कुसुम्भ रंग से
रंगा हुआ वस्त्र; २. वेसा, वंश; (दे०-
ना० मा० २, १११) । ३. पु० (सं०
घट्ट) घाट; नदी, सरोवर या किसी जला-
शय जहाँ लोग पानी भरते या नहाते
घोते हैं; (दे० ना० मा० २, १११) ।

घट्टण—न० (सं० घट्टन) १. संसर्गं
२. स्पर्श करना । न० (सं० घर्षण > प्रा०
घंसण) घिसन, रगड़; (सुदं० ८, २८,
१०) ।

घट्टियद्—न० (सं० घट्टन > प्रा०
घट्टण) घर्षण; “घण-घट्टियद् विज्जु-
विष्फुरियद्,” अर्थात् ‘भेषों का घर्षण,
विद्युत का स्फुरण;’ (प० च० ५, १२,
७) ।

घट्टियड—क्रि०, भू० का० (सं०
घाटयति/घट्ट संघाते > प्रा० घट्टइ)
विघटित कर दिया; (सा० ४, ७,
१५) ।

घट्ट—वि० (सं० घृष्ट > प्रा० घट्ट)
घिसा हुआ; (जस० २, ४, ५) ।

घट्टति—वि० (सं० घट्ट > प्रा० घट्ट =
घडा) घडा होना; “जलु कड्डंतहं कूव-
यहं अवसद् सिरर घट्टति” —‘कुएँ से
जल निकालने वालों के सिर पर अवश्य
घडा होता है;’ (सा० १६) ।

घड—वि० (दे०) बनाया हुआ;
(पड़) ।

घड—सक० (सं० घटय् > प्रा० घड)
१. मिलाना, जोड़ना, संयुक्त करना;

२. बनाना, निर्माण करना, ३. संचालन
करना । —इ सक० (सं० घटयति) गढ
देना, गढ़ना; तुल० म० घडणें; (विला०;
भ०) । —उ गढता हूं, “आगम-जुति
का वि घडउ,” अर्थात् ‘आगम-युक्ति को
गढता हूं,’ तुल० घटवुं, (प० च० १, ३,
१०) । —दि (सं० घटयति) बनाता है;
(हे० ४०४) । —न्ति व०,
व० व, (प० च० ७, ५३) । घडिअउ
क्रि० भू० का० (सं० घटित) बनाया,
गढा गया; (हे० ३३१) । घडिउ-भू०-
का० घडिवि—पू० का० क्रि०; (ण० १,
६, १३) । (जं० ४, १२, १५) ।

घड—पु० (सं० घटा) घटा; “भिग-
मन्द-भद्-संकिणग-गएँहि” घड विरएँवि
पञ्चहि चाव-नएँहि,” अर्थात् ‘मृग-मन्द-
भद्र और संकीर्ण गजों और पाँच सौ
धनुषारियों से घटा की रचना कर, आगे-
पीछे भद्र समूह बँठ गया’, (प० च०
१६, १५, १) । २. समूह; “वनकरिघ-
डहें”; वनगजों के समूह; (जं० ५, १०,
४) ।

घड—पु० (सं० घट > प्रा० घड)
घडा, कुंभ; तुल० राज० घड, घडउ;
(ण० १, ६, ७; सा० ८१)

घडइअ—वि० (दे०) संकुचित;
(पड़) ।

घडयावउ—क्रि०, भू० का० (सं० घट +
√स्था, स्थापयति) घट स्थापन किया
गया, “सुककसाणु घुडयावउ किज्जइ” —
शुक्ल ध्यान रूप घट-स्थापन किया गया;
(म० २, ७८, ६) ।

घडहड—पु० (ध्व०) घड़घड़, बादल

गरजने या गाड़ी चलने आदि का घड़घ-
ड़ाने का शब्द; (म० २, ६, ५) ।

घडाघडी—स्त्री० (दे०) गोष्ठी, सभा,
मंडली; (पह) ।

√घडावघ—(सं० √घट, घटाव्यु >
प्रा० घडाव) बनवाना । —इ क्रि०, व०
(जंबू० ८, ६, ६) ।

घडिअ—वि० (सं० घटित > प्रा०
घडिअ) निर्मित, कृत; (जस० २, ५,
२) । घडीय—त्रि० घटित; (छंद के कारण
दीर्घीकरण) (क० ४, ६, ४) ।

घडिअघडा—स्त्री० (दे०) मण्डली,
गोष्ठी; (दे० ना० मा० २, १०५) ।

घडिआ, घडी—स्त्री० (दे०) गोष्ठी,
मण्डली; (पह; दे० ना० मा० २,
१०५) ।

घडिय—वि० (सं० घटित > प्रा०
घडिअ) निर्मित, बना हुआ; (सं०
रा०) । घडीय—वि० घटित; (क० ४,
६, ४) ।

घडी—स्त्री० (सं० घटी > प्रा० घटि,
घडिआ) घटी-यन्त्र, घडी यन्त्र; (ण० ६,
१७, ३०) । २. लघु घट; (संघि० १२,
६, १४) ।

घण—पुं० (सं० घन > प्रा० घण)
१. मेघ, बादल; (प्रा० पै० १, १६६,
ण० १, १३, ५; सं० रा०) । २. हथोड़ा;
तुल० राज० घण; (दे० ना० मा० ६,
११) । वि० निविड; (जस० १, ११,
११) । सघने, घना; (महा० ६८, ३;
जंबू० ४, १६, २) । —उ वि० घना,
निविड, सांद्र तुल० गु० घणो, (प्रा०
गु० २, ४. ७; जंबू० ७, १, २२) ।

घणघण—वि० (सं० घन + घन) अति
निविड, अति अवरिल; (ण० ५, ४,
१४) ।

घणणील—वि० (सं० घननील) अत्यंत
काले, “भिगालिसरिसघणनीलवाल;”
अर्थात् तुम्हारे बाल भृंगावलि के समान
अत्यंत काले हैं; (जंबू० १०, १,
११) ।

घणणेह—पुं० (सं० घन + स्नेह > प्रा०
घण + णेह) अत्यधिक प्रेम; (जंबू० ११,
५, ५) ।

घणत्त—पुं० (सं० घनत्व) सघनता;
(ण० ७, १५, १०) ।

घणथण—पुं० (सं० घन + स्तन > प्रा०
घण + थण) अत्यंत घने स्तन; (जंबू० १,
७, ६) । —तड पुं० (सं० घनस्तनतट)
घने स्तन तट, “हृय निष्फंद चडवि घण-
थणयड;” (जंबू० ८, ११, ११) ।

घणथणिया—वि० (सं० घन + स्तन >
प्रा० घण + थण) सघन स्तनों वाली;
(महा० ६६, १६, ५) ।

घणपडल—पुं० (सं० घन + पटल >
प्रा० घण + पडल) मेघपटल, अभ्रपटल;
(जंबू० ६, ६, ८) ।

घणयालि—स्त्री० (सं० घन + काल >
प्रा० घण + याल पुं०) वर्षाकाल; (ण०
४, २, १४) ।

घणलोम—पुं० (सं० घनरोम) नमचर
जीव; (व० १०, ८, १३) ।

घणवाहि—पुं० (दे०) इंद्र, स्वर्ग-पति;
(दे० ना० मा० २, १०७) ।

घणसार—पुं० (सं० घनसार) कपूर;
(सं० रा०; भ०) ।

घणसूई—स्त्री० खड़ी सूई; (व० १०, ६, ७) ।

घणाघण—पुं० (सं० घनाघन) (वरसने वाला) वादल; (प्रा० पै० १, १८८) ।

घणाघण—स्त्री० घन युद्ध जिसमें हथौड़े का प्रयोग किया जाता है (a fighting using large hammers) (प० च० ५२, ६, ४) ।

घणुकज्जलु—पुं० (सं० घन+कज्जल > प्रा० घण+कज्जल) घना काजल; (व० २, २२, १५) ।

घणुच्चत्यणी—वि० स्त्री० (सं० घन+उच्च+स्तनी) घने व ऊँचे स्तनों वाली; (जंबू० ४, ५, ६) ।

घणोह—पुं० (सं० घन+ओघ) वारिद-समूह, वादलों का समूह; (जंबू० ६, ६, ६) ।

घण्टड—पुं० (सं० घण्ट > प्रा० घंट) घंटा; (प० च० २, १, ५) ।

घण्ण—पुं० (दे०) १. उर, वक्षस्, छाती, २. वि० रक्त, रंगा हुआ; (दे०-ना० मा० २, १०५) ।

घत्त—पुं० (सं० प्रा० घत्ता) घत्ता नामक मात्रिक छंद; (प्रा० पै० १, ६६) । —ह (घत्तायाः) संबंध कारक, ए०; (प्रा० पै० १, १०२) ।

घत्त—पुं० (सं० घात > प्रा० घाय) चोट, प्रहार; (हे० ४१४, ३) ।

√घत्त—(प्रा०√ घत्त) फेंकना, ढालना । —मि; (प० च० ८, १०, ८) । घत्तिउ—भू० का०, फेंक दिया; (प० च० ६, ११, ४) ।

घत्ता—स्त्री० (सं० प्रा० घत्ता) छंद-विशेष; (प्रा० पै० १, १००) ।

घत्ताणंद—न० (सं० घत्तानन्द > प्रा० घत्ताणंद) छंद-विशेष; (प्रा० पै० १, १०३) ।

घत्तिय—वि० क्षिप्त, फेंका हुआ; त्यागा हुआ; (जस० २, २०, ६; ण० २, १३, ५) । —हि फेंके गए; “कोमलकरयलघत्तियहि कुमुर्माहि” अर्थात् कोमल हाथों से फेंके गए पुष्पों के द्वारा; (महा० ६८, ७) ।

घत्थ—वि० (सं० ग्रस्त) भक्षित; निगला हुआ, कवलित (प० च० ७१, ५१; जंबू० २, ५, १२) । —य वि० (सं० ग्रस्त) प्रभाव पड़ा हुआ; आक्रांत; (प० च० ६, १३, ४) ।

घन—वि० (सं० घन > प्रा० घण) अनेक; (की० ३, ३८) । घने—वि० अनेक; (की० २, १११) ।

घम्म—पुं० (सं० घर्म > प्रा० घम्म) घाम, गरमी, संताप; (जंबू० ८, १३, १; दे० ना० मा० १, ८७) । घम्मु—पुं० घूप; (व० २, ३, १२) ।

घम्मण—पुं० वृक्ष-विशेष; (जंबू० ५, ८, ६) ।

घम्मवारि—न० (सं० घर्म+वारि) स्वेदजल; (जस० ४, १६, २) ।

घम्मा—स्त्री० (सं० घर्मा > प्रा० घम्मा) प्रथम नरक नाम; (जस० ५, १६, १३) ।

घम्मोइ—स्त्री० (दे०) तृण-विशेष, घमोय (गण्डुत्संज्ञं तृणम्), टि०—एक छोटा पौधा जो गोभी की तरह का होता

है। इसके पत्तों के पीछे तथा कटाव की नोकों पर कांटे होते हैं। तुल० राज० घमोय; (दे० ना० मा० २, १०६)।
धम्मोडी—स्त्री० (दे०) १. मध्याह्न काल; २. मच्छर, क्षुद्र जन्तु-विशेष; ३. ग्रामणी नामक वृण; (दे० ना० मा०-२, ११२)।

घय—न० (सं० घृत् > प्रा० विअ) घी; (व० १०, ७, ५; क० ३, ८, ८)।
—नहूँ पुं० (सं० घृतमुख) द्वीप-विशेष; (व० १०, ६, ६)।

घर—पुं० न० (सं० गृह > प्रा० घर) घर, मकान, गृह, तुल० गु० घेर; (हे० ३४३, २; प्रा० पं० १, ८४; जस० १, १, ३)। —कज्ज पुं० (सं० गृह + कार्य) घर का काम; (जंबू० ३, ६, ७)।

—गोली स्त्री० (सं० गृह + गोली) छिपकली, जंतु-विशेष; (दे० ना० मा० २, १०५)। —गोहिआ स्त्री० (सं० गृहगो-घिका) छिपकली, (दे० ना० मा० २, १६)। —णि स्त्री० (सं० गृहिणी >

प्रा० घरिणी) पत्नी, तुल० राज० घरणि; (प्रा० पं० १, ३८)। —णिय स्त्री० (सं० गृहिणी > प्रा० घरिणी) स्त्री, भार्या; (सं० रा०)। —त्य पुं० (सं० गृहस्थ) ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात् दूतरे आश्रम में प्रवेश करने वाला, गृही, घरवार वाला;

(जस० ३, ४, ४)। —दार स्त्री० (सं० गृह + दारः) कलत्र, पत्नी; (जस०)। —दासि स्त्री० (सं० गृह + दासी) गृहिणी, भार्या, पत्नी; (जस०)।

—पंगरु पुं० (सं० गृह + प्राङ्गण) घर का आँगन; (ण० ५, २, १)।

—भार पुं० (सं० गृह + भार) गृहस्थी की जिम्मेदारी; (जस० ४, २८, २)।

—लजिया स्त्री० (सं० गृह + लज्जिका = वेद्या, रंडी) गृहदासी; (जस०)।

—वइ पुं० (सं० गृह + पति) घर का स्वामी; (जस० ३, ३१, ५)। —वय पुं० (सं० गृह + व्रत) गृहस्थों के अणुव्रत;

(ण० १, १२, ३)। —वार पुं० (सं० गृह + द्वार) घरेलू संपत्ति, निज की सारी संपत्ति; तुल० गु० घरवार; (प० च० २४, १२, ८; सि० २, २६)।

—वास पुं० (सं० गृहवास) गृहस्थाश्रम, गृहवास; तुल० राज० घरवास (जस० २, ७, ५)।

—सिरि स्त्री० (सं० गृह + श्री) गृहलक्ष्मी; (ण० १, ३, १३)। घरि—स्त्री० घर; सुभाषितः—“घरि पलित्तं मि

खणि सकइ को कूवए,” अर्थात् घर के प्रदीप होने जाने पर कौन कुमा खोद सकता है? (भावना संवि प्रकरण) घर-पुं० घर; (महा० ६८, ५; उ० व्य० प्र० २२, २)।

घरघंट—पुं० (दे०) चटक, गौरैया पत्नी; (दे० ना० मा० २, १०७)।

घर-घरणी—स्त्री० (सं० गृहिणी > प्रा० घरिणी) घरवाली, स्त्री, भार्या; (प्रा० गु० ५, २८)।

घरट्ट—पुं० (सं० प्रा० घरट्ट) सिल, चककी, खरल, पेपणी (a grinding stone); “ता सव्वह वीरह उपरवट्ट मयण-घरट्ट आसं वदंतु। ता पूजहु पूजहु नेमिकुमार निव्वइकंतु;” तुल० गुं०

घंटी; (प्रा० गुं० २६, २२; क० ३, २२, ७)।

√घरट्ट—टकराना, “समूह वड णिवड गय-घड घरट्ट;” अर्थात् सामने पताकाएँ थीं और गजघटा टकरा रही थी; (प० च० १३, ११, ४) ।

घरट्टी—स्त्री० (सं० घरट्टी) शतघ्नी, तोप; (दे० ना० मा० ३, १०) ।

घरप्फरि—स्त्री० (दे०) धरपटक; (म० २, २२, ८) ।

घरयंब—पुं० (दे०) दर्पण, शीशा; (दे०-ना० मा० २, १०७) ।

घरवय—पुं० (सं० गृह+व्रत) गृहस्थ-व्रत, अगुव्रत, “घरवयइ जईसरसंठियाइ;” अर्थात् एक गृहस्थव्रत और दूसरे मुनिव्रत (महाव्रत); (क० ६, २२, २) ।

घरसंठिय—वि० (सं० गृह+संस्थित) घर में रहते हुए, “घरसंठियो वि घरक-ज्जचुओ”; (जंबू० ३, ६, ७) ।

घरहरिअ—पुं० (ध्व०) घरघराहट; (जंबू० १, १५, ४) ।

घरासउ—पुं० (सं० गृहाश्रमम्) गृहस्थ आश्रम; (प० च० २२, ११, ३) ।

घरिणी—स्त्री० (सं० गृहिणी > प्रा० घरिणी) घरवाली, स्त्री, भार्या; तुल० गु० घरुणी, राज० घरिणी, म० घरनी; (ण० २, १३, २; म० १, १३, ५) ।

घरिय—वि० (सं० धारित) विह्वल; (जंबू० ७, ४, १४) ।

घरिल्ली—स्त्री० (दे०) गृहिणी, पत्नी; (दे० ना० मा० २, १०६) ।

घरोल—न० (दे०) गृह-भोजन-विशेष; (दे० ना० मा० २, १०६) ।

घरोलिया, घरोली—स्त्री० (दे०) छिप-

कली; तुल० गु० घरोली; (दे० ना० मा० २, १०५) ।

घरोली—स्त्री० (सं० घटिका > प्रा० घडिआ) घरिया (गृह-गोलिका) घड़िया, पानी का मटका, मिट्टी का बरतन; (दे०-ना० मा० २, १०५) ।

√घल्ल—(सं० क्षिप् का धात्वादेश प्रा० घल्ल) फेंकना, स्थान बदलना, डालना, घालना; तुल० राज० घलणौ, घलवौ; (की० ४, १६०) ।

घल्लहल—वि० (दे०) प्रभूत; (प्रा० गु० ५, ३२) ।

घल्ल—वि० (दे०) अनुरक्त, प्रेमी; (दे० ना० मा० २, १०५) ।

√घल्ल—(सं० √क्षिप् का धात्वादेश प्रा० घल्ल) घालना, फेंकना; तुल० म० घालणौ । —इ; (सुदं० ५, १, ३) ।

घल्लंत—कृ०; (सुदं० ३, ७३) । घल्लति—क्रि०, व० (हे० ४२२) । —सि व०,

म० पु०, ए०, तुल० राज० घालवै—

वौ, गु० घालवुं (प्रा० पै० १, ७; जस० ३, १८, ८) । घल्लहु क्रि०, आ० बाहर

निकाल दो, फेंक दो; (ण० ६, १३, २१) । घल्लाविय—भू० का०, भगा

दिया; (प० च० ११, ६, ८) । घल्लि-

ज्जइ—छुड़वा देना; (सुदं० ८, ३३, १०) । घल्लिय—क्रि०, भू० का० (प्रा०

घल्ल = फेंकना) निकाल दिया, “केउमइएँ

घल्लिय कुलहरहो” अर्थात् केतुमती ने उसे कुलगृह से निकाल दिया, (प० च० १६, १२, ५) । —इ (घल्लियइ)

डाल दिए; (रि० १, १३) । घल्लिवि पु० का० क्रि०; (जंबू० ६, ६, ६) ।

पत्निय—वि० (दे०) कौका दृभा, ठामा हुआ; (जंबू० ६, १४, ७; प० ५, ८, २) । पत्निय-वि०, दासी हुई; (सं० रा०) ।

पयस्कउ—वि० (दे०) उद्दीप्य, "सदयर-मेहिं मि परिहरिउ कयदहिं भरिउ पं पुत्तिहि देम्मपयस्कउ;" अर्थात् जिस जिस प्रकार किसी छूतं स्त्री का कपट-भरा उद्दीप्य प्रेम उमें भोग कर छोड़ दिया जाता है; (जंबू० ८, १३, १५) ।

√पयषव—(सं० पयषवय् ध्वन्यात्मक) पय-पय का शब्द करना; (मुदं० ३, ७, ७) । पयषवत—कृ० (सं० पयषवय् + कतृ) तुल० म० पयषमाट; (मुदं० ११, १२, ३) । पयषवयन्ति—त्रि० नदी की धारा की गर्जन का शब्द होना, (प० प० ३१, ३, ५) । पयषवन्ति—क्रि० पयषव का शब्द होना; "पयषवन्ति जे जल-जम्भारा," जो उसमें जल के प्रवाह का पयषव शब्द हो रहा है; (प० प० १४, ३, २) ।

पयषव-घोमु—पुं०, पन-पन का शब्द, "पयषरे हि मि पयषव-घोमु चत्तु," अर्थात् 'घण्टियों ने भी पन-पन शब्द छोड़ दिया; (प० प० १३, १, ७) ।

पयिष—वि० (दे०) तृप्त; (जंबू० ६, ८, ६) ।

√पयस—(सं० घृप्) १. घिसना, रग-रगना; २. मार्जन करना, साफ करना । —इ सक० (पङ्) ।

√पा—(दे०) अधाना, तृप्त करना; (जस० २, ३०, ६) ।

पाय—पुं० (सं० पात > प्रा० घाय)

प्रहार, चोट, वार; तुल० म० घाय (प० १, ४, ६; जस० १, ५, २) । पायएहिं—पात, हत्या (प० प० १२, ६, ६) । पाउ; (प्रा० पं० २, १७३) ।

पाइअ—वि० (सं० पातित > प्रा० पाइअ) विनाशित, प्रहारित, (प० ३, १४, १२; जस० २, २०, ५) ।

पाउ—पुं० (सं० पात > प्रा० घाय) घाय, प्रहार; (प० ५, ५, १०) ।

पाए—पुं० (सं० पात > प्रा० घाय) पातिपाकर्म; (प० ६, ५, ८) ।

√पाय—(सं० पातय् > प्रा० घाय, सं० पात्यते) विनाश करवाना, मरवाना । पाइज्जद-कर्मवाच्य; (भ०) । पाइज्जन्तु-कृ० (प्रा० घाय = मारना) पीटे जाते हुए; (प० प० ६, १०, ३) । पाइयउ—भू० का०, मारा गया; (प० प० ६, ११, १) ।

पापरिय—स्त्री० (सं० पघरिका = घूँघरू, एक प्रकार का बाजा) किष्किणी; (प्रा० गु० ६, २२) ।

पाट^१—पुं० (सं० घट्ट) नदी तीर पर बनी हुई सीढ़ियाँ और चबूतरे; (की० २, ६७) ।

पाट^२—पुं० (दे०) कौसुम्भ वस्त्र; "गोपीय उठाणि पाट ए, वर-आगलि बोलई भाट ए । सिरवरि झलकई धात्र ए, वर-आगलि नाचई पात्र ए ।" तुल० गु० पाट; (प्रा० गु० २६, ५) ।

पाठउ—वि० (दे०) वञ्चित; "तउ पंडितु कोपानलि चडियउ पाठउ हिडइ सूनउ पियउ, तउ चेलुका पिरायी पोसइ

नंदु हाणिउ सिरियउ राउ होसइ;"
(प्रा० गु० १६, १२) ।

√घाढ—सं० भ्रंश; भ्रष्ट होना, च्युत होना ।—इ अक० (पड्) ।

घाण—पुं० न० (सं० घ्राण) दुर्गंध;
तुल० म० घाण; (भ०) ।

घाय—पुं० (सं० घात > प्रा० घाय)
प्रहार, चोट, वार; (प० च० ५६,
२५) ।

√घाय—सं० हनु; मारना, मार डालना
विनाश करना ।—इ क्ति०, व० (ए०
३, १५, ६) । घाएंत—व० कृ०; (प०
च० ६०, १७) ।

√घाय—(सं० घातय् > प्रा० घाय)
मरवाना, विनाश करवाना; घाइयव्व—
कृ०; (प० च० ६६, ३४) ।

घाय—चउक्क—पुं० (सं० घातक + चतु-
ष्क) घातिया-चतुष्क घातक व्यक्तियों का
चार का समूह; "तव तेएँ घाय-चउक्क
हणि केवलजाणेण तिलोउ सुणि;" अर्थात्
अपने तप-तेज से उसने घातिया-चतुष्क
का हनन कर केवल ज्ञान द्वारा त्रिलोक
को मुना; (व० ६, १०, ११) ।

घायण—पुं० (दे०) गायक, गर्वैया;
(दे० ना० मा० २; १०८) ।

घारंत—पुं० (दे०) घृतपूर, वेवर,
मिष्टान्न-विशेष; (दे० ना० मा० २,
१०८) ।

घार—पुं० (सं० घृघ्न) १. घृघ्नजातीय
पक्षी-विशेष; चील; तुल० म० घार;
(जस० २, २७; १२; ए० ४, १०, ७;
जं० ७, १, १२) । घार—पुं० (दे०)
किला, दुर्ग; (दे० ना० मा० २,

१०८) ।

घारिउं—वि० (दे०) जो विप के वेग से
मूर्च्छित हुआ हो; तुल० गु० घारण;
(प्रा० गु० २०, १३) ।

घारिय—वि० (सं० घृत) घृतपूर्ण;
(भ०) ।

घारिया—स्त्री० (दे०) मिष्टान्न-विशेष;
तुल० गु० घारी; (भ०) ।

घारी^१—स्त्री० (दे०) शकुनिका, पक्षी-
विशेष; (दे० ना० मा० २, १०७) ।

घारी^२—स्त्री० (दे०) छंद-विशेष; (प्रा०
पं० २, २६) ।

√घाल—(सं० क्षिप् का घाल्वादेश प्रा०
घल्ले । प्रा० घल्लिय, प्रा० अय० घल्ल)
डालना, फेंकना । घालिउ; (रा० ३३) ।

घास—पुं० (सं० प्रा० घास) तृण, पशुओं
के खाने का तृण; (दे० ना० मा० २,
८५) ।

√घास—(सं० ग्रस् > प्रा० घिस)
ग्रसना, भक्षण करना ।—ए (घासए)
"पियेइ मयतण्हिया कुलिससूइ को
घासए," कौन ऐसा है, जो मृगतृष्णिका
को पीये वज्र की सूई को खावे; (सुदं०
८, ३७, १३) ।

घिदिणि—स्त्री० रास-मृत्य-विशेष; (प्रा०
गु० ३१, ३) ।

घिअ—न० (सं० घृतम् > प्रा० घिअ)
घी; (ण० ४, ६, १२, संघि० १६, ७,
१०; उ० व्य० प्र० ४६-२६) । घिउ—
न० घृत; (भ० २, ७, ८) । (दे०) वि०

तिरस्कृत; (दे० ना० मा० २, १०८) ।

घिट्ठे—वि० (दे०) कुब्ज, कूबड़ा; (दे०
ना० मा० २, १०८) ।

घिट्ठत्—पुं० घृष्टता; घिट्ठत्ते—
घृष्टता से; (महा० ६६, १) ।

घिणावण—वि० (सं० घृणा+आनयन)
घृणास्पद, घिनौना; (जंबू० १० ७,
११) । —उ (परम० २, १५१) ।

घिणि—स्त्री० (सं० घृणा>प्रा० घिणा)
घिन, घृणा; तुल० राज० घिरणा; (ण०
६, १७, ४५) ।

घिणिहिणन्त—कृ० गुंजार करते हुए,
भनभनाते हुए; (humming); (प० च०
३६, ६, ६) ।

घित्त—वि० १. (सं० क्षित्त>प्रा०
घित्त) फेंका हुआ, डाला हुआ; (प० च०
१६, ७, २) । २. गृहीत (ण० ३, ६,
११) । —व्व वि० गृहीतव्य (जंबू० ६,
१०, १) ।

घित्ता—स्त्री० (सं० घृत) घी; (प्रा०
पं० १, १३०) ।

घित्तिज—भू० का० (सं० गृहीत) खींच
लिया, “घित्तिज सो भीमे” भीम-सत्ति;”
अर्थात् भीम शक्ति वाले भीम ने उसे
खींच लिया; (व० ५, १८, ५) ।

√घिप्प—१. (सं०√ग्रह्>प्रा० घत्त)
ग्रहण करना । —इ सक० (सं० ग्राह-
यति) ग्रहण करना; “गुणणिहिपुरिस्तु
परिक्खेवि घिप्पइ”—जो गुणों का
भण्डार है ऐने पुरुष को परीक्षा कर
नियुक्त करना चाहिए; (ण० ३, ३, ५) ।

घिप्प (आत्मने); (सुदं० ४, १०, ३०) ।
२. गलना । घिप्पंत कृ० (सं० विगलत्)
गलते हुए; (प्रा० घिप्प=वि०+गल्,
हे० ४, १७५); (प० च० ३७, ३ ४) ।

३. फेंक देना । घिप्पति—क्रि० फेंक

देना; (पाहु० १५१) ।

घिय—न० (सं० घृत>प्रा० घिअ) घी;
तुल० राज० घिरत्; (सि० २, ३१) ।
—ऊर पुं० (सं० घृतपूर) मिष्टान्त-
विशेष; तुल० गु० घेवर; (प० च० ५०,
११, ६) ।

घिरिहोल—स्त्री० (दे०) मक्खी, “घिरि-
होलपमुह जइ पइसयति,” (सुदं० ६, ६,
१०) ।

घिव—(सं० क्षिप्) डालना, फेंकना ।
—इ क्रि० (सं० क्षिप्पति>प्रा० खिवइ)
“जो घणलुद्धु घिवइ घणकज्जे हुयवहे
घिवइ इंधण” —जो राजा घन संबंधी
कार्य में घन के लोभी पुरुष को नियुक्त
करता है वह अग्नि में ईंधन डालता है;
(ण० ३, ३, १; जस० २, १८,
३) ।

घिवण—न० (सं० क्षेपण>प्रा०
खिवण) फेंकना; (ण० ३, १७, ४) ।

घिवहु—पुं० (दे०) वृक्ष; (सा० ४०) ।

धुग्धुग्धु—पुं० (दे०) उत्कर, समूह;
(दे० ना० मा० २, १०६) ।

√धुग्धु—(सं० धुग्धुघात्>प्रा० धुग्धु-
धुग्धुघ) ‘धुग्धु’ ध्वनि करना । —वंति
अक० धू धू करने लगे, “चाउहिस्तु धूवड
धुग्धुवंति,” (सुदं० ११, १५, ८) ।

धुग्धुइय—वि० (सं० धूधूयित) धू धू
ध्वनि करते हुए; “कहिं मि धुग्धुइयधूय-
डसया रोसिया वायसा वासिया;” अर्थात्
कहीं धूधू-धूधू करते हुए सैंकड़ों धूयडों
के स्वर से रूठ हुए वायस कांव-कांव कर
रहे थे; (जंबू० ५, ८, १६) ।

धुग्धुच्छण—न० (दे०) खेद, तकलीफ,

मेहनत; (दे० ना० मा० २, ११०) ।

घुग्घुरि—पुं० (दे०) मण्डूक, मेढक;
(दे० ना० मा० २, १०६) ।

घुग्घुस—पुं० घू-घू की ध्वनि; (जस०
२, २७, ४) ।

घुग्घुस्तुअ—वि० (दे०) निः शंक् होकर
गया हुआ; (पङ्) ।

घुग्घुस्तुसय—न० (दे०) आशंका-युक्त
वचन; (दे० ना० मा० २, १०६) ।

घुग्घुघुघुघुघु—अक० (सं० √ घुग्घुघुघुघुघु)
'घूघू' आवाज करना, घूक का बोलना;
घुघुघुघुघुघुघुघु—व० कृ० (प० च० १०५,
५६) ।

घुट्टघुणिअ—न० (दे०) पहाड़ की बड़ी
शिला; (दे० ना० मा० २, ११०) ।

घुट्टिवि—पू० का० क्रि० घोटकर, घूट-
घूट पीकर; (सं० रा० १६२) ।

घुट्ठ—वि० (सं० घुट्ठ > प्रा० घुट्ठ)
घोपित, ऊँची आवाज व्यक्त किया हुआ;
(शा० ६, १३, ५; जस० ४, ३०,
१०) ।

घुट्ठक—अक० गरजना, गर्जारव करना,
तुल० राज० घुड़कणी, घुड़कवौ; (प्रा०
गु० २४, २) ।

घुण—पुं० (सं० प्रा० घुण) काष्ठ-
भक्षक कीट; (सुद० ८, ४०, ७) ।

घुणहृणिआ, घुणहृणी—स्त्री० (दे०)
कानाकानी, कर्णोपकारिका; (दे० ना०-
मा० २, ११०) ।

घुणिअ—वि० (सं० घूणित) भ्रांत,
भटका हुआ; (दे० ना० मा० ८,
४६) ।

घुत्तिअ—वि० (दे०) गवेपित; (दे०-

ना० मा० २, १०६) ।

√ घुम्—(सं० घूर्ण > प्रा० घुम्म)
घूमना । —इ; (प्रा० पं० १, १६०) ।

घुमघुम—न० (द्व०) घुम-घुम ध्वनि;
(जंजू० १, १४, ६) ।

√ घुम्म—(सं० √ घूर्ण > प्रा० घुम्म)
घूमना । —इ अक० (सं० घूर्णते) तुल०
म० घुमणें; राज० घुमणी; (पङ्; जस०
२, १६, ११) । —माण व० कृ० (सं०
घूर्ण + शानच्) घूमता हुआ; (जंजू० ४,
११, ७; म० २, ३७, ६) । घुम्मि-
वि० (सं० घूर्णित > प्रा०
घुम्मिअ) घूमा हुआ, चक्र की तरह फिरा
हुआ; (प० च० २१, ६, २) । घुमन्त-
व० कृ० (ध्वन्यात्मक) घू-घू की आवाज
करते हुए (प० च० २४, २, २) ।

घुम्मिअ—वि० (सं० घूर्णित > प्रा०
घुम्मिअ) घूमा हुआ, चक्र की तरह फिरा
हुआ; (प० च० २१, ६, २) । घुमन्त-
व० कृ० (ध्वन्यात्मक) घू-घू की आवाज
करते हुए (प० च० २४, २, २) ।

घुम्मवि—वि० (सं० घूर्णित > प्रा०
घुम्मिअ) घूमा हुआ, चक्र की तरह फिरा
हुआ; (प० च० २१, ६, २) । घुमन्त-
व० कृ० (ध्वन्यात्मक) घू-घू की आवाज
करते हुए (प० च० २४, २, २) ।

घुम्मवि—वि० (सं० घूर्णित > प्रा०
घुम्मिअ) घूमा हुआ, चक्र की तरह फिरा
हुआ; (प० च० २१, ६, २) । घुमन्त-
व० कृ० (ध्वन्यात्मक) घू-घू की आवाज
करते हुए (प० च० २४, २, २) ।

घुम्मय—वि० (सं० घूर्णित > प्रा०
घुम्मिअ) घूमा हुआ; (जंजू० ८, ६,
२) ।

घुम्मिर—वि० (सं० घूर्णित > प्रा०
घुम्मिअ) १. घूमने वाला; (महा० संवि०
६८) । २. घूमते हुए, "मंघुम्मिरेहिं
गइमंथरेहिं आरुहहिं सलक्खणगयवरेहिं,"

—वे मंद से घूमते हुए मंघरगति, सुल-
क्षण गजवरो पर आरूढ़ होते हैं; (सुद०
६, १३, ७) ।

√ घुर—(सं० घुरुघुराय् > प्रा० घुरुघुर)
घुरघुराना; "णर-मारण-सीलु, दारिय-
पीलु घुरुहुरंत-मुहं जाम;" अर्थात् मनुष्यों
को मारने के स्वभाव वाला तथा पीलु-

गजों को विदारने वाला वह पंचानन, जब अपने मुख से धुरधुरा रहा था; (व० ३, २६, ११)।

√ध्रुवधुर—(सं० ध्रुवधुराय् > प्रा० ध्रुवधुर) धुर-धुर आवाज करना (gru-nt); तुल० गु० ध्रुरकवुं ।—न्ति अक०, व० (प० च० ३२, ३, ८)।

√ध्रुवधुर—(सं० ध्रुवधुराय् > प्रा० ध्रुवधुर, धुरधुर) 'धुर धुर' आवाज करना; धुरधुरइ—अक० धोर गर्जन करता है, धुरधुराता है; (सं० रा०)। धुरधुरन्ति—क्रि०, व० (सुदं० ११, १५, ६)। धुरधुरन्ति—कृ० (सं० ध्रुवधुराय् + शतृ) (सुदं० ८, १६, १)। ध्रुवधुरन्ति—क्रि० निरंतर धुरधुर की ध्वनि होना; (प० च० ३१, ३, ७)।

ध्रुवधुरि—पुं० (दे०) मण्डूक, मेढक; (दे० ना० मा० २, १०६)।

ध्रुवधुरिय—वि० (ध्व०) (सं० धुरधुरायित्) धुर-धुर की आवाज से युक्त; (जंबू० ५, ८, १६)।

√ध्रुल—(सं० √ध्रूणं, सं० ध्रूणन्ते) —इ अक० (सं० ध्रूणं > प्रा० ध्रुम्म, ध्रुल) धूमना, चक्राकार फिरना, "का वि वेरइसलिले सिधिय, वेवइ बलइ ध्रुलइ रोमच्चिय"—कोई वेश्या रति के जल से सिक्त हुई, कंपती, बलखाती, धूमती और रोमांचित होती; तुल० म० धोलणें; (ण० १, १८, ६)। ध्रुलन्त—कृ० (सं० ध्रूणत्) डोल-डोल कर; "ध्रुलन्तइ तेण धणाहं मुहाइ सकज्जलवणणइ ताइ कयाइ!" अर्थात् उसके हार ने भी डोल-डोल कर स्तनों के मुखों को काजल

के समान काला कर डाला था; (क० १, ६, ४)। ध्रुलन्ति—कृ० फहराती हुई; "करि धय पन्तिहिं गयणे ध्रुलन्ति हिं," अर्थात् गगन में फहराती हुई ध्वज-पताकाएँ; (व० ४, २०, १)। ध्रुलेप्पिणु—पू० का० क्रि०; (प० च० ३८, १७, ७)।

ध्रुलकि—स्त्री० (दे०) हाथी के चलने का शब्द; (प्रा० पै० १, २०४)।

ध्रुलिय—वि० (सं० ध्रूणित् > प्रा० ध्रुलिअ) चलित, ध्रुलित (म० २, ७८, ५)। २. धूमती हुई; "अलिबलयध्रुलिय-अलयइ कहन्ति" धूमती हुई भ्रमरावली रूपी अलकों सहित (उनके गुंजार के रूप में) बोल रही थी, (सुदं० २, १२, १)।

३. वि० (सं० ध्रुलित) चंचल; (जस० १, ३, १७)।

ध्रुसण—न० (सं० ध्रुसृण > प्रा० ध्रुसिण) कुंकुम, केसर, सुगंधित द्रव्य-विशेष; (प्रा० गु० २६, १७)। ध्रुसिण—न० केसर; (प्रा० गु० ३५, ८; जस० ३, १, ५)।

√ध्रुसल—मथना, विलोडन करना। —इ व० (प० च० ३७, १, ४)।

ध्रुसिण—पुं० (सं० ध्रुसृणम् > प्रा० ध्रुसिण) कुंकुम, केसर, सुगंधित द्रव्य-विशेष (सं० रा०; सुदं० ५, ४, ७; ण० १, ६, १०)।

ध्रुसिणिअ—वि० (दे०) गवेपित, हूँड़ा हुआ; (दे० ना० मा० २, १०६)।

ध्रुसिम—न० (दे०) कुंकुम; (पड्)।

ध्रुप—पुं० स्त्री० (सं० ध्रूप > प्रा० ध्रुअ) उलूक; (जस० १, १०, ६)।

धृयड—पुं० (सं० धूक > प्रा० धूअ) उलूक, उल्लू, पक्षी-विशेष; (जंजू० ५, ८, १६) । —ऊ पुं० उल्लू (जि०) । ध्रुवड—पुं०, उल्लू, (सुदं० ११, १५, ८) ।

√घे—(सं० √ग्रह > प्रा० गह) ग्रहण कर लेना; घेइ; (षड्) । घेत्तुं, घेत्तून-कृ० (प० च० ११८, २४; हे० प्रा० व्या० ४, २१०) ।

√घे—(सं० ग्रह > प्रा० गह) ग्रहण कर लेना; (जस० २, ३४, ७) । —प्पइ क्रि०, व० (सं० गृह्यते) ग्रहण करना; (हे० ३४१, १) । घै-कृ० पकड़ कर; (की० २, १८४) ।

घेउर—पुं० न० (सं० घृतपूर > प्रा० घेउर) घेवर; तुल० गु० घेवर (प्रा० गु० २४, ७) । —य पुं० घेवर; (संघि० ११, १, ६) ।

घेठा—भू० का० कृ० घषित हुआ; “आनिकु वानु जो एथु घेठा” अर्थात् वांका वगैरे जो यहाँ घषित हुआ; (रा० ८, ७) ।

घेतल—वि० (सं० गृहीत) पकड़ा हुआ । घुतले; (रा० २०) ।

घेवर—पुं० न० (सं० घृतपूर) घेवर, मिष्टान्त-विशेष; मँदे, घी, चीनी के योग से बनी एक मिठाई; (दे० ना० मा० २, १०८) ।

घोटि—स्त्री० (सं० घोण्टी) वृक्ष-विशेष; (जंजू० ५, ८, ६) ।

घोट्ट—क्रि० (दे०, प्रा० घोट्ट) पीना, पान करना । —इ; (सुदं० ६, २, ५) ।

घोट्टति—क्रि० घोटते थे, “पाडति

मोडति, लोटति घोट्टति,” वे परस्पर एक दूसरे को धराशायी करते, मोड़ते, लोट-पोट करते और घोटते थे; (ण० ५, ५, ५) । —मि व०, उ० पुं०; (प० च० ३८, ६, ३) । घोट्टिउ—भू० का० पी लिया; “घोट्टिउ दुद्धु व कसणें सप्पे” अर्थात् दूध को काले साँप ने पी लिया, (महा० ६८, १०, १३) ।

घोट्ट—पुं० (प्रा० घुण्ट हे० प्रा० व्या० ४, ४२३) । घूँट; तुल० गु० घूँट, घूँटडो; (प० च० ३८, ६, ३) । २. पीने वाला; (प० च० ४६, १०, ६) ।

घोड, घोडग, घोड्य—पुं० स्त्री० (सं० घोट + क > प्रा० घोड्य) घोड़ा; (दे० ना० मा० २, १११) । घोडअ; (क० ७, २, ६) ।

√घोण—(सं० √घूर्ण्) चक्कर देना; (प्रा० पै० २, १८६) ।

घोण-वक्रिय—पुं० (सं० वक्रितघोणा) नाक मुड़ा हुआ होना (with the nose turned away); (प० च० ४६, ५, ७) ।

घोणस—पुं० (सं० घोनस) एक प्रकार का साँप; सरीसृप-विशेष; (प० च० ३६, १७; जस० १, ६, ६) ।

घोरंधार—पुं० (सं० घोरोन्धकार) घोर अंधकार; (व० ५, २२, ४) ।

घोर—पुं० (सं० भोट > प्रा० घोड) घोड़ा; (की० २, २०५) । (२) वि० (सं० प्रा० घोर) भयंकर; (भ०; जस० २, १०, १५) ।

√घोर—(सं० घुर, सं० घुरति)

१. शब्द करना, कोलाहल करना;
२. निद्रा में घुर-घुर आवाज करना;
(उ० व्य० प्र० ५२-१०)।

घोरि—पुं० (दे०) शलभ-जंतु की एक जाति; (दे० ना० मा० २, १११)।

घोल—पुं० (सं० घोट > प्रा० अप० घोड) घोड़ा; (की० ३, ८५)। — (घोला) पुं० घोड़ा; (की० २, २४३)।

घोलें—पुं०, व० घोड़ें; (की० ४, ७६)।

√घोल—(सं० घूर्ण > प्रा० घुम्म, घोल) घूमना; —इ अक० (ण० ३, ८, १०)। घोलंत—कृ० (सं० घूर्ण + शतृ); (ण० ७, २, ७)।

घोलिर—वि० (सं० घृणितृ > प्रा० घोलिर) १. घूमने वाला; (ण० ४, १३, ११)। २. घोलनशील; (जस० १, १२, ६)।

घोस—पुं० (दे०) सं० गुच्छ, गुच्छा; तुल० म० घोस; (जस०)।

√घोष—(सं० घोष्य > प्रा० घोस) घोषणा करना; —इ सक० (प० च० १, १२, ७; ण० ५, १०, २१)। घोसे-प्पिणु—पू० का० क्रि० घोषणा कर; (प० च० १६, ४, १०)।

घोस—पुं० (सं० घोष > प्रा० घोस) ऊँची आवाज; तुल० राज० घोस; (जस० १, १६, ४)।

घोसण—न० (सं० घोषण > प्रा० घोसण) ऊँची आवाज; तुल० राज० घोसणा, (भ०)।

घोससेण—पुं० (सं० घोषसेन) सातवें वासुदेव का पूर्व जन्म का धर्मगुरु, एक

जैन मुनि; (प० च० २०, १७६)।

घोसालई, घोसाली—स्त्री० (दे०) शरद् ऋतु में होने वाली लता-विशेष; (दे०-ना० मा० २, १११)।

घोसिअ—वि० (सं० घोषित > प्रा० घोसिअ) व्यक्त किया हुआ; (जंबू० ७, ११, ४)।

च

च—पुं० (सं० प्रा० च) तालु-स्थानीय व्यंजन-वर्ण-विशेष। संयो० (सं० प्रा० च) और, तथा, (सं० रा०)।

चंगं—वि० (सं० चङ्ग > प्रा० चग) चंगा, चार, अच्छा, सुंदर; तुल० राज० चंगी, (दे० ना० मा० ३।१)। चंग—वि० १. चार (ण० १, १५; ११)।

२. अच्छा, (महा० ६, ४, १४)। चंगउ—वि० सुंदर (जस० १, २१, १०)। तुल० पं० चंगा, म० चांगला, चांग। ३. स्वस्थ; (जंबू० १०, १७, १४)।

—तण पुं० (सं० चङ्गत्व) सौंदर्य; (जंबू० १, १५, १)। —म वि० सुंदर, अच्छा; (जंबू० ११, ६, १)।

चंगएष—पुं० (सं० चङ्गदेव) नाम-विशेष, (म० १, २, १)।

चंगिम—पुं० स्त्री० (दे०) सुंदरता, सौंदर्य; (प्रा० गु० १०, ४)।

चंगेडा—स्त्री० (दे०) डलिया; तुल० राज० चंगेड़ी (मिठाई आदि रखने का पात्र); (कण्ह० चर्या० १०)।

चंचरीय—पुं० (सं० चञ्चरीक > प्रा० चंचरीक) भौरा, भ्रमर; तुल० राज० चंचरी; (जंजू० ४, २१, ५) । चंचरी—स्त्री० भ्रमरी; (व० १, ६, ७) ।

चंचल—वि० (सं० चञ्चल > प्रा० चंचल) चपल, चंचल; तुल० राज० चंचल; (जंजू० २, ६, ८) । पुं० राक्षस योद्धा; (५६, ३६) । —यत्न वि० (सं० चञ्चलतर) अधिक चंचल; (व० १, १३, १०) ।

चंचला—स्त्री० (सं० चञ्चला) छंद-विशेष, वर्णिक छंद; तुल० राज० चंचला (प्रथम गुरु फिर लघु इस क्रम में १६ वर्ण का एक वर्ण वृत्त) (प्रा० पै० २, १७२) ।

चंचु—स्त्री० (सं० चञ्चु > प्रा० चंचु) चोंच; तुल० राज० चंचु; (जस० १, १२, १) । —कल्प वि० (सं० चञ्चु + क्षत) चंचु से चंडित; (जंजू० ४, ७, ७) ।

चंचुय—पुं० (सं० चञ्चुक) अनाय देश-विशेष की मनुष्य-जाति-विशेष; (सवि० १०, २, ६) ।

चंचूजीविय—पुं० (सं० चञ्चूजीविक) पक्षी; (जस० ४, १६, १०) ।

चंडसु—पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५७, १२) ।

चंड—वि० (सं० चण्ड > प्रा० चंड) १, प्रवल, उग्र, प्रखर; (जंजू० ६, ७, २; जस० १, ६, ५) । २, क्रूर स्वभाव का; (प्रा० पै० २, १६५) । पुं० १. विद्याधरवंशीय राजा; (प० च० ५, २६४) । २. वायु; (व० १०, २४,

५) ।

चंडउत्त—पुं० चन्द्रगुप्त, पुरुष-विशेष; (ण० ६, १, ८) ।

चंडकुंड—पुं० राक्षस योद्धा; (प० च० ५६, ३३) ।

चंडविक्रय—वि० (सं० चण्डविक्रय > प्रा० चंडविक्रय) रोप-युक्त; (सवि० २, ११, ६) ।

चंडपजोड—पुं० (सं० चण्ड + प्रयोत > प्रा० चंड + पज्जोय) पुरुष-विशेष; (ण० ७, ५, २१) ।

चंडभुज—वि० (सं० चण्डभुज > प्रा० चंड + भुज) प्रचण्ड भुजशाली; (ण० ६, ७, ६) ।

चंडमारी—स्त्री० चण्डमारी कात्यायनी देवी; (जस० १, ६, २) ।

चंडवालु—पुं० (सं० चण्डपाल) छंद-विशेष; (सुदं० ८, २६, ४) ।

चंडा—स्त्री० (सं० चण्डा) क्रोधी स्त्री, मानवती; तुल० राज० चंडा; (प्रा० पै० २, १०७) ।

चंडाल—पुं० (सं० चण्डाल > प्रा० चंडाल) वर्णसंकर जाति-विशेष, घृद्र और ब्राह्मणी से उत्पन्न; तुल० राज० चंडाल; (जस० २, ६, १) ।

चंडिया—स्त्री० (सं० चण्डिका > प्रा० चंडिया) पावती, गौरी, शिव-पत्नी; (प्रा० पै० २, ६६) ।

चंडियसमाण—वि० (सं० चण्डिसमाण) देवी तुल्य; (जस० १, ७, ११) ।

चंडुम्मि—पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ७१, ३८) ।

चंडेसरवर—पुं० (सं० चण्डेसरवर)

चंडेश्वर, व्यक्ति-विशेष-नाम; (प्रा० पं० १, १०८) ।

चंडेसो—पुं० (सं० चण्डीश) महादेव; तुल० राज० चंडीस; (प्रा० पं० २, १२) ।

चंदक—पुं० विद्याधरवंशीय राजा; (प० च० ५, ४३) ।

चंद—पुं० (सं० चन्द्र > प्रा० चंद)

चंद्रमा, चांद; (जस० २, ६, १; ण० ३, १, ६) । पुं० राक्षस योद्धा; (प० च० ५६, २) । वानरयोद्धा; (प० च० ७१, ३८) । दाशरथी भरत का पूर्वभव नाम; (प० च० ८२, १२८) । लक्ष्मण-पुत्र; (प० च० ६१, २०) ।

चंदकंता—स्त्री० दाशरथी भरत की प्रणयिनी; (प० च० ८०, ५२) ।

चंदकंति—स्त्री० (सं० चन्द्रकान्ति) रत्न-विशेष; (जस० २, ४, ८) ।

चंदकला—स्त्री० (सं० चन्द्रकला) चंद्रमा की ज्योति; (व० ६, ६, १२) ।

चंदक—पुं० (सं० चन्द्र + अकं > प्रा० चंद्र + अक्क) चंद्र और सूर्य; (ण० १, १६, ५) । २. राक्षस योद्धा; (प० च० ६१, १०) ।

चंदगइ—पुं० विद्याधर राजा; (प० च० २६, ८०) ।

चंदबूड—पुं० विद्याधरवंशीय राजा; (प० च० ५, ४५) ।

चंदजोइ—पुं० वानर राजा; (प० च० ५४, २०) ।

चंदण—पुं० न० (सं० चन्दन > प्रा० चंदण) सुगंधित वृक्ष-विशेष, चंदन का पेड़, तुल० राज० चंदण; (जंबू० १, ११,

१७) । —क्त्वा स्त्री० रावण-भगिनी; (प० च० ७, १८) । —छप्पय पुं० छंद का भेद; (प्रा० पं० १, १२२) । —इ पुं० (सं० चन्दन + आद्र) हरे चंदन वृक्ष (जंबू० ४, २१, २) । —पायव पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५७, ६) । —भ पुं० राक्षस योद्धा; (प० च० ६१, २७) । —लित्त वि० (सं० चन्दनलित्त) चंदन से लित्त; (जंबू० ८, १२, ५) । —साह स्त्री० (सं० चन्दनशाखा > प्रा० चंदण + साहा) चन्दन वृक्ष की शाखा; (जंबू० १, १०, ६) । —ह पुं० राक्षस योद्धा; (प० च० ५६, ३१) ।

चंदणसया—स्त्री० (सं० चन्दनलता) वनस्पति-विशेष; (प० च० ५३, ६७) ।

चंदणह—पुं० चंदन वृक्ष; स्त्री० चंद्र-नखा रावण की बहन; (जंबू० ५, ८, ३३) ।

चंदणहि—स्त्री० (सं० चन्द्रनखी) शूर्प-नखा; (महा०) ।

चंदणोल—वि० (सं० चन्द्रनाद्र) चंदन के समान शीतल; (व० ४, २, २) ।

चंदन—स्त्री० चंदना नामक आर्यिका; (व० १०, ४०, ६) ।

चंदनह—पुं० विद्याधर राजा; (प० च० ११४, १६) ।

चंदपह—पुं० (सं० चन्द्रप्रभ) आठवें तीर्थकर; (प० च० ६५, ३२) ।

चदगह—पुं० (दे० चन्द्रप्रभ > प्रा० चंदप्पभ, चंदप्पह) आठवें जिन-देव (तीर्थकर) का नाम; (ण० ५, ११८, ६;

- जस० १, २, ४) । २. चंद्रमा की प्रभा; (व० १, १, ६) ।
- चंद्रफलज—पुं० (सं० चन्द्रफलक) चंद्र-मंडल; (जं० ८, ८, ११) ।
- चंद्रमंडल—पुं० (सं० चन्द्रमण्डल) चंद्र-मंडल; (जं० १, १२, २) ।
- चंद्रमई—स्त्री० (सं० चन्द्रमती) यशोध-रजननीनाम; (जस० १, २३, ६) ।
- चंद्रमई—स्त्री० चंद्रवती, स्त्री-विशेष का नाम; (ण० ६, १, ६) ।
- चंद्रमणि—स्त्री० (सं० चन्द्रमणि) चंद्र-कांत मणि; (व० ५, १, ८) ।
- चंद्रमल—पुं० (सं० चन्द्रमाला) वाणिक छंद का नाम; (प्रा० पं० २, १६०) ।
- चंद्रमुहि—वि० (सं० चन्द्रमुखी) चंद्रमा के समान मुख वाली, (प्रा० पं० १, १३२) । —य वि० चंद्रमा के समान मुख वाली; (जं० ७, १२, ७) ।
- चंद्रराशि—स्त्री० (सं० चन्द्रराशि) नाम-विशेष; (भ०) ।
- चंद्रलेह—स्त्री० (सं० चन्द्रलेखा > प्रा० चंद्रलेहा) १. स्त्री-विशेष, एक राज पत्नी; (जस० ४, २४, २; ण० ८, १२, ६) । २. छंद-विशेष; (सुदं० ५, ७, १६) ।
- चंद्रवयण—वि० (सं० चन्द्रवदन) चंद्र-मुख, चंद्रमा की तरह सुंदर मुख वाला; (जं० ३, ३, ४) ।
- चंद्रवेज्ज—पुं० (सं० चन्द्रवेद्य) शस्त्र-विद्या; (सुदं० ३, ६, ११) ।
- चंद्रसरिस—वि० (सं० चन्द्रसदृश) चंद्रमा के समान; (जस० ४, १७, १६) ।
- चंद्रसिरि—स्त्री० (सं० चन्द्रश्री) स्त्री-नाम; (जस० ४, २३, ४) ।
- चंद्रसूर—पुं० (सं० चन्द्रसूर्य) चंद्रमा और सूर्य; (जं० १, १८, १०) ।
- चंद्रहासु—पुं० (सं० चन्द्रहास) रावण की तलवार; (महा०) ।
- चंदाइच्च—पुं० (सं० चन्द्रादित्य) चंद्रमा और सूर्य; “चंदाइच्चहें केम भाऊ आवइ आयवागु । ता दाणव ता देव जा विहि जोइ सामुहउं” । (प्रा० गु० ३८, ४१) ।
- चंदाणण—वि० (सं० चन्द्रानन) चंद्रा-नना, चंद्रमा के समान मुख वाली; (क० ८, १६, १०) ।
- चंदायणं—पुं० (सं० चान्दायण) व्रत-विशेष, चान्दायण व्रत, महीने भर का एक कठिन व्रत जिसमें चंद्रमा के घटने-वढ़ने के अनुसार भोजन घटाना बढ़ाना पड़ता है; (जं० ४-१४, १२; जस० २, ५८, १२) ।
- चंदारिसि—पुं० (सं० चन्द्र + ऋषि) गोत्र-विशेष; (क० १०, २८, १) ।
- चंदाहवत्त—वि० (सं० चन्द्रभावत्) पूर्णिमा के समान मुख चंद्र की आभा से युक्त; (जस० १, २, ४) ।
- चंदाहा—स्त्री० (सं० चन्द्र + आह्ला) चन्द्रा नामक कन्या; (ण० ७, ११, २) ।
- चंदि—स्त्री० (सं० चन्द्र) चंद्रमा; (प० सि० च० १, १०, ३३) ।
- चंदिण—स्त्री० (सं० चन्द्र) चांदनी, चंद्रिका; (जं० ८, १५, १५) ।

चंद्रिणी—स्त्री० चन्द्रिणी नामक स्त्री;
(ण० ङ, १२, ६) ।

चंद्रिम—स्त्री० (सं० चन्द्र) चंद्रिका;
(प्रा० गु० १२, ४) ।

चंद्रु—पुं० (सं० चन्द्र > प्रा० चंद्र)
चंद्रमा; (महा० ६८, ५) । —गम पुं०
(सं० चन्द्रोद्गम) चंद्रमा का उद्गम;
(व० ७, २, १२) ।

चंद्रोज्ज्वल—वि० (सं० चन्द्रोज्ज्वल)
चंद्रमा के समान उज्ज्वल; (जस० ४.
२७, ३) ।

चंदो—पुं० चन्द्र, (छंदशास्त्र में) षट्-
कल गण का नाम; (प्रा० पै० १, १५) ।

चंदोव—न० (सं० चन्द्रोपक > प्रा०
चंदोवग = संन्यासी का एक उपकरण)
चंदोवा; (सा० १६८) । —य न०
चंदोवा; (जंबू० १, १५, ७) ।

चंदोवडंबर—पुं० (सं० चन्द्रोपक +
आडम्बर) चंदोवा युक्त; (सुदं० ११,
१२, ८) ।

चंद्रमा—पुं० (सं० चन्द्रमस्) चांद;
(प्रा० पै० १, ३४) ।

✓ चंप—(दे०) चांपना, दवाना । —इ
सक० (जस० १, १५, ८; जंबू० १, ६,
६) ।

चंप—न० १. (सं० चम्पक > प्रा०
चंपय) चम्पा का फूल; (प० च० ४२,
८) । २. चम्पा एक पर्वतीय शहर,
चम्पा नगरी; (भ०; रि० २, ६) ।

—अ पुं० (सं० चम्पक > प्रा० चंपय)
पुष्प-विशेष; (प्रा० पै० २, १६३) ।

—एल पुं० (सं० चम्पक + तैल
> प्रा० चंप + तैल) चम्पा का तैल;
(सं० रा०) । —ग पुं० (सं० चम्पक

> प्रा० चंपय) वृक्ष-विशेष, चंपा का
पेड़; (प० च० ४६, ७४) । —य पुं०
(सं० चम्पक > प्रा० चंपय) चंपा का
पेड़, चम्पा का फूल; (प० च०; प्रा०
गु० १८, १६) । तुल० गु० चंपो ।
—हुल्ल पुं० (सं० चम्पक + फुल्ल >
प्रा० चंपय + फुल्ल) चम्पा का पुष्प;
(ण० ३, ४, १५) ।

चंपाणयरि—स्त्री० चंपानगरी (जंबू०
३, १०, ११) ।

चंपापुर—पुं० (सं० चम्पापुर) नगर-
विशेष; (जंबू० १०, २४, ११) ।

चंपारण—पुं० (सं० चम्पराण्य)
१. देश-विशेष, चंपारन, तिरहुत कमी-
शनरी (विहार) का एक जिला, २. चंपा-
रन का निवासी; (प्रा० पै० १,
१४५) ।

चंपाहिअ—पुं० (सं० चम्पाधिप) चंपा-
धिप, राजा-विशेष; (क० ३, १४,
६) ।

चपिय—वि० (दे०) आक्रान्त, चांपा
हुआ, दबाया हुआ; (सुदं० ६, २१,
५) ।

चम्पा—स्त्री० (सं० त्वक्) त्वचा;
(पड्) ।

चइअ—देखो चविअ; (प० च० १०३,
१२६) ।

चइअ—देखो चेइअ; (पड्) ।

चइतालय—पुं० (सं० चैत्य + आलय)
चैत्यालय, देवालय; "सुखर-वन्दिऐँ धवल-
विसालऐँ, गम्पिणु सिद्ध कूडेँ चइतालऐँ;"
(प० च० २४, ६, १) ।

चउ—वि० (सं० चतुर् > प्रा० चउ) चार, संख्या-विशेष; तुल० म० चौ; राज० चउ; (ण० ३, १७, १०; सं० रा०) । —अण्ण वि० (सं० चतुः पंचाशत्) चौवन; (प्रा० पै० १, ५७) । —आलह वि० (सं० चतुश्चत्वारिंशत् > प्रा० चउआलीस) चवालीस; (प्रा० पै० १, १४६) । —कसाय पु० (सं० चतुष्कपाय) क्रोध, मान, माया और लोभ; (जस० ३, १७, ७) । —क्क वि० (सं० चतुष्क) चार; “कण्णचउक्कु जाउ लक्खणधरु,” —लक्ष्म संयन् चार कन्याएँ उत्पन्न हुई; (जंबू० ४, १४, १७) । न० चार वस्तुओं का समूह, चौकड़ी; (भ०) । पु० (सं० चतुष्किका > प्रा० चउक्किआ) चौक; (ण० ६, २१, २; दे० ना० मा० ३, २) । —क्कन्ध पु० चतुः स्कन्ध; (भ०) । —क्कय पु० (सं० चतुष्क > प्रा० चउक्क) आंगन, एक प्रकार की सजावट; चौक, तुल० गु० चौक; (सं० रा०; प० च० २८, ६, ६) । —क्कलु पु० (छद्दशास्त्र में) चतुष्कल गण; (प्रा० पै० १, २०८) । —गइ स्त्री० (सं० चतुर्गति) नरक, त्रियंगु मनुष्य और देव की योनि; (ण० २, ६, १८) । —गइवयण पु० (सं० चतुर्गति + वदन) चतुर्गति रूपी मुख, “इंदियफडालु चउगइवयणु,” —इंद्रियों रूपी फणा, चतुर्गति रूपी मुख; (जंबू० ३, ७, १३) । —गुण, गुण वि० (—गुण) चौगुना; (पइ; जंबू० ६, १३, ६) । —ग्गयी वि० (सं० चतुर्गुण > प्रा० चउग्गुण) चार बार और उतना ही;

(सं० रा०) । —ग्गुणिय वि० (सं० चतुर्गुण) चौगुनी; (प० च० ८, ७, ६) । —चूड पु० (—चूड) विद्याधर वंश के एक राजा का नाम; (प० च० ५, ४५) । —णउइ वि० (—नवति) चौरानवे । —णउय वि० (—नवति) चौरानहवाँ; (प० च० ६४, १०६) । —णिकाय पु० (सं० —निकाय) चतुर्निकाय के देव; (व० ६, १२, ५) । —तीसइम देखो तीसइम; (प० च० ३४, ६१) । —ताली वि० (—चत्वारिंश) चवालीसवाँ; (प० च० ४४, ६८) । —तीसइम वि० (—त्रिंश) चौंतीसवाँ । —त्य वि० (सं० चतुर्थ) चौथा तुल० गु० चोयुं; (प्रा० पै० १, १३७ संघि० १८, ४, १०) । —त्यी स्त्री० (सं० चतुर्थी) चौथ, किसी पक्ष की चौथी तिथि; (जस० २, ४, ३) । —थिय वि० (सं० चतुर्थ) चौथा; (क० १०, १८, ४) । —थो वि० (सं० चतुर्थः) चौथा तुल० राज० चौथा, (प्रा० पै० २, ६६) । —दस वि० (—दशन्) चौदह; (जस० ४, ११, ४) । —दसि स्त्री० (—दशी) चतुर्दशी, तिथि-विशेष; (जस० ३, ३०, १५) । —दह वि० (सं० चतुर्दश) चौदह; (ण० १, १, ६) । —रह-रय पु० सं० (चतुर्दशन् + रत्नः) चौदह रत्न (व० २, १३, १) । —दार पु० (सं० चतुर्द्वार) चार दरवाजे वाला घर (जस० १, ४, ८) । —दिस स्त्री० (सं० चतुर्दिशम् > प्रा० चउदिसि) चार दिशाओं में; तुल० गु० चौदश; (ण० ६, ११) । चउदिसु; (प० च० २, १०

६) । —इसम वि० (—इस) चौदहवां; (प० च० १४, १५८) । —इसि स्त्री० (सं० चतुर्दशी > प्रा० चउदसी) तिथि-विशेष; (व० १०, ४०, १२) । —पइया स्त्री० चौपइया छंद, मात्रिक छंद; “चउ-पइया-छंदा भणइ फणिदा;” (प्रा० पै० १, ६७) । —पाण पुं० (—प्राण) इंद्रयादि; (जस० ४, १८, १८) । —पास क्रि० वि० (—पार्श्व) चारों ओर; (प० ४, १४, १४; जस० ३, १२, १३) । —पासिय वि० (—पार्श्वक) चारों ओर का; (भ०) । —प्पय वि० पुं० (सं० चतुष्पाद्-द) चौपाया; (भ०; जस० १, १०, ४) । —प्पह पुं० (सं० चतु पयः) चौराहा, वह स्थान जहाँ चार सहकें मिलें; (जं० ४, ८, ३) । —प्फ-लिय वि० (सं० चतुष्फलिक) चार भागों वाला; (प० च० ३६, ८, ७) । —वीस वि० (सं० चतुर्विंशति) चौबीस; (प्रा० पै० १, ६१) । —वोल पुं० चौबोला छंद, छंद-विशेष; (प्रा० पै० १, १३१) । —भुअ वि० (सं० चतुर्भुज > चउद्वभुअ) चार हाथ वाली; (प० च० १२, १०, २) । —भेय पुं० (सं० चतुर्भेद) चतुर्विध, चार प्रकार; (जस० ४, ८, १५) । —भाणयंम पुं० (सं० चतुर्मानस्तम्भ) चार मानस्तंभ, “चउमाणयंभ जिणकेय-णाइ परिहा वल्ली वणउववणाइ” चार मानस्तंभ, जिनकेतन, परिखावल्य, वन, उपवन; (सुदं० १, ६, ४) । —मासयं पुं० (सं० चतुर्मासिकम्) बरसात के चार महीने, अपाढ़, सावन, भादो और कुआर का चौमासा; (सप्प-विल

सोह-गुफ कूय-निन्तासयं । गुरुहु बुतु मुणिहि तिथु कियउं चउमासयं ॥ तुल० गु० चोमामु; (प्रा० गु० १६, २८) । —यालीस, चोआलीसह (वि०) (सं० चतुस्चत्वारिंशत्) चवालीस; (प्रा० पै०) । —रंग पुं० (सं० चतुरङ्गिणी) चार अंकों वाली सेना; (प० ७, १०, १) । —रंग-वलं पुं० चतुरंगिणी सेना; (व० २, १४, ४) । —रंगाणीया स्त्री० (सं० चतुरङ्गिणी) चार अंगों वाली सेना; (रि० ७, ६) । —रङ्ग वि० (सं० चतुरङ्ग > प्रा० चउरंग) चार अंगों वाला; (प० च० १६, ५, ११) । पुं० शतरंज का खेल; (प० च० ३८, १, १०) । —रद वि० (सं० अर्थचतुरां) साढ़े चार; (प० च० २४, १४, ६) । —रय पुं० (सं० चकोर) चक्रवाक पक्षी; (जस० १, १०, ५) । —रसम पुं० सं० चतुराश्रम चार आश्रम (ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वाणप्रस्थ, संन्यास) (प० १, ८, ३) । —रसी वि० (सं० चतुरशीति) चौरासी, (जस० ४, ११, ६) । —रि स्त्री० (सं० चत्वरी) लगन-मण्डप, चौकी; तुल० गु० चोरी; (जस० १, २७, ६) । —रिय स्त्री० (सं० चमरी) चोरी; “गुरुचउरिय हेमे गिम्म-विय;” स्वर्ण-निमित्त बड़ी-बड़ी चौरियाँ लटकायी गईं; (क० ७, ७, १०) । —हण वि० (सं० चतुर + जन) चार से कम; (प० च० ११, ४, ८) । —वग पुं० (सं० चतुर्वर्ग) घर्म, अर्थ काम, मोक्ष, (सुदं० १, १, ४) । —वण पुं० (सं० चतुर्वर्ण) चार वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बुद्ध; (प० १, ७, ८) । —वार पुं० (सं० चतुर्वार) चार दर-

वाजे वाला घर; (प० च० १६, ११, ७) । —वाह पु० (सं० चतुःपार्श्वम्) चारों ओर; तुल० गु० चोपास; (प्रा० गु० २४, २) । —विह वि० (सं० चतुर्विध) चार रूपों वाला; (जस० १, १, १०; प० १, १२, ५; म०) । —विह-गइ स्त्री० (सं० चतुर्विधगति) चार प्रकार की गतियाँ; "ए जिणवर णिज्जिय-रइवर विणिवारिय-चउविह-गइ;" अर्थात् उक्त समस्त जिनवर रति-वर-कामदेव को जीतने वाले हैं, चतुर्विध गतियों का निवारण करने वाले हैं; (व० १, १, १५) । टि०—हिंदू शास्त्रों के अनुसार जीव की तीन गतियाँ हैं—उर्ध्व गति (देव योनि), मध्यगति (मनुष्य योनि); अधोगति (तिर्यक् योनि) । जैन-शास्त्रों के अनुसार पाँच प्रकार की गतियाँ कही गई हैं—१. नरकगति, २. तिर्यक् गति, ३. मनुष्य गति, ४. देव-गति और ५. सिद्धगति । —वीस वि० (सं० चतुर्विंशति) चौबीस; तुल० म० चौबीस; चोबीस; (भ०; सुअंघ० १, १) । —वेइ पु० (सं० चतुर्वेदिन्) १. चतुर्वेदी, चौबे, ब्राह्मणों की एक जाति या शाखा, २. मथुरा का पंढा; (सं० रा०) । —व्विह वि० (सं० चतुर्विध) चार रूपों वाला, चौतरफा; (जंबू० १०, २६, १०) । —सट्ठि वि० (सं० चतुःषष्टि > अर्धं मा०, जैन म० चउसट्ठि-चोसट्ठी-चउवट्ठि, पिंशेल) चौसठ; तुल० राज० चौसठ; (प्रा० पं० १, ५१) । —सण्णा स्त्री० (सं० चतुःसंज्ञा) आहा-रादि; (जस० ३, १७, ८) । —सत्थिय

वि० (सं० चतुःशास्त्रीय) चार शास्त्रों का; (क० ८, १७, ८) । —सय वि० (सं० चतुर + शत) चार सौ; (व० ३, ५, ६) । —हत्तर, हत्तरि वि० (सं० चतुःसप्तति) चौहत्तर; (महा०) ।

चऊ—वि० (सं० चतुर् > प्रा० चउ चार; (प्रा० पं० २, १५८) ।

चकमक—पु० (तुर्का चक्रमाक = एक प्रकार का कड़ा पत्थर जिस पर चोट पड़ने से बहुत जल्दी आग निकलती है) चमक, जाज्वल्यमान होना; "धर चकमक कर बहु दिसि चमले," अर्थात् घोड़ों के चँवर बहुत सी दिशाओं में चकमक करते हैं; (प्रा० पं० १, २०४) ।

चक्कंरु—पु० व्यक्ति-विशेष-नाम; (प० च० १०, ३) ।

चक्क—पु० (सं० चक्र > प्रा० चक्क) कुम्हार का चाक; तुल० म० चाक; (भ०) । २. समूह, "इमो पक्खिरायस्स चक्कस्स चक्को;" अर्थात् यह (वालक) पक्षिराज (गरुड़) के समूह के लिए भी चक्र (सुदर्शन) के समान है; (जंबू० ५, ५, ६) । २. आभूषण-विशेष, (संधि० २, ३; ७) । ३. न० पहिया; (प्रा० पं० १, ६, ६) । ४. न० गाड़ी की पहिया; (प० ७, १, ७) । ५. आयुध-विशेष; (प० च० ७१, २१; जस० १, २, ११) । ६. सुदर्शन चक्र; (जंबू० ५, ५, ६) ।

—चिक्कार पु० (सं० चक्र + चीत्कारः) चक्र का शब्द; (क०) । —धर पु० (सं० चक्रधर) चक्रवर्ती, "नवनिहिरयणा-हिउ चक्कधर, छक्कडवसुंधरि धरिय-क्कर," अर्थात् (वह; मंत्री) आदि ती

निधियों का रतनाकर तथा पट्टखंड वसुंधरा से कर लेने वाला चक्रवर्ती था; (जंबू० ३, ३, १२) ।

चक्रकणाह—पुं० (सं० चक्रनाथ) चक्रवर्ती; (जस० २, २५, १४) ।

चक्रकृद्व्रज—पुं० चक्रपुर (चक्रपुर) का राजा; (प० च० २६, ४) ।

चक्रकपभ—पुं० (सं० चक्रपद) छंदशास्त्र में) वर्णिक छंद का नाम (प्रा० पं० २, १५२) ।

चक्रकपाणि—पुं० (सं० चक्रपाणि > प्रा० चक्रपाणि) चक्रवर्ती राजा, सम्राट; (व० ४, १२, ५) ।

चक्रकपय—पुं० (सं० चक्रवाक > प्रा० चक्रवाक) चक्रवाक पक्षी; (प० च० १८, ११, ४) ।

चक्रकरे—स्त्री० (सं० चक्राकार) चक्राकार भौरी; (की० ४, ३२) ।

चक्रकल—वि० (सं० चक्रक > प्रा० चक्रक) १. गोलाकार, वर्तुल; (प० च० २६, १०, ७) । २. चक्राकार, विशाल; (सुदं० ३, १०, १३; जंबू० १, १२, ५) । —य वि० गोलाकार; (प० च० २३, १, ६) ।

चक्रकलत्त—पुं० (सं० चक्रत्व) परिधि, "चक्रकलत्तु जोषणाइ, पंचवीसदूणिगाइ"; अर्थात् उस पर्वत की परिधि पचीस के दुगुने अर्थात् पचास योजन है; (क० ५, १, ६) ।

चक्रकलिय—वि० (सं० चक्रवत्) भ्रांत; (भ०) ।

चक्रकलु—पुं० (छंदशास्त्र में) चतुष्कल गण; (प्रा० पं० १, ८५) ।

चक्रकवइ—पुं० (सं० चक्रवर्तिन् > प्रा० चक्रवइ) छह खण्ड भूमि का अधिपति राजा, सम्राट; (ण० ४, ४, १३) । —विहइ पुं० चक्रवर्ती विभूति; (जंबू० ३, ३, १६) ।

चक्रकवइ—पुं० (सं० चक्रपति) मध्य गुरु चतुष्कल जगण (ISI); (प्रा० पं० १, २५-६६) ।

चक्रकवट्टि—वि० (सं० चक्रवर्तिन्) चक्रवर्ती, आसमद्रान्त भूमि पर राज्य करने वाला; (जस० ३, २६, ६) । चक्रकवट्टी—वि० चक्रवर्ती (जंबू० ३, ८, ७) ।

चक्रकवाय—पुं० (सं० चक्रवाक) चक्रवा; (जंबू० ५, ७, ३) ।

चक्रकवाल—पुं० (सं० चक्रवाल) चक्रवाल नामक नगर; (क० ५, २, १) ।

चक्रकह—पुं० (सं० चक्र > प्रा० अप० चक्र) समूह; (की० ४, १४) ।

चक्रकहय—पुं० (सं० चक्रवाक) चक्रवाक चक्रवाक पक्षी; (प० च० २४, १, ३) ।

चक्रकहर—वि० (सं० चक्रधर) चक्रधारी; "वलएउ चक्रकहर सुरणाइ णहे खयर;" अर्थात् बलदेव, चक्रधारी नारायण, सुरेंद्र, आकाशगामी खेचर; (क० ६, ७, ६) । चक्रकहरा—वि० चक्रधारी "तह चक्रकराणय-वोमयरा; (व० २, १५, ३) ।

चक्रका—पुं० (सं० चक्र > प्रा० चक्र) व्यूह-रचना; (की० ४, १७४) ।

चक्रकाई—स्त्री० (सं० चक्रवाकी > प्रा०

चैवकवाई) चक्रवाक पक्षी की मादा;
(प० च० १६, ५१) ।

चैवकाउह—पु० (सं० चैक्रायुध) श्रीवि-
ष्णु; (व० १०, १६, ८) ।

चैवकाय—पु० (सं० चक्रवाक > प्रा०
चैवकवाग, चैवकवाय) चक्रवाक पक्षी;
(प० च० ३४, ३२) ।

चैवकार—पु० विद्याधरवंशीय राजा;
(प० च० ५, २६३) ।

चैवकालंक्रियकर—पु० (सं० चक्र +
अलङ्कृत + कर) चक्र से अलङ्कृत हाथ;
(व० २, १२, ११) ।

चैवकावट्ट—पु० (सं० चक्रावर्त) चक्र
की तरह गोल आकार का; (सं० रा०) ।

चैविक—पु० (सं० चक्री) त्रिपृष्ठ नामक
नृप; “चैविकहे कमलमलपुरा णविया;”
(व० ६, ७, ११) ।

चैविकी—स्त्री० १. (सं० चक्रवाकी >
प्रा० चैवकवाई) चक्रवाक पक्षी की मादा;
(प० च० १६, ५४) । २. स्त्री० (सं०
चक्री) गाथा छंद का भेद; (प्रा० पै०
१६१) । ३. पु० (सं० चैक्रिन्) चक्र-
वर्ती; (जंबू० ३, ४, ७) ।

चैविकेसर—पु० (सं० चक्र + ईश्वर)
चक्रेश्वर, चक्रवर्ती, चक्र या मंडल का
राजा; (जंबू० ३, ७, १०) ।

चैविकोरप्रच्छि—वि० (सं० चैविको-
राक्षी) चैविक पक्षी के समान नेत्र वाली;
(क० ७, ४, ८) ।

√चैवख—(दे०) आस्वादन करना,
स्वाद लेना, चखना । —इ सक० (ण०
४, २, १६; महा० २, १६, १४) ।

चैवखंत—कृ०; (जंबू० ६, ५, १२) ।

चैवखज्जइ—आ + स्वादय (कर्मणि)
(जंबू० १, ८, ६) । चैवखवि—पु०-
का० क्रि०; (ण० ६, २, ११) । तुल०
राज० चखणी, चखवी; चाखणी,
चाखवी ।

चैवखु—पु० न० (सं० चैवखुप > प्रा०
चैवखु) नेत्र, आंख; तुल० राज० चैवखु;
(प्रा० पै० २, १५१) । —गम्म (सं०
चैवखुर्गम्य) दृष्टिगोचर; (जस० ४, १७,
१७) । —नाम पु० आठवें कुलकर;
(प० च० ३, ५३) ।

चैवङ्गय—वि० (दे० चैवङ्ग > प्रा० चैंग)
चार, सुंदर, मनोहर; (प० च० १४,
३, ५) ।

चैवचंकेय—वि० (सं० चैवर्चा + अङ्कित)
चैचित; (जस० २, ११, ५) ।

√चैवच—(सं० चैवर्च) चैचित करना;
(सं० रा०) ।

चैवचर—न० (सं० चैवचर > प्रा०
चैवचर) १. चौहट्टा, चीरास्ता; (महा०
६८, ३; जस० ४, २१, १४) । २. चौक;
तुल० गु० चौक; (सुदं० २, १०, २७) ।
३. रास-स्थान; (प० च० ५६, १४,
६) । चैवचर—न० (सं० चैवचर) चैव-
तरा; (रि० १, ८) —वंत वि० (सं०
चैवचरवत् अथवा चैवरी + वत् sport-
ive) चैवराहों सहित; “भमेविणु पट्टणु
चैवचखंतु” (क० ३, २०, ७) ।

चैवचरि—स्त्री० (सं० चैवरी > प्रा०
चैवचरी) १ गीत-विशेष, एक प्रकार का
गान; (सं० रा०) । २. एक प्रकार नृत्य;
(सुदं० ७, ५, ६) । —यवध पु० (सं०

चच्चरी+वन्ध) चच्चरिया नामक छंद;
(जं० १, ४, ५) ।

चच्चरी—स्त्री० (सं० चच्चरी) चच्चरी
नामक वर्णिक छंद का नाम; (प्रा० पं०
२, १८) । २. (सं० चच्चरीक)
भ्रमरी; (व० २, ३, १४) ।

चच्चिअ—वि० (सं० चच्चित) जिसकी
चर्चा हो, विचारित; (क० ४, २, ४;
जस० २, ११, ५) । चच्चिअ—वि०
चचित; (जस० १, १४, १; जं० ६,
२, ५) ।

चच्चिकिअ—वि० (दे०; प्रा० चच्चि-
क) विलिप्त, चंदन आदि सुगंधित वस्तु
का लेप किए हुए; "चच्चिको" (पड;
प० च० ४०, २, ७) । २. विभूषित
मण्डित; (प० च० ३४, १०, ४) ।

चच्चिक—पुं० न० (दे०; प्रा० चच्चि-
क) विलेपन, चंदनादि सुगंधित वस्तु
का शरीर पर लेपन; (प० च० ५१, ४,
३) । २. वि० विभूषित, मंडित; (दे०
ना० मा० ३, ४) ।

चच्चिकिअ—वि० (सं० चर्चा+कृत)
चचित, चर्चा किया गया; विचार किया
गया; (जस० १, ६, ५) ।

चच्चिअ—वि० (दे०) त्यक्त; (व० १,
१२, १३) ।

चच्चलु—वि० (सं० चच्चल > प्रा०
चंचल) चपल, चंचल; (हे० ४१८,
३) ।

चच्चरिअ—पुं० (सं० चच्चरीक > प्रा०
चंचरीअ) भ्रमर; (प० च० ४०, १६,
६) ।

चच्चट—पुं० (दे०) शिष्य; तुल० गु०

चेलो; (संधि० ३, ८, ६) ।

चच्चण—वि० (दे०) नाशक, भक्षक;
(जस० ४, २३, १४) ।

चच्चणु—क्रि० भू० का० (दे०; प्रा० ✓
चच्चट=चाटना) चाटना "वरणहधच्चणु
अहरसुच्चटणु," धीरे-धीरे नख घच्चन
करती, व अघर चाटती; (सुदं० ८, २८,
१०) ।

चच्चदुअ—पुं० न० (दे०) यष्टी, चटुला,
लाठी, छड़ी, डंडा, गदा; "चालुअ चच्च
दुअचूरियड;" अर्थात् तब उसे शारी और
चटुए से कुचला गया; (जस० ३, ५, १४) ।

चच्चक—पुं० न० (दे०) शस्त्र-विशेष;
(प० च० ७, २६) । २. चक्र; (प० च०
७, २८) । ३. विद्युत; (प० च० ४३,
१५, ६) ।

✓चच्च—(प्रा० चच्च) आच्छ होना
चचना; (सं० रा०) । —इ अक० (हे०
४२१; महा० २, १६, १; सं० रा०) ।

चच्चति—क्रि०, व०, व० चच्च रही हैं; (प०
१, १८, ३) । —न्ति कृ० चच्चती हुई;
"दीसइ रोमावलि छुडु चच्चन्ति" अर्थात्
'धीरे-धीरे चच्चती हुई रोमावलि ऐसी
दिल्लई देती है'; (प० च० १०, ३, ४) ।

चच्चन्तहो—कृ० चच्चते हुए, (प० च०
३, २, ८) । चच्चइअ—(कर्मवाच्य)
चचाया जाता है; (सं० रा० ५२) ।

चच्चविय—पुं० का० क्रि०, सं० आ+
✓रह+कत्वा; चच्चकर; (सुदं० १०,
१०, १५) । चच्चड—भू० का० चच्चे;
(सं० रा० १४४) ; चच्चहूँ—भू० का०
चच्चगे; (हे० ४३६) । चच्चड—क्रि०,
व०, चच्चता है; (पाहु०) । तुल० म०
चच्चणो । चच्चड—पुं० का० क्रि०, चच्च-
कर; (जं० ७, ५, ७) । चच्चणो—

क्रि० भू० का० चड चंया; "समसीस-
दाणो विमाणं चडिणो;" (राजा द्वारा)
आशीर्वाद देने के साथ ही विमान में चड
गया; (जं० ५, ५, १४) । चडियड—
क्रि०, भू० का० (प्रा० चड) १. आरुढ़
हुआ; "सो णवजोव्वणे चडियड"—वह
नव जीवन में आरुढ़ हुआ; (सु० ३,
६, २०) । २. प्राप्त हुआ; "पुरिससीह
णवजोव्वणे चडियड"—वह पुरुषसिंह
नव जीवन को प्राप्त हुआ, (ण०, ३,
४, २) । चडीणा—कृ० चडकर; (क०
३, ६२) । चडु—क्रि०, आ०, चडो;
"हय जोत्ते महारहन्नीडे चडु"—अर्थात्
घोड़े जोतो और महारथ की पीठ पर
चडो; (प० च० १६, २, ५; ण० ३,
६, १४) । चडेइ—क्रि०, व०, चडना;
(परम० २, ४६) । चडेप्पिणु—पू० का०
क्रि० आरुढ़ होकर, प० च० ३, १२,
६) । चडेवि—पू० का० क्रि० चड
कर; (प० च० ११, ३, ६) ।

√चडचडचड—(सं० चडचडाया) 'चड-
चड' आवाज करना । चडचडचडन्त—कृ०
(प० च० २६, ५१) ।

चडण—न० (दे०) आरोहण; तुम० गु०
चडाण; राज० चडणो, चडवो; (संघि०
१२, ५, २२) । चडणं—न० चडना;
(सु० ६-८) ।

चडफडंत—कृ० (दे०) तड़फड़ते हुए;
(जं० १०, १४, १३; क० ८, २०,
५) ।

चडयम्म—पुं० (सं० चण्डकर्मन्) राज-
पुरुषनाम-विशेष; (जस० १, ११,
६) ।

चडयर—पुं० (दे०) समूह; (प० च०
२, ४८) ।

√चडाव—(दे०) चढ़ाना; (उ० व्य०
प्र० ६, २२) । तुल० राज० चडाणी ।

—वि पू० का० क्रि०, चडाकर; (प०
च० १६, १); स्थापित कर; (प० च०

१४, ६, २) । —हि क्रि०, आ०, चडा-
इए, "तं तुहं मि चडावहि णिययकव्वि;"

(ण० १, ४, १) । चडाविड—क्रि०,
व०, चढ़ाना; (महा० ३०, १२, ६) ।

चडावियड—भू० का०, चढ़ाया हो;
"इसड कम्म करड (व) गुहं चडावि-

यड;" अर्थात् 'जैसे कामदेव ने कर में
धनुष को चढ़ाया हो;' (रा० ३१) ।

चडावए—क्रि०, व० चढ़ाता है; (की०
२, २०३) । चडाविड—क्रि०, भू० का०

चडा लिया, "अच्छे चडाविड तिहुअण-
णाहड" —त्रिभुवननाथ को इंद्र ने

गोद में ले लिया; (प० च० २, ३, १) ।
चडाविय—पू० का० क्रि० चडाकर, "तो

सिरसिहरि चडावियहत्थे;" अर्थात् अपने
सिर पर हाथ चडाकर; (जस० ३, २६,

६) । चडाविडि—पू० का० क्रि० चडा-
कर; (व० ४, १०, ६) ।

चडावल्लि—वि० चंद्रावती, स्त्री-नाम;
(प्रा० गु० ५, ४८) ।

चडाविय—वि० (दे०) आरोहित,
चढ़ाया हुआ, ऊपर स्थापित; (क० १,

१२, ४) ।
चडि—पू० का० क्रि० (सं० मृद का

घात्वादेश चडु = मर्दन करना, मसलना)
मसल कर, मर्दन कर; (की० ४,

१४६) ।

चडिअ—वि० आरूढ़, चढ़ा हुआ; (क० ३, १, ३) ।

चडिउत्तरिय—पुं० (दे०) आरोह+ अवरोह; चढ़ाई (ऊपर की ओर बढ़ना) और उतार (ऊपर से नीचे की ओर आना); तुल० गु० चढऊतर; (प्रा०-गु० २३, १) ।

चडिण्ण—वि० (दे०) आरूढ़, चढ़ा हुआ; (सुदं० ५, ५, ३) । —अ वि० आरूढ़; (क० ३, १, ३) ;

चडिंय—वि० (दे०) आरूढ़, चढ़ा हुआ; (सुदं० ६, १०, ५) ।

चडिर—वि० (दे०) आरोहणशील; (जस० १, ५, १३) ।

चडुय—वि० (सं० चटुल > प्रा० चडुल) चंचल, चपल; (ण० २, ११, ११) ।

—म पुं० (सं० चाटुकर्म) खुशामद; (सुदं० ८, १६, ५) ।

चडुलंग—वि० (दे०) अति चपल अंग वाले "पट्ट तुरंगो अइ चडुलंगो;" (व० ४, २२, २) । चडुलङ्ग—वि०

चंचल (घोड़ा); (प० च० ५, ३, ६) ।

चडुडण—न० (दे०) मर्दन; (भ०; प० च० ५१, ६, ५) ।

चडुडिय—वि० (दे०) आरूढ़; (प० च० २६, ११, ४) । २. पिष्ट, मृदित; (प० ३७, ६, ५) ।

√चड—(दे०; प्रा० चड) चढ़ना । —इ क्रि०, व० (दे० सा० दो०) ।

चडिले—भू० का० चढ़ा; तुल० भगही चढल; (क० मरिया, चर्यापद) ।

चणय—पुं० (सं० चणक > प्रा० चणअ)

चंनो, अन्न-विशेष; (म० २, ५५, १०; भावना संधि-प्रकरण) ।

चतारि—वि० (सं० चत्वारि > चत्तारि (प० च०) चतारि, चार; (भ० क०) ।

चत्त—वि० (सं० त्यक्त > प्रा० चत्त) छोड़ा हुआ, परित्यक्त; (प० च० १७, १३, १; ण० १, ४, ५; म० १, १, ४) ।

चत्तयं—वि० (सं० त्यक्त + क) अपात्र; "कुमुइ कुमीनु कुतवसिहि रत्तउ तं जाणसु कुवत्तयं," अर्थात् जो झूठे शास्त्रों, कुत्सित आचारों तथा कुत्सित तपस्वियों में अनुरक्त रहता है उसे कुपात्र जानो; (ण० ४, ३, २) ।

चत्तारि—वि० (सं० चत्वारि) चार; (ण० १, ८, ३; जस० ३, ५, २) ।

चत्थरि—स्त्री० (दे०) हास्य, विनोद; "इविभल चत्थरि रयइ जाम णियइ-इएं दिट्ठिय-दुट्ठु ताम;" अर्थात् जब वह काम-विह्वल होकर उस देवर से विनोद कर रही थी, तभी उस दुष्ट को उसके पति ने देख लिया; (जस० ४, २५, १३) ।

चन्दकान्त शिला—स्त्री० (सं० चन्द्रकान्त शिला) गृहोद्यान में बैठने या लेटने के लगी जाने वाली शिला; (की० २, २४५) ।

चन्दणहा—स्त्री० (सं० चन्द्रनखा) शूर्प-णखा, स्त्री-विशेष का नाम, (प० च० ४०, १८, १) ।

चन्ददधु—पुं० (सं० अर्धचन्द्र) चंद्रमा जब बाधे-आकार का दिखाई पड़ता है; (प० च० १४, ५, ३) ।

चन्द्रमसु—पुं० (सं० चन्द्रमसु > प्रा० चंद्रम) चंद्रमा, चाँद; (प० च० १५, ११, ७) ।

चन्द्रहासु—पुं० (सं० चन्द्रहास) चमच-माती तलवार, रावण की तलवार का नाम; (प० च० १०, १, १) ।

चन्द्रिण्य—न० (दे०, प्रा० चंद्रिण) चंद्रिका, चंद्रप्रभा; तुल० गु० चाँदरगुँ; (प० च० १०, १, ६) ।

चन्द्रिय—स्त्री० (सं० चन्द्रिका > प्रा० चंद्रिया) चंद्र की प्रभा. ज्योत्स्ना; (प० च० ६, ७, ४) ।

चन्द्रचूड—पुं० (सं० चन्द्रचूड) शिव, शंकर; (की० १, ८६) ।

√चप्प—(प्रा० चप्प) दवाना, कुचलना; (जस० २, १८, ७) । —मि क्रि० व०, ए० (प० च० २६, ४, ३) ।

—रि पू० का० क्रि० (सं० √आक्रम का घात्वादेश चप्प=आक्रमण करना, दवाना) १. दवाकर; (की० २, १२२) ।

२. आक्रमण करके; “चोर चप्परि घर लिञ्जिअ,” —अर्थात् चोरों ने आक्रमण करके घर ले लिए (अथवा उन पर अधिकार जमा लिया); (की० २, १०) ।

—वि पू० का० क्रि० आक्रमण करके; (ण० ३, १६, २) । —हि (विधि०) पदापण कीजिए; “जिह मरु तिह घर पंगरु चप्पहि” —जिस प्रकार आपने मेरे मन में प्रवेश किया है, उसी प्रकार घर के आंगन में पदापण कीजिए; (ण० ५, २, १) । चप्पिउ—भू० का० चाँप दिया; (व० ५, ६, ६) । चप्पिलिऊ—भू० का० चाँप लिया, दवा लिया; “महराअन्हि

चप्पिलिऊ; (की० ४, २३६) । चप्पेवि-पू० का० क्रि०; (प० च० ४६, १०, १०) ।

√चप्प—(दे०) चवाना; (म० २, १५, १) ।

चप्प—पुं० (सं० चाप) धनुष, कमान; (क० ३, १८, ३) ।

√चप्पड—पुं० (दे०) घी, तेल इत्यादि पदार्थ, जो चुपड़ा जा सके (तैलाम्यङ्गे); (जस०) ।

चप्पण—न० (दे०) आक्रमण; (जं० ७, ६, १०) । —य पुं० दवाना, कुचलना; (प० च० २१, १, १०) ।

चप्परि—क्रि० वि० (सं० चपल) चपलता से, फुरती से, तेजी से; (जस० ४, २४, ८) । शीघ्रता से; “चारि दिसि चप्परि छुट्टइ;” —चारों दिशाओं को दबाते हुए शीघ्रतर चले; (की० ४, ६२) ।

चप्पिय—वि० (दे०) सं० आक्रान्त, प्रा० चप्पिय; दवाया हुआ; तुल० म० चापणें, चोपणें; (प० च० ४, १३, ६; क० ८, २०, ८) ।

चप्पिलिऊ—क्रि० (सं० आक्रम का घात्वादेश प्रा० अप० चप्प) चाँप लिया, दवा लिया, आक्रान्त कर लिया; (की० ४, २३६) ।

चमक—स्त्री० (सं० चमत्कृत्) प्रकाश, ज्योति; (की० ४, ७१) ।

चमकक—पुं० (सं० चमत्+कृ) चमत्कृति, चमत्कार, तुल० म० चमक; (म०; जस० १, ८, १) । —अ पुं० विस्मय, चमत्कार; (सं० १७, ३, २) ।

√चमक्क—(सं० चमत्+कृ) प्रा० चमक्क, चमक्कार) आश्चर्यान्वित करना ।
—इ सक० विस्मित करना; (ण० ३, १३, १; सुदं० ७, १२, १६) । —इ अक० चमकना, चौकना; (क० ८, ६, ३) ।

चमक्कथ—वि० (सं० चमत्कृत) प्रा० चमक्कअ) विस्मित; (सं० रा०) ।

चमक्करि—वि० (सं० चमत्कृत) प्रा० चमक्कअ) चमत्कृत कर देने वाली; (सं० रा०) ।

चमक्किय—वि० (सं० चमत्कृत) प्रा० चमक्कअ) विस्मित, चमत्कृत; (ण० २, ६, ४) ।

चमट्टि—न०+न० स्त्री० (सं० चर्मन्+अस्वि) प्रा० चम्म+अट्टि) चर्म और अस्वि; (ण० ४, ४, १०) ।
—सेस पुं० (सं० चर्मास्विशेष) चर्म और अस्वि का बचा हुआ भाग; (जस० १, ६, ७) ।

चमर—पुं० न० (सं० चामर) प्रा० चमर) चामर, चँवर; (जस० १, १२, ६; जंजू० १, १२, ५) । २. गुस् अलर; (प्रा० पं० २, १३६) । ३. प्राणी-विशेष; (पं० चं० ३, ८२) । ४. पूँछ, पुच्छ; (जस० २, ३, ६) ।

चमराणिल—पुं० (सं० चामर+अनिल) चँवर की वायु; (जंजू० ३, ७, ७) ।

चमल—पुं० न० (सं० चामर) चँवर, चामर; (प्रा० पं० १, २०४) ।

√चम्प—(प्रा० चम्प) कुचलना, दवाना; तुल० गु० चांपदु, चम्पे वि—पू० का०-

क्रि०; (पं० चं० ३०, ८, ४) ।

चम्पय—न० (सं० चम्पक) प्रा० चंपय) चम्पक कुसुम, चम्पा का फूल; (हे० ४४४, ४) ।

चम्पिज्जइ—क्रि० (कर्मवाच्य) चांप ली जाए, ग्रहण कर ली जाए, (हे० ३६५, ६) ।

चम्म—न० (सं० चर्मन्) प्रा० चम्म) चर्म, चमड़ा; खाल; तुल० म० चमड़ी; (प्रा० पं० २, १०७; महा० ६८, १०, २) । —इ न० चाम; (ण० ४, १५, ६) । —चक्खु पुं० न० (सं० चर्मन्+चक्षुप्) चर्म चक्षु, "डङ्गउ माणुसु जं चम्मचक्खु;" अर्थात् धिक्कार है इस चर्म-चक्षुओं से दिखने वाले मनुष्य को; (जस० ४, १, ७) । —जट्ठि स्त्री० (सं० चर्मन्+यट्ठि) चातुक, चर्मयष्टि; (जंजू० ४, २१, ७) । —पर्डलि स्त्री० (सं० चर्मपटल) चर्म के रूप में आवरण रूप वस्तु- (व० ६, १५, १) । —यर पुं० (सं० चर्मन्+कर) प्रा० चम्मयर) मोची, चमार; (दे० ना० मा० २, ३७) ।
चम्मयाइ—न० (सं० चर्मन्+क) चर्म "फाडियाइ चम्माइयें;" (क० ७, १०, ८) ।

√चय—(सं०√त्यज्) छोड़ना, त्याग करना । —इ सक० (सं० त्यजति); (भ०) । चइवि—पू० का० क्रि० (सं० त्यज्) प्रा० चय, चइअ) त्याग कर, छोड़ कर; (सं० रा०) । चएप्पिणु—

पू० का० क्रि० च्युत होकर; (ण० ६, १६, १३); "एवहि सत्तमदियहे चएप्पिणु," अर्थात् अब यहाँ से सातवें दिन

च्युत होकर; (जंबू० ३, १०, ७) ।
 चएवि—पू० का० क्रि०, “वत्युसरूउ
 चएवि जहिच्छएँ;” अर्थात् वस्तु के स्व-
 रूप को छोड़कर; (जंबू० ६, १, १४) ।
 चएसइ—भ० का०, “घरवासु चएसइ
 दिक्ख लएसइ,” अर्थात् जो गृहवास छोड़-
 कर दीक्षा लेगा; (जंबू० ४, ६, १५) ।
 चयंत-कृ० (सं० त्यज् + शतृ) (जंबू०
 २, ७, ११) ।

√चय—(सं०√च्यु) मरना । —इ
 अक० (सं० च्यवते); (भ०) ।

चयण—न० (सं० त्यजन) त्याग, परि-
 त्याग; (जंबू० १०, २१, ८) ।

चयारि—वि० (सं० चत्वारि) चार;
 (ण० ६, १२, ६; क० ६, २३, ३; प०-
 च० २१, ४, ८) ।

चर—पुं० (सं० प्रा० चर) दूत; ‘एरिसु
 भणवि चर-लोयणेहि,’ (विला०) ।

चर—(सं०√चर् > प्रा० चर) गमन
 करना, चलना, जाना; (जस० १, २१,
 २) । —इ सक० (सं० चरति > प्रा०
 चरइ) भक्षण करना; (प० च० १, १०,
 ८) । चरंत—कृ० (सं० चर् + शतृ);
 (जस० ३, १६, ६) । चरन्तहो—कृ०
 आचरण करते हुए; (प० च० ३, २,
 ८) । चरिज्जइ—(कर्मणि) पालन किया
 जाता है; (जंबू० २, २, ११) । चरिवि
 —पू० का० क्रि० (सं० चरित्वा) चर
 कर; (परम० २, १३६) । चारी—भू०
 का० परिभ्रमण करने लगे, चक्कर काटने
 लगे; (की० ४, १७०) । चारीवा—भू०-
 का० गमन कमते थे, घूमते थे; (की० २,
 २१८) ।

चरइ—पुं० (सं० चरट > प्रा० चरइ)
 चोर; (भ०) ।

चरण—न० (सं० प्रा० चरण) भक्षण;
 (प० च० ३७, ४, ३) । २. पद, (जस०
 १, १, २) । ३. छंद का चरण, आदि-
 गुरु चतुष्कल, भगण (शा); (प्रा० पं०
 १०, २) । ४. व्रत आदि अनुष्ठान,
 (जस० १, १, १२) । —ग्ग पुं० (सं०
 चरण + अग्र) पैरों का आगे का भाग,
 (जंबू० १, १, १) । —जुयल पुं० (सं०
 चरण + युगल) पैरों का जोड़ा; (जस०
 १, १, २) । —सेव स्त्री० (सं० चरण
 + सेवा > प्रा० चरण + सेवा स्त्री०)
 चरणों की सेवा; (की० १, ८६) ।

चरमतयु—पुं० (सं० चरम + तनुस्)
 चरमशरीरी, जंबूस्वामी; (जंबू० ७, १,
 २१) ।

चरमशरीर—पुं० (सं० चरमशरीर)
 अंतिम शरीर; (जंबू० ४, ३, ८) ।

चरपनाच—पुं० फ़ा० चर्च = मुसल-
 मानी दरवेशों में घूमघूम कर किया जाने
 वाला धिन्नीदार नृत्य; आकाशमण्डल
 (आकाश के चरवं के समान घूमने की
 कल्पना की गई थी, + नृत्य) नृत्य-विशेष
 चक्राकार घूम-घूमकर किया जाने वाला
 नृत्य; (की० २, १८७) ।

चरिअ—न० (सं० चरित् > प्रा०
 चरित्त) चरित्र, आचरण; (जंबू० १,
 १८, २२) ।

चरिउ—न० (सं० चरित्र > प्रा०
 चरित्त) चरित्र; (व० १, १, २) ।

चरित्त—न० (सं० चरित्र > प्रा०
 चरित्त) स्वभाव, प्रकृति; व्यवहार; (की०

१, ५८; प्रा० पै० १, १४४) । २. आचरण; (जस० १, ३१) ।

चरिम—वि० (सं० प्रा० चरिम) अंतिम, अंत का; (भ०) ।

चरिय—पुं० (सं० चरित्र > प्रा० चरित्त) चरित्र, आचरण; (जस० ३, १७, १६) । —करण पुं० चरित्र-रचना; (जंबू०) । —सय पुं० (सं० चरित्रशत) सैंकड़ों चरित्र; (जंबू० ४, ४, ६) ।

चरिया—स्त्री० (सं० चर्या > प्रा० चरिया) अनुष्ठान, "मज्झिम्हो चरियाएँ पईसइ;" —मध्याह्न में उन्होंने चर्या के लिए (नगर में) प्रवेश किया; (जंबू० ३, ६, ६) ।

चरीय—स्त्री० (सं० चर्या > प्रा० चरिया) अनुष्ठान; (ण० ६, २, १, २४) ।

चरु—पुं० (सं० चरु + क) नैवेद्य, देवता को समर्पित की जाने वाली भोज्य वस्तु; (जस० २, ७, ७३) । —अ; (जस० २, १५, १) । —व नैवेद्य; (व० ७, १३, ३) ।

चरुवइ—न० (सं० चरु) चरुआ, चरुवा, मिट्टी के चौड़े मुँह का पात्र या बरतन; (व० ४, २१, १४) ।

√चल—(√चल्) चलना । —इ अक० (सं० चलति) (प्रा० पै० २, १६३) । —उ (विधि०) (जंबू० ५, १२, १२) । चलंति; (प्रा० पै० २, १७१) । चलंत—कृ० (प्रा० पै० २, १७१) । चलंता—कृ० (सं० चल् + शट्) चलते-चलते; (व० ३, ११, १) । चलंति—कृ० (सं० चलित > प्रा०

चलित, √सं० चल् > प्रा० चल, चलंत) चलती हुई; (सं० रा०) । चलंतु—कृ० (सं० चल् + शट्; विधि०); (जंबू० ६, १४, १) । चलन्ता—कृ० चलने वाली; "ललन्ता चलन्ता पझालन्त पाआ;" अर्थात् विलासपूर्वक चलने वाली (अपसरों के) पैर रक्त में सन गए; (की० ४, १६५) ।

चल—वि० (सं० प्रा० चल) अस्थिर, (जस० १, ३, १७) । २. चंचल; (की० ४, २२३) । पुं० १. वानर योद्धा; (प० च० ५७, ११) । २. राक्षस योद्धा; (प० च० ५६, ३६) ।

चलचलंति—क्रि० (ध्व०) चरचराती थी, चर-चर की ध्वनि होना "अंतई णिगं-तई चलचलति," —अंति और अंतड़ियाँ निकल-निकलकर चरचराती थीं, (ण० ४, १५, ५) ।

चलझलक्क—स्त्री० (सं० चञ्चल + झल्लिका) चंचल झलक; (सुदं० ३, १२, २) ।

चलण—पुं० (सं० प्रा० चरण) पाद, पांव; (ण० १, ११, ५; सं० रा०) । —ग पुं० (सं० चरणग) पैर का अग्रभाग; (प० च० १, ५, ६) । —च्छवि

स्त्री० (सं० चरण + छवि) पैरों की शोभा, (जंबू० ४, १४, ५) । —युग न० (सं० चरण + युगल > प्रा० चरण + जुवल) चरणों का जोड़ा; (जंबू० ४, ४, १३) ।

चलयर—वि० (सं० चल + तर) अधिक चलायमान या अस्थिर, चंचलतर; (व० १, १४, ३) ।

चलरमण—वि० स्त्री० (सं० चञ्चलर-

मणा) चंचल सुंदर तरुण स्त्री; (जंबू० ४, १६, ८) ।

चल्लोयण—पुं० (सं० चल + लोचन) अस्थिर या चंचल नेत्र; (व० ५, २, १०) ।

चलवल—वि० (सं० प्रा० चलाचल) अस्थिर, चंचल; (ण० ६, १८, ३) ।

√चलवल—(ध्व०) चलवल होना, "कामिणिकरचामरचलवलंतु," अर्थात् कामिनियों के हस्तगत चामरों द्वारा चलवल हो रहा था; (जस० ४, ७, ५) ।

—इ क० चिलविलाता हुआ, "अहवइ चलवलइ भुअङ्ग-यट्टु" —चिलविलाता हुआ सांपों का समूह हो; (प० च० १३, ४, ७) । चलवलंत—क० चंचल; तुल० गु० चळवळंतु; (संघि० ४, ८, ४) ।

√चल—(सं० चल् > प्रा० चल) चलना । चलल—भू० का० चला, (की० २, १७६) । चलिअ—भू० का० चला; (की० ३, ६५) । चलिय—क्रि० भू० का० (सं० चल्) चली; (सं० रा०) । —उ भू० का० चला; (जंबू० ७, १३, २) ।

चलण—पुं० (सं० चरण > प्रा० चलण) चलना, गति; (क० २, ४, ५) ।

चलवसय—वि० (सं० चलित) चंचल; तुल० गु० चळवळ; (प० च० ४०, १६, ५) ।

चलवलिय—वि० (सं० चलित) चंचल; (जंबू० १, ६, ८; म० २, ५२, १५) ।

चलवाल—पुं० (सं० चलित + बाल)

चलायमान बाल या केश; (जस० २, ३१, ३) ।

चलसिह—स्त्री० [(सं० चञ्चल + शिखा) चंचल शिखा या चोटी, "पालवहिं झंपिर चलसिहकंपिर वाणरु व्व कीलहिं वडुय," अर्थात् अपनी (पूँछ के समान) चंचल शिखाओं को नचाते हुए व टुक वानरों के समान क्रीड़ा करते हैं; (जंबू० २, ४, १२) । टि०—चोटी और यज्ञोपवीत द्विजों के प्रधान चिह्न है ।

चलालि—वि० (सं० चलित) चंचल; (रि० ८, ५) ।

चलाव—क्रि० (सं० चालयति) चलाना-फिराना, हिलाना, डुलाना, चलनी में रख कर छानना; (उ० व्य० प्र० ४६-१) ।

चलाविय—भू० का० (सं० चालित) चला रहा था; "लुलावियसुंडु चलावियकण्णु;" अर्थात् वह हाथी सूँड डुला रहा था और कान चला रहा था, (क० २, २०, ४) ।

चलिअ—वि० (सं० चलित) चंचल; (जस०; जंबू० १, ११, ६) ।

चलिय—वि० (सं० चलित) चंचल; (जस० १, ३, ६) ।

√चल्ल—(सं० √चल्) चलना, गमन करना; तुल० राज० चलणी; (जस० ३, २१, ३) । —इ व० (सं० चलति > प्रा० चल्लइ) चलना; (प० च० १६, १७, १०; ण० ३, १७, १४) । चलिउ क्रि०, भू० का० (सं० चलित > प्रा० चलिअ) चल पड़ा; (ण० १, ६, ६) ।

चल्लिय—भू० का० चल पड़े, "चल्लिय ह्य गय रह सुहड जेत्यु;" अर्थात् घोड़े,

हाधियों, रथों व सुभटों सहित चल पड़े;
(जस० १, २६, ७) ।

चल्ल—१. वि० (सं० प्रा० चल) चंचल;
(सं० रा०) । २. पु० (दे०) कटिवस्त्र;
(सं० रा०) ।

चवडण—पु० (दे०) भयंकर आक्रमण,
चपेट; (प० च० १३, ८, १) ।

चवण—पु० (सं० चर्वण) १. चबाना,
खाना, २. चखना; (सं० रा०) ।

चव—(सं० √वच् > प्रा० वच्) कहना
बोलना; तुल० राज० चवणौ, चववी ।
—इ सक० (क० १०, ८, ३; रि० २,
४) । चवन्त व० कृ० (प० च० ११,
१४, ८) । चविय—वि०, कहा हुआ
(ण० ६, १, ६; प० च० ४, ५, ८) ।

चवप्पिणु—व० कृ० (प० च० ८, ११,
७) । चव्वंति—कृ० (सं० चर्व् + शतृ,
स्त्रियाम्) कहती हुई; (जंबू० ७, १,
६) ।

चवण—न० (सं० च्यवन > प्रा० चवण)
च्युत होना, चुआव, टपकाव, गतिशीलता,
गति, "अण्ण वि जे हव्वंति सुरसुंदर
कंदहिं चवणसमएँ दुक्खाउर;" अर्थात्
दूसरे भी जो सुंदर देव होते हैं, वे भी
देवलोक से च्युत होते समय दुःखातुर
होकर क्रंदन करते हैं; (जंबू० २, २,
६) ।

चवल—वि० (सं० चपल > प्रा० चवल)
चंचल, अस्थिर; (क० ६, १८, ३) ।
—गइ पु० व्यक्ति-विशेष-नाम; (प०-
च० २८, २५) । —छ्छी वि० चपल
नेत्र वाली; (व० ४, ११, १५) । —य
वि० (सं० चपल + क) चंचल; (जंबू०

१, ८, ३) । —वेग पु० व्यक्ति-विशेष-
नाम; (प० च० २८, २६) ।

चविअ—वि० उक्त, कथित, कहा हुआ;
(जंबू० ५, १३, १३) ।

चवेड—पु० (सं० चपेट) चपेटा,
तमाचा, चाँटा, (सुदं० ४, ५, २१) ।

चवेडा—स्त्री० (सं० चपेटा > प्रा० चवेला,
चविला, चविडा) थप्पड़; (संधि० ३,
११, ६) ।

चविषअ—वि० (सं० चवित) चबाया
हुआ; (जंबू० ५, ११, ५) ।

चसअ—पु० (सं० चशक > प्रा० चसग,
चसय) दारू पीने का प्याला; (जंबू० ४,
१७, ५) ।

चहरी—वि० (दे०) कुचली हुई, रौंदी
हुई, मंदित, "कीलिरसवरनियंविणिच-
हरी;" अर्थात् क्रीड़ा करती हुई शंबर
सुंदरियो से वह थोड़ी सी मंदित हो
रही थी; (जंबू० ५, १०, १०) ।

चहु—वि० (सं० चतुर्) चार; (संधि०
१३, १, १) ।

√चहुट्ट—(दे०) निमग्न होना, चपेटा
जाना, फँसा हुआ होना, "दुब्बलढोरिव
पंके चहुट्टइ;" (जंबू० ८, ११,
१०) ।

चहुट्ट—वि० (दे०) निमग्न, लीन;
(सुदं० ८, ६, ५) ।

चहोड—पु० (दे०) १. पिशुन, चुगल-
खोर; २. एक मनुष्य जाति; तुल० म०
चहाड; (भ०) ।

चांग—वि० (दे०) रम्य, सुंदर, मनो-
हर । चांगड, (रा० ४); चांगिम्ब (रा०
६); चांगा, (रा० ६) ।

चांगुरे—वि० (दे० प्रा० चंग) १. सुंदर
२. वि० (दे० चक्कल) विशाल,
विस्तीर्ण; "कटक चांगुरे चांगुरे," अर्थात्
अश्व सेना सुंदर और विस्तीर्ण थी; (की०
४, ४२) ।

चांद—पुं० (सं० चन्द्र > प्रा० चंद्र)
चंद्रमा । चांद; (रा० ३५) । चांदहि रा०
२१); चांदा (रा० २५); चांदु (रा०
३३) ।

चांदन—न० (सं० चन्दन > प्रा० चंण)
चंदन की लकड़ी; "चांदन क मूल इंधन
विका;" (की० ३, ६८) ।

चांद्रणु—न० (सं० चंद्रिका) चंद्रिका,
चंद्र-प्रभा; तुल० गु० चांदरणु; राज०
चांदणू, चांदणौ; (प्रा० गु० १२,
३२) ।

चाअ—पुं० (सं० त्याग) १. त्याग;
(सुदं० १, १, १४) । २. औदार्य;
(जस०) । ३. चाप; (जंबू० ४, १३,
५) ।

चाइ—वि० (सं० त्यागिन्) १. त्याग
करने वाला; (ण० ३, १२, ४) । —उ
वि० त्यागी; (सुदं० ३, २, ४) ।
२. पुं० त्याग; (दे० सा० दो०) ।

चाउंहरावण—पुं० विद्याभर, वंशीय
राजा; (प० च० ५, २६३) ।

चाउ—पुं० (सं० चाप) धनुष; (व०
५, १०, १; प्रा० पै० २, १६१) ।

चाउतथ—वि० (सं० चतुर्थ) चौथा;
(ण० ६, २०, ३) ।

चाउहिसु—पुं० (सं० चातुर्विधम्) चार
दिशाएँ; (प० च० २६, ८, ६) ।

चाउरंग—पुं० (सं० चतुरङ्ग) चतुरं

गिणी सेना; (क० ४, २, ५; जंबू० ५,
६, १५) ।

चाउल—पुं० (दे०) तंडुल, चावल;
तुल० गु० चावल; राज० चाउळ; (प०
च० २४, १२, ६; दे० ना० मा० ३,
८) ।

चावण्णहलइ—न० (सं० चातुर्वर्ण्यफ-
लानि) चार वर्णों के फल; (रि० ४,
४) ।

चाओ—पुं० पंचकल गण का नाम;
(प्रा० पै० १, १६) ।

चाख—क्रि० (सं० चप् खाना; तुल०
राज० चाखणौ; (उ० व्य० प्र० ६-६) ।

—त सक० (सं० चपति) खाना, चवाना;
(उ० व्य० प्र० ६-११) ।

चाखु—पुं० (सं० चक्षु) आँख, नेत्र;
(रा०) ।

चाचरि—स्त्री० (सं० चर्चरी) चाँचर,
फाग, हर्ष-क्रीड़ा; (प्रा० गु० १६,
२६) ।

चाट—क्रि० (दे० चट्ट) चाटना, मिटा
देना; तुल० राज० चाटणौ; (की० २,
२०४) ।

चाडुय—पुं० (सं० चट + क > प्रा०
चाडुअ) प्रशंसा, खुशामद; (सुदं० १, ८,
५; भ०) ।

चाणउरि—पुं० (सं० चाणूर) मल्ल
विशेष, जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था,
"संख-चक्क-गय-पहरण-घारा, कंस-नरा-
हिव-कय-संहारा । जिणि चाणउरि-मल्लु
वियारिउ, जरासिधु बलवंतउ घाडिउ;"
(प्रा० गु० ८, ४) ।

चाणूर—पुं० (सं० चाणूर > प्रा०

चौंगूर) दैत्य का नाम, जिससे श्रीकृष्ण ने मारा था; (प्रा० पै० १, २०७) ।

चाण्डाल— पुं० (सं० चाण्डाल)
१. अत्यंत नीच जाति, डोम; २. कुकर्मी, पतित मनुष्य; "ब्राह्मण क यज्ञोपवीत चाण्डाल हृदय सूर;" (की० २, ११०) ।

√चाप—(सं० आक्रम का घातवादेश प्रा० चप्प) आक्रमण करना; "फणिवइ लागु गोहारि चाप जमराए कोप कइ;" अर्थात् चाहे शेषनाग उसकी गोहार पर क्यों न आ जाए और चाहे यमराज भी क्रोध करके आक्रमण क्यों न कर दे; (की० ४, १५१) । चापन्ते—कृ० दवाते हुए, (की० ४, १६) । चापि—पुं० का०—क्रि० (सं० आक्रम > प्रा० अप० चप्प = आक्रमण करना, दवाना) दवा कर, आग्रह पूर्वक; (की० ३, १४७) । तुल० राज० चापड़णौ, चापड़वौ ।

चप—क्रि० (सं० √चप् सान्त्वने) सान्त्वना देना, डाढस देना; (उ० व्य० प्र० ६-२३) ।

चापि—क्रि० वि० आग्रहपूर्वक; "चापि कहत्रो सुरतान के छांटे करत्रो उपाए;" अर्थात् मैं आग्रहपूर्वक सुलतान से कहूंगा कि शीघ्र कोई उपाय करें; (की० ३, १४७) ।

चामर—पुं० न० (सं० प्रा० चामर) चँवर; (जस० २, ७, ७) । चामरु-चामर; (व० १, १२, १०) । २. (छंद-शास्त्र में) प्रथम द्विकल गण (S) का नाम; (प्रा० पै० १, २१) ।

चामरगाहिणी—वि० (सं० चामरगाहिन्

> प्रा० चामरगाहि) चामरगाहिणी, चामर वीजने वाली स्त्री; (भ०) ।

चामरोह—पुं० (सं० प्रा० चामर + ओष) चँवर अथवा चमरों के समूह, "सया चामरोहेण विज्जिज्जमाणो" — आप पर सदैव चमरों के समूह डुलते रहते हैं, (ण० २, ११, २) ।

चामियर—न० (सं० चामीकर > प्रा० चामीकर) सोना, सुवर्ण; (प० च० २६, १६, ४) । चामीयर—न० सोना, स्वर्ण; "पं दीणहं चामीयरणिबंधु," अथवा मानो दीन-जनों के लिए स्वर्णदान का प्रबंध किया हो, (जस० १, २६, २) ।

चामुंडचंड—वि० (सं० चामुण्डचण्ड) भयंकर; (जस० १, १६, १०) ।

चाय—पुं० (सं० त्याग) त्याग, "चाएण कप्पु जणदिण्णचाड," त्याग में वे कर्ण के समान लोक में दानशील हैं; (ण० १, ४, ६) ।

चायय—पुं० (सं० चातक > प्रा० चायग) पत्नी-विशेष; (जस० ३, १, १६) ।

चार—पुं० (दि०) १. इच्छा, अभिलाषा; (भ०) । २. आचरण, २. प्रियाल वृक्ष; पियार का पेड़ जिसके फलों के बीज को चिरंजी कहते हैं; (उंबू० ५, ८, ३३) ।

चारग—पुं० (सं० चारक > प्रा० चारग) कारागार; (संघि० २, ११, ६; दे० ना० मा० ३, २१) ।

चारण—पुं० (सं० प्रा० चारण) ऋद्धि-विशेष धारक; मनुष्य-जाति-विशेष; (जंबू० ३, २६, ६) । चारणाइ—चारण

+आदि; (जंबू० ३, ६, ४) । —रिट्टि स्त्री० चारणऋट्टि; (जंबू० ३, ५, २) ।

चारस—पुं० (सं० चारत्व) सुंदरता; (ण० १, १७, ४) ।

चारभट—पुं० (सं० चारभट > प्रा० चारभट) शूर पुरुष, योद्धा, सैनिक; (भ०) ।

चारहडी—स्त्री० (सं० चारभटी) शौर्य-वृत्ति, शौर्य; (संघि० २, १, ६; जंबू० ७, ७, ५; म० १, ३७, १०) ।

चारि—वि० (सं० चत्वारि) चार; (प्रा० पं० १, ४७; की० ४, २५५) ।

चारी; (प्रा० पं० २, २७) ।

चारिड—पुं० खादापित, भोजन; (जस० ३, ६, १५) ।

चारित्त—न० (सं० चारित्त > प्रा० चारित्त, चरित्त) १. आचरण, २. व्यवहार, (जंबू० १, ३, ५) । चारित्त; (महा० ६८, ८) ।

चरित्तगुप्ति—स्त्री० चारित्तगुप्ति, स्त्री-विशेष; (ण० १२, ८) ।

चारित्तण—पुं० (सं० चारिन् + त्व > प्रा० चारि + त्तण) विचरण; (ण० ३, ३, १२) ।

चारिदहा—वि० (सं० चत्वारि + दशन्) चौदह; (प्रा० पं० १, ३१) ।

चारिम—वि० (सं० चतुर्थ) चौथा; (प्रा० पं० १, १३३) ।

चारिया—क्रि० भू० का० (सं० चारित) चराया (fed); (क० ८, २, २) ।

चारु—वि० (सं० प्रा० चारु) सुंदर; (प्रा० पं० २, १५३) । पुं० राक्षस सुंद

का पुत्र; (प० च० ११३, १३) ।

—कला स्त्री० सुंदर कला; (की० ४, २२६) । —चक्खु पुं० न० सुंदर नेत्र; (व० ३, ३, २) ।

चारुपदपत्ति—स्त्री० चारुपदपत्ति छंद; (सुदं० ८, २५, १७) ।

चारुसिरी—स्त्री० सुग्रीव की पुत्री का नाम; (प० च० ४७, ५४) ।

चारुसेणि—रड्डा छंद का भेद (प्रा० पं० १, १३६) ।

√चाल—(सं० चालय् > प्रा० चाल) चलना, हिलाना; (भ०) । चालिञ्च—भू० का० चला दिया; (की० ४, ४) । २. क्रि० (सं० चल्) चलना, गमन करना; (रा० १४) ।

चालण—न० (सं० चालन) चलना, हिलाना; (जस० २, १७, १५) ।

चालिय—वि० (सं० चालित > प्रा० चालिय) चलाया हुआ, हिलाया हुआ; (प० च० १, ७, १; जस० २, २४, १) ।

चालिस—वि० (सं० चत्वारिणत्) चालीस, (प्रा० पं० २, २१४); चालीस (प्रा० पं० १, ११०) ।

चालुय—पुं० (दे०) चलनी, भारी; "चालुयचट् टुयच्चरियड," अर्थात् तब उसे झारी और चट्टण से कुचला गया; तुल० म० चाळणी; (जस० ३, ५, १४) ।

चाव—पुं० (सं० चाप) घनुप, आयुध-विशेष; (प० च० ५३, १०६; प्रा० पं० २, १६६; ण० ७, १२, ८) ।

चावइ—स्त्री० (सं० चातकी) चातक पक्षी का स्त्री०; (सं० रा०) ।

चास—स्त्री० (दे० चासा) चास, जोत, वाह (हलस्फाटित भूमि रेखा); (दे० ना० मा० ३१) ।

चास—पुं० (सं० चाप > प्रा० चास) पक्षी-विशेष; (जस० ३, १, १०) ।

√चाह—चाहता है, इच्छा करना; (उ० व्य० प्र० १२, २६) । —इ चाहना, वांछना; (सुदं० ७, १४, ४) । —इ (भ०) । तुल० म० चाहणें । —हि आ०, म०, ए०, तुल० राज० चाहवो-वो; (प्रा० पं० १, ६) ।

√चाह—(दे०) देखना; “हियडइ आंखि घरेविगु चाहइ;” (प्रा० गु० ५, ४) । —इ सक०; (रा० १८) ।

चाहणा—वि०, कर्त्ताकारक, ए०, इच्छा करने वाला, चाहने वाला; तुल० राज० चाहणौ; “गरुडवखाहणा बलिभुअणचाहणा,” अर्थात् गरुड के श्रेष्ठ वाहन (पर बैठने) वाले, बलि नामक दैत्य के भुवन (राज्य) की इच्छा करने वाले; (प्रा० पं० २, ७५) ।

चाहन्ते—वि० चहेते, प्यारे; (की० २, २१६) ।

चाहि—स्त्री० खबर; (कहा मानसर चहा सो पाई; पद्मावत ६५, १) । “फरमाण भेल—‘कत्रोण चाहि;” अर्थात् बादशाह का आदेश हुआ—‘क्या खबर है’ ? (की० ३, १८) ।

चाहिउ—भू० का० कामन की, “सविसेनु मियकें चाहिउ;” अर्थात् मृगंक ने विशेष रूप से (उसके लिए शुभ) कामना

की; (जंजू० ६, ११, १०) ।

चिचइय—वि० चचित, भूपित; (जस० ५, ७, १७) । मण्डित; (जंजू० १, ६, ८) ।

√चित्त—(सं० चित्) चिंता करना; (प्रा० पं० १, २०७) । —इ, व० (सं० चिन्तयति) चिन्ता करना; (भ०) । चिन्तइ—व० (की० १, २१) । चिन्तवइ—क्रि० चिन्तयति (भ०) । चित्ति-विध्यर्थक चिंता, करो; (रि० ५, १३) । चित्तिवि—पू० का० क्रि०; (जंजू० ६, ५, १) । चिन्तेप्पिगु—पू० का० क्रि० चितन करके; (प० च० १३, ४, २) ।

चिंता—स्त्री० (सं० चिन्ता) किसी दुःख की आशंका से उत्पन्न होने वाली सोच, फिर; (भ०) । रत्न, (व० १, १०, १४) । —मणि पुं० व्यक्ति-नाम (प० च० २०, १४२) । —वण वि० चिंता पन्न; (प० च० २३, ३, १) । —सल्ल न० (सं० चिन्ता + शल्य) चिंता का कोई भी कारण जो हृदय दहलाने वाला या दुःखप्रद हो; (जंजू० ६, १५, ८) । —सायर पुं० (सं० चिन्ता + सागर) चिंता का समुद्र; (व० ४, ४, ६) । —सिहि स्त्री० (सं० चिन्ता + शिखि) चिंता रूपी अग्नि; (व० २, २१, ५) ।

चित्तिथ—वि० (सं० चिन्तित > प्रा० चित्तिथ) चिंतायुक्त, जिसे चिंता हो; (सं० रा०, पड्; जस० २, ८, ५) ।

चिघ—न० (सं० चिह्न > प्रा० चिघ) ध्वजा, पताका, केतु; (प० १, ७, ८;

जस० १, ३, १७) । २. वस्त्रखण्ड; तुल० म० चिघी; राज० चिघपट्ट (निशानयुक्त पट्टा); (जस० १, १६, ३) । —वंस पु० (सं० चिह्न+वंश) ध्वजवंश, ध्वजा का वांस; (व० ५, १६, ४) ।

चिघइय—वि० (सं० चिह्नित > प्रा० चिघिय) निशान लगा हुआ, संकेतित; (सुदं० ८, २६, १२) ।

चिघण—न० (सं० चिह्न > प्रा० चिघ) चिह्न, निशानी; (सि० २, २२) ।

चिघाल—वि० (सं० चिह्नवत्) चिह्न-युक्त; (प० च० १०६, ७) । वि० (दे०) १. रम्य, २. मुख्य (दे० ना० मा० ३, २२) ।

चिघिय—न० (सं० चिह्न > प्रा० चिघ) वस्त्राखण्ड (पटच्चर); (क० १, १७, ८) ।

चिक्कमइ—पू० का० क्रि० (सं० चङ्कम > प्रा० चंकम) चंक्रमण करता हुआ, इधर-उधर घूमता हुआ; (ण० १, १०, १३) ।

चिक्का—स्त्री० (दे०) १. थोड़ा चीज; २. हलकी मेघ-वृष्टि; (दे० ना० मा० ३, २१) ।

चिक्क—वि० (दे०) १. थोड़ा, अल्प; २. न० छौंक; (पड्) ।

चिक्कण—वि० (सं० प्रा० चिक्कण) स्निग्ध, चिकना; तुल० राज० चीकणौ; (सं० रा०) ।

√चिक्कम—चलना, (walk move about) —इ व०, प्र० पु०, ए०, (प० च० ५६, १४, ४) । —न्ति प्र० पु०,

व० (प० च० २६, ४, ८) ।

चिक्कार—पुं० (सं० चीत्कार > प्रा० चिक्कार) चिल्लाहट, हल्ला, शोर, गुल; (क० ३, १४, २) । चिक्कार का शब्द, "रहवर चलिय चक्कचिक्कारें" —रथ चक्रों की चिक्कार सहित चल रहे थे, (ए० ७, १, ७) ।

चिक्कारियं—स्त्री० (सं० चीत्कृतं) चीत्कार, अनुकरणमूलक शब्द; "तेण आसागरेहि पडतेहि चिक्कारियं" इससे सागर पर्यंत गिरते हुए दिग्गजों ने चीत्कार छोड़ी; (सुदं० ११, १८, १६) ।

चिक्कअण—वि० (दे०) सहिष्णु; (पड्) ।

चिक्कल्ल—तुं० (दे०) कीच; (दे० ना०—मा० ३, ११) ।

चिक्कल्ल—न० (दे०) कर्दम, पंक, कीच (जस० ३, १, १७) ।

चिच्च—वि० (दे०) चिपटी नाक वाला; (दे० ना० मा० ३, ६) । २. न० रमण, संभोग, रति; (दे० ना० मा० ३, १०) ।

चिच्चर—वि० (दे०) चिपटी नाक वाला; (दे० ना० मा० ३, ६) ।

चिच्चि—पुं० [सं० अचि= (आग की) ज्वाला] अग्नि; (जस० १, १३, ६) ।

—जाल पुं० (सं० अचि+जाल) अग्नि की ज्वाला; (क० १, १७, ७) ।

चिच्चइय—वि० (दे०) अलकृत; (चिच्चअ=मण्डय हे० प्रा० व्या० ४, ११५) (प० च० ३२, ३, १३) ।

√चिट्ठ—(√तिष्ठ) ठहरना । चिट्-

ठन्ति; (प्रा० पै० २, १५१)। २. बैठना; (हे० ३६०)।

चिड—पुं० (सं० चटकः) चिडिया, पक्षी; तुल० राज० चिडौ (स्त्री० चिडौ); (संधि० ११, ५, ६)।

√चिण—(सं० चिञ् चयने > प्रा० चिण) १. इकट्ठा करना, फूल आदि तोड़कर इकट्ठा करना, चुनना। —इ सक० (सं० चिनोति > प्रा० चिणइ); (ण० १, १०, ६)। चिणिक्रण, चिणै-ऊण-संबंधक कृ०; (षड्)। —णेवि पू० का० क्रि०; (क० ४, १३, ५)। तुल० राज० चुणणी, चुणवी।

चिणित्त—क्रि०, भू० का०, चिनवाया, “पइ सुंदर कीयउ महो मणित्त। जं लयणु एरेसर पइ चिणित्त;” अर्थात् तूने मेरे मन की सुंदर बात की, जो नरेश्वर, तूने लयण को चिनवाया; (क० ५, १३, २)।

चिण्ण—वि० (सं० चीणं = कृत, संपा-दित) १. पुष्ट; (जस० १, ११, ५)। २. अनुष्ठित, आचरित; (मुदं० ३, १२, ६)। चिण्ण; (भ०)।

चिण्ह—न० (सं० चिह्न) आदि लघु त्रिकल गण का नाम (IS); (प्रा० पै० १, १८)। —घउ न० (सं० चिह्न + ध्वज) निशानी वाला ध्वज; (क० ३, १६, ६)। चिण्है—न० चिह्न; (की० ४, १०६)।

चित्तंग—पुं० (सं० चित्राङ्ग) नाम-विशेष; (भ०)। — (सं० चित्राङ्गद) नृप-नाम; (जस० ४, २७, ६)। —उ पुं० चित्रांगद नामक योद्धा; (व० ४, ५,

८)। —य चित्रांगद (विद्याधर); (व० ५, २०, ३)।

चित्त—वि० (सं० चित्त > प्रा० अप० चित्त) विविध, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार का; (सं० रा०; की० २, २४०)। न० (सं० प्रा० चित्त) मन अन्तःकरण (पाहु०)। न० छंद-विशेष (मुदं० ८, २४, ६)। न० (सं० चित्र > प्रा० चित्त) तस्वीर, आलेख्य; (ण० ३, १, ११)। —यार पुं० (सं० चित्रकार) चित्र बनाने वाला; (ण० ८, ५, १०)। —साल स्त्री० चित्रशाला (सि० १, २२)। चित्तु—न० चित्त (जस० २, १२)। —हरो वि० (सं० चित्त को हरने वाला; (प्रा० पै० २, ६४)।

चित्तकूड—पुं० (सं० चित्रकूट) पर्वत-विशेष; (प० च० ३३, ४)।

चित्तगय—पुं० चित्रगत नामक राजा; (व० ३, २५, ८)।

चित्तदाउ—पुं० (दे०) मधु-पटल, शहद की मक्खियों का छत्ता; (दे० ना० मा० ३, १२)।

चित्तधया—वि० चित्त को हरण करने वाली “उत्तउ कोमलवाएँ छंदइ चित्तध-याएँ;” अर्थात् चित्त को हरण करने वाली कोमल वाणी से कहा; (क० ८, ३, ८)।

चित्तप्यभ—पुं० खरदूषण का मंत्री; (प० च० ४४, १२)।

चित्तभाणु—पुं० विद्याधर राजा; (प० च० १७, १०२)।

चित्तमास—पुं० (सं० चैत्रमास) चैत्र मास, फागुन के बाद और वैशाख से

पहले का महीना; (प्रा० गु० ३५, ६) ।

चित्तय—पुं० व्याघ्रजाति-विशेष; तुल० म० चित्ता; (जस० १, १०, ४) ।

चित्तयर—पुं० (सं० चित्रकार) चित्र बनाने वाला; (जस० १, २०, ७) ।

चित्तरह—पुं० सीता-स्वयंवर में उपस्थितराजा-विशेष का नाम; (प० च० २८, १०१) ।

चित्तल—वि० (दे०) १. विभूषित, २. रमणीय; (दे० ना० मा० ३, ४) । पुं० (दे०) अस्त्र-विशेष; (व० ४, ५, ८) ।

चित्तलिय—वि० (सं० चित्रलिप्त) चित्र-मय; चित्रित, “महुराउरि मणिचित्तलिय-हम्म,” अर्थात् जहाँ के भवन मणियों से चित्रित हैं; (क० ६, ४, ८; १, ४, ६) ।

चित्तलेहपद्धडिया—स्त्री० चित्रलेखापद्धडिया छंद; (सुदं० २, ६, १२) ।

चित्तविग्रम—वि० (दे०) परितोषित; (पङ्) ।

चित्तसेण—पुं० (सं० चित्रसेन) व्यक्ति-नाम-विशेष; (जस० ४, २७, २५) ।

चित्ता—स्त्री० चित्रा नाम की प्रथमा पृथिवी; (व० १०, २२, ७) ।

चित्तारिष्व—पुं० मुनि-विशेष-नाम; चौदहवें तीर्थंकर के पूर्वभव गुरु (प० च० २०, १६) ।

चित्तावहारी—वि० (सं० चित्तापहारी) चित्त का आहरण करने वाला; (व० ३, २६, ३) ।

चित्ताहार—पुं० (सं० चित्राहार) मान-

सिके आहार, “चंडविह देवहँ चित्ता-हारो;” अर्थात् ‘चतुनिकाय’ देवों का मानसिक आहार होता है; (व० १०, ३५, ३) । चित्ताहिलासु—पुं० (सं० चित्त+अभिलाषा) मन की अभिलाषा; “चित्ताहिलासु जसु णाय-हीणु;” —जिसके मन की अभिलाषाएँ न्याय-नीति विहीन हैं; (व० ५, ५, ३) ।

चित्तुस्तवा—स्त्री० सीता-पूर्वभवनाम; (प० च० ३०, ७०) ।

चित्रशाली—स्त्री० (सं० चित्रशालिका, चित्रशाला) वासभवन में भित्ति-चित्र बनाए जाते थे, इसी से वह स्थान चित्र-शालिका कहलाता था; (की० २, २४५) ।

चिह्विष—वि० (दे०) विनाशित; (दे० ना० मा० ३, १३) ।

चिह्वभङ्ग—न० (सं० चिभट) खीरा, ककड़ी; तुल० गु० चीभङ्ग (दे० ना० मा० ६, १४८) ।

चिमिण—वि० (दे०) रोमाञ्चित, पुलकित; (दे० ना० मा० ३, ११) ।

चिय—पुं० (सं० चिता > प्रा० चियका, चियगा) मुर्दे को फूंकने के लिए चुनी हुई लकड़ियों का ढेर; तुल० गु० चेह; (प्रा० गु० ५, १५) । चिया—स्त्री० चिता; (जस० १, १३, ६) ।

चियारि—वि० (सं० चत्वारि) चार; (संघि० ११, १, १०) ।

चिर—न० १. (सं० चिरम् > प्रा० चिर) दीर्घ काल तक; (जस० ४, ५, ६; की० १, ६१) । चिर—न० चिर-काल; (व० २, १६, २) । २. (छंदशास्त्र

में) आदि लघु त्रिकल गण का नाम (15) (प्रा० पं० १, १८) । —कव्व न० (सं० चिरकाव्य) प्राचीन काव्य; (जंबू० ६, १, ३) । —गड वि० (सं० चिरगत > प्रा० चिरगत) जिसे गए बहुत दिन हो गए हो; (सं० रा०) । —जम्म पुं० न० (सं० चिर + जन्मन् > प्रा० चिर + जम्मण) पूर्व जन्म; (जंबू० २, ५, १२) । —ज्जिउ पाउ पुं० (सं० चिराजित पाप) चिर संचित पाप; (व० १, ६, ६) । —जीविअ वि० (सं० चिरजीवित > प्रा० चिर + जीविअ) दीर्घकाल तक जीवित; (जस० १, ६, १३) ।

चिरडी—स्त्री० (दे०) वर्ण-माला; (दे०-ना० मा० १, ६१) ।

चिरया—स्त्री० (दे०) कुटी, भोपड़ी; (दे० ना० मा० ३, ११) ।

चिरयाल—न० (सं० प्रा० चिरकाल) दीर्घ काल; (भ०) ।

चिरहिल्ल—पुं० वृक्ष-विशेष; (जंबू० ५, ८, ८) ।

चिराउस—पुं० (सं० चिर + आयुस्) दीर्घकालीन जीवन की भवधि; (जस० ४, ३१, ११) ।

चिराणम—वि० (सं० चिरन्तन) चिरा-तन, पुरातन, पुराना; (क० ७, ३, ४) ।

चिराणउ—वि० पुराना, “भासइ णरवरु कहहि चिराणउ;” (जस० ३, ३२, ७) । चिराणय—वि० पुरातन, प्राचीन; (भ०) ।

चिरालभ—पुं० चिरालय; आदि लघु त्रिकल गण का नाम, (15) (प्रा० पं० १, १८) ।

√चिराव—(सं० √चिरय्) १. विलम्ब करना, २. आलस्य करना; (भ०) । —इ अक० (सं० चिरा-यति) देर करता है; (रि० ५, १) । चिरावेह; (काल) । “भा णे चिरावेहि; (प० च० ३, १२६) ।

चिराविय—वि० (सं० चिरायित) जिससे विलम्ब किया हो वह; २. विलम्बित, रोका गया; ३. न० विलम्ब; (प० च० १०५. १०१) ।

चिरिचिरा—स्त्री० (दे०) जलधारा, वृष्टि; (दे० ना० मा० ३, १३) ।

चिरिक्का—स्त्री० (दे०) १. मशक, २. अल्प वृष्टि; ३. प्रातःकाल; (दे०-ना० मा० ३, २१) ।

चिरिचिरा—(दे०) देखो चिरिचिरा; (दे० ना० मा० ३, १३) ।

चिरिडिहिल्ल—न० (दे०) दही, दधि; (प० च० ३४, ११, ३) । चिरिडिहिल्ल; (प० च० ३७, १, ४) ।

चिलाउ—पुं० किरात, किरात देश में रहने वाली म्लेच्छ जाति, मल्ल; (ण० ५, १२, २) ।

चिलाय—पुं० (प्रा० चिलाअ) किरात, मनुष्य-जाति-विशेष, (संधि० १०, २, ५, जस० २, २६, ७) ।

चिलिच्चिल—वि० (दे०) । सार्द्र, गीला; (जंबू० ५. ७, ८) ।

चिलिसावण—वि० (दे०) जुगुप्साकर, जुगुप्सनीय; “चिलिसावणु परयिउ धारु तेहि;” अर्थात् जुगुप्सनीय चिह्न मात्र शेष रह गए; तुल० म० चिळसवाणे; (जंबू० २, ५, १३) ।

चिलिसिञ्ज—क्रि० (दे०) घृणा करना ।
 —इ सक० (सुदं० ६, ४, ३) ।
 चल्ल—पुं० (दे०) १. बाल, वच्चा, लड़का; (दे० ना० मा० ३, १०) ।
 २. पुं० वृद्ध-विशेष; (प० च० ६६, १६) । ३. पुं० (सं० प्रा० चिल्ल) पुष्प-विशेष; (प० च० ६६, १६) ।
 चिल्लणदेवि—स्त्री० चेलनादेवी, स्त्री-विशेष; (ण० १, ७, ६) ।
 चिल्लरी—स्त्री० (दे०) मच्छर, चिल्लर, जूँ; “चिल्लरी मशकः” (दे०-ना० मा० ३, ११) ।
 √चिच—(सं० चीचते) १. ढाँकना, पहनना, ओढना, २. लेना, ग्रहण करना, ३. पकड़ना; (उ० व्य० प्र० ४६-२३) ।
 चिविडा—स्त्री० (दे०) गंव-द्रव्य-विशेष, (दे० ना० मा० ३, ७१) ।
 चिव्विल—वि० (दे०) परित्याज्य; (जं० ६, १, १०) ।
 चिह्वे—वि० (सं० चतुर् > प्रा० चउ) चार; “आसि पास-जिण भवण-पसिद्धउ। तासु सीसु चिह्वे नाण-समिद्धउ;” (प्रा० गु० १, ३) ।
 चिह्वर—पुं० (सं० चिकुर > प्रा० चिउर) बाल, केश; (ण० १, ११, ३) । चिह्वर (सुदं० ४, ११, ११) । —भार पुं० (सं० चिकुरभार) जूड़ा; (जस० २, ७, ४) ।
 चीकि—स्त्री० (दे० चिक्का) हलकी वृष्टि, फुहार, सूक्ष्म छींटा; (की० ४, १८५) ।
 चील—(दे०) आस्वादन करना; “जीभें चाल” —जिह्वया खादति । खाद् भक्षणं,

अथवां भर्षे अदने ।” (उ० व्य० प्र० ६-६) ।
 चीपं—पुं० कोचीनपत्तन “सिरिप-व्वयं गंगावादीसमं पंडि-दविड्व-चैलुं-सकाण्णाडि-कंचीपुरं कुतलं;” अर्थात् श्रीपवंत, गंगवाडी, और उसके साथ पांड्य, द्रविड, आंध्र देश एवं चीन (कोचीनपत्तन), कर्नाटक, कांचीपुर और कोतल का भ्रमण किया; (जं० ६, १६, २) । चीण—पुं० २ देश का नाम; (प्रा० पं० १, १६८) । चीण-पुं० मनुष्य-जाति-विशेष; (सवि० १०, २, ६) । चीण-चीर (सं० चीन-चीर) चीनाङ्गुक, चीनी रेशमी वस्त्र; (सवि० ४, ६, २) ।
 चीणय—वि० चीनदेशीय; (प० च० ४२, ६, ६) ।
 √चीन्त—(सं० चिति स्मृत्याम्; चिन्तयति) चिन्ता करना; (उ० व्य० प्र० ८, ३) ।
 चीन्तवंतः—वि० (सं० चिन्तावत्) चिन्ता-पर; चिन्तवंतहं; (रा० ७) ।
 चीयड—न० (सं० चिता) मुर्दे को जलाने के लिए बनाया हुआ लकड़ी का ढेर; (रि० ७, १२) ।
 चीया—स्त्री० (सं० चिता) शव को जलाने के लिए ऊपर-नीचे रखा गया लकड़ियों का ढेर; (जं० १०, २६, ८) ।
 चीरंचल—पुं० (सं० चीराञ्चल) सेना में युद्ध सूचक झंडा; “गयणगइणा भमा-डेइ चीरंचलं;” अर्थात् गगनपति ने सेना में युद्ध सूचक झंडा घुमाया, (जं० ७, ४, १४) ।

चौर—न० (सं० प्रा० चौर) वस्त्र का टुकड़ा; (जस० २, ५, ८) । —खंड पुं० (सं० चौर+खण्ड) वस्त्र का टुकड़ा; (जस० ४, १५, १३) ।

चौरि—कि०, आ० मारो-काटो "दौरि चौरि जिउ धरित;," अर्थात् दौड़ो, मारो-काटो, जीवित पवड़ो; (की० २, १=१) ।

चौरिया—स्त्री० (सं० चौर+क) वस्त्र, "कडिबद्धचलचौरियाचिघजालाई;" अर्थात् उनकी कमर पर वस्त्र के टुकड़ों की ध्वजाएँ बंधी हुई थीं; (जस० १, १६, ३) ।

चौरर—न० (सं० प्रा० चौरर) वस्त्र, कपड़ा; (जस० २, १८, ५) ।

चुंचु—स्त्री० (सं० चञ्चु>प्रा० चंचु) चोंच; (ण० २, ११, १२) ।

चुंचुझ—पुं० (दे०) शैलर, मस्तक का आभूषण; (दे० ना० मा० ३, १६) ।

चुंचुणिझा—स्त्री० (दे०) १. गोष्ठी की प्रतिध्वनि, २. रमण, रति, संभोग; ३. इमली का पेड़, ४. छुत-विशेष; यूका, क्षुद्र कीट-विशेष; (दे० ना० मा०-३, २३) ।

चुंचुमालि—वि० (दे०) बालसी, प्रत्येक कार्य को देर से करने वाला, देर लगाने वाला, टालने वाला; (दे० ना० मा० ३, २३) ।

चुंचुलि—पुं० (दे०) १. चोंच, २. चुल्लू; एक हाथ का संपुटाकार; (दे० ना० मा० ३, २३) ।

चुंचुलिझ—वि० (दे०) १. निश्चित,

२. न० कृप्या, सस्पृहता; (ईर्ष्या सहित) (दे० ना० मा० ३, २३) ।

चुंचुलिपूर—पुं० (दे०) चुल्लू; (दे० ना० मा० ३, १८) ।

चुंचु—वि० (दे०) परिशोपित, सुखाया हुआ; (दे० ना० मा० ३, १५) ।

चुंधल—वि० (दे०) चुंधापन (अक्षि-रोग) युक्त "चुंधलणेत्तउ दीहरदंतउ"—चोंचे नेत्र, लंबे दांत; (सुदं० ६, १५, ६) ।

चुंधपालय—पुं० (दे०) गवाक्ष, वातायन; (प० च० २६, ८०) ।

चुंध—सक० (सं० चुम्ब>प्रा० चुंब)—इ व० (सं० चुम्बति) चुंबन लेना; (भ०) । —वि० पू० का० क्रि०; (जंबू० ७, १३, ७) । चुंधंत—कृ० (सं० चुम्बत); (जस० १, १२, ८) । चुंधिज्जन्त—कृ० (सं० चुम्ब्यमान) (भ०) ।

चुंधेवि—पू० का० क्रि० चुंधन लेकर; (प० च० ६, १४, ६) ।

चुंधझ—पुं० (सं० चुम्बक) चुंधक पत्थर (क० ६, १२, २) ।

चुंधण—न० (सं० चुम्बन>प्रा० चुंधण) चुंधन, चुंधा; (जस० १, १२, १) । चुंधणु; (सं० रा०) ।

चुंधिझ—वि० (सं० चुम्बित) १. चुंधा लिया हुआ; (जस० २, १३, १६) । २. न० चुम्बन; (दे० ना० मा० ६, ६८) ।

चुंधियासु—वि० [सं० चुम्बित+वास्य (मुख)] मुख को चूमने वाला; (जंबू० ३, १२, २) ।

चुं विर—वि० (सं० चुंभ्रित्तु) चुम्बन करने वाला; (भ०) ।

चुंभल—पुं० (दे०) शेखर, अवतंस शिरो-भूषण; (ण० ४, १०, ७; दे० ना०—मा० ३, १६) । चुम्बल; (प० च० ४६, ४, ६) ।

चुअ—वि० (सं० च्युत > प्रा० चुअ) क्षरित, “कवोलचुएण मएण भरंतु;” अर्थात् (वह) कपोलों से मद बहा रहा था; (क० ४, ६, ५) । २. गिरे हुए; (जस० १, २२, १०) ।

चुअमाला—स्त्री० चूतमाल, (छंदशास्त्र में) आदि लघु त्रिकल का नाम (IS); (प्रा० पौ० १, १८) ।

चुक्क—पुं० (दे०) मुट्ठी, मुष्टि; (दे० ना० मा० ३, १४) ।

√चुक्क—(सं० भ्रंश का धात्वादेश चुक्क) (संधि० ३, ११, ६) ।—इ सं० भ्रश्यति; चूकना; (भ०) । तुल० गु० चूकवे, म० चुकणें; (महा० ४, ८, ५; क०, २, ८, ५) ।—ओ चूकना, भ्रष्ट होना; (की० २, ४३) । चुक्कअ—भू०-का० साथ छोड़ा; (की० ३, ११६) ।

चुक्की—क्रि०, भू० फा०, चूक गयी, “परवस तंतीवज्जउ चुक्की” —इस प्रकार परवण होकर वह तत्री-वाद्य में चूक गई; (ण० ५, ६, १०) ।

चुक्क—वि० (दे०) १. च्युत; (म० २, ३७, ११) । २. त्यक्त, दूर, परे; “अविहि चुक्क;” अन्याय से दूर या परे; (व० १, १, ७) । ३. भ्रष्ट (जंबू० २, ६३; सुदं० ११, ८, ८) । चुक्किय—वि० भ्रष्ट; (सुदं० २, ७, ११) ।

चुक्का—वि० स्त्री० भ्रष्टा, (जंबू० २, १६, ३) ।

चुक्कह—वि० (सं० भ्रंश का धात्वादेश चुक्क, चुक्कइ=चूकना, भ्रष्ट होना । भ्रष्ट हुआ, चूका हुआ; “कालहि चुक्कह कज्ज;” अर्थात् समय पर चूका हुआ काम; (की० ३, ४६) ।

चुक्कु—वि० (प्रा० चुक्क) भ्रष्ट, चूका हुआ, भूला हुआ; (प० च० १०, ६, १) ।

चुक्कुड—पुं० (दे०) बकरा, अज; (दे० ना० मा० ३, १६) ।

√चुचुकार—(ध्व०) सं० चुटचुटकार-यति; अव्यक्तानुकरणम् । चुट-चुट का शब्द होना; (उ० व्य० प्र० ७-८) ।

चुडुआ—पुं० (दे० चुडुप्प) खाल; (की० २, २०३) ।

चुडुण—न० (दे०) खाल उतारना; (दे० ना० मा० ३, ३) ।

चुडुल्ल—पुं० (दे०) चूडाबंध, चोटी या शिखा का बंधन, चोटी के बाल बांधने का फीता; (सूदं० ८, १७, १) ।

चुडुल्ली—स्त्री० (दे०) उल्का (रात में आकाश से टूटकर गिरने वाला प्रकाशमय पिंड या तारा), अलात (अंगार, लुकाठी); उल्मुक (मशाल, लुक); (दे० ना० मा० ३, १५) ।

√चुण—(दे०) पक्षियों का खाना, चुगना, चिड़ियों का चोंच से दाना उठाकर खाना; (जस० १, ३, १२) । चुणंत—कृ० (सं० चिन्वत्) चुनते हुए,

“चुणंतइँ कीरइँ अंसुवमाल;” (क० ८, १४, १) ।

चुणभ -- पुं० (दे०) १. चांडाल, २. बाल, वच्चा, ३. छंद, इच्छा; ४. अरुचि, ५. व्यतिकर, संव्रंध; ६. वि० अल्प; ७. मुक्त, त्यक्त; ८. सूँघा हुआ; (दे० ना० मा० ३, २२) ।

चुणिन्त—पुं० न० (सं० चूर्ण > प्रा० चुण्ण) चूना; (ण० ८, २, ६) ।

चुण्ण—पुं० न० (सं० चूर्ण > प्रा० चुण्ण) चूर, टुकनी, चूर्ण; (प० च० १६, ११, ८; ण० ४, १०, ११) । २. धूली, रज, रेणु; (दे० ना० मा० ३, १७) । ३. पुं० चूर्णा; (छंदशास्त्र में) गायत्रा का भेद; (प्रा० पै० १, ६०) ।

चुण्णइअ—वि० (दे०) जिस पर चूर्ण फेंका गया हो वह; (दे० ना० मा० ३, १७) ।

चुण्णाभा—स्त्री० (दे०) कला, विज्ञान; (दे० ना० मा० ३, १६) ।

चुण्णासी—स्त्री० (दे०) दासी, नौकरानी; (दे० ना० मा० ३, १६) ।

चेरिण्ण—वि० (सं० चूर्णित) धूली से व्याप्त; (दे० ना० मा० ३, १७) ।

चुण्णु चुण्णु—क्रि० भू० का० (सं० चूर्णय् > प्रा० चुण्ण) टुकड़े-टुकड़े कर दिया, चूर-चूर कर दिया, “किउ स-रहु स-सारहि चुण्णु-चुण्णु;” अर्थात् रथ तथा सारथि के साथ चूर्ण-चूर्ण कर दिया; (प० च० १०, १०, ४) ।

चुप—वि० [सं० √ चुप् (चोपन)] तुल० आवाक् मौन; “खण यक चुप भै रहइ;” राज० चुप; (की० २, १८३) ।

चुप—वि० (दे०) स्निग्ध; (दे० ना० मा० ३, १५) ।

चुप्ल—पुं० (दे०) शेखर, अवतंस, आभूषण-विशेष; (दे० ना० मा० ३, १६) ।

चुप्लिअ—न० (दे०) नया रंगा हुआ कपड़ा, (दे० ना० मा० ३, १७) ।

चुप्पालय—पुं० (दे०) कवाक्ष, वातायन; (दे० ना० मा० ३, १७) ।

√ चुमचुम—(ध्व०; कीर शब्दानुकरणे)

चुर-चुन कर धान्य खाता; “जहिँ चुम-कुमंसि केयारकीर;” जहाँ खेतों में शुक्र चुन-चुन कर धान्य खाते हैं; (जस० १, २१, १) ।

चुमुचुमुचुमंत—कृ० भनभनाते हुए (humming), “सिरेँ गुमुगुमुगुमन्त, चुमुचुमुचुमन्त, चञ्चरिया;” (प० च० ४०, १६, ६) ।

चुय—वि० (सं० च्युत) झरता हुआ, “तप्पइ विणायरकंताणलेहिँ, णीवइ सस-हरमणिचुयजलेहिँ;” वह नगर सूर्यकांत मणियों से तप्त होता और चन्द्रकांत मणियों से भरते जल के द्वारा आर्द्र होता है; (ण० १, १४, १) ।

चुलसी—वि० (सं० चतुरशीति) चौरासी, अस्सी और चार; (प्रा० गु० १३, २५) । —इ; (प० च० २०, १०२) ।

चुलिअ ला—स्त्री० मात्रिक छंद का नाम; (प्रा० पै० १, १६७) ।

चुव—वि० (सं० च्युत) सवित; (व० ५, १३, ६) । —संग पुं० (सं० च्युत + सङ्ग) साथ छोड़ना; (व० २, १०, १४) ।

√चूँव—(सं० चुम्ब) चूँवन करना, चूँमना; (उ० व्य० प्र० ६-१६) ।

चूर्वे—पुं० (सं० चूत > प्रा० चूअ) आम का पेड़; (प्रा० पं० २, १४४; की० २, ८१) । चूड—पुं० आम; (व० ८, १७, २) ।

चूड—पुं० (दे०) हाथों या पैरों में पहना जाने वाला बलय, चूडा; तुल० म० चूडा; (रा०, भ०) ।

चूडा—स्त्री० (सं० चूडा) चोटी, शिखा "संढासीं चूढा उनाड" —संदंशेन संदिशकया या चूडकमुन्नडति. उन्नयति वा; तुल० राज० चूड (सिर के बाल); (उ० व्य० प्र० ४६-५) ।

चूडामणि—पुं० (सं० चूडामणि) सीस-फूल या सीस में धारण करने के लिए मणि जटित आभूषण-विशेष; तुल० राज० चूडामणि, (प० च० ४६, ३५) । स्त्री० रानी-विशेष-नाम; (प० च० २१, ४३) । पुं० रत्न (व० १, ११, ६) ।

चूडारयण—न० (सं० चूडारत्न) सीस में धारण करने के लिए मणि जटित आभूषण-विशेष; (जस० २, १२, ५) ।

चूडुल्ल—पुं० (दे०) चूडा कलाई ही आभूषण, "दंतिमु चूडुल्ल चुण्णु चुण्णु;" (जंबू० ४, ११, २) । —उ पुं० (दे०) कंगन; (हे० ३६५, २, दे० ना० मा० ३, १८) ।

चूतडं—पुं० [सं० चूत (=भग, योनि) + तल] चूतडं नितंब, कमर के नीचे और जांघ के ऊपर गुदा के बगल का मांसल भाग; (उ० व्य० प्र० ६-२३) ।

चूय—पुं० (सं० चूत > प्रा० चूअ) वृक्ष-विशेष, आम का वृक्ष; (प० च० ५३, ७६; क० १, १४, ६) ।

चूर—वि० (सं० चूर्णित > प्रा० चूरिअ) क्षुब्ध, चूर्णित; "वेश्यान्हि करो पयोधर जती के हृद्य चूर;" अर्थात् वेश्या के पयोधर से टकगकर यती का हृद्य चूर हो जाता था; (की० २, ११०) ।

√चूर—(सं० चूरय्. चूर्णय् > प्रा० चूर) चूर-चूर होना; ".....पर चक्कह चूरइ;" शत्रु का चक्रव्यूह चूर-चूर हो रहा था; (की० ४, १६६) ।

√चूर—(सं० चूरय्) खण्डन करना, तोड़ना टुकड़े-टुकड़े करना । "घने सञ्चर घोल हाथि बहुत वापुर चूरि जाथि;" अर्थात् अनेक हाथी-घोड़ों के चन्ने में बहुत से वेचाने कुचल जाते थे; (की० २, १११) । —इ सक० (ण० ३, १५, १०) । चूरन्त—कृ० चूर्ण करते हुए, धक्का देते हुए; "धवरोपरु चुरन्त;" अर्थात् एक दूसरे को धक्का देते हुए; (प० च० ३, ७, २) । चूरियड—भू० का० (सं० चुग्) चूरित करता था; "छुडु किमिडलु चचुडु चूरियड;" अर्थात् कृमिकुल को चोंच से चूरित करता था, (जस० २, २८, ७) । चूरिवि—पुं० का० क्रि० चूर-चूर करके; (ण० ४, १५, २) । चूरीआ—भू० का० "पअ भरे पत्यर चूरीआ," अर्थात् पैरों के बोज से पत्यर चूर-चूर हुए जा रहे थे; (की० २, २१७) । चूरेओ—भू० का०, चूर किया; (की० १, ६३) । टि०—'कीलिता' में भू० का० के कृदंत रूपों में 'इआ' रूप में व्य-

क्त करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।
चूरेवि—पुं० का० चि० (सं० चूरय् +
कत्वा); (सुदं० ६, १२, ७)।

चूरण—पुं० न० (सं० चूर्यं > प्रा०
चुण्ण) चूर्ण, चुकनी, चूर; (व० ३, २०,
२)।

चूर्णिय—वि० (सं० चूर्णित > प्रा०
चूरिअ) चूर-चूर किया हुआ, दुकड़े
टकड़ा किया हुआ; तुल० म० चुरलै;
(प० ४, १०, ११)।

चूल्—पुं० (सं० चूडा > प्रा० चूला)
चोटी, शिखा; (व० ६, ५, ६)।

चूला—स्त्री० (सं० चूडा > प्रा० चूला)
चोटी, शिखा; (व० २, १६, २)।

चूलावइ—स्त्री० चूलावती नामक दिक्-
कुमारी; (व० ६, ५, ७)।

चूलि—स्त्री० (दि०) कुक्कटी, मुर्गी;
भणइ महीमंत परमेसर कितिमचूलिमा-
रण्;" (जन० ४, २२, १)।

चूलिय—पुं० (सं० चूड + क) चोटी;
(व० १०, ३०, ७)।

चूव—पुं० (सं० चूत > प्रा० चूअ)
लाम, आम का वृक्ष; (म०)। —इदुनु

पुं० (सं० चूत + ड्रुम) आम्र-वृक्ष; (व०
१, ६, ३)। —मंजरी स्त्री० (सं० चूत
+ मञ्जरि, मञ्जरी) आम्र-मंजरी; (व०
२, ३, १३)। साह पुं० (सं० चूत +
शाखा) आम्र वृक्ष की शाखा; (व० ३,
६, ३)।

१ चूह—फेंकना, डालना; —इ सक०
(पड्)।

चह—पुं० (दि०) चुआ, सोता, भरना;
"बह उपर हारिआ," अर्थात् भरने

ऊपर गिर रहे थे; (की० २, =०)।

चंबड—क्रि०, व० (सं० चित् चेतयते)
सचेत होना; चेतता है, (हिं० ३६६)।

चेइ—पुं० (सं० चेदि) देश-विशेष; तुल०
गज० चेइ। वें पुं० (सं० चेदि + पति
> प्रा० चेइवट) चेदि देश का राजा;
रि० ६, १३)।

१/चेइ—(सं० चित्, चेतयते = सचेत
होना) जागना; "एस्तु चेइ अपेकक वि
सोइइ;" (जस० ३, २५, १०)।

चेअ—पुं० न० (सं० चैत्य > प्रा० चेइ,
चेइअ) यज्ञ-स्थान, मनुष्यों का विश्रान-
स्थल; (पड्)। —धर न० (सं० चैत्य-
गृह) जिन मंदिर; (प० व० २,
१२)।

चेइहर—पुं० (सं० चैत्यगृह > प्रा०
चेइअ, चेइ + हर) जैन मंदिर; (जंहु०
२, १६, ११)। चेइहर; (जस० ४,
२३, २३)। चेइहरी—स्त्री० चैत्यगृह;
(व० ३, २०, ५)।

चेव—न० (सं० चेतस् > प्रा० चेअ)
चित्त; तुल० राज० चेतो; (प्रा० वं० १,
७)।

चेजल्ल—पुं० देश-विशेष; (जंहु० ६,
१६, ५)।

१/चेट्ट—(सं० चेष्ट्) प्रयत्न करना
चेष्टा करना, लाचरण करना; —इ
अक० (व० २, ३, ६)।

चेट्ट देखो चिट्ट—स्था; (दि० ना०-
ना० १, १३४)।

चेट्टा—स्त्री० (सं० चेष्टा > प्रा०
चेट्टा) प्रयत्न; (प० ६, १३, १६)।

- चेड—पुं० (दे०) बाल, कुमार, शिशु; (दे० ना० मा० ३, १०) ।
- चेडभ्र—पुं० (सं० चेट + क > प्रा० चेटग, चेटय) दास, नौकर; (जं० १०, १४, १) ।
- चेडिअ—स्त्री० (सं० चेटिका > प्रा० चेटिआ) दासी; (क० २, १५, ७) ।
- चेडिय—स्त्री० दासी, “वव्वरिया-चेडिय-संगयाए;” तुल० राज० चेटिका, चेट्टी; (विला०) ।
- चेण—स्त्री० (सं० चेतना > प्रा० चयणा) ज्ञान, चेत, चैतन्य; (भ०) ।
- चेतना—स्त्री० (सं० चेतना > प्रा० चयणा) होश; (की० २, ८४) ।
- ✓चेय—(सं० चित्) जानना, अनुभव करना । —इ सक० (प० च० २६, ८, ८) ।
- चेय—न० (सं० चेतस् > प्रा० चेअ) चेतना, ज्ञान, चैतन्य; तुल० म० चैव; (भ०) ।
- चेयण—पुं० (सं० चेतन > प्रा० चयण) आत्मा, जीव, प्राणी; (जस० ३, २६, ३) । न० (सं० चैतन्य > प्रा० चयण) ज्ञान, सुध, ख्याल; (विला०) ।
- चेयणाल—पुं० (सं० चेतना + आलय) चेतना का घर, “पुगलु सावयासु परिणामिउ अवह वि चयणालओ;” अर्थात् पुद्गल द्रव्य का स्वभाव अवकाश को रोकने का है । वह परिणामी है और चेतना का गृह भी है; (जस० ४, १३, १) ।
- चेयारि—वि० (सं० चत्वारि) चार; (प० च० ५१, ६, ८) ।
- चेर—पुं० चेर नामक राजा; (क० ४, १, ५) ।
- चेल—न० (सं० प्रा० चेल) वस्त्र; (जस० ३, ७, ३) । चेलुक्खेव—पुं० (सं० चेलोत्क्षेप) वस्त्र उठाना या उछालना, या ऊपर फेंकना; (संधि० २, १५, ४) ।
- चेलउं—पुं० (सं० चोल) चोली; (उत्तर पुराण) ।
- चेलिका—स्त्री० (दे०) संतान, “त्रिलिका पोस—अपत्यानि पोपयति;” (उ० व्य० प्र० ५१-१३) ।
- चेलिय—न० (सं० प्रा० चेल, प्रा० चेलय) वस्त्र, कपड़ा; (प० च० ६, १३, ११) । “सा लइय णिवंधिवि चेलियहि;” अर्थात् उसने उसे कपड़े में बाँध लिया; (जस० २, २८, ६) ।
- चेनी—स्त्री० (सं० चीरि = अँख ढाँपने का घूँघट-विशेष) वस्त्र, “णउ तहिँ लज्जण णिवसणचेली;” अर्थात् वहाँ न तो लज्जा है और न वस्त्रों का आच्छादन; (जस० ३, ७, ३) ।
- चेलुप—न० (दे०) मूपल; (दे० ना० मा० ३, ११) ।
- चंलुकां—स्त्री० (दे०) शिशु; “तउ चेलुकां पिरायां पोसइ;” तुल० गु० चेलका, (प्रा० गु० १६, १२) ।
- चेल्ल, चेल्लग्र—देखो चिल्ल; (दे०), (प० च० ६७, १३) ।
- चेल्लु—पुं० (सं० चेटक > प्रा० चेडअ) चैला, शिष्य; तुल० राज० चेलौ; मगही चैला; (सरह दोहाकोश) —ग पुं०

शिंशु, (चित्तिल दे० ना० मा० ३, १०) ।
 (संधि० ५, ११, ६) ।
 चेव—अव्य० (सं० च+एष, चैव)
 अवधारण सूचक अव्यय, निश्चय दर्शक
 शब्द, ही; “अहवा एक्को तुमं चेव,”
 क्षयवा अकेला त् ही है; (जंत्रू० ७, ४,
 ८) । २. पाद-पूरक अव्यय; (प० च० ८,
 ८८) ।
 चेवंतु—कृ० (दे०) (सं० चित् > प्रा०
 चेअ=सावधान होना) जागते हुए,
 (सुद० २, ७, २) ।
 चो—वि० (सं० चतुर् > प्रा० चउ)
 चार; (प्रा० पँ० २, १४५) ।
 √चोअ—(सं० चोदय् > प्रा० चोअ=
 प्रेरणा करना) चोएँवि—पू० का० क्रि०
 ले जाकर; “आसण्णे चोएँवि विगय-
 भउ;” अर्थात् ‘विगत-मद अपने हाथी को
 निकट ले जाकर,’ (प० च० १५, ५, ८) ।
 चोआलीस—वि० (सं० चतुश्चत्वारि-
 शत्) चवालीस; (प्रा० पँ० २,
 १८६) ।
 चोइउ—वि० (सं० चोदित > प्रा०
 चोइअ) प्रेरित; (व० २, ५, २१) ।
 चोइय; (ण० ५, ४, २१, भ०) ।
 चोक्ख—वि० (सं० चोक्ष) चोखा, मनो-
 हर; “चोक्खु स-रागउ सिङ्गार-हार
 दरिसावणु;” (प० च० २६, १५,
 ६) ।
 चोज्ज—न० (सं० चोघ > प्रा० चोज्ज)
 कौतुहल, कौतुक, आश्चर्य; तुल० म०
 चोज; (ण० २, २, १; प० च० २३,
 ८, ५; महा० ८-७-२३) । चोज्जु (सि०
 २, ३) । २. चिता; (क० ६, ६, २) ।

—त्कोयण वि० (सं० चोघ+उत्कोमन)
 आश्चर्य उत्पन्न करने वाला; (ण० ४,
 १२, १६) ।

चोट—स्त्री० (सं० चुट=काटना)
 घाघात, प्रहार, मार; (की० ४,
 १७३) ।

चोट्टी—स्त्री० (सं० चूडा) चोटी,
 शिखा, चुंदी; (दे० ना० मा० ३,
 १) ।

चोड—पुं० चौड़ नामक देश; (क० २,
 १०, ५) । २. पुं० (दे०) चूडा, चोटी;
 (जंत्रू० ६, १३, ५) । —इस पुं० चोल
 देश; (जंत्रू० ६, १६, १) । टि०—इसका
 विस्तार कोयंबतूर, त्रिचनापल्ली और
 संजौर आदि से मैसूर के आधे दक्षिणी
 भाग तक था । रामायण और महाभारत
 में चोल देश का उल्लेख आया है ।

चोडी—स्त्री० चोली, चोलदेशीय स्त्री;
 (संधि० ६, ५, १०) ।

चोट्ट—(दे०) विल्व, बेल का पेड़; (दे०-
 ना० मा० ३, १६) ।

चोत्त, चोत्तअ—पुं० न० (दे०) प्रतोद
 (लंबा चाबुक, चुन्नीने वाला उपकरण,
 अंकुश); (दे० ना० मा० ३, १६) ।

चोत्थी—स्त्री० (सं० चतुर्थी) चौथ
 तिथि; (ण० ६, २०, ४) ।

चोदह—वि० (सं० चतुर्दश > प्रा० चउ-
 इह) चौदह; (प्रा० पँ० २, १०२) ।

चोप्पड—न० (दे०) स्निग्ध द्रव्य; घी,
 तेल आदि स्निग्ध वस्तु; (संधि० ३, ८,
 ६) ।

√चोप्पड—(दे०) स्निग्ध करना, घी-

तेल आदि लगाना । चौप्पडि—क्रि०, आं०
चुपडो; (परम० २, १४८) ।

चौफुच्च—वि० (दि०) प्रेम-युक्त; (दि०-
ना० मा० ३, १५) ।

चौबिह—वि० (सं० चतुर्विंशति) ।
चौबीस; (प्रा० पं० २, २१०) ।

चौयमान—कृ० (सं० चौदयन्) प्रेरित
करता हुआ; (ण० ४, १२, ११) ।

चोर—पुं० (सं० प्रा० चोर) दूसरे का
घन चुराने वाला; (भ०) । —उल पुं०
(सं० चोरकुल) चोरों का समुदाय; (जस०
१, १३, ४) । —तण पुं० (सं० चोर-
त्व) चुरानेका भाव; चौर्णत्व; (जंबू० ६,
१४, ४) ।

चोरइ—क्रि०, व० (सं० चोरयति)
चुराना; (भ०) । —मि; तुल० राज०
चोरणौ, चोरवौ; (जंबू० ६, १५,
५) ।

चोरण—न० (सं० प्रा० चोरण) चोरी,
चुराना; (भ०) ।

चोरली—स्त्री० (दि०) श्रावणमास की
कृष्णाचतुर्दशी, (दि० ना० मा० ३,
१६) ।

चौरिअ—न० (सं० चौर्य > प्रा०
चौरिअ) चोरी, अपहरण; (क० ६, २२,
६) ।

चौरिक्क—न० (सं० चौरिक्य > प्रा०
चौरिक्क) चोरी, अपहरण; तुल० राज०
चौरिक्क; (संघि० ३, ५, ८) ।

चोरी पेम—पुं० (सं० चौर्य + प्रेमन्)
चोरी से किया गया प्रेम, छिपा हुआ
प्रेम; (की० २, १२०) ।

चोरिय—न० (सं० चौर्य > प्रा० चोरिअ)

चौर्य, चोरी, (जंबू० ३, १४, १७) ।
चौरिअ—वि० (सं० चौरिअ > प्रा०
चौरिअ) चुराया हुआ; (जंबू० १०, ८,
१०) ।

चोरु—पुं० (सं० प्रा० चोर): चोर, चोरी
करके वाला; (झ० व्य० प्र० ४६-
२३) ।

चोरेवइ—पू० का० क्रि० (सं० चोर्य +
तुमुन्) चोरी करने के लिए, “विज्जुच्चर
चोरेवइ पुरे परिभमइ,” अर्थात् विज्जुच्चर
नामक चोर चोरी करने के लिए नगरी में
परिभ्रमण कर रहा है; (जंबू० ६, ११,
१७) ।

चोल—वि० (दि०) त्रामन, कुञ्ज; (दि०-
ना० मा० ३, १८) । पुं० देश-विशेष;
“तेलंगा वंगा चोल कलिगा राजा पुते
मण्डीआ;” (की० २, २२७) । —रइ
पुं० (सं० चोलपति) चोल देश का राजा;
(प्रा० पं० २, १५१) ।

चोल्ल—पुं० (दि०) अंगवस्त्र, तुल० स०
चोळी (केवल स्त्रियों की); (भ०) ।
चोल्लय—पुं० चौलक, चंदोष; (सुद०
३, ८, ८) ।

चौदिस—स्त्री० (सं० चतुर् + दिग्)
चारों दिशा; (की० ४, ११८) ।

चौपट—पुं० [सं० चतुष्पट = चौपड़ के
खेल का चार भुजाओं वाला कपड़ा] >
प्रा० चउपड) चारों खानों चित्त, मुहा०
चौपट गिरना = इस प्रकार गिरता कि
चारों खाने नीचे की ओर या पट ही
जाना । (की० ४, १७२) ।

चौसा—स्त्री० (सं० चतुर् > प्रा० चउ
+ सं० अस् > प्रा० अस्स = चउस्स >

चीसा) चार खूँट या चार दिशा; (की० ३, ८१) ।

चौहट्ट—पुं० (सं० चतुर्हट्ट) चौराहा, चौहट्टा; (की० २, ८८) ।

चचण—न० (सं० अर्चन) अर्चना, पूजा; (जंबू० ८, ४, १) ।

च्चिच—अव्य० (सं० चंव > प्रा० च्चिअ, चिअ) अवधारण सूचक अव्यय, निश्चय प्रकट करने वाला शब्द; (ण० ६, १५, १; जंबू० ४, १८, ७) ।

च्छइ—क्रि०, व० (सं० अस्ति) है; (प० च० ४१, ५, ६) । च्छउ—क्रि०, आ० (सं० अस्तु) रहें, “तावच्छउ,” तब तक रहें; (जंबू० ६, २, ६) ।

च्छरा—स्त्री० (सं० अप्सरा) १. परी, २. स्वर्ग की वेश्या; (जंबू० ६, २, ६) ।

च्छि—स्त्री० (सं० अक्षि) नेत्र; (जंबू० ३, १, २) ।

च्छोड—क्रि० व० (सं० √छर्द्व्यु > प्रा० छड्ड) छोड़ना; तुल० म० सोडणे, गु० छोडवुं, (भ०) ।

च्चारि—वि० (सं० चत्वारि) चार; तुल० राज० गु० च्यार; (प्रा० गु० २५, १३; प्र० चि०) ।

छ

छ—पुं० (सं० प्रा० छ) व्यंजन वर्ण-विशेष, तालु-स्थानीय । वि० (सं० पट्, पप् > प्रा० छ, अप० छउ (प्रा० पै०; भ०), छअ (प्रा० पै०), छह (प० च०,

पा० दो०) छह; तुल० राज० छ, छइ, गु० छ, (प्रा० पै० १, १५; ण० १, १२, ५; संधि ३, ५, ३; जस०) ।

छंकार—पुं० (दे०) जलकण; (जंबू० १, १, २) ।

छंकुई—स्त्री० (दे०) केवांच, वृक्ष-विशेष; (दे० ना० मा० ३, २४) ।

छंगुलअ—पुं० (सं० षड् + अङ्गुल) छह अंगुल; (जस०) ।

छंगुलमिअ—पुं० (सं० षडङ्गुलिमित) छह अंगुल प्रमाण; (जस० ४, १६, १४) ।

छंट—पुं० (दे०) जल का छींटा; २. वि० शीघ्रतापूर्वक कार्य करने वाला; (दे० ना० मा० ३, २३) ।

√छंट—(सं० सिच्), छिड़कना; तुल० गु० छांटवुं; (संधि० १, ५, ८) ।

√छंड—(प्रा० छड्ड) छोड़ना, —इ सक० (क० ३, ५, ३; महा० १, १४, ३) । तुल० राज० छंडणी, छंडवौ; गु०

छांडवुं; म० सांडणें । छंडि—पू० का०-क्रि० छोड़ कर; (पाहु०) । छंडिवि—

पू० का० क्रि० छोड़कर; (सुदं० ८, ३५, ६; यो० ३२) । छंडेविणु—पू० का०

क्रि० (परम० १, ७४; पाहु० १५१) । छंडिअ—वि० (सं० छदित > प्रा० छड्ढिअ)

मुक्त, परित्यक्त, छोड़ा हुआ, (सुदं० ८, २३, २) । छडिआ; (ण० ४, ८, २) ।

छंद—पुं० न० (सं० छंदस् > प्रा० छंद) १. छंद; तुल० राज० छंद, (प्रा० पै०

१, १०) । २. अंतलघु त्रिकल का नाम (ऽ); (प्रा० पै० १, १६) । २. स्वच्छंदता, अभिप्राय-विशेष, “छंदें विरज्जइउ

करइ कम्मू," — इस प्रकार वह स्वच्छं-
दना से मनम ने काम करता था; (जस०
१, ५, १६) । २. (सं० छन्दः) छंद
शास्त्र, "छंदलंकारइ जोइसाई;" छंद,
अलंकार और ज्योतिष; (जस० १, २४,
५) । ३. वि० आच्छादित; "तिणयणतरु
व्वं दाखणछंद;" अर्थात् विव्याटवी दाख-
वनों से आच्छादित थी; (जंबू० ५, ८,
३६) । ४. वि० उन्मुक्त; "रुव-छंद-
लायण्णहि सोहइ;" वह अपने रूप और
उन्मुक्त सौंदर्य से शोभित थी; (सि० १,
४६) । — अ पु० न० छंद; (प्रा० पं०
२, १३५) ।

छंदाइत्त—वि० (सं० छन्दवत्) स्वैगी;
मनमाना आचरण करने वाला;
(भ०) ।

छज—वि० (सं० पप् > प्रा० छ) छह;
(प्रा० पं० २, ४३) ।

छज्ज—वि० (सं० छादित) आच्छादित;
(प० ५, २, १६) ।

छज्जमत्थ—वि० (सं० छज्जमत्थ > प्रा०
छज्जमत्थ) संपूर्ण ज्ञान से वञ्चित; (प०
८, ८, १०) ।

छइय—वि० (सं० आच्छादित) ढका
हुआ; (पइ) । २. छादित; (जंबू० ५,
१२, १६) । ३. शोभित; (जस० २, ३,
२) ।

छइल—वि० (दि०) विदग्ध, चतुर; (दि०-
ना० मा० ३, २४) ।

छइल्ल—वि० (सं० छविमत् > प्रा०
छविल्ल, छयल्ल) निपुण, चतुर, छैल,
विदग्ध (दि० ना० मा० ३, २४; सुदं० ७,
११, ७; हे० ४१२, १) । २. काव्य-

रसिक, नागर; (की० १, ३१) ।
३. रसिक, छैला; (प्रा० पं० १,
१०५) ।

छज—वि० (सं० पट् > प्रा० छ) छह;
(प्रा० पं० २, ४३) ।

छज्ज—वि० (दि०) कृश, दुबला; (दि०-
ना० मा० ३, २५) ।

छज्जतरसय—वि० (सं० पप् + उत्तरश-
ततम) एक सौ और छठवाँ; (प० च०
१०६, ४६) ।

छज्जम—पु० न० (सं० छज्जमन्) छल,
वहाना; तुल० राज० छज्जम; (पइ) ।

छक्क—वि० (सं० पट् + क > प्रा०
छक्क) छह का समूह; (भ०) । — म्मु

पु० (सं० पट् + कर्म) छह कर्म, "जो
संयंभु छक्कम्म-छइल्लउ;" जो (ऋषभ-
देव) पट्-कर्मों के निरूपण में निपुण एवं
स्वयंभू थे, (व० २, १२, ६) । टि०—

छह प्रकार के कर्म — १. शम, २. दम
३. विषय से विराग या विरति, ४. सहि-
ष्णुता या क्षमा, ५; श्रद्धा और ६. वित्त
की शांति के लिए मन को ब्रह्मा में
लगाना ।

छक्का—वि० (सं० पट् + क) छह;
तुल० राज० छकौ (छह की संख्या का
अंक); (प्रा० पं० २, ४७) ।

छक्कारय—पु० (सं० पट्कारक) छह
कारक; (प० च० १, ३, ५) ।

छक्खंड—पु० (सं० पड्खण्ड) छह खण्ड,
(व० ८, २, ३) । छक्खण्ड; (प० च० १,
११, ८) । — ावाणि स्त्री० (सं० पट्
खण्ड + अवनि) पट् खण्ड भूमि; "छक्खं-
डावाणि मंडल-सामिड;" अर्थात् पृथ्वी के

समस्त छह खण्डों का स्वामी; (व० २, १२, १०) ।

छखंड—पुं० (सं० पट् + खण्ड) छह खंड; (क० १, ३, ४) । —वसुंधर (सं० पट्खण्डवसुंधरा) छह खंडों वाली पृथिवी; (जंबू० ३, ३, १२) ।

छगल—पुं० स्त्री० (सं० छागी) बकरी; तुल० राज० छगळ, छगल, छगल्ल; सुभाषित “छगलगहणट्ठ मेरावणं विक्कए;” बकरी को लेने के लिए ऐरावत को वेचता है, (भावना संघि प्रकरण) तुल० अवधी छमडी ।

छचरण—पुं० (सं० पट् + चरण) भौरा, भ्रमर; (व० ६, ६, ५) ।

√छज्ज—(सं० सस्ज् > प्रा० छज्ज) शोभित होना, शोभना, शोभायमान होना । —इ अक० (प० च० ३, ७, १०; भ०; महा० १, १४, ३; सुदं० १, ३, ६) । छज्जेइ; (म० १, ६, ४) । तुल० म० साजणें ।

छज्जमारु—वि० शोभायमान; “उच्छलंतु पक्खलंतु छज्जमारु,” (क० ७, ६, ६) ।

छज्जीविकाय—पुं० (सं० पड्जीविकाय, जीविकाय; पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकाया) छह “धिरु छज्जीविकाय दयावर,” इन छह जीविकाय जीविकायों पर स्थिर रूप से दयावान थे; (जस० ३, १७, ११) ।

छटा—स्त्री० (सं० छटा) शोभा; (की० २, १५१) ।

छट्ठ—वि० (सं० पठ्ठ) छठा, छठवाँ (प्रा० पैं० १, ५६; जस० २, ४, ५, जंबू० ६, १४, १२; भ०) । —उ वि०

(सं० पठ्ठ + क) छठा; (सि० २, १२) ।

छड—वि० (सं० पप्) (भ०) ।

छट्ठम—वि० (सं० पठ्ठ + अठ्ठम)

छठा और आठवाँ, “एकंतरे छट्ठमएँ दिसे;” (जंबू० ३, ६, १२) ।

छट्ठी—स्त्री० (सं० पठ्ठी) छट्ठी तिथि; (व० ६, ७, १४) ।

छट्ठु—पुं० (सं० पठ्ठोपवास) छह दिन का उपवास; (व० ६, २०, ५) ।

√छड—(दे०) सं० आ + रुह्, आरुह् होना, चढ़ना । —इ अक० (पड्) ।

छड—स्त्री० (सं० छटा > प्रा० छडा) शोभा, छटा “कुं कुमछडएँ णं रइहि रंगु” कुं कुम की छटाओं से जान पड़ता था जैसे वह रति की रंगभूमि हो; (ण० १, ७, ६) ।

छडड—पुं० (दे०) १. छिड़काव “अमरराज मज्जणउ भरावउ । अण्णु विघगे हि छडड देवावउ”; अमराज ई नहाने का पानी भराए और मेघों से छिड़काव कराए । (प० च० १७, १२, =) ।

२. छटा; (जंबू० ७, १२, २) ।

छडड—वि० (दे०) एकाकी, अकेला “छडड पयाणउ;” एकाकी प्रयाणम्; तुल० गु० छडे परियाणें; (प्रा० गु० ५, १४) ।

छडवल्लर—पुं० (दे०) स्कन्द, कार्तिकेय; (दे० ना० मा० ३, २६) ।

छडपडु—क्रि० वि० (दे०) शीघ्र; (प्रा० गु० २७, ३, ६) । छडपुडु; (प्रा० गु० ६, २०) ।

छडय—१. स्त्री० (सं० छटा) शोभा; (क० १, ४, ७) । २. पुं० समूह; (प०

च० ४०, १६, ७) । ३. पुं० (दे०)
 उपलेप; "पचकुं कुमरसद्यद्वारणाइ" नए;
 केसर-रस के लेप से लाल, तुल० म०
 सडा; (जस० १, ४, १०) ।
 छडया—स्त्री० (सं० छटा) शोभा;
 (जस०) ।
 छडा—स्त्री० १. (दे०) विद्युत; (दे०-
 ना० मा० ३, २४) । २. (सं० सटा)
 जटा; (व० ५, ५, १) ।
 छडाल—वि० (सं० छटावत्) छटा वाला;
 (प० च० ३५, १८) ।
 छडिय—वि० (दे०) सिंचित; तुल०
 गु० छांटेन; (संघि० ४, ६, ६) ।
 √छड्ड—(सं० छर्दय् > प्रा० छड्ठ)
 छोड़ना; (जस० ३, ३७, २; सं० रा०;
 संघि० १, १३, ६) । तुल० गु० छोडवुं
 —इ व० (की० ४, २३४) । —हि व०
 छोड़ना; (हे० ३८३) । छड्डंत—कृ०
 सं० मुञ्चन्; (ण० ६, १२, २) । छड्ड-
 ढंतु—कृ० 'एत्तिउ छलु छड्डंतु ण
 लज्जमि;' (म० २, २८, ३) । छड्डाविक्र
 —भू० का० छुड़वा दिया; (जंजू० ६,
 ७, १०) । छड्डि—पू० का० क्रि०, छोड़-
 कर; (की० ३, ७८) । छड्डिय—भू०
 का० छोड़ा; (की० २, ५४) । —ऊण
 पू० का० क्रि० छोड़ कर; (सुवंध २, ३,
 १) । छड्डिवि—पू० का० क्रि०, (जंजू०
 ६, ५, २) । छण्डहो—आ० छोड़ो, त्याग
 करो; (प० च० २, १३, १४) । छण्डेवि
 —पू० का० क्रि० (प० च० ११, १, ७) ।
 छाड—व० त्यागना; (उ० व्य० प्र० ६,
 २) । भू० का०, छोड़ता था; "भोजण
 भाखण छार नहि गमणे न ही परिभूत;"

(की० ४, १०३) । —ल पू० का० क्रि०
 के रूप में प्रयुक्त छोड़ते हुए, "बहन
 छाडल पाटि पांतरे। बसने पात्रेन
 आंतरे;" (की० २, ६१, ६२) । छाहि-
 पू० का० क्रि० (सं० मुच् का घात्वादेश
 छह) छोड़ कर; (की० ४, २०६, उ०
 व्य० प्र० ६, ३१) । छाडु—आ०,
 छोड़ो; "पराई वयुं डीव छाडु," अर्थात्
 'परकीये वस्तुनि त्रि (तृ) ण्णां छिन्धि' ।
 (उ० व्य० प्र० ६-३१) ।

छड्डवय—वि० (सं० छर्दक) त्याग
 करने वाला, त्याजक; (दे० ना० मा०-
 २, ६२) ।

छड्डि—स्त्री० (सं० छर्दि) वमन का
 रोग; (पड्) ।

छड्डिय—वि० (सं० छर्दित) त्यक्त, मुक्त;
 (प० च० १५, ११, ३) ।

छड्डिय, छड्डियल्लिय—वि० (सं० छर्दित)
 १. वमन किया हुआ; २. मुक्त; (दे०-
 ना० मा० १, ४६) ।

छण—पुं० (सं० क्षण) १. क्षण; सि०
 १, १६; सं० रा०) । २. वि०, पूर्ण
 "छणईदविवसण्हमुहेण," पूर्ण चंद्र-
 विम्ब सदृश उज्ज्वल मुख, तुल० राज०
 छण; (ण० १, ३, १) ।

छणइंद—पुं० (सं० क्षण + इन्दु) पूर्ण
 चंद्र; (जंजू० १०, १, ८) ।

छणचन्द—पुं० (सं० क्षण + चन्द्र >
 प्रा० छणचंद) शरद ऋतु की पूर्णिमा का
 चंद्रमा; (प० च० १, ३, १४) ।

छणछणसड्ड—पुं० (द्व०) किसी वस्तु
 के पकाने से उत्पन्न हुआ शब्द; (प० च०
 ११, ६, ६) ।

छणदिण—पुं० (सं० क्षणदिन) उत्सव-
दिवस; (जंबू० ६, ८, १२) ।

छणयंद—पुं० (सं० छण+चन्द्र)
पूर्णिमाचंद्र; (जस० १, १७, २२) ।

छणवासर—पुं० (सं० क्षण (पूर्णिमा)
+वासर) पूर्ण, “छणवासरससहरभाण-
णीय, पावेसइ पुग्गु इह कामणीय,”
अर्थात् तभी आप अपनी पूर्ण चंद्रमुखी
कामिनी को प्राप्त करेंगे, (क० ५, १६,
५) ।

छणवासर—पुं० (सं० क्षणवासर)
उत्सव का दिन, “मेहल-तोरणाहँ छण-
वासर”; मेखलाओं और तोरणों से उत्सव
का दिन है; (प० च० १४, १२,
४) ।

छणससहर—पुं० (सं० क्षण शशधर)
पूर्णिमा का चाँद; (महा० २०, ६, १-
७) ।

छणससि—पुं० (सं० क्षण+शशि) पूर्ण-
चंद्र; (जंबू १०, १, ८) ।

छणिदु—पुं० (सं० क्षण+इन्दु) पूर्ण-
मासी का चंद्रमा; (व० ३, २२,
३) ।

छण्ण—वि० (सं० छन्न > प्रा० छण्ण)
आच्छादित, छादित; (जंबू० २, १२,
६) । २. गुप्त, प्रच्छन्न; छिपाया हुआ,
(भ०) । —उ वि० आच्छन्नः (प० च०
१४, १, १) ।

छण्णवइ—वि० (सं० षट्ठवति) छिया-
नवे; (जस० ४, २०, १२; जंबू० ३, ३,
१४) ।

छण्णवेआ—वि० (सं० षट्ठवति) (पण्ण-
वति) छियानवे; (प्रा० पं० २, १२२) ।

छत्त—न० (सं० छत्र > प्रा० छत्त)
छाता, छत्र; तुल० म० राज० छत्त;
(जस० १, ४, १; की० ३, २२; ण० १,
१६, ६; सि० २, १८, प्रा० पं० १,
१८२) ।

छत्तच्छय—पुं० (सं० सप्तच्छद) वृक्ष-
विशेष, सतौना, छतिवन; (सण०) ।

छत्तछाय—पुं० महापुर के राजा का
नाम; (प० च० १०३, ३६) । स्त्री०
(सं० छत्र+छाया) छत्र की छाया;
(जस० २, २५, ५) ।

छत्तरिय—वि० (दे०) विस्तारित, अंत-
रित; (प० च० ५६, २, ४) ।

छत्ताइ—न० (सं० छत्र > प्रा० छत्त)
छत्र; (रि० ७, ६) ।

छत्ताइमाण—वि० (सं० छत्रायमान)
छत्र के समान शोभायमान; “छत्तायमाणु
तहो सहइ सप्पु;” अर्थात् सर्प उस पर
छत्र के समान शोभायमान था; (क० ४,
६, २) ।

छत्तायार—वि० (सं० छत्र+आकार)
छाते के आकार का; (जंबू० ११, १२,
१०) ।

छत्तीस—वि० (सं० पष्+त्रिंशत्)
छत्तीस; (सि० १, १७) । —उ वि०
छत्तीस सि० १, २२) । —इम वि० (सं०
पष्+त्रिंशत्तम) छत्तीसवाँ; (प० च०
३६, ४३) ।

छद्दंसण—पुं० (सं० षड्दर्शन) छह
दर्शन; (जस० ४, २७, २०) ।

छद्दव्वाई—स्त्री० (सं० षड्द्रव्यादि) छह
प्रकार के द्रव्य । जैन छह द्रव्य मानते हैं

जीव, घर्म, अवर्म, पुद्गल, आकाश और काल; (व० १०, ३, ७) ।

छद्मी—स्त्री० (दे०) विच्छीना, शय्या; (दे० ना० मा० ३, २४) ।

छन्नज—वि० (सं० प्रच्छन्न > प्रा० पच्छण्ण) ढका हुआ; (सं० रा०) ।

छन्नवद्—वि० (सं० पण्णवति) छिया-नवे; तुल० गु० छन्नु; (प्रा० गु० १२, २१; व० ८, ५, ४) ।

छर्पति—स्त्री० (दे०) नियम-विशेष, जिसमें पद्य लिखा जाता है; (दे० ना०-मा० ३, २५) ।

छप्पए—पुं० (सं० पट् + पद) भौरा; (व० ३, ५, ८) ।

छप्पण, छप्पणास—वि० (सं० पट् + पञ्चा-शत्) छप्पन; पचास से छः अधिक; तुल० राज० छप्पन; (प्रा० पै० २, १३३) ।

छप्पणय—वि० (दे०) विदग्ध, (प० च० ३०, ४, ५; दे० ना० मा० ३, २४) ।

छप्पन्न—वि० (सं० पप् + पञ्चाश) छप्पनवाँ; (प० च० ५६, ४८) ।

छप्पथ—न० (सं० पट् + पद) छप्पय, छंद-विशेष; (प्रा० पै० १, १२५) ।

छप्पय—पुं० (सं० पट् + पद > प्रा० छप्पय) भ्रमर मधुकर, भौरा; तुल० राज० छप्पय; (जस० १, १२, ३; ण० ८, १, ६; प० च० २, १, ७) ।

छप्पयार—पुं० (सं० पट् + प्रकार) छह प्रकार; (जंबू० १०, २२, ११) ।

छप्पयालि—पुं० (सं० पट् + पद + अलि) भ्रमरों पट्पदों; "चलकण्णञ्जडप्पियछप्प-

यालि;" अर्थात् कानों के भूपाटों से पट्-पदों को झड़पता हुआ; (जंबू० ४, २०, १०) ।

छव्वीसा—वि० (सं० पट् + विशति) छव्वीस, तुल० राज० छव्वीस; (प्रा० पै० १, १५०) ।

√ छमछमं—(व्व०) सं० छमच्छमाय् छम-छम करना । —छमेइ, "काहि वि हरियं-दणरसु रमेइ, लगंतु अंगे छमछमछमेइ," अर्थात् किसी ने लाल चंदन का लेप लगाया जो उसके शरीर में लगते ही (विरह ताप के कारण) छमछम करके चटक गया; (जंबू० ४, ११, ३) ।

छमलय—पुं० (दे०) सप्तच्छद, वृक्ष-विशेष; (दे० ना० मा० ३, २५) ।

छमासीवेयण—स्त्री० (सं० पट् + मासि + वेदना) छह मास तक व्याधि की वेदना; (जस० ३, २६, ३) ।

छमाहर—पुं० (सं० क्षमा + वर) पर्वत; (पड्) ।

छमुंडवारी—पुं० (सं० पण्मुण्डवारी) स्वामी कार्तिकेय; (प्रा० पै० २, १२०) ।

छम्म—पुं० न० (सं० छद्मन् > प्रा० छउम) पासंड, कपट, शठता, छल; (क० ७, १६, ६; म० १, १६, १२) ।

छम्मयल—पुं० (सं० क्षमा + तल > प्रा० छमा + तल) पृथ्वीतल; (सं० रा०) ।

छम्मास—पुं० (सं० पण्मास) छह मास; (जंबू० २, ४, १) । —अवहि पण्मासा-वधि; (जंबू० ८, ५, ३) । — ७ पुं० (सं० पट् + मास + आयु) छह मास की

आयु; (व० ६, ५, १) ।
 छम्मिय—वि० (सं० छद्मित्त) छलित;
 (मुदं० ११, २, १०) ।
 छय—पुं० (सं० क्षत > प्रा० छय) व्रण,
 घाव; (सं० रा०) ।
 छयासी—वि० (सं० पडशीति) छियासी;
 (महा०) ।
 छरहरिय—वि० छरहरित, धरकर;
 “छरहरियमणू कंततणू,” मन में धरि-
 कर शरीर से कौपते हुए; (मुदं० २, ११,
 १०) ।
 छल—न० (सं० प्रा० छल) कपट, माया;
 तुल० राज० छल; (प० च० १२, ६,
 ७; प्रा० पै० २, २०७) । २. बहाना;
 (जस० २, १०, ११) । छलु; (व० ३,
 १८, ३) ।
 √छल—(सं० छलय् > प्रा० छल)
 ठगना । —इ सक० (सं० छलयति)
 (भ०) ।
 छलय—पुं० (सं० छलिन्) जुआड़ी;
 (जं० ४. २, १०) ।
 छलि—वि० छलने वाले; (प्रा० पै० २,
 २१५) ।
 छलिभ्र—वि० (दे०) विदग्ध, चालाक,
 चतुर; तुल० राज० छलियौ; (दे० ना०-
 मा० ३, २४) ।
 छल्लि—स्त्री० (दे०) त्वचा; (ण० ३,
 ८, १०) ।
 छल्ली—स्त्री० (सं० प्रा० छल्लि) त्वचा,
 छाल, छिलका; (दे० ना० मा० ३,
 २४) ।
 छवडी—स्त्री० (दे०) चर्म, चाम, चमड़ा;
 (दे० ना० मा० ३, २५) ।

छवि—स्त्री० (सं० प्रा० छवि) कान्ति,
 तेज; (भ०) ।
 छव्वग्ग—पुं० (सं० पड् + वर्ग) छह
 वर्ग, “अरिछव्वग्गहु जो हुउ कयंतु” —
 उसने अपने पड्वर्ग रूपी रिपुओं का
 विनाश किया था; (ण० १, ८, ५) ।
 छव्वासय—पुं० (सं० पडावश्यक) पड्
 आवश्यक जैन गृहस्थी के लिए छह बातें
 आवश्यक हैं—देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वा-
 ध्याय, संयम, तप और दान; “छव्वासय
 किल णिम्मूलियखलु” खलों का निर्मूलन
 करने वाले पडावश्यक है । (म० १, २१,
 ८; क० ६, २०, २०) । छावासइ; (व०
 ८, १६, १२) ।
 छव्विहु—पुं० (सं० पट् + विध) छह
 प्रकार; (व० ८, १४, १०) ।
 छह—वि० (सं० पट् > प्रा० छ) छह;
 तुल० राज० छह; (जस० ४, १३, ७;
 व० १, १२, १३; प्रा० पै० १,
 ११८) ।
 छहत्तर—वि० (सं० पट्सप्तति) ७६ वां
 छिहत्तरवां, तुल० राज० छहत्तर, छह-
 त्तरि; (प० च० ११३, ५४) ।
 छहत्तरि, छेहत्तरि—वि० (सं० पट्स-
 प्तति) छिहत्तर; (प्रा० पै०) ।
 छहि—वि० (सं० पट्) छह; (सि० १,
 ३७) ।
 √छांड—(दे० छंड) छोड़ना; छाड़ी,
 (रा० १०) । तुल० राज० छांडणौ,
 छाडवौ । छांडि—पुं० का० क्रि०, छोड़
 कर; (की० २, १०५) । छाड—पुं०
 का० क्रि० छोड़कर, “कां मन गाड,
 गोवोलिगमारन्हि छाड;’ अर्थात् जो

गँवार ग्वालों को छोड़ कर नागरिकों (रसिकों) के मन में गड़ जाती थी; (की० २, १५१) ।

छाँटे—अव्य० (दे० छन्टो) शीघ्र; (की० ३, १४७) । —हैं अव्य० शीघ्र, जल्दी से; 'छाँटहैं काहें विद्या आवड' — सत्वरं कया विद्या आपद्यते; (उ० व्य० प्र० २२-११) ।

छाअ—स्त्री० (सं० प्रा० छाया) दीप्ति, प्रभा, कांति; (जंजू० २, १३, २) ।

छाअण—न० (सं० छादनं > प्रा० छायाण) आच्छादन, छाजन; (प्रा० पै० १, १७४) ।

छाआ—स्त्री० छाया, (छंदशास्त्र में) गाथा के सत्ताईस भेदों में से एक; (प्रा० पै० १, ६०) । टि०—गाथा के २७ भेद निम्नलिखित हैं—लक्ष्मी, ऋद्धि, बुद्धि, लज्जा, विद्या, क्षमा, देवी, गौरी, घात्री, चूर्णा, छाया, कांति, महामाया, कीर्त्ति, सिद्धि, मानिनी, रामा, गाहिनी, विश्वा, वासिता, शोभा, हरिणी, चर्बी, सारसी, कुररी, सिही, हंसिका ।

छाइअ—वि० (सं० छादित > प्रा० छाडअ) आच्छादित, ढका हुआ; (प० च० ११३, ५४) । छाडय—वि० आच्छादित; (प० २, ४, ४; सुदं० ७, १६, ६, वी० १, २) ।

छाइल्ल—वि० (सं० छायावत्) कांति-युक्त, छाया वाला; (षड्) । पुं० (दे०) प्रदीप, दीपक; (दे० ना० मा० ३, ३५) । वि० १. सदृश, समान, २. अघूरा; (दे० ना० मा० ३, ३५) । ४. रूपवान्, सुडौल; (दे० ना० मा० ३, ३५) ।

छाई—स्त्री० (दे०) माता, देवी, देवता; (दे० ना० मा० ३, २६) ।

छाज—अक० (सं० सज्ज > प्रा० छज्ज = शोमना, चमकना) शोभना, सुशोभित होना; "ताहि प्रासादन्हि कुरो वज्रमणि घटित काञ्चन कलश छाज," अर्थात् उन महलों के ऊपर हीरों से जटित कंचन-कलश सुशोभित थे; (की० २, २४२) ।

छाटसि—क्रि०, व०, म० पु०, त्यागना, छोड़ना; "सत्त मार्गुं जणि छाटसि" — सन्तं मार्गं मा त्यजः," (उ० व्य० प्र० १०-११) ।

छाटेहि—अव्य० (सं० ऋटिति) तुरंत, फौरन, जल्दी से; (उ० व्य० प्र० ५१-१६) ।

छाण—न० (दे०) १. धान्य आदि का मलना; (दे० ना० मा० ३, ३४) । २. गोमय, गोबर; (दे० ना० मा० ३, ३४) । ३. वस्त्र, कपड़ा; (दे० ना० मा० ३, ३४) । ४. विष्ठा, "भोग्यु मुएँवि छाणु असिउ;" (प० च० ४४, ११, ६) ।

छाणवइ—वि० (सं० षणवति) छिया-नवे; (प्रा० पै० १, ११७) ।

छाणी—स्त्री० (दे०) १. धान्य आदि का कुचलना या पीसना; २. वस्त्र, कपड़ा; (दे० ना० मा० ३, ३४) । ३. गोमय, गोबर; (दे० ना० मा० ३, ३४) ।

छात्रु—पुं० (सं० छात्रः) १. शिष्य, २. विद्यार्थी; "छात्रु गाउं या—छात्रो ग्रामं गच्छति; (उ० व्य० प्र० १६-१२) ।

छानिअ—पू० का० क्रि०, छान कर

“पीवए परो कापडे छानिअ;” पीने के समय उसे कपड़े में छान कर पीते थे; (की० ३, ६६) ।

√छाय—(सं० छाद्य् > प्रा० छाया) आच्छादन करना, ढकना । छाइज्जइ—अक० छाया होना, ‘छाइज्जइ छत्तहं पव्भारे’ जहाँ ऊपर तने हुए छत्रों की छाया हो रही थी; (ण० ३, १२, ६) । छायांत—व० कृ० (प० च० ७, १, ४) । छायांती—कृ० ढकती हुई; (सं० रा०) । छायाउ—सक०, भू० का०, ढँका; (सं० रा०) ।

छाय—वि० (दे०) १. वृभुक्षित, भूखा; २. दुर्बल; (दे० ना० मा० ३, ३३) । स्त्री० (सं० प्रा० छाया) १. प्रकाश के अवरोध से उत्पन्न अंधेरा, छाया, तुल० राज० छाया; (रा० ४३; क० १, ७, ६) । २. कांति, प्रभा, दीप्ति; (प० च० ३, ४, ७) ।

छाया—स्त्री० (सं० प्रा० छाया) प्रकाश के मार्ग में किसी व्यवधान के कारण उसके आगे होने वाले प्रकाश का अभाव या इसके कारण उत्पन्न होने वाला कुछ हल्का अंधेरा; (जंबू० ६, १४, ६) ।

छाया-पेक्खणय—न० (सं० छाया-प्रेक्ष-णक > प्रा० छाया-पेत्खणग, पेक्खणय) छायानाटक; (प० च० ५२, ८, १०) ।

छायाभंगु—पुं० (सं० छाया + भङ्ग) कांति-भंग, सौंदर्य या आभा के नष्ट होने का भाव; “आयहो छाया-भंगुण किज्जइ,” अर्थात् इनकी कांति-भंग न की जाए; (रि० ३, १२) ।

छार^१—पुं० (सं० क्षार > प्रा० छार) राख, भस्म, कोयला; तुल० मगही गु० राज० छार; (प्र० चिं०; प्रा० पं० १, १६५; जस० १, २८, २, परम० २, ६०; सं० रा०) । —ड पुं० भस्म; (प्रा० गु० ३६, २१) ।

छार^२—पुं० (दे०) भालू, रीछ; (दे०-ना० मा० ३, २६) ।

छारय—न० (दे०) १. मुकुल, कली; २. ऊख की छाल; (दे० ना० मा० ३, ३४) ।

छारय—पुं० (सं० ऋक्ष) ऋक्ष, रीछ; “कहिं जि दिट्ठ छारया, लवन्त मत्त-मोरया । कहिं जि दिट्ठ सीह-गण्डया, घुणन्त-पुच्छ-दण्डया”; (प० च० ३२, ३, ५) ।

छारहडि—स्त्री० (सं० क्षारघटी) छार का पात्र; (प० च० ६, १०, ७) ।

छाला—स्त्री० (दे० छल्ली) चर्म, “वग्घछाला,” अर्थात् व्याघ्रचर्म; (प्रा० पं० २, ७७) ।

छाली—स्त्री० (सं० छागी) अजा, वकरी, तुल० राज० छाळी; (जस० ३, ६, ६) ।

छाव—पुं० (सं० शाव > प्रा० छाव) वत्स; तुल० राज० छावउ (शावक, युवक); (जस० ३, ७, ११) ।

छावड—पुं० (सं० चपेट > प्रा० चपेटा) चपेटा, थपड़; (सं० रा०) ।

छावत्तरि—वि० (सं० षट्सप्तति > प्रा० छावत्तरि) सत्तर और छह; (प० च० १०२, ८६) ।

छासट्ठ—वि० (सं० षप् + षट्ठि, षट्ष-

- छिट् छियासठवाँ; (प० च० ६६, ३७) ।
- छासी—स्त्री० (सं० छच्छिका) मट्ठा, छाछ, सारहीन तक्र, मथा हुआ दही; तुल० राज० छासि; (दे० ना० मा० ३, २६) ।
- छासीइ—वि० (सं० पडशीति) छियासी, —म वि० (स० पडशीतितम) छियासीवाँ; (प० च० ८६, ७४) ।
- छाह—स्त्री० (सं० छाया > प्रा० छाहा) छाँह, छाँव; तुल० राज० छाह; (भ०) ।
- छाहर—वि० [सं० छाया (=कांति, शोभा) > प्रा० छाया, छाहा > अ० छाह + ड, छाहर] सुदर; (की० २, २१६) ।
- छाहा—स्त्री० (सं० छाया > प्रा० छाहा) छाँह, आतप का अभाव; (जस० ४, १२, १५) ।
- छाहि—स्त्री० (सं० छाया > प्रा० छाहा, छाहिया, छाही) छाँह, छाया; (सुदं० १, ६, १०; प० च० २६, १३, ७; जस० ३, २१, ६) ।
- छाही—स्त्री० (दे०) गगन, आकाश । —मणि पुं० सूर्य; (दे० ना० मा० ३, २६) ।
- छाहु—पुं० (सं० उत्साह > प्रा० उच्छाह) उरसाह; (जे०) ।
- छिक्क—स्त्री० [सं० क्षुत् (क्षु=छींकना, क्षीति=छींकता है) > प्रा० छिक्क) छींक, (महा० २६, ४, २; म० २, ४२, २) ।
- छछ इ—स्त्री० (दे०) असती, कुलटा; (सुदं० ४, १४, ४) ।
- छिछय—पुं० (दे०) १. देह, शरीर; २. जार, उपपति; ३. न० फल-विशेष; (दे० ना० मा० ३, ३६) ।
- छिछोली—स्त्री० (दे०) छोटा जल-प्रवाह; (दे० ना० मा० ३, २७) ।
- छिड—न० (दे०) १. चूडा, चोटी; २. छाता, छत्र, ३. धूप-यंत्र; (दे० ना० मा० ३, ३५) ।
- √ छिद—(सं० छिद > प्रा० छिद) छेदना, विच्छेद करना; (जस० १, १५, ७) । छिदइ—सक० (सं० छिनत्ति) विच्छेद करना; (भ०) । छिन्दन्ति—व० प्र० पु०, व० छेदना; तुल० गु० छीद्वु, (प० च० ७, १४, ४) ।
- छिदण—न० (सं० छेदन) खंडन, छेद, कर्तन; (जस० १, २, १२; क० ४, १०, ३) ।
- छिअ—स्त्री० न० (सं० क्षुत् > प्रा० छीअ) छींक; (दे० ना० मा० ८, ७२) ।
- छिक्क—स्त्री० (सं० छीकृत > प्रा० छिक्क) छींक; (सुदं० ८, १५, १; दे० ना० मा० ३, ३६) ।
- छिक्कोअण—वि० (दे०) असहिष्णु; (दे० ना० मा० ३, २६) ।
- छिक्कोट्टती—स्त्री० १. पैर की आवाज, २. पाँव से धान्य को कुचलना; (दे० ना० मा० ३, ३७) ।
- छिक्कोलिअ—वि० (दे०) पतला, कृश; (दे० ना० मा० ३, २५) ।
- छिछी—अव्य० छी-छी, धिक् धिक्, अनेक धिक्कार; (पड्) ।

√छिञ्ज—(सं० क्षीयते) क्षीजना ।

—इ व० (प्रा० पं० १, ३७) । —इ

व० [सं० छिद् (कर्मणि) सं० छिद्यते]

नष्ट होना; (सुदं० ८, ३, ३, हे०

४३४, १; ण० ७, २, १२) । छिञ्जंत-

कृ० (सं० छिद् + शतृ) (जंत्र० ४, १७,

१४) । छिञ्जति—द्विद्वातोः कर्मणि,

“छिञ्जति सीताई णिवडति भीसाई,”

वहाँ-पशुओं के सिर कट-कट कर भीषण

रूप से गिर रहे थे; (जस० १, १६, ६) ।

छिञ्जंतु—भू० का० (सं० छिद्यमान्) कट

गया; (ण० ८, १५, ११) ।

छिड्ड—न० (सं० छिद्र) १. छिद्र,

विवर; (प० च० २०, १६२) ।

२. दोष; (संधि० १०, १, १८) ।

छिण्णगुलि—स्त्री० (सं० छिन्याङ्गुलि)

कटी हुई अँगुली; (जस० २, ६,

१८) ।

√छिण्ण—(सं०√छिद्) छिन्न-भिन्न

कर देता है ।—इ व० (रि० ३, १४) ।

—हुँ आ०, काटो; (क० ८, ७, ८) ।

छिण्ण—पुं० (दे०) जार, उपपति; (दे०

ना० मा० ३, २७) । वि० (सं० छिन्न)

१. पृथक्; (ण० ३, १५, ६; जस० २,

२६, ८) । २. कटा हुआ; “चक्केण

छिण्णु;” अर्थात् चक्र द्वारा कटा हुआ;

(व० ५, १२, ७) ।

छिण्णच्छोडण—न० (दे०) शीघ्र,

तुरंत, जल्दी; (दे० ना० मा० ३,

२६) ।

छिण्णा—स्त्री० (दे०) असती, कुलटा;

(दे० ना० मा० ३, २७) ।

छिण्णाल—पुं० (दे०) जार, उपपति;

(दे० ना० मा० ३, २७) ।

छिण्णालिआ—स्त्री० (सं० छिन्ना +

नारी > प्रा० छिण्णा + णरी > अप०

छिण्णालिआ, छिण्णाली) छिनाल, व्यभि-

चारिणी स्त्री; (दे० ना० मा० ३,

२७) ।

छिण्णिअ—वि० (सं० छिन्न) खंडित,

छेद-युक्त; (क० ३, १६, ६) ।

छिण्णोच्चमवा—स्त्री० (दे०) दुर्वा, दाभ;

(दे० ना० मा० ३, २६) ।

छित्त—वि० (सं० क्षिप्त) १. फेंका

हुआ, विखेरा हुआ, डाला हुआ, २. त्यागा

हुआ; (मं० रा०; जस० १, १२, ३) ।

३. वि० (दे०) स्पृष्ट, छूत; छुआ हुआ;

(ण० ३, ७, ६; सा० १३१) । पुं०

(मं० क्षेत्र > प्रा० खेत, खित्त, छित्त)

कृषि-भूमि; क्षेत्र, (भ०) ।

छिद्—पुं० (दे०) १. छोटी मछली;

(दे० ना० मा० ३, २६) । २. पुं० (सं०

छिद्र) छेद; (मं० रा० भ०; जस० ३,

२७, २०) ।

छिद्द—देखो छिड्ड (प० च० ६४,

६) ।

छिन्दाछिन्दि—स्त्री० (सं० छेदन) हथि-

यारों से परस्पर काटते हुए संघर्ष या

लड़ाई (a fight involving on both

sides piercing with weapons);

(प० च० ५२, ६, ५) ।

छिन्न—वि० (सं० प्रा० छिन्न, प्रा०

छिण्ण) खंडित, तुटित; (भ०; जंत्र०

८, २, ४) ।

छिन्नुच्छाह—वि० (सं० छिन्न +

छाया) कांतिहीन; “छिन्नच्छाह पईवड

किज्जड़ें; अथत् प्रदीपों की शोभा मंद कर दी गई; (जंबू० ८, १६, ४) ।

छिप्यंती—स्त्री० (दे०) १. व्रत-विशेष, २. उत्सव-विशेष; (दे० ना० मा० ३, ३७) ।

छिप्यंदूर—न० (दे०) १. गोवर-खंड, २. वि० विपम, कठिन; (दे० ना० मा० ३, ३८) ।

छिप्य—न० (दे०) १. भीख, २. पुच्छ, लाङ्गून; (दे० ना० मा० ३, ३६) ।

√छिप्य—(दे०; प्रा० छिद्र) स्पर्श करना; (जस० ३, २२, ६) । —इ सक० (ण० १, ७, ५; महा० ६६, १७, ३) ।

छिप्याल—पुं० (दे०) खाने में लगा हुआ वेल; (दे० ना० मा० ३, २८) ।

छिप्यालुअ—न० (दे०) पूछ, लाङ्गूल; (दे० ना० मा० ३, २९) ।

छिप्यंडी—स्त्री० (दे०) १. व्रत-विशेष; २. उत्सव-विशेष; ३. पिष्ट, पिसान; (दे० ना० मा० ३, ३७) ।

छिप्योर—न० (दे०) १. तृण, २. पूआल, भूसी; (दे० ना० मा० ३, २८) ।

छिमिछिमिछिम—अक० (सं० छिमिछि-माय्) छिम-छिम आवाज करना । छिमि-छिमिछिमंत; (प० च० २६, ४८) ।

छिरि—पुं० (दे०) भालूक की आवाज; (प० च० ६४, ४५) ।

छिल्ल—न० (दे०) १. छिद्र, विवर; २. कुटी, छोटा घर; ३. बाड़ का छिद्र; (दे० ना० मा० ३, ३५) ।

छिल्लर—न० (दे०) छोटा तालाब, जोहड़; (दे० ना० मा० ३, २८) ।

छिल्लर—न० तालाब, "तउ तउ रहि-रहो छिल्लर भरइ;" (प० च० १६, ६, ५) ।

√छिद्र—स्पर्श करना, छूना । —इ सक० सं० स्पृशति; (मुदं० ७, १६, ८; महा० ४, ५, १३) । छिद्रंति; (मुदं० १०, १०, १२) ।

छिविअ—वि० सं० स्मृष्ट; छूआ हुआ; (दे० ना० मा० ३, २७) । न० ईस का टुकड़ा; (दे० ना० मा० ३, २७) ।

छिद्व—वि० (दे०) कृत्रिम, बनावटी; (दे० ना० मा० ३, २७) ।

छिद्वर—वि० (दे०) चपटी, "अइ-तरगुण पईपरगतं । छिद्वर-णासं पवि-रल-दन्तं" अत्यंत दुबला, लम्बा शरीर, चिपटी नाक और दूर-दूर दांत, (प० च० १, २, ११) ।

छिद्वोल्ल—न० (दे०) अरुचिप्रकाशक मुख-विकार-विशेष; निदायक तिरछी चितवन या कटाक्ष वाला मुख; (दे० ना० मा० ३, २८) ।

छिद्वड्य—पुं० (दे०) दही का बना हुआ मिष्ठान्न; तुल० गु० सिखंड; (दे० ना० मा० ३, २६) ।

√छिह—सं० स्पृश; स्पर्श करना, छूना । छिहंतु—कृ० छूते हुए, स्पर्श करते हुए; (सं० रा०) ।

छिहिडिनिल्ल—न० (दे०) दधि, दही; (दे० ना० मा० ३, ३०) ।

छींटी—स्त्री० (दे०) छिपाव के लिए छिद्र; "अइ-भयेण कि-वि खाल के-वि छींटी जोयाविय;" (प्रा० गु० १२, ४१) ।

छोड़—पुं० (सं० छिद्र > प्रा० छिद्र)

छेद; (सि० १, ४१) ।

छुंछुई—स्त्री० (दे०) कपिकच्छु, केवांच का पेड़; (दे० ना० मा० ३, ३४) ।

छुंद—वि० (दे०) बहुत, प्रभूत; (दे०-ना० मा० ३, ३०) ।

√छुअ—(सं० छुप स्पर्श) स्पृश करना; (उ० व्य० प्र० ६, १६) । —ए (सं० छुपति) स्पर्श करना; “रख एक छुअरु न पाइअ,” अर्थात् एक तृण का स्पर्श भी कोई नहीं कर सकता था; (की० ३, ६०) ।

छुई—स्त्री० (दे०) वक-पंक्ति; (दे०-ना० मा० ३, ३०) ।

छुट्ट—वि० (सं० छुटित > प्रा० छुट्ट) मुक्त, बंधन-मुक्त; (सुदं० ८, १५, २, जंबू० १०, १७, १८) ।

√छुट्ट—अक० (सं० √छट् च्छेरेन > प्रा० छुट्ट) छटना, बंधन-मुक्त होना । —इ (सं० छुटति) छूटती है; (रि० ५, ११; सुदं० ६, १७, ६) । —ए; (म० २, १३, ८) । तुल० गु० छुटवूं, म० सुटणों, राज० छुटणौ, छुटवौ । छुडवि—पू० का० क्रि०, छूट कर, (सं० रा० २६) ।

छुट्टकेस—पुं० (सं० छुटित + केश > प्रा० छुट्ट+केस) खुले हुए बाल; सुदं० २, १०, ८) ।

छुट्टहीरा—पुं० मणिजटित हीरा; (सुदं० ७, ७, ५) ।

छुट्टिय—वि० मुक्त; (क० ३, २०, १०) ।

छुट्ट—वि० (दे०) क्षिप्त, फेंका हुआ;

(भ०) ।

छुडु—अव्य० (दे०) १. यदि “छुडु चीर-तराणु होइ मणूसहो” —यदि मनुष्य में थोड़ा धैर्य हो; (प० च० ८, ३, ७) ।

२. क्षिप्र, शीघ्र, “छुडु उयरहो हंतउणीसरिउ;” (क० ३, १६, १; जस० २, २८, ४) । ३. तुरंत; तुल० राज० छुडु (तुरंत); (भ० १, २४, ५) । छुडु छुडु—अव्य० १. क्रमेण; (प० च० २४, ८, ५) । २. शीघ्र-शीघ्र; ३. पुनः पुनः (जबू० ४, २०, २) ।

छुदहीर—पुं० (दे०) १. शिशु, २. चंद्रमा; (दे० ना० मा० ३, ३८) ।

छुद्ध—वि० (सं० क्षुब्ध > प्रा० खुद्ध, छुद्ध) क्षोभ-प्राप्त; (सं० रा०) । २. वि० (दे०) क्षिप्त, प्रेरित; (सुदं० ११, ८, ६; ण० ४, ७, १५) । छुद्धु; (भ०) । ३. क्षिप्त, निमग्न; (म० २, ३४, ३; जंबू० १०, ६, ७) ।

छुद्धउ—भू० का० (दे०) सं० क्षिप्त; डाल दिया; (जंबू० ५, १३, १५) ।

छुद्धु—डाल दिया; (रि० ५, ४) ।

√छुब्भ—(सं० क्षुब्ध > प्रा० छुब्भ) क्षुब्ध होना, विचलित होना । —हि अक०; (सुदं० ८, १४, ४) ।

छुब्भत्य—(दे०) देखी छोब्भत्य; (दे०-ना० मा० ३, ३३) ।

छुर—सक० (सं० √छृर्) १. लेप करना, लीपना; २. छेदन करना, छेदना; ३. व्याप्त करना; (प० च० २८, २८) ।

छुरमडि—पुं० (दे०) नापित, नाई,

- हंजामः तुल० राज० छुरम्डि; (दे०-
ना० मा० ३, ३१) ।
छुरहर्ष—पुं० (दे०) नापित, नाई;
(दे० ना० मा० ३, ३१) ।
छुरिअ—स्त्री० (सं० क्षुरिका) छुरी,
चाकू; (क० ३, १३, ७) ।
छुरिआ—स्त्री० (दे०) मिट्टी; (दे०-
ना० मा० ३, ३१) ।
छुरिय—वि० (सं० छुरित) १. व्याप्त,
२. लेप किया हुआ, पुता हुआ; (प० च०
२८, २८) ।
छुरिय—स्त्री० (सं० क्षुरिका) छुरी;
तुल० राज० छुरि, छुरिआ, छुरिका,
छुरिगा, छुरिया, छुरी; (जस० २, ६,
८) ।
छुरिया—स्त्री० (सं० क्षुरिका > प्रा०
छुरिगा, छुरिआ) छुरी, आयुध-विशेष;
(प० च० ७१, २५) ।
छुरी—स्त्री० (सं० क्षुरी > प्रा० छुरी)
छुरी, चाकू; (दे० ना० मा० २, ४) ।
छुल्लुछुल्लय—यि० (दे०) अधीर; “पइ
विरहिउ छुलुच्छलउ;” (प० च० ४५,
१०, १०) ।
छुह—स्त्री० १. (सं० सुधा > प्रा० छुहा)
अमृत, पीयूष, तुल० राज० छुहा; (क०
५, ४, ८) । २. (सं० क्षुधा) भूख;
(जं० १, ७, ७) । ३. चूना, सुधा,
(चूर्ण); (जस० १, १८, ३१) । —चुण्ण
पुं० न० (सं० सुधा + चूर्ण) चूना; (प०
१, ५, ६) । —तण्ह स्त्री० (सं० क्षुधा
+ तृष्णा) क्षुधा की अभिलाषा; (क०
५, १०, ४) ।
√छुह—सं० √क्षिप् डालना, फेंकना ।
(म० २, ५५, ५) । —इ सं० क्षिपति;
(भ०) । उ डाल रखो, “पंजरहिं तरु
छुहउ;” —पिजडे में शरीर को डाल
रखो; (क० ६, ७, ५) । —हिवि पुं०-
का० क्रि० “ते राएँ छुहिवि मंजूसियाहे”
—तब राजा ने पुत्री को पेंटी में बंदकर;
(क० १०, १२, ६) । छुहेवि—पुं० का०
क्रि० ले जाकर; (ण० ६, २१, २) ।
√छुह—सं० स्पृश, स्पर्श करना, छूना ।
—इ सक० (सं० छृ > प्रा० छृव)
स्पर्श करा, छूना; “किं जारहो णाहिं
सुवण्णु घरे” । जे कडउ घडावेँ वि
छुहइ करे” —अर्थात् ‘क्या यार के घर
में सोना नहीं है, जो कड़े गढ़वाकर हाथ
में पहन सकता है,’ (प० च० १६, २,
२) । छृन्तु—व० कृ० (सं० छृप् >
प्रा० छृव) स्पर्श करता हुआ, छूता
हुआ; “करयलु छृहन्तु मुहे पण्णयहुँ,”
कभी साँपों के मुखों को करतल से छूता
हुआ; (प० च० ६, ३, ६) ।
छुहा—स्त्री० १. (सं० क्षुधा) बुभुक्षा,
भूख; राज० छुहा; (दे० ना० मा० २,
४२) । २. (सं० सुधा > प्रा० छृहा)
चूना; (ण० ६, १५, १०; प० च० ६,
१४, ५) । —रस पुं० (सं० सुधारस)
चूने का रस; (व० ७, १३, ७) । छृह—
चूना (प० च० ११, १, ६) ।
छुहिय—वि० (सं० सुधित) लिप्त,
पोता हुआ; (दे० ना० मा० ३,
३०) ।
छुहिय—वि० (सं० क्षुधित) भूखा;
(प्रा० गु० २३, २४) ।
√छुट—(सं० छृट > प्रा० छृट्ट) छूटना,

बंधन-मुक्त होना, “अन्धार कूट, दिगवि-जय छूट;” अर्थात् राशीभूत अंधकार के समान थे और दिग्विजय के लिए उसी समय बंधन से मुक्त किए गए थे; (की० ४, १६) । छूटेसि—अक०, व०, म० पु० मुक्त हो, “कैसे तौ तो छूटेसि,” कथं तस्या मुक्तोऽसि; (उ० व्य० प्र० २३-१८) ।

छूट—वि० (दे०) क्षिप्त, प्रेरित; (प० च० ३२, १२, ६; भ०) ।

छूट्टु—वि० (सं० क्षिप्त) पड़ा हुआ; “भयकृत्वि छूट्टु णउ णिट्टमुक्खु पावेइ मूडु” —वह मूर्ख भय के कूप में पड़ कर न नींद पाता है और न भूख, (सुदं० २, १०, २५) ।

छूंडा—स्त्री० (दे०) १. शिखा, चोटी, २. लता-विशेष; (दे० ना० मा० ३, ३६) ।

छोडी—स्त्री० (दे०) छोटी गली, छोटा रास्ता; (दे० ना० मा० ३, ३१) ।

√छेप्र—(सं० छेदय > प्रा० छेप्र) छिन्न करना । छेवइ—सक० (सं० छेद-यति) काटता है; तुल० मगही छेवइ; (कणहपा, चर्यापद) । छेवि—पू० का०-क्रि० (सं० छिद् + त्वा) (जस० १, ६, ७) ।

छेअ—वि० (सं० छेक > प्रा० छेअ) विदग्ध, रासिक; (प्रा० पं० १, ११६) ।

छेइल्ल—वि० (दे०, प्रा० छइल, छइल्ल) विदग्ध, चतुर, (सुदं० ७, १०, ७) ।

छेउ—पुं० (दे० प्रा० अछे) अंत, से “सेवुजि सिद्धा के-वि मुणि ताहें कु जाणइ

छेउ;” तुल० गु० छेडो; (रि० २, ५; प्रा० गु० १६, २२) ।

छेय—वि० (सं० छेक) निपुण, चतुर; (दे० ना० मा० ३, ४७) ।

छेयजइ—न० (सं० छेय) काटना-छांटना; “पत्तपुप्फाणाफलछेयजइ;” (ण० ३, १८) ।

छेय्छइ—स्त्री० (दे०) वेश्या, रंडी; “जो जो को वि-जुवारु, तासु तासु कुल-उत्ती । मेइणि छेय्छइ जेम, कवणें णरेंण ण भुत्ती;” (प० च० ५, १३, ६) ।

छेत—पुं० न० (सं० क्षेत्र > प्रा० छेत) खेत; (क० १, ३, ३; जंबू० ५, ६, ६) । —माला स्त्री० क्षेत्रमाला; (जंबू० ६, ६, १०) ।

छेद—पुं० (सं० छेद) वलि; “कतहु मिसि-मिल कतहु छेद;” कहीं (मुसलमानों में) विसमिल्ला कहकर पशुओं को मारा जाता था; (की० २, १६५) ।

छेध—पुं० (दे०) १. चंदनादि सुगंधित वस्तु का विलेपन; २. चोर, चोरी करने वाला; (दे० ना० मा० ३, ३६) ।

छेमय—पुं० (दे०) चंदन आदि का विलेपन; शरीर पर सुगंधित लेप करना; (दे० ना० मा० ३, ३२) ।

छेय—पुं० (दे०, प्रा० छेअ) पर्यंत, प्रात; “दीहर-छेयइ अत्थाणाइ व;” (प० च० २६, १७, ३) । २. छेद; (भ०) ।

छेय—पुं० (सं० छेद > प्रा० छेअ) काटना, चुकाना, “अवसर अज्जु सामि-रणछेयहो;” अर्थात् स्वामी के ऋण को काटने (चुकाने) का आज ही अवसर है; (जंबू० ६, ३, ५) । २. नाश, विनाश;

(प० च० १, ६, ५) । ३. क्षय; “छेयकाले दीवय-सिंह णावइ,” क्षयकाल की दीपशिखा की भाँति कन्या स्वभाव से मलिन होती है; (प० च० ६, ३, ६) ।

छेयउ—वि० (सं० छेदक > प्रा० छेदअ) कण्टकर; (हे० ३६०, १) ।

छेयण—न० (सं० छेदन > प्रा० छेअण) कर्तन काटने का काम; “चलणछेउ किज्जइ सिरछेयणु;” —पैर काटे जाएँ और फिर सिर का छेदन किया जाए; (जस० ४, २७, ३२) ।

√छेर—(दे०) चिल्लाना । —इ अक० (सुदं० ६, २, १२) ।

छेरअ—पुं० (सं० आश्चर्य > प्रा० अच्छरिअ) विस्मय; (जंबू० १, १०, ४, ६) ।

छेल—पुं० स्त्री० (दे०) अज, छाग, बकरा; तुय० राज० छेल (छेली स्त्री०); (दे० ना० मा० ३, ३२; जस० १, १०, १) ।

छेल—वि० (सं० छेक > प्रा० छेग, छेअ) चतुर, निपुण; “समीहए छेलहए वर्णिदओ;” ‘वह वणीन्द्र चतुरों के बीच मनो-वाञ्छित क्रीड़ा करता’; (सुदं० ७, १, १२) ।

छेलि—स्त्री० (दे०) बकरी तुल० राज० छेली; (उ० व्य० प्र० ५०-३) ।

छेली—स्त्री० (दे०) थोड़े फूल वाली माला; (दे० ना० मा० ३, ३१) ।

छेहि—स्त्री० (दे०) अंत; “छेहि जई आपणि सही होसिउं तुल्ला बेर;” (प्रा० गु० १०, ४४) ।

छोइअ—पुं० (दे०) दास, नौकर; (दे०-ना० मा० ३, ३३) ।

छोक्करण—पुं० (सं० छूत्कार) छूत्कारने की ध्वनि; (जस० १, ३, १३) ।

छोक्कार—पुं० (दे०) छोक्कार शब्द; (जंबू० ५, ६, ६) ।

छोटा—वि० (सं० क्षुद्र) तुच्छ, ओछा; “बडि साति छोटाहु काज,” अर्थात् छोटे से काम के लिए बड़ी शक्ति का प्रयोग; (की० ३, ६१) ।

छोट्टिअ—वि० (सं० क्षुद्र) छोटी; (सुदं० ६, १५, ६) ।

छोटी—वि० (सं० क्षुद्र) लंबाई, विस्तार में कम, “पुहवी भए जा छोटी,” अर्थात् घरती छोटी हुई जा रही थी; (की० ४, ११५) ।

छोटेओ—वि० (सं० क्षुद्र) लंबाई, विस्तार या डील-डोल में कम, छोटा; “छोटेओ तुरुका भभकी मार;” अर्थात् छोटा भी तुकं क्रोधित होकर ताड़न करता है; (की० २, २११) ।

√छोड—(सं० छोड्य > प्रा० छोड) छोड़ना, बंधन से मुक्त करना । —इ सक० (सुदं० ४, १०, ६) । छडइए—भू० का० छोड दिया; (प्रा० पं० २, १७३) । छोडो—भा०, छोड़ दो; तुन० राज० छोडणो, छोडवो; (प्रा० पं० २, १५७) । २. (सं० छुर्) बंधन मुक्त करना । छोडि—पू० का० क्रि० (रा० ४०) । छोडइ—भू० का०, उन्मुक्त किया; “घरणि घूलि अन्धार छोडइ;” अर्थात् पृथिवी ने घूल के द्वारा अंधेरे को

उन्मुक्त किया; (की० ४, १२४);
छोड्डिअ—पू० का० क्रि० छोडकर;
(की० २, ५७)। छोड्डिओ—पू० का०
क्रि० छोडकर; (की० २, ५७)। छोलि
ले—भू० का० छुड़ा लेते थे; (की० ४,
५६)।

छोडण—पुं० (सं० छोटय् > प्रा० छोड)
छोडना; (सुदं० ६, १०, ७)।

छोडाविय—वि० (सं० छोटित > प्रा०
छोडाविय) छुड़ाया हुआ, बंधन-मुक्त;
तुल० गु० छोडाव्यो; (प० च० ११, ६,
६)।

छोडि—वि० (सं० क्षुद्रा) छोटी; (प्रा०
पै० १, ६)।

छोडिअ—वि० (सं० छोटित > प्रा०
छोडिअ) त्यक्त-मुक्त, बंधन-मुक्त किया
हुआ; (सुदं० ५, १०, ६)।

छोत्ति—स्त्री० (दे०) छूत, अस्पृश्य का
संसर्ग, छूने का भाव; "..... मह
पहें छोत्ति हुआ," मेरे मार्ग में छूत हो
गई, (सुदं० ८, २२, ७)।

छोब्म—पुं० (दे०) पिशुन, खल, दुर्जन;
तुल० राज० छोब्म; (दे० ना० मा० ३,
३३)।

छोब्मत्य—वि० (दे०) अप्रिय, अनिष्ट;
(दे० ना० मा० ३, ३३)।

छोब्माइत्ती—स्त्री० (दे०) १. छूने के
अयोग्या, २. अप्रीतिकर स्त्री; (दे०
ना० मा० ३, ३६)।

छोम—(दे०) देखो छोब्म; तुल० राज०
छोम; (दे० ना० मा० ३, ३३)।

√छोल्ल—(दे०) छीलना, छाल उता-
रना।—ई सक० (जं० ५, २, ८)।

छोलिज्ज—सं० √ तक्ष (कर्मणि)
छीलना।—इ सक० (जं० १, १०,
५)। छोल्लिज्जन्तु—छीला जाता; (हे०
३६५/१)।

छोल्लिय—स्त्री० (दे०) छोटी सी
लकड़ी; (सुदं० ५, ५, १२)।

छोह—पुं० (दे०) १. समूह, यूथ;
२. विक्षेप; (दे० ना० मा० ३, ३६)।

छोह—पुं० (सं० क्षोभ > प्रा० खोभ)
क्रोध, गुस्सा; तुल० राज० छोह; (प्रा०
गु० २६, १४)। छोहु—क्षोभ; (सि० १,
२१)।

√छोह—(सं० क्षिप्) डालना।—इ
सक० "आसीविसमुहि को कर छोहइ"—
कौन अपना हाथ सर्प के मुख में डालता
है, (म० २, ५५, ५)।

छंहार—पुं० छोहार द्वीप; द्वीप-विशेष;
(जं० ६, ११, ६; क० ८, १०,
३)।

छोहिय—वि० (सं० क्षोभित) क्षोभ-
प्राप्त; (जस० २, २७, ३)।

ज

ज—पुं० (सं० प्रा० ज) व्यंजन वर्ण-
विशेष। अल्पप्राण, सघोष, यह निरनुना-
सिक स्पर्श संघर्षी तासू स्थानीय व्यंजन
है। प्राकृत काल में शब्द के प्रारंभ में
य का ज उच्चारण होता रहा है। अप-
भ्रंश में मूल ज और य परिणत ज उप-
लब्ध हैं। सर्व० (सं० यः) जो, (प्रा० पै०
१, १)। लो०—'ज जसु मणिट्टु तं तासु

लग्गु, 'अर्थात् जो जाही को भावना सो ताही के पास; (प० सि० च०) ।
२. अव्य० (सं० यदि) यदि; तुल० प्राचीन म० जइ; (उ० व्य० प्र० ६, १४; पाहु १७७, सं० रा०, हे० ३४३; प० च० १, १०, २) ।

जं—वि० १. (सं० यः > प्रा० जं) जिस प्रकार; (महा० ६६, १६, १) । जिस; (की० ३, ७३) । २. जो (महा० ६६, २, ६; जंत्रू० २, १३, ७; हे० ३६५, २) । ३. सर्व० जो कोई; (की० २, १२४) । ४. अव्य० जैसे; (प० च० १२, ६, १) । (सं० यत्) जब तक, जो, यदि; वाक्यांतर का संबंध सूचक अव्यय (सं० रा०); जितना; (प० च० १२, २, १; (सं० यावत्) जब, (प० च० १५, १०, १) । —दिवसु, जिस दिन से (प० च० १६, ५, २) ।

जंकयसुक्य—वि० (दे०) थोड़े उपकार से अश्रीन होने वाला; (दे० ना० मा०-३, ४५) ।

जंगम—वि० (सं० जङ्गम > प्रा० जंगम) चलने वाला, जिसे एक से दूसरी जगह ले जा सकें, जीवित; (व० १, ४, ६; जस० २, ३७, ७) । जंगमु; (वी० १, २) । २. छप्पय छंद का भेद; (प्रा० पं० १, १२२) ।

जंगल—न० (सं० जङ्गल > प्रा० जंगल) मांस; (ण० ६, ६, ५) । जंगलु; "जंगलु असंतु वग्गु रक्खसु मारिड णरएपत्तु," मांस का भोजन करने वाला वन राक्षस मारा गया और नरक को प्राप्त हुआ, (सुदं० २, १०, ११) । टि०—मूल सं०

शब्द जङ्गल का अर्थ 'एकांत निजंन स्थान' है, परन्तु वन में शिकार से प्राप्त मांस को भी जंगल कहा गया । यहाँ अर्थ संकोच द्रष्टव्य है ।

जंगा—स्त्री० (दे०) पशुओं के चरने की जगह; (दे० ना० मा० ३, ४०) ।

जंगुलिय—पुं० (सं० जाङ्गुलिक) गारुडिक, विप-मंत्र का जानकार; (प० च० १०५, ५७) ।

जंघ—स्त्री० (सं० जङ्घा > प्रा० जंघा) जंघा, जाँघ, जानु के नीचे का भाग; (प्रा० पं० १, २६; जंत्रू० १०, १५, ७) ।

जंघतराल—पुं० (सं० जङ्घा + अन्तराल) जंघाओं का मध्यवर्ती स्थान; (जंत्रू० ४, ११, १२) ।

जंघयामु—पुं० (सं० जङ्घा + स्थामन् = शक्ति) दीड़ने व युद्ध करने की शक्ति; (जंत्रू० ५, ८, २८) ।

जंघा—स्त्री० (सं० जङ्घा > प्रा० जंघा) जाँघ; (जस० १, १७, १५) । —बलु पुं० (सं० जङ्घा + बल) जंघाबल; (जस० २, २१, १) ।

जंघाच्छेत्र—पुं० (दे०) चत्वर, चौक; (दे० ना० मा० ३, ४३) ।

जघामय, जंघालुअ—वि० (दे०) द्रुत-गामी, वेग से जाने वाला; (दे० ना०-मा० ३, ४२; पड्) ।

जंजं—अव्य० जहाँ-जहाँ; (की० ४, १३२) ।

जंचि—स्त्री० (दे०) स्त्री; (सं० रा०) ।

जं जि—अव्य० जब; (प० च० २, ७, ८) ।

जंत—न० (सं० यन्त्र > प्रा० जंत)
१. यंत्र मशीन, वह उपकरण जो कोई विशेष कार्य करने अथवा कोई वस्तु बनाने के लिए हो; (ण० १, ६, ११; सि० १, ११५; व० ६, १२, ५) । २. यान; (क० १, ३, १०) ।

जंत—कृ० सं० √या + शतृ, यान्त, य.त) चलते-चलते; हउं थंभमि रविहि विमाणु जंतु,"—मैं चाहूँ तो सूर्य के विमान को चलते-चलते थाम दूँ; (जस० १, ६, १४) । जाते हुए; (ण० १, ६, ११, व० १, १७, ५; जंबू० ३, ६, १३) ।—अ कृ० (सं० गम् + शतृ) (जंबू० ११, ८, ३) ।

जंतउवलि—स्त्री० भ्रमणावलि; 'सा सीह हियत्ते णिसुणि पयत्ते मणु थिर करि जंतउ वलि;" अर्थात् हे सिंह, धैर्य-पूर्वक सावधान होकर तथा मन को स्थिर करके उस भ्रमणावलि को सुन; (व० २, ६, २०) ।

जंता—न० (सं० यन्त्र > प्रा० जंत) कल, युक्तिपूर्वक शिल्प आदि कर्म करने के लिए मशीन विशेष; (व० ३, १, ५) ।

जंति—कृ० (सं० गम् + शतृ स्त्रियाम्) (जंबू० ६, २५) ।

जंतीय—कृ० (सं० गम् + शतृ) स्त्री०, व० ।

जंतु—पुं० (सं० जन्तु > प्रा० जंतु) जीव, प्राणी; (जंबू० ८, १४, ४) ।

√जंप—(सं० √जल्प् > प्रा० जंप) बोलना, कहना ।—इ सक० (क० २, १६, ७) । जंजंत—वर्तमान कालिक

क्रिया के लिए व० कृ० का प्रयोग (सं० जल्प् + शतृ) 'जिगत अं जंपंत मणे;' ऐसा पिंगल शास्त्र के वेत्ता मन में कहते हैं; (प्रा० पै० १, १७८) । जंपहि—वात कीजिए; "महु सहु जंपहि तुहुं एक्कल्लउं" (म० १, १७, ६) । जंपिअइ—जल्पना

करना, जप करना, (दे० सा० दो०) ।

जंपिउं—भू० का०, कहा; (विला०) ।

जंपिज्जइ—जल्प (कर्मणि); (सुदं० ८, ८, ३) ।

जंपियइं—व० कहना; (सा० १०४) ।

जंपेविणु—पू० का० क्रि० (सं० जल्प् + एविणु) कहकर; (व० २, ७, १) ।

जम्पइ—व० बोलना, कहना;

(की० २, २२६; प० च० ५, १६, ४) ।

जम्पउ—क्रि०, व० कहता हूँ, "तें तेंसन जम्पउ अवहट्ठा;" (की० १, ३६) ।

जम्मिअ—भू० का० (सं० जल्पित > प्रा० जप्पिअ) कहा, निवेदन किया;

(की० ३, ६) ।

जंपण—न० (दे०) १. मुख २. अपयश;

(दे० ना० मा० ३, ५१) । जम्पण न०-

(दे०) मुख; (प० च० २५, १६, १) ।

जंपणिया—वि० (सं० जल्पिका) वातूनी,

बक्की; (ण० ६, ६, ६) ।

जंपाण—न० (सं० जम्पान > प्रा०

जंपाण) वाहन-विशेष; झांपी, पालकी;

"वर तुरय जंपाण धय चमर छत मयमत्त

मयगल," उत्तम घोड़ों, पालकियों, ध्वजा,

चामर छत्र तथा मधोन्मत्त हाथियों का

उपभोग करें; (म० १, २६, ३) ।—अ

न० पालकी; (जंबू० ११, १, ६) ।

- जम्पाण न० मृतक-यान, शव-यान; (प०-च० १०, ११, ३) ।
- जंपाय—न० (सं० जम्पान > प्रा० जंमाण) वाहन-विशेष; (सि० १, १५) ।
- जपिच्छय—वि० (दे०) जिसको देखे उसी को चाहने वाला; (दे० ना० मा० ३, ४४) ।
- जंपिय—वि० (सं० जल्पित > प्रा० जंपिय) उक्त, कथित; (ण० २, ५, १) ।
- जंपिर—वि० जल्पित > प्रा० जंपिर) बोलने वाला, भाषक; (सुदं० ८, ८, ३) ।
२. वाचाल, वातूनी; (दे० ना० मा० २, ६७) ।
- जंपेक्खिरमगिर, जपेच्छिरमगिर—वि० (दे०) जिसको देखे उसी की याचना करने वाला; (दे० ना० मा० ३, ४४) ।
- जंवाल—न० (दे०) १. सँवाल, शेवाल, मोथे की भाँति हरे रंग का पदार्थ जो पानी के ऊपर उग आता है, काई, २. एक प्रकार का पौधा; (दे० ना० मा० ३, ४२) ।
- जंवीर—न० (सं० जम्वीर) नींबू का वृक्ष; (जंजू० ४, १६, ४) ।
- जंबु—पुं० (सं० जम्बु > प्रा० जंबु) सियार, प्राणी-विशेष (प० च० १०५, ५६) । न० वृक्ष-विशेष, जामुन; (जंजू० ४, २१, २) । —अ पुं० (दे०) १. वेतस वृक्ष २. पश्चिम दिशा के रक्षक; (प० च० १०५, ६४) । —इ न० वेत का वृक्ष; (जंजू० ५, ८, १३) । —उ पुं० (सं० जम्बूक) शृगाल; (जंजू० ६, ११, ८) । जम्बु—पुं० शृगाल; (व० ५, ५, २) ।
- जंबुदीघ्न—पुं० (सं० जम्बुद्वीप > प्रा० जंबुदीव) द्वीप-विशेष; (ण० १, ६, १) ।
- जंबुदीउ; (जंजू० ६, १, १३) । जंबु-दीव; (क० १, ३, १) ।
- जंबुमालि—पुं० रावण का पुत्र; (प०-च० ५६, २०) ।
- जंबुल—पुं० (दे०) १. वानीर (वेत या सरकंडा) का वृक्ष; २. सुरा-पात्र; (दे०-ना० मा० ३, ४१) ।
- जंबुसामि—पुं० जम्बूस्वामी; (जंजू० ४, १०, २) ।
- जंबुहल—न० (सं० जम्बूफल) जंबू वृक्ष का फल; (जंजू० ४, ८, २७) ।
- जंबू—न० (सं० जम्बू > प्रा० जंबू) वृक्ष-विशेष, जामुन का वृक्ष; (प० च० २०, ३, ६) । पुं० राक्षस योद्धा; (प० च० ५६, ३०) । —दीव पुं० जम्बूद्वीप, एक विशाल जैन और पौराणिक क्षेत्र । हिंदू पुराणों के अनुसार भारतवर्ष; जंजू० ३, २, ३) ।
- जंबूअ—पुं० (सं० जम्बूक > प्रा० जंबूक) शृगाल; (जंजू० १०, १०, ८) ।
- जंबूणय—न० (सं० जाम्बूनद) १. सुवर्ण, सोना; (प० च० ५, १२६; जस० २, ४, ६) । २. राजा-विशेष-नाम; (प० च० ४८. ६८) ।
- जंबूमालि—पुं० (सं० जम्बूमालिन्) रावण का एक पुत्र, रावण का एक सुभट; (प० च० ५६, २२) ।

जंभ—पुं० (दे०) तुष, धान्य आदि का छिलका; (दे० ना० मा० ३, ४०) ।

जंभणंभण, जंभणभण, जंभणय—वि० (दे०) स्वच्छंद-भाषी, जो इच्छा में आवे वह बोलने वाला; (दे० ना० मा० ३, ४४) ।

जंभणी—स्त्री० (सं० जृम्भणी) तंत्र-प्रसिद्ध विद्या-विशेष; (प० च० ७, १४४) ।

जंभल—पुं० (दे०) जड़, सुस्त, मंद; (दे० ना० मा० ३, ४१) ।

जंभा, जंभाक्ष—अक० (सं० जृम्भ्) जंभाई लेना; (षड्) । जिम्भइ—व० (सं० जृम्भते); (प० च० १७, १५, ३) ।

जंभाइय—न० (सं० जृम्भत > प्रा० जंभिय) जंभाई, जृम्भा; (सुदं० ४, ११, ४) ।

जंभायउ—पुं० (सं० जामातृ) जामाता, दामाद; (सि० १, ३) ।

जअ—न० (सं० जगत् > प्रा० जग) संसार; “दो तिण्णि जए पुरिसा,” अर्थात् ऐसे लोग जगत् दो ही तीन हैं; (जंजू० ७, ४, ८) । पुं० (सं० प्रा० जय) जीत, शत्रु का पराभाव; (प्रा० पै० १, ३७) ।

√जअ—(सं० जि) जीतना, जय होना । —इ व० (सं० जयति) (प्रा० पै० १, १) ।

जअल—वि० (दे०) आच्छादित; (पड्) ।

जइ—अव्य० (सं० यदि > प्रा० जइ) अगर, यदि; तुल० मगही जे; (क० १,

२, ४; प्रा० पै० १, ६; जंजू० २, १८, ४) । २. यदि, चाहे; (की० १, २६) ।

३. (सं० यत्र) जहाँ, जिस स्थान में; (पड्) । पुं० (सं० यति) संन्यासी, जति; जितेंद्रिय; (संघि० २, ६, ६; जस० ४, १६, १५) । —वर पुं० (सं० यतिवर) श्रेष्ठ संन्यासी; (क० ६, २, ८; ण० २, ७, १०) ।

जइउ—अव्य० (सं० यदा > प्रा० जइ) जब, जिस समय; (प० च० ४०, ४, ७) ।

जइच्छ—वि० (सं० यथा + इच्छा) स्वेच्छाचारी; “जो किर होइ जहिच्छहो दूसहु;” अर्थात् स्वेच्छारी के लिए जो दुःसह होता है; (जंजू० १०, २२, ६) ।

जइणि—स्त्री० जयनी, विश्वभूति की पत्नी; (व० ३, ३, ७) ।

जइयकालि—अव्य० (सं० यदा + काल) जिस काल से, जिस समय से; (सं० रा०) ।

जइयहुं—अव्य० (सं० यदा) जब; (ण० ३, १५, ७) २. ज्यों ही; (क० २, ८, १०) । जइयहुं—अव्य० जब; (प० च० १६, ४, ३; जंजू० २, २, १) । जइयहु—अव्य० जब; (जस० २, ३३, ६) ।

जइधि—अव्य० (सं० यद्यपि > प्रा० जइवि) जो भी; (जंजू० ५, ४, १; प० च० २, १४, १) ।

जइविहु—अव्य० (सं० यथा + विष > प्रा० जह + विह) जिस प्रकार; (सु० ८, ४) ।

जइसर—वि० (सं० यादृश > प्रा० जरिस) जैसा; (की० १, १७) ।

जइसा—अव्य० (सं० यादृश > प्रा० जइस) जैसा, जिस तरह का; (भृमुकुपा, चर्यापद) ।

जइहि—अव्य० (सं० यथा + विव > प्रा० जह + विह) जिस प्रकार; (महा० ६६, १४, ६) ।

जई—पुं० (सं० यति > प्रा० जइ) संन्यासी; (क० ५, ६, १) ।

जईसर—पुं० (सं० यतीश्वर) मुनिव्रत, "विहिं भेयहिं ताईं समासियाइ, धखयइ जईसरसंठियाइ," अर्थात् ये व्रत संक्षेप में दो प्रकार के कहे गए हैं । एक गृहस्थव्रत (अगुव्रत) और दूसरे मुनिव्रत (महाव्रत); (क० ६, २२, २) ।

जड—अव्य० (सं० यत्र > प्रा० जइ) जहाँ; (प० च० ६, १०, ८) । सर्व० (सं० यः) जो; (की० १, १६) । पुं० (सं० जव) वेग, शीघ्रता, तेज, फुति; (जंबू० ६, १०, ६) । पुं० विजय; "विणएँ इंदियजड संपज्जइ;" विनय से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त होती है, (ण० ३, २, ८) । अव्य० (सं० यावत्) जब; (क० २, २१, ३) । पुं० (सं० जेरः) जीतना; "न पवत्तइ केम वि० पुत्तु तड वहुबोली—महल्ल नएण-जड," अर्थात् तुम्हारा पुत्र किसी भी तरह संसार में प्रवृत्त नहीं होगा, यह वधुओं के बड़े-बड़े बोलों के न्याय से जीता नहीं जा सकता; (जंबू० ६, १६, ४) । जड जड—अव्य० (सं० यत्र यत्र) जहाँ-जहाँ; (प० च० २५, ६, १०) ।

जडणंदण—पुं० (सं० यदुनन्दन > प्रा० जडणंदण) श्रीकृष्ण; (रि० ६, ६) ।

जडण—स्त्री० (सं० यमुना > प्रा० जडणा) यमुना नदी; (रा०; म०; जंबू० ६, १६, ५; प० च० १२, ४, ३) । जडणा—स्त्री० यमुना नदी; (क० १२, १२, ६) ।

जडणदत्त—पुं० (सं० यमुनादत्त) मयुरा के राजकुमार का नाम; (प० च० ८८, १६) ।

जडणदेव—पुं० (सं० यमुनदेव) व्यक्ति-विशेष-नाम; (प० च० ८८, ४) ।

जडणा—स्त्री० यमुना, वणिक स्त्री का नाम; (प० च० ३३, ६५) ।

जडलग्गि—अव्य० (सं० यावत् + लग्गम्) जब तक, जब लग, (क० ८, २, ६) ;

जओ—अव्य० ज्यों, समान; "नलिन पत्त जओ महि चलइ;" कमलिनी के पत्ते के समान धरती डोलने लगी; (की० ३, ६४) ।

जकख—पुं० (सं० यज > प्रा० जकख) देवयोनि विशेष, प्राचीन म० जकख; (क० १, ३, ७; जंबू० ४, १, ६; जस० १, २१, ७) । २. मध्यलघु पंचकल गण, रगण (रा०); (प्रा० पं० १, २६) ।

३. पुं० एक विद्याधर राजा, जो रावण का मौसैरा भाई था; (प० च० ८, १०२) । —कहम पुं० (सं० यज + कर्दम) केसर, अगर, चंदण, कपूर और कस्तूरी का समभाग मिश्रण; (प्र०) ।

—अहिबइ पुं० (सं० यजाविपति) १. एक विद्याधर राजा; २. कुवेर, यज-राज; (प० च० ८, ११६) ।

जक्खकद्दम—पुं० (सं० यक्ष + कर्दम > प्रा० जक्खकद्दम) सुगन्धित लेप; केसर, अगर, चंदन, कपूर और कस्तूरी का समभाग मिश्रण; (प० च० १, १४, ८; ण० ६, १८, १३) ।

जक्खण—अ०य० (सं० यत् + क्षण > प्रा० ज + खण) जिस क्षण; (प्रा० वै० १, १६०) ।

जक्खयाण—पुं० (सं० यक्ष + स्थान > प्रा० जक्ख + ठाण, थाण) नगर-विशेष; प० च० ३३, १, १) ।

जक्खदत्त—पुं० यक्षदत्त, कुंचपुर का राजकुमार; (प० च० ४८, ११) ।

जक्खसेण—पुं० (सं० यक्षसेन) यक्षदत्त के पिता; (प० च० ४८, १४) ।

जक्खामर—पुं० (सं० यक्ष + अमर) यक्षदेव; (जंबू०) ।

जक्खाहिद—पुं० (सं० यक्षाधिप) यक्षों के राजा, यक्षों के स्वामी, कुवेर; (व० ८, ३, ८) ।

जक्खिद—पुं० (सं० यक्षेन्द्र > प्रा० जक्खिद) यक्षों का स्वामी; (जस० ४, १७, १२) ।

जक्खिणी—स्त्री० (सं० यक्षिणी > प्रा० जक्खिणी) यक्ष की स्त्री; (ण० १, १३, ८) ।

जक्खिलदेव—पुं० यक्षदेव; (रि० १०, २) ।

जक्खी—स्त्री० (सं० यक्षी) यक्षिणी; (जस० १, १२, १३) ।

जक्खेसर—पुं० (सं० यक्ष + ईश्वर) यक्षेश्वर. (जंबू० १, १७, ३; सि० १, १७) ।

जग—न० (सं० जगत् > प्रा० जग) विश्व, संसार; (जंबू० २, १४, १०) ।

—रवि वि० (सं० जगत् + रवि) संसार के सूर्य अर्थात् ज्ञान को प्रकाशित करने वाले; (जस० ३, ३६, ६) ।

जगरुण्टउ—वि० (सं० जगत् + कण्टिक > प्रा० जग + कंटिय) जगत् के लिए कण्टक स्वरूप, जगत्-पीडक; (प० च० ६, ३, ४) । टि०—मूल संस्कृत शब्द 'जगत्कण्टक,' गौणी लक्षणा और अलंकार का परिणाम अर्थात्तर के रूप में द्रष्टव्य है ।

जगजग—अक० (सं० √चकास्) चमकना, उज्ज्वल होना, दीपना । जगजगंत, जगजगंत—व० कृ०, (प० च० ७७, २३) ।

जगजत्त—पुं० (सं० जगत् + यात्रा > प्रा० जग + जत्ता) संसार की यात्रा; (ण० ६, ६, ११) ।

जगज्जुड—पुं० व्यक्ति-विशेष-नाम; (प० च० ८२, ६५) ।

√जगड—(दे०, प्रा० जगड) भगडना, कलह करना । —इ सक० (प० च० १०, ७, ५) । जगडंत—व० कृ० (सं० युध्यन्) झगड़ा करते हुए; तुल० म० झगडणें; (ण० ३, १५, १२) । जगड-

न्त—व० कृ०, (प० च० १०, ८, ५) । जगडिज्जंत—व० कृ० (प० च० ८२, ६) ।

जगडण—न० (दे०) कदर्यन, पीडन; (जंबू० १, १०, ११) ।

जगडिअ—वि० (दे०) १. विद्रावित (पराभूत किया हुआ, भगाया हुआ, तित्तर-वित्तर किया हुआ, पिघलाया

हुआ), तिरस्कृत; (दे० ना० मा० ३, ४४) । २. पीडित; (संघि० १०, ३, १०) ।

जगण—पुं० (छंदशास्त्र में) मध्य गुरु वर्णिकगण (151); (प्रा० पै० १, ३६) ।

जगत्कुमुद—वि० (सं० जगत् + कुमुद) जगत् में फैले हुए कुमुद के समान; (की० ३, १६२) ।

जगतिलज—पुं० (सं० जगत् + तिलक) जगतिलक नामक देव; (क० ४, १५, १०) ।

जगत्तए—पुं० (सं० जगत् + तय) तीन जगत्, "ए अत्थि जयत्तए तैत्थि वाणि;" (क० ५, ६, ३) ।

जगद्दण—पुं० (सं० जनादेन) विष्णु, परमेश्वर; (संघि० ३, १३, १) ।

जगन्तकर—वि० (सं० जगत् + अन्तकरण > प्रा० जग + अंत + करण) संसार का विनाशक; (प० च० १७, ६, १०) ।

जगपरमेश्वर—पुं० (सं० जगत्परमेश्वर) जगत्स्रष्टा; (जस०) ।

जगत्प्रकाश—वि० (सं० जगत् + प्रकाश) जगत् का प्रकाश करने वाला; (प० च० २२, ४७) ।

जगर—पुं० (सं० जगर) कवच, वर्म; (दे० ना० मा० ३, ४१) ।

जगल—न० (दे०) १. ईश्वर की मदिरा का नीचला अंश, २. मदिरा का नीचला भाग; (दे० ना० मा० ३, ४१) ।

जगहर—पुं० (सं० जगत् + गृह > प्रा० जग + घर, हर) जगत् रूपी घर; "ससि उगंड सुट्टु सुसोहियड । णं जग-हरे दीवड वोहियड" —'अत्यंत सुशोभित

चंद्रमा उग आया मानो, जग रूपी घर में दीपक जल उठा हो; (प० च० १५, ६, ४) ।

√जगाव—(सं० जागरयति) जगाना, "गोहारि घालि सूत जगाव;" घूत्कारं कृत्वा सुप्तं जागयति; (उ० व्य० प्र० ५०, २०) ।

जगि—पुं० (सं० जगत् > प्रा० जग) संसार, "जगि धम्ममूलु वेत्त जि क हिड;" तुल० राज० जगि, जगी; (महा० ६६, १६, ३) ।

जगीस—पुं० (सं० जगत् + ईर्ष्या > प्रा० जग + ईसा) जग से ईर्ष्या; (व० ४, ४, ३) ।

जगु—पुं० (सं० जगत् > प्रा० जग) संसार; तुल० राज० जगु, जगु; (हे० ३४३, १) । —त्तम वि० (सं० जगदु-त्तम) संसार में उत्तम; (जस० ४, २८, ३०) ।

√जग्ग—(सं० √जागृ) जागता । —इ व०; (जं० १०, २२, १) । जगंत-कृ० । (सं० जागृ + शतृ) जागते हुए; (जं० ३, १४, १३) । जगंती—व० कृ० (प्रा० पै० १, ७२) ।

जग्ग—पुं० (सं० यज्ञ > प्रा० जण्ण) याग, यज्ञ; (प० च० १६, ८, ६) ।

जग्गिअ—वि० (सं० जागृत > प्रा० जग्गिअ) जगा हुआ; (सुदं० १, १, ८) ।

जञ्चञ्चण—न० (दे०) १. अगरु, सुगंध-युक्त द्रव्य-विशेष; २. कुंकुम, केसर; (दे० ना० मा० ३, ५२) ।

जञ्चञ्च—वि० (सं० जात्यन्व) जन्मांध,

जन्म के अंधे; "जच्चंधहें अंधहें भुक्खि-
याहें;" जो जन्म से अथवा रोग से अंधे
हो गए थे, भूखे थे; (जस० २, २६,
१८) । जच्चन्ध—वि जन्मांध; (प० च०
२७, १२, ४) ।

जच्च—वि० (सं० जात्य > प्रा० जच्च)
उत्तम जातवाला, कुलीन, (प० च० १४,
१०, ४) । पुं० (दे०) पुरुष, आदमी;
(दे० ना० मा० ३, ४०) ।

जच्चास—पुं० (सं० जात्यश्च, जात्या-
श्च) उत्तम जाति का अश्व; (प० च०
५४, २६) ।

जच्चंद—वि० (दे०) स्वच्छंद; (दे०-
ना० मा० ३, ४३; षड्) ।

√जज्जर—(सं० जर्जर्य) जीर्ण करना,
खोखला करना । जज्जरिआउ भू० का०
(सं० जर्जरिता) जर्जरित हो गई; (हे०
३३३, १) । जज्जरिउ—भू० का; (प०
च० १५, ४, ५) ।

जज्जर—वि० (सं० जर्जर > प्रा०
जज्जर) जीर्ण; (जस० ३, २७, २०) ।
जज्जराइं—वि० जर्जर; (रि० ३,
६) ।

जज्जरिउ—वि० (सं० जर्जरित > प्रा०
जज्जरिय) जीर्ण किया हुआ; (जंबू० ४,
१६, २१) ।

जज्जरिय—वि० (सं० जर्जरित > प्रा०
जज्जरिय) जीर्ण किया हुआ, छिद्रित,
खोखला किया हुआ; (सं० रा०; जस०
१, १२, १) ।

जज्जल्ल—पुं० हम्मीर के मंत्री का
नाम; (प्रा० पं० १, १०६) ।

जज्जाहि—क्रि०, आ० (सं० या > प्रा०

जा) जाओ; "जज्जाहि वप्प देदेहि माहि,
ससुरहो रिउ मारिवि लच्छि सहि,"—
अतः हे भद्र तुम जाओ और शत्रु को
मारकर स्वसुर की भूमि व राज्य-लक्ष्मी
इन्हें दिला दो, (प० ६, १२, ११) ।

जजे—क्रि० वि० (सं० यः + इव) ज्यों,
समान, जैसे; "तरुण एरुक् असवार वांस
जजे चावुक फुट्टइ;" अर्थात् तरुण तुर्क
उन घोड़ों पर सवार थे और उनके
चावुक वांस के समान फूटते या आवाज
करते थे; (की० ४, ६३) ।

जजे—अव्य० (सं० यतः > प्रा० जजे)
क्योंकि, जिस कारण से, जब; (की० २,
१६०) ।

जजेन—सर्व० (सं० यः) जो एक संबंध
वाचक सर्वनाम जिसके द्वारा कही हुई
संज्ञा या सर्वनाम के वर्णन में कुछ और
वर्णन की योजना की जाती है; (की० २,
७६) ।

जट्ट—पुं० (सं० जर्त > प्रा० जट्ट)
देश-विशेष; (भ०) ।

जट्टि—स्त्री० (सं० यट्टि > प्रा० जट्टि)
आयुध-विशेष, लकड़ी; (प० च० ५६,
१५) ।

जड—स्त्री० (सं० जटा > प्रा० जडा,
जड) १. जटाएँ, उलझे और परस्पर
चिपके हुए बाल; २. जड़, मूल; पुं०
जडत्व; (जस० ३, २१, १६) । —धारि
पुं० (सं० जटाधारिन्) जटाधारी
संन्यासी; (हं० च० ३६, ७५) ।

जडमइ—वि० (सं० जडमति) जडमति,
विवेकहीन बुद्धिवाला; (जंबू० १, ६,
११) ।

जडयण—पुं० (सं० जडजन > प्रा०
जडयण) मुखे व्यक्ति; (व० २, १५,
१४) ।

जडा—स्त्री० (सं० जटा > प्रा० जडा)
उलभे और आपस में चिपके हुए बाल;
(जस० ४, १६, १३) ।

जडाइ—(सं० जटायु > प्रा० जडाउ)
गृध्र पक्षी-विशेष; (प० च० ४१,
७५) ।

जडाउ—पुं० (सं० जटायु > प्रा०
जडाउ) गृध्र पक्षी-विशेष; (प० च० ४४,
४०) । —ण पुं० गृध्र पक्षी-विशेष;
(प० च० ४४, ५५) ।

जडागि—पुं० (सं० जटाकिन्) गृध्र
पक्षी-विशेष; (प० च० ४१, ६५) ।

जडिअ—वि० (दे०) (सं० जटित > प्रा०
जाडअ) जड़ा हुआ । —इल्ल (स्वार्थे);
(जं० ५, ७, ७) ।

जडिउ—क्रि०, भू० का० (सं० जटित >
प्रा० जाडअ) जड़े गए, (ण० १, १३,
१०) ।

जडिय—वि० (सं० जटित > प्रा०
जाडअ) जडित, युक्त; (जस० १, २६,
११) ।

जडिल—वि० (सं० जटिल > प्रा०
जडिल) खचित, जड़ दी गई हो; (जं०
६, ६, १२) । “दीहरोमावलिजडिल-
गलु;” अर्थात् उनका गला लंबे वालों से
जटिल था; (जस० २, ३१, ३) ।

जडिल्ल—वि० (सं० जटिन्) जटाधारी;
(जं० ५, ७, ७) ।

जडीअ—वि० (सं० जटित > प्रा०
जाडअ) जड़ा हुआ; (क० ४, ६,

४) ।

जड्डः—स्त्री० (सं० जाड्य) जाड़ा;
(प्रा० पै० २, १६५) ।

जडर—तुं० राक्षस योद्धा; (प० च०
१२, ६२) ।

जडराणल—न० (सं० जठर + अनल)
जठरज्वाल, जठराग्नि; (जस० २, ३६,
८) ।

√जण—(सं० जनय् > प्रा० जण,
जणेइ) उत्पन्न करना, पैदा करना ।
—इ व० (सं० जनयति > प्रा० जणेइ)
(प० च० ७, १२, ३; भ०) । जणंत—
कृ० (सं० जनय् + शतृ) (जं० ४, २२,
१३) । —वि पू० का० क्रि०; (जं०
२, १७, १) । —हि (विधि०) (जं०
८, १०, १७) । √जणिज्ज—(सं०

जनय् (कर्मणि) —इ व०; (जं० ११,
५, ४) । जणेसइ—भू० का० (सं० जनि-
ष्यति) उत्पन्न करेगा; (ण० ७, ३,
६) ।

जण—पुं० (सं० जन > प्रा० जण)
मनुष्य, व्यक्ति; तुल० राज० जणू;
(भ०; सं० रा०; प्रा० पै० १, ४७) ।
पुं० न० (सं० यान > प्रा० जाण) वाहन;
(क० २, २, ४) ।

जणअ, जणय—पुं० (सं० जनक) सीता
के पिता, मिथिला के हरिवंशीय राजा;
(प० च०) ।

जणअ—वि० (सं० जनक > प्रा० जणय)
उत्पन्न करने वाला, “नीसल्लु अवर
हियवउ जणउ;” अर्थात् हृदय को और
निःशाल्य उत्पन्न करने वाले मेरे इस प्रति-

रूप को देखिए; (जं० २, १८, १४) ।

जणउत्त—पुं० (दे०) १. गाँव का मुखिया या प्रधान पुरुष; २. विट, भाण्ड; (दे० ना० मा० ३, ५२) ।

जणकम्पण—पुं० (सं० जन+कर्मन्) लोगों का वशीकरण या वश में करना; "जणकम्पण-यंमण-मो णयं;" अर्थात् लोगों का वशीकरण, स्तंभन व मोहन करने वाले; (जं० ६, १६, ८) ।

जणकिण्ण—वि० (सं० जन+आकीर्ण) जन-विस्तीर्ण; "भणइ जिणंढु भरहेँ जणकिण्णी चंरानयरि अत्थि वित्थिण्णी;" अर्थात् भारतदेश में जनसंकुल और विस्तीर्ण चंपा नामक नगरी थी; (जं० ३, १०, ११) ।

जणजाणिय—वि० (सं० जन+ज्ञात) लोक-प्रसिद्ध; (जं० ८, ४, ४) ।

जणण—वि० (सं० जनन > प्रा० जणण) जनक, उत्पादक; (जं० १०, २४, १०; प० च० ५, ६, २) । —उत्तलउ (जण; गुल्लउ) वि० पिता; (जस० ३, ३६, १४) ।

जणणायर—पुं० (सं० जननागर) नागरिक जन; (जं० १०, १६, १२) ।

जणणि—स्त्री० (सं० जननी > प्रा० जणणि, जणणी) माता; (प० च० ६, ६, ६; जं० ४, २२, २६) । जणणी; (जस० १, २३, ११) ।

जणणिका—स्त्री० (सं० जननि, नी > प्रा० जणणि) जननी; (उत्तरपुराण) ।

जणत्ति—स्त्री० (सं० जन+आर्ति) लोक-व्याधि; (ण० ६, ८, २) । —हर

वि० (सं० जनार्तिहर) लोगों की आपत्ति का हरण करने वाला, (जस० ३, ३५, १४) ।

जणदण—पुं० (सं० जनदान) सुपात्र दान; (जं० ३, २, ६) ।

जणदणा—पुं०, कर्त्ताकारक, ए० (सं० जनादेन > प्रा० जणदण) विष्णु; (प्रा० पै० २, ७५) ।

जणनंदणी—वि० (सं० जननन्दिनी) लोगों को आनंद देने वाले (जं० १०, १६, १३) ।

√जणम—(सं० √जम् > प्रा० जम्म; सं० जन्म) जन्म लेना । —उ भू० का०-कृ० रूप, जन्म लिया; (प्रा० पै० २, १४६) ।

जणमण—पुं० (सं० जनमनस्) लोगों का मन; (जं० ४, १५, ५) ।

जणमेजअ—पुं० जनमेजय, चंपापुरी का राजा; (प० च० ८, १५६) ।

जरुयंगया—स्त्री० (सं० जनकाङ्गया) जानकी, राजा रामचंद्र की पत्नी; (प० च० ४१, ७८) ।

जरुय—पुं० (सं० जनक) राजा जनक, सिता के पिता, (प० च० २१, ३३) ।

—दुहिया, घूआ स्त्री० (सं० जनक+दुहितृ) जानकी, सीता; (प० च० २३, ११) । —णदिणी—स्त्री० (सं० जनक+नन्दिनी) जानकी; (प० च० ६४, ४६) ।

—निवतणया स्त्री० (सं० जनक+नृपतनया) सीता; (प० च० ४८, ६०) । —सुल (सं० जनक+सुत)

जनक राजा का पुत्र, भामण्डल, (प० च० ६५, २८) ।

जणयागुराड—पुं० (सं० जनकापुराग)
प्रजा-जनों के प्रति अनुराग; (व० १,
१५, १२) ।

जणवइ—पुं० (सं० जनपद > प्रा० जण-
वय) जनपद; “आणाविउ जणवइ ताउ
देव,” तब, हे देव, मुझे जनपद में लाया
गया; (क० ६, १६, ८) ।

जणवउ—पुं० (सं० जनपद) साधारण
लोग, “जइ जणवउ णीरसु मलिण-
चित्तु;” अर्थात् जनपद (साधारण लोग
नीरस और मलिन) चित्त हैं; (क० १,
२, ४) ।

जणवय—पुं० १. (जानपद > प्रा० जण-
वय) पौरजन, देश का निवासी; (जंबू०
२, ६, १३) । २. (सं० जनवय)
मनुष्य-समूह; ३. पुं० (सं० जनपद) वसा
हुआ स्थान, जन-स्थान, राट्ट; (ण० १,
११, ३) ।

जणवर—पुं० (सं० जन्तुवर) जानवर;
(क० ८, ७, ६) ।

जणवत्तह—पुं० दाशरथी भरत के साथ
दीक्षित राजा, जो राज्य का परित्याग
कर श्रमण हुआ; (प० च० ८ण,
४) ।

जणविद—पुं० (सं० जनवृन्द) जन-
समूह; (जंबू० ४, २२, २४) ।

जणाणंद—पुं० (सं० जन+आनन्द)
लोगों का आनंद; (जंबू० ४, ८,
११) ।

जणाविअ—वि० (सं० ज्ञापित) जताया
हुआ, सूचित; (क० २, ६, ६) ।

जणि—अव्य० प्रतिषेध बोधक या वर्ज-
नात्मक अव्यय, नहीं, मत; (उ० व्य०

प्र० १०-८) ।

जणय—वि० (सं० जनित > प्रा०
जणिअ) उत्पादित, उत्पन्न किया हुआ;
(प० च० ३, १, १३; ण० १, १५,
१०) ।

जणिहार—कृ० सं० गमिष्यन् गमिष्य-
न्ती गमिष्यद् वा; जाते हुए; “जणिहार
दीस;” (उ० व्य० प्र० १२-११) ।

जणी—स्त्री० (सं० जनी) स्त्री, नारी;
(प० च० १५, ७३) ।

जणु—अव्य० (प्रा० जणु) इव, तरह,
माफिक, जैसा; (प० च० ६, १६, ६) ।
मानो; (रा०, सं० रा०) । पुं० (सं०
जन > प्रा० जण) मनुष्य; (हि० ३३६,
१) ।

जणे—अव्य० नहीं, मत; (उ० व्य० प्र०
१०-६) ।

जणेर—वि० (सं० जनयितृ) जनक,
उत्पादक (प० च० २२, ६, ८; संधि०
५, ११, ७) । पुं० पिता; (भ०) ।

जणेरि—स्त्री० (सं० जनयित्री) माता,
माँ, (भ०) । जणोरी—स्त्री० जननी,
(ण० ५, ८, १५) । जणोरीणंदणु—पुं०
(सं० जनयित्री + नन्दन) जननी का पुत्र;
(रि० ३, ११) ।

जणोव—पुं० (सं० यज्ञोपवीत > प्रा०
जणोवईय) जनेऊ; (की० २, २०४) ।

जणोह—पुं० (सं० जन+ओध) जन-
समूह; (विला०) ।

जणण—पुं० (सं० यक्ष > प्रा० जणण)
यज्ञ, (ण० ६, ६, ७; सि० १, १५) ।

—विहाण पुं० (सं० यज्ञविधान) यज्ञ
अनुष्ठान; (व० २, २२, ८) जणोइय-

पुं० यज्ञादिक; (व० २, १६, ७) ।
 जणहर—पुं० (दे०) नर-राक्षस, दुष्ट
 मनुष्य; (पङ्) ।
 जणोहण—पुं० (दे०) राक्षस, पिशाच;
 (दे० ना० मा० ३, ४३) ।
 जणह—न० (दे०) छोटी स्थाली (मिट्टी
 का घड़ा या हांडी, रांघने का बर्तन,
 कड़ाही; २. वि० काले रंग का; (दे०-
 ना० मा० ३, ५१) ।
 जणहली—स्त्री० (दे०) नीवी, नारा,
 इजारवंद; (दे० ना० मा० ३, ४०) ।
 जणहविपुत्र—पुं० (सं० जाह्नवीपुत्र)
 व्यक्ति-विशेष-नाम; (प० च० ५,
 २०१) ।
 जणहवी—स्त्री० (सं० जाह्नवी)
 १. सगर चक्रवर्ती की एक पत्नी, भगी-
 रथ की जननी; (प० च० ४१, ५१) ।
 २. गंगा, नदी-विशेष; (प० च० १०२,
 १०७) ।
 जणह्य—पुं० [सं० जानु+क (न०)] >
 प्रा० जणहआ (स्त्री०)] जानु, घुटना;
 (ण० १, १७, ७) । जणहव—पुं० जानु;
 (प० च० ३८, ११, ७) ।
 जत—अव्य० (सं० यावत्) जितना;
 (प्रा० पौ० १, ४१) ।
 जती—पुं० (सं० यति) संन्यासी; (की०
 २, ११०) ।
 जत्त^१—पुं० (सं० यत् > प्रा० जत्त)
 उद्योग, उद्यम, चेष्टा; (प० च० ६, १०,
 ८) ।
 जत्त^२—स्त्री० (सं० यात्रा > प्रा० जत्ता)
 देशांतर-गमन, देशाटन; (प० च० १६,
 १०, ७) । जत्ता; (भं०) । —कज्ज

पुं० (सं० यात्रा+कार्य) यात्रा का
 कार्य; (जंबू० ३, १२, ११) ।
 जत्ता—स्त्री० (सं० यात्रा > प्रा० जत्ता)
 यात्रा; (जस०) । —ए (ण० २, २,
 १५) ।
 जत्तु, जेत्य—अव्य० (सं० यत्र > प्रा०
 जत्थ) जहाँ; (हे० ४०४, १) ।
 जत्तुच्छ्व—पुं० (सं० यात्रा+उत्सव >
 प्रा० जत्ता+उत्सव) यात्रा का उत्सव;
 (जंबू० ३, १३, २) ।
 जत्ते—वि० (सं० यावत्) जितने; (प्रा०
 पौ० १, १२४) ।
 जत्य—अव्य० (सं० यत्र > प्रा० जत्थ)
 जहाँ; (प्रा० पौ० १, ४१; जंबू० १, ६,
 १) ।
 जदो—अव्य० (सं० यतः > प्रा० जत्तो,
 जओ) क्योंकि, कारण कि; (की० १,
 ५६) ।
 जन—पुं० (सं० जन > प्रा० जण) लोग;
 “देसिल वयणा सब जन मिट्ठा;” (की०
 १, ३५) ।
 जनघण—पुं० (सं० जनघन) सार्वज-
 निक घन; (जंबू० ५, ४, ७) ।
 जननि—स्त्री० (सं० जननि > प्रा०
 जणणि) माता; (की० २, ५६) ।
 जनि—अव्य० इव, मानो, जैसे; “जनि
 दोसरी अमरावती का अवतार भा;”
 (की० २, ६६) ।
 जनु—अव्य० मानो; (की० २,
 १४५) ।
 जन्त—न० (सं० यन्त्र > प्रा० जंत) कल,
 युक्तिपूर्वक शिल्प आदि कर्म करने के

लिए पदार्थ-विशेष; (प० च० १५, १०, ६) ।

जतिभ—वि० (सं० यान्त्रिक > प्रा० जतिभ) कल चलाने वाला, यन्त्र पर कर्म करने वाला, (प० च० १४, ६, ५) ।

जन्तह—पुं० (सं० जन्त्या-यात्रा) जनेत, वारात; "सौम सरूव द्रुव परिणाविय जायवि तहि जन्तह आविय;" तुल० गु० जान; (प्रा० गु० ८, १२) ।

जन्तवद्ध—पुं० धनदत्त का मित्र, विप्र-विशेष-नाम, (प० च० १०३, ८) ।

जन्थ—पुं० (सं० यज्ञ > प्रा० जण्ण) यज्ञ; (प्रा० गु० १०, ६) ।

जन्हि—सर्व० येषां > प्रा० येषानं) जिनके; "जन्हि के निर्माणे वि-वकर्महु भेल बड प्रथास;" अर्थात् जिनके निर्माण में विश्वकर्मा को भी बड़ा परिश्रम करना पड़ा होगा; (की० २, १२८) ।

जन्हिसाहि—पुं० जोनाशाह; (की० ३, १८) ।

जपिर—वि० (सं० जपितृ) जाप करने वाला; (पङ्) ।

√जप्प—(सं० √जल्प् > प्रा० जंप) बोलना, कहना । —इ सक० (की० १, ३६) ।

जप्प—वि० (सं० याप्य) गमन कराने योग्य । —जाण न० (सं० याप्य + यान) वाहन-विशेष; (दे० ना० मा० ६, १२२) ।

जववंत, जंबव, जंबुवंत—पुं० वानर सुग्रीव का मंत्री; (प० च०) ।

जवूणयपुत्त—पुं० जंबवंत का पुत्र; (प०

च० ५६, ३३) ।

जद्व—अव्य० (सं० यावत् > प्रा० याव, जाव) जभी, जव ही; (सरह, दोहा-कोश) ।

जम—पुं० (सं० यम > प्रा० जम) १. अहिंसादि पाँच महाव्रत, साधु का व्रत, २. देव-विशेष, ३. मृत्यु-मीत ४. आत्म-नियंत्रण, संयमन, नियंत्रण (सं० रा०; ण० १, ११, ८) । टि०—यमों की संख्या भिन्न-भिन्न लेखकों ने अलग-अलग दी है, यथा—ब्रह्मचर्य, दया क्षान्ति-दानं सत्यमकल्कता, अहिंसास्तेयमाधुर्वे दमश्चेति यमाः स्मृताः—याज्ञ० ३, ३१३) । यम पाँच भी बताए गए हैं—

अहिंसा, सत्यवचनं. ब्रह्मचर्यमकल्कता, अस्तेयमिति । (जस० १, १२, १८) ।

५. मृत्युदेव; (जस० १, ५, २) ।

३. विद्याधर राजकुमार, (प० च० १, ५३) । ४. किष्किन्धा नगरी का एक

राजा; (प० च० ७, ४६) । —करण पुं० (सं० यमकरण) मरण या रोग;

(महा०) । —ालय न० (सं० यमालय) यमराज का घर, मृत्यु-स्थान; (प० च०

४५, १०) । —उरी स्त्री० यमपुरी; (जंबू० १०, १४, ८) । —णिह वि०

(सं० यम + निभ) यम सदृश टि०—'जम-करण' में अर्थात्तरण द्रष्टव्य है । मूल

शब्द 'यमकरण' का अर्थ 'मृत्यु के देवता की क्रिया है ।

जमथ—पुं० (सं० यमक > प्रा० जमग, जमय) यमक नामक छंद, छंद-विशेष;

(प्रा० पौ० २, ३६) ।

जमकरण—पुं० (सं० यम + करण >

प्रा० जम+करण) १. यम का विधान अथवा क्रिया; (प० च० ८, ४, १) ।
 २. मरण; (प० च० ३६, ३, ५) ।
 जमक—पुं० (सं० यमक > प्रा० जमक) यमक, तुक; वृत्त; (प्रा० पै० १, १२७) ।
 जमण—पुं० (सं० यवन > प्रा० जवण) यूनान देश का निवासी, मुसलमान; (की० २, १८०) ।
 जमदंड—पुं० रावण का मंत्री; (प० च० ६६, ३२) ।
 जमदग्नि—पुं० जमदग्नि; परशुराम के पिता; (प० च० २०, १४०) ।
 जमद्वय—पुं० (सं० यमद्वय) यमराज का दूत; (जंबू० ११, २, १) ।
 जमपुर—पुं० (सं० यमपुर) जम का नगर, मौत का स्थान; (जस० २, ३१, ६) ।
 जममहिष—पुं० (सं० यममहिष) यमराज का भैंसा; (जंबू० ५, ५, १) ।
 जमराय—पुं० (सं० यमराज) यमों का स्वामी; (व० ४, ७, ८) । —यूड पुं० (सं० यमराज-दूत) यमराज का दूत; (व० ३, १०, ३) ।
 जमल—न० (सं० युगल > प्रा० जमल) युगल, जोड़ा; (जंबू० १०, १६, २; प्रा० पै० १, १८०) ।
 जमलगिरि—पुं० पर्वत-विशेष; (प० च० ३, २८) ।
 जमलज्जुण—पुं० (सं० यमलार्जुन) अर्जुन के दो पेड़, नलकूवर; (प्रा० पै० १, २०७) । —रक्त पुं० न० (सं० यमलार्जुन वृक्ष) वृक्ष-विशेष; (रि० ६,

१३) ।

जमसासन—पुं० (सं० यमशासन) यमराज का शासन; (जस० ३, ३६, ३) ।

जमहर—पुं० (सं० यमग्रह > प्रा० जम+घर, हर) यमग्रह; (प० च० १५, ८, ६) ।

जमाइठ—वि० (सं० यम+आदिष्ट) यम के द्वारा आदिष्ट, “जमाइठदूयाणुरूवा पर्यंडा;” अर्थात् यम से आदिष्ट दूतों के समान प्रचंड; (जंबू० १०, ६, २) ।

जम्पणय—न० (सं० जल्पन > प्रा० जंपण) जनप्रवाद, गपशप (public gossip); (प० च० ४६, ३, १०) ।

जम्मंतर—पुं० (सं० जन्मान्तर) अन्य जन्म, दूसरा जन्म; (जंबू० २, ८, २) ।
 जम्मंतर-जन्मान्तर; (सि० २, २७) ।

जम्मंबुहि—स्त्री० (सं० जम्माबुधि) जन्म-मरण रूपी समुद्र; (व० १, १४, ६) ।

जम्म—पुं० न० (सं० जम्मन् > प्रा० जन्मण) जन्म, उत्पत्ति; (प्रा० पै० २, १०, १; व० १, १६८) । —ण पुं० न० (सं० जम्मन्) जन्म; (व० २, १२, २) ।

जम्मु—१. पुं० न० जन्म; (व० १, ३, ७) । २. वि० जन्म देने वाला; “जलयर-जीव-जम्मु;” —जलचर जीवों को जन्म देने वाला; (रि० ८, ५) ।

—उच्छ्रव (जम्मुच्छ्रव) पुं० (सं० जन्मोत्सव) किसी के जन्म के स्मरण का उत्सव; (व० ६, १२, २) ।

√जम्म—१. (सं० जम् > प्रा० जम्म)

उत्पन्न होना । —इ सक०, व०; (जंत्रू० ११, ३, ७) । जन्मिअ—भू० का०, उत्पन्न हुआ; “जज्जाम्मिअ उत्पन्न मति कामेसर सण राए;” यद्वात् जिसमें कामेस्वर नामक व्युत्पन्नमति राजा ने जन्म लिया; (की० १, ६६) । जन्मिअइ—जन्म लिया गया है; (की० १, ३६) । २. (सं०√जम्) खाना, भक्षण करना । —इ सक०; (पड़) ।

जन्मडा—पुं० न० (सं० जन्मन् > प्रा० जम्म) जन्म; (परमा०) ।

जन्मण—न० (सं० जन्मन् > प्रा० जम्मण) जन्म, उत्पत्ति; (संवि० १४, ४, १६; जंत्रू० ११, ६, १) ।

जन्मदिवस—पुं० न० (सं० जन्म-दिवस) जन्मदिन; (जंत्रू० ३, ४, ३) ।

जन्मावयार—पुं० (सं० जन्मावतार) व्रत-विशेष “तह पंचमि दिणि जन्मावयार;” यद्वात् तत्पश्चात् पंचमी के दिन सारभूत जन्मावतार व्रत किया; (क० १०, २६, ११) ।

जन्मावहि—स्त्री० (सं० जन्मावधि) वाजन्म; (जंत्रू०) ।

जन्माहिसेठ—पुं० (सं० जन्माभिषेक) जन्म के समय ऊपर से जल छौड़कर स्नान; (जंत्रू० १, १, २) ।

जन्मि—अव्य० (सं० यस्मिन्) जहाँ; (क० ५, ११, ६) ।

जयंत—पुं० विद्यावरुंद्र का पुत्र, (प०-च० १२, १००) ।

जयंती—स्त्री० जयन्ती नामक पुरी, नगर-विशेष; (क० ६, १०, ३) ।

२. स्त्री-विशेष- नाम; (प० च० ८६, ३४) ।

जय—पुं० (सं० प्रा० जय) १. सीतास्वयंवर में सपस्थित राजा; (प० च० २८, १०१) । २. वानरयोद्धा; (प० च० ५७, १४) । ३. मेघेस्वर, नाम-विशेष; “नाहेय वाहुवलि-भरह-जया अरहंत-सिद्धि-चक्र-वइ सया;” यद्वात् वहाँ नाभेय जित, वाहुवलि तथा भरत और मेघेस्वर के अरहंत सिद्ध एवं चक्रवर्ती सदैव विद्यमान रहते हैं; (जंत्रू० ३, १, ११) ।

४. पर्वत-विशेष (प० च० ३३, ३, १) ।

५. वृष-विशेष, (प० च० ३०, २, ६) ।

६. जीत; (व० १, १, ३) । ७. जयकार का शब्द; (जस० १, २, १) । न० (सं० जगत् > प्रा० जग, जय) संसार; (भ०) ।

—लच्छि स्त्री० जयलक्ष्मी, स्त्री-विशेष-नाम; (प० ८, १२, ७) । —णंद वि० (सं० जगतानन्द) जगत् को आनंद देने वाला; (प० च० ११७, ६) ।

√जय—(सं० यज् > प्रा० जय=पूजा करना, याग करना) जाप करना; “पुण ऋइय सोलह-अक्षरिय । जय (?) कोडि सहास दुहुत्तरिय” —फिर उन्हीं सोलह अक्षरों वाली विद्या का ध्यान किया, उसका दस हजार करोड़ दस बार जाप किया; (प० च० ६, ७, ८) ।

√जय—(सं० जि > प्रा० जय) जीतना । —इ सक०, व० (सं० जयति > प्रा० जयइ) जीतना; (प० च० १, ६, २) । —उ (विधि०) (जंत्रू० १, १, ३) ।

जयएव—पुं० जयदेव, पुरुष-विशेष-नाम;

(क० १, २, ६) ।

जयकंखिर—वि० (सं० जय + कांक्ष् + इर) विजय की आकांक्षा करने वाला; (जंजू० १, १०, ८) ।

जयकंत—पुं० राजकुमार, रावण का आगामी जन्म-नाम; (प० च० ११८, ६६) ।

√जयकार—(सं० जय + कारय्) जय-कार करना । जयकारिड—व० (सं० जय करोति) जयकारे करना; (भ०) ।

जयकारिड—भू० का० जयकार किया; (प० च० १६, ६, ६) ।—रिवि पू०-का० क्रि०, जय-जयकार करके; (जंजू० ५, २, ७) । जयकारेवि-पू० का० क्रि०

जय बोलकर; (प० च० १७, ६, १) ।

जयकारेप्पिगु-पू० का० क्रि०,—जयकार करके (प० च० २, १३, ८) ।

जयकारिअ—वि० (सं० जयकारित) जयकार किया हुआ; (जस० १, ६, १४) ।

जयकारिओ—वि० (सं० जयकारित) जयजयकार करने वाले; (जंजू० ३, ४, ८) ।

जयकाह—पुं० जयकार; (प० च० १२, ६, १) ।

जयघंट—पुं० स्त्री० (सं० जय + घण्ट > जय + विजयघण्टा); विजय का सूचक वाद्य-विशेष; (जंजू० ५, ६, ६) ।

जयचंदा—स्त्री० विद्याधर राजकुमारी; (प० च० ८, १८७) ।

जयग—न० (दे०) घोड़े का वहतर; (दे० ना० मा० ३, ४०) ।

जययोत्त—न० (सं० जय + स्तोत्र > प्रा०

जय + थोत्) विजय-स्तव या स्तुति; (जंजू० १०, १, १३) ।

जयनंदण—पुं० जयनन्दन नाम-विशेष; (भ०) ।

जयप्पह—पुं० राजकुमार-विशेष का नाम; (प० च० ११८, ६६) ।

जयभद्—स्त्री० जयभद्रा, श्रेष्ठ पत्नी, (जंजू० ३, १०, १३) ।

जयमंत—पुं० सप्तर्षि मुनि; (प० च० ८६, २) ।

जयमंदिह—न० (सं० जगत् + मन्दिर > प्रा० जयमंदिर) जगमंदिर, लोक रूपी मंदिर; (जंजू० १, १७, ६) ।

जयमित्त—पुं० १. सप्त ऋषि मुनि (प० च० ८६, २) । २. वानरयोद्धा; (प० च० ५७, ३) ।

जयलच्छि—स्त्री० (सं० जयलक्ष्मी) स्त्री-विशेष-नाम; (जस० २, १६, २) ।

जयवत्त—पुं० (सं० जयवार्ता > प्रा० जयवत्ता, वत्त) विजय-वृत्तान्त; (म० १, १, ५) ।

जयवल्लह—वि० (सं० जगत् + वल्लभ > प्रा० जग, जय + वल्लह) सर्वलोक-प्रिय या स्नेह-पात्र; (जंजू० ४, ७, ११) ।

जयविजह—वि० (सं० जगत् + विजयिन् > प्रा० जग, जय + जयिण, जइण) जग-द्विजयी, (ण० ६, १७, १) ।

जय-वेरि—वि० (सं० जित वैरि) शत्रुओं को जीतने वाला; (व० १, १५, १३) ।

जयसिरि—स्त्री० (सं० जयश्री) विजय-
लक्ष्मी; विजय की अविष्ठातृ देवी; (जस०
१, ७, १३; जंबू० १०, १, १४) ।
२. विजयश्री; (व० १, ६, १) । —ह
स्त्री० (सं० जयश्री + ईश) विजयलक्ष्मी;
(ण० ४, १, ११) ।

जयसेन—पुं० १. वानरयोद्धा; (प० च०
६७, १२) । २. ग्यारहवें चक्रवर्ती राजा;
(प० च० ५, १५३) ।

जया—स्त्री० १. स्त्री-विशेष-नाम; (प०-
च० ५, ११७) । २. विद्या-विशेष; (प०-
च० ७, १४१) ।

जयाणंद—पुं० वानर सुग्रीव का पुत्र;
(प० च० १०, १०) ।

जयादेवी—स्त्री० वीर कवि की चौथी
पत्नी; (जंबू०) ।

जयावह—स्त्री० (सं० जयावती) जया-
वती नामक रानी; (व० ३, २२,
६) ।

जयावई—स्त्री० (सं० जयावती) एक
भृत्य की माता; (प० च० ५, १०६) ।

जयास—स्त्री० (सं० जय+भाशा)
विजय की भाशा; (जंबू० ४, १४,
२२) ।

जयासय—पुं० (सं० जय+भाशय)
विजयाभिप्राय, विजय प्राप्ति का आशय;
(जंबू० ६, १३, ६) ।

जरंड—वि० (दे०) वृद्ध, वृद्धा; (दे० ना०-
मा० ३, ४०) ।

जर—पुं० (सं० ज्वर > प्रा० जर) रोग-
विशेष, बुखार; (प० च० ११, २, ३;
क० ३, ४, ११; ण० ३, १६, ५) । पुं०
(सं० प्रा० जरा) बुढ़ापा, वृद्धत्व; (व०

१, १०, १; जस० १, ६, ६) । वि०
(सं० जरत् > प्रा० जर) १. जीर्ण,
पुराना; (भ०; दे० ना० मा० ३, ५६) ।

२. वृद्ध; (जंबू० ६, ७, ६) । पुं० रावण
का एक सुभट; (प० च० ५६, ३, ६) ।

—गु पुं० (दे०) १. बूढ़ा बेल,
२. स्त्री० बूढ़ी गाय. (प० च० ३३,
१६) । —गुण वि० बुढ़ापे के कारण
दुर्बल; (जंबू० १०, १४, ३) ।

जरठ—वि० (दे०) वृद्ध; (दे० ना०-
मा० ३, ४०) ।

जरठ—वि० (सं० प्रा० जरठ) जीर्ण,
वृद्ध, "जरठ-मियडकु व थिउ विहाणउ,"
(प० च० २४, ७, २) । टि०—छिपते हुए
चंद्रमा को वृद्ध (aged) कहा गया है ।

जःशु—पुं० (सं० जरण) नाश; (रि०
७, १) ।

जरदासी—स्त्री० जरा रूपी दासी;
(जस० १, २७, २७) ।

जरलद्धिअ, जरलबिअ—वि० (दे०)
ग्रामीण, ग्राम्य; (दे० ना० मा० ३,
४४) ।

जरहरि—स्त्री० (सं० जलहर=मेघ की
तरह एक दूसरे पर पानी उछाल कर
क्रीड़ा करना) जल-क्रीड़ा; (की० ४,
२११) ।

जरा—स्त्री० (सं० प्रा० जरा) बुढ़ापा,
वृद्धत्व; (भ०) ।

जराउज—पुं० (सं० जरायुज) गर्भ-
स्थान; (व० १०, १२, ७) ।

जरासंधु—पुं० नवम प्रतिवासुदेव; (प०
च० २०, २०४) ।

जरासिंधु—पुं० (सं० जरासन्ध > प्रा०

जरासंध) महाभारत के अनुसार मगध देश का एक राजा । वह बृहद्रथ का पुत्र और कंस का श्वसुर था, “जिणि रणि जरासिंधु विहारिउ अहि दाणवु बलवंतउ मारिउ । कंस केसि चारूव वहि —” (प्रा० गु० ५, ३६) ।

जंरि—वि० (सं० जरिन्) बूढ़ा, वयोवृद्ध; (दे० ना० मा० ३, ५७) ।

जरुल्ल—पुं० (सं० ज्वर+उल्ल (स्वार्थे) ज्वर; “णारिहे” पेम्मजरुल्लउ लाइउ” नारियों को प्रेम का ज्वर चढ़ आया; (ण० ५, ८, ६) ।

जलंजली—स्त्री० (सं० जल+अञ्जलि) १. पानी भरी अँजुली, २. तिलाञ्जलि; मुहा०—जलाञ्जलि देना=त्याग देना, कोई संबंध न रखना । “विहवेण रायनियडत्त-रणेण कलहेण जत्थ कव्वगुणो । कव्वस्स तत्थ कइणा वीरेण जलंजली दिण्णा;” अर्थात् जहाँ ऐश्वर्य से राजा के (निरंतर) नैकट्य से अथवा कलह से काव्यगुण उत्पन्न होता है, वहाँ उस काव्य के लिए वीर कवि ने जलाञ्जलि दे दी है; (जंबू० १०, १, २; की० ३, २४) ।

जलंत—वि० (सं० ज्वलन्त) जलता हुआ, प्रकाशमान्, देदीप्यमान्; “देवदिन्नु जसु चक्कु जलंतउ;” अर्थात् तब देवों ने उसे ज्वलंत चक्र प्रदान किए; (व० ३, २०, ७) ।

जलंतिय—वि० प्रज्ज्वलित (सं० रा० २, १०७) ।

जलन्ती—स्त्री० (सं० ज्वलन्ती) जलन्ती नामक अटवी; अटवीनाम (ण० ७, १, १०) ।

जल—न० (सं० प्रा० जल) १. पानी, उदक; २. विदु; (जंबू० ४, १८, ७) । ३. पुं० कायिक जीव, “मरु-महि-जल तेयहें;” अर्थात् वायु कायिक, पृथ्वी कायिक, जलकायिक और तेजोकायिक जीव; (व० १०, ४, ३) ।

√जल—(सं० √ज्वल् > प्रा० जल) १. जलना, दग्ध होना, २. चमकना; (सं० रा०) । —इ व० (सं० ज्वलित > प्रा० जलइ); (प्रा० पै० १, १६०; भ०; हे० ३६५) । जलंत—कृ० (सं० √ज्वल् + शतृ) (प्रा० पै० २, १७७; जंबू० ४, ६, २) ।

जलअ समुद्द—पुं० द्वीप-विशेष, (प० च० ६, ३१) ।

जलकंत—पुं० (सं० जलकान्त > प्रा० जलकंत) १. वरुण, इंद्र का पश्चिम दिशा का विद्याधर लोकपाल; (प० च० ७, ४४) । २. स्वर्ग-विमान; (जंबू० ८, २, २५) ।

जलकांत—पुं० (सं० जलकान्त > प्रा० जलकंत) एक स्वर्ग विमान; (जंबू० ६, २, १३) ।

जलकील—स्त्री० (सं० जलक्रीडा > प्रा० जलकीला) जल-केल, पानी में की जाने वाली क्रीड़ा; (जंबू० ४, १६, ३; व० २, २०, १३) ।

जलजंत—पुं० (सं० जलयन्त्र) नौका; (भ०) ।

√जलजल—(सं० ज्वल् > प्रा० जल) तेजी से जलना (burn furiously) । जलजन्ति—अक० (सुदं० ११, १५,

१३) । —जलन्ति (जलजलजलन्ति)

अक० (प० च० २७, ५, ७) ।

जलजलजलजलजल—स्त्री० (ध्व०)

जलती हुई वस्तु से निकली हुई ध्वनि;
(प० च० २८, २, ५) ।

जलण—पुं० (सं० ज्वलन > प्रा० जलण)

अग्नि; म० जळणें; (ण० १, ११, ५;
जस० १, ६, ४) । २. जलना; (सि० १,
२४) । ३. ज्वलन नामक नागदेव, “करइ

जत्त नायहोँ जग्गु जलणहोँ;” अर्थात्
ज्वलन नामक नागदेव की यात्रा के लिए
लोग चले; (जं० ३, १२, १६) ।

जलणजडि—पुं० (सं० ज्वलन + जटिन
> प्रा० जलगजडि) ज्वलनजटी, विधा-
घर वंशीय राजा; (प० च० ५, ४६) ।

जलणजडी; (व० ३, २६, १४) ।

जहणरोह—पुं० (दे०) उरु, जंघा, जाँघ;
(दे० ना० मा० ३, ४४) ।

जसणसिह—पुं० १. पुरोहित (प० च०
५, ३१) । २. विद्याघर राजा; (प० च०
१०, २) ।

जलणिहि—पुं० (सं० जलनिधि) समुद्र;
(जस० ४, १६, ८) । जलनिहि; (जं०
६, ५, ८) । जलनिही; (सणतु० ४४६) ।

लो०—“जलणिहि-सलिलु ण परताविज्जइ
तिणहइ;” अर्थात् समुद्र का क्या फूस की
अग्नि से उष्ण किया जा सकता है?
(व० ४, १४, १२) ।

जसणुव—वि० (सं० ज्वलन + वत्)
अग्निशिखावत् अग्नि शिखा के समान;
(व० २, १६, ६) ।

जलयभिणी—स्त्री० (सं० जलस्तम्भिनी)
विद्या-विशेष; (प० च० ७, १३, ६) ।

जलदेवय—पुं० जलदेवता; (भ०) ।

जलदो—पुं० (सं० जलद) मेघ; (की०
१, ४७) ।

जलद्—वि० (सं० जल + आद्र) जल से
भीगा हुआ; (ण० ३, ६, ११; प० च०
१५, ११, ७) ।

जलन—पुं० (सं० ज्वलन > प्रा० जलण)
अग्नि; ‘अरितेयजलणजालासंजलिया
घरणि काणणे सयले;” अर्थात् अरि के
तेज रूपी ज्वलन की ज्वाला समस्त
घरणी रूपी कानन में संज्वलित थी;
(क० २ १४, ७) ।

जल-निज्जर—वि० (सं० जल-निज्जर)
जललावी, “वियलिय मयजल-निज्जर-
वारण, पडिवारण-मण-द्रप्प-णिवारण;”
अर्थात् प्रतिपक्षी-हाथियों के मन के दर्प
का निवारण करने में समर्थ मद-जल-
लावी हाथी पीलवानों के वशीभूत होकर
ही निकले; (व० ४, २०, ८) ।

जलपाणु—पुं० (सं० जलापात्र) जल
पीने का बर्तन; “भरइ जलपाणु पहि-
याण;” अर्थात् पथिकों के जलपात्रों को
भरती थी; (जं० ५, ६, १०) ।

जलबुब्बुय—पुं० (सं० जल + बुद्बुद्)
पानी का बुलबुला; (जं० २, १८,
११) ।

जलमड—वि० १. जलमय, २. जडमति;
(सुदं० २, ४, १) ।

जलय—न० (सं० जलज) कमल; (प०-
च० १२, ३७) । पुं० (सं० जलद)
मेघ; (रा०) । —माल स्त्री० (सं०
जलद + माला) मेघमाला; (सणतु०
४५५) । जलयंतरगय—(सं० जलादा-

न्तर्गत) मेघों के मध्य में; (च० १, ४, ३) ।

जलयर—पुं० (सं० जलचर) पानी में रहने वाला जंतु; (रि० ८, ५; जंबू० ११, ४, ५) । —वल पुं० (सं० जलचर + वल) जलचर समूह; (जंबू० ७, ५, ११) ।

जलयवाहण—पुं० वानरयोद्धा; (प०-च० ५७, १६) ।

जलरिट्ठ—पुं० जलकाक, जलकौआ नामक पक्षी; (महा० १२-७) ।

जललोल—पुं० (सं० जल + लोल) जल में ऊँची उठती हुई लहर; (जंबू० ६, २, ४) ।

जलवद्—पुं० (सं० जलपति) मकर; (जस० ३, ३, १) । टिः—मूल संस्कृत शब्द 'जलपति' का अर्थ, १. समुद्र, २. वरुण का विशेषण है, परंतु अर्थ-संकोच की प्रक्रिया में इसका अर्थ 'मकर' हो गया ।

जलवम्म—पुं० (सं० जलवर्त्म) नौका; (भ०) ।

जलवास—पुं० पुष्पांजलि, "पुष्पद्वै अक्खयाउ वलि दीवा, धूव-वास जल-वास पडीवा;" (प० च० २, १७, ३) । टि०—संसर्ग के कारण अर्थांतरण द्रष्टव्य है । 'जलवास' का अर्थ 'जल में वसना' है; परंतु यहाँ साहचर्य के कारण अर्थ में परिवर्तन हुआ ।

जलवाह—पुं० (सं० प्रा० जलवाह) जंतु-विशेष; (प० च० ८८, ६) ।

जलवाहिणी—स्त्री० (सं० जल + वाहिनी) जलवाहिनी, नदी, नहर; "सीया जलवा-

हिणी-उत्तरयले;" अर्थात् जलवाहिनी सीतानदी के उत्तर तट पर; (व० २, १०, ३) । २. पनिहारिन, जल ढोने वाली; (जंबू० १, ६, २०) ।

जलवीड—पुं० पर्वत-विशेष; (प० च० १६, १४) ।

जलहत्थि—पुं० (सं० जलहस्तिन्) जलहस्ती; पानी का एक जंतु; (प० च० ३४, ३३) ।

जलहर—पुं० (सं० जलधर) १. बादल; (प्रा० पं० १, १८८) । २. एक विद्याधर सुभट; (प० च० १२, ६५; सि० १, २४) ।

जलहरण—न० (सं० प्रा० जलहरण) मान्त्रिक छंद का नाम; (प्रा० पं० १, २०२) ।

जलहि—पुं० (सं० जलधि) समुद्र; (जंबू० ६, १४, २; क० १, २, ५) ।

जलिअ—वि० (सं० ज्वलित > प्रा० जलिअ) जला हुआ, प्रदीप्त; (क० ३, ८, ८) । जलिय—वि० जला हुआ; तुल० गु० जलबु (जंबू० ५, ८, २, ३; महा० ६८, ४) ।

जलियदल—पुं० विद्याधर योद्धा; (प०-च० ५६, ३७) ।

जलूग—पुं० (सं० जलौकस्) जंतु-विशेष, जोंक, जल का कीड़ा; (प० च० १, २४) ।

जलूगा, जलूया—स्त्री० (सं० जलौकस्) जंतु-विशेष, जोंक; (प० च० १, २४) ।

जलोयर—न० (सं० जलोदर > प्रा०

जलोयर) रोग-विशेष; जलंधर; (जंबू० ३, ११, ३) ।

जलोत्प्ल—वि० (सं० जलार्द्र) जल से भीगा हुआ; (ण० ३, ८, ६) ।

जलोत्प्लिय—वि० (सं० जल+आर्द्र) जल से भीगा हुआ; (क० ६, १, २) ।

जलोह—पुं० (सं० जल+ओष) जल-समूह (रा० २, ८, ६) । —र पुं० जल-समूह, जल की धारा; “प्लाइ व ससि-कंत-जलोहरेहि,” चंद्रकांत मणि की जल धाराओं से ऐसा लगता है, जैसे नहा रहा हो; (प० च० १, ५, ५) ।

जल्ल—पुं० (दे०) पत्तीना, “जल्लमल-विलित्तसरीरएहि,” अर्थात् उनके शरीर पत्तीने के मल से विलिप्त थे; (जस० ४, १६, १४) ।

जल्लोसहि—स्त्री० (सं० जल्लोपधि) एक प्रकार की ऋद्धि या आध्यात्मिक शक्ति, जिसके प्रभाव से शरीर के मूल से रोग का नाश होता है; (जस० ३, ३७, ३) ।

√जव—(सं० जप्>प्रा० जव) जाप करना, बार-बार मन ही मन देवता का स्मरण करना । जविउ—सक, भू० का० जाप किया, “...मंतु तेण जविउ” (ण० ६, २, ४) । जवेइ—जाप किया, “जवेइ मंतु;” (जस० ४, २६, ५) ।

जव—अव्य० (सं० यदा) जब; (प्रा० पं० १, २०४; रा० ३६) । जवे—अव्य० जव; “हिण्डए जवे आवधि;” द्रुमने के लिए जव आते थे; (कौ० २, ११३) ।

पुं० (सं० प्रा० जव) १. वेग, शीघ्र गति; (जंबू० ५, ५, १५) । २. जौ,

अनाज-विशेष, (व० ८, ५, १०) ।

—वेत्त; (ण० ३, १४, ५) । —णाली स्त्री० जौ की नाली; “जवणात्ती-सन्निह,” जौ की नाली के सदृश (श्रव-णेन्द्रिय का आकार); (व० १, ११, ८) ।

जवण—न० (दे०) हल की चोटी; (दे०-ना० मा० ३, ४१) । न० (सं० जपन) जाप, पुन; पुनः मंत्र का उच्चारण; (प०-च० ८६, ६०) । पुं० (सं० यवन) १. म्लेच्छ, देश-विशेष; (प० च० ६८, ६४) । २. मनुष्य-जाति-विशेष; (संवि० १०, २, ३) ।

जवणालत्त—पुं० (सं० यवनाल+त्व) जौ (अन्न-विशेष) के दानों, (ण० ६, ७, १) ।

जवणिआ—स्त्री० (सं० यवनिआ>प्रा० जवणिआ) परदा; (दे० ना० मा० ४, १) ।

जवणी—स्त्री० (सं० यवनी>प्रा० जवणी) परदा, आच्छादक पट; (दे०-ना० मा० २, २५) ।

जवय, जवरय—पुं० (दे०) यव का अंकुर; (दे० ना० मा० ३, ४२) ।

जवल—वि० (दे०) सदृश; “अरे कम-लहिं कुमुदिहिं सोहिया मानस-जवलि तलाय;” (प्रा० गु० २१, ६) ।

जवालउ—पुं० (सं० जव (वि०)+आलउ (मत्वर्थीय) गति; (जस० ३, ३५, २) ।

जविय—वि० (सं० जपित) जाप किया हुआ; (क० ७, १२, ८) ।

जव्वेल—अव्य० (दे०) जब, (at the time when, when (प० च० ३७, १३, ३) ।

जषणे—क्रि० वि० जिस समय; “जषणे चलिअ सुरताम;” अर्थात् जिस समय सुलतान ने कूच किया; (की० ४, १२२) ।

जस—वि० (सं० यादृश) जैसा, समान; (की० १, ७५) ।

जस—पुं० (सं० यशस् > प्रा० जस) कीर्ति; (व० १, ५, ६; प्रा० पं० १, ८७; ण० १, २, १०) । —उज्जल वि० (सं० यश+उज्ज्वल) धवल यशस्वी; (जंबू० ७, १२, १६) । —कित्ति स्त्री० (सं० यश+कौत्ति) यश-प्रसिद्धि; (ण० ६, २, १०) । —लंपड वि० (सं० यशलम्पट) यश का लोभी; (जंबू० ६, ७, १०) ।

—लुद्ध वि० (सं० यशोलुद्ध) यश के लोभी; (क० ८, १८, १०) ।

जसइ—पुं० जसई; वीर कवि का तीसरा अनुज; (जंबू०) ।

जसघंट—पुं० (सं० यश+घण्टा) यश का घण्टा, “दाइचाय-वज्जियजसघंटहे” दानियों के त्याग के यश का घण्टा बजाया जा रहा था; (ण० ३, १२, ४) ।

जसणिरुव—पुं० (सं० यश+निकुरम्ब, निकुरुम्ब) यश का पुंज; (ण० ५, ११, ६) ।

जसपटह—पुं० (सं० यश+पटह > प्रा० जस०+पडह) यश का डका; (जंबू० १, ५, ३) ।

जसबंधुर—पुं० यशोबंधुर, राजा-नाम-विशेष; (जस० १, २३, १) ।

जसनायण—पुं० (सं० यश+भाजन > प्रा० जस+भायण) यश का पात्र; (ण० ७, ८, ७) ।

जसमइ—स्त्री० यशमती, श्रेष्ठि पत्नी; (जंबू० ३, १०, १३) ।

जसमई—स्त्री० चक्रवर्ती जयसेन की माता; (प० च० २०, १५३) ।

जसरह—पुं० इक्ष्वाकुवंशीय राजा; (प०-च० २२, ६६) ।

जसरसि—स्त्री० (सं० यशस्+राशि > प्रा० जस+राशि) यश का पूंज; (ण० ७, ६, ८) ।

जसवंत—वि० (सं० यशस्विन्) यशस्वी; (ण० ६, २, १०) ।

जसवइ—स्त्री० यशोमती, स्त्री-विशेष-नाम; (प० सि० च० १, १३) ।

जसवई—स्त्री० चक्रवर्ती सगर की माता, (प० च० २०, १०६) ।

जसहइ—पुं० (सं० यशोभद्र) मुनि; (क० २, ७, ५) ।

जसहर—पुं० (सं० यशधर) १. राजा-विशेष-नाम (प० च० ५, ११७) । २. सगर के पूर्व जन्म गुरु, मुनि-विशेष-नाम; (प० च० २०, १०८) । २. यशो-धर मुनि, मुनि-विशेष; (क० ५, ८, १०) ।

जसालउ—वि० (सं० यश+आलय) यशस्वी; (ण० २, ८, १३) ।

जसु—सर्व (सं० यस्य > प्रा० जस्स) जिसके, जो का वह विकारी रूप जो उसे विभक्ति लगने के पहले प्राप्त होता है; (महा० ६६, १५, २; सं० रा० २, ७०) । वि० जिस, जो का वह रूप जो

उत्ते विमक्तियुक्त विशेष्य के साथ आने से प्राप्त होता है; (णे० ३, २) ।

जसोयर—पुं० बानरयोढा; (प० च० ५७, १६) ।

जसोह—पुं० (सं० यशोर्ह, यशोर्ध, यश-ओध, यशोधर के पिता का नाम; (जस० १, २३, २) ।

जसोहणा—स्त्री० यशोधना, रानी का नाम, (जस० ३, ३, २) ।

जसोहर—पुं० मुनि-विशेष-नाम (प०-च० ३१, ११) ।

जस्स—सर्व०, वि० (सं० यस्य > प्रा० जस्स) जिसका; (की० १, ४८) ।

जह—अव्य० (सं० यथा > प्रा० जह) जैसे; (प्रा० पै० १, ३४; क० ३, १, १२) ।

√जह—(सं० जहाति, √हा) छोड़ना त्यागना, परिहार करना; (उ० व्य० प्र० ७-२६) ।

जहणूसव, जहणूसुअ—न० (दे०) स्त्री को पहनने का वस्त्र-विशेष; (दे० ना०-मा० ३, ४५) ।

जहन्न—वि० (सं० जघन्य > प्रा० जह-ण, जहन्न) निकृष्ट, अधम, (व० १०, १६, ११) ।

जहां—अव्य० (सं० यत्र > प्रा० जत्थ) जहाँ; (उ० व्य० प्र० १५-३) ।

जहा—अव्य० (सं० यथा > प्रा० जहा, जह) जैसे, जिस तरह से; (जस० १०, १, ३; की० ४, २०६) ।

जहानाघ—वि० (सं० यथाजात) दिगंबर, नग्न; (ण० २, ३, ८) ।

जहि—अव्य० (सं० यत्र > प्रा० जह)

जहि, जहिं) जहाँ; (हे० ३४६; महा० ६८, ७; ण० १, १३, ६) । जहिं; (प० च० १३, ६, ४; हे० ३८६, १; प० च० २, ७, ३) । —तहि अव्य० (सं० यत्र-तत्र) जहाँ-तहाँ; (सरहपा, दोहाकोश) ।

जहिच्द्—वि० (सं० यथेच्छम्) इच्छा या कामना के अनुसार; (प्रा० पै० १, ६६) ।

जहिच्छा—अव्य० (सं० यथा + इच्छा) इच्छा या मन के अनुकूल; (जंजू० ६, १, १४) ।

जहिच्छिय—वि० (सं० यथेच्छित) यथेप्सित, इच्छानुसार; (भ०) ।

जहौ—अव्य० (सं० यथा > प्रा० जहा, जह) जहाँ; (प्रा० पै० २, १२६) ।

जां लगि—अव्य० (सं० यादत्); जब तक; तुल० गु० ज्यां लगि; (संधि० २०, २, ४) ।

√जा—(सं० जन् > प्रा० जा) उत्पन्न होना, पैदा होना । —इ अक० । जाआ (जाता) —भूत कर्म० कृदंत हुई, पैदा हुई; (प्रा० पै० १, ६२) । जाइअ-भू०-का० उत्पन्न किया; (की० २, ६३) । जाउ—भू० का० (सं० जात) उत्पन्न हुआ; (व० २, ३, ३) ।

√जा—(सं० या > प्रा० जा) जाना, गमन करना, (सं० रा०) । —इ अक०, व० (सं० यापय् > प्रा० जाव) गमन करना, गुजारना; (क० १, १२, ६; की० २, १८२) । २. (सं० याति √या प्रा० जाइ) जाना; (ण० १, १०, १; उ० व्य० प्र० ५, २४) । —इज्जइ कर्मवाच्य

(सं० यायते) चला जाए; (हे० ४१६, २) । —इआ कर्मवाच्य (सं० यायते) (उ० व्य० प्र० १६, १४) । जन्ति—जाना; (हे० ३६५) । —इवि पू० का० क्रि० (क० २, २, ६) । —उ लोट लकार (सं० यातु) जाए; (हे० ४२०) । —एँ व० जावै; (ण० ४, ५, ८) । —ए पू० का० क्रि०, जाते हुए, “णं सग्गा मग्गा जाए वागा लुद्धा उद्धा हेरंता;” अर्थात् स्वर्ग की इच्छा से ऊपर जाते हुए ऊपर (भेनकादि को) दूँढ रहे हैं; (प्रा० पं० २, १७५) । —एसइ भू० का०; (प० च० १८, १०, ६) । —एसमि भ० का०; (जंबू० १०, ११, ५) । जन्ते व० कृ०, जाते हुए; (प० च० ५, १, ८) । जन्तिएँ—व० कृ०, स्त्री के लिए प्रयुक्त; (प० च० १४, ३, १) । जाधि—ब०, अन्य पु०, ब० जाते हैं; (की० २, १११) । जायतु जाय—(सं० यात > प्रा० जाय=गत) जाय तो जाए; (वैराग्य-सार) । —यवि पू० का० क्रि० (जंबू० १, १५, ४) । —हि विध्यर्थक, म० पु०, ए०; (जंबू० २, १५, ६) । —हु वा०, व०; (प० ३, ४, १०) । जा—अव्य० (सं० यावत् > प्रा० जाव, जा) जव; (प० च० १२, ३, २; क० १, १२, १) । जा—वि० (सं० यत्) जो, (रा० ५; की० २, ४१) । जाअ—वि० (सं० जात > प्रा० जाय) जलमा हुआ, उत्पन्न; (ण० ४, ५, ८; जंबू० ५, १, ४; जत्त० १, ८, १) ।

जाआ—स्त्री० (सं० जाया) पत्नी, (प्रा० पं० १, ११६) ।

जाआ—स्त्री० छंद-विशेष; उपजाति छंद का भेद; (प्रा० पं० २, १२१) ।

जाइ जाइ—सर्व० (सं० यान्, यत् (जो) की द्वि० वि०, व०) जो-जो; (जंबू० ४, १२, १४) ।

जाइ—स्त्री० (दि०) सुरा, मदिरा, दारुं; (दि० ना० मा० ३, ४५) ।

जाइ—स्त्री० (सं० जाति > प्रा० जाइ) १. जन्म, उत्पत्ति (की० ४, ८४; क० ६, ८, ४) । २. जाति; (ण० ३, ६, ४) । ३. पुष्प-विशेष (ण० १, १०, १) ।

जाइअ—वि० (सं० याचित > प्रा० जाइअ) मांगा हुआ; (भ०) ।

जाइआ—वि० (सं० याचक > प्रा० जायग) जायअ, जाइअ, मांगने वाला; “साअर गिरि अन्तर दीप दिगन्तर जासु निमित्तें जाइआ;” अर्थात् समुद्र, पर्वत, द्वीप और देशांतर से जिसके कारण सब लोग याचक बनकर एकत्र हुए थे; (की० २, २२४) ।

जाइसर—पुं० सं० > जाति + स्मर पूर्व के अस्तित्वको स्मरण करना, पूर्व-भव-स्मरण; (प० च० ३५, २-१; प्रा० गु० १४, ३२) ।

जाइहल—पुं० (सं० जातिफल > प्रा० जाइफल) जायफर, जातिफल, वृक्ष-विशेष, फल-विशेष; एक गर्म मसाला; (सं० रा०) ।

जाड—वि० (सं० यावत्) जितने भी; (रा० २८) । जाड—अव्य० (सं०

यावत् जव तक; (हि० ४०६, २) ।
जाटर—पुं० (दि०) कपित्थ वृक्ष; (दि०-
ना० मा० ३, ४५) ।

जाडहाण—पुं० (सं० यातुधान) राक्षस;
(मुदं० ६, १६, ५) ।

जाख—पुं० (सं० यक्ष > प्रा० जक्ख)
यक्ष; (प्रा० गु० ७, ५१) ।

√जाग—(सं० √जागृ > प्रा० जग्ग,
जागति) जागना, जागते रहना; (उ०-
व्य० प्र० ५०-२१) । जागंतिय—कृ०
जागती हुई; (सं० रा०) । —रेवि पू०
का० क्रि०; (क० १०, १७, ६) ।

जागु—भू० का०, जागा, जाग उठा;
“पितृवैरिक्सेरि जागु;” अर्थात् पितृ वैरी
के लिए सिंह जाग उठा; (की० २,
२६) ।

जागरैल—पुं० (सं० जागरितृ + इल्ल
प्र०) पहरेदार; (जंबू० ५, ७, २३) ।

जाचंध—वि० (सं० जात्यन्ध, जाति +
अन्ध) जन्म से अंधा; (प्रा० गु० ४०,
४) ।

जाचक—वि० (सं० याचक > प्रा०
जायग) मांगने वाला; (की० १,
७२) ।

जाडी—स्त्री० (दि०) झुरमुट, वृक्षों का
कुंड; (दि० ना० मा० ३, ४५) ।

जाडें—पुं० (सं० जाड्येन) १. बालस्य
से २. वेवकूपी से, निष्क्रियता से, “जाडें
सलुहु” जाड्येन संलुठति, (उ० व्य० प्र०
५२-२१) ।

जाख^१—पुं० (सं० यान > प्रा० जाण)
रथादि वाहन, सवारी; (प० १, १५, ६;
जस० १, २६, ६) ।

जाख^२—पुं० (सं० यज > प्रा० जग्ग)
यज; (सि० १, १५) ।

जाख^३—वि० (सं० जानिन् > प्रा० अप०
जाणि > अद० जाण) जानने वाला;
तुल० गु० जाण; (की० ३, १३०; व० १,
१, १०) । वि० जात (न०) ।

√जाण^१—(सं० √जा, सं० जानाति >
प्रा० जाणइ) जानना जान प्राप्त
करना; (सं० रा०) । —इ, व० (हि०-
४०१, ४) । —उं, भू० का० समभू; (हि०
३६१) । —उ, जाना, जानी बन
गया (पाहु० ४४, प० ३, ४, ६) । —मि,
व०, क्रि०, ए० जानना; (प० च० ११,
५, ५) । —विउ भू० का० जताया;
(व० २, ४, ५) । —सि व०, म० पु०
(उ० व्य० प्र० १६-३०) । —नु, जानी
(प० ४, ३, १) । —हि, व०; ए० (प०
३, १३, ८) । —हु, व० क्रि०, व०
(प० च० २, १३, ६) । —हु, व०
क्रि०, आ० (प० च० ४, ५, २) ।

—तहो व० कृ०, जानते हुए; (प० च०
३, २, ७) । जाण^२ वि—पू० का० क्रि०,
जान कर (प० च० ५, ५, ७) । पुं०
(सं० ज्ञान) ज्ञान, बोध (सं० रा०) ।

जाणहू—बाजा, (प्रा० पं० १, ८) ।
तुल० राज० जाणवो, गु० जाणवु ।

जाणई—स्त्री० (सं० जानकी) सीता,
राम-पत्नी; (प० च० १०६, १८) ।

जाणएण—वि० (सं० जानृ > प्रा०
जाणग, जाणय) जानकार, जानी, जानने
वाला; (प० च० ६, ३, २) ।

जाणकी—स्त्री० जानकी, जनक की पुत्री

सीता; (प० च० ११७, १८) ।
 जाणय—वि० (सं० ज्ञातृ) बुद्धिमान्
 पुरुष, (भ०) ।
 जाणवत्तु—पुं० (सं० यानपात्र) जहाज;
 “हा हा जाणवत्तु किज्जउ धिरु;” अर्थात्
 अरे अरे जहाज को रोकिए ! (जंबू० १०,
 ११, ७) ।
 जाणायरु—पुं० (सं० ज्ञान + आकर)
 ज्ञान की खान; (जस० ३, १७, १२) ।
 जाणावण—न० (सं० ज्ञापन > प्रा०
 ज्ञाणावण) ज्ञापन, बोधन; (प० च० ११,
 ८८) ।
 जाणाविय—वि० (सं० ज्ञापित > प्रा०
 जाणाविय) विज्ञापित, जनाया, निवेदित;
 (प० च० ५, १२, ४) ।
 जाणिअ—वि० (सं० ज्ञात > प्रा०
 जाणिअ) जाना हुआ, विदित; (क० १,
 २, २; म० १, ४, २) । जाणिय; (ण०
 २, ६, १) ।
 जाणिय—वि० (सं० ज्ञात) १. प्रसिद्ध,
 (जस० १, १२, १३) । २. विदित;
 (जंबू० ४, १७, २) ।
 जाणु—न० (सं० जानु) जानु, घोंदू,
 घुटना; (भ०) । —य न० (सं० जानु
 + क) घुटना; (जस० ४, २२, १६) ।
 जात—(सं० यात्रा > प्रा० जत्ता) देशां-
 तर-गमन, देशाटन; (प्रा० गु० ७,
 ४५) ।
 जादर—पुं० (दे०) बाहुमूल्य वस्त्र-
 प्रकार; “पहिरणि जाकर-चीरु;” (प्रा०-
 गु० ११, ७) ।
 जान—पुं० (सं० ज्ञान > प्रा० जाण)
 ज्ञान, जानना; “एवाप अम्पन्तर करी

वार्ता के जान;” अर्थात् ‘महल के भीतर
 की बात कौन जान सकता है; (की० २,
 २४७) ।
 √जान—(सं० √ज्ञा > प्रा० जाण)
 —इ व, सक० जानना; “दान खग्गको
 मम्म न जानइ” अर्थात् खड्ग दान के
 रहस्य को नहीं जानता; (की० २, ३८) ।
 जानन्ता—भू० का०, परिचय रखते थे;
 (की० २, २२२) । जानल—भू० का०,
 जानो, (की० १, ७२) । जानलि—भू०-
 का०, जाना; (की० २, २४१) ।
 जान—पुं० (सं० जन्ययात्रा > प्रा०
 जण्ण-जत्ता, जन्तत्ता) जनेत, वरात, वर-
 यात्रा; “हरख धरंता जानई चलिया
 वाजई डोल-नीसाण;” (प्रा० गु० ११,
 ११) । —उत्ति स्त्री० वरात; “सोल सहस
 भोपी मिली ए जानउत्ति चालइ मन-
 रुली;” (प्रा० गु० २६, ४) ।
 जान्त—पुं० न० (सं० यान् > प्रा०
 जाण) वाहन, यान; ‘जान्त आछ’
 —यानास्ते, स्त्री तु यान्ती, कुलं यात्;
 (उ० व्य० प्र० ७-१७) ।
 जाम—क्रि० वि० (सं० यावत् > प्रा० जाव,
 जाम) जब तक; (ण० १, ३, १२; सं०-
 रा०; जस० ३, १३, ११) । —हिं जब;
 (हिं० ४०६, ३) । —हि जब; (जंबू० ६,
 ५, ६) । अव्य० जैसे ही, “उत्तिभय चउ
 माणवधम्म जाम;” —जैसे ही चार मान
 स्तंभ बन कर तैयार हुए; (प० च० १,
 ७, ८) । पुं० (सं० याम > प्रा० जाम)
 प्रहर; (जंबू० ४, ५, १५) । न० (सं०
 जन्मन् > प्रा० जन्म) जन्म; (हिं० का०,
 च० ४०) ।

√जाम—(सं० जम् > प्रा० जम्म; सं० जायते) उत्पन्न होना; (उ० व्य० प्र० १५-२०) ।

जामाद्वय, जामाउय—पुं० (सं० जामातृ + क > प्रा० जामाउय, जामाउ)

जामाता, लड़की का पति; (भ०) ।

जामाएँ; (प० च० ११, ११, ६) ।

जामाय, (ण० ५, ८, ११) । जामाय—

पुं० (सं० जामातृ) जामाता; (ण० ५, ८, ११; क० ७, ८, ५) ।

जामिणि—स्त्री० (सं० यामिनी > प्रा०

जामिणी) रात, रात्रि; (सं० रा०; जंबू०

३, ४, १०) । जामिणी—स्त्री० रात्रि;

(व० २, ३, १५; क० १, ८, ५) ।

√जाय—(सं० √या > प्रा० जा) उत्पन्न होना । —इ व०; (जंबू० ११, १, १३) । —हि (विधि०) (जंबू० ४, १४, १४) ।

जाय—वि० (सं० जात) जन्मा हुआ,

उत्पन्न; (ण० ६, ३, १; क० १, १७, १०; जस० ३, १०, ६) ।

जायअ—वि० (सं० याचक > प्रा०

जायग) माँगने वाला; (जस०) ।

जायण—त० (सं० याचना > प्रा०

जायणा, जायण) माँगना; (जंबू० ६, १३, १४) ।

जायमित्तु—पुं० जातमित्त, इंद्रमित्त,

(व० ८, १७, ६) ।

जायर—पुं० (सं० जागर) १. जागरण,

२. जाग्रत अवस्था की मन सृष्टि; (जंबू०

६, १६, ६) ।

जायव—पुं० स्त्री० (सं० यादव > प्रा०

जायव) यदुवंश में उत्पन्न; (ण० ६, २२,

५) ।

जायवेग्र—पुं० (सं० जातवेदस्) अग्नि;

(ण० १, १६, ७) । जायवेड—पुं०

अग्नि; (व० १, ५, ३) ।

जायसकुल—पुं० जैसवाल कुल, आश्रय-

दाता नेमिचंद्र का; (व० १, २, ३) ।

जाया—स्त्री० (सं० प्रा० जाया) पत्नी;

(जंबू० १०, ६, ४) ।

जार—पुं० (सं० प्रा० जार) १. व्यभि-

चारी; (जंबू० १०, १०, ५) । २. उप-

पति; (जस० २, ८, १) । ३. विट;

(सि० १, ४५) । —सत्त (जारासत्त)

वि० (सं० जार + आसक्त) जार पर

आसक्त हुए (नेत्रों के तारे); (जस० ३,

१०, ६) ।

जारिस—वि० (सं० यादृश > प्रा०

जारिस) जैसा, जिस तरह का (जंबू० ६,

१६, ७) ।

जालंधर—पुं० (सं० जालन्धर > प्रा०

जालंधर) उड़ीसा में नगर-विशेष, "महा-

उड्डियाणं च जालंधरं;" (जंबू० ६; १६,

१५) ।

जालंधरि—स्त्री० कदली, केला; (सं०-

रा०) ।

जाल—पुं० (सं० ज्वाल > प्रा० जाल)

ज्वाला; अग्नि शिखा; तुल० म० जाळ;

(उ० व्य० प्र० १५, २३; जस० १, ६,

४) । २. न० (सं० प्रा० जाल) समूह;

(जंबू० ७, ६, १०) । ३. जाली; "जाल

जालओष;" अर्थात् जाली के झरोखे;

(की० २, ८५) । —ओष न० जाल-

गवाक्ष; (की० २, ८५) ।

√जाल—(सं० √ज्वाल्य) जलाना,

दग्ध करना । —इ व० (जंबू० ११, १३, ६; जस० ३, १२, १३) । जालेवि—
पू० का० क्रि०, जलाकर, दाह संस्कार
कर; (व० १०, ४०६; प० सि० च० २,
=१, ४६) ।

जालजर—पुं० जावालिपुर, तुल० राज०
जालोर; (प्रा० गु० १२, ४८) ।

जालगवक्ष—न० (सं० जालगवाक्ष)
गवाक्ष-विशेष, कारीगरी वाले छिद्रों से
युक्त छोटी खिड़की; (जस० ३, २६,
१६) ।

जालघडिआ—स्त्री० (दे०) चंद्रशाला,
अट्टालिका; (दे० ना० मा० ३,
४६) ।

जाला—स्त्री० (सं० ज्वाला > प्रा०
जाला) अग्नि की शिखा; (रा० ७, १३,
६; व० ५, २२, ६; सि० १, १७) ।

जालाकलाव—पुं० (सं० ज्वाला +
कलाप) ज्वालावलि, “लग्गिजालाक-
लावेण,” अर्थात् उस अग्नि ज्वालावलि के
लगने से; (जस० ३, १३, १०) ।

जालामुख—पुं० (सं० ज्वालामुख)
अग्निमुख, वंताल; (जंबू० ७, ६, ८) ।

जालावलि—वि० स्त्री० (सं० ज्वाला
+ आवलि) ज्वालामुखी, “धूमावलि-
जालावलि-हुआसुं;” अर्थात् धूम से व्याप्त
ज्वालामुखी अग्नि से युक्त; (व० ५,
२२, १०) ।

जालिय—वि० (सं० ज्वालित > प्रा०
जालिय) जलाया हुआ, प्रकाशित; तुल०
म० जालता; (जंबू० ८, १५, ४) ।

जालोलि—स्त्री० (सं० ज्वाला +
आवलि, आवली) ज्वाला, अग्नि की

शिखा; (प० च० ८, २, ६) ।

जाव—अव्य० (सं० यावत्) जितना,
जब; (क० १, १३, १; प्रा० पै० २,
१६६; जंबू० २, १, १२) । —हिं अव्य०
जैसे ही; (प० च० ३, ४, ८) । —हि
अव्य० (सं० यावत् + हि, यावधि) । जब
तक; (म० १, ३१, १०) ।

जावय—पुं० जपा-कुसुम; (व० ७, १४,
१०) ।

जाषरी—स्त्री० (सं० यक्ष > प्रा० जक्ख
> अव० जाख + डी प्र०, जाखडी,
जाखरी) नट्टिनी, नाचने वाली,
नर्तकी; (की० २, १८६) ।

जास—सर्व० (सं० यस्य) जिसका;
(व० १, १६, ६) जासु—सर्व० जिसकी;
(की० १, ४३) ।

जासवण—पुं० (सं० जपासुमनस् > प्रा०
जासुमण, जानुयण) घासौन या गुडफल
नामक पुष्प; “मणि जासवणहेउ किं
दिज्जइ,” अर्थात् क्या कोई जासवन
(जासौन या गुडफल) के पुष्प के लिए
मणि देता है; (जस० ३, २५, १३) ।

जासि—सर्व० (सं० यस्या) जिसका;
(व० १, ६, ८) ।

जासु—सर्व० (सं० यस्य > प्रा० जस्स)
जिसके; (हे० ४२०, ३) ।

जाहां—अव्य० (सं० यत्र) जहाँ; (उ०-
व्य० प्र० १५-२) ।

जाहे—सर्व० (सं० यस्मै) जिसके लिए;
(उ० व्य० प्र० १५-१) ।

जिव—अव्य० (सं० यथा) जिस प्रकार;
तुल० म० जेवि०; (भ०; विला०) ।

जि—अव्य० (पादपूरणार्थमव्ययम्)

१. एव, निश्चय ही, खनु, चैव, एक निश्चयार्थक शब्द, ही, २. भी; तुल० म० चि, च; गु० ज; हे० ४, ४२०; सं० रा०; जंबू० १, १४, ५; ण० १, ५, २) ।

जिअ—वि० (सं० जित) जीता हुआ, पराभूत; (रा० ४२; जंबू० ७, ८, १४) ।

√जिअ—(√जि) जीतना । जिणइ—व० (प्रा० १, १५७) ।

जिअ—पुं० (सं० जीव > प्रा० जिअ) प्राणी, आत्मा; (प्रा० पं० २, ६१) ।

जिइंदिअ, जिएंदिअ—वि० (सं० जितेन्द्रिय) इंद्रियों को वश में रखने वाला; (प० च० १४, ३६) ।

जिउ—पुं० (सं० जीव > प्रा० जिअ) जानवर, (जंबू० ६, १, १७; की० २, १८१) ।

जिके—सर्व० (सं० यत्) ये “केवलिभासिय- रीति जिके नवकार अराहहिं,” तुल० राज० जिके, (प्रा० गु० ४०, २) ।

जिगीषु—वि० (सं० जिगीषु) विजयेच्छु, विजयार्थी; (की० ३, ६०) ।

जिगीसए—स्त्री० (सं० जिगीषा) जीतने की इच्छा; (व० ६, १, ४) ।

जिगिअ—वि० (दे०) सूँघा हुआ; (दे० ना० मा० ३, ४६) ।

जिट्ठ—पुं० (सं० ज्येष्ठ > प्रा० जिट्ठ) ज्येष्ठ मास; (जंबू० ४, ३, २) ।

जिणंद—पुं० (सं० जिनेन्द्र) जिनेंद्र, एक बुद्ध, एक जैन संत; (व० २, ६, १) ।

जिण—पुं० (सं० जिन > प्रा० जिण) बुद्ध देव, बुद्ध भगवान्; जिन, जिनेंद्र; (व० १, २, २; जंबू० ३, ३, ५; दे० ना० मा० १, ५) । —दत्त पुं० (सं० जिनदत्त) जैनाचार्य-विशेष; (प० च० २०, ११६) । —वर पुं० (सं० जिनवर) अहंन्, देव, (प० च० ११, ४) ।

√जिण—(सं० जि०, प्रा० जिण) जीतना; वश में करना; (सं० रा०) । —इ सक०, व० (सं० जयति, > प्रा० जिण, जिणइ); (जंबू० ५, ६, १४; क० ८, १३, ४) । —मि व०, उ० पु०, ए०, (प० च० १६, १२, ६) । —णति व०, व० (ण० १, ४, २) । —णिवि पू० का० क्रि०; (जंबू० ६, १४, १) । जिणेप्पि—पू० का० क्रि०, जीतकर; (हे० ४४२) । जिणेवि—पू० का० क्रि०; (प० च० १, १०, १) ।

जिणकित्तण—पुं० (सं० जिन + कीर्तन) जिन भगवान का कीर्तन; (जंबू० ८, ८, ६) ।

जिणण—वि० जीतने वाला; (सं० रा०) ।

जिणणाह—पुं० (सं० जिननाथ > प्रा० जिणनाह) जिन-देव, अहंन् देव; (व० २, ४, १०; जंबू० ३, १३, १३) ।

जिणण्हवण—न० (सं० जिन + स्नपन > प्रा० जिण < ण्हवण) जिन भगवान् का स्नान; (जंबू० ३, ३, १७) ।

जिणतअ—पुं० (सं० जिन + तपस्) तपस्या; (ण० ६, ५, १) ।

जिणदंसण—पुं० (सं० जिनदंसण) जिन-धर्म; (जंबू० २, १८, २) ।

जिणदत्त—पुं० श्रावक, गृहपति (प० च० २०, ११६) ।

जिणदिक्ख—स्त्री० (सं० जिन+दीक्षा > प्रा० जिण+दिक्खा) जिन-देव के द्वारा दीक्षण, प्रव्रज्या देना; (व० १, १५, ३; जस० १, १३, १२) ।

जिणदिट्ठ—वि० (सं० जिन+उप-दिष्ट) जिन द्वारा उपदिष्ट; (जंबू० ३, ६, १६) ।

जिणधम्म—पुं० (सं० जैनधर्म) जैनधर्म (व० २, ५, ३) । २. जिन धर्म; (जस० ४, ६, ५) ।

जिणनाम—पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५७, १६) ।

जिणनाह—पुं० (सं० जिननाथ > प्रा० जिणणाह) जिन-देव, अर्हन् देव; (व० १, ७, ३) ।

जिणपउमरुइ—पुं० श्रेष्ठिपुत्र; (प० च० १०३, ३८) ।

जिणपडिम—स्त्री० (सं० जिन+प्रतिमा) अर्हन् देव की मूर्ति; (जंबू० ५, १०, १५) ।

जिणपय—पुं० (सं० जिनपद) भगवान् जिन के चरण; (जंबू० १, ४, ६) ।

जिणपुंगम—पुं० (सं० जिनपुङ्गव) जिनश्रेष्ठ; (जंबू० ४, १, ५) ।

जिणपेम्म—पुं० वानर योद्धा; (प० च० ५७, १६) ।

जिणमत्ति—स्त्री० (सं० जिनभक्ति) जिन भगवान् की भक्ति; (व० २, ५, २०) ।

जिणभवन्—पुं० (सं० जिनभवन्) जिन भगवान् का मंदिर; (जंबू० ५, ३,

८) ।

जिणमंदिर—पुं० (सं० जिनमन्दिर) जिन या अर्हन् देव का मंदिर; (जस० ३, ३१, २) ।

जिणमइ—स्त्री० (सं० जिनमती) स्त्री-नाम-विशेष; (जंबू० ४, ७, २) ।

जिणमई—स्त्री० वानर सुग्रीव की पुत्री; (प० च० ४७, ५४) ।

जिणमग—पुं० (सं० जिनमार्ग) जैन धर्म का मार्ग; (जस० १, २६, ३) ।

जिणमय—पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५७, १६) ।

जिणयत्त—पुं० (सं० जिनदत्त) पुरुष-नाम; (जस० ४, २६, २) ।

जिणदास—पुं० जिनदास, पुरुष-नाम-विशेष; (जंबू० ४, २, ५) ।

जिणवंदण—न० (सं० जिन+वन्दन > प्रा० जिणवंदण) जिन-वन्दना या स्तुति; (जंबू० १, १४, ११) ।

जिणवइ—स्त्री० जिनवंती, स्त्री-विशेष-नाम; (जंबू० ४, २२, ८) । —णाह पुं० (सं० जिनमतीनाथ) वीरकवि; (जंबू० १, ६, १) ।

जिणवइरसेण—पुं० पुंडरीगिनी का राजा; (प० च० २०, १०७) ।

जिणवयण—पुं० न० (सं० जिनवचन) जिन की उक्ति या कथन; (जस० २, १५, ७) ।

जिणवयधर—वि० (सं० जिन+वद+धर > प्रा० जिण+वय+धर) जिन-वचन को धारण करने वाले; (जंबू० ४, ३, १३) ।

- जिणवर—पुं० (सं० जिनवर) अहंन् देव; (जंबू० ३, ७, १५; जस० ३, ३०, ४) ।
- जिणवरिद—पुं० (सं० जिनवरेन्द्र > प्रा० जिणवरिद) अहंन् देव; (जंबू० ४, १, १३) ।
- जिणमुत्त—पुं० (सं० जिनसूक्त) जिन-सूत्र, जिनभाषित, (जस० १, १५, १४) ।
- जिणसेन—पुं० (सं० जिनसेन) पुष्प-विशेष-नाम; (जंबू० १०, २१, ३) ।
- जिणहर—न० (सं० जिन+गृह > प्रा० जिमघर) जिन-मंदिर; जैन-मंदिर; (ण० २, ७, ६; जंबू० ८, ३, २४; प्रा० गु० ६, ३५; व० १, १२, ७) ।
- जिणाल—पुं० (सं० जिनालय) जिन-देव का घर; (प० च० ६, २, ५) ।
- जिणाहीस—पुं० जिनाधीश; (व० ८, १०, ८) ।
- जिणिद—पुं० (सं० जिनेन्द्र) जिन भगवान् (जस० ३, २६, ११) । —चंद्र पुं० (—चन्द्र) जिन-देव; (प० च० ६५, ३६) ।
- जिणि—सर्व० जिसने; (प्रा० पं० १, २०७) ।
- जिणिय—वि० (सं० जित) पराभूत, वशीकृत; (क० ८, १३, ५) ।
- जिण्युत्त—वि० (सं० जिनोक्त) जिन द्वारा कहा गया; (जस० ४, १७, २२) ।
- जिण्युद्दिठ—वि० (सं० जिन+उप-दिष्ट) जिन द्वारा उपदेश दिया हुआ; (जंबू० ४, ५, ५) ।
- जिणोसर—पुं० (सं० जिनेश्वर) जिन देव; (प० च० २, २३; जंबू० ४, ४, ३; व० १, ११, ४) । जिणोसर—पुं० जिनेश्वर; (जंबू० ४, ४, ३) ।
- जिण्ण—वि० (सं० जीण > प्रा० जिण्ण) पुराना, जर्जर; तुल० गु० राज० जूरी; (प्रा० पं० १, ३; ण० ३, ११, १) ।
- जिण्णोन्मवा—स्त्री० (दि०) दूर्वा, दूध; (दि० ना० मा० ३, ४६) ।
- जित्त—वि० (सं० जित > प्रा० जिअ) जीता हुआ, विजित; (क० २, ११, २; जंबू० २, ३, १५; ण० ३, ६, १) ।
- जित्तउ—क्रि०, भू० का० (सं० √जि) जीत लिया; (महा० ६६, ४, ८) ।
- जित्ति—पू० का० क्रि०, जीत कर; (की० ४, २२३) ।
- जित्तवेरि—वि० (सं० जित+वैरिन्) वैरियों को जीतने वाले; (ण० १, ६, ४) ।
- जित्तसिरि—स्त्री० (सं० जितश्री) श्रेष्ठ-कन्या; (जंबू० ८, १०, ११) ।
- जित्तित्त—वि० (सं० यावत्) जितना बड़ा, जहाँ तक व्यापक हो; (परम० २, ३८) ।
- जित्तय—अव्य० (सं० यत्) जहाँ; (व० १, ३, ७) । जित्त्यु; (जंबू० २, ११, ६; म० १, ३७, १०) ।
- √जिप्प—(सं० √जि कर्मणि) जीतना, (जस० १, २१, ८; व० १, १४, ११) । —इ व० (सं० जयति, प्रा० जिणइ)

जीतना; (जस० २, १२) । —प्पति (जिप्पति) व०, व० “मंते अंतरंग बहिरंग वि, रिउ जिप्पति विइणकुसंग वि” —मंते द्वारा कुसंगति से उत्पन्न अंतरंग और बहिरंग शत्रु जीते जाते हैं; (ण० ३, २, ५) ।

√जिम—(प्रा०√ जिम्) खाना, जीमना, भोजन करना । —इ सक०; तुल० म० जेवणे, गु० जमवुं; (जस० १, २१, ८; जंबू० ३, ६, १४) । जेमन्त—कृ० खाते हुए; (प० च० ४८, १०, ६) । जेम्मइ—(सं० जेम्यते) कर्मवाच्य; (प० च० २१, २, २) ।

जिम—अव्य० (सं० यथा > प्रा० अप० जिघ) १. जैसे, ज्यों; (सं० रा०; पाहु० १७७) । २. जिस प्रकार, जिस तरह से; (पाहु० १७६; प्रा० पै० १, ८६) ।

जिमि—वि० जैसे; (प्रा० पै० १, २०७) ।

जिमिअ—वि० (सं० जिमित) १. जिसने भोजन किया हो वह; (जस० ३, १३, ८; प० च० २०, १२७) । २. भक्षित; (दे० ना० मा० ३, ४६) । जिमिय; (जस०) ।

√जिम्म—(सं० जिमु अदने, प्रा० जिम) खाना; (जस० १, २१, ८) ।

जिय—वि० (सं० जित > प्रा० जिअ) जीता हुआ, पराजित; (ण० २, ५, १४; जंबू० ८, ५, ६; क० २, ११, २) ।

√जिय—(सं०√जीव्) जीना, प्राण धारण करना; (जस० १, ११, १) ।

—इ व० (सं० जीवति > प्रा० जीवइ); (ण० ३, ७, ६) । √जियंत—व० कृ०

(सं०√जीव् + शत्रु) (जंबू० ७, १, १५) । जिय—भू० का०, जीता; (चं० २, १०) ।

जियकुमुमाउहु—पुं० (सं० जितकुमुमा-युध) कामविजेता; (व० २, ८, ११) । जियपउमा—स्त्री० लक्ष्मण की स्त्री, राजा शत्रुदमन (सत्तुदमण) की पुत्री; (प० च० १, ७२) ।

जियमाखु—पुं० विद्याधरवंशीय राजा; (प० च० ५, २५६) ।

जियसत्तु—पुं० जितशत्रु; (जस० ४, २४, ३) ।

जिवं, जिह—अव्य० (सं० यथा > प्रा० जिघ) जैसे, जिस तरह से; (हे० ३३६, पड़) ।

√जिघ—जीना । जिवउ—भू० का०, जीवित रहें; (की० १, ६१) । जिवि-ज्जइ—कर्मवाच्य, व०, प्र० पु०, ए० (प्रा० पै० १, ५५) ।

जिह—अव्य० (सं० यथा > प्रा० जिघ, जिह) जैसे, जिस प्रकार; (महा० ६६, ३, १३; प० च० २, ११, ८; हे० ३३६; ण० १, १०, ७) ।

जिह—सर्व० जिसको, जिसमें, जो; (हे० ४, ३३७; सं० रा०) ।

जी—पुं० (सं० जीव > प्रा० अप० जीअ > अव० जी) प्राण; (की० ४, १५३) ।

जीअ—पुं० न० (सं० प्रा० जीव) प्राणी; (क० २, १५, ४; जस० २, १५, ६) ।

जीआ—स्त्री० (सं० ज्या) १. पृथिवी; २. माता; (पड़) ।

जीउ—पुं० न० (सं० प्रा० जीव) प्राणी; (व० १, १५, १; जंबू० १०, २, १०; हे० ४३६, २) ।

जीउगुण—पुं० (जीवगुण) जीव का धर्म; “अणु जि निरवहित्रीउगुणु कवणु ममत्तिभाउ तुणकारणे” अर्थात् जीव का निरवधि ज्ञान गुण भी इन सब बाह्य वस्तुओं से अन्य ही है। अतः इस शरीर के लिए ममत्व ही क्या? (जंबू० ११, ५, १०) ।

जीभ—स्त्री० (सं० जिह्वा > प्रा० जिह्वा) जवान, रसना, जिह्वा। जीभे; (उ० व्य० प्र० ६, ६) ।

जीमणवार—पुं० भोज, ज्योतिष; तुल० गु० जमणवार; (प्रा० गु० २८, ६) ।

जीमुत्तनायक—पुं० राक्षसयोद्धा; (प० च० ६१, १०) ।

जीय—पुं० (सं० प्रा० जीव) आत्मा, जीव, प्राण, चेतना, प्राणी; (सं० रा०; प० च० ७, ८, ६) ।

जीय—वि० (सं० जीवित > प्रा० जीवित) जो जिंदा हो; (प० च० ७, १२, ७; भ०) ।

जीया—स्त्री० (सं० प्रा० जीवा) धनुष की डोरी, प्रत्यंचा; (ण० २, ६, ८) ।

जीयासा—स्त्री० (सं० जीव + आशा > प्रा० जीव + आसा) जीवन की आशा; (ण० ३, ६, १३) ।

जीर—न० (सं० जीरक > प्रा० जीरय) जीरा, मसाला-विशेष; तुल० म० जिरें; (जस० ३, ५, १५) ।

√जीव—(सं० जीव > प्रा० जीव) जीना, प्राण धारण करना। —इ व०

(जंबू० ३, १, १२) । जीवा—कृ० (जस० ३, २०, ६) । जीवउ—भू० का० (सं० अजीवत्) (उ० व्य० प्र०, ६, २७) । जीविज्जइ (कर्मणि) (जंबू० ११, २, ७) । जीवेसइ—भू० का० (प० च० ८, ४, ६) । जीवेसमि—भ० का० (जंबू० ६, ११, ६) । जीवत—व० कृ० (सं० जीव + शतृ); (जंबू० ७, ६, ३५) ।

जीव—पुं० (सं० प्रा० जीव) प्राणी; (व० २, ११, १) । —उल पुं० (सं० जीवकुल) प्राणी-वंश; (जस० २, ३७, ७) । —तत्त पुं० जीवतत्त्व; (जंबू० २, १, २) । जीवाइ—जीवादि; “जीवाइत्तु तं कहइ मुणि;” अर्थात् उसे अपनी दिव्य वाणी से जीवादि तत्त्वों को मुनि बतलाते थे; (जंबू० २, ६, ७) ।

जीवगाह—पुं० (सं० जीवदग्राह) जीवित रहते हुए को पकड़ना (capture while alive); (प० च० २५, १८, १) ।

जीवण—न० (सं० जीवन > प्रा० जीवण) जिंदगी; (जंबू० २, ६, ६; भ०) । जीवणु; (विला०) ।

जीवदय—स्त्री० (सं० प्रा० जीवदया) जीवदया; (जस० २, १८, १५) ।

जीवधके—वि० प्राण हरने वाले को, प्राणनंतक; (की० ४, १५३) ।

जीवन—पुं० (सं० जीवन) जीना, “मानिनि जीवन मान सउं वीर पुरिस अवतार;” अर्थात् हे मानिनी! मान सहित जीना और वीर पुरुष का जन्म लेना, यही सार है; (की० १, ३८) ।

जीवभाउ—पुं० (सं० जीवभाव) जीव-
स्वरूप; (जंबू० १०, २४, ४) ।

जीवमित्री—स्त्री० (सं० जीवमैत्री)
प्राणियों में परस्पर मैत्री; (जस० ४, ६,
४) ।

जीवशरण—वि० (सं० जीवशरण) जीवों
के लिए शरणाभूत; (जंबू० १, १,
५) ।

जीवसहाउ—पुं० (सं० जीवस्वभाव)
जीवों का स्वभाव; (जस० ३, २८,
३) ।

जीवहिंस—न० (सं० जीवहिंसा) जीवों
की हिंसा; (जस० २, १४, १०) ।

जीवापहारी—वि० (सं० जीवापहारिन्)
जीव संहार करने में प्रवृत्त; (जस० ४,
१७, ३) ।

जीवासउ—पुं० (सं० जीव + आश्रय)
जीव के आश्रय; (जंबू० ११, ७,
२) ।

जीवासा—स्त्री० (सं० जीव (जीवन) +
आशा) जीवन की आशा; (जंबू० २, ५,
१४) ।

जीवाहार—पुं० (सं० जीवाहार) मांसा-
हार; (जस० २, ३०, १) ।

जीविउ—वि० (सं० जीवित) जीवित;
(व० १, १४, २; जंबू० ८, ७, ७) ।
२. जिलाने वाला; (जंबू० ७, ११,
६) ।

जीविय—वि० (सं० जीवित > प्रा०
जीविअ) जो जिंदा हो; (भ०) ।

जीवियवु—पुं० (सं० जीवितव्य)
जीवन, "महु जीवियवु धुउ अम्मि जइ;"
भले ही मेरा जीवन समाप्त हो जाए;

(जस० २, १६, ३) ।

जीवियास—पुं० (सं० जीवित + आशा)
जीने की आशा; (जंबू० ६, ११,
१२) ।

जीह—स्त्री० (सं० जिह्वा > प्रा०
जीहा) जीभ, रसना तुल० म० जीभ,
(सं० रा०; क० १, १७, ६; ण० १,
१३, २; सि० २, २३) । —हा जिह्वा;
(जंबू० ८, ७, ७) ।

जीहा—स्त्री० (सं० जिह्वा) जीभ;
(जस० १, ६, ५; प्रा० पै० १, ८) ।

जीहादल—पुं० (सं० जिह्वादल) बड़ी-
बड़ी जिह्वाएँ; (जस० १, १६, १२) ।

जीहालंपडु—वि० (सं० जिह्वा + लम्पट
> प्रा० जीहा + लंपट) जिह्वा का लोलुप
या लोभी; (ण० ६, ८, ७) ।

जीहाल—वि० (सं० जिह्वा + वत्)
लंबी जीभ वाला; (प० च० ७,
१२०) ।

√जुंज—(सं० युज् > प्रा० जुज्ज)
जोड़ना, युक्त करना । —इ व० (क०
६, २०, २१) । जुंजेइ; (सुदं० २, ११,
१६) । जुंजहि; (सुदं० ११, २, १४) ।
जुंजिअ—वि० (सं० योजित) जोड़ा
हुआ; (क० ६, २, ६) ।

जुंजुड—वि० (दे०) परिग्रह-रहित;
(दे० ना० मां० ३, ४७) ।

जु—अव्य० (सं० यत्) जो; (हे० ४१७,
२) ।

जुअ—वि० (सं० युत > प्रा० जुअ)
युक्त, संलग्न, सहित; (दे० ना० मां०
१, ८१; क० ३, १६, ४) । जोड़ा, दो;
(प्रा० पै० १, १७) ।

जुअय—न० (सं० युतक) जुदा, पृथक्; (दे० ना० मा० ७, ७३) ।

जुअराय—पुं० (सं० युवराज) युवराज; (भ०) ।

जुअल—पुं० (दे०) तरुण, जवान; (दे०-ना० मा० ३, ४७) । न० (सं० युगल > प्रा० जुअल) दो, जोड़ा; (प्रा० पै० १, ३६; जं० १, ११, १५) । जुअलु; (प० च० १३, १०, १०) ।

जुअं—पुं० (सं० द्यूत > प० जूत > प्रा० जूअ) जुआ, किसी घटना की संभावना पर हार-जीत का खेल; (की० २, १४६) ।

जुइ—पुं० मुनि-विशेष-नाम; (प० च० ३२, ५७) । स्त्री० (सं० द्युति > प्रा० जुइ) कांति, तेज, प्रकाश; (व० २, २२, १०) । २. ज्योतिरङ्गं नामक कल्पवृक्ष; (व० १०, १८, १२) । —जुतिय वि० (सं० द्युतियुक्त) (जस० १, १६, १३) ।

जुइपह—स्त्री० (सं० द्युतिप्रभा) स्त्री-नाम-विशेष; (व० ६, ४, २) ।

√जुअछ—(सं० जुगुप्स्) घृणा करना, निन्दा करना । —इ सक० (षड्) ।

जुगंधर—पुं० (सं० युगन्धर) एक जैन मुनि आठवें तीर्थंकर के पूर्वजन्म गुरु; (प० च० २०, १८) ।

√जुअज—(सं० √युज् > प्रा० जुअज) जोड़ना, युक्त करना; किसी कार्य में लगाना । —इ सक० (सं० योजति > प्रा० जुअजइ, जुअजइ); (ण० ३, २, १३; जस० १, १२, १८) ।

√जुअक—(सं० √युध् > प्रा० जुअक)

लड़ना, जूझना । युद्ध करना । —इ व० युद्ध करना; (की० १, ६२; जं० ६, ४, ३) । जुअंति; (सं० युज्यते); (व० १, ४, १६) । जुअंतिय—कृ० (सं० युध् + शतृ) (जं० ७, ३, ६) । जुअंतु—क्रि०, भू० का०, लड़ें; (प्रा० पै० २, १३२) । जुअंत—कृ० (सं० युध् + शतृ); (प० च० ३, १३, ८) । जुअन्ता—भू० का०, युद्ध कर रहे थे; (की० ४, १८०) । जुअमाण—कृ० (सं० युध् + शानच्); (जं० ७, ४, ११) । जुअक्वि पू० का० क्रि० (ण० ३, १७, १३) । जुअङ्गु—क्रि०, गा० (प० च० ७, १२, ५) ।

जुअक—न० (सं० युद्ध > प्रा० जुअक) लड़ाई, संग्राम; (प० च० ४, ५, ६; क० २, ६, ६; प्रा० पै० १, ३७) । जुअङ्गु—न० युद्ध; (महा० ६६, २, ११) ।

जुअकण—न० (सं० योधन) युद्ध, लड़ाई; (म० २, ५५, २) ।

जुअकणमणहो—वि० (सं० योधन + मनस्) युद्ध की इच्छा रखने वाला; (प० च० ४, ५, ६) ।

जुअकवंत—पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५७, १८) ।

जुअकअ—वि० लड़ा हुआ; (जं० ६, ५, ५) ।

जुअका—वि० (सं० युद्धवत् > प्रा० जुअकवय) युद्धवाला या युद्ध संबंधी; (की० ४, १०१) ।

जुअठ—पुं० (सं० जुअठ > प्रा० अठठ) असत्य; तुल० गु० जूठ; (संघि० ११, ८, १५) ।

जुड—पुं० (सं० जूट) कुंतल, केश-
कलाप; (दे० ना० मा० २, २४) ।

√जुड—(सं० जुड बन्धने; सं० जुडति)
वांधना; (उ० व्य० प्र० ५१-२८) ।

जुण्ण—वि० (सं० जीर्ण > प्रा० जुण्ण)
पुराना, जीर्ण; (जस० ३, ३८, ३; प०-
च० ४, ८, ३) । २. धिसा हुआ; फटा
हुआ; (प० च० १४, ७, ४) । वि०
(दे०) विदग्ध, निपुण, दक्ष; (दे० ना०-
मा० ३, ४७) । पुं० (दे० सं० यून >
प्रा० जुण्ण) जूना; (क० १, १०२;
सुदं० ८, १, १६) ।

जुण्ण-जोत्त—पुं० (सं० जीर्ण-योक्त्र)
पुरानी या जीर्ण जोत (रथ की) “लुअ-
जुण्ण-जोत खण्डिय-धुराई” —‘जीर्ण जोते
(रथों की) फट गई, धुरे टुकड़े-टुकड़े हो
गए;’ (प० च० ४, ८, ३) ।

जुत्त—वि० (सं० युक्त > प्रा० जुत्त)
युक्त, संगत, उचित, योग्य; (सं० रा०) ।

जुत्त—वि० (क० १, १२, ५); जुत्तज
—वि० (प्रा० पै० १, १६६); जुत्तु—

वि० (प० च० ११, १३, ५; व० २, ३,
११); जुत्तो—वि० (विला०) । —उ

(जुत्तज) वि० उपयुक्त, “जुत्तज अवेक्खि
संसग्गु;” अर्थात् उपयुक्त संसर्ग को देख-
कर; (व० ५, ३, १४) ।

जुत्ताजुत्त—वि० (सं० युक्तायुक्त) संगत
एवं असंगत, अच्छे-दुरे; “रज्जमएण पम-
त्तज ण सुणइ जुत्ताजुत्तज;” अर्थात् राज-
मद में पागल होकर व्यक्ति अच्छे-दुरे का
[विचार नहीं करता; (महा० ६६, ६,
१४) ।

जुत्तायारउ—वि० (सं० युक्त + आचार)

उचित कार्यशील, उचित आचरण करने
वाला; “अवसणु सच्छु अरुसणु सूरज,
पवरवलालज जुत्तायारउ,” व्यसनहीन
स्वच्छ, त्रोध-रहित, शूरवीर, महाबल-
शाली, उचित कार्यशील, (ण० ३, ४,
४) ।

जुत्ति—स्त्री० (सं० युक्ति > प्रा० जुत्ति)
उपाय, कौशल; तुल० म० जुगत; (ण०
१, १५, ३) ।

जुत्ये—पुं० (सं० यूत्य > प्रा०
जुत्य) सेना; (की० ४, १६६) ।

जुनु—पुं० पुत्रा (उ० व्य० प्र० १०-
७) ।

जुम्भ—वि० (सं० जीर्ण > प्रा० जुण्ण)
पुराना; (सं० रा०) ।

जुन्ह—स्त्री० (सं० ज्योत्सना > प्रा०
जुण्हा) चांदनी, चंद्रिका, चंद्र का प्रकाश;
(सं० रा०; प्रा० गु० १३, ४४) ।

√जुप्प—(सं० √युज्) जोड़ना, युक्त
करना । जुप्पति—ब० (जंबू० ५,
६, ४) ।

जुम्मु—न० (सं० युग्म > प्रा० जुग्ग)
युगल; (प० च० १३, ८, ३) ।

जुय—वि० (सं० युत) मिला हुआ,
युक्त; (जस० २, १, २७; क० २, ६,
२) ।

जुय—पुं० (सं० युग > प्रा० जुग)
१. काल-विशेष—सत्य, त्रेता, द्वापर
और कलि ये चार युग, २. पांच वर्ष का
काल; (सं० रा०; ण० ३, १०, १०;
जस० १, ६, ६) ।

जुवराज—पुं० (सं० युवराज) युवराज;
(ण० ५, ६, १२) ।

जुयल—न० (सं० युगल > प्रा० जुगल) जोड़ा, युग्म, उभय; (जं० १, १, १२; ण० १, २, १०; सं० रा०) । —य न० (सं० युगल + क) युग्म; (भ०) ।

जुयलुल्ल—न० [सं० युगल + > प्रा० जुअल + उल्ल (स्वार्थे)] युग्म, जोड़ा; (ण० ३, ६, ३; जं० ४, १३, १७) ।

√जुर—(सं० क्रुध्) क्रोध करना । —इ अक० (पङ्) । २. सं० √खिद्; खेद करना, धफसोस करना; (पङ्) ।

जुसमिल्ल—वि० (दे०) गहन, निविड; (दे० ना० मा० ३, ४७) ।

जुसमिल्लय—वि० (दे०) गहन, निविड; (दे० ना० मा० ३, ४७) ।

जुतिअ—(सं० जुड) जुड गए, युक्त हो गए; (प्रा० पै० १, १३५) ।

जुव—पुं० (सं० युवन् > प्रा० जुव) युवा, जवान, तरुण; (सि० २, १२) ।

जुवइ—स्त्री० (सं० युवति > प्रा० जुवइ) तरुणी, जवान स्त्री; (ण० ३, ११, ४) । —ण युवतीजन; (सि० १, ३२) । —यण युवतीजन; (जं० १, १६, ६; क० ७, ७, ४) ।

जुवई—स्त्री० (सं० युवति > प्रा० जुवइ) तरुण स्त्री; (जस० १, ४, ४) । —यणु स्त्री० (सं० युवतीजन > प्रा० जुवइ, जुवइ + जण) जवान स्त्रियाँ; (प० च० १४, ४, ६) ।

जुवईस—पुं० (सं० युवति + ईश > प्रा० जुवइ + ईस) युवती का स्वामी; (ण० ५, ११, १३) ।

जुवराय—पुं० (सं० युवराज) राजा का

वह राजकुमार जो राजसिंहासन के लिए मनोनीत कर लिया गया हो; (व० १, १०, ६) । —पट्ट पुं० (सं० युवराज-पट्ट) युवराज का मुकुट भधवा पगड़ी या सत्र कपड़ों के ऊपर पहिने का वस्त्र; “महू जुवरायपट्टु वज्जंसइ;” अर्थात् मुझे युवराजपट्ट बांधा जायेगा; (जस० ३, ३४, ११) ।

जुवल—न० (सं० युगल) युग्म, जोड़ा, उभय; (जस० ३, ३४, ७; क० ७, १५, ६; प० च० ३२, ७, १०) । —य (सं० युगल + क) तुल० म० जुळें ।

जुवाण—वि० (पुं० स्त्री०) (सं० युवन् > युवान > प्रा० जुवाण) जवान, तरुण; तुल० म० जवान; (ण० ४, ६, १५; सि० २, ३५; प० च० ५, १३, ६; सं० रा०) । टि०—मूल संस्कृत युवा, युवान पुरुषवाची है, किंतु अपभ्रंश में ‘जुवाण’ पुं० और स्त्री० का भेद नहीं रखता ।

जुवारी—स्त्री० (सं० युवति > प्रा० जुवइ) तरुणी, जवान स्त्री; (प० च० ८, १८४) ।

जुवार—पुं० (सं० द्यूतकार) जुआरी; (जं० ४, २, ८) ।

जुवि—स्त्री० (सं० द्युति) शरीर की सहज कांति, आभा, छवि; (व० ४, १८, १२) ।

जुववण—न० (सं० यौवन > प्रा० जोववण, जुववण) तारुण्य, जवानी; (ण० ७, १५, ६; प्रा० पै० १, १३२) ।

√जुहार—(सं० जयकार > प्रा० जेक्कार > अप० जोक्कार > जोआर > ओहार) जुहारना, नमस्कार करना;

तुल० गु० जुहारबुं; (प्रा० गु० २५, १०) ।

जुहिट्ठर—पुं० (सं० युधिष्ठिर) पाण्डुराज का ज्येष्ठ पुत्र; (प्रा० पं० २, १०१) । जुहिट्ठिल; (जस० १, ६, १२; सुदं० २, १०, ६) ।

जूअ—न० (सं० घृत् > प्रा० जूअ) जूआ, घृत; तुल० म० जुआ (वा); (ण० ३, १३, ८) । पुं० (सं० घृतकार) जुवाड़ी; (व० २, २२, ४) ।

जूअअ—पुं० (दे०) चातक पक्षी; (दे०-ना० मा० ३, ४७) ।

जूआर—वि० (सं० घृतकार) जूआरी; तुल० गु० जुआरी, म० जुगार, जुवार; (प० च० ४२, १०, ५) ।

जूऊ—न० (सं० युद्ध > प्रा० जुऊ) लड़ाई; (रा० ३८) ।

जूठ—पुं० (सं० जुष्ट > प्रा० जुठ्ठ) उच्छिष्ट, जूठा, वह जिसका सेवन कर लिया गया हो, जिसमें से कुछ ले कर खा लिया गया हो; "सर्व को जूठ सर्वे खा;" (की० २, १८८) ।

जूड—पुं० (सं० जूट) कुंतल, केश-कलाप; (दे० ना० मा० ४, २४; म०) ।

जूत—वि० (सं० युक्त > प्रा० जुत्त) संगत, उचित, योग्य; तुल० गु० जूत्यो; (प्रा० गु० २०, ३) ।

जून—वि० (सं० जीर्ण > प्रा० जुण्ण) बुढ़ा, पुराना । —उ वि० वृद्ध; (रा० ३०) ।

जूयारत्तरा—पुं० (सं० घृत + आरक्त-त्व) घृतानुराग; (ण० ३, ३, १६) ।

√जूर—(सं० √जूर > प्रा० जूर) जलना, क्रोध करना । —इ व० (सं० जूर्यते) (ण० ३, ६, १२) । "दुज्जगु जो जूरइ सो जूरउ," अर्थात् जो दुर्जन जले सो जले, (ण० ३, ६, १२) । भूरना; (सुदं० ८, ८, ८) । जूरंत—कृ० (सं० जूर + शतृ) । जूरंतिय—(स्त्रियाम्); (जंबू० ६, १३, ३) ।

जूरण—न० (सं० प्रा० जूरण = सूखना, भुरना) व्याकुल हो उठना; "बइरिमा-णिणीहिययजूरणं;" अर्थात् शत्रुओं की मानिनी स्त्रियों के हृदय व्याकुल हो उठे; (ण० ४, १०, १४) ।

जूरवणी—वि० वेदयित्री; "लच्छि व तिय-ह्वे जूरवणी;" (प० च० ४१, ४, ४) ।

जुरावण—पुं० (सं० जूरण > प्रा० जुरा-वण = शोषण) सताने वाले; "एत्यन्तरे जमं-जुरावणेणं" —इसके अनंतर, यम को सताने वाले; (प० च० १२, ५, १) ।

जूरिअ—(दे०) वेद-प्राप्त, वेदित; (जस० १, २२, ६) ।

जूरिय—वि० (सं० ज्वरित) ज्वरयुक्त, जिसे ज्वर चढ़ा हो; (क० १, १७, ६) ।

जूव—न० (सं० घृत > प्रा० जूव, जूअ) जूआ, घृत; (क० ८, १३, ४) । —फल पुं० (सं० घृतफल) घृत का परिणाम; (जंबू० ४, ३, ८) ।

जूवार—वि० (सं० घृतकार > प्रा० जूअ-कार) जूआरी, जूए का खिलाड़ी; (ण०

३, १३, ४; जंबू० ८, ३, १३; क० ८, १५, २) ।

जूसअ—वि० (दे०) फँका हुआ; (पड्) ।

जूह—न० (सं० यूथ > प्रा० जूह) १. समूह, जत्था; (भ०) । २. झुंड; (प्रा० पं० २, ११३; जंबू० ८, १०, ४) । —वई पुं० (सं० यूथपति) किसी टोली या दल का नायक, अगुआ; (जंबू० ६, ७, १) ।

जूहाहिअ—पुं० (सं० यूथाधिप) किसी टोली या दल का नायक, अगुआ; (जस० ३, ८, ४) ।

जूहिद—पुं० (सं० यूथेन्द्र) यूथनायक, किसी टोली या दल का नायक; (जस० ३, ४०, ६) ।

जूहिय—स्त्री० (सं० यूथिका > प्रा० जूहिया) जूही का पेड़; तुल० म० जुई; (ण० ८, १, १४) ।

जूहिया—स्त्री० (सं० यूथिका) लता-विशेष, जूही का पेड़; (प० च० ५३, ७६) ।

जूहेस—पुं० (सं० यूथेश) झुंड का नायक; (जस० ३, ६, १३) ।

जे—सर्व० (१) जिसने, (प० च० १, १०, ६) । २. जो; (ण० १, १६, १) ।

जेइ—सर्व० (सं० येन) जिससे, जिसके द्वारा, जिस लिए; (उ० व्य० प्र० १५-७) ।

√जेम—(सं० √जिम् > प्रा० जिम) जीमना, भोजन करना; (उ० व्य० प्र० १५, १६) ।

√जेव—(सं० √जिम् > प्रा० जिम, जिम्म) जीमना, भोजन करना । —इ व० (सं० जिम्बति); (महा० १८, ७, ११) । जेवि जेवि—पू० का० कि० (सं० जिमित्वा) (उ० व्य० प्र० २०, २०) ।

जेवण—न० (सं० जेमन > प्रा० जेमण) जीमन, भोजन; (उ० व्य० प्र० ११-२४) ।

जे—वि० (सं० यः) जो; तुल० राज० ज्यों, (प्रा० पं० १, ६; रा० ६; हे० ३७६, २; उ० व्य० प्र० १०, १०) । २. जिन्होंने; (की० १, ७७) । ३. जव; (की० २, ४) ।

जेइ—सर्व० (सं० येन) जिससे, जिसके द्वारा, जिस लिए, जिस कारण से; (उ० व्य० प्र० १५-४) ।

जेट्ठ—वि० (सं० ज्येष्ठ > प्रा० जेट्ठ) महान्, बड़ा; तुल० गु० जेठो; म० जेठा; (भ०) । २. जेठी, बड़ी; (व० ३, ३, ७) । ३. ज्येष्ठ मास; (व० १०, ४१, ६; की० २, ४२) । —उत्त पुं० (सं० ज्येष्ठ + पुत्र) बड़ा पुत्र; (क० ८, ४, ८) ।

जेण—अव्य० (सं० येन > प्रा० जेण) १. जिससे; (विला०; परमा०) । २. जिन्होंने; (महा० संधि० ६८) ।

जेता—वि० (सं० यावत् > प्रा० जेत्तिअ) जितना, तुल० गु० जेटलु; (प्रा० गु० ३६, २६) ।

जेत्तह—अव्य० (सं० यत्र) जहाँ; (जंबू० ३, ४, ११) । जेत्तिह—अव्य० जहाँ;

(जस० ३, १२, ६) । जेतहे—अव्य०
जहाँ; (ण० ५, २, २) ।

जेत्तिउ—वि० (सं० यावत् > प्रा०
जेत्तिअ) जितना; (प० च० १६, १५,
६) ।

जेत्तिय—वि० (सं० यावत् > प्रा०
जेत्तिअ) जितना; तुल० म० जितकें;
(भ०) ।

जेत्थ—अव्य० (सं० यत्न) जहाँ; (जंबू०
१, ३, २) । जेत्यु—अव्य० (व० ३, १,
१३; जस० १, ५, १०; महा० ६८,
५) ।

जेथु—सर्व० (सं० यस्मै) जिसके लिए;
(उ० व्य० प्र० १४, ३०) ।

जेन्ने—सर्व० (सं० येन) जिससे; (की०
१, ६२) ।

जेन्ह—सर्व० जिन्होंने; (की० ३,
१४६) ।

जेभाई—स्त्री० (सं० जृम्भिका) जँभाई;
(व० ६, ६, ५) ।

जेम—अव्य० जैसे, यथा, जिस प्रकार;
तुल० गु० जेम; (व० १, १४, ६; जस०
१, ३, १, महा० ६८, ११, ३) ।

जेमण—न० (सं० जेमन) जीमन, भोजन;
(संधि० ४, २, ६) ।

जेमणय—न० (दे०) दक्षिण अंग; तुल०
गु० जमणुं; (दे० ना० मा० ३,
४८) ।

जेमणय—न० (दे०) दक्षिण अंग, दक्षिण
(—कर); तुल० गु० जमणो, जमणुं;
(प० च० ५१, २, १०) ।

जेमिय—वि० (सं० जेमित > प्रा०
जेमिय) जीमा हुआ, जिसने भोजन किया

वह; (सुदं० ५, ७, ३) ।

जेवं—अव्य० (सं० यथा) जैसे, जिस
तरह से; (प० च० ३५, ६, ४) ।

जेवड—वि० (सं० यावत् > प्रा०
जेत्तिल) जितना । जेवडु; (हे० ४०७) ।

जेवणवेल्इ—स्त्री० (सं० जेमन (भोजन)
+ वेला > प्रा० जेमणवेला) भोजन या
जीमन की वेला, "जेवणवेल्इ महमहइ
सह;" (जस० २, २३, ११) ।

जेवा—वि० (प्रा० जेव) समान; तुल०
गु० जेवा; (प० च० २५, ७, १) ।

जेह—वि० (सं० यादृश > प्रा० जे.)
सदृश, जैसा; (भ०; जंबू० १०, ५, ८) ।

—अ वि० जैसा; (ण० ३, ११, १२) ।

—य वि० जैसा; (प० च० ५, ६,
४) ।

जेहुड—वि० (सं० यादृश) जिस प्रकार;
(सुद० ८, १२, १२; यो० ५०;
परमा०) । २. जैसा, (जस० ४, २३,
१६) ।

जेहे—वि० (सं० यस्य) जिस (विभक्ति-
युक्त विशेष्य के साथ 'जो' का रूप);
(की० २, ६३) ।

जो—सर्व० (सं० यः) १. जो; 'जो एथु
वूइइ' सो एथु वीरा; तुल० मगही जे;
(कुक्कुरीपा: चर्यापद; उ० व्य० प्र० १०,
८; ण० १, ४, ११) । २. जिस; (प०-
च० १२, ६, ४) ।

√जोअ—(सं० दृश् का धात्वा० प्रा०
जो, जोअ) देखना; (सुदं० ६, २०, ५;
जसं० ४, ४, १५) । —इ व० देखता है;
(की० २, ३६) ।

जोअ—पुं० (दे०) १. चंद्र, चंद्रमा;

(दे० ना० मा० ३, ४८) । पुं० (सं० योग) जोग, ध्यान, मन का संकेद्रीकरण; (जं० ११, ४, ८) ।

जोअण—न० (दे०) लोचन, नेत्र, चक्षु; (दे० ना० मा० ३, ५०) । पुं० (सं० योजन) योजन; (हे०, ३३१) ।

जोअण्णा—वि० (सं० यौवनवत्) जवान; (की० ४, ११०) ।

जोआ—स्त्री० (सं० द्यौ) स्वर्ग, आकाश; (पड्) ।

जोइंगण—पुं० (सं० ज्योतिस् + इङ्गण > प्रा० जोइंगण) १. जुगनु, कीट-विशेष; (जं० ८, १४, २१) । २. इंद्रगोप (वीर बहूटी); (दे० ना० मा० ३, ५०) । ३. तारा; (सं० रा०) । जोइङ्गण—पुं० खद्योत; (प० च० १८, ७, ५) । टि०—मूल शब्द ज्योतिस् + इङ्गण का अर्थ 'जुगनु' है। अर्थात्तरण से 'जोइंगण' शब्द का अर्थ है 'तारा हुआ' ।

जोइ—वि० (सं० योगिन् > प्रा० जोगि, जोइ) १. चित्त निरोध करने वाला; २. पुं० मुनि, यति; (ण० १, ४, ६) । ३. रामचंद्र का स्वनाम ह्यात एक सुभट; (प० च० ६७, १०) । ४. स्त्री० (सं० युवति > प्रा० जुवइ) तरुणी; (उ० व्य० प्र० २१-२८) । —उ पुं० (सं० योगिन् > प्रा० जोगि) योगी; (परमा०) ।

√जोइ—(प्रा०√जो) देखना; (परम० १, ८६; हे० ३६४) । —उं भू० का० देखा; (महा० ६६, १६, १) । —ज्जइ व० पता लगाना; "दूवें पढम सत्ति जोइ-ज्जइ" दूत के द्वारा पहले (शत्रु की) शक्ति का पता लगा लेना चाहिए; (म०

१, १६, १) । —ज्जउं हूँहा जाना; (हे० ३५६, १) ।

जोइअ—वि० दृष्ट, देखा हुआ, अवलो-कित; (भ०; क० १, ७, ५) । जोइय—वि० दृष्ट; (ण० १, १४, ११) ।

जोइक्ख—पुं० (सं० ज्योतिष्क > प्रा० जोइक्ख) प्रदीप, दीपक, तारा; (सं०-रा०) ।

जोइणिपुज्ज—स्त्री० (सं० योगिनीपूजा) योगिनी की पूजा (जस० २, १५, ३) ।

जोइणिपुर—पुं० (सं० योगिनीपुर) नगर-नाम; (जस० ४, ३०, १०) ।

जोइणी—स्त्री० (सं० योगिनी) संन्या-सिनी; (जस० १, १६, ११) ।

जोइप्पह—स्त्री० (सं० द्युति प्रभा) स्त्री-विशेष-नाम; (व० ६, ८; १३) ।

जोइप्पिअ—पुं० वानर योद्धा; (प० च० ५७, ५) ।

जोइमई—स्त्री० रानी-विशेष- नाम; (प० च० १२, ३२) ।

जोइय—वि० दृष्ट; (जस० २, ३१, १०; जं० ४, ६, २) ।

जोइर—वि० (दे०) स्वलित; (दे० ना०-मा० ३, ४६) ।

जोइस—पुं० (सं० ज्योतिप > प्रा० जोइस) १. सूर्य, चंद्र आदि देवों की एक जाति, "जोइस—भवणन्तरें जि अहिद्विय । भीसण-सीहणिणाय समुद्विय" 'ज्योतिप देवों के भवनों में भीषण सिंह-नाद होने लगा, (प० च० २, १, ४) । २. शास्त्र-विशेष, ज्योतिपशास्त्र; (ण० ३, १, ५) । पुं० (सं० ज्योतिप) ज्यौ-

तिप शास्त्र; (जस० १, २४, ५) । न० (दे०) नक्षत्र; (दे० ना० मा० ३, ४६) । पुं० ज्योतिष् (देव) ज्योतिष नामक देव; (व० १०, १, ३; जंबू० १, १६, =) । —गण पुं० (सं० ज्योतिष् + गण) सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि; (जंबू०) । जोइसू—पुं० ज्योतिष; (वि०) ।

जोइसिय-चक्क—पुं० (सं० ज्योतिश्चक्र) हर्य, चंद्र आदि का चक्र या मार्ग; (प०-च० २६, १४, =) ।

जोई—स्त्री० (दे०) विद्युत्, विजली; (दे० ना० मा० ३, ४६; पङ्) । पुं० (सं० योगिन् > प्रा० जोइ) योगी, यति, साधु; (प्रा० पै० १, १०४) ।

जोईस—पुं० (सं० योगीश > प्रा० जोईस) योगीश्वर, बहुत बड़ा योगी; (जस० १, =, ५) ।

जोईसर—पुं० (सं० योगीश्वर) योगींद्र, बहुत बड़ा योगी; (जस० १, ६, २१) ।

जोए—स्त्री० (सं० युवति > प्रा० जुवई, जुउइ, जोइ > जेय) स्त्री; (की० २, १६१) । टि०—कीर्तिलता में 'ए' स्वर से अंत होने वाले प्रातिपदिक शब्द पुं० तथा स्त्रीलिंग दोनों में मिलते हैं, यथा—पलए (प्रलय) ए०, पुं० । राए ए०, पुं० । माए ए०, स्त्री० आदि ।

जोएसर—पुं० (सं० योगेश्वर) योगींद्र, योगीश; (भ०) ।

जोक्कार—पुं० (सं० जयकार > प्रा० जेक्कार) 'जय-जय' की आवाज, स्तुति; (जंबू० ५, १, २१) ।

जोक्कारिड—क्रि०, भू० का०, जयकार

क्रिया; (प० च० ५, ५, =) । जोक्कारि-रिय—भू० का० जयजयकार क्रिया, (hailed); (प० च० २४, १०, १) ।

जोक्ख—वि० (दे०) मलिन, अपवित्र; (दे० ना० मा० ३, ४८) ।

जोक्खइ—सक० (१/प्रा० जो, जोअ) तोलना; (महा० ४-५-५) । जोक्खन्तय—व० कृ० देखता हुआ; (प० च० १०, १, ६) ।

जोग—वि० (सं० योग्य) कादिल, किसी कार्य को करने के लिए उपयुक्त; (जंबू० ११, १४, ६) । २. पुं० (सं० योग) जोग; तुल० म० गु० जोग; (भ०) । —वट्ट पुं० (सं० योगपट्ट) योगी का वस्त्र; "गलि जोगवट्टु सज्जिड विच्चित्तु;" (जस० १, ६, ६) ।

जोगेसर—पुं० (सं० योगीश्वर > प्रा० जोगीसर, जोईसर) योगिराज; (प० च० ५, १५, २) । जोगेसरु—पुं० योगीश्वर; (प० च० १३, ६, ५) ।

जोगेसी—स्त्री० (सं० योगेसी) विद्या-विशेष; (प० च० ७, १४२) ।

जोगग—वि० (सं० योग्य > प्रा० जोग्ग) योग्य; (प० च० २, २, ६; प० १, १५, ११; प्रा० पै० २, १५१; जस० १, १४, ६) । जोग्गु—योग्य; (महा० ६६, १=, ६) । पुं० (सं० योग) चित्त-निरोध, "तिहे जोग्गकम्मपरमारुखंधु, परिवड्ढि-यअहमिय-वुद्धिबंधु;" (जंबू० २, १, १०) ।

जोग्गा—स्त्री० (दे०) खुशामद, चाटु; (दे० ना० मा० ३, ४=) ।

√जोड—(सं० योजय्) जोड़ना, संयुक्त

करना । —वि० पू० कां० क्रि०, (जंबू० १, २, ६) । —डिवि पू० कां० क्रि०; (क० २, १, १२) । —हि (विध्यर्थक) जोड़ दो; (म० १, १६, ३) । जोड़रुण कृ० जोड़कर; (व० ८, १०, १) ।

जोड़—पुं० न० (दे०) नक्षत्र; (दे० ना० मा० ३, ४६) ।

जोड़णय—वि० (सं० योजनक) जोड़ने वाला; (जंबू० ६, १६, १०) ।

जोड़ि—स्त्री० (√युज्) जोड़ी, युग्म; “कुसुमेहिं जोड़ि;” अर्थात् कुसुमों की जोड़ी; (व० १, ६, ६) ।

जोड़िअ—पुं० (दे०) व्याघ्र, वहेलिया; (दे० ना० मा० ३, ४६) । वि० (सं० योजित) जोड़ा हुआ, संयुक्त किया हुआ; (जंबू० ४, २, १७) । जोड़िय—वि० योजित; तुल० गु० जोड़युं; (संवि० ३, १०, २) ।

जोड़िया—वि० (सं० योजित > प्रा० जोड़िअ) जोड़े हुए; (दे० सा० दो०) ।

जोणपुर—पुं० जौनपुर, नगर-विशेष-नाम; (की० २, ७७) ।

जोणि—स्त्री० (सं० योनि) प्राणियों की जातियाँ जिनकी कुल संख्या ८४ लाख कही गई है; “तियस-जोणि-संपुडहो-मणोरम;” अर्थात् देवयोनि-सम्पुट अत्यंत अनुपम एवं मनोरम है; (व० १०, ३२, ८; जंबू० २, २, ३) ।

जोणी—स्त्री० (सं० योनि > प्रा० जोणि) उत्पत्ति-स्थान; (जस० १, १८, ६) ।

जोग्गलिआ—स्त्री० (सं० यवनाल) जोन्हरी, ज्वार, धान्य-विशेष; (दे० ना०-

मा० ३, ५०) ।

जोण्ह—स्त्री० (सं० ज्योत्स्ना > प्रा० जोण्हा) चंद्र-प्रकाश; (व० २, ३, १६; प्रा० पू० २, २०१; जस० १, ६, १४) ।

—। (जोण्हा) स्त्री० ज्योत्स्ना; (जंबू० ४, १०, ३) । जोण्हा—रङ्खोलिर चाँदनी का विस्तार; “जोण्हा-रङ्खोलिर-हार-भार;” (प० च० १३, १२, ८) ।

जोत्त—न० (सं० योक्त्र > प्रा० जोत्त) जोत, रस्ती या चमड़े का तस्मा; (प०-च० ४, ८, ३) ।

जोत्तार—पुं० (सं० योक्त्र) योक्ता, रथवान, “संदण उज्जोत्तिय जोत्तारहिं;” अर्थात् रथवानों ने रथों के जोत उतार दिए; (जंबू० ५, १०, २०) ।

जोत्तिउण—कृ० (सं० योजयित्वा) जोतकर; (प० ६, १३, ११) ।

जोत्तिय—न० (सं० योक्त्र > प्रा० जोत्तय) जोत, रस्ती या चमड़े का तस्मा जिससे वैल या घोड़ा, हल या गाड़ी में जोता जाता है; (व० ४, २०, १२) ।

जोण्ह—स्त्री० (सं० ज्योत्स्ना > प्रा० जोण्हा) चंद्रमा का प्रकाश; “नहि निम्मल जोण्हाणिए विणु मंडलेण को विप्पइ;” अर्थात् किंतु आकाश में निर्मल ज्योत्स्ना को देखकर क्या कोई उस पर मल-मूत्र फेंकता है; (व० ५, ३, १५) । —हि; (रा० २७) ।

जोयंगण—पुं० (सं० ज्योत्सु + इङ्गण > प्रा० जोइंगण) जुगनू; (भ०) ।

√जोय—(सं० दृश्, प्रा० जो, जोअ) देखना । —इ व० (जंबू० ६, ५, ६) ।

—ह (विधि०) ।

√जोय—(सं० योजय् > प्रा० जोअ) जोड़ना, युक्त करना। जोइवि—पू० का० क्रि०, (सं० योजयित्वा) जोड़ कर; (भ०)। जोएइ—सक० (सुदं० ६, २०, ५)। जोलि—पू० का० क्रि०, जोड़ कर (की० ४, ६४)।

जोय—पुं० (सं० योग > प्रा० जोग) व्यापार, मन, वचन और शरीर की चेष्टा; (जंबू० ११, ३, २)। —उ पुं० योग, चित्त-निरोध; (ण० ६, ४, ८)।

जोयण—न० (सं० योजन > प्रा० जोअण) १. परिमाण-विशेष, चार कोस (क० १, ३, २; सं० रा०)। —सय न० (सं० योजनशत) सौ योजन; (जंबू० ५, ४, १३)।

जोयण—न० (जोअण=लोचन; दे०-ना० मा० ३, ५०) दृष्टि; (प० च०-६, ११, ६)।

जोयणगंधा—स्त्री० गंधारं के राजा भूरिण की रानी; (प० च० ३१, २३)।

जोयलीण—वि० योगलीन; (जंबू० १०, २६, ६)।

जोले—पू० का० क्रि०, चढ़ाकर, "बेलक काटि कमानहि जोले;" अर्थात् घनुप चढ़ाकर बेलक नाम के दुफंकी तीर से निशाना काटते थे; (की० ४, ७८)।

जोव—पुं० (दे०) १. विदु; २. स्तोक, थोड़ा; (दे० ना० मा० ३, ५२)।

√जोव—(प्रा० जो, जोअ) देखना। —इ व० (पाहु०; प० च० ७, १०,

६)। —हि आ० देखिए; "जोवहि घर-णिबइ पियघरिणि जंति घरु जारहो," अर्थात् हे पृथ्वीपति, अपनी इस प्रिय गृहिणी को श्रृंगार की सामग्री ले कर जार के घर जाती हुई देखिए, (ण० ३, ८, १८)। जोयहो—क्रि० आ०, देखो; (प० च० २, ३६)। जोएँवि—पू० का० क्रि०, (प० च० ६, २, १)।

जोवण—न० (सं० यौवन > प्रा० जोवण) तारुण्य, जवानी; (जंबू० २, १५, ३)। जोव्वण—न० यौवन; (जंबू० २, १४, ६)।

जोवणइत्तिअ—स्त्री० (सं० यौवनवती) जवान स्त्री; (सुदं० ११, २, ८)।

जोवारि—स्त्री० (सं० यवनाल > प्रा० जोवारि) ज्वार, धान्य-विशेष; (दे०-ना० मा० ३, ५०)।

जोविअ—वि० दृष्ट; (सुदं० २, १३, ७)।

जोव्वणइत्ती—वि० (सं० यौवनवती) यौवन वाली; (प० च० ४, ६, ६)।

जोव्वणणीर, जोव्वणवेअ—न० (दे०) बूढ़ापा; (दे० ना० मा० ३, ५१)।

जोव्वणोवय—न० (दे०) बूढ़ापा; (दे०-ना० मा० ३, ५१)।

जोसिआ—स्त्री० (सं० योपित्) स्त्री, महिला; (पड्)।

जोह—पुं० (सं० योध > प्रा० जोह) सुभट, यौद्धा; तुल० म० जोघा; (ण० ७, ५, ५; प० च० ८, ६, ४)।

√जोह—(सं० √युध्) लड़ना। —इ अ० (भ०)।

जोहिय—भू० का०, जूझ गए, “के वि जोह जोहियाई;” अर्थात् कितने ही योधा जूझ गए, (क० ३, १७, ७) ।

जोहणय—वि० (सं० योधित्) लड़ाने वाला; (जंबू० ६, १६, ८) ।

जोहणार—पुं० योधनद्वीप; (जंबू० ६, १६, १६) ।

जोहल—पुं० (छंदशास्त्र में) रगण (ss); (प्रा० पै० १, १५६) ।

जोहार—पुं० (सं० ज्योक् आकारयति > प्रा० जोक्कारइ > जोहारइ) नमस्कार, अभिवादन; तुल० गु० जुहारवु; (प्रा० गु० १६, २१) ।

जोहेयअ—पुं० (सं० योधेय + क) जनपद नाम-विशेष; (जस० १, ३, ४) ।

जो—अव्य० (सं० यदि) यदि, जो; (की० २, १८५) ।

ज्ञातु—वि० रसज्ञ; (की० १, १३) ।

ज्जे—वि० एव, “दीसइ सो ज्जे णाई ऐहु वम्भणु;” तुल० गु० ज; (प० च० २५, १६, ६) ।

ज्जहुराविअ—वि० (दे०) निर्वास-प्राप्त; (षड्) ।

झ

झ—पुं० (सं० प्रा० झ) व्यंजन वर्ण-विशेष । तालव्य, नाद, घोष, महाप्राण, निरनुनासिक, स्पर्श संघर्षी ध्वनि ।

झंकार—स्त्री० (सं० झङ्कार > प्रा० झंकार) झनझन की ध्वनि, नूपुर आदि की आवाज; तुल० राज० झंकार; (ण०

७, १, ८; जंबू० ५, १, २३; जस० २, ३, १०) । झङ्कार; (प० च० १४, ३, २) । झङ्कारिएसु—ध्वनि, “भमर झङ्कारिएसु;” (प० च० ७, २, ३) ।

√झंकार—(सं० झङ्क) झनझन का शब्द उत्पन्न होना । —इ व० तुल० राज० झंकारणी, झंकारवी; (जंबू० ४, १३, ८) ।

झंकारिअ—न० (दे०) अवचयन, फूल आदि का आदान; (दे० ना० मा० ३, ५६) ।

झंकोलिय—वि० झकझोरित, झकझोरा हुआ; (सुदं० ११, १८, २०) ।

झंकोलिर—पुं० झोंका; वेग से चलने वाली किसी वस्तु के स्पर्श का आघात; “झंकोलिरपरिहणपडिविहाउ;” अर्थात् हवा के झोंकों से परिधान के उड़ने से; (जंबू० ४, १५, १३) ।

झंख—वि० (दे०) संतुष्ट, प्रसन्न; परितुष्ट, परितुष्ट; (दे० ना० मा० ३, ५३) ।

√झंख—झखना, परेशान होना, संतुष्ट होना, संताप करना; (जंबू० ८, ११, १४) । √झंख—१. सं० प्र० + लप्; बड़बड़ करना, बकवाद करना (prattle); झंखहि; (प० च० ५२, २, ३) ।

२. कहना; झंखहि; (हे० अप० व्या०, ३७६) । ३. रोना; झंखणे; (की० ३, ७४) ।

झंखड—पुं० (दे०) आंधी; (सं० रा०) ।

झंखर—पुं० (दे०) शुष्क तरु; (दे० ना० मा० ३, ५४; सं० रा०) ।

झंखरिअ—न० (दे०) पुष्पादिकाचयन, तोड़कर इकट्ठा करना; (दे० ना० मा०—३, ५६) ।

झंझं—पुं० (झन् झन् से अनु०) ध्वनि; (जंबू० ५, ६, १०) ।

√झंझण—(सं० √झंझणाय्) झन-झन करना । झिझित—कृ० झनझनाते हुए; (सुदं० ७, ६, १०) ।

√झंझणवक—(सं० भञ्भन) भण-भण का शब्द करना —इ सक०; (प्रा०—पै० २, १=५) ।

झंटलिआ—स्त्री० कुटिल गमन, इधर-उधर घूमना; (दे० ना० मा० ३, ५५) ।

झंटी—स्त्री० (दे०) छोटा कितु ऊँचा किया हुआ केश-कलाप; छोटे और उठे हुए बाल; "लघुर्ध्वकेशा;" (दे० ना०—मा० ३, ५३) ।

√झंप—(सं० झम्पः=उछल, कूद छलांग) १. गोता लगाना; (सुदं० २, १४, ४) । २. कूदना; (जंबू० २, ४, १२; की० ३, १४६) । तुल० म० झांप, झँप राज० । झांपणों; (leap) छलांग भरना, कूदना । २. —इ सक० (सं० आच्छादय् का घात्वादेश > प्रा० झंप) झांपना, आच्छादन करना, ढकना; (सं० रा०, सुदं० ४, ११, १२) झंपिअ—झांपना, ढाँकना; (प्रा० पै० १, ६२) । झंपंत—अक०, भू० का०; (सं० तृट्+शतृ) दूट रहे थे, "झंपंत फारक्कफारं;" बड़े-बड़े शस्त्र दूट रहे थे; (जंबू० ६, ७, ३) । झंपड—भू० का० आँखें बंद की (महा० ११, १२, ५) । झंपऊण—कृ०

ढँक कर; (सुअंघ० २, ६, १) । झंपिआ—क्रि० (सं० आच्छादय् का घात्वादेश झंप) झांपना, ढकना; (की० ३, ६८) । झंपिय—भू० का० ढके हुए; (परम० २, १६, ६) । झंपिवि—पू० का० क्रि० आच्छादित कर; तुल० म० झापणें, (भ०) ।

झंपड—वि० (दे०) विकराल, विशाल; (सुदं० ८, ४४, ५) ।

झंपडिय—भू० का०, झाड़ा-झटका; "मुक्कट्टहासाईं झंपडियकेसाईं;" वे अट्टहास कर रहे थे और अपने केशों को झाड़-भटक रहे थे; (जस० १, १६, ६) ।

झंपण—पुं० (दे०) आक्रमण; (संघि० १२, १, १६) ।

झंपणी—स्त्री० (दे०) आँख के बाल, बरौनी; (दे० ना० मा० ३, ५४) ।

झंपाण—पुं० आच्छादन, झांपना; (जंबू० ४, १७, ६) ।

झंपिअ—वि० (दे०) १. वृत्ति; २. आहत; (दे० ना० मा० ३, ६१) ।

√झंष—(सं० विलप् का घात्वादेश > प्रा० अप० झंप) विलाप करना, रोना-घोना या संतप्त होना; (की० ३, ५६) ।

झंसी—पुं० वृक्ष-विशेष; (जंबू० ५, ८, ७) ।

√भकोल—(दे०) वस्तु को पानी में डूबोकर गंदा करना; तुल० गु० भकोल बुं; (प्रा० गु० २४, ६) ।

झक्किअ—न० (दे०) लोक-निंदा; (दे०—ना० मा० ३, ५) ।

√भख—(सं० वि + लप् प्रलापे; व्यर्थ बोलना, वकवाद करना; (प्रा० गु० २३, ३६) ।

झगमग—वि० जो जगमगाता हो, प्रकाशित, चमकीला; “झगमग-झगमग-गए कानिहिं वर-कुंडल;” तुल० गु० भगमगवुं, राज० झगमग, जगमग; (प्रा० गु० २२, ११) ।

झञ्झरी—स्त्री० (दे०) दूसरे के स्पर्श को रोकने के लिए चांडाल लोग जो लकड़ी अपने पास रखते हैं वह; (दे० ना० मा०-३, ५४) ।

झड—पुं० (प्रा०√भडप्प= भपट मारना, गिराना) आघात, “कक्खड भड-णिसुद्धिय-फड-कडप्पु’ —कर्कश आघात से नष्ट हो गया है फन-समूह जिसका, (प० च० १३, ८, ४; जस० ३, ८, ४) । क्रि० वि० (दे०) भट, शीघ्र; (म० २, १३, ५) । स्त्री० (दे०) निरंतर वृष्टि, झड़ी, तुल० गु० भडी; (प्रा० गु० ३, २२; प० च० १३, ८, ४) ।

झडक—पुं० अचानक झपटना (sudden rushing); “को वि जुज्झविउ मेस-झडक्कएँ;” (प० च० २५, १५, ७) ।

भडभडभडभड—पुं० भड़-भड़ की ध्वनि होना; (प० च० २८, २, ७) ।

भडति—अव्य० (सं० भटति) शीघ्र, जल्दी; न० भट; (जस० १, ६, १७; जंबू० ७, ८, ७) ।

√भडप्प—१. पकड़ना, —इ क्रि०, व०; भडपिप्य (caught with in); (प० च० ३२, १२, ६) । —इ; २. भप-

टना, झपट मारना, छीनना; तुल० म० झडपणें, गु० झडपवुं; (महा० ३०-४-६) । झणप्पंत—कृ० (आ० + छिद् + शतृ) झपटते हुए; (जंबू० ६, ७, ३) ।

झडप्पण—पुं० (दे०) दो जीवों की परस्पर मुठभेड़; तुल० म० झडप; (जस० २, ३३, ५) ।

झडप्पसाल—वि० झपटने वाला; (जंबू० ७, २, १४) ।

भडप्पिम—पुं० (दे०) भड़प, भपट; (सुदं० १, ७, १२) ।

झडपिय—वि० (दे०) छीना हुआ; (जंबू० ४, २०, १०) ।

भडा—स्त्री० (दे०) भड़प, भपट; (सुदं० २, १३, १; जंबू० ६, ६, ५) ।

भडि—स्त्री० (दे०, प्रा० भडी) निरंतर वृष्टि; (सं० रा०) ।

झडिअ=वि० (दे०) झड़ा हुआ, गिरा हुआ; (प० च० ६६, १५) ।

झडी—स्त्री० (सं० झर > झर > भड > प्रा० भडी) निरंतर वृष्टि; तुल० गु० झडी; (दे० ना० मा० ३, ५३) ।

झडुअ—पुं० (दे०) गेंद, (दे० ना० मा०-३, ५६) ।

√झण—(दे०) घृणा करना । —इ व० (षड्) ।

√झणझण—(सं० भगभणाय् > प्रा० झणझण) झन-झन आवाज करना; (ण० १, १३, ५) । झणझणंत—कृ० (सं० झणझणाय् + शतृ); (जंबू० १, १४, ७) ।

झणझणिय—वि० झणभणित; (सुदं० ३, ७, १२) ।

झत्ति—क्रि० वि० (सं० झटिति > प्रा० झडत्ति) झटपट, शीघ्र, जल्दी, तुरंत; (क० १३, ४, ३; प्रा० पै० २, १११; जस० २, १३, ५; व० ३, ७, २) ।

झत्थ—वि० (दे०) १. गत, गया हुआ; २. नष्ट; (दे० ना० मा० ३, ६१) ।

झपिअ—वि० (दे०) पर्यस्त (१. इधर-उधर फेंका गया, बखेरा गया; २. घेरा हुआ; ३. उलटाया हुआ, ४. पक्षच्युत, एक ओर रखा हुआ; ५. प्रहार किया हुआ; उत्क्षिप्त (ऊपर को १. फेंका हुआ, उछाला हुआ; २. पकड़ा हुआ, सहारा दिया हुआ, ३. आहत, ग्रस्त, ४. गिराया हुआ); (पड्) ।

√झवक्क—(प्रकाशस्पन्दे) झव-झव करना, ज्योति सी उठना; तुल० गु० झवक्कु; (प्रा० गु० २२, ६) ।

झमाल—न० (दे०) इंद्रजाल, माया-जाल; (दे० ना० मा० ३, ५३) ।

झम्प—पुं० (दे०) कूदना; तुल० गु० झंपलाववु (कूदना, झपटना) (प०-च० १७, १७, ४) ।

झय—पुं० स्त्री० (सं० ध्वज > प्रा० झय) ध्वजा, पताका; (सण्टु० ४५४) ।

झरंक, झरंत—पुं० (दे०) तृण का वनाया हुआ पुरुष, चञ्चा (पुआल का वना हुआ पुतला, गुड्डा, गुड़िया); (दे०-ना० मा० ३, ५५) ।

√झर—(सं० क्षर् > प्रा० भर) झरना, टपकना, चूना, गिरना; (सं० रा०) ।

झरंत—व० कृ० (सं० क्षरत्), (ण० ६,

१५, ५; क० ३, १, ३) । झरन्ति व० (जंवू० ७, १, १०) ।

झरय—पुं० (दे०) सुवर्णकार; (दे०-ना० मा० ३, ५४) ।

झरि—(दे०) झाड़ी; (जंवू० ५, ८, २४) ।

झरिह—वि० क्षरणशील, झरती हुई; (जंवू० ६, ६, १०) ।

झरुअ—पुं० (दे०) मच्छर; (दे० ना०-मा० ३, ५४) ।

झल—स्त्री० (दे०) १. उष्मा; तुल० म० झल; (जस० ३, ५, ११) । २. ज्वाला; (प्रा० गु० २४, १३) । ३. (प्रा० झला मृगतृष्णा; (सं० रा०) ।

√भल—(सं० जाज्वल् > प्रा० झल-झल) झलकना, चमकना, दीपना; (सं०-रा०) ।

झलकंत—वि० झालर वाला (छत्र) “सत्ति अमोह छत्तु झलकंतउ,” अर्थात् अमोघ शक्ति, झालरवाला छत्र; (व० ३, २०, ७) ।

√भलक्क—(सं० जाज्वल्) झलकना, आभा देना; (सं० रा०; जंवू० ४, १६, ७) ।

झलक्क—स्त्री० वौछार, छींटा, धारा; (splash); “पमुक्त झलक्क सहोयरासु । ण वेल समुद्धे महिहरासु —“भाई पर जल धारा छोड़ी, मानो समुद्र की वेला महीधर पर छोड़ी गई हो; तुल० गु० झालक, छालक; (प० च० ४, १०, ४) ।

झलविकर—वि० (दे०) दीप्त, जलता

हुआ, चमकता हुआ; तुल० झळकतुं; (संधि० ५, १, ५) ।

झलकिकय—वि० झयझलायित; झूलसते हुए, “उट्ठंति झलकिकय जलहिमंद;” अर्थात् मंद (शांत) जलधि झूलसते हुए ऊपर उठने लगे; (जंबू० ७, ८, ११) ।

√झलज्झल—(सं० जाज्वल् > प्रा० झलझल) झलझलाना; (जंबू० ७, ५, १२) ।

√झलझल—(सं० जाज्वल् > प्रा० झल-झल) झलकना, चमकना; (ण० ७, ५, १६) । —इ व० (महा०) । झलझलंत —व० कृ० दीप्यमान; म० झळकणें, झळाळरों; (भ०) । झलझलिउ—भू०-का०, झलझलाया; “मयरहर झलझलिउ;” अर्थात् सागर झलझलाया; (क० ३, १८, ८) ।

झलझलिय—वि० (सं० जाज्वलित) जग-मगाया हुआ; (सुदं० ६, १२, ७) ।

झलझलिया—स्त्री० (सं० झौलिक > प्रा० झौल्लिऊ) कोथली, झौली; (दे०-ना० मा० ३, ५६) ।

झलमल—(सं० जाज्वल्) चमच-माना, जगमगाना; —इ व० (सुदं० ११, १७, १३) । झलझलंति; (सुदं० ११, १५, १२) ।

√झलवज्जिअ—भू० का० कृ० (कर्मवा-च्य) झल् प्रत्याहार से रहित, “झलव-ज्जिअ तह वहिर अंध लंकारह रहिअउ;” अर्थात् झल् प्रत्याहार (अर्थात् झ, भ, ध, ढ, ध आदि वर्णों, से रहित छप्पय बहारा, है तथा अलंकार से रहित अंधा है; (प्रा० पै० १, ११६) ।

√झलहल—(सं० जाज्वल्) देदीप्यमान होना; तुल० गु० झळहळवुं; राज० झळ-हळणौ; (संधि० १२, ६, २७) ।

झला—स्त्री० १. (सं० ज्वाला > प्रा० झला) चमक, चमचमाहट; (कौ० ४, २३०) । २. (दे०) मृगतृष्णा, मृगमरी-चिका, व्यर्थ तृष्णा; (दे० ना० मा० ३, ५३) ।

झलाझल—(ध्व०) झलाझल का स्वर; (क० ४, ६, ५) ।

झलु क्रिअ, झलुसिअ—वि० दग्ध, जला हुआ; (दे० ना० मा० ३, ५६) ।

√झल्ल—जड़ देना; —उ क्रि०, व० उत्तम पुरुष, ए०, “खग्ग रिउसीसहि झल्लउ;” अर्थात् शत्रु के सिर पर तल-वार जड़ दूँ; (प्रा० पै० १, १०६) ।

झल्लरि—स्त्री० (सं० प्रा० झल्लरी) बलयाकार वाद्य-विशेष, झालर, झाँझ, मजीरा; तुल० गु० झालर; (प० च० १, ११, ४; व० ६, १४, ११; ण० ७, १, ५) । झल्लरी—स्त्री० वाद्य-विशेष; (जंबू० १०, १६, ३) ।

झल्लिर—पुं० (दे०) धारा, “विसहिय-पाउसजलझल्लिरहिं;” अर्थात् वर्षा ऋतु की जलधारा या वृष्टि को झेला था; (जस० ४, १६, ७) ।

झल्लोझल्लिउ—वि० क्षुब्ध; (भ०) ।

झस—पुं० १. (सं० झस > प्रा० झस) मत्स्य, मछली; (प० च० १, १५, ४; व० १०, ८, १२; जस० १, १०, ७) । २. पुं० (दे०) आयुध-विशेष, शस्त्र-विशेष; “असिवर-झस-मुसण्ढि-णारा-एँ हिं;” (प० च० ११, ८, ५) । कटारी;

(ण० ५, ४, ३) । ३. पुं० (दे०)
१. अयश; २. तट । ४. वि० तटस्थ,
मध्यस्थ; दीर्घ और गहरा; टांकी (छेनी.
कुल्हाड़ी) से छिन्न; (दे० ना० मा० ३,
६०) ।

सप्तम—पुं० (सं० सप्तक) छोटा मत्स्य;
(दे० ना० मा० २, ५७) ।

भस्तर—पुं० न० (दे०, प्रा० भस्तर)
शस्त्र-विशेष, आयुध-विशेष, “भस्तर-
तिसत्तिपरमु इक्षु-पासहं” —“भस्तर-त्रिश-
क्ति, फरमु और इपुयातो से; (प० च०
१७, ६, ६) ।

जसिअ—वि० (दे०) १. पर्यस्त, उत्क्षि-
प्त, गलित; (दे० ना० मा० ३, ६२;
जंबू० २, ५, १८) । २. जिस पर आक्रोश
किया गया हो वह; (दे० ना० मा० ३,
६२) ।

भस्मुर—न० (दे०, प्रा० भस्मुर) १. पान,
ताम्बूल, नागवल्ली; (सं० रा०) ।
२. अर्थ, (दे० ना० मा० ३, ६१) ।

√भांख—(प्रा० झंख) संतप्त होना,
निःश्वास लेना । —इ व०, अक० (रा०
१०) ।

√ज्ञा—(सं० √घ्यै > प्रा० ज्ञा) चिंता
करना, ध्यान करना । भाइय—भू०-
का०, ध्यान किया; “पुरुष भाइय सोलह-
अक्षरिय । जय (?) कोटि—सहास दह-
त्तरिय” फिर उन्होंने सोलह अक्षरों वाली
विद्या का ध्यान किया, उसका दस हजार
करोड़ दस जाप किया, (प० च० ६, ७,
८) । भाइउं—क्रि० भू० ध्यान किया;
(ण० १, १०, १०) । —एवि पू० का०
क्रि० (क० ७, १२, १०; जस० ३, १६,
७) । —एविणु—पू० का० क्रि० (सं०

ध्यात्वा) ध्यान करके; (हे० ४४०, १) ।
ज्ञायइ—व० (सं० ध्यायति) ध्यान
करना; (प० च० १, ७, ६) ।
ज्ञायउ—भू० का० ध्यान किया; (म० २,
६८, ५) । ध्यान करने लगे; “परिपु-
ज्जिउ ज्ञायउ आयरेहं;” (क० ५, ५,
८) । ज्ञायन्त—व० कृ०; (प० च० १६,
१४, ७) । ज्ञायमाण—कृ० ध्यान करते
हुए; (जंबू० १, १८, १३) ।

झाड—न० (सं० झाटः=वृक्षों का झुर-
मुट) १. निकुंज, झाड़ी, झाड़; (दे०-
ना० मा० ३, ५७) । २. वृक्ष; (दे०-
ना० मा० १, ६१) ।

झाडल—न० (दे०) कपास का वृक्ष,
कर्पास-फल; (दे० ना० मा० ३,
५७) ।

भाण—पुं० न० (सं० ध्यान > प्रा०
भाण) किसी के स्वरूप का चिंतन ध्यान,
विचार, उत्कण्ठापूर्वक स्मरण, (ण० ६,
५, ५) । २. चिंता; (प० च० २६, १,
११) । —गि स्त्री० (सं० ध्यान +
अग्नि > प्रा० भाण + अग्नि) ध्यान रूपी
अग्नि; (ण० ६, २०, १०) । —जुयल
पुं० (सं० ध्यान + युगल) धर्म व शुक्ल;
“जंतुपीडविरहिउ वयविद्धिहि, कारणु
ज्ञाणजुयलनयसिद्धिहि;” अर्थात् जंतु पीड़ा
से रहित होने से यह तप व्रतों एवं
ध्यान-युगल रूपी पर्वत की सिद्धि (आरो-
हण) का कारण है; (जंबू० १०, २२,
७) ।

ज्ञाणजोइ—पुं० (सं० ध्यान + योगिन्
> प्रा० ज्ञाण + जोइ) ध्यानलीन योगी;
(क० ६, १३, ८) ।

ज्ञाणद्वय—वि० (सं० ध्यान + स्थित) ध्यान में स्थित; (क० ३, २, १) ।

ज्ञाणागम—पुं० (सं० ध्यान + आगम) ध्यान व ज्ञान; (जं० १०, २१, ६) ।

ज्ञाणाणल—पुं० (सं० ध्यान + अनल) ध्यान रूपी अग्नि, “ज्ञाणाणले नालिवि कम्मत्तु;” अर्थात् कर्म रूपी वृक्ष को ध्यानान्नि में ऐसा जला दिया; (क० १०, २७, ५; जं० १, १, ६) ।

ज्ञाणाहृद—वि० (सं० ध्यानाहृद) ध्यान में लगा हुआ; (जस० ३, १७, ४) ।

ज्ञाणिग्नि—स्त्री० (सं० ध्यान + अग्नि) ध्यान रूपी अग्नि; (जं० १०, २२, ७) ।

ज्ञामर—वि० (दे०) वृक्ष, बूढ़ा; (दे० ना० मा० ३, ५७) ।

ज्ञामल—वि० (दे०) निम्प्रभ; (प्रा० गु० ३६, २६) ।

ज्ञामिअ—वि० (दे०) दग्ध, प्रज्वलित; (दे० ना० मा० ३, ५६) । ज्ञामिय—वि० दग्ध; (सं० वि० २, १८, ६) ।

ज्ञारुआ—स्त्री० (दे०) चीरी, अद्रु जंतु-विशेष; (दे० ना० मा० ३, ५७) ।

झाल—स्त्री० (सं० ज्वाला) अग्निशिखा, लपट; तुल० गु० झाल; (सं० रा०; प्रा० गु० १, ६४) ।

झालियड—भू० का०, गृहीत, ग्रहण क्रिया; “रवतह गांगह तीरि, दडड जेव उच्छालियड । घाड म होड सरीरि, पडतड दयकरि झालियड;” (प्रा० गु० ४, १५) ।

झिखिअ—न० (दे०) लोकपवाद, लोक-निंदा; (दे० ना० मा० ३, ५५) ।

झिक्किरि—स्त्री० (दे०) वाद्य; (सुदं० ७, ६, १०) ।

√झिज्ज—(सं० झि, क्षये) —इ व० (सं० क्षयति) छीजना, क्षय को प्राप्त होना; (सुदं० १०, ६, १५; क० ६, ८, ७) । झिज्जवि—पू० का० क्रि० (सं० झि + क्त्वा) (सुदं० ४, ५, १६) ।

√झिज्झ—(दे०) क्षीण होना; (सं० रा०) ।

झिन्दुअ—न० कंदुक; (प० च० २३, ४, ८) ।

झिमिझिमिय—वि० झिमिझिमित (व्य-न्यात्मक) झमकता हुआ; (सुदं० ७, ६, १३) ।

झिरिड—न० (दे०) जीर्ण या पुराना कूप; (दे० ना० मा० ३, ५७) ।

झिल्लिरि—स्त्री० (सं० झिल्लिका) श्रीगुर, प्राणी-विशेष; (जस० २, २७, ५) ।

झिल्लिरिआ—स्त्री० (दे०) १. चीही नामक तृण; २. मच्छर; (दे० ना० मा० ३, ६२) ।

झीण—न० (दे०) १. अंग, शरीर; २. कीट; (दे० ना० मा० ३, ६२) ।

वि० (सं० झीण > प्रा० झीण) १. दुर्बल, कृश; (सं० रा०) । २. झीना; (सं० रा० १७१; ण० ४, ७, ८; क० २, ६, ६) ।

झीणपह—पुं० झीणप्रभ; पर्वत-विशेष; (प० च० २७, २, २) ।

झीणी—वि० स्त्री० (सं० झीणा > प्रा० झीण) दुर्बल, कृश; (सुदं० ७, ४, ११) ।

श्रीरा—स्त्री० (दे०) लज्जा, शरम; (दे०-
ना० मा० ३, ५७) ।

शुंशुंसय—न० (दे०) मन का दुःख
(दे० ना० मा० ३, ५८) ।

शुंपडड—पुं० (दे० प्रा० शुंपडा स्त्री०)
कुटी, झोंपड़ा, तुल० गु० शुंपड्ड; (प्रा०
गु० ३८, १७) ।

शुंबुक—न० (दे०) भूमका; (जंबू० ४,
८, ८) ।

शुटठ—वि० (दे०) झूठ, असत्य; (दे०-
ना० मा० ३, ५८; ण० ६, १३,
१५) ।

शुटठी—वि० स्त्री० (दे०, प्रा० शुटठ)
झूठी, असत्य; तुल० गु० जूठी; (प्रा०-
गु० ५, १०) ।

शुण—पुं० (सं० ध्वनि > प्रा० शुणि)
शब्द, आवाज; (व० १, ८, १) ।

√शुण—(सं० ध्वन्) ध्वनि करना;
(सं० रा०; जस० २, १३, ४) । —इ
व०; (जंबू० १०, ८, ९) । शुणन्ति—
व०; (जंबू० ४, १५, ३) । शुणिज्जइ—
कर्मवाच्य, (सं० ध्वन्यते) (प० च० २४,
१३, ८) ।

शुणि—स्त्री० (सं० ध्वनि > प्रा० शुणि)
ध्वनि, शब्द, आवाज; (सं० रा०; प०-
च० ३, ११, १; हे० ४३२, १; रा०;
ण० २, ७, १) ।

शुणिय—वि० (सं० ध्वनित) शब्दाय-
मान; (व० ६, १५, ६) ।

शुत्ती—स्त्री० (दे०) छेद, विच्छेद;
(दे० ना० मा० ३, ५८) ।

शुम्बुक—न० (दे०) भूमका; (सुदं०
११, १२, ८) ।

शुम्बुक—न० (सं० स्तवक) समूह;
“वर-पवाल-माला-पलम्बिरं मोत्तिएक्क-
शुम्बुक-शुम्बिरं;” (प० च० ५५, ५,
८) ।

शुलुक—पुं० वायुलहरी; तुल० म०
शुलुक; “मुत्ताहलमाल भुलुकइहि;”
(भ० ४, १०, ११) ।

शुलुक्किय—वि० (सं० ज्वलित) भुल-
साया गया, जलाया गया; तुल० म० झल
लागणें; (प० च० ४६, ५, ७) । “विर-
हदवग्निभुलुक्कियकायउ” (भ० ३, २०,
८) ।

शुलुक्कियंग—वि० (सं० ज्वलित +
अङ्ग) भुलसते हुए अंगों वाला; (जंबू०
१०, १३, ११) ।

शुलुक्की—(दे०) भुलस गई; (जंबू०
१०, १५, ४) ।

√शुल्ल—(सं० आन्दोल का प्राकृत
घात्वादेश शुल्ल) भूलना; (सं० रा०) ।
—इ अक० भूलना, (महा० १४, ५,
१२) ।

शुल्लणा—स्त्री० (छंदशास्त्र में) झूलना
नामक छंद; (प्रा० पै० १, १५६) ।

शुल्लुरी—स्त्री० (दे०) गुल्म, लता, वृक्ष;
(दे० ना० मा० ६, ५८) ।

शुभ—न० (सं० युद्ध > प्रा० जुद्ध)
लड़ाई; (प्रा० गु० २६, ११) ।

शुठ—स्त्री० (सं० जुठ > प्रा० शुटठ)
१. जूठन; (उ० व्य० प्र० ५२-३) ।

२. वि०, असत्य (ण० ६, १३, १५) ।

शूर—वि० (दे०) कुटिल, टेढ़ा; (दे०-
ना० मा० ३, ५६) ।
√शूर—(सं० क्षि > प्रा० शूर) शूरना,

सूखना, क्षीण होना, विसूरना, क्लेश पाना; (स० रा०) । —इ अक० सं० स्मरति; स्मरण करना; (भ०) । —वइ भूरना, क्षीण होना (ण० ५, ८, १०) ।

तुल० म० झुरणें । भूरिज्ज—कर्मवाच्य; —इ, 'केत्तिउ वार वार भूरिज्जइ' कितना बार-बार भूरा जाय; (सुदं० ८, १०, १) ।

झूरिय—वि० (दे०) स्मृत, चितित; (जं० ७, ६, ३०) ।

झूल—पुं० (सं० आन्दोल का घात्वादेश झुल्ल) शोर; (की० २, १०४) ।

√ झुल्लंत—झूलना, लटक कर बार-बार इधर-उधर हटते बढ़ते रहना; "झुल्लंत तरुसाहागयाइ;" अर्थात् वृक्षों की शाखाओं पर चढ़कर झूलते हैं; (जस० २, २७, ७) ।

झूसरिअ—वि० (दे०) १. अत्यंत २. स्वच्छ, निर्मल; (दे० ना० मा० ३, ६२) ।

झेन्दुअ—न० कंदुक, गेंद; (जं० १, ६, ६) ।

झेन्दुलिय—स्त्री० (दे०) सं० पुंश्चली; रंडी, बेइया; "सव्वङ्ग-समुट्टिय-रोम-रइ, तहे पुत्तु वि भत्तारु वि मरइ । कडि-लच्छण भउँहावलि-मिलिय, सा देव रिारु-त्तउ जेन्दुलिय;" (प० चं० ३६, १५, ५) ।

झेडलिआ—स्त्री० (दे०) रासक के समान एक प्रकार की क्रीड़ा; (दे० ना० मा० ३, ६०) ।

झेडप्प—पुं० (दे०) १. अन्न-विशेष; २. सूखे चने का शाक; (दे० ना० मा० ३, ५६) ।

झेडिअ—पुं० (दे०) शिकारी, बहेलिया; (दे० ना० मा० ३, ६०) ।

ज

ज—पुं० व्यंजन-वर्ण-विशेष । संस्कृत और प्राकृत में शब्द के आदि में ज का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता है । पालि में जकार का प्रयोग मिलता है । अपभ्रंश में भी ज का अभाव है । 'कीर्तिलता' में जकार का प्रयोग मिलता है । 'कीर्तिलता' की नेपाली प्रति में ज का वाहुल्य है । देवनागरी वर्णमाला का यह दसवाँ व्यंजन है । ज वर्ण का पाँचवाँ वर्ण है । इसका उच्चारण स्थान तालु और नासिका है ।

जेजोन—अध्य० (रीतिवाचक क्रि० वि०) सं० एवम्; और भी ऐसी बात है । जो = सं० एवं; (की० २, २३६) ।

जेहाँ—अव्य० यहाँ; (की० ३, १६) ।

जेण—अव्य० पुनः; (नेपाली प्रति, की० २, ४३) ।

ट

ट—पुं० (सं० प्रा० ट) व्यंजन वर्ण-विशेष । मूर्धन्य, अघोष, अल्पप्राण, निरनुनासिक स्पर्श ध्वनि है । इसके उच्चारण में तालु से जीभ लगानी पड़ती है ।

टंक—पुं० (दे०) १. तलवार; २. खात, खुदा हुआ जलाशय; ३. जाँघ; ४. भित्ति, भीत; ५. तट; ६. खनिज, कुदाल; (दे० ना० मा० ४, ४) । ७. वि० छिन्न, छेदा हुआ, काटा हुआ; (दे० ना० मा० ४, ४) ।

टंकार—पुं० (सं० टङ्कार > प्रा० टंकार) धनुष का शब्द; (ण० ७, १, ८) । टङ्कार; (की० ४, १६८) । टङ्कारव, टंकार का शब्द (tinkling sound); (प० च० २४, २, ५) ।

√टंकार—(सं० टङ्कारय्) टंकार करना; —इ व० “घणुगुणु मयरचिधु टंकारइ;” अर्थात् मानो मकरध्वज धनुष की टंकार कर रहा हो; (जंबू० ४, १३, ८) ।

टंकारित—वि० (सं० टङ्कारित) धनुष की डोर खींचकर शब्द किया हुआ; (जंबू० ८, ७, ८) ।

टंकिअ—वि० (सं० टङ्कित) टांकी से काटा हुआ; (दे० ना० मा० ४, ५०) ।

टंकु—पुं० (सं० टङ्क) परिमाण-विशेष, आधा छटाँक; टका भर; तुल० राज० टका भर (वजन); (प्रा० पै० १, १३०) ।

टंठं—पुं० ध्वनि-विशेष; (जंबू० १०, १६, २) ।

टंक्क—न० तंक्क, वाद्य-विशेष; (प्रा० गु० ३६, ६) ।

टंवरय—वि० (दे०) भारवाला, भारी; (दे० ना० मा० ४, २) ।

टका—पुं० (सं० टक्क) चाँदी का एक पुराना सिक्का; (की० ३, ६७) ।

टक्क—पुं० (सं० टक्क) १. पंजाव (झेलम और सिंधु नदियों के बीच का) देश-विशेष; (भ०; प० च० ३०, २, ११; जंबू० ६, १६, १०) । २. जाति-विशेष; (क० ८, १६, १) ।

टक्कर—पुं० (दे०, प्रा० टक्कर) अंग

से अंग का आघात, ठोकर; (ण० ६, १४, ३; महा० ३१/१६/४) ।

टक्कारी—स्त्री० (दे०) अरणि-वृक्ष का फल; (दे० ना० मा० ४, २) ।

टगण—पुं० (सं० टगण) (छंदशास्त्र में) पट्कल गण । मात्रिक गणों में से एक । यह छह मात्राओं का होता है । जैसे SSS, IIS, इत्यादि । (प्रा० पै० १, १३) ।

टटटगिदि—स्त्री० (दे०) शब्दानुकृति; (प्रा० पै० १, २०४) ।

टटटइआ—स्त्री० (दे०) जवनिका; (दे० ना० मा० ४, १) ।

टटटरी—स्त्री० वाद्य-विशेष, “काहलं टटटरी-झल्लरी महलुल्लोल-वज्जन्त;” (प० च० ४०, १७, ४) ।

टणक्किय—भू० का० (सं० टङ्कारित) टंकार की; “टणक्किकोर;” उन्होंने डोरी की टंकार की; (जंबू० ६, १३, ४) ।

√टणटरण—(सं० टणटणाय्; अनुच्च०) टणटण की आवाज करना; टणटणटणंत-कृ० टनटनाते हुए; (ण० ६, १५, १०) ।

टणटणन्त—कृ० (प० च० ४६, १, २) । टण्टन्त—कृ० टणटन्त की ध्वनि करते हुए वाद्य-विशेष को पीटना (beating tabor); “टिविल-टण्टन्त-धुमन्त-वरमन्दलं;” (प० च० २४, २, २) ।

टपु—पुं० (सं० स्थापन, थाप) घोड़े की थाप, घोड़े के पैरों के जमीन पर पड़ने का शब्द; (प्रा० पै० १, २०४) । टप्पु; (प्रा० पै० २, १११) ।

√टरइ—व० (सं० टल्) हटना; “गिरि टरइ महि पडइ नाग मन कंपिआ;” अर्थात् सेना के घके से पर्वत अपने

स्थान से हटने लगे, धरती एक ओर गिरने लगी, शेषनाग का मन काँप गया; (की० ३, ६७) ।

√टरटर—टरटराना, टर-टर करना; —रंति सक० (सुदं० ८, १६, १) ।

√टरपर—तड़कना, फटकना; टरपरिअ—भूत, कर्म, कृदंत; (प्रा० पै० १, ६२) ।

टरि—भू० का० गिर गए; “टरि टोप्परि टूट्टि सरीर रहे;’ अर्थात् उनके टोप गिर गए और शरीर टूट गए; (की० ४, २३१) ।

√टल—(सं० टल=विचलित होना) अपने स्थान से अलग होना, हटना, मिटना, न रह जाना । —इ व० “टलइ नहु पुव्व कयदेवगुरु-सुमरणं;” तुल० गु० टळवुं; (प्रा० गु० २, २, २४) ।

टलटल—कम्पने (अनु०) कंपित होना । “टलटलिया कुल-सेल सव्वि सायर झल-झलिया;” तुल० गु० टळटळहुं; (प्रा०-गु० १२, १६) ।

टलटलइ—क्रि०, व० (सं० टलटलाय् > प्रा० टलटल) टलटल आवाज करना; (प० ७, ५, १५) ।

टलटलिउ—भू० का० (ध्व०) टलटलाया; “भुवणयलु खलभलिउ गिरिपवरु टलटलिउ;” अर्थात् भुवनतल खलभलाया । प्रवर गिरि टलटलाया; (क० ३, १८, ७) । टलटलियउ-टयटलायित; (सुदं० १, १, ६) ।

टसर—न० (दे०) मोड़ना; (दे० ना०-मा० ४, १) ।

टसरोट्ट—न० (दे०) शेखर, अवतंस;

(दे० ना० मा० ४, २) ।

टहकउ—भू० का० (सं० कूजितम्) कूजन किया, “कोयल टहकउ;” तुल० गु० टहुको; (प्रा० गु० १०, ५६) ।

टाङ्गार—पुं० (सं० टङ्कार) टंकार, टंग-टंग का शब्द; (की० २, १०१) ।

टाणअ—क्रि, आ० (सं० ताक=फँलाव, खिचाव) खींच, खींचो; (हिं० का०, च० ३८) ।

टाप—पुं० (सं० स्थाप्य > प्रा० ठप्प=स्थापनीय, स्थापना के योग्य) छोड़े का पैर; (की० २, २४३) । टापे—पुं० टाप; “विमुद्ध दापे मार टापे चूरि जा वसुन्धरा; (की० ४, ३५) ।

टापू—पुं० (दे०) १. द्वीप, टापू; स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर जल हो; २. टप्पा, टापा; (सिं० १, ४५) ।

टार—पुं० (दे०) अधम अश्व, हठी घोड़ा; (दे० ना० मा० ४, २) ।

टारिआ—भू० का० (सं० त्वरयति) टाल दिया; (शिवप्रसाद सिंह, कौतिलता और अवहट्ट भाषा, २, ८०) ।

टालइ—सक० (सं०√टल) अपने स्थान से अलग करना, हटाना, चलायमान करना; तुल० गु० टाळवुं; (प० च० १२, २, २) । टालउं—(सं० टाल-यामि) टरना, टालना; “हउं पव्वंत उ टालउं” —अहं पर्वंतमपि टालयामि, (उ० व्य० प्र० ६-३०) । टालिउ—भू० का०; मिटा दिया, न रहने दिया; “के महि-मण्डलु वाहहिं टालिउ;” (प० च० २३, ७, ७) ।

टिट—स्त्री० (दे०) घूत्त-स्वान, जूआ-
खाना; (टेट्टा, दे० ना० मा० ८, ३;
प्रा० गु० ३५, ३; ण० ३, १२, ४) ।

टिटाउत्त—पुं० टेट्टापुत्र; (भ०) ।

टिटा—वि० (दे०) निःसत्त्व, दुर्बल,
सत्त्व-रहित; 'भट्टा टिटा पडियत
प्राण;' (प्रा० गु० २६, १२) ।

टियर—पुं० न० (दे०) वृक्ष-विशेष;
तेहू का पेड़; (जंबू० ५, ८, ९) । टिवरु,
टिवरुअ; (दे० ना० मा० ४, ३) ।

टिवक—न० (दे०) १. टीका, तिलक;
२. सिर का स्तवक, मस्तक पर रखा
जाने वाला गुच्छा; (दे० ना० मा० ४,
३) ।

टिघर—वि० (दे०) वृद्ध, बूढ़ा; (दे०-
ना० मा० ४, ३) ।

टिप्पी—स्त्री० (दे०) तिलक, टीका;
(दे० ना० मा० ४, ३) ।

टिविल—न० वाद्य-विशेष; (sort of
tabor) (जस० २, २०, ३; सुदं० ३,
४, ३; प० च० २४, २, २) ।

टीली—स्त्री० (सं० तिलक) विदी, लघु
तिलक; तुल० राज० टीली; (प्रा० गु०
११, १५) ।

टीह—पुं० (सं० दिवस > प्रा० वीह)
दिन, टीहा; (रा० १५) ।

टुंटा—वि० (सं० त्रुटि) टुंडा, जिसका
हाथ कटा हुआ हो वह; (दे० ना० मा०
४, ३) ।

√टुट्ट—(सं०√त्रुट् > प्रा० टुट्ट)
टुटना । —इ क्रि०, व० (सं० त्रुटति)
(प्रा० पं० १, ७६; की० ४, १६२; टुट्-
टन्ता—भू० का० तोड़ रहे थे।

(की० ४, १७५) । टुट्टि—भू० का०,
टुट्ट गए; (की० ४, २३१) ।

टुट्टन—वि० खण्डित होते हुए; "धरा
घूरि लोट्टन्त टुट्टन्त काआ;" अर्थात्
खण्डित होते हुए शरीर पृथ्वी की धूल में
लोट रहे थे; (की० ४, १६४) ।

टेट्ट—पुं० (दे०) टेट्टा, घूत्तग्रह; (जंबू०
४, २, १०) । टेट्ट; (प० च० ५६,
१४, ७) ।

टेट्टा—स्त्री० (दे०) जूआ खेलने का
अड्डा; (दे० ना० मा० ४, ३) ।

टेक्कर—न० (दे०) स्थल, प्रदेश; (दे०-
ना० मा० ४, ३) ।

टेल्ल—पुं० त्रिलिंग-निवासी, तिलंगा ।

टेल्ल; (रा० १८); टेल्लि; (रा० १५) ।

टेवंत—कृ० पैनी बनाते हुए; "टेवंती
कली णिक्करणे", अपने हाथ से कटारी
को रेतते हुए; (क० १०, १६, ८) ।

टोक्कण, टोक्कणखंड—न० (दे०) दारु
नापने का वरतन; (दे० ना० मा० ४,
४) ।

टोप—पुं० (सं० स्तूपम्) पावन अवशेषों
को रखने के लिए एक प्रकार का स्तंभ-
सदृश स्मृति-चिह्न; (उ० व्य० प्र० ४६-
२५) ।

टोप्परि—स्त्री० (द्विज टोप्पर, प्राकृत
पंगलम् में प्रयुक्त) शिरस्त्राण, टोपा;
(की० ४, २३१) ।

टोप्परु—पुं० न० (दे०) टोप, शिर-
स्त्राण-विशेष; (प्रा० पं० २, २०६) ।

टोपी—स्त्री० प्रा० टोपिआ (दे०) टोपी,
पुष्पदन्त के 'आदिपुराण' में प्रयुक्त, जस-
हरचरिड में प्रयुक्त 'टोपी,' 'नुपानह

दिया; (प० च० २, ३, ५) । ठवेप्पिणु
—पू० का० क्रि०, स्थापित करके (ण०
७, १५, २) । ठवेवि—पू० का० क्रि०,
खड़ा करके, (ण० ६, २१, २) । तुल०
म० ठेवणें to put । ठाइऊण—कृ०
(सं० √ठा + ऊण्) खड़े होकर; (व०
३, ११, ८) । ठिअउ—स्थित है; (हे०
४१५, १) । ठियाई—स्थित है;
(पाहु०) ।

ठवलु—पु० (दे०) दाव; (जुए में पासा
फैकने का दाव); (ण० ३, १२,
६) ।

ठविअ—वि० (सं० स्थापित > प्रा०
ठविअ) रखा हुआ, संस्थापित; तुल० म०
ठिव, ठेव; (पड्) । ठविय; (ण० १, १८,
२) ।

ठविआ—स्त्री० (दे०) प्रतिमा, मूर्ति,
प्रतिकृति; (दे० ना० मा० ४, ५) ।

ठविया—वि० (सं० स्थापिता) संस्था-
पित, रखा हुआ; (सुद० ८, ११,
१) ।

√ठा—(सं० √स्था > प्रा० ठा) स्थिर
रहना, बैठना, ठहरना, गति का रूकाव
होना; (क० ६, २०, ५; सं० रा०) ।

—इ अक० (ण० ८, २, ११) । —उ
आ० ठहरे; (प० च० १६, १३, ३) ।

हु—(विधि०) ठहरिए; (जवू० ३, ६,
६) । तुल० म० ठाकतो ।

ठाअ्र—पु० (सं० स्थान > प्रा० ठाण)
ठाव, स्थान; (क० ३, २, २) । ठाव,
स्थान; (जस० ३, १०६) ।

ठाई—(सं० स्थान > प्रा० ठाण) जगह;
(प्रा० पै० १, १३३) । ठाइ; (सं०-
रा०) ।

ठाइस—वि० (सं० अष्टाविंशत्) अट्ठा-
ईस; (प्रा० पै० १, १६१) ।

ठाउ—पु० (सं० स्थान > प्रा० ठाण)
जगह; तुल० म० ठाम; (हे० ३३२, १;
प्रा० गु० १०, ५५; प्रा० पै० १,
२०८) ।

ठाकुर—पु० (सं० ठक्कुर) ठाकुर लोग,
पूज्य व्यक्ति, नायक; (की० २, १०) ।

ठाण—पु० न० (सं० स्थान > प्रा०
ठाण) स्थान; (प० च० ५, १०, ६; ण०
१, १२, ११; सि० २, २६) । पु०
(दे०) अभिमान, गर्व; (दे० ना० मा०
४, ५) ।

ठाणा—पु० (सं० स्थान > प्रा० ठाण)
वाण चलाने की विशेष मुद्रा में खड़े
होकर युद्ध करना, स्थान; (की० ४,
१८०) । टि०—धनुयुद्ध में पाँच स्थान
कहे गए हैं—ब्रंशाख, मण्डल, समपदे,
आलीढ, प्रत्यालीढ। (देखिए) रघुवंश ३,
५२ पर मल्लिनाथ की टीका) ।

ठाणिज्ज—वि० (दे०) गौरवपुक्त,
सम्मानित; (दे० ना० मा० ४, ५) ।
२. न० गौरव; (पड्) ।

ठाम—पु० (सं० स्थान > प्रा० ठाय,
ठाण, ठाम) जगह; (की० ३, १४५;
प्रा० पै० १, १३३) । २. वल; "इअर
वपुरा की करओ वीरत्तण निअ ठाम"
अर्थात् दूसरा वचारा अपने वीरत्वं और

वल को लेकर क्या करेगा; (की० ३, ३१) । — १ (ठामा) पुं० स्थान; (की० ४, ११६) ।

ठाय—पुं० (सं० स्थान > प्रा० ठाण)
१. स्थिति, अवस्थान २. पद, ३. आश्रय, आधार; (सण०) ।

√ठाव—(सं० √स्थापय्) स्थापना करना, ठहराना; ठवइ (प्रा० पै० २, १६१) ।

ठाव—पुं० (वै० सं० स्थाम) स्थान; तुल० गु० ठाम, ठेकागुं; (संधि० ३, ८, ६) ।

ठिअ—वि० (सं० स्थित > प्रा० ठिय) स्थित, अवस्थित; (जंजू० १, ११, १६) ।

ठिय—वि० स्थित; “द्राणोमहो घरि ठिय रिसिपंति व” —दानशील व्यक्तियों को घर में स्थित मुनियों की पंक्ति; तुल० प्रा० म० ठी; (ण० ६, २, ७) ।

ठिअअ—न० (दे०) ऊर्ध्व, ऊँचा; (दे०-ना० मा० ४, ६) ।

ठिउ—वि० (सं० स्थित > प्रा० ठिय) अवस्थित; (व० १, १६, १२) ।

ठिक्क—न० (दे०) पुरुष की जननेन्द्रिय शिश्नम्; (दे० ना० मा० ४, ५) ।

ठिबिअ—न० (दे०) १. हिकका, हिचकी; २. वि० ऊँचा, ३. निकट; (दे० ना०-मा० ४, ६) ।

√ठेल्ल—(दे०) ठेलना । ठेल्लि—पू०-का० क्रि०, वलपूर्वक खदेड़ कर; (की० ४, १४७) । ठेल्लि पेल्लि—पू० का०-क्रि०, ठेल-पेल कर; (प्रा० पै० १, १०६) ।

ठोक्कर—पुं० (सं० ठक्कुर) ठाकुर; (सि० २, २४) ।

ड

ड—पुं० (सं० प्रा० ड) मूर्ध्न्य स्थानीय व्यंजन वर्ण-विशेष । मूर्ध्न्य, नाद, घोष, अल्पप्राण, निरनुनासिक, स्पर्श वर्ण । टवर्ग का तीसरा वर्ण । इसका उच्चारण आभ्यंतर प्रयत्न द्वारा तथा जिह्वामध्य को मूर्द्धी में लगाने से किया जाता है ।

√डंक—(सं० दंश् > प्रा० डंस) डसना, डंक मारना, काटना । —इ (सं० दशति) तुल० म० डांक; (भ०; सुदं० ८, २८, ३) । डङ्कइ; (प० च० २०, २, ६) ।

डंगुउ—पुं० (सं० वादनदण्डः, वाजा वजाने का डंडा; “अभउ दूँदउ डंगुरउ वजाविउ...;” गु० डंगोरो; (प्रा० गु० ६, ११) ।

डंडंत—कृ० (अनुध्व०) डमडमायमान; (सुदं० ७, ६, ८) ।

डंड—न० (दे०) वस्त्र के सीए हुए टुकड़े; (दे० ना० मा० ४, ७) ।

डंडय—पुं० (दे०) पगडंडी (रथ्या), मुहल्ला, (दे० ना० मा० ४, ८) ।

डंवर—पुं० न० (दे०) प्रस्वेद, गरमी, घर्म; (दे० ना० मा० ४, ८) । पुं० न० (सं० आडम्बर > प्रा० आडंवर) ऊपरी दिखाव, दिखावट; “अक्खर डंवर सरिस छंद इय सुद्ध भणिज्जइ;” अर्थात् यह छंद

अक्षराडंबर मद्दश होने पर शुद्ध कहलाता है; (प्रा० पै० १, १०७) । डम्बरई— न०, व० सं० आडम्बराणि) आडम्बर; (हे० ४००, १) ।

डंभ—पुं० (सं० दम्भ > प्रा० डंभ) गठना, माया, कपट; तुल० म० डंभ; (जस० ३, २०, १२) । २. दाह, तुल०-गु० दाह; (संघि० १४. ३, १६) । डम्भ—पुं० दम्भ; (म० १, ६, ३) । —सील वि० (सं० दम्भशील) कपटी; (मुदं० ३, ६, ५) ।

डंभनिया—स्त्री० (सं० दम्भनिका) विद्यानाम; (ण० ६, ६, १८) ।

डंभधारि—वि० (सं० दम्भधारिन्) दम्भी, कपटी; (जस० १, ६, ३) ।

डंभिअ—पुं० (दे०) जूए का खिलाड़ी; (दे० ना० मा० ४, ८) ।

डंभिया—वि० (सं० दम्भिता) कपटी, छलिता, मायावी; (मुदं० ७, १०, २) ।

√डंस—(सं० √दंश्) डसना, काटना । —इ, ए; व० (पड्) ।

डउडउ—पुं० (दे०) वाद्य-विशेष 'डमरू' के वजाने से उत्पन्न आवाज; (प० च० ५६, १, ८) ।

डक्क—न० (दे०) डक्का, वाद्य-विशेष; (मुदं० ३, ४, ३; जंजू० ४, २, ७) ।

२. युद्ध का शोर (battle cry) "उह्य-वलई रहिरोल्लिय-गत्तई, हक्क-डक्क-लल्लक्क मुअन्तई;" (प० च० २५, ६, ८) । वि० (दे०) दंत-गृहीत; (दे० ना०-मा० ४, ६) ।

डक्क—(सं० √दंश्) डसना । —इ व०

(सं० दशति); तुल० गु० डंत्तवुं; (प०-च० २१, ६, ६) ।

डक्करइ—क्रि०, व०, शोर करना, डकारना; (की० ४, २१२) । डक्करन्तो—कृदंत का वर्तमान में क्रिया की तरह प्रयोग; डकराती है; (की० ४, २०१) ।

टि०—कृदंत का वर्तमान में प्रयोग वाले रूप धातु में 'अन्त' (धातुप्रत्ययान्त) लगाने से बनते हैं ।

डक्कार—पुं० (अनुच्च०) डक-डक शब्द; (की० ४, २१२) ।

डगण—पुं० (सं० डगण) चतुष्कल गुण, पिगल में चार मात्राओं का एक गण; (प्रा० पै० १, १३) ।

डगमग—वि० (ध्वन्यनुकरणात्मक) हिलता डुलता; "अरेरे वाहहि कान्ह पाव, छोडि डगमग कुगति ण देहि;" (प्रा० पै० १, ६) ।

डगल—पुं० (दे०) घर के ऊपर का भूमि-तल; (दे० ना० मा० ४, ८) ।

√डङ्ग—(सं० दह् > प्रा० डह) दग्ध करना, दहना, जलाना; (व० ३, ८, २; सं० रा०; जस० २, १, ६) । —ई व० (सं० दहति > प्रा० डहइ) तुल० मगही

डहइ; (डोम्बिपा, चर्यापद) । डङ्गन्तु—

कृ० जलाये जाने पर; (प० च० १०, ७, ६) । डङ्गमाण—कृ० दह्यमान (दह् + घानच्) (क० १, १७, १०; जंजू० ४, १४, ८) ।

डङ्ग—वि० (सं० दग्ध > प्रा० डड्ड) जला हुआ; (ण० २, ४, २) ।

डड्ड—वि० (सं० दग्ध) प्रज्वलित, जला हुआ; (जस० २, २४, ३) ।

डडडाडी—स्त्री० (दे०) आर्ग का मार्ग; (दे० ना० मा० ४, ८) ।

डडडिअ—वि० (सं० दग्ध > प्रा० अप०

डडड) जलाए । हुए० दग्ध; (की० ३, ११४) ।

डडफ—न० (दे०) कुंत; आयुध-विशेष; (दे० ना० मा० ४, ७) ।

डडवोल—(अनु० डुव डुव) सं० निमज्जने, डुवोना; तुल० गुं० डडवीळवुं; (प्रा० गुं० ३८, ५७) ।

डडभ—पुं० (सं० दभ) डभ, कुश, तृण-विशेष ।

डडडंक—पुं० डमर ध्वनि; (जंबू० ५, ६, ६) ।

डडडडम—(सं० डडडमाय्) 'डडडडम' आवाज करना । डडडडकियं—भू० कां०, डडडडमक-डडडडमक आवाज की; "डडडडडडडडकियं;" अर्थात् डडडडक-डडडडक करके बजने लगा; (जंबू० १०, १६, ३) ।

डडडडमिय—वि० (सं० डडडडमायित) जिसने डडडडम आवाज की हो वह; डडडडडमायित ध्वनि; (सुदं० ७, ६, ८) ।

डडडडर—पुं० न० (सं० प्रा० डडडडर) राष्ट्र-का आंतरिक अथवा बाह्य विप्लव; (प० च० १३, १०, १६) । वि० भयंकर; (जंबू० ४, २२, ४) । पुं० न० कलह, लड़ाई; (दे० ना० मा० ८, ३२) ।

डडडडरकर—वि० भयंकर; (प० च० ३, ४) ।

डडडडर—पुं० न० (सं० प्रा० डडडडर) वाद्य-विशेष; एक प्रकार का वाजा; (व०

१०, २०) । —अ० गु० न० (सं० डडडडर+क) (वाद्य-विशेष) कापालिक योगियों के वजाने का वाजा; (दे० ना० मा० २, ८६; प० च० ५७, २३) ।

पुं० न० (सं० डडडडर+क) डडडडर; (प० च० ५७, २३) ।

डडडडर—पुं० (सं० दर > प्रा० डडर) त्रास, डडर, भय, भीति; तुल० सुं० डडर; (क० ७, ५, ४; सुदं० २, ११, ६; प० च० १५, २, ३) ।

वृषभ-विशेष; (प० च० २७, २, ३; २६, १, १०) ।

डडडडर—(सं० √ डडर) भय होना, डडरना, भयभीत होना । "काणणि विसदसहं हंडे डडरमि;" (जस० २; २८, ६) । "डडरविद्य-पू० का० क्रि०, "डडरविद्यडडरि" हिनति पयंड;" अर्थात् वैरियों को डडरकर प्रचंड मार करने लगे; (जंबू० १६, १३, ११) ।

डडरिय—वि० [सं० दीर्ण = (फटा हुआ, चिरा हुआ, भयभीत), प्रा० डडरिअ]

डडरियतित, पडे हुए; "जयं चउगडडरिय-जणेक्कसरण," अर्थात् जो चारों गतियों में पडे हुए प्राणियों के लिए शरण मात्र है; (क० १, ११, ६) । भयभीत; डडरि हुआ; तुल० गुं० डडरि; (प० च० ६, १८, ६) । अस्त (सुदं० ६, १२, ४) ।

डडडडर—न० (सं० डडडडर > प्रा० डडडडर) डडली, डडलिया; वांस का बिना हुआ फल-फल रखने का पात्र; पिटिका; (दे० ना० मा० ४, ७) । पुं० (दे०) लोट, डडला, डडली; (दे० ना० मा० ४, ७) ।

डडडडर—आरंभ करना; (प० च० १, १०, १०) ।

डव्व—पुं० (दे०) वायां—हाय; तुल० गुं० डावो; (दे० ना० मा० ४, ६) ।

√डस—(सं०√दंश>प्रा० डंस)

डसना, काटना; तुल० गुं० डसवुं ।

डसंत—कृ० (√डस+शतृ); (वि० ४,

५, १०) । डसिउ—भू० का० डस लिया;

(क० ७, ४, ६) । डसिया—भू० का०

चवाए. "डसियाहर," अर्थात् (जन्होंने

अपने) होंठ चवाए; (क० ३, १३, १०) ।

डसेवि—पू० का० क्रि०, (जस० ३,

३५, ८) ।

डसन—पुं० (सं० दशन>प्रा० डसण)

दांत; (सं० रा०; जस० २, ३१,

६) ।

डसिय—वि० (सं० दष्ट>प्रा० डसिज)

डसा हुआ, काटा हुआ; (ण० ८, ३,

१४) । डसियाहर—पुं० (सं० दष्ट+

अघर>प्रा० डसिअ+अहर) दांतों से

ओठ चवाना; (ण० २, १०, ११) ।

√डह—(सं०√दह>प्रा० डह)

जलाना, दग्ध करना । —इ-च० (सं०

दहति>प्रा० डहइ) तुल० म० डाह;

(जस० २, २४, ३; प० च० २१, ६,

६) । डहत—(सं० दह+शतृ; -दहव)

(जंबू० ७, ६, ६) । डहन्त व० कृ० (प०

च० ३, २, ३) । डहहि—जलाईए (ण०

४, ६, २) । डहति—व०, क्रि०, व०

(ण० ८, १, १०) । डहेवि—पू० का०

क्रि०; -दग्ध करके; (परमा०) ।

डहण—न० (सं० दहन>प्रा० डहण)

दहन, अग्नि; (सुदं० ६, ४, ६) ।

डहर—१. पुं० (दे०) शिशु; (दे० ना०

मा० ४, ६) । २. वि० (दे०) लघु-

छोटा, क्षुद्र । —उ; (रा० ११) ।

डहरी—स्त्री० (दे०) मिट्टी का घड़ा;

(दे० ना० मा० ४, ७) ।

डहाला—पुं० डाहल, स्वार्थ-विशेष;

जबलपुर; (जंबू० ६, १६, १५) ।

डहु—वि० (दे०) लघु, छोटा; "एवहिं

डहु मोरउ लहु तेण तीइ कर लायमि,"

और अब छोटा सा मोर होकर मैंने उसके

ऊपर हाथ चलाया; (जस० २, ३३,

१०) ।

डांडिअ—क्रि० (सं० दण्ड>प्रा० डंड)

दण्ड देना, डांडना; "सरवस डांडिअ

सत्तु;" सब प्रकार से सबकों को दंड

दिया; (की० ३, ८५) ।

डाअल—न० (दे०) बांख, नेत्र; (दे०

ना० मा० ४, ६) ।

डाइणि—स्त्री० (सं० डाकिनी>प्रा०

डाइणी) डायत, डाकिनी; चुडैल,

प्रेतिनी, प्रेतपिशाचादि स्त्री-विशेष;

(ण० ४, १५, ८; जस० १, १६,

१) ।

डाउ—पुं० (दे०) १. फलिहंसक वृक्ष,

वृक्ष-विशेष; २. गणपति की एक प्रकार की

मूर्ति; (दे० ना० मा० ४, १२) ।

डाकिनि—स्त्री० (सं० डाकिनी>प्रा०

डाइणि) डायत, चुडैल, प्रेतिनी; (प्रा०

प० १, २०६) ।

डामर—१. वि० (सं० प्रा० डामर) भयं-

कर; (प० च० १७, १७, १०) । २. पुं०

स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि; (प० च०

२०, २१) ।

डामरिय—वि० (सं० डामरिअ) विग्रह-

कारक (revolter); (प० च० ३३, ६, ६) ।

डाल—स्त्री० (दे०; प्रा० डाल) शाखा, टहनी; तुल० गु० डाल, म० डाली, ढाली; (ण० १, ८, ११; क० १, ६, ५) । —इं न० शाखा; (हे० ४४५, ३) । डालु—पुं० (दे०) लता, शाखा, (व० ३, २, ४) ।

डाव—पुं० (दे०) वाया हाथ; तुल०-गु० डावो; (दे० ना० मा० ४, ६) ।

डाह—पुं० (सं० दाह > प्रा० डाह) १. ताप, जलन; (ण० ८, ८, २) । डाहु—पुं० ईर्ष्या; (प० च० ७, १२, ४) । जलन; (सुदं० ८, ३१, ५) ।

√डाह—(सं० दह्यते) जलाना, “जालें डाह,” ज्वालेन वा ज्वालयी दह्यते, (उ०-व्य० प्र० १५, २४) ।

डाहररज्जा—पुं० (दे०) डाहरराज्य, देश-विशेष का राज्य; (प्रा० पै० १, १२८) ।

डाहुत्तार—वि० (सं० दाह+उत्ताप) अग्नि में तपाया हुआ; “डाहुत्तार चारु चामीयर,” अर्थात् ताप से तपाया हुआ श्रेष्ठ सोना; (जंबू० ८, १२, ६) ।

डिड—पुं० (दे०) फेन, झाग “चलवलि-यअंतडिडहँ भरिय,” चलवलाती हुड आंतों रूपी डिड से भरी, (सुदं० ६, ६, ४) ।

डिडव—वि० (दे०) जल में पतित; (पड्) ।

डिडिम—न० (सं० डिडिम) वाद्य-विशेष; (क० २, २, ६; जस० १, २०, ५) ।

डिडिलिअ—न० (दे०) १. तैल-किट्ट से व्याप्त कपड़ा; २. स्वलित हस्त; (दे० ना० मा० ४, १०) ।

डिडिम्र—वि० (दे०) जल में गिरा हुआ; (दे० ना० मा० ४, ६) ।

डिडि—पुं० १. विद्याधर राजा; (त०-च० १०, २०) । २. समूह, “दलिअति-मिरडिडो;” जिसने अंधकार के समूह का नाश कर दिया है; (प्रा० पै० २, ७३) ।

डिडि—पुं० न० (सं० डिडि > प्रा० डिडि) विप्लव, “डिडि-डमर-उड्डमर-मारि वित्थरिय अंधारय;” (प्रा० गु० १२, ६) ।

डिडि—पुं० (सं० डिडि > प्रा० डिडि) शिशु, बालक; (जस० १, १७, १०) । डिडि; (प० च० ४, १२, ५) । —अ पुं० लड़का; (प्रा० पै० २, ४६) । —य पुं० (सं० डिडिभाका; व०) बालक; (सुदं० ६, २१, ८) ।

डिडिअली—स्त्री० (दे०) स्थूणा, खूँटी; (दे० ना० मा० ४, ६) ।

√डिडिक—(प्रा० डिडिक) साँड का गर-जना । —इ अक०; (पड्) ।

डिडि—स्त्री० (सं० दृष्टि) दृष्टि; (की०) ।

डिडिडर—पुं० (दे०) मेढ़क; (दे० ना०-मा० ४, ६) ।

डिडिडीर—पुं० न० (सं० डिडिडीर > प्रा० डिडिडीर) समुद्र का फेन; (प० च० १४, ३, ७) ।

√डिडिप—(सं० √दीप्) दीपना, चमकना —इ, —ए; (पड्) । २. (सं० वि+

गल) १. गल जाना, सड़ जाना; २. गिर पड़ना; (पड़) ।

डिम्भासण—पुं० (सं० दिव्यासन) एक आसन; (व० १०, ३३, ८) ।

डिविडिकिकय—वि० (दे०, प्रा० टिवि-डिकिकय) अलंकृत, “चंदन-अगरु-गन्ध-डिविडिकिकय, इन्दगोव-कुडकुम-चञ्चिकिकय;” (प० च० ३४, १०, ५) ।

डोठि—स्त्री० (सं० दृष्टि > प्रा० डिट्ठी) दृष्टि; (कौ० २, १७७) ।

डोण—वि० (दे०) अवतीर्ण (१. नीचे आया हुआ; २. पार गया हुआ, पार किया हुआ; (दे० ना० मा० १, १०) ।

डोणोवय—न० (दे०) ऊपर; (दे० ना०-मा० ४, १०) ।

डोव—पुं० (दे०) वृष्णा, “पराई वयुं डोव छाडु;” (उ० व्य० प्र० ६-३१) ।

डुंगर—पुं० (सं० तुङ्ग=पहाड़) शैल, पर्वत, गिरि; तुल० गु० डुंगर; (प्रा०-गु० १६, ८; दे० ना० मा० ४, ११) ।

डुंघ—पुं० (दे०) नारियल का वना हुआ पात्र-विशेष जो जल निकालने के काम में आता है; (दे० ना० मा० ४, ११) ।

डुंडुअ—पुं० (दे०) पुराना घंटा; (दे०-ना० मा० ४, ११) ।

√डुंडुल्ल—(दे०) धूमना, फिरना, चक्कर लगाना । —इ; व० (पड़) ।

डुंव—पुं० (सं० डोम) चाण्डाल; अत्यंत नीच जाति का पुरुष; डोंव (दे० ना०-मा० ४, ११; संधि० १२, ५, २४) ।

डुंविय—पुं० (दे०) एक प्रकार का सांप; (संधि० १२, ५, ३४) ।

डुंव—पुं० (सं० डोम) डोंव, अस्पृश्य नीच जाति; (प्रा० गु० ५, ३५) ।

डुइड—पुं० (दे०) मनुष्य-जाति-विशेष; (संधि० १०, २, ३) ।

डुड्विउ—क्रि०, (अनु० डुव डुव) डूबना; (प्र० वि०) ।

डुम्भय—वि० (दे०) विदोलित, आंदोलित; “कारणड-डिम्भ-डुम्भय-सरोह, वर कमल करम्बिय-जलपओह;” (प० च०-२३, १३, ५) ।

√डुन—(सं० √दोलय् > प्रा० डुल, डोल) डोलना, हिलना, कांपना । —इ व०, प्र० पु०, ए० (सं० दोलायते) “हिअअ डुलइ;” हृदय डोल रहा है; (प्रा० पै० २, १६३) ।

डुल्लसिय—वि० (दे०) दोलायित, क्षामित; (सुदं० ६, ६, ३) ।

डुहुडुहुहुह—अक० (सं० डुहुडुहाय्) ‘डुह-डुह’ आवाज करना, नदी के वेग का खलखलाना । डुहुडुहन्ति; (प० च० ३१, ३, ३) । डुहुडुहुहुहंत—व० कृ०; (प०-च० ६४, ४३) ।

डेकुण—पुं० (दे०) खटमल, क्षुद्र कीट-विशेष; (पड़) ।

डेड—पुं० (दे०) डेड, कौवे के समान दुष्ट पुरुष; (सुदं० ३, १, ७) ।

डेड्डुर—पुं० (सं० ददुर) मेंढक; तुल० राज० डेडरी; (पड़) ।

डेरउ—वि० (दे०) डेरा, टेढी, बांख वाला; “डेरउ हट्टुखरहि होइ काणा गुण सव्वहिं रहिअ;” अर्थात् हाठाक्षरों (जवर-

दस्त्री जोड़े गए) अक्षरों के द्वारा डेरा (टेढ़ी आँखों वाला) होता है तथा सर्व-गुण रहित छप्पय काणा होता है; (प्रा०-पै० १, ११६) ।

√डेव—(दे०) सं० उत् + लङ्घ्; उल्लंघर करना, क्रूर जाना । डेवन्ति—क्रि०, व०, व० (प० च० २५, ६, ५) ।

डेविय—वि० (दे०) प्रीणित, तृप्त, हं डपिडडेवियभेहंडई;” अर्थात् हंडों के पिडों से भेरुण्ड तृप्त हो रहे थे; (ण० ७, ७, ५) ।

डोंगिली—स्त्री० (दे०) १. तांबूल रखने का भाजन-विशेष, २. पान बेचने वाले की स्त्री; (दे० ना० मा० ४, १२) ।

डोंगी—स्त्री० (दे०) पान रखने का भाजन-विशेष; (दे० ना० मा० ४, १३) ।

डोंत्र—पुं० (दे०) चांडाल जाति-विशेष; (जस० २, १७, ७) ।

डोअ—पुं० (दे०) दाल, शाक, आदि परोसने का काष्ठ का पात्र-विशेष; तुल०-गु० डोयो; (दे० ना० मा० ४, ११) ।

डोअण—न० (दे०) लोचन, आंख; (दे० ना० मा० ४, ६) ।

डोकरि—स्त्री० वृद्धा; तुल० राज० डोकरी (वृद्ध स्त्री) (प्रा० गु० ६, २८) ।

डोड्डु—स्त्री० (दे०) दुष्टा ब्राह्मणी; (सुदं० ८, ३३, २) ।

डोम—पुं० (सं० डम) डोम, एक नीच जाति; (पाहु०) । डोमु; (सि० २, ३) ।

डोमणिय—स्त्री० डोमिनी, डोम जाति की स्त्री; (सि० २, ३) ।

डोय—पुं० (दे०) डोई, कलछुल, काण्ड का बना हुआ बड़ा चमच (wooden ladle); (प० च० ४६, १०, ७) ।

डोयहो—क्रि०, भू० का० डोल उठे, “धरणन्दहो सहासफड-डोयहो” —धरणेन्द्र के हजारों फन डोल उठे; (प० च० ५, ११, १) ।

डोर—स्त्री० (दे०, प्रा० डोर) सूत्र, रस्सी; गुण; तुल० म० दोर; (प० च० १६, ६, ८; जस० २, २६, ५) ।

√डोल—(सं०√ दोलय्) डोलना, हिलना; झूलना । तुल० गु० डोलवुं (सधि० १३, १०, २) । —इ अक० १. डोलना; (क० ४, १५, ५) । २. काँपना; (महा० ४, १८, २) ।

डोलिज्जइ—कर्मवा० (सुदं० ७, ५, १२) । (कीर्तिपताका) । —वे ि०, व० डोल रहे हैं; डोल्लिय—भू० का० (सं० दोलित) डोलने लगी; (सुदं० ११, १४, ३; जंबू० १०, १५, ५) ।

डालहरि—स्त्री० (दे०) डोला, “डोल्ल-हरि व लग्गी कंठहँ;” अर्थात् डाले के समान लटकर कंठ से लगी हुई; (जंबू० ४, १६, ११) ।

डोला—स्त्री० (दे०) शिविका, डोली, पालकी; (दे० ना० मा० ४, ११) ।

डोलिअ—पुं० (दे०) काला हिरन; (दे०-ना० मा० ४, १२) ।

डोला—स्त्री० (सं० दोला > प्रा० डोला) हिंडोला, झूला; (प० च० १४, २, १) ।

—वडी वि०—हिडोले पर वैठी हुई; (प० च० १७, १५, =) ।

डोलाविय—वि० (सं० दोलित) कंपित, हिलाया हुआ; (प० च० ३१, १२४) ।

डोलिया—वि० (सं० दोलित्ता) कंपित, हिलाई हुई; (सुदं० ११, १८, १७) ।

√डोल्ल—(सं० दोल्य् > प्रा० डोल) डोलना । —इ अक० (जंजू० =, ७, ६) ।

डोल्लंत—कृ० (सं० √दोल् + शतृ) दोलायमान; (जंजू० ६, १८, ६) । डोल्लन्ति—क्रि०, व०, व०, हिलते हैं, झुलते हैं; (प० च० ६, ७, ३) ।

डोल्लिय—स्त्री० डोली, शिबिका, पालकी; (सुदं० १, ६, १२) ।

डोव—पुं० (सं० डम) डोम, एक नीच जाति; (जंजू० ५, ११, ४) ।

डोत्तिशी—स्त्री० (दे०) ज्योत्स्ना, चंद्र-प्रकाश (पङ्) ।

डोहंत—वि० (सं० गम्भीर + अन्त) गहरा (पानी) 'तहिं डोहंतु जलु;' (क० १, १३, १०) ।

√डोह—(दे०) १. काम को विगाड़ देना, चौपट कर देना, गड़बड़ करना, खराब कर देना, गड़बड़ाना, बिना क्रम से मिलाना, गड़बड़-मड़बड़ कर देना । डोहेंवि—पू० का० क्रि०, "जो अरि-करिहिं ण डोहेंवि सविकउ;" (प० च० २६, ११, ३) । २. मलिनीकरणे, किसी द्रव्य में किसी वस्तु को मिलाकर गंदा कर देना; तुल० गु० डहोळवुं, (प्रा० गु० २६, ७) । डोहिल्लण—पू० का० क्रि०, वृत्तकर, "कहिं पि डोहिल्लण दीहदी-

हिया;" अर्थात् कहीं बड़ी दीविकाओं में घुसकर; (जंजू० ४, २१, ४) । डोहिय—पू० का० क्रि०, अवगाहन कर 'डोहिय-जलवाहिणीजलतरिल्लु;' अर्थात् (उत्त सेना ने) एक जलवाहिनी का अवगाहन करके उसके जल को पार किया; (जंजू० ५, ७, १२) ।

डोहलन्न—पुं० (सं० दोहद) गर्भिणी स्त्री की प्रबल रचि; (संघि० ४, ३, ४) ।

डोहहो—क्रि०, वा०, पीओ; "फलई म तोडहो जलु मा डोहहो," अर्थात् फल मत तोड़ो, पानी मत पिओ; (प० च० २, १३, ४) ।

डोहिय—वि० (दे०) गहरा, गंभीर; (भ०) ।

डोहियाइ—वि० (दे०) प्रकंपित; "मत्त-हत्तिय-डोहियाइ;" अर्थात् मत्तवाले हाथियों से प्रकंपित; (रि० २, २) ।

ढ

ढ—पुं० (सं० प्रा० ढ) व्यंजन वर्ण-विशेष, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है । मूर्धन्य, नाद, घोष, महाप्राण, निर-तुनासिक, स्पर्श वर्ण । टवर्ग का चौथा वर्ण ।

ढंक—पुं० (दे०) कौआ, वायस (दे०-ना० मा० ४, १३; संघि० १४, ५, ६) ।

√ढंक—(प्रा० ढक, ढकइ=आच्छा-दन करना) ढाँकता है, ढकना । —इ व० (सुदं० २, १३, ३; महा० १, १३,

१०) । ढंकिज्जइ—क्रि० ढक जाना (ण० ६, ५, १) । ढंकिवि—पू० का० क्रि०, ढंक कर, (ण० ४, १३, १) । ढङ्केवि—पू० का० क्रि० (प० च० २३, ११, ६) ।

ढंकण—न० (दे०) छादन, ढकना; (सुदं० ८, ६, १८) ।

ढंकरणी—स्त्री० (दे०) ढकनी, ढकने का पात्र-विशेष; वह वस्तु जिसे ऊपर डाल देने या बैठाने से नीचे की वस्तु छिप जाए; (दे० ना० मा० ४, १४) ।

ढंकण्यु—पुं० (दे०) खटमल; (दे० ना० मा० ४, १४) ।

ढंकिउ—क्रि०, भू० का० ढक लिया; (महा० ६८, ११, १) ।

ढंकिय—वि० (प्रा० ढक्किअ) आच्छादित, बंद किया हुआ; (ण० ५, १०, १६; जस० २, ५, ८) । ढङ्कियय—आच्छादित; (प० च० ३३, ६, ४) ।

ढंख—पुं० (दे०) चुष्क वृक्ष; “ढंखरुक्ख-सुक्खेहिं णिप्फलं,” (जस० १, १३, ३) ।

ढंखर—पुं० (दे०, प्रा० ढंखर) फल-पत्र से रहित वृक्ष; (सं० रा०) ।

ढंखरी—स्त्री० (दे०) वीणा-विशेष; (दे० ना० मा० ४, १४) ।

ढंढंत—कृ० (अनु०) ढमढमाता हुआ; (सुदं० ७, ६, ५) ।

ढंढ—पुं० (दे०) पंक, कीच, (दे० ना० मा० ४, १६) २. वि० निरर्थक, निर-म्मा; (दे० ना० मा० ४, १६; भ०) ।

ढंढणी—स्त्री० (दे०) केवाँच, वृक्ष-

विशेष; (दे० ना० मा० ४, १३) ।

ढंढर—पुं० (दे०) १. पिशाच; (ण० ६, ७, १०; दे० ना० मा० ४, १६) ।

२. इर्ष्या; (दे० ना० मा० ४, १६) ।

ढंढरअ—पुं० (दे०) कर्दम, पंक, कीचड़; (दे० ना० मा० ४, १५) ।

ढंढसिय—पुं० (दे०) १. ग्राम का यक्ष, २. गाँव का वृक्ष; (दे० ना० मा० ४, १५) ।

√ढंढोल—(सं० ढुण्ढ) खोजना, तलाश करना; (दे० ना० मा० ४, १५) ।

ढंसइ—क्रि०, व० (दे०) चक्कर खाना, इधर-उधर लुढ़कना, पीछे लुढ़कना (विवर्तते); (दे० ना० मा० ४, १४) ।

ढंसय—न० (दे०) अयश, अपकीर्ति; (दे० ना० मा० ४, १४) ।

ढउह—पुं० (दे०) ढौह वृक्ष, (जंबू० ५, ८, १२) ।

ढवक—१. पुं० (सं० आपाढक=पलाश) ढाक का पेड़; (सं० रा०) ।

२. पुं० (सं० प्रा० ढवका) वाद्य-विशेष, (ण० ८, ६, १३) । ३. पुं० (सं० प्रा० ढवक) देश-विशेष । देश-विशेष में रहने वाली एक जाति; (भ०) ।

√ढवक—(प्रा० ढवक) सं० छादय् । ढकना, आच्छादन करना, ढांकरा; तुल० म० ढांकण । —इ व० (दे० ना० मा० ४, १४; भ० १, १०, २) ।

ढवकय—न० (दे०) तिलक; (दे० ना० मा० ४, १४) ।

ढक्करिवन्तय—वि० (दे०, प्रा० ढक्करि=अद्भुत, आश्चर्यजनक) चमत्कारवादी, “जगे लोएँहिं ढक्करिवन्तएहिं । उप्पाइ

- भंतिउ मन्तएहिं” —दुनियाँ में चमत्कारवादी और भ्रांति लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर रखी है, (प० च० १, १०, १) ।
- ढक्कसार—पुं० (दे०) वाद्य-विशेष; (जंबू० १, ४, १८) ।
- ढक्का—स्त्री० (सं० ढक्का = वड़ा ढोल वाद्य- विशेष; (जस० ४, ३, ५) ।
- ढगण—पुं० (सं० ढगण) त्रिकलगण; पिगल में एक मात्रिकगण जो तीन मात्राओं का होता है; (प्रा० पं० १, १३) ।
- ढङ्ढ—पुं० (दे०) भेरी, वाद्य-विशेष; (दे० ना० मा० ४, १३) ।
- ढढ्ढर—पुं० (दे०) राक्षस, पिशाच, प्रेत आदि (सुदं० ६, १३, १५) ।
- ढङ्ढस—पुं० (दे०) धैर्य; तुल० गु० ढाढस; (पं० च० ४६, १७, ३) । ढङ्ढसु—पुं० ढाडस, साहस; (सुदं० ११, २, १२) ।
- ढणहण—पुं० (अनुध्व०) रोने की आवाज; “ढणहण तउ रोएई;” (प्रा०-गु० १४, ३७) ।
- ढण्ढर—पुं० १. पक्षी-विशेष २. राक्षस, (दे० ना० मा० ४, १६ = पिशाच) (पं०-च० ५१, ३, ६) ।
- ढमर—न० (दे०) १. स्थाली, बटलोई २. गरम पानी; (दे० ना० मा० ४, १७) ।
- ढयर—पुं० (दे०) १. पिशाच; २. ईर्ला, द्वेष; (दे० ना० मा० ४, १६) ।
- ढल्लइ—क्रि०, व० (दे०) १. गिरना, नीचे पड़ना, टपकना; (महा० ८, ६, १२) । २. ढलना; (to wane); (ण० २, ४, १०) । ढलक्किय—भू० का०, ढुलक गए; (जंबू० ७, ८, १०) । ढलिअ—भू० का० ढुलक गए; (जंबू० १०, १४, १५) ।
- ढलवाइक—वि० (सं० ढालवाहक) ढाल लिए सैनिक; (की० ४, ६६) ।
- ढलिय—वि० (दे०) ढीला; (महा० ८, ६, १२) ।
- ढारिआ—भू० का० गिर रहे थे, ढर रहे थे; “चूह ऊपर ढारिआ;” अर्थात् झरने ऊपर गिर रहे थे; (की० २, ८०) ।
- ढिं—कीर्तिलता में भूतकाल के कृदंत रूपों में ‘इअ’ को ‘इआ’ रूप में व्यवहृत करने की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है ।
- √ढाल—(दे०) १. ढालना, जैसे जल से भरे घड़े का ढालना, (सुदं० ६, १४, ६) । २. नीचे गिराना । पांसा ढालना (to throw the dice) । —हि; (ण० ३, १३, १०) । ढालेसहि—भ० का० ढालेगा; (क० २, १६, १०) । तुल० गु० ढालवुं । ढालिज्जइ—कर्मवा० ढाला जाता है; (जंबू० १०, १४, ११) ।
- ढाल^३—पुं० (दे०) गति; तुल० गु० ढाल; (संधि० १२, ४, ४) ।
- ढिढय—वि० (दे०) जल में पतित; (दे० ना० मा० ४, १५) ।
- √ढिक्क—(दे०) सांड का गरजना । —इ अक० (दे० ना० मा० ४, १५) ।
- ढिक्कय—अव्य० (दे०) सदा, हमेशा, सदैव; (दे० ना० मा० ४, १५) ।
- ढिङ्ढिस—न० सं० पिष्ट; आटा, वेसन

(धान्यादीनां पिष्टमिति) “द्विद्विमु
गिलंति पलु संभरिवि, (जस० २, २०,
८) ।

दिल्ल—वि० (सं० शिथिल) ढीला,
(पाहु०) । दिल्ली—वि० शिथिल;
(महा० ३२, ३, ५) ।

दिल्लइ—वि० (सं० शिथिल > प्रा०
दिल्ल) ढीला, शिथिल; (प० च० १८,
६, ६) । दिल्लु; (सु० ६, २१) ।

दिल्लि—पुं० दिल्ली; नगर-विशेष, जो
आजकल भारतवर्ष की राजधानी है;
(प्रा० पै० १, १४७) ।

ढीलीहोःतय—वि० (सं० शिथिल+
भवत् (वि०) = होने वाला) ढीले-पोले;
(प० च० ८, ५, ११) ।

ढुंढलइ—क्रि०, व० (सं० दुण्ड)
ढूँढना, खोजना, पता लगाना; (दे०-
ना० मा० ४, १७) ।

दुक—वि० (सं० ढौकित) पास लाया
हुआ, उपस्थित किया हुआ; (क० ४, ५,
४) ।

दुक्क—वि० (सं० ढौकित) १. प्राप्त,
आगत; (म० २, ६६, २) । अव्य० पास;
(प० च० १२, ८, ७) ।

√दुक्क—(सं० ढौक्) मिलना, पिल
पड़ना; तुल० राज० ढोक । दुक्कंतउ—
क्रि०, भू० का०; भिड़े; (प्रा० पै० १,
१५५) । —इ व० १. भेंट करना, अर्पण
करना; (ण० २, ४, ६) । २. प्रविष्ट
होना; (जंबू० १०, २५, १) । ३. (सं०
ढौकते√ढौक गती > प्रा० दुक्क) पहुँचना
“किर सहूँ सहिर्याहि दुक्कइ सरवरु,” वह
सहेलियों के साथ सरोवर पर पहुँचती है,

(प० च० ५, ४, ८; ण० २, ४, ६) ।
दुक्कमाण—कृ० (प० च० १०, ११,
५) । दुक्कंत—कृ० (ण० ३, ८, ११) ।

दुक्कय—भू० का० पहुँचा, दुका; (सं०-
रा०) । दुक्कु—भू० का० पहुँचा, (रि०
२, ५) । दूकउ—भू० का०, समीप
पहुँचा, तुल० गु० दूकयो; (प्रा० गु० २६,
१८) ।

दुक्कादुक्क—स्त्री० (दुक्क = पहुँचना)
निकट से लड़ना (fight at close qu-
arters); तुल० गु० दूकवुं; (प० च०
५२, ६, २) ।

दुमइ, दुसइ—क्रि०, व० घूमना
(भ्रमति); (दे० ना० मा० ४, १५) ।

दुरदुल्लिय—क्रि०, दुलदुलाना; (पाहु०) ।
ढेका—स्त्री० (प्रा० ढेका) १. हर्ष;
२. सिचाई के लिए कूएँ से पानी निका-
लने का एक यंत्र, ढेकली, ढेकुली; (दे०-
ना० मा० ४, १७) ।

ढेकी—स्त्री० (दे०) वगुनी (बलाका),
वक-पंक्ति; (दे० ना० मा० ४, १५) ।

ढेकुण—पुं० (दे०) मत्कुण, खटमल;
(दे० ना० मा० ४, १४) ।

ढेच—वि० (दे०) अपाहिज । —उ;
(रा० ३०) ।

ढेडिअ—वि० (दे०) घूपित, घूप दिया
हुआ; (दे० ना० मा० ४, १६) ।

ढेक्कार—पुं० (दे०) वृषभशब्दानुकार
शब्द, डकार का शब्द, “जहिँ वसहं मुक्क-
ढेक्कारधीर जीहाविलिहियणंदिणिसरीर,”
अर्थात् वहाँ वैल डकार छोड़ते हुए तथा
अपनी जीभ से गायों के शरीर को चाटते

हुंए दिखाई देते हैं; तुल० म० ढैकर; (जस० १, २१, ३) ।

ढेल्ल—वि० (दे०) निर्घन, दरिद्र; (दे०-ना० मा० ४, १६) ।

ढेंघर—वि० (दे०) भ्रमणशील, घूमने वाला; (दे० ना० मा० ४, १५) ।

√ढेअ—(सं० ढौक्य) वहन करना, ढोना । ढोइवि—पू० का० क्रि०, “सो वयणई सुदई णं घयदुदई सप्पहो ढोइवि णासइ,” अर्थात् वह अ.ने शुद्ध वचनों को मानों सर्प को घृत्त और दूध देकर स्वयं नाश को प्राप्त होता है; (जस० १, १६, १०) । ढोवइ—क्रि०, व० लाना; (ण० १, १४, ६) ।

ढोइअ—वि० (सं० ढंकित) अपित; (सुदं० ११, १, ५) ।

ढोइउ—भू० का० (सं० ढंकित) उपस्थित हुआ; (रि० ३, १४) ।

ढोइट—वि० (सं० ढौकित) १. भेंट किया हुआ, २. उपस्थित किया हुआ; (जस० २, १२, ६) ।

ढोइय—भू० का०, (सं० ढौकित) निकट लाया; (प० च० ३१, ६, २) । —इ (सं० ढंकितानि) उपस्थित की गयीं; (रि० २, ७) ।

√ढोय—(सं० √ढौक्) ढोना । —इ व० ढोकर लाना, १. “जाव न अप्पउ तावह ढोयइ;” (प्रा० गु० १३, ४२) । २. “को वि अमुत्ताहरणइ ढोयइ;” कोई अमूल्य आवरण ढोकर लाता है; (प० च० २, १६, ५) । ढोउ—ले जाना, “जहि सुअ-सारियहूँ विणाहिँ ढोउ” —जहाँ शुक और सरिका को भी नहीं ले जा

सकते, (प० च० १६, ५, २) । ढोयन्ति—व०, व० (प० च० ६, ३, ३) (२) (सं० ढौक् > प्रा० ढुक्) अर्पण करना, भेंट चढ़ाना; (ण० ३, ८, ६) । ढोइवि—पू०-का० क्रि०, (ण० ४, ६, १) । ढोएप्पिणु—पू० का० क्रि० (ण० १, १७, १) । ढोएवि—पू० का० क्रि०, ढोकर; (व० ४, ७, ५) । ढोयंतु—कृ० (सं० ढौक्य + शतृ) (जंबू० १, ३, ८) ।

ढोयण—पुं० (सं० ढौकन > प्रा० ढोवण, ढोवणय) उपहार, भेंट; “पाहुड-पडिपा-हुड-ढोयणेण” उपहार-प्रत्युपहार रखने में; (प० च० १६, २, ५) ।

ढोयणीआ—स्त्री० (सं० ढौकन > प्रा० ढोवण) उपहार, भेंट; (संघि० ४, ७, ४) ।

ढोर—पुं० (सं० घवल = अत्युत्तम वैल) > घोल > घोर) ढोर, पशु; “ढुवल ढोर इव पंके पडिय ण उट्ठिवि सक्कइ,” तुल० गु० ढोर; (रि० १, ७; सुदं० ५, ५, ६; प० च० ३३, ११, ७) । ढोरि; (व० ७, ३, ८) ।

ढोत्ता—तुं० (दे०) वाद्य-विशेष; ढोल, दमामा, (प्रा० पं० १, १४७) ।

ढोत्ता—पु० (सं० दुर्लभ > पा० दल्लम > प्रा० दुल्ह) दुल्हा, इल्हा, वर, नौशा; तुल० बु० दूया; (हे० ३३०, १) ।

रा

रा—पुं० (सं० पा० न > प्रा० ण) ट वर्ग का पंचम वर्ण । इसका उच्चारण

स्थान मूर्द्धा है। मूर्धन्य, नाद, घोष, महा-
प्राण, सानुनासिक, स्पर्श वर्ण। प्राकृत के
प्रारंभ से अपभ्रंश भाषा की उन्नति तक
(दूसरी शताब्दी ई० पू० से १० वीं शता-
ब्दी तक 'न' को 'ण' को उच्चारण करने
की प्रवृत्ति सर्वत्र प्रधान रही। १० वीं
शताब्दी के बाद जी णत्व की प्रमुखता
रही। गु०, राज० और पं० में यह
प्रवृत्ति सुरक्षित रही। संस्कृत भाषा में
'ण' से प्रारंभ होने वाले शब्दों का अभाव
है, किंतु धातु पाठ में कुछ धातु ऐसी हैं
जिनका प्रथम अक्षर ण है। वस्तुतः धातु
को ण से लिखे जाने से यह सूचित होता
है कि 'न' कुछ उपसर्गों के पूर्व आने से
'ण' के रूप में भी परिवर्तित होता है।
अव्य०— निपेधार्थक अव्य०, नहीं, मत;
(ण० १, ४२; प० च० १, १०,
८)।

णं—अव्य०, १. न, २. इव, मानो
(उत्प्रेक्षाथक) (सं० रा०; महा० ६८,
३; प० च० १, ८, १३)। २. ननु—
एक अव्यय जिसका व्यवहार कोई वात
पूछने, सदेह प्रकट करने में या वाक्य के
आरंभ में किया जाता हो; (ण० १, ७,
६; जंबू० १, १०, १)।

णंगल—पुं० न० (दे० चञ्चू, चोंच;
(प० च० ४४, ४०)।

णंचु—न० (सं० नृत्य > णच्च) नृत्य;
(सि० २, २)।

णंण—न० (सं० ज्ञान > प्रा० णाण)
ज्ञान; (सि० १, २)।

णंतेडर—पुं० (सं० अन्तःपुर) जनान
खाना, जनाना या भीतरी महल, रनि-

वास; (व० ३, २०, ९)।

√णंद—(सं० √नन्द > प्रा० णंद) आनं-
दित होना, खुश होना; (जस० १, २०,
११)। णंदंत—कृ० (सं० नन्दत्)
(जस०)।

णंद—पुं० (सं० नन्द) आनंद, हर्ष;
(जस० १, ८, ८)।

णंदड—पुं० (सं० नन्द) (छंदशात्र में)
स्कंधक का एक भेद; (प्रा० पै० १, ७५)।

टि०—स्कंधक के सत्ताइस भेद होते हैं—
नंद, भद्र, रोष, सारंग, शिव, ब्रह्मा,
वारण, बरुण, नील, मदनताटक, शेखर,
शर, गगन, शरभ, विमति, क्षीर, नगर,
नर, स्निग्ध, स्नेह, मद्कल, भूपाल, शुद्ध,
सरित, कुंभ, कलस, ससि।

णंदण—पुं० १. (सं० नन्दन) पुत्र;
लड़का; (जस० १, २३, २)। २. राजा;
(व० १, ७, ४)। ३. (दे०) भृत्य,
नौकर; (दे० ना० मा० ४, १८)। वि०
आनंददायक; (व० १, १, ४)।

णंदणवण—न० (सं० नन्दनवन > प्रा०
णंदणवण) उद्यान-विशेष; (जस० १,
११, ११)। णंदणवणु; (पाहु०)।

णंदा^१—स्त्री० नंदा, रड्डा छंद एक भेद;
(प्रा० पै० १, १३६)। टि०—रड्डा छंद
के सात वस्तु भेद हैं—करभी, नंदा,
मोहिनी, चारुसेना, भद्रा, राजसेना,
ताटकिनी।

णंदा^२—स्त्री० (दे०) गो, गैया; (दे०-
ना० मा० ४, १८)।

णंदिक्ख—पुं० (दे०) सिंह, मृगेंद्र; (दे०-
ना० मा० ४, १९)।

णंदिशि—स्त्री० (सं० नन्दिनी) गो, वेणु;

(जस० १, २१, ३; दे० ना० मा० ४, १८) ।

षण्दिय—वि० (सं० नन्दित) आनंदप्रद; (जस० १, २, २) ।

षण्दिवद्धु—पुं० (सं० नन्दिवर्धन) राजा-विशेष-नाम; (व० १, ५, १) ।

षण्विसह—पुं० नन्दीश्वर, द्वीप-विशेष-नाम; (व० १०, ६, ६) ।

षण्डी—स्त्री० (दे०) गौ, गैया; (दे०-ना० मा० ४, १८) ।

षण्डीयइ—क्रि०, व० निद्रा आती है; (सं० रा०) ।

षण्डु—पुं० (सं० नन्द) राजा नंद का पुत्र; (व० २, ३, ३) ।

षण्ण—वि० (सं० नव > प्रा० णव) नया, नूतन; (प्रा० पै० २, १४४; क० ४, १३, ६) । वि० (सं० नत > प्रा० णय) प्रणत, जिसने नमन किया हो वह; (क०) ।

षण्ण—न० (सं० नयन > प्रा० णयण) नेत्र, आंख; (प्रा० पै० १, ६६) ।

षण्णइ—न०, व०; (प्रा० पै० १, ६६) ।

षण्णर—पुं० (सं० नगर) कस्बे से बड़ी और समृद्ध बस्ती, पुर, शहर, (प्रा० पै० १, ५५; की० २, ६) ।

षण्णरु—पुं० (छंदशास्त्र में) स्कंधक का एक भेद; स्कंधक के सत्ताइस भेदों में से एक भेद 'नगर'; (प्रा० पै० १, ७५) ।

षण्णइ—अव्य० निश्चयसूचक अव्यय, "थियइ रयण (इं) राइ वेण्णि वि जणइ रज्जु स इं भुञ्जन्तइ" —दोनों ही दिन-रात राज्य का स्वयं उपभोग करते हुए

रहने लगे, (प० च० १२, १२, १०) ।

षण्णइ—स्त्री० (सं० नदी > प्रा० णई) का नदी; (क० १, ३, ३; जस० २, ६, ६) । —वाह पुं० (सं० नदी प्रवाह) नदी प्रवाह या बहाव; (जस० ३, ४, १४) ।

षण्णमासय—न० जल में उत्पन्न कोई फल (जलोद्भवः फलभेदः); (दे० ना०-मा० ४, २३) ।

षण्णिस—पुं० (सं० नदीषा) समुद्र; (व० १, ११, ११) ।

षण्णिसरा—पुं० (सं० नदीश्वर) महासमुद्र; (व० १, ६, १) ।

षण्णउ—अव्य० (सं० न तु) नहीं; (प०-च० १, ३, ६; ण० १, ४, २) ।

षण्णउ—(सं० नृप) राजा; (सि० २, ७, २६) ।

षण्णइ^(१)—वि० (सं० नवति) नव्वे ।

षण्णल—पुं० (सं० नकुल) न्यूजा; (जस०) ।

षण्णरहिउ—वि० (सं० नयरहित) नय विहीन, नीतिनिहीन; (व० २, ६, १४) ।

षण्णसालि—स्त्री० (सं० नाट्यशाला) नाटकगृह; (व० ६, २३, २) ।

षण्णए—पुं० (सं० नय > प्रा० णय) नीति; (व० १, १३, १) ।

षण्णक्क—पुं० (दे०, प्रा० णक्क) नाक, नासिका; तुल० म० नाक; (ण० ६, ६, १, दे० ना० मा० ४, ४६; सं० रा०) ।

षण्णक्क—पुं० रावण का एक स्वनाम द्यात सुभट; (प० च० ५६, २८) ।

णक्कुड—पुं० नकुंठ, छंद-विशेष; (प०-
च० २३, १, ७) ।

णक्ख—पुं० (सं० नख > प्रा० णक्ख)
नख, नाखून; तुल० गु० नख; (प० च०
१४, ५, ७; जस० १, १७, १३) ।

णक्खत्त—पुं० (सं० नक्षत्र > प्रा० णक्खत्त
पुं० न०) कृत्तिका, अश्विनी, भरणी
आदि ज्योतिष्क विशेष; (प० च० १३।
१२। ६; जस० २, २३, १०) । णक्खत्तु;
(व० ६, ६, १२) ।

णक्खत्तगेमि—पुं० (सं० नक्षत्रनेमि)
विष्णु; (दे० ना० मा० ४, २२) ।

णक्खत्तराज—पुं० (सं० नक्षत्रराज)
चंद्रमा; (व० १, ३, ४) ।

णग—पुं० (सं० नग > प्रा० णग, णय)
पर्वत, (प० च० १८, ७, ७) ।

णगरा—पुं० नगण, (सर्वलघु वर्णिक
(॥॥); (प्रा० पै० १, ३५) ।

णगराआ—स्त्री० नगणिका, छंद का
नाम; (प्रा० पै० २, ३१) ।

णग्ग—वि० (सं० नग्न > प्रा० णग्ग)
नंगा, वस्त्र-रहित (जस० २, १८, ८) ।

णग्गी—वि० स्त्री० नग्ना, नग्न स्त्री;
(जस० १, ६, ६) ।

णग्गुड—वि० (सं० नग्न > प्रा० णग्ग)
नगोड़ा; “धणु दितउ भंडहँ णग्गुडाहँ;”
अर्थात् भाँड़ों और नगोड़ों को धन वांटता
हुआ; (क० ८, १५, ५) ।

णग्गुडि—पुं० वंदी जन, भाट; (जस०
१, २७, १) ।

णग्गोग्ग—वि० (सं० नग्न + उग्र) नग्न
और तीव्र, “णग्गोग्गखग्ग” नग्न और
तीव्र तलवार; (ण० १, ६, ७) ।

णग्गोह—पुं० (सं० न्यग्रोव > प्रा०
णग्गोह) वृक्ष-विशेष, वड़ का पेड़; (ण०
१, १३, ७; जस० १, १२, १४) ।

√णच्च—(सं० √चृत् > प्रा० णच्च)
नाचना; (सं० रा०) । —इ व० (सं०
चृत्यति > प्रा० णच्चइ); (प्रा० पै० १,
१६६; ण० १, ७, १) । णच्चंत—कृ०
(सं० √चृत् + शतृ); (व० ४, ३, १४) ।
णच्चावइ-प्रेरणार्थक क्रि०, (सं० नतंघ्)
नचाना; (जस० १ ५, १८) ।

णच्चण—न० (सं० नर्तन > प्रा०
णच्चण) नाच, नृत्य; (जस० २, १०,
६) ।

णच्चवियय—वि० (सं० नर्तित > प्रा०
णच्चाविअ) नचाया हुआ; (ण० २, ६,
६; प० च० ११, ७, ६) ।

णच्चिअ—वि० (सं० नर्तित > प्रा०
णच्चाविअ) नचाया हुआ; (ण० ५, १२,
१२) । णच्चिय; (जस० १, १४,
१०) ।

णच्चिर < वि० (सं० चृत् + इर) रमण-
शील; (क० १, १७, ६; दे० ना० मा०
४, १८) ।

णच्चिउ—क्रि०, आ० (सं० नद्यतु) नाश
करे; (भ० १०, ४, ७) ।

√णज्ज—(सं० √जा > प्रा० णज्ज)
—इ (सं० जानाति) १. जानना,
सीखना; (सुदं० २, २, १०) । २. ऐसा
मालूम होता है; (सं० रा०) ।

णज्जर—वि० (दे०) मलिन, मैला;
(दे० ना० मा० ४, १८) ।

णज्ज्जर—वि० (दे०) निर्मल, विमल;
(दे० ना० मा० ४, १६) ।

णट्ट—न० (सं० नाट्य > प्रा० णट्ट न०) १. नृत्य, गीत और वाद्य, नटों का काम; (ण० ६, ६, ६) । २. नाट्य; (जस० १, १६, २) । ३. कूटद्युत; (प०-च० ४५, १२, ८) ।

णट्टमालि—पुं० णट्टमालि नामक देव-विशेष; (व० २, १३, ६) ।

णट्टारम्भ—पुं० (सं० नाट्यारम्भ) नाटक का आरम्भ; तुल० गु० नाटारम्भ; (प० च० २, ६, ६) ।

णट्टावय—वि० (सं० नर्तक > प्रा० णट्टावय) नचाने वाला; (प० च० ११, ७, ६) ।

णट्टात्रयघर—पुं० (सं० नाट्यग्रह > प्रा० णट्टघर) नृत्यशाला; (प० च० १४, १२, ८) ।

णट्ट—वि० (सं० नष्ट > प्रा० णट्ट) नाश-प्राप्त, नष्ट, अपगत; (ण० ३, १४, ४; सं० रा०) । —मअ वि० नाशित; (ण० ६, ७, १०) ।

णट्टासणिल्लु—वि० [सं० नष्ट + आसन + इल्ल (मत्वर्थे)] जो सिंहासन से च्युत हो गया हो; (ण० ४, १३, ५) ।

णट्ट—(सं० √ वृत्) नाचना, अभिनय करना । —इ व० (सुदं० ११, १२, ६) ।

णड्डे—व० (सुदं० २, १०, १३) ।

णड्डति—कृ० स्त्री० में (सं० नट् + शत्रु) (सुदं० २, १२, ४) । णड्डभाण—कृ० (सं० वृत् + शानच्) वृत्त्य करती हुई; (व० २, १४, ३) ।

णड—पुं० (सं० नट > प्रा० णट्ट) नट; नर्तकों की एक जाति; (सं० रा०; महा० ६६, १६, ११) ।

णडिअ—वि० (दे०) वंचित, विप्रतारित, खेदित; (सुदं० २, ११, ४) ।

णडिअ—वि० (दे०) वञ्चित (ण० २, १२, ११) । णडिअ—वि० वंचित (दे० ना० मा० ४, १८) । वि० (प्रा० √ णड = व्याकुल होना) व्याकुलीकृत; (प० च० ३३, ११, ३) ।

णडुअ—वि० (दे०) छलित, वंचित; (व० २, ६, ४) ।

णडुली—स्त्री० (दे०) कच्छुआ, कच्छप; (दे० ना० मा० ४, २०) ।

णड्डरी—स्त्री० (दे०) भेक (१. मेढक, २. डरपोक मनुष्य) ३. बादल; (दे०-ना० मा० ४, २०) ।

णड्डुली—देखो णडुली (दे० ना० मा० ४, २०) ।

णगगिदि—स्त्री० शब्दानुकृति; (प्रा०-पै० १, २०४) ।

णण्डिक्क—पुं० व्याघ्र; (प० च० ३०, २, ३) ।

णण्ण—वि० (सं० न + अन्य > प्रा० ण + अण्ण, अण) अन्य कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं; (जस०) । णण्णु; (ण० ८, ५, ६) । पुं० नन्न, पुरुष-विशेष-नाम; (जस० १, १, ४) ।

णण्ह—वि० (दे०) सूक्ष्म; “णण्हरोमावली-कण्णसंसग्गओ;” अर्थात् उसकी रोमावली सूक्ष्म थी और कानों का परस्पर संसर्ग हो जाता था; (क० ८, २, ६) ।

णतिसिर—स्त्री० नतशिरा, दिक्कुमारी, स्त्री-विशेष-नाम; (व० ६, ५, ७) ।

णत्ताहं—न० (सं० नक्त + अहन् > प्रा०

णत न० + अहं न०) दिन-रात; (ण० ५, १०, १६) ।
 णत्ति—स्त्री० (सं० नप्त्री > प्रा० णत्ती) नाती, पंता; (जस० ३, ८, ३) । वि० (सं० न + अन्य) अन्य कोई नहीं; (जस०) ।
 णत्थ—स्त्री० (सं० नस्त = नाक का छेड़) नासारज्जु; तुल० ओ० नथ, पं० नत्थ, गु० नथ (nose-ring), (प० च० ४७, १, ११) ।
 णत्थदंड—पुं० (सं० अनयंदण्ड) त्रुटि-पूर्णदण्ड; (प्रा० गु० १८, १०) ।
 णत्थिय—अव्य० (सं० नास्ति > प्रा० एत्थिय) अभावसूचक अव्यय, तुल० गु० नथी, (प० च० १६, १२, ३; ण० १, १३, ६; सं० रा०) ।
 णदि—स्त्री० (सं० नदी > प्रा० णई) नदी; (प्रा० पै० १, ६) ।
 णद्द—पुं० (सं० नाद) शब्द, ध्वनि, आवाज; (क० ६, २, २; की० ४, ३७; ण० ७, १२, २) ।
 णद्दिय—वि० (दे०) दुःखित; (दे०-ना० मा० ४, २०) ।
 णन्दण—पुं० (सं० नन्दन > प्रा० णंदण) पुत्र, लड़का; (प० च० ३, १३, ३) । स्त्री०-णन्दणी (प० च० १०, १, ५) ।
 णन्दणवणिय—वि० (सं० नन्दनवनिक) उद्यानपाल, वनपाल; (प० च० ३३, ३, ७) ।
 णन्दावत्त—पुं० नन्दावर्त, नगर-विशेष-नाम; (प० च० ३०, १, ३०) ।
 णन्दुखारी—पुं० नगर-विशेष-नाम;

(प० च० ४५, ४, ६) ।
 णम्मग—न० (सं० नमः + अग्र > प्रा० णम + अग्र = आकाश का ऊपर का भाग) आकाश, “भोयसएहिं णम्मगे, कंतहे रोहई लगगे;” अर्थात् वह आकाश में उड़ता और अपनी कांता के स्नेह में लगरकर; (क० ८, ३, २) ।
 √णम—(√सं० नम् > प्रा० णम, णव) नमना, नवना । —इ व० (सं०-नमति) राज० नम्बो, नवंबो, नमंबो-नम्बो; (प्रा० पै० १, ६) । णमन्त—व० कृ०; (प० च० १, ८, १२) । णमेइ—व० भुक जाना; (रि० १०३; १५) ।
 णवयारिवि—पू० का० क्रि०, नमस्कृत्य; (जस० १, २७, १०) । णविवि—पू०-का० क्रि०, नमन करके; (ण० १, ८, १२; महा० ६८, ६, १०) । णवेप्पिण्ण—पू० का० क्रि०, नमस्कार करके; (सुअं १, १) । णाविकुण्ण—पू० का० क्रि०; झुकाकर; (व० ८, १० ११) ।
 णमसिअ—न० (दे०) मनौती; (दे०-ना० मा० ४, २२) ।
 णमि—पुं० नमि, नृप-विशेष; (व० २, १३, १०) । २. नमिनाथ नामक तीर्थ-कर (व० १, १, १३) । —राय पुं० नमि राजा; (व० ४, ७, ८) ।
 णमिय—वि० (सं० नमित > प्रा० नमिअ) नमाया हुआ; (प० च० २, ६, ६; क० ३, २०, ८) ।
 एमोक्कार—पुं० (सं० नमस्कार > प्रा० णमोक्कार) नमन, प्रणाम; (प० च० ६, १०, १) ।
 णम्मय—स्त्री० (सं० नमदा > प्रा०

णम्मया) नर्मदा, नदी-विशेष-नाम; (प०-
च० २७, १, १) । — १ (णम्मया)
स्त्री० नर्मदा नदी; (प० च० ४८, ६,
४) ।

णय—पुं० (सं० नय > प्रा० णय)
न्याय, नीति; (प० च० १, ६, १) ।
२. (सं० नद) नदी; (व० ३, ८, १३) ।
३. नीतिशास्त्र; (जस० २, ५, ६) ।
४. पुं० राजपुत्रनाम-विशेष; (जस० ४,
८, १) । वि० (सं० नत > प्रा० णय)
प्रणत, नमा हुआ; (ण० १, ११, ३;
जस० १, १, २) । — मग्य पुं० (सं०-
नय + मग्य) नीतिमार्ग; (की० ३,
१४१) ।

णयणञ्जण—पुं० (सं० नयनाञ्जन) नेत्रों
में लगाया जाने वाला अंजन; (जस० ४,
२, १६) ।

णयणंजु—पुं० (सं० नयन + अञ्जु) नेत्रों
के आंसू, (जस० ४, १, २) ।

णयण—पुं० नयन > प्रा० णयण) नेत्र;
नयन, आँख; (जस० १, ६, १०; व० १,
१, १३) । — उल्ल (स्वार्थे प्र०) (जस०
२, ६, ५) । णयणु; (व० १०, ८,
५) ।

णयणकडक्ख—पुं० (सं० नयन +
कटाक्ष) तिरछी नजर, (look at with
a side glance) । — इ व० (प० च०
३८, १३, ६) । णयणकडक्खे वि—पू०-
का० क्रि०, (प० च० ३७, ७, ७) ।

णयणकडक्खिय—वि० तिरछी चितवन
से देखा हुआ; (प० च० २३, १३,
६) ।

णयणाणंदण—वि० (सं० नयन + नन्दन)

नयनों को आनंदित करने वाला; (व०
१, ७, १२) ।

णयणाणंदरु—वि० (सं० नयनानन्दकर)
नेत्रों को आनंद देने वाला; (रि० २,
१) ।

णयणामेलय—पुं० (सं० नयन + मेलक)
दृष्टि मिलन; (प० च० ३१, १२,
१०) ।

णयणिट्ठ—वि० (सं० नयन + इष्ट)
नेत्रों के लिए प्रिय; (जस० २, १,
१८) ।

णयमग्गु—पुं० (सं० नय + मार्ग) नीति-
मार्ग; (व० १, १७, ४) ।

णयर—पुं० (सं० नगर > प्रा० णगर)
शहर, पुर; (सं० रा०; जस० १, ३,
१५; ण० ४, ६, ५) । णयरु; (प० च०
१२, ३, ८) ।

णयरि—स्त्री० (सं० नगरी > प्रा०
णयरी) नगरी, शहर, पुरी; (सुअंध० २,
१, १३; व० १, ४, १) ।

णयरोह—पुं० (सं० नय + रोध) दुर्नय;
(जस०) ।

णयाणय—पुं० (सं० नय + अनय) नीति
और अनीति, न्याय और अन्याय; (जस०
४, ६, ६) ।

णरंग—पुं० (सं० नर + अङ्ग) शरीर;
“पइं जिण णिदिउ विट्टलु णरंगु”
आपने इस दूषित शरीर की निंदा की है;
(ण० ८, १०, ४) ।

णर—पुं० (सं० नर > प्रा० णर) मनुष्य;
(प० च० १६, १५, ७; ण० १, ६,
११) । — नाह, पुं० (सं० नरनाथ)
राजा; (भ०) । — मय मनुष्य रूपी मृग

(व० १, ५, ६) । —वड पुं० (सं० नरपति > प्रा० परवड) राजा (प० च० ४, १, ६; व० १, ४, १७; रा० ६, २, ६) । छंशास्त्र में जगण (।।।); (प्रा० पं० १, ८७) । —वर पुं० (सं० नर-वर) राजा; (भ०) । —वरिद, पुं० (सं० नरवरेन्द्र) राजा; (भ०) । —हिय पुं० (सं० नराधिप) नरेश; (भ०) ।
 परअ—पुं० (सं० नरक > प्रा० परय) नारक जीवों का स्थान; (जस० २, ४, १०) । परउ; (मुदं० ८, ५) ।
 पकंत—पुं० परकन्ता नामक नदी; (व० १०, १६, ३) ।
 परकेसरि—पुं० (सं० नरकेसरिन्) विष्णु का चौथा अवतार; (भ०) ।
 परलम्भ—पुं० (सं० नरलम्भन्) मनुष्य का जन्म; (जस० ४, १६, ३) ।
 परण स्थि—स्त्री० (सं० नरास्थि) मनुष्य की हड्डियाँ; (व० ३, २६, ३) ।
 परणाह—पुं० (सं० नरनाथ) ऋषभदेव; (व० १, १३, ६) । परणाहु—पुं० राजा; (जस० १, १६, १६) ।
 परतिय—स्त्री० (सं० नर + अर्थ) पुरुष की कामना, “सुपसतियँ परतियँ अगुज्ज-यहोँ, गय वुट्ठ पासि सा खुज्जयहोँ;” अर्थात् नुभसे अधिक प्रशस्त पुरुष की कामना से वह वुट्टा एक टेढ़े-मेढ़े कुवड़े के पास गई; (जस० २, ६, ६) ।
 परयंघ-कूव—पुं० (सं० नरकान्ध-कूप) नरक का अंधकूप; (व० १, १६, १०) ।
 परय—पुं० (सं० नरक > प्रा० परग, परय) वह स्थान जहाँ बुरे कर्म करने

वाले की आत्मा पाप का फल भोगने के लिए भेजी जाती है, दोख; (जस० २, १६, २७) ।
 परयविल—न० (सं० नरकविल) छिद्र; (जस० ३, ४१, १२) ।
 परयाल—पुं० (सं० नरकालय) नरक का घर या स्थान; (क० ६, ८, २) ।
 परवरिदु—पुं० (सं० नरवरेन्द्र) राजा; (जस० १, ६, २०) ।
 पराब—पुं० न० (सं० नाराच > प्रा० पराच, पराअ) छंद-विशेष, वणिक् छंद का नाम; (प्रा० पं० २, ६८) । १०—नाराच छंद में एक-एक लघु के पश्चात् एक-एक गुरु होता है तथा प्रत्येक चरण में १६ अक्षर होते हैं ।
 पराअण—पुं० (सं० नारायण > प्रा० परायण) विष्णु; (प्रा० पं० १, २०७) ।
 पराहिव—पुं० (सं० नराधिप > प्रा० एराहिव) राजा, (क० २, १६, ३) ।
 परिद—पुं० (सं० नरेन्द्र > प्रा० परेद) राजा, नर-पति; (क० १, २, ३) ।
 परि—स्त्री० (सं० नारी) स्त्री; (सि० १, ३६) ।
 परु—पुं० छन्दपय छंद का भेद; (प्रा० पं० १, १२३) ।
 परेस—पुं० (सं० नरेश > प्रा० परीस) राजा; (भ०) ।
 परेसर—पुं० (सं० नरेश्वर > प्रा० परीसर) राजा; (क० १, १०, ७) ।
 परेसह; (महा० ६६, १४, १३) ।
 परोह—पुं० (सं० नर + अधि > प्रा०

णर+ओष, ओह) नर समूह; (ण० ८, १६, ३) ।

णल—पुं० (सं० नल) राजा-विशेष-नाम; “णल णहुस वेणु मंघाय जे वि;” (जस० १, ६, १०) ।

णल—न० (सं० नड) तृण-विशेष, खस का तृण; (दे० ना० मा० ४, १६) ।

णलिण—न० (सं० नलिन > प्रा० णलिण) रक्त कमल; (जस० १, २३, ६) ।

णलिणी—स्त्री० (सं० नलिनी > प्रा० णलिणि) कमलिनी; (सु० ८, ४) ।
—वद् पुं० (सं० नलिनीपति) सूर्य; (व० ७, १४, ५) ।

णलियं—पुं० (दे०) गृह, घर, मकान; (दे० ना० मा० ४, २०) ।

णलो—पुं० (सं० नलः) (छंदशास्त्र में) स्कंधक का भेद; (प्रा० पं० १, ७४) ।

णव—(सं० नव > प्रा० णव) नवीन, नया, नूतन; (प्रा० पं० १, १३५) ।

—रंग पुं० छप्पय छंद का भेद; (प्रा०-पं० १, १२३) ।

णव—(सं० √नम् > प्रा० णम, णव) नमन करना; (जस० १, ८, ६) —इ व० (सं० नमति > प्रा० णवइ) (क० ३, २, ६) । णवन्त—कृ० (प० च० ७, ६, ६) । —वेवि पू० का० क्रि०; (क० ३, ६, ५) । णाविज्जइ—कर्मवा०; (ण० ८, १०, ७) ।

णवइ, णवदि—वि० (सं० नवति) नव्ते; (महा०) ।

णवकार—पुं० (सं० नमस्कार > प्रा०

णमोक्कार, णवकार) नमोकार मंत्र “णवकारइ मुणिया दिण्णएण;” (क० ५, १८, ८) ।

णवजुवणौ—स्त्री० नवयौवना; (सं०-रा०) ।

णवणवोत्तर—पुं० (सं० नव-नवोत्तर) नौ अनुदिश स्वर्ग; (व० १०, ३०, १७) ।

णवणिय—पुं० न० (सं० नवनीत > प्रा० णवणीअ) मक्खन (जस० ६, २१, ४) ।

णवणीय; (व० १०, ३, ८) ।

णवतरु—पुं० (सं० नव तरु) नवीन वृक्ष; (व० २, ११, १०) ।

णवदह, णवरह(र्)—वि० (सं० नवदश) उन्नीस ।

णव-पलिज—पुं० (सं० नव पलित) सफेद या शुभ्रकेश, (व० ८, ७, १२) ।

णवनालिय—स्त्री० नवमाजिका, दिक्कु-मारी, स्त्री-विशेष-नाम; (व० ६, ५, ७) ।

णवमासु—पुं० (सं० नव+मास) असाढ़ मास, वर्ष का चौथा महीना; (व० ६, ८, ६) ।

णवमि—स्त्री० (सं० नवमी > प्रा० णवमी) नवमी, तिथि-विशेष; “णवमिहिं दिणि भइ दह-गुणि तुरंत” नवमी के दिन वह पूजा दस गुनी हो गई; (सि० १, १७) ।

णवमेह—पुं० (सं० नव+मेघ > प्रा० णवमेह) नए मेघ (ण० ६, २२, ७) ।

णवर—अव्य० (दे०) १. केवल, (प०-घ० ११, ५, ४) । २. तथापि; ‘तउ

करहुँ णवर दइवें खसिब, (मैं वहाँ) तप
करूंगा, तथापि देव ने इसमें भी वाधा
डाली, (जस० २, २१, ५) । ३. अनंतर,
वाद में; (ण० ४, १२, १) ।

णवराड—पुं० नवराग; (सि० १,
१३) ।

णवरि—अव्य० (दे०) अनंतर, वाद में;
(दे० ना० मा० ४, २०) ।

णवरिअ—न० (दे०) सहसा, जल्दी,
तुरंत; (दे० ना० मा० ४, २२) ।

णवल—वि० [सं० नव > प्रा० णव +
ल्ल (स्वार्थे प्र०)] नूतन, नया; तुल०
म० नवल; (क० २, १७, १०) । णवल्ल
—वि० (जस० ३, १३, १८) ।

णवल्लया—स्त्री० (दे०) वह व्रत, जिसमें
पति का नाम पूछने पर उसे नहीं बताने
वाली स्त्री पलाश की लता से ताड़ित
की जाती है; (दे० ना० मा० ४,
२१) ।

णवसियं—न० (दे०) सं० उपयाचित-
कम् । मनोती; (दे० ना० मा० ४,
२२) । टि०—णवसियं की सं० नमस्या
(पूजा, अर्चना, श्रद्धा, भक्ति) से व्युत्पन्न
नहीं माना जा सकता ।

णवि—अव्य० (सं० नापि > प्रा० णवि)
वैपरीत्य सूचक अव्यय, निषेधार्थक
अव्यय; (दे० ना० मा० ४, १८) ।

णविय—वि० (सं० नमित > प्रा०
णमिअ, णविअ) प्रणत, जिसने नमन
किया हो वह; (ण० १, १६, ७) ।

णवोद्धरण—न० (दे०) उच्छिष्ट, जूठा;
(दे० ना० मा० ४, २३) ।

णव्राउत्त—पुं० (दे०) १. ईश्वर, घना-

ह्य, भोगी; २. नियोगी का पुत्र; (दे०-
ना० मा० ४, २२) ।

णस—(सं० नश्यते) नष्ट होना;
(प्रा० वै० १, ३७) ।

णहंत—न० (सं० नभस् + अन्त) आकाश
का अखीर; (जस० १, १६, १४) ।

णह—पुं० (सं० नभस् > प्रा० णह)
आकाश, गगन; (प्रा० वै० १, १०६;
की० ४, १८६) । पुं० (सं० नख > प्रा०

णक्ख) नख, नाखून; (सं० रा०; जंबू०
८, १३; ण० १, ११, ३) ।

णहग्गु—पुं० (सं० नभस् + अग्र) आकाश
का अग्र भाग; (व० १, ४, ८) ।

णहणिय—स्त्री० (दे०) नटिनी, नतंकी;
(सं० रा०) ।

णहयल—पुं० (सं० नमस्तल) आकाश
का निचला भाग; (जस० ४, १२,
६) ।

णहमणि—स्त्री० १. (सं० नभस् +
मणि) सूर्य; (प० च० २, ६, ८) २. (सं०
नख + मणि) नख रूपी मणि; (व० १,
६, ५) ।

णहमुह—पुं० (दे०) उल्लू; (दे० ना०-
मा० ४, २०) ।

णहयर—वि० (सं० नभश्चर) आकाश-
गामी; (ण० १, १७, ३; जस० १, ७,
६) ।

णहयल—पुं० (सं० नख + तल > प्रा०
णक्ख + तल, यल) नाखून का अधोभाग;
(ण० १, १७, ३) । पुं० (सं० नभ-

स्तल) आकाश का निचला भाग; (जस० १, ३, १७; क० २, २१, ८) ।

—गाम्भिण्ड वि० (—गामिनी) आकाश तलगामिनी; (रि० १०, २) ।

णहर—पुं० (सं० नखर > प्रा० णहर)

नाखून; (व० १०, ३२, ४) । —न्ध्र

पुं० (सं० नखरन्ध्र) नाखून का छेद;

(व० ३, २६, ४) ।

णहरी—स्त्री० (देशी शब्द प्रा०

णहरी) झुरिका, छुरी (दे० ना० मा०

४, १=) ।

णहवण—पुं० (सं० नख + वण > प्रा०

णह + वण पुं० न०) नाखून का घाव;

(ण० ३, ११, ४) ।

णहवल्लिय—स्त्री० (सं० नभवल्ली >

प्रा० णहवल्ली) विद्युत्, बिजली; (सं०-

रा०) ।

णहसिरि—स्त्री० (सं० नमः + श्री)

आकाश की प्रभा; "णं णहसिरि जगय-

कुंभएण मानो कुम्भ राशि के उदय से

आकाश चमक उठा हो, (ण० १, १०,

५) ।

णहाण—न० (सं० स्नान > प्रा० ण्हाण)

नहाना; (प्रा० पै० २, १=६) । —इड

वि० नहाए हुए; (प० च० १३, ६,

७) ।

णहि—अव्य० (सं० नहि > प्रा० णहि)

निषेधार्थक अव्य० नहीं, (प्रा० पै० १,

३७) ।

णहु—अव्य० (सं० न खलु) निषेधार्थक

अव्यय, नहीं; (की० ३, १=८; सं०-

रा०) ।

णहुत्त—पुं० (सं० नहुष) अयोध्या के

एक प्राचीन इक्ष्वाकुवंशीय राजा का नाम जो अंबरीष का पुत्र और ययाति का पिता दा; (जस० १, ६, १०) ।

√णा—(सं० ज्ञा > प्रा० णा) जानना,

समझना; (जस० १, १५, १) । —यडं

भू० का०, ज्ञान प्राप्त किया; (रि० १,

२) ।

णा—अव्य० (सं० न > प्रा० णा) निषेध-

सूचक अव्यय, नहीं; (प्रा० पै० २,

८=) ।

णाज—पुं० (सं० न्याय) नीति, औचि-

त्य; (जस० ३, २५, १४) ।

णाज—पुं० (सं० नाग > प्रा० णाग)

सर्प; (प्रा० पै० १, ६१) ।

णाजक्क—पुं० (सं० नायक > प्रा०

णायग) नेता, मुखिया, अगुजा; (प्रा०-

पै० १, ३=) ।

णाजर—वि० (सं० नागर) नगरवासी,

विदग्ध, प्रवीण, रसिक; (की० १, २६) ।

२. सन्म्य व्यक्ति; (प्रा० पै० २,

१=५) ।

णाजरि—स्त्री० (सं० नागरी) नगरवासी

स्त्री; (प्रा० पै० २, १०५) ।

णाड—अव्य० १. इव, मानो; (महा०

६६, १२, १४) । २. नाडँ, समान; (क०

१, ६, ६) ।

णाड—अव्य० (दे०) १. समान, उपना-

वाचक शब्द; तुल० राज० नाडँ; (प्रा०-

पै० २, १३६) । २. मानो, इव, (प०-

३, १२, ६) ।

णाङ्गि—स्त्री० (सं० नागिनी > प्रा०

णाङ्गी) नागिन, सर्पिणी; (क० १०,

१२, १) ।

शाब्दिक—वि० (सं० ज्ञात > प्रा० शाब्दिक) जाना हुआ, विदित, ज्ञात, “जा जल-कौल तेण उप्पाइय, सा अमरेहि मि रमे वि ण शाब्दिक” उसने जो जल-क्रीड़ा की है, वैसी क्रीड़ा देवताओं को भी ज्ञात नहीं; (प० च० १४, ११, ४; रि० १, १२) ।

शाब्दिक—पुं० (सं० नामन्) नाम, शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह का ज्ञान प्राप्त हो; (प० च० २, १७, ८; ण० ४, १३, ६) । पुं० (सं० नाग > प्रा० शाब्दिक, शाब्दिक) सर्प; (रि० ४) ।

शाब्दिक—वि० (दे०) जिसके पास अनेक गाय हों; (दे० ना० मा० ४, २३) ।

शाब्दिक—वि० (दे०) अत्यधिक अहंकारी (गर्विष्ठ); (दे० ना० मा० ४, २३) ।

शाब्दिक—पुं० (सं० नाग > प्रा० शाब्दिक) सर्प; (व० ८, १६, २) ।

शाब्दिक—पुं० शाब्दिक, व्यक्ति-विशेष-नाम; (जस० ४, २८, २) ।

शाब्दिक—पुं० (सं० शाब्दिक) ऐंद्र-जालिक फंदा, जो युद्धकाल में शत्रु को फँसाने के लिए व्यवहृत किया जाता था; (प० च० २०, ५, २) ।

शाब्दिक—वि० (सं० न + आगत) नहीं आया हुआ, (जस० २, ७, २) ।

शाब्दिक—न० (सं० नाटक > प्रा० शाब्दिक, शाब्दिक) नाटक, अभिनय; (सि० १, १७) ।

शाब्दिक—न० (सं० नाटक > प्रा० शाब्दिक, शाब्दिक) अभिनय, नाट्य-क्रिया; (ण० २, ६, ५) । २. नर्तन; (प० च० २७, १२, ८) ।

शाब्दिक—स्त्री० (सं० नाडि > प्रा० शाब्दिक) नाड़ी, नस, सिरा; (सि० २, ६) ।

शाब्दिक—क्रि०, व० अभिनय करना, “वम्मह-णड शाब्दिकजन्ति (?) के वि” — वामन और नट की तरह कोई अपना अभिनय कर रहे थे; (प० च० ७, २, ५) ।

शाब्दिक—न० (सं० ज्ञान + अंकुशित > प्रा० शाब्दिक न० + अंकुशइय न०) ज्ञान का अंकुश; “मणवारणु ते शाब्दिककुसिड,” उसे ज्ञान के अंकुश से रोका, (ण० ६, ५, ३) ।

शाब्दिक—न० (सं० ज्ञान > प्रा० शाब्दिक) ज्ञान, बोध; (प० च० २, १०, ६; म० २, ७, ७; ण० १, १२, १०) । —तेअ पुं० (सं० ज्ञान + तेजस् > प्रा० शाब्दिक + तेज) ज्ञान का प्रकाश; (ण० १, ६, ३) । शाब्दिक; (सि० १, १७) ।

शाब्दिक—पुं० (सं० ज्ञानत्रय) मति, श्रुति और अवधि-रूप. तीन प्रकार का ज्ञान; (व० ६, ८, ७) ।

शाब्दिक—वि० (सं० ज्ञानमय) ज्ञान से युक्त; (जस० ३, २८, ११) ।

शाब्दिक—वि० (सं० नाना > प्रा० शाब्दिक) अनेक, अनेक प्रकार के, विविध; (जस० ४, ७, ४) । —विह वि० (—विध) विविध, अनेक प्रकार का; (जस० १, १०, १०) । —हिशाब्दिक पुं० (सं० नाना + अभिज्ञान प्रा० शाब्दिक + अहिशाब्दिक) अनेक ज्ञान रूप; “महापंचकल्याणशाब्दिक-हिशाब्दिक,” आपके पाँच महाकल्याणक रूप हुए हैं। आप ज्ञान रूप हैं, (ण० २, ११, २) ।

णाणि—वि० (सं० ज्ञानिन् > प्रा० णाणि) ज्ञानी, जानकार; (जस० २, १२, २०) । णाणी; (ण० २, ३, १३) ।

णात्तियउ—पुं० (सं० नप्त्वी > प्रा० णत्ती) नाती, लड़की या लड़के का लड़का; (सि० २, ३) ।

णामि—पुं० (सं० नाभि > प्रा० णाभि) नाभि, पेट का मध्यभाग; (सि० १, १) ।

णाम—न० (सं० नामन् > प्रा० णाम) नाम, आरव्या, अभिधान; (जस० १, २, १३) ।

णामाई—न०, व०; (प्रा० पै० १, ८६) ।

णामोक्किसियं—न० (दे०) कार्य, काम; (दे० ना० मा० ४, २५) ।

णाय—पुं० (सं० नाग > प्रा० णाग, णाय) १. नाग, सर्प, साँप; (ण० ३, ५, ३; सं० रा०) । २. हाथी; (प० च० १६, ४, ६, १२, ३, ७) । ३. (सं० न्याय > प्रा० णाय) न्याय, नीति; (ण० ६, २, ६) । ४. (सं० नाद > प्रा० णाय) शब्द, आवाज; (ण० ६, १८, ४) ।

—पास पुं० (सं० नागपाश) शत्रु को बाँधने के लिए एक प्रकार का बंधन का फंदा; (व० ४, ७, १२) ।

णायग्र—वि० (सं० ज्ञायक) जानकार; (ण० ४, २, ११) ।

णायकण—स्त्री० (सं० नागकन्या) नाग जाति की कन्या; (जस० १, २५, १०) ।

णायकु—पुं० (सं० नायक > प्रा० णायग) नेता, मुखिया, अगुआ; (परमा०) ।

णायकुमार—पुं० नागकुमार नाम का देव; (क० १०, ३, १) ।

णायदत्त—स्त्री० नागदत्ता नामक स्त्री; “सो णायदत्तघरिणिणै सणाहु; अथत्ति वही नागदत्ता गृहिणी का पति हुआ; (क० १०, १०, ६) ।

णायभंगु—पुं० (सं० न्याय भंग) न्याय का उल्लंघन; (महा० २२-३) ।

णायर—वि० (सं० नागर > प्रा० णागर, णायर) १. नागरिक, नगर का निवासी २. नगर संबंधी; (सं० रा०; ण० १, ६, ११) । —णरा पुं० (सं० नागर-नर > प्रा० णायरणर) नागरजन; (व० १, ८, ११) ।

णायवंत—पुं० नागवन्त, नागों का निवास; “अहवा पायालु च णायवंतु;” अतएव वह उस पाताल के समान था, जहाँ नागों का निवास है; (सुदं० २, ३, ७) ।

णायवासु—पुं० (सं० नागपाश) शत्रु को बाँधने के लिए एक प्रकार का बंधन या फंदा; (रि० ३, ८) ।

णायवेल्लि—स्त्री० (सं० नागवल्ली) नागवेल, पान की वेल, तांबूल-लता; (व० १, ३, १०) ।

णायसंडु—पुं० नागरखण्ड नामक वन, “वरुण णायसंड णामेण एवि;” (व० ६, २०, १) ।

णारइय—वि० (सं० नारकीय) नरक संबंधी; (जस० २, २८, ३) ।

णारओ—पुं० (सं० नारक > प्रा० णारग, णारय) नरक के जीव, प्रेतात्मा; (की० २, १६०) ।

णारय—वि० (सं० नारक > प्रा० णारग, णारय) नरक में उत्पन्न; (ण० १, १२, १०) । पुं० नरक-लोक; (क० ६, ८, २) ।

णाराय—पुं० न० (सं० नाराच > प्रा० णाराच, णाराअ) लोहमय वाण; (व० ५, १६, ८) । —राइ स्त्री० (सं० नाराच-राजि) वाण पंक्ति; (व० ५, ५, १२) ।

णारायण—पुं० (सं० नारायण > प्रा० णारायण) राजा-विशेष; (ण० ७, ८, ७) । णारायणु—पुं० श्रीकृष्ण; (रि० १, ३) ।

णारि—स्त्री० (सं० नारी > प्रा० णारी) स्त्री, औरत, महिला; (व० २, १०, २) ।

णारियर—पुं० (सं० नालिकेर > प्रा० णारिएर) नारियल; (सि० १, २) ।

णारी—स्त्री० (सं० नारी > प्रा० णारी) (1) स्त्री; २. सर्वलघु त्रिकल गण (111) का नाम णरीअं (नारीणं); (प्रा० पै० १, २०) । ३. नारी नामक नदी; (व० १०, १६, ३) ।

णारोट्ट—पुं० (दे०) विल, विवर, साँप आदि के रहने का स्थान; (दे० ना० मां० ४, २३) ।

णालंद—पुं० (सं० नालन्दा) नगर-विशेष; (क० १०, १०, ६) ।

णालंपिअ—न० (दे०) आक्रंदित, आक्रंद-ध्वनि; (दे० ना० मां० ४, २४) ।

णालंवि—पुं० (दे०) कुंतल, केश-कलाप; (दे० ना० मां० ४, २४) ।

णालिच—पुं० (दे०) नालिच, एक प्रकार की हरी साग; (प्रा० पै० २, ६३) ।

णाव—स्त्री० (सं० नौ > प्रा० णावा) नौका, तुल० गु० राज० नाव; (प० च० १३, १२, ५; परम० २, १०५) ।

णावइ—अव्य० १. मानो, इव (उत्प्रेक्षा-र्थक); (सुदं० २, ११, १७; ण० १, ७, ६; प० च० २, २, ६) । २. निश्चय (हे० ३३१) । क्रि० (सं० न + आयाति); (ण० २, ५, १४) ।

√णास—(सं० √नाशय > प्रा० णास) नाश होना; (जस० १, १०, १०) ।

—इ व० (सं० नश्यति > प्रा० णस्सइ) नष्ट होना; (प० च० २, ६, ४) ।

णासन्त—कृ० (प० च० ३, २, १०) ।

णासाहो—आ०, व० (प० च० ८, ११, १) । णासिज्जइ—कर्मवा० (ण० ३, ३, १०) ।

णास—पुं० (सं० नाश > प्रा० णास) नाश, ध्वंस; (जस० २, १७, १६; क० २, २६, ५) । पुं० (सं० न्यास > प्रा० णास) स्थापन; (म० २, ४, १३) ।

स्त्री० (सं० नासा > प्रा० णासा) नाक, घ्राणेंद्रिय; (प० च० १४, १३, ७) । “णिवेसिय लोयण णासपएसि;” अर्थात् उनके लोचन नासिका-प्रदेश पर निवेशित थे; (क० २, ३, ६) । —उडि स्त्री० नासापुटी; (जस० ३, ६, ११) ।

णासिय—वि० (सं० नाशित > प्रा० णासिय) नष्ट किया हुआ; (क० २, २१, ३) ।

णासिया—स्त्री० (सं० नासिका > प्रा०

णासिगा) नाक, घ्राणेंद्रिय; (ण० ७, १३, ३) ।

णाह—पुं० (सं० नाथ > प्रा० णाह) स्वामी, मालिक; (सं० रा०; म० १, १६, ५; ण० १, १२, १) । णाहु; (महा० ६८, ५) ।

णाहल—पुं० (सं० लाहल) अरण्य चांडाल, एक जाति; (जस० ३; २७, ६) ।

णाहिं—अव्य० (सं० नहि) नहीं, नाहीं; तुल० गु० नाहिं, म० नहि (प० च० १, ३, १) । णाहि—अव्य० नहीं; (सरहपा, दोहाकोश) ।

णाहि—स्त्री० (सं० नाभि > प्रा० णाभि, णाहि) सूंड़ी, तुंदी, पेट के मध्य में वह चिह्न या गड्ढा जहाँ गर्भावस्था में जरा-युनाल जुड़ा रहता है; (क० १, १६, ६) । पुं० १. गाड़ी का एक अवयव, २. मुख्य, प्रधान; ३. स्वनाम ख्यात एक कुलकर पुरुष, भगवान् ऋषभ का पिता; (सं० रा०) ।

णाहिदामं—न० (दे०) वित्तान के बीच की रस्सी (उल्लोचमध्यदाम); (दे० ना०-मा० ४, २४) ।

णाहियिच्छेअ—पुं० जघन, कटी के नीचे का भाग; (दे० ना० मा० ४, २४) ।

णिद—स्त्री० (सं० निद्रा > प्रा० णिद्दा) निद्रा, नींद; (जस० ३, २०, ६) ।

√णिद—(सं० √निन्द > प्रा० णिद) निदा करना; (जस० २, ६, १०) ।

णिवण—पुं० (सं० निन्दन) निदा करने का काम; (जस० ३, ३६, २) ।

णिदमग—पुं० (सं० निन्द्य + मार्ग) निदनीय रास्ता; (जस० १, ६, ६) ।

णिदायर—वि० (सं० निन्दाकर) निदक, "कश्णिदायरि;" कवियों के निदक; (जस० ४, ३१, ७) ।

णिसियर—पुं० (सं० निशाचर) राक्षस; (महा० ६६, २, ६) ।

णिअंधरा—न० (दे०) वस्त्र; (दे० ना०-मा० ४, ३८) ।

√णिअ—सं० दृश् । देखना । —इ व० (दे० ना० मा० ४, ३८) । णिइवि—पू० का० क्रि०, देखकर; (भ०) । —एइ सक० "वणरिद्धिहे" कारणु सो णिएइ' (वनपाल) वन की ऋद्धि के कारण की खोज लगाने लगा; (क० १, १५, ३) ।

णिक्खयउ—भू० का०, प्रकट हुआ; "णंरत्तव कदंउ णिक्खयउ;" अर्थात् जैसे कहीं बोया हुआ लाल अंकुर के रूप में प्रकट हुआ हो; (जस० २, २, ३) ।

णियन्ति—क्रि०, व० (प्रा० णिअ, णिअइ) देखना, "ता सयल वि सुहउ जा समर-उम्भउ णउ णिएन्ति दहवयणहो"—वे सारे यौद्धा, रक्त कमल के समान नेत्र वाले रावण की युद्ध की चपेट नहीं देख सकते, (प० च० १२, २, ६) । णियन्त —कृ० (प० च० १०, २, ५) ।

णिअ—वि० (सं० निज > प्रा० णिअ) आत्मीय, स्वकीय; (प्रा० पं० २, १४७) । —कुल पुं० निजकुल; (प्रा० पं० १, २०७) ।

णिअ—(सं० नृप) राजा; (क० २, १२, ५) ।

गिअक्कल—वि० गोल, कुंडलाकार, मंडलाकार, वर्तुल; (दे० ना० मा० ४, ३९) ।

गिअत्तय—वि० (सं० निवृत्त > प्रा० गिअट्ट, गिअत्त) १. पीछे, हटा हुआ, लौटा हुआ, वापिस आया हुआ, २. इस संसार से विरह्त, ३. समस्त; (सं० रा०) ।

गिअपिअ—पुं० (सं० निअ प्रिय) छंद-शास्त्र में ट्रिलघुट्टिकल (II) का नाम; (प्रा० पै० १, २२) ।

गिअम—पुं० (सं० नियम) विवि या निश्चय के अनुकूल प्रतिबंध; (प्रा० पै० १, १२९) ।

गिअल—क्रि०, वि० (सं० निकट) समीप; (प्रा० पै० १, १६३) ।

गिअंज—(सं० नि+युञ्) जोड़ना, संयुक्त करना, किसी कार्य में लगाना; (जस० ३, १९, ८) । गिअंजिवि—पू०-का०-क्रि०, बाँधकर; (ण० ६, १, १) ।

गिअंजिय—वि० (सं० नियुक्त) नियोजित, लगाया हुआ; (जस० ३, १०, १४) ।

गिअक्क—वि० (दे०) तुष्णीक, मौन रहने वाला; (दे० ना० मा० ४, २७) ।

गिअड्ड—(सं० नि+ब्रूड्) डुवकी लगाना, गीता लगाना, स्नान करना । —इ अक० (दे० ना० मा० ४, ४०) ।

गिअण—वि० (सं० निपुण > प्रा० गिअण) दक्ष, चतुर; (महा० ६६, १६, १०; जस० २, ३१, ११) । —वर वि०

(सं० निपुणतर) अधिक कुशल; (जस० ३, ३४, १०) ।

गिअणमड्ड—वि० (सं० निपुणमति > प्रा० गिअणमड्ड) निपुण बुद्धि वाला; (ण० ६, १, ११) ।

गिअत्त—वि० (सं० नियुक्त > प्रा० गिअत्त) कार्य में लगाया हुआ; (जस० ३, ९, ११) । गिअत्त; (ण० ६, १५, १०) ।

गिअत्त—वि० (सं० निर्+वृत्त=पूर्णता को प्राप्त) निष्पन्न, सिद्ध, दक्ष, चतुर; “सर्वल-कला-विष्णाणागिअत्तह्ते;’ अर्थात् जो समस्त कलाओं और विज्ञान में निपुण थे; (ण० च० ५, १०, ४) । टि०—निर उपसर्ग वातु से पहले लग कर उपयुक्त अर्थ प्रकाशित करता है ।

गिअरुअ—वि० (सं० गिर्+उद्भूत) ध्रुव; (ण० ३, १४, ६) ।

गिअरुअम्ब—न० (सं० निकुअम्ब > प्रा० गिअरुअम्ब) समूह, जत्था; (ण० च० ४, १०, ६) ।

गिअरण—वि० (सं० निपुणम् > प्रा० गिअण) चतुर, कुशल; (ण० ६, १७, ७) ।

गिअोअ—पुं० (सं० नियोग > प्रा० गिअोग, गिअोअ) १. आवश्यक कर्तव्य, २. तप, संयम, त्याग, “पाण जन्ति जइ एण गिअोए” ‘यदि इस तप में प्राण ज.ते हैं,’ (ण० च० २, १२, ७) ।

गिअोइय—वि० (सं० नियोजित > प्रा० गिअोअिय, गिअोअइय) नियुक्त किया हुआ, किसी कार्य में लगा हुआ; (सं० रा०) ।

गिअक—वि० (प्रा० नीकह्) नीका, तुल०

राज० नीको; (प्रा० पै० २, १६१) ।

णिकाय—पुं० (सं० निकाय > प्रा०
णिकाय) संगटन, श्रेणी, समूह, “चउ-
दिसु चउ देव-णिकाया” (प० च० २,
१०, ६) ।

णिकिट्ठ—वि० (सं० निकृष्ट) बुरा,
अधम, नीच; (क० ६, ६, ८) ।

णिकेअ—पुं० (सं० निकेय > प्र०
णिकेय) गृह, निवास-स्थान, आश्रय;
(ण० १, २, ६; क० ३, ३, ३) ।

णिककड—वि० (दे०, प्रा० णिकक)
सुनिर्मल, सर्वथा मल-रहित; (प० च०
१७, १८, ४) ।

णिककज्ज—वि० (दे०) अस्थिर, परिव-
तित, असंयत, अनियंत्रित; (दे० ना० मा०
४, ३३) ।

णिककड—वि० (दे०) कठिन, (दे० ना०-
मा० ४, २६) ।

√णिककम—(सं० निस् + क्रम्) बाहर
जाना, निकलना । णिककंता—निकालना;
(प्रा० पै० २, ६७) । णिककरन्तो—कृ०
बाहर खींचकर, निकालकर; (की० ४,
१६८) ।

णिककमय—वि० (सं० निक्कमन्) जो
कार्य में लिप्त न हो; “णिककसाय-णिवि-
साय णिककमय;” (व० १०, ३८,
६) ।

णिककम्परउ—वि० अविचल; (प० च०
६, ६, २) ।

णिककल—वि० (सं० निक्कल) निःशरीर,
जिसका कोई अंग या भाग नष्ट हो गया
हो; (जस० ३, २४, ११) ।

णिककलुण—वि० (सं० निक्करुण) करुणा

रहित, निर्दय; (जस० ३, २४, १०) ।

णिककसाओ—वि० (सं० निर् + कपाय)
कपायरहित; सांसारिक पदार्थों में आस-
क्ति रहित होना; (वी० १, १) ।

णिककाम—वि० (सं० निक्काम) वह
कार्य जो बिना कामना के किया जाए;
(जस० २, १७, ५) ।

णिककारण—वि० (सं० निक्कारण >
प्रा० णिककारण) कारण-रहित, हेतु-शून्य;
(प० च० १६, १५, ७) ।

णिककड—वि० (सं० निक्कपः) कृपा-
विहीन; (प० च० ३०, १) ।

णिककिट्ठ—वि० (सं० निकृष्ट) नीच;
(जस० २, १६, १८) ।

णिककवासु—वि० [सं० निः + √कृप्
(=कल्पना करना, रचना करना) +
असु] प्राणियों के प्रति क्रूर; (व० ३,
२७, १) ।

णिककज्ज—वि० (सं० निक्खाद्य) अखाद्य;
(जस० २, ३६, ४) ।

√णिकखण—(सं० निप् + खन्) खोदना ।
—णिवि पू० का० क्रि०, खोदकर; (क०
५, ८, ८) । णिकखणेवि—पू० का०-
क्रि०, (प० च० ५६, १५, २) ।

णिकखन्त—वि० (सं० निक्खान्त > प्रा०
णिककंत, णिकखंत) निर्गत, बाहर निकला
हुआ; (प० च० १५, ८, ३) ।

णिकखय—वि० १. (सं० निक्षत > प्रा०
णिकखय) प्रहार किया हुआ, निहत, मारा
हुआ; “तो भणइ सुकेसु, संसउ णाह जिए-
वाहो । सिरें णिकखएँ खग्गे, अवसरु
कवग्गु रुपवाहो” —तव सुकेश कहता है,
“हे स्वामी, जब जीने में संदेह हो और

सिर पर तलवार लटक रही हो, तब रोने का यह कौन-सा अवसर है; (प० च० ७, ८, ९; दे० ना० मा० ४, ३२) ।

२. (सं० निखात) गड़ा कर रखे हुए, गाड़ा हुआ; (जस० ३, २४, २) ।

शिवखण्ड—न० १. (सं० निष्क्रमण > प्रा० शिवखण्ड, शिवखण्ड) निर्गमन, आगे या बाहर जाना; (प० च० २, ११, ४) । शिवखण्ड; (व० १, १६, १२) ।

२. (सं० निक्षेपन) स्थापन, डालना; (क० १०, २६, १४) । —वेत्त स्त्री० (सं० निष्क्रमण + वेत्ता > प्रा० शिवखण्ड + वेत्ता) निर्गमन का समय; (व० ६, १६, १) ।

शिवखण्डि—वि० (दे०) ठगा हुआ, जो लूट लिया गया हो; (दे० ना० मा० ४, ४१) ।

शिवखुड—वि० (दे०) स्थिर; (दे० ना० मा० ४, २८) ।

शिवखुत्त—वि० (दे०) निश्चित; (प० च० १८, ३८) ।

शिवखुरिअ—वि० जो दृढ़ न हो, अस्थिर; (दे० ना० मा० ४, ४०) ।

शिवगढ—पुं० (दे०) घर्म, घाम, गरमी; (दे० ना० मा० ४, २७) ।

शिवगूढपुरिस—पुं० (सं० निगूढ + पुरुष) गुप्तचर, भेदिया; (प० च० १६, ३, २) ।

शिवगोथ—पुं० (सं० निगोद) नित्य निगोद नामक जीवों का एक प्रकार; (व० १०, ४, ३) । टि०—सिद्ध और संसारी के भेद से जीव दो प्रकार के होते हैं । अपने कर्मों के भार को ढोने वाले

जीव संसारी कहलाते हैं । नित्य निगोद, इतर निगोद, वायुकायिक, पृथ्वीकायिक जलकायिक और तेजोकायिक जीव ।

शिवगन्ध—वि० (सं० निर्ग्रन्थ > प्रा० शिवगन्ध) निर्ग्रन्थ, जैन मुनि, संयत; “जायउ शिवगन्धु महत्थु मुणि,” वह परामर्थ हेतु निर्ग्रन्थ मुनि बन गया; (प० ६, १५, ३) । —पह पुं० (सं० निर्ग्रन्थपथ) जिन भगवान् के द्वारा प्रदर्शित मार्ग; (म० १, १७, १) । —वित्ति स्त्री० (सं० निर्ग्रन्थवृत्ति) जिन भगवान् का तीर-तरीका या आचरण; (जस० ४, २२, ५) ।

√शिवगच्छ—(सं० निर् + गम्) बाहर निकलना । —इ व० (प० ६, १४, ४) ।

शिवगन्त—कृ० (निर्गच्छत्); (क० ४, १४, ५) । शिवगन्त—कृ० (प० च० ७, ७, ४) । शिवगउ—भू० का० (सं० निर्गतः) निकल गया; (व० १, १, ७, १२) । शिवगमेइ—“पढमउ भुभुक्कइ शिवगमेइ;” अर्थात् पहले भुक्-भुक् करती हुई निकली; (क० ४, १४, ५) । शिवगय भू० का० (सं० निर्गतः) निकल पड़ी, “ता शिवगय तक्खणि सलिलघार;” (क० ३, १४, ६) । निकल आए; (महा० ६६, १२, १४) ।

शिवगम—पुं० (सं० निर्गम > प्रा० शिवगम) १. उत्पत्ति, जन्म, २. बाहर निकलना, ३. द्वार, ४. बाहर जाने का रास्ता, ५. प्रस्थान, ६. निकास; (जस० ३, ७, ७; सं० रा०) ।

शिवगमण—न० (सं० निर्गमन > प्रा०

णिग्गमण) निःसरण, बाहर निकलना;
(जस० २, ६, ६) ।

णिग्गय—वि० १. (सं० निगंत > प्रा०
णिग्गय) निःसृत निकला हुआ, बाहर
निकला हुआ; (सं० रा०; ण० १, १२,
२) । २. (सं० निर्गज) हाथी रहित;
(प० च० २६, १६, ८; भ०) ।

णिग्गह—पुं० (सं० निग्रह > प्रा०
णिग्गह) नियमन, नियंत्रण, दमन; (क०
६, २१, ३) । णिग्गहु; (ण० ३, ३,
६) ।

णिग्गहण—न० (सं० निग्रहण) निग्रह,
दमन, नियमन; (सि० २, ४) ।

णिग्गा—स्त्री० (दे०) हरिद्रा, हलदी;
(दे०ना० मा० ४, २५) ।

णिग्गुण—वि० (सं० निर्गुण > प्रा०
णिग्गुण) गुण-हीन; (जस० ४, २५,
३) ।

णिग्घट्ट—पुं० निघण्टु निघंटु, वैदिक
शब्दों का संग्रह; (ण० ३, १, ५) ।

णिग्घट्टु; (सि० १, ७; ण० ३, १,
५) ।

णिग्घट्ट—वि० (दे०) कुशल; (दे० ना०-
मा० ४, ३४) ।

णिग्घण—वि० (सं० निर्घन) मेघ रहित;
“णिग्घण-गयणयलु;” (प० च० १३, १०,
२) ।

णिग्घिण—वि० (सं० निघृण > प्रा०
णिग्घिण) निर्दय, करुणा-रहित; (जस०
३, ६, ७) ।

णिग्घोसइ—न० (सं० निघोष > प्रा०
णिग्घोस) महान अव्यक्त शब्द, “दस-
दिसिवह-णिग्गय-णिग्घोसइ;” (प० च०

२, १, ३) ।

णिच्चिट्ठ—वि० (सं० निश्चेष्ट) चेष्टा-
रहित; (क० ८, ८, २) ।

णिच्च—वि० १. (सं० नित्य > प्रा०
णिच्च) अनश्वर, शाश्वत । निरंतर,
सर्वदा; (सं० रा०; ण० १, १०, २) ।
२. (सं० नीच > प्रा० णिच्च, णीय)
निकृष्ट, अधम; (क० २, १४, २) ।

णिच्चइ—अव्य० निश्चयपूर्वक; (की०
१, २६) ।

णिच्चल—वि० (सं० निश्चल > प्रा०
णिच्चल) स्थिर, दृढ़, अचल; (ण० ६,
६, १०; जस० १, २०, ६) । —मइ

वि० (सं० निश्चलमति) स्थिर बुद्धि
वाला; (जस० २, १३, २१) ।

णिच्चा—वि० (सं० नित्य > प्रा०
णिच्च) शाश्वत, सर्वदा; (प्रा० पै० १
३५) ।

णिच्चालोक—पुं० नित्यालोक नामक
नगर; (प० च० १३, १) ।

णिच्चित्तउ—वि० (सं० निश्चिन्त > प्रा०
णिच्चित्त) चिन्ता-रहित; (व० १, १२,
२) । णिच्चिन्तउ; (प० च० १७, ६,
७) ।

णिच्चूयय—वि० (सं० निः+चूचुक)
चूचुक-रहित, (चूअ=स्तनशिखा, दे०-
ना० मा० ३, १८); (प० च० ४७,
४, २) ।

णिच्चेयण—वि० (सं० निश्चेतन > प्रा०
णिच्चेयण) चेतना-रहित; (प० च० १७,
७, ५) ।

णिच्चेलक्षण—पुं० (सं० निश्चलत्त)
स्थिरता; (ण० ६, २५, १) ।

णिच्चोरमारि—स्त्री० (सं० निस् + चोर + मारी) चोरी या मारी; “णिच्चोर-मारि णिल्लुत्तदुवख” अर्थात् वहाँ चोरी या मारी महामारी का भय नहीं था; (जस० १, २२, ८) ।

णिच्छअ—पुं० (सं० निश्चय) ऐसी धारणा जिसमें कोई संदेह न हो; (क० १, १०, १०) । णिच्छव; (व० ५, ८, १३) ।

णिच्छेदिय— वि० (सं० निश्छिद्र) सुंदर, “णिच्छेदिय सुंदर जा घडीय;” अर्थात् सुंदर रूप से गढ़ी गई थी; (क० १०, १३, २) ।

णिच्छवि—स्त्री० (सं० निश्छवि) निस्तेज, छवि-रहित; (जस० २, ६, ३) ।

णिज्जंतु—वि० (सं० निजुंत्तुक) जंतु-रहित (स्थान); (व० ८, १४, ८) ।

णिज्जण—वि० (सं० निर्जन > प्रा० णिज्जण) जन-रहित; (जस० ३, २०, ८) ।

णिज्जन्तिय—वि० (सं० नियन्त्रित) नियंत्रित, नियमित, अंकुशित; (प० च० ३५, १३, ५) ।

णिज्जर—पुं० निर्जरा; संचित कर्म का तप द्वारा क्षय करना, कर्म-क्षय, कर्म-विनाश; “अविवाय सो णिज्जर जणु वहेइ;” वह मनुष्य अविपाक निर्जरा करता है, (क० ६, १४, १) ।

णिज्जरा—स्त्री० (सं० निर्जरा) जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द; संचित कर्म का तप द्वारा निर्जरण या क्षय करना । (Eradication of the karmic energies); (ण० १, १२, ६) ।

णिज्जरु—पुं० निर्जर, देव-विशेष-नाम; (व० २, ११, ३) ।

णिज्जलहरउ—वि० (सं० निर्जलघर) मेघ रहित, “णं ससहरु णिज्जलहरउ” मानो मेघ रहित चंद्रमा ही हो, (प० च० ३, ३, १) ।

णिज्जाय—पुं० (दे०) उपकार, (दे०-ना० मा० ४, ३४) ।

णिज्जिण— (सं० निर् + √जि) जीतना, पराभव करना । —इ व० (सं० निर् + जि, निर्जयति) जीतना, पराभव करना; (भ०) ।

णिज्जिय—वि० (सं० निर्जित) जीता हुआ; (जस० १, १५, ३) । —मइय

वि० (सं० निर्जितमति) जीत का विचार रखने वाला; (जस० ४, १५, १५) ।

णिज्जियारि—वि० जीतने वाला; (महा० ६८, ६, १) ।

णिज्जीव—वि० (सं० निर्जीव > प्रा० णिज्जीव) जीव-रहित, वेजान; (जस० ३, २६, ४) ।

√णिज्जुंज—(सं० नि + √युज् > प्रा० णिज्जुंज) जोड़ना, संयुक्त करना ।

—जिवि पू० का० क्रि०, “णिज्जुंजिवि अप्पउ परमाणाणि, “अर्थात् परम ज्ञान में अपने को योजित करके; (क० १०, २७, ८) ।

णिज्जूह—पुं० (सं० नियुहः = १. कंपूरा मीनार, वुर्ज या कलश जो स्तंभ या दरवाजों पर बनाया जाता है) छत का किनारा, गृहाच्छादन; (दे० ना०-मा० ४, २८) ।

णिज्जोअ—पुं० प्रकर (ढेर, समूह, गुल-

दस्ता, सहायता, भैंती, चलन, प्रधा, अग्र की लकड़ी) "णिज्जोओ प्रकरः । पुप्पाव-
कर इत्यग्ये," (दे० ना० मा० ४,
३३) ।

णिज्जोमी—स्त्री० (दे०) डोरी, रस्सी,
रज्जु; (दे० ना० मा० ४, ३१) ।

णिज्जर—पुं० (सं० निज्जर) झरना;
तुल० म० निज्जरणै; (प० च० ११, ३,
६) । —ण निज्जर; (प० च० २१, २,
३) ।

√णिज्जर—धीण होना, नष्ट होना;
—उ अक० (दे० ना० मा० ४, ४०) ।

णिज्जरंत—व० कृ० (प्रा० णिज्जर =
धीण होना) धीण होते हुए, (प० च०
८, ७, १) ।

णिज्जर—वि० (दे०) जीर्ण, पुराना;
(दे० ना० मा० ४, २६) ।

णिज्जाइय—भू० का० (सं० नि+घ्यात्)
ध्यान से देखा, ध्यान लगाया, "णिज्जा-
इय देवस धिरमणिर;" (उसने) स्थिर
मन से देवता में मन लगाया; (क० ७,
१२, १०) । ध्यान करता था; (व० १,
५, २) ।

णिज्जुण—वि० (सं० निज्जुनि) विना
आवाज के; (म०) ।

णिज्जूर—वि० (दे०) जीर्ण, पुराना;
(दे० ना० मा० ४, २६) ।

णिट्ठ—वि० (सं० निट्ठित > प्रा०
णिट्ठिय) समाप्त किया हुआ, पूर्ण किया
हुआ; (प० ५, ६, ७) ।

णिट्ठवण—न० (सं० निट्ठापन > प्रा०
णिट्ठवण) समाप्ति, अंत करना; (क०
३, २२, ६) ।

√णिट्ठय—(नि+√स्थापय्) समाप्त
करना । णिट्ठइ—विस्थापित किया
जाता है; (रि० ६, ६) । णिट्ठहो—
क्रि०, आ० (सं० नि+स्थापय् > प्रा०
णिट्ठव = समाप्त करना) नष्ट करो;
(प० च० ६, २, ८) । णिट्ठविवि—भू०-
का० क्रि०, नाशकर; (महा० ६८,
१) ।

णिट्ठवणायर—वि० (सं० निट्ठापन
(विनाश) + कर) समाप्त करने वाला;
(जस० ३, १७, १२) ।

णिट्ठविज—वि० (सं० निट्ठापित >
प्रा० णिट्ठविज) समाप्त किया हुआ,
विनाशित; (प० च० १७, १४, २) ।

णिट्ठविय—वि० (सं० निट्ठापित) मृत;
(जस० २, २६, १) ।

णिट्ठहइ—क्रि०, व० घुलना, पिघलना;
"णिट्ठहइ विगलति;" (दे० ना० मा०
४, ४०) ।

णिट्ठहिअ—न० (दे०) खखार, धूक की
ध्वनि, जो धूकने की क्रिया करते समय
होती है; (दे० ना० मा० ४, ४१) ।

णिट्ठा—स्त्री० (सं० निट्ठा > प्रा०
णिट्ठा) विःवास, श्रद्धा-भक्ति; (जस०)
—वस वि० (सं० निट्ठावस) पूज्य वृद्धि
या श्रद्धा-भाव के साथ; (जस० ४, २७,
२२) ।

णिट्ठिय—वि० (सं० निट्ठित > प्रा०
णिट्ठिय) समाप्त किया हुआ, (जस०
३, १, १६; प० १, ५, १०) ।

णिट्ठुर—वि० (सं० निट्ठुर > प्रा०
णिट्ठुर, णिट्ठुल) निट्ठुर, परुप, कठिन;

(जस० ३, १, १६; ण० ३, १४, २) ।

गिट्टुह—वि० (दे०) स्तब्ध, निश्चेष्ट; (दे० ना० मा० ४, ३३) ।

गिड—पुं० (दे०) पिशाच; (दे० ना० मा० ४, २५) ।

गिडाल—न० (सं० ललाट) भाल, ललाट; (प० च० १०, ३, ८) ।

गिड्डरिय—वि० (दे०) भयोत्पादक; (प० च० २५, २, ६) ।

√गिड्डह—(स० निर्+दह् > प्रा० गिडुह) दग्ध करना । —इ व० (सुदं० ३, २, ७) । —इवि पू० का० क्रि०, जलाकर; (व० ६, २२, १) ।

गिड्डहण—न० (सं० निर्दहन) जला देना; (ण० ८, १०, १२) ।

गिड्डार—(दे०) आँखें फाडना । —रेवि पू० का० क्रि०, (सुदं० ६, १६, १) ।

गिड्वओ—पुं० (दे०) अविभिन्न गृह; (दे० ना० मा० ४, ३८) ।

गिड्वमण—पुं० (दे०) घर के जल का प्रवाह, (दे० ना० मा० ४, ३६) ।

गिड्वमाओ—पुं० (दे०) अविभिन्नगृह; (दे० ना० मा० ४, ३६) ।

गिड्वमो—पुं० (दे०) अविभिन्नगृह; (दे० ना० मा० ४, ३८) ।

गिणद्—पुं० (सं० निनाद > प्रा० गिणाय) ध्वनि, शब्द, आवाज; (जस० १, २६, २७; प० च० ३२, १२, ३) ।

गिणाअ—पुं० (सं० निनाद > प्रा० गिणाय) शब्द, आवाज; (जस० १, ४, १३) ।

गिणाइय—वि० (सं० निनादित) शब्दित, ध्वनित; (जस० १, १३, ५) ।

गिणाय—पुं० (सं० निनाद > प्रा० गिणाय) शब्द, आवाज; (ण० ६, ३, ३) ।

गिणाला—स्त्री० (दे०) चोंच; (दे० ना० मा० ४, ३६) ।

गिण्णट्ठ—वि० (सं० निर्नष्ट > प्रा० गिण्णट्ठ) नाश-प्राप्त; (ण० ६, ६, ८) ।

गिण्णण—पुं० (सं० निर्ज्ञान) अज्ञान; (जस० ४, १८, १५) ।

गिण्णाम—वि० (सं० निर्नाम) विना नाम का, अज्ञातनामा; (जस० २, १७, ५) ।

√गिण्णास—(सं० निर्+नाशय् > गिण्णास) विनाश करना । गिण्णासणु

—भू० का० (सं० निर्+नाशनम्) विनाश किया था । “चउसण्णाविसेस गिण्णासणु,” अर्थात् आहार, निद्रा, भय और मैथुन इन चारों संज्ञाओं का उन्होंने विशेष रूप से विनाश किया था; (जस० ३, १७, ८) । गिण्णासन्तहो—व० कृ०

विनाश करते हुए; (प० च० ३, २, ५) ।

गिण्णासिय—भू० का०; नष्ट कर डाला; “गिण्णासिय-दुट्ठ-जरा-पउत्ति;” अर्थात् दुष्ट वृद्धावस्था ने उसकी प्रवृत्ति को नष्ट कर डाला; (व० ३, ४, ८) ।

गिण्णासयर—वि० (सं० निर्नाशकर) नाश करने वाले; (क० ५, ६, ६) ।

गिण्णासिय—वि० (सं० निर्णशित) विनाशित; (भ०) ।

गिण्णेह—वि० (सं० निःस्नेह > प्रा०

णिण्णेह) स्नेह-रहित; (जस० १, १६, ६) ।

णित्त—वि० (सं० नीत) प्राप्त; (जस० २, २५, १) ।

णित्त—पुं० (सं० नेत्र > प्रा० णेत्त, णित्त) नयन, चक्षु; (सं० रा०) ।

णित्ता—(सं० नित्य) सर्वदा, शाश्वत; (प्रा० पै० १, १३०) ।

णित्ति—स्त्री० (सं० नीति > प्रा० णीइ) न्याय, उचित व्यवहार; (प० च० ७, १२, १; क० २, १६, १०) ।

णित्तिरडिअ—वि० (दे०) त्रुटित, टूटा हुआ; (दे० ना० मा० ४, ४१) ।

णित्तिरड्डी—क्रि०, वि० (दे०) निरंतर; (दे० ना० मा० ४, ४०) ।

णित्तु—वि० (सं० नित्य > प्रा० णिच्च) १. शाश्वत, २. हमेशा, निरंतर; (सं०-रा०) ।

णित्तुलउ—वि० (सं० निस्तुल्य) अनुपम; (व० २, ६, १७) । २. निश्चित; (प०-च० १६, ६, ३) ।

णित्तुलिय—वि० (सं० निस्तुलित) अनुपम; (क० ६, ११, ११) । क्रि० वि० निश्चय से, निश्चयपूर्वक; (सुदं० ८, २, ८) ।

णित्तुल्ल—वि० (सं० निस्तुल्य > प्रा० णित्तुल) असाधारण, अनुपम, निरूपम; (सुदं० ३, २, १४) ।

णित्तेये—वि० (सं० निस्तेजस्) तेजहीन; (जस० २, १७, ६) ।

णित्थाम—वि० (सं० निःस्थामन् > प्रा० णित्थाम) कांतिहीन; (जस० २, १७, ५) ।

णित्थार—पुं० (सं० निस्तार > प्रा० णित्थार) छुटकारा, उद्धार; (सुदं० २, ७, ५) ।

√णि + दंस—(सं० नि + √दर्शय) दिखाना, दृष्टांत दिखाना । णिदंसेइ—व० (सं० नि + दर्शयति) (प्रा० पै० १, ५३) ।

णिव—स्त्री० (सं० निद्रा > प्रा० णिद्वा) नींद; (सं० रा०) । —वस वि० निद्रा-वश; (व० ८, १, १०) ।

णिदंद्दु—वि० (सं० निद्वंद्द्व) द्वंद्व-रहित; (व० ३, १, १४) ।

णिद्द—स्त्री० (सं० निद्रा > प्रा० णिद्वा) नींद; (जस० २, ६, ४; ण० १, ११, १०) ।

णिद्दय—वि० (सं० निर्दय > प्रा० णिद्दय) दयाहीन, करुणारहित; (सं० रा०; प्रा०-पै० २, १३४) ।

णिद्दयर—वि० (सं० निर्दयतर) तुलना-त्मक दृष्टि से अधिक निर्दय; (सं०-रा०) ।

णिद्दरमलिउ—भू० का०, परिमृदित, पैरों तले रींदा; “णिद्दरमलिउ जेण सो रावणु;” (प० च० ५०, ६, ३) ।

णिद्दरिसु—न० (सं० निदर्शन > प्रा० णिदंसण) उदाहरण, दृष्टांत; (प० च० १३, १) ।

णिद्दलिय—वि० (सं० निर्दलित) मंदित, विदारित; (जस० ३, ६, ३; ण० ७, ७, ६) ।

णिद्वलेवि—पू० का० क्रि०, (सं० निर् + दलय्) नष्ट करना, उखाड़ना, “सक्कमि गिरि-मंदरुणिद्वलेवि”; मंदराचल को

उल्लाङ्ग सकृतां ह्रै, (प० च० १८, २, ६) ।

णिद्दह—(सं० निर् + √दह, > प्रा० णिद्दह) जला देना, भस्म करना । —इ व० (महा० ६६, ६, ६) । णिद्दहइ—क्रि०, व० (सं० निर्दह् > प्रा० णिद्दह) जलाना; “णिद्दहइ अङ्गुवङ्गइ अगङ्ग” अन्नं उसके अंग-प्रत्यंग को जलाता है; (प० च० १८, ५, ६) ।

णिद्दायइ—क्रि०, व० (सं० नि + द्रा > प्रा० णिद्दा, णिद्दाइ) निद्रा लेना; (प० च० १७, १५, ३) ।

णिद्दाखिण्णउ—वि० (सं० निर्दाखिण्य) अनुदार; “अम्है कि पहु णिद्दाखिण्णउ,” —हे स्वामी हमारे प्रति अनुदार क्यों है; (प० च० २, १४, २) ।

णिद्दिट्ठ—वि० (सं० निर्दिट्ठ > प्रा० णिद्दिट्ठ) कथित, प्रतिपादित; (जस० ४, ६, १०) ।

णिद्दुरिय—भू० का०, (सं० निर + द्रुलित) आँखों से ओझल हो गया; “अद्दं सणे हूयएँ करिवरइँ णिद्दुरियणयसु सो तक्खणिण,” अर्थात् कवि के अदृष्ट हो जाने पर वह राजा तत्क्षण आँखों से ओझल हो गया; (क० ५, १४, ६) ।

णिद्दोस—वि० (सं० निर्दोष > प्रा० णिद्दोस) दोष-रहित, निष्कलंक; (सं० रा०) ।

णिद्द—न० (सं० स्निग्ध > प्रा० णिद्द) स्नेह, रस-विशेष, (प० च० ११, ४, ४) । २. छंदशास्त्र में स्कंधक का भेद; (प्रा० प० १, ७५) । वि० स्नेह-युक्त, चिकना; (क० ४, १०, १०; ण० १,

१८, ६) ।

णिद्दण—वि० १. (सं० निर्दण > प्रा० णिद्दण) धन-रहित; (क० ६, ५, ३; जस० १, १६, ५) । २. भार्या-रहित; (प० च० ३६, ११, ८) ।

णिद्दम्म—वि० (सं० निर्दमन् > प्रा० णिद्दम्म) अवर्मा; (जस० ४, १, ८; ण० ३, १२, १३) ।

णिद्दाड—वि० (दे०) निष्कासित; (जस० ३, ४, ६) ।

√णिद्दाड—(सं० नि: + √सृ) बाहर निकालना । —डिडि पू० का० क्रि०, निकालकर; (क० ५, २, ४) ।

णिद्दाडिअ—वि० निष्कासित; (क० १०, १, ६) ।

णिद्दाम—वि० (सं० निर्दामन्) गृहहीन; (जस० २, १७, ५) ।

णिद्दुय—वि० (सं० निर्वृत > प्रा० णिद्दुय) नष्ट किया हुआ, विनाशित, “यिउ जिगु णिद्दुय-कम्म-रउ;” जिन्होंने कर्म रूपी रज को वो दिया है, (प० च० ३, ३, १) ।

णिद्दुयगायइ—न० (सं० निर्वृत + गात्रम्) परित्यक्त शरीर, “तामरसाइँ व णिद्दुयगायइँ” ‘और हैं निर्वृत शरीर कमलों के समान,’ (प० च०) ।

णिन्नसण—पुं० नाशक; (सं० रा०) ।

णिप्पइल—वि० [सं० निस् + प्राप्त] रहित; (जस० ४, १८, ११) ।

णिप्पट्ट—वि० (दे०) अविक; (दे० ना०-मा० ४, ३१) ।

णिप्पसर—वि० (सं० निप्पसर > प्रा०

णिप्पसर) प्रसर-रहित, जिसका फँलाव न हो; (प० च० १२, ३, ८) ।

णिप्पह—पुं० निष्प्रभ नामक पर्वत-विशेष, (प० च० २७, २, २) ।

णिप्पह—वि० (सं० निष्प्रभ) निस्तेज, फीका; (ण० ६, १४, ११) ।

णिप्पहु—वि० (सं० निस्पृह) लालच या कामना आदि से रहित; (व० ६, १७, ६) ।

णिप्पहरण—वि० (सं० निष्प्रहरण) अस्त्र-शस्त्र हीन; “जो जीवदयावरु णिप्प-हरणकरु बंभयारि ह्यजरमरणु;” (जस० ४, ३०, १६) ।

णिप्पाण—वि० (सं० निष्प्राण) प्राण-हीन; (जस० २, १७, ६) ।

√णिप्पील—(सं०/निष्पीड) निचोड़ना, दवाना । —लंति व०, प्र० पु०, व०, (सुदं० ६, ४, २) ।

णिप्फंद—वि० (सं० निष्पन्न) जिसकी निष्पत्ति हो चुकी हो; (प्रा० पं० १, १३६) । २. (सं० निस्पन्द) स्पंदन-रहित; (ण० ३, १७, १४) ।

णिप्फल—वि० (सं० निष्फल) निरर्थक, फल-रहित; (जस० १, १३, ३) ।

णिप्फेस—पुं० (दे०) आवाज या शब्द निकलना; (दे० ना० मा० ४, २६) ।

णिवंध—पुं० न० (सं० निवन्ध > प्रा० णिवंध) निबंधन, बंधन, मर्यादा, व्यवस्था, “जय मुणिसुव्वय सुव्वयणिवंध,” अर्थात् जय हो मुनिसुव्रत की जिन्होंने उत्तम व्रतों की मर्यादा बांधी है; (जस० १, २, १०) ।

√णिवंध—सं० नि + बन्ध् बन्धने

बांधना, “सा लइय णिवंधवि चेलयहिं, हउं पुणु घल्लिउ उच्चोलियहिं;” उसने उसे कपड़े में बांध लिया और फिर उसने मुझे भी पिटारी में डाल दिया! (जस० २, २८, ६) ।

णिवद्ध—वि० (सं० निवद्ध > प्रा० णिवद्ध) १. बांधा हुआ, कसा हुआ, २. संबद्ध, ३. निर्मित, ४. जड़ा हुआ, खचित; (जस० १, २१, ७) । —य; (सं० रा०) ।

णिवद्धी—वि० (सं० निवद्धा) विरचित, प्रणीत, “कह धम्मणिवद्धी का वि कहमि;” अर्थात् अब मैं धर्म संबंधी विरचित कथा कहूँ; (जस० १, १, ६) ।

णिविभिण्ण—वि० (सं० निविभिन्न) जो भिन्न-भिन्न हो; (भ० ३, २३, १) ।

णिव्वाण—पुं० (सं० निर्वाण) शांति, मुक्ति, मोक्ष; (स० दो० को०) ।

√णिव्वुड—(दे०) (सं० नि + मस्ज्, प्रा० णिव्वुड) निम्मजन करना, डूबना; (जस०) ।

णिव्वंत—वि० (सं० निव्वन्त > प्रा० णिव्वंत) संशय-रहित; (व० २, १०, ७) । —उ; (प्रा० पं० १, १०५) ।

णिव्वमभा—वि० (सं० निव्वम > प्रा० णिव्वम) निडर; (प्रा० पं० १, ३७) ।

णिव्वमग—न० (दे०) उद्यान, बगीचा; (दे० ना० मा० ४, ३४) ।

√णिव्वमच्छ—(सं० निर् + भत्स्) तिरस्कार करना; (म० २, ११, १) ।

णिवभच्छिञ्ज—वि० (सं० निर्भत्सित > प्रा० णिवभच्छिञ्ज) अपमानित, तिरस्कृत, (क० ४, १, ८) । णिवभच्छिञ्ज; (प० च० ४, १०, ५; जस० ४, ३, ४) ।

णिवभय—वि० (सं० निर्भय > प्रा० णिवभय) निडर, निरापद; (सं० रा०; ण० ६, ४, ५) ।

णिवभरु—वि० (सं० निर्भर > प्रा० णिवभर) पूर्ण, “करि घरणहुँ णिवभरु कियउ चित्तु;” अर्थात् हाथी को रोकने में पूर्ण रूप से अपने चित्त को लगाया; (क० ५, १४, ५) ।

णिवभाषण—वि० (सं० निर् + भाषण) भाषा-रहित, गूँगा; (व० १०, १७, १४) ।

णिविभच्च—वि० (सं० निर्भीक > प्रा० णिविभीञ्ज) भय-रहित; (प० च० १७, १७, ६) ।

णिविभट्ट—वि० (दे०) आक्रांत; (भ०) ।

णिविभण्ण—वि० (सं० निर्भन्त) विदारित, “दंतगणिविभण्णहरिणरवरगेहिं;” वे (हाथी) अपने दांतों के अग्रभागों से घोड़ों और मनुष्यों के अंगों को फाड़ रहे थे; (जस० १, १२, १०; ण० ७, १३, ४) ।

णिविभुग्ग—वि० (दे०) भ्रन, टूटा-फूटा, (दे० ना० मा० ४, ३२) ।

णिविभूसण—वि० (सं० निर्भूषण) भूषण-विहीन; “तणएँ जणाणि विट्ठ णिवभूसण;” (ण० ३, ११, ११) ।

णिविभोइल्ल—वि० (सं० निर् + भोग + इल्ल प्र०) भोग न करने वाले; “णिविभो-

इल्ले संचियदविणं;” अर्थात् भोग न करने वाले मनुष्य का संचित द्रव्य; (जस० १, १६, ६) ।

निभंति—वि० (सं० निर्भ्रान्त) भ्रमहीन; (सं० रा०) ।

णिभंतु—कृ० निर्भ्रान्त होकर; (परमा०) ।

√णिम—सं० नि + √अस्, स्थापना करना । णिमइ—व० डालना, फेंकना, लिटाना, नीचे रखना; (दे० ना० मा० ४, ३८) ।

णिमण्ण—वि० (सं० निमग्न > प्रा० णिमग्ग) डूबा हुआ; (प० च० १०, ३, ८) ।

निमग्नणउ—न० (सं० निमन्त्रण > प्रा० णिमंतण) न्यौता, निमन्त्रण; (प० च० १६, १३, ६) ।

णिमत्तिय—वि० (सं० नैमित्तिक > प्रा० णिमत्तिञ्ज, णेमत्तिञ्ज) कारणिक, निमित्त से होने वाला; (सि० २, १०) ।

णिमिय—वि० (सं० न्यस्त) स्थापित, निहित; (प० च० ३३, १०, ६) ।

णिमिस—पुं० (सं० निमिष > प्रा० णिमिस) अक्षि-संकोच, पलक, अक्षि-मीलन; (सं० रा०) । २. क्षण, “णीसरिय वीर णिमिसन्तरेण;” (प० च० १२, ७, ८; क० ६, १५, ५) । —द्व

पुं० (सं० निमेष + अर्धं) आधा क्षण; (ण० ६, १६, ८) । णिमिसिद्धु—पुं० (सं० निमिष + अर्धं > प्रा० णिमिस + अर्ध) आधा निमेष; (सं० रा०) ।

णिमीलियच्छि—स्त्री० (सं० निमीलित

+अक्षिन्) पलक बंद की हुई आँख; (ण० ३, ५, ११) ।

णिमेष—न० (दे०) स्थान, जगह; (दे०-ना० मा० ४, ३७) ।

णिमेल—न० (दे०) दांत का मांस; (दे०-ना० मा० ४, ३०) ।

णिमेष—पुं० (सं० निमेष > प्रा० णिमेस) पलक मारने भर का समय, पलक के स्वभावतः उठने और गिरने के बीच का काल; “णयण निमेषो विरह किलेसो;” अर्थात् नेत्रों के निमेष-मात्र काल का विरह कष्टदायी हो जाता था; (जस० २, १, ७) ।

णिम्मंस—वि० (सं० निर्मांस > प्रा० णिम्मंस) मांस-रहित; (जस० १, ६, ७) ।

णिम्मंसा—स्त्री० (दे०) दुर्गा देवी का एक भयानक रूप, चामुण्डा; (दे० ना०-मा० ४, ३५) ।

णिम्मंसू—वि० (सं० निःश्मश्रु) तरुण, जवान; (दे० ना० मा० ४, ३२) ।

णिम्म—पुं० (सं० नियम) विधि या निश्चय के अनुकूल प्रतिबंध; (प्रा० पै० १, १८६) ।

√णिम्म—(सं० निर्+मा > प्रा० णिम्म) बनाना, निर्माण करना । णिम्मवीउ—भू० का० (सं० निर्मापित) बनवाया; “थंभाण सहासहिं णिम्मवीउ;” अर्थात् उसका निर्माण सहस्रों स्तंभों सहित किया गया; (क० ५, ३, २) ।

णिम्मिउ—भू० का० (सं० निर्मित) निर्मित किया; (क० ७, २, ६) ।

णिम्मिदि—पू० का० क्रि०, (व० १,

१३, १) ।

णिम्मन्तिय—वि० (सं० निमन्त्रित > प्रा० निर्मन्तिय) जिसको न्यौता दिया गया हो; (प० च० १६, १३, ५) ।

णिम्मय—वि० गया हुआ, बीता हुआ, गुजरा हुआ, मृत । (दे० ना० मा० ४, ३४) ।

णिम्मल—वि० (सं० निर्मल > प्रा० णिम्मल) स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, जिसमें मल न हो; (सं० रा०; ण० १, ३, ११; क० २, ११, ७) । —यरु वि० (सं० निर्मलतर) अधिक विमल; (व० २, १३, ६) ।

णिम्मविय—वि० (सं० निर्मित > प्रा० णिम्माणिय) रचित, रचा हुआ, बनाया हुआ; (सं० रा०) ।

णिम्मिउ—वि० (सं० निर्मापित > प्रा० णिम्माविय) बनवाया हुआ; (प० च० ३, ४, १) ।

√णिम्मह—(सं० √गम्) जाना, गमन करना । —इ व०; (दे० ना० मा० ४, ४०) ।

णिम्महण—न० (सं० निर्मथन > प्रा० णिम्महण) विनाश; (प० च० १, ६, ४; जस० १, १४, ८) ।

णिम्महिउ—भू० का० (सं० निर्+मथित) उन्मूलन कर दिया; (व० १, १७, ५) ।

णिम्महिय—वि० (सं० निर्+मथित) विनाशित; (ण० ४, ४, ७) ।

णिम्मत्ति—पुं० (सं० नैमित्तिकः) ज्योतिषी; (प० च० १६, ३, ६) ।

णिम्मिथ—वि० (सं० निर्मित) रचित,

बनाया हुआ; (जस० ४, १७, ६; व० २, २१, ८) ।

णिम्मुक्क—वि० (सं० निमुक्त्) जो मुक्त हो गया हो; (जस० १, २०, ६) ।

णिम्मुक्कताण—वि० (सं० निमुक्कतत्ताण) शरण से जो मुक्त न हो; (जस० ३, १३, ३) ।

णिम्मोह—वि० (सं० निर्मोह > प्रा० णिम्मोह) मोह-रहित; (जस० ४, २१, ११) ।

णियंब—न० (सं० नितम्ब > प्रा० णिअंब) कटि का पिछला उभरा हुआ भाग, चूतड़; (क० १, १६, ४; ण० १, ८, १३) ।

णिअंबिणी—वि० स्त्री० (सं० नितम्बिणी) सुंदर नितंबवाली; (सि० १, १७) ।

णियंसण—पुं० शिरोवस्त्र; (सं० रा०) । निवसन; (ण० ३, ११, ११) ।

णिय—वि० (सं० निज > प्रा० णिअ) आत्मीय, अपना, स्वकीय; (क० २, १, ४; ण० १, ८, १) । —कुल (सं० निज + कुल) अपना कुल; (व० १, १७, २) ।

—णिणय वि० (सं० निज + निज + क) घराया नहीं; (ण० ३, १३, १) । —त्तण पुं० (सं० निजत्व) स्वामित्व; (ण० ७, ६, ७) ।

णिय—वि० (सं० नीत > प्रा० णिअ) ले जाया गया; (जस० १, १५, २०; क० २, ११, १) ।

√णिय—सं० दूश्; प्रा० णिअ । देखना —इ व०; (क० ८, १२, ३) । —एइ,

—यंति व० (ण० २, १, ६) ।

णियइ—स्त्री० (सं० नियति > प्रा० णिअइ) भवितव्यता; (ण० ७, ३, ४) ।

√णियच्छ—(सं० निर् + ईक्ष) देखना । —इ व० (दे० ना० मा० ४, ४०) ।

—च्छिक्वि पू० का० क्रि०, (सुदं० ४, ३, १४) । —च्छेक्वि पू० का० क्रि०, (सुदं० ८, २०, १) । णियंत—कृ० देखता हुआ; (व० २, २१, ४) । —विशु पू० का० क्रि० देखकर; (म० १, ८, १) ।

णियच्छिअ—वि० (सं० नि + √यम् का धात्वादेश णिअच्छ = नियमन करना) नियमित; (ण० ५, ७, ५) ।

णियच्छिय—वि० (सं० निरीक्षित > प्रा० णिअच्छिअ) देखा हुआ, जांच किया हुआ; (जस० १, १३, १२) ।

णियड—क्रि०, वि० (सं० निकट > प्रा० णिअड) निकट, समीप; (सि० २, १६) । —उ (सं० निकट + क) निकट; (जस० ३, ३२, ५) ।

णियडि—स्त्री० (सं० निकृति) दंभ, कपट; (प० च० १४, २६) । णियडी—स्त्री० दंभ; (दे० ना० मा० ४, २६) ।

णियड्ड—(सं० नि + √कृष्) खींचना, उखाड़ना । —ए (सुदं० ५, ६, ३) ।

णियड्ढियउ—भू० का० (सं० निकर्षित) उखाड़ लिया; “वारणखंभु णिवड्ढियउ;” अर्थात् एक हाथी बाँधने का खंभा उखाड़ लिया; (ण० ४, ६, १४) ।

गियड्ढिय—वि० खांची हुई; (३ ३, २१, २) ।

गियत्त—वि० (सं० निवृत्त > प्रा० णिअट्ट, णिअत्त) पूरा किया हुआ, जो पूरा हो गया है, जिसकी निष्पत्ति हो चुकी हो; (ण० ६, १६, १२) ।

गियत्थु—वि० (दे०, प्रा० णिअत्य) पहना हुआ (प० च० ११, ६, १) ।

गियपुण—पुं० (सं० नैपुण्य) निपुणता, (म० १, २, ३) ।

गिययम—पुं० (सं० नियम > प्रा० णिअम) चलता हुआ विधान, कायदा, विधि के अनुकूल प्रतिबंध; (जस० ३, १५, १२) । —वास पुं० (णियमो-वास) नियम + उपवास; (ण० ६, १६, १०) ।

गियय^१—वि० (सं० निज + क > प्रा० णिअअ) आत्मीय, स्वकीय; (प० च० १२, १२, ७) ।

गियय^२—वि० (सं० नियत) १. दमन किया हुआ, नियंत्रित, २. संयमी, ३. स्थायी, ४. निश्चित, ५. विचारणीय विषय; (सं० रा०) ।

गियर—पुं० (सं० निकर > प्रा० णिअर) समूह; (जस० १, २, ११; ण० १, ६, ११) ।

गियरुड्ढि—स्त्री० निजरुचि; (सि०-१, ३१) ।

गियल^१—न० (दे०) तूपुर; (दे०-ता०-मा० ४, २८) ।

गियल^२—पुं० (सं० निगड् > प्रा० णिअल) शृंखला, वेड़ी, सांकल; (प० च० १, ५, ६) ।

गियाण—न० (सं० निदान > प्रा० णिआण) कारण, हेतु; (जस० ४, २५, २३) । गियारगु; (भ०) ।

गियार—न० (दे०) शत्रु का घर; (दे०-ना० मा० ४, २६) ।

गियासण—पुं० (सं० नृपासन) नृपासन; (प० च० ६, १४, ४) ।

गियासम—न० (सं० निज + आश्रम) अपना आश्रम; जैसे गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आदि; (ण० ६, २१, १७) ।

गिरंकुस—वि० (सं० निरङ्कुश > प्रा० णिरंकुस) अंकुश-रहित, स्वच्छंदी; (भ०) ।

गिरंगी—स्त्री० (दे०) सिर का पर्दा या अवगुंठन, घूँघट; (दे० ना० मा० ४, ३१) ।

गिरंजण—वि० (सं० निरञ्जन) निर्लेप, लेप-रहित; (जस० ४, ३०, १७) ।

निरंतर—वि० (सं० निरन्तर > प्रा० णिरंतर) १. व्यवधान-रहित; (भ०) । २. सदैव; (प्रा० पौ० १, १८६) ।

गिरंतरिय—वि० (सं० निरन्तर > प्रा० णिरंतर) लगातार होने वाला, जिसके बीच में कोई व्यवधान न हो; (सं०-रा०) ।

गिरंस—वि० (सं० गिरंश) अखण्ड, संपूर्ण; (जस० ३, २६, ८) ।

गिरअ—वि० (सं० निरत) किसी काम में लगा हुआ, तत्पर; (जस० ३, २८, १२) ।

√गिरक्ख—(सं० निर् + √ईक्ष् > प्रा० णिरिक्ख, णिरक्ख) निरीक्षण करना, देखना । गिरक्खियउ—भू० का० निरी-

क्षण किया, देखा; (प० च० १५, ५, ५) । गिरिक्खयउ—भू० का०, देख लिया; (प० च० ८, ८, ६) ।

गिरवखर—वि० (सं० निरक्षर > प्रा० गिरवखर) अपढ़, गँवार, मूर्ख; (सं०-रा०) ।

गिरग्गल—वि० (सं० निरगल) रुकावट से रहित, “आहारिय पुग्गल णिहिल गिरग्गल परिणवहिं;” अर्थात् इस प्रकार समस्त पुद्गलों का आहार कर वे निरगल परिणमन किया करते हैं; (व० १०, २५, १३) ।

गिरञ्जन—वि० (सं० निरञ्जन) पाप-रहित; (प० च० २७, १३, २) ।

गिरति—स्त्री० (सं० निरति) दृढ़ आसक्ति, अनुरक्ति; (सि० १, १७) ।

गिरत्थ—वि० १. (सं० निरर्थ > प्रा० गिरत्थ) निरर्थक, निष्प्रयोजन; “हुउ वाणु गिरत्थउ सो हु जाव;” अर्थात् ज्योंही वह वाण निरर्थक हुआ, (क० ३, १६, ५) । २. (स० निर् + अर्थ) व्यर्थ; (महा० ६६, २, १; ण० २, १०, ५) ।

३. (सं० निर् + अस्त्र) जिसके पास हथियार न हो, निश्शस्त्र, “मुणिवरतवसामत्थिं गिरत्था, सयल वि थिय ओणाविय-मत्था;” अर्थात् मुनीश्वर के तप के प्रभाव से वे सभी निश्शस्त्र होकर सिर झुकाकर खड़े हो गए; (जस० ३, ३५, ११) ।

गिरत्थीकिय—वि० (सं० निरर्थीकृत) निष्फलीकृत; (प० च० २०, ४, ७) ।

गिरलंकार—वि० (सं० निरलंकार) अलंकार शून्य, सादा; (जस० ३, ६,

६) ।

गिरलङ्कारिय—वि० (निरलंकृत) जो अलंकृत न हो; (प० च० १६, ५, ५) ।

गिरवज्ज—वि० (सं० निरवच) निर्दोष, निरपराध; (ण० ८, ६, १३) ।

गिरवसेस—वि० (सं० निरवसेस > प्रा० गिरवसेस) सब, सकल; (प० च० २०, १०, ४; जस० ३, ७, ६) ।

गिरस—वि० (सं० नीरस) रसहीन, शुष्क; (जस० १, १५, १६) ।

गिरसिय—वि० (सं० निरस्, निरसित) परित्यक्त; (जस० १, ६, ६) ।

गिरह—वि० (सं० निर् + अध) धातिया कर्मों से रहित; (ण० ४, १, १४; व० १, १, १३) ।

गिरहरिउ—भू० का० (सं० निहंत) (ऋण) चुका दिया, “तिहिँ फलहिँ मज्जेँ एक्कहोँ फलासु, गिरहरियेउं रिणु मई मइवरासु;” अर्थात् उन तीन फलों में से एक फल का ऋण मैंने मतिवर मंत्री का चुका दिया; (क० २, १८, २) ।

गिराउल—वि० (सं० निराकुल) जो क्षुब्ध या डँवांडोल न हो, अनुद्विग्न, “वसइ विणीया णयरि गिराउल;” (व० २, ११, ५) ।

गिराउह—वि० (सं० निरायुध) निरस्त्र, निहत्था; (व० १०, ३८, ६) ।

गिराद—वि० (दे०) नष्ट, विनाश-प्राप्त; (दे० ना० मा० ४, ३०) ।

गिरामइ—वि० (सं० निरामय) नीरोग, (पाहु०) ।

गिरायउ—वि० (सं० नितराम्) अत्यंत;
(रि० ५, २) ।

गिरारिउ—अव्य० (सं० नितराम्)
१. निरंतर, सदा, लगातार, २. सर्वथा,
३. निश्चय ही; “जहिँ रमइँ गिरारिउ
चिर खयरि;” अर्थात् जहाँ दीर्घकाल से
नित्य ही खेचरियाँ रमण करती है; तुल०
म० निरुतेँ (certainly); (क० १०, ६,
२) । २. निश्चित, (प० च० ४८,
१३) । ३. नितांत; (व० २, २,
७) ।

गिरिक—वि० (दे०) नम्रीभूत, भुका
हुआ, प्रणाम करता हुआ; (दे० ना०-
मा० ४, ३०) ।

गिरिक्क—पुं० (दे०) १. चोर; (जस०
३, १८, ६) । २. समूह; (प० च० १४,
१, ७) ।

गिरिक्खिय—वि० (सं० निरीक्षित);
आलोकित । —उ भू० का० आलोकित
किया, वर्णन किया; (ण० २, ६,
१) ।

गिरिक्खिण—न० (सं० निरीक्षण) अव-
लोकन; (व० २, ७, ७) ।

√गिरिग्घ—छिपना (निलीयते) । —इ
व० (दे० ना० मा० ४, ४०) ।

गिरिण—वि० (सं० निर्करण) ऋण-
मुक्त; (प० च० २२, १२, ३) ।

√गिरिण्ज्ज—पीसना । —इ व० (दे०-
ना० मा० ४, ४१) ।

√गिरुंभ—(सं० नि+रुध्) निरोध
करना, रोकना । —भेइ व० (सुदं० ११,
१४, ५) । गिरुंभेवि—तू० का० क्रि०,
(प० च० २८, ४, ४) ।

गिरु—वि० (दे०, प्रा० गिरुत्त) १. निरं-
तर; (सुदं० १, ११, १६) । २. निश्चित,
चौकस; (प० च० १४, १०, ६) ।
३. नितांत; (सं० रा०) । गिरुत्तउ—
क्रि० वि० १. निश्चय ही, निश्चित रूप
से, “एँउ तं सयरामगणु गिरुत्तउ;”
निश्चय ही यह उसी राजा सगर का
आगमन है, (प० च० ५, ५, ५) ।
२. पूर्ण रूप से पूरी तरह से; (ण० १,
१, ८) । तुल० म० निर्हा ।

√गिरुज्ज—(सं० नि+√रुध्)
निरोध करना, रोकना । —इ व०
(कर्मणि) (ण० १, १३, ६) ।

गिरुत्तउ—वि० (सं० निश्चितम्)
निश्चित; (दे० ना० मा० ४, ३०; ण०
२, १३, ११) ।

गिरुत्तर—वि० (सं० निरुत्तर) जिसका
कुछ उत्तर न हो; (जस० ३, १८, ७) ।

गिरुद्ध—पुं० निरुद्ध नामक मंत्री; (व०
३, १२, ६) ।

गिरुद्धउ—भू० का० (सं० नि+रुध्)
रोक लिया, “दूरहोँ जि गिरुद्धउ वइरि-
वलु । रां जम्बूदीवोँ उवहि-जलु” —उसने
दूर से ही शत्रुबल को उस प्रकार रोक
लिया, जिस प्रकार जंबूद्वीप समुद्रजल
को रोके हुए है, (प० च० १५, ३, ८) ।

गिरुली—पुं० स्त्री० मगर की आकृति
वाला एक जंतु; (मकराकृति ग्रहिः) (दे०-
ना० मा० ४, २७) ।

गिरुवक्कय—वि० (दे०) नहीं किया
हुआ; (दे० ना० मा० ४, ४१) ।

गिरुवद्धउ—वि० (सं० निरुपद्रव) विना
किसी उपद्रव के; (व० ३, २, १२) ।

णिरुवम—वि० (सं० निरुपम) उपमा-
रहित, वेजोड़; (जस० ३, ४१, ३) ।

णिरुवमु—वि० जिसकी उपमा न ही,
अनुपम; (महा० ६६, १६, १०) ।

√णिरुवार—ग्रहण करना ।—इ व०
(दे० ना० मा० ४, ४१) ।

णिरुत्तिय—क्रि० वि० (दे०) निश्चित
रूप से; (सुदं० ७, ८, १५) ।

णिरुव—वि० (सं० निरूप) रूप-हीन,
(क० २, ३, ८) ।

णिरुविय—वि० (सं० निरूपित) निरू-
पण किया हुआ, जिसकी विस्तृत विवेचना
हो चुकी हो; (जस० ३, १५, ११) ।

णिरुह—पुं० (सं० निरुव) रुकावट,
रोकना; (ण० ६, २४, १४) ।

णिरुहिअ—वि० (सं० निरुद्ध) विशेष
रूप से रुका हुआ; (जस० १, २७, ४) ।

णिरुहिय; (ण० ६, ५, ४) ।

णिरुड—पुं० (सं० निलय > प्रा०,
णिलय) घर, स्थान, आश्रय; (व० १
८, ११) । णिलय; (भ०) ।

णिलज्ज—वि० (सं० निलज्ज > प्रा०
णिल्लज्ज) लज्जा-रहित; तुल० मगही
निलज्ज; (सरहपा, दहा कोश) ।

णिलाड—न० (सं० ललाट) भाल,
कपाल; (जस० २, २, १०) ।

णिलीण—वि० (सं० निलीन) वंद,
छिपा हुआ, घिरा हुआ; “जाहि वि पुणु
हउं गत्थि णिलीणउं;” अर्थात् जिसके
गर्भ में मैं पुनः निलीन था; (जस० ३,
७, ७) ।

√णिल्लंछ—हरकत करना, जाना,
घोखा देना ।—इ व० (दे० ना० मा०

४, ४०) ।

√णिल्लस—(सं० उत्√लस्) प्रसन्न
होना; —इ अक०, व० (दे० ना० मा०
४, ४०) ।

√णिल्लुक्क—(दे०) सं०√तुड। तोड़ना।
“णिल्लुक्ककेनु” अर्थात् (वह अपने)
केशों का लुञ्चन करता है; (ण० ४, ४,
१०) ।

णिल्लुण्ण—न० (दे०) छेदन; “तं जण-
भयजणणं सिरणिल्लुण्णं णारुणं;” अर्थात्
‘उस लोकभयकारी सिर-छेदन की बात
जानकर;’ (जस० १, १५, १) ।

णिल्लुत्त—वि० (सं० (निलु)त्त) विना-
शित; (जस० १, २२, ८) ।

णिल्लुद्ध—वि० (सं० निर्+लुद्धं)
निलोभ, जिसे लोभ न हो; (ण० ४, ३,
१२) ।

√णिल्लूर—सं० छिद्। विनष्ट करना।
विभवत करना; (दे० ना० मा० ४,
४०) । —रिवि पू० का० क्रि०, विनष्ट
कर; “खग्गे वडरिवग्गु णिल्लूरिवि;”
अपने खड्ग से शत्रु-समूह को विनष्ट कर;
(ण० ६, २४, ३) ।

णिल्लूरिय—वि० (प्रा० णिल्लूरिय)
छिन्न, काटा हुआ, “..... णिल्लूरिय
वाणे हि;” (प० च० ११, ८, ७) ।

णिल्लोह—वि० (सं० निलोभ > प्रा०
णिल्लोभ, णिल्लोह) लोभ-रहित; (भ०) ।

णिव—पुं० (सं० वृप > प्रा० णिव)
राजा; (ण० १, ६, १; जस० १, ३,
१) । —चिधह पुं० (सं० वृप-चिह्न)
(व० २, ६, ६) । —वयणु पुं० वृप-
वचन; (व० २, ५, ५) । —सिरि स्त्री०

(सं० वृपश्री) राजा का गौरव, राजसी संपत्ति; (व० २, २, १०) ।

गिव—वि० (सं० निज > प्रा० णिअ) स्वकीय, अपना; (क० १०, १६, ८) ।

गिवइ—पुं० (सं० वृपति > प्रा० णिवइ) राजा; (क० ३, २, ६; ण० १, १२, २) ।

गिवच्छण—न० (दे०) अवतारण, उतारना; (दे० ना० मा० ४, ४०) ।

गिवजस—पुं० (सं० वृप + यजस् > प्रा० णिव + जस) राज की मुख्याति या कीर्ति, (ण० ७, ६, ५) ।

गिवज्ज—पुं० (सं० नैवेद्य) वह भोजन की सामग्री जो देवता को चढ़ाई जाय, देवबलि; (क० ६, २०, १७) ।

√गिवज्ज—(सं० नि + वंश् > प्रा० णिवंश्) वंशना । —इ “सोएण गिवज्जइ गुरुज कम्मु;” अर्थात् शोक से बड़ा कर्म वंशता है; (क० ६, ४, २) ।

गिवड—वि० (सं० निविड > प्रा० णिविड) गहरा, घना, कठिन; (सं०-रा०) ।

√गिवड—(सं० नि + √पत् > प्रा० णिवड) नीचे पड़ना, नीचे गिरना ।

—डंति व०, प्र० पु०, व०; (ण० ६, १६, १८, १८) । गिवडन्ति—क्रि०, व० (सं० निपतन्ति) नीचे गिरना, नीचे पड़ना; (प० च० १५, ४, ४) । गिवड-

न्त्य—व० कृ० (प० च० १, ५, २) ।

निवडिआ—क्रि०, भू० का०, पड़ गई, (प्रा० पै० २, १५१) । गिवडिय—भू०-का० (सं० निपतित) नीचे गिरा; “घर-

णीयलेँ गिवडिय तरु धुणेवि; अर्थात् शरीर को धुनकर घरणी तल पर गिर पड़ी; (क० ३, ६, ४) ।

गिवडण—न० (सं० निपतन) अघः पतन; (ण० ३, ६, ३) ।

गिवडम्भर—वि० निपट उभरे हुए; (सं० रा०) ।

गिवडिय—वि० (सं० निपतित > प्रा० णिवडिअ) नीचे गिरा हुआ; (प० च० २, ७, ८) ।

गिवत्थाण—न० (सं० वृप + आस्थान) राजा का सभाभवन या दरवार; (ण० ६, १३, ३) ।

गिवग्धुण—न० (सं० निवन्धन > प्रा० णिवंघण) शर्त; (प० च० १७, १८, ३) ।

√गिव्वस्—(सं० निर् + √पद > प्रा० णिव्वल) निष्पन्न होना । गिव्वलिअ—भू० का०, निवट गया, चुक गया, “सम्बर गिव्वलिअ किरिस तनु अम्बेर भेल पुरान,” अर्थात् साथ ही सामग्री समाप्त हो गई, शरीर कृश हो गया, वस्त्र भी पुराने हो गए; (की० ३, १०६) ।

√गिव्वत्त—(सं० नि + √वस्) निवास करना, रहना । —इ व० (प्रा० पै० १, १११; महा० ६६, ११, १०) । गिव्वसंत

—कृ० (सं० निवसत्); (ण० १, २, २) । —सेविणु पू०का० क्रि०, (सं० नि + वस् + एविणु) निवास कर; (व० २, २२, ३) । —हि व०, म० पु०, ए० ।

गिव्वसण—न० (सं० निवसन) वस्त्र, कपड़ा; (जस० १, १६, २) ।

णिवसियय—वि० (सं० निवसित > प्रा० निवसिय) जिसने निवास किया हो वह, प्रवसित; (सं० रा०) ।

णिवसुत—पुं० (सं० नृपसुत) राजा का पुत्र; (सि० १, १०) ।

णिवसुया—स्त्री० (सं० नृपसुता) राजा की पुत्री; (जस० ४, २५, १२) ।

णिवह—पुं० (दे०) समृद्धि, वैभव; (दे० ना० मा० ४, २६) ।

णिवहु—पुं० न० (सं० निवह > प्रा० निवह) समूह, राशि; (प० च० १२, ११, ३) ।

णिवा—स्त्री० (सं० निपः) जल का घड़ा, कुंभ, घट; (ण०, ७, १०, १) ।

णिवाण—पुं० (सं० निर्वाण) विश्राम; (ण० ७, १०, १०) ।

णिवाय—पुं० (दे०) स्वेद, पसीना; (दे० ना० मा० ४, ३४) । निपात; (ण० ४, ६, १३) ।

√णिवार—(सं० नि+वारय् > प्रा० निवार) निवारण करना, निषेध करना ।

—इ क्रि०, व० (सं० नि+वारय् > प्रा० निवार, निवारेइ) मना करना; (प० च० २, १२, ६) । निवारउ—क्रि०, भू० का० निवारण हुआ; (प० च० १७, २, ४) ।

णिवारि—क्रि० आ०, ए० (प० च० १०, ७, ८); व० निवारहो; (प० च० १०, ८, १) ।

णिवारण—न० (सं० निवारण > प्रा० निवारण) १. रोकने की क्रिया, २. हटाने या दूर करने की क्रिया, "उण्हणिवारणु" अर्थात् उण्णता का

निवारण करने वाला; (जस० ४, १२, १५) ।

णिवारणिल—वि० (सं० निवारणीय) निवारण करने योग्य; (जस० ४, ६, १४) ।

णिवारिय—वि० (सं० निवारित > प्रा० निवारिय) निपिद्ध; (प० च० ४, ६, ३) ।

णिवाल—पुं० (सं० नृपाल) राजा; (जस० १, ५, १८; प्रा० पं० १, १६८) ।

णिवास—पुं० (सं० निवास > प्रा० निवास) वास-स्थान; (जस० १, २, ३) ।

णिविट्ठ—वि० निविट्ठ > प्रा० निविट्ठ स्थित, बैठा हुआ; (जस० ३, १७, ५) । निविट्ठु; (प० च० १, ८, ७) । "तहो मज्झि णिविट्ठउ सो सहेइ;" अर्थात् उनके बीच बैठा हुआ वह ऐसा शोभता था; (क० ८, १५, ३) ।

णिविड—वि० (सं० निविड > प्रा० निविड, णिविड) घना, गाढ़ (जस० १, १७, १६) । —त्यवंत वि० (सं० निविड + अर्थवत) सघन अर्थयुक्त काव्य; (जस० २, १३, ११) ।

णिविण्ण—वि० (सं० निविण्ण) पतित; (जस० ४, ११, १०) ।

णिवित्ति—स्त्री० (सं० निवृत्ति) संतृप्ति; "महो अत्थि णिवित्ति परिग्गहायु;" अर्थात् परिग्रहों से मेरी निवृत्ति है, (अर्थात् मैं इनका त्याग कर दूँगा); (क० ४, १, ११) ।

गिविसाय—वि० (सं० निर्विपाद) विपाद-रहित; (व० १०, ३८, ६) ।

गिविसु—पुं० (सं० निमेष=क्षण) पल, क्षण; (प० च० ७, ११, ६) । गिविसिद्ध

—पुं० (सं० निमेषार्धम्) आधा निमेष; (प० च० ४, ३, ४) । गिविसन्तर—

न० (सं० निमेषान्तरम्) एक क्षण का अंतर; (प० च० ६, ८, ६) ।

गि + √वृत्त—(नि + वृत्) निपटना । गिवृत्त—कहा, (प्रा० पै० १, १०७) ।

तुल० राज० निमटवो-नमटवो । गिव्वुत्तम्—(सं० निर्वृत्तम्, रेफ का सावर्ण्य, ऋ का 'उ' में परिवर्तन) "तरुणिकड-

क्वम्नि गिव्वुत्तम्;" (प्रा० पै० १, ४) ।

गिव्वेद्य—वि० (सं० निवेदित > प्रा० निवेद्य) सम्मानपूर्वक ज्ञापित; (जस० ३, १०, १०) ।

गिव्वेण्—न० (सं० नैवेद्य > प्रा० णेवि-ज्ज, णेवेज्ज) देवता के आगे धरा हुआ अन्न आदि; (प० च० १४, ६, ४) ।

गिव्वेज्ज; (क० ७, १२, ७) । गिव्वेय; (सि० १, १६) ।

गिव्वेसिउ—भू० का० (सं० निवेसित) प्रतिष्ठित कर दिया; "लियणे गिव्वेसिउ ते गिव्वेण परिपुज्जिवि अच्चिवि चंद-

णिण;" अर्थात् राजा ने जिन भगवान् को लयण में प्रतिष्ठित कर दिया और फिर उनकी पूजा करके व चंदन से अर्चना

करके; (क० ४, ११, ६) ।

गिव्वेहिय—वि० (सं० निविष्ट > प्रा० निविट्ठ) १. स्थित, ऊपर बैठा हुआ, २. सिर, ३. संकेन्द्रित, नियंत्रित,

४. व्यवस्थित; (सं० रा०) ।

गिव्विट्ठिय—वि० (सं० निष्पादित, वनाया हुआ; (ण० ५, २, ३) ।

गिव्विट्ठिय—भू० का०, कट गई; "गिव्विट्ठिय-भुअ-पाडिय-सिराई" —भुजाएँ कट गई, सिर गिरने लगे; (प० च० ४, ८, ४) । गिव्विट्ठेवि—पू० का० क्रि०, कट कर, "करि-सिरु गिव्विट्ठेवि" हाथी का सिर कट कर; (प० च० १०, १०, ३) ।

√गिव्वड—(सं० निर् + पद् > प्रा० गिव्वड, गिव्वल) निष्पन्न होना, सिद्ध होना, प्रकट होना । —इ व० "कज्जन्ते णवर गिव्वडइ छेउ;" अर्थात् कार्य के समाप्त होने पर ही इसका रहस्य प्रकट होगा; (प० च० १६, ५, ६) ।

√गिव्वड—(दे०) पृथक् या स्पष्ट होना; (दे० ना० मा० ४, ४०) ।

गिव्वड—वि० नग्न, नंगा; (दे० ना० मा० ४, २८) ।

गिव्वण—वि० (सं० नि + व्रण) घाव या व्रण-रहित; "गिव्ववाणि मच्छियउ ण भिणिहिणंति;" अर्थात् जहाँ व्रण (घाव) नहीं होता, मक्खियाँ नहीं भिनभिनातीं; (जस० ४, २१, ११) ।

गि वमिअ—वि० (दे०) लाया हुआ, प्रयोग में लाया हुआ; (दे० ना० मा० ४, ३६) ।

√गिव्वह—(सं० निर् + वह् > प्रा० गिव्वह) निभना, निर्वाह करना । —इ व० (सं० निर्वहति) (प० च० १६, ३, १०; सु० ८, ४, ६) । गिव्वहंत—कृ०

(सं० निर् + वह्) (प० ६, १३, १६) ।

गिञ्चहण—न० (दे०) विवाह; (दे०-ना० मा० ४, ३६) ।

गिञ्चाइड—पू० का० क्रि०, पसार कर, “बहुजीरमरियलवणहो जलिण गिञ्चाइड मुहु पूरियड;” अर्थात् बहुत से जीरे, मिरच और लवंग के जल से मेरा मुत्र पसार कर भर दिया गया; (जस० ३, ५, १५) ।

√गिञ्चाड—(दे०) चुनना; तुल० म० गिञ्चइण् । गिञ्चाडेप्पिरागु—पू० का० क्रि०, चुनकर; “गिञ्चाडेप्पिरागु वन्मु जिह, जं भावइ तं गेप्पहि मित्ता,” धर्म की तरह, इनमें से एक चुनकर, हे मित्र, जो अच्छा लगे वह लेलो; (प० च० ६, ४, ६) । गिञ्चाडेवि—पू० का० क्रि०; (प० च० २१, १३, ४) ।

गिञ्चाराण—न० निर्वाण, छंदगास्त्र में अंतलघु त्रिकल का नाम (SI); (प्रा० पै० १, १६) ।

गिञ्चाण—न० (सं० निर्वाण > प्रा० गिञ्चाण) मुक्ति, मोक्ष, निवृत्ति; (जस० ३, १६, ६) ।—इत्त०, व० निर्वाण-स्यात्, “बहुमुहु वदखवइ गिञ्चाणाइ;” बसमुत्त निर्वाण-स्यात्तो को दिखाने लगा; (प० च० १५, ६, =) ।—ठाच न० (सं० निर्वाण + स्यात्) मुक्ति का स्यात्; (व० १, ६, १०) ।

√गिञ्चाह—(सं० निर् + वह् > प्रा० गिञ्चह) निर्वाह करना, निभाना; (जस० ४, २५, ३३) ।—इ व०; (सुद० ११, ४, ७) ।

गिञ्चाहण—वि० (सं० निर् + वाहन, निर्वाहन) वाहन-रहित; (प० च० २३, ६, =) । न० (सं० निर्वाहणम्, निर्वाहणम्) निर्वाह; “समणे समिच्चिय-सुंदर-वाहण, चडिवि झत्ति रण-मर-गिञ्चाहण” अपने मन में इच्छित सुंदर वाहन पर चढ़कर वह त्रिपृष्ठ भी शीघ्र ही रण के भार का निर्वाहन करने हेतु चला; (व० ४, २०, १३) ।

गिञ्चण—वि० (सं० निर्वाण) (भांगों में) निर्वाण, निर्वेद-युक्त, खिन्न; (क० १०, २५, १) ।

गिञ्चिक्त—सोकर लडा हुआ या खड़ा हुआ; (दे० ना० मा० ४, ३२) ।

गिञ्चिक्ट—वि० (सं० निर्वाण) निर्वाण-कार; (जस० ३, ३०, १६) ।

गिञ्चिक्कडि—स्त्री० (सं० निर्वाण) निर्वाण-कार; (सुद० ६, ७, ४) ।

गिञ्चिक्कप्प—वि० (सं० निर्वाण) > प्रा० गिञ्चिक्कप्प, गिञ्चिक्कप्प) जो विकल्प, परिवर्तन या प्रभेदों आदि से रहित हो; (जस० १, ७, ५) ।

गिञ्चुत्त—स्त्री० (सं० निर्वाण) निर्वाण, मोक्ष; (प० ६, ५, ११) ।

√गिञ्चुड—(सं० निर् + √वृड् > प्रा० गिञ्चुड, गिञ्चुड) डूबना, निमज्जन करना; (जस० ३, २, १६) ।

गिञ्चुत्त—वि० (सं० निर्वाण) > प्रा० गिञ्चुत्त) निष्पन्न, रचित, निर्मित; (प्रा० पै० १, ४) ।

गिञ्चुड—वि० (सं० निर्वाण) > प्रा० गिञ्चुड) १. त्यक्त; (जस० २, ६, ११) । २. जिसने निर्वाह किया हो वह;

(प० च० २२, १२, ७) । वि० (दे०) स्तब्ध; (दे० ना० मा० ४, ३३) । न० (दे०) घर का पश्चिम आंगन; (दे०-ना० मा० ४, २६) ।

गिन्वेअ—पुं० (सं० निर्वेद > प्रा० गिन्वेअ) विरक्ति; (म० १, १७, ८) ।

गिन्वेय—वि० (सं० निर्वेग) वेग-रहित; (ण० ६, २४, १) ।

गिसंक—वि० (सं० निःशंक) शंका-रहित; (प्रा० पै० १, ४४) ।

गिसंग—वि० (सं० निःसंग) संगति-रहित; (जस० ४, २५, १५) ।

गिस—स्त्री० (सं० निशा > प्रा० गिसा) रात्रि; (जस०) ।

गिसग्गड—वि० (सं० नैसर्गिक > प्रा० गिसग्गय) स्वाभाविक; (व० ४, २, २) ।

गिसड—पुं० (सं० निपध) पत्रंत-विशेष-नाम; (व० १०, १५, १०) ।

गिसण्ण—वि० (सं० निपण्ण > प्रा० गिसण्ण) बैठे हुए, विराजमान; (व० ३, १, १२; जस० १, ३, ६) ।

गिसत्त—वि० (दे०) संतुष्ट; (दे० ना०-मा० ४, ३०) ।

गिसा—स्त्री० (सं० निशा > प्रा० गिसा) रात्रि; (जस० २, १३, १५; प्रा० पै० २, १७७) ।

गिसाण—न० (फ़ा० निशानः) चिह्न, लक्षण जिससे कोई चीज पहचानी जाए; (सि० २, १२) ।

गिसाय—वि० (दे०) प्रगाढ़ निद्रित, सोया हुआ; (दे० ना० मा० ४, ३५) ।

गिसायर—पुं० (सं० निशाचर > प्रा० गिसाअर) राक्षस; (सं० रा०; रि० १,

१२; क० ६, २१, १०) ।

गिसायरि—स्त्री० (सं० निशाचरी) राक्षसी, कुलटा; (जस० ३, ४१, ६) ।

गिसास—पुं० (सं० निश्वास) नाक या मुँह से बाहर निकलने वाला श्वास; (प्रा० पै० २, १३४) ।

गिसि—स्त्री० (सं० निशि > प्रा० गिसि) (प० च० १३। १२। ६; भ०) ।

—भोयण न० (सं० निशि + भोजन > प्रा० गिसि + भोअण) रात्रि में किया जाने वाला भोजन, (क० ५, १५, २) ।

—वअ पुं० (निशि + व्रत); रात्रि का व्रत; (क० १०, १२, २) ।

गिसिचारु—पुं० (सं० निशिचार) रात्रि में किए जाने वाला आचरण, “गिसि-चारु जेण उवलक्खयउ;” (जस० २, ६, १४) ।

गिसिद्ध—वि० (सं० निविद्ध > प्रा० गिसिद्ध) जिसका निषेध किया गया हो,

(जस० ३, १७, १४) । —अत्यु पुं० (सं० निविद्ध + अर्थ > प्रा० गिसिद्ध + अत्य, अठ्ठ) निविद्ध अर्थ; (प० च० १६, १०, २) ।

गिसि-पहरणु—न० (सं० निशा-प्रहरण) निशास्त्र; (रि० १०, १६) ।

गिसिपालआ—स्त्री० निशिपाल छंद; (प्रा० पै० २, १६०) ।

गिसियर—पुं० (सं० निशाचर > प्रा० गिसा, गिसि + अर) राक्षस; (प० च० ८, ३०, ४) । २. भूतप्रेतपिशाच आदि; (जस० १, ६, ११; क० २, १३, ६) ।

णिसियरु—पुं० (सं० निश्चिकर), चंद्रमा; (व० २, ३, ५) ।

णिसीसु—पुं० (सं० निशीश) चंद्रमा; (व० २, ३, ५) ।

णिसीह—पुं० (सं० वृ+सिह) श्रेष्ठ मनुष्य; (ण० ३, ३, १३) ।

√णिसुभ—(सं० नि+शुम्भ) मार डालना; (जस० २, १५, ७) । —इ सक० (सुदं० ११, ४, ५) । —इवि पू०-का० क्रि०, (ण० ५, २, १४) ।

णिसुभ—पुं० (सं० निशुभ) दैत्य का नाम; (प्रा० पै० २, ६६) । वि० (सं० निशुम्भनः) विनष्ट करने वाले; “भयमयणिसुभाई;” भय और मद को विनष्ट करने वाले; (जस० १, १७, ६) ।

णिसुभण—वि० (सं० निशुम्भन > प्रा० णिसुभण) नाश करने वाला, मार डालने वाला; (सुदं० ३, ३, १०) । णिसुम्भण—वि० विनाश करने वाला; (प० च० ५, ३, ५) ।

णिसुभिय—वि० (सं० निमुम्भित) १. निपातित, व्यापादित; (सुदं० ११, २२, २) । २. विध्वस्त; (ण० ७, ८, ६) ।

णिसुअ—वि० (सं० निश्रुत) श्रुत; (क० १०, २६, ४) ।

णिसुद्विय—वि० (सं० निशुम्भित > प्रा० णिसुद्विय) भग्न, नष्ट. “कमखड झड-णिसुद्विय-फड-कडप्पु,” कर्कश आघात से नष्ट हो गया फन-समूह जिसका; (प०-च० १३, ८, ४) ।

√णिसुण—(सं० नि + √श्रु, श्रुणोति > प्रा० णिसुणइ) सुनना; (सं०-

रा०) । —णंत कृ० (ण० ५, ११, १५) । —मि व०, उ० पु०, ए०, सुतना; “जीवन्तिहे णिसुणमि वत्त जइ” —यदि उसके जीने की खबर सुनूँगा; (प० च० १६, १८, २) । णिसुणित्त—क्रि० भू०, सुनाई पड़ा (सुअंघ०-१, ६, ३) । णिसुणिवि—पू० का० क्रि०; (ण० १, ६, १) । णिसुणित्पिरणु—पू० का० क्रि०; (प० च० ६, ५, ३) । णिसुणिवि—पू०-का० क्रि०; (म० १, ८, १) । णिसुय—भू० का० (सं० नि+श्रुत) सुना; (ण० १, १८, २) ।

णिसेज्जा—स्त्री० (सं० निषद्या > प्रा० णिसज्जा) आसन-विशेष, पद्मासन; (ण० ६, २५, १) ।

णिसेणि—स्त्री० (सं० नि.श्रेणी > प्रा० णिसेणि, णिसेणि) नसेनी, सीढ़ी; तुल० गु० नीसरणी; (प० च० २२, ४, ३) ।

णिस्मरिअं—वि० गिरा हुआ, खिसका हुआ, नीचे पड़ा हुआ (दे० ना० मा० ४, ४०) ।

णिससंक—वि० (सं० नि.शंक > प्रा० णिससंक) शंका-रहित; (प्रा० पै० १, ४६) ।

णिससंरु—वि० (दे०) निर्भर; (दे० ना० मा० ४, ३२) ।

णिससंकिय—वि० (सं० नि: शङ्कित > प्रा० णिससंकिय) शंका-रहित; (व० ७, ४, २) ।

णिस्साहार—वि० (सं० निस्साधार) निराधार, वेसहारा; (सं० रा०) ।

णिस्सेस—वि० (सं० निःशेष) समस्त, सकल; (व० १, १४, ३) ।

णिहंतु—वि० (सं० निहन्तृ) निहंता, विनाशक; “सो हवेइ वंचणाविसो णिहंतु;” अर्थात् वह वंचना रूपी विष का निहंता हो जाता है; (क० ६, १३, ४) ।

णिह—वि० (सं० निभ > प्रा० णिह) समान, तुल्य; (प० च० ११, ४, ४) ।

णिहइ—क्रि०, व० निहारती है, देखती है; (सं० रा०) ।

णिहट्ठ—वि० (सं० निघृष्ट) घिसा हुआ; (प० च० ३७, ८, ३) ।

णिहण—वि० (सं० निर्धन) दरिद्र; (क० ६, ५, १०) । पुं० (सं० निर्धन) मरण; (क० २, १४, ८) । न० (दे०) कूल, तीर, किनारा; (दे० ना० मा० ४, २७) ।

णिहणण—न० (सं० निहनन) घातक “महु णिहणणसीलउ मिच्च जिह;” अर्थात् जैसे मानो वे मेरे घातक भृत्य हों; (जस० २, २४, ६) । २. विध्वंस; (व० १, ७, ७) ।

णिहणिय—वि० (सं० निहनित) घातक; (व० २, ६, १८) ।

णिहणु—न० (सं० निर्धन > प्रा० णिहण) विनाश; बहुपहरहि णिहणु जि संभवइ,” अर्थात् अनेक पहरों के (दिन के ४ पहरों) पश्चात् उसका भी अस्त होना निश्चित है; (जस० २, २, २) ।

√णिहम्म—(सं० नि+हन्) मारना । —इ सक०, “णरयालई णाणाणारएहिं,

चिरकियहिं णिहम्मइ वइरएहिं;” अर्थात् नरक लोक में उसे उसके पूर्व के वैरी नारकी मारते हैं; (क० ६, ८, २) ।

णिहय—वि० (सं० निहत > प्रा० णिहय) मारा हुआ; (प० च० १६, ४, ८) ।

णिहयतम—वि० (सं० निहततम) अंधकार का नाश करने वाला; (व० २, ११, ६) ।

√णिहस—(सं० नि+घृष्) घिसना णिहसिज्जइ—कर्मवा० (प० च० २१, २, ५) ।

एिहस—पुं० (दे०) वल्मीक, सर्प आदि का बिल; (दे० ना० मा० ४, २५) ।

णिहसण—न० (सं० निर्घर्षण) घर्षण, रगड़; (ण० ७, ७, १०) ।

णिहाअ—पुं० (सं० निघात) अभिघात, प्रहार; (क० ४, १५, ३) ।

णिहाउ—पुं० (दे०) समूह; (प० च० १३, ८, २) ।

णिहाए—पुं० (दे०) समूह, “कुसुमियलया-वेत्ति-पल्लव-एिहाएहिं;” खिली हुई लताओं, पल्लवों और वेलों के समूह से युक्त; (प० च० ३, १, २) ।

णिहाण—न० (सं० निधान > प्रा० णिहाण) खजाना, निधि; (क० १, ३, ४; व० ८, ४, ८) । णिहाणु—न० निधान; (व० ३, २, १) ।

√णिहाल—(स० निभालय् > प्रा० णिभाल) अवलोकन करना, निहारना । —इ व० (ण० ३, ८, १०) । —हि व०, म० पु०, ए० तुल० म० निहाळणें (ध्यानपूर्वक देखना); (क० ५, ६, १०) ।

गिहालियउ—भू० का० (सं० निभालित) देख लिया, (जस० २, २१, ७; महा० ६६, १२, ६) । गिहाले—क्रि०, आ०; देखें, “आउ गिहाले मुहु तं, आओ उसका मुख देखें; (प० च० १२, ५, १४) ।

गिहालभ—वि० (सं० निभालक) (१) दृष्टिवाला, (२) देखनेवाला, (सुदं० २, ४, ३) । गिहाली—वि० स्त्री० देखने वाली; (सुदं० ४, ५, १६) ।

गिहालण—न० (सं० निभालन > प्रा० गिहालण) अवलोकन; (सुदं० १, १०, ८) ।

गिहालिय—वि० (सं० निभालित > प्रा० गिभालिय, गिहालिअ) दृष्ट, निरीक्षित; (प० च० ३, ६, ५) ।

गिहि—स्त्री० (सं० निधि > प्रा० गिहि) खजाना; (सं० रा०; व० २, १३, १; जस० १, ४, १५) ।

गिहित्त—वि० (सं० निहित > प्रा० गिहिअ) स्थापित, रखा हुआ; (प्रा० पै० २, १६४) ।

गिहित्तउं—भू० का० स्थापित कर दिया; “कण्णइ गुण संदोहे हियवउं सयरि गिहित्तउं” कन्या ने गुणों के समूह राजा सगर में अपना हृदय स्थापित कर दिया; (महा० ६६, १७, ११) ।

गिहिप्प—सक० [सं० नि + घा + णिच् (कर्मणि)] स्थापना करना । (जस० ३, ३०, १०; ण० ३, ३, ५) ।

गिहिय—वि० (सं० निहित > प्रा० गिहिअ) स्थापित; (ण० १, १, ११) ।

गिहियउ—भू० का० (सं० निहित) बैठाया; “उवयारु महंतउ जाणएण, वणि गिहियउ मंतिपयम्मि तेण;” अर्थात् उसके महान् उपकार को जानकर राजा ने वणिक् को मंत्री पद पर बैठाया; (क० २, १६, ८) ।

गिहिल—वि० (सं० निखिल > प्रा० गिहिल) सब, सकल; (क० १०, २५, ६; व० ८, ३, २) ।

गिहीण—वि० (सं० निहीन) नितांत हीन; तुच्छ; (क० ५, १६, ६; जस० २, ८, १२) ।

गिहुअ—वि० (सं० निभृत > प्रा० गिहुअ) चुपचाप; (प्रा० पै० १, १०८) ।

गिहुण—न० (दे०) व्यापार, वंधा; (दे० ना० मा० ४, २६) ।

गिहुय—वि० (सं० निभृत > प्रा० गिहुअ) १. गुप्त, २. रखा या धरा हुआ, ३. भरपूर, ४. एकांत भाव से, ५. संभ्रम रहित; (सं० रा०) । ६. शांत; (जस० १, २०, ६) ।

गिहुया—स्त्री० (दे०) संभोग के लिए अभिलषित स्त्री; “गिहुया कामिता;” (दे० ना० मा० ४, २६) ।

√गिहुव—(दे०) संभोग की अभिलाषा करना । —इ सक० (दे० ना० मा० ४, ४०) ।

गिह्वयं—न० (सं० निधुवन > प्रा० गिहुवण) महान् आनन्द या खुशी, सुरत, संभोग (दे० ना० मा० ४, २६) ।

गिहेलण—न० (दे०) गृह; (जस० ३, ३४, १; दे० ना० मा० ४, ५१) ।

णिहोडण—न० (सं० निपातन) नाश; “संसारणिहोडणु खणे” करहिं जं चित्तिउ तं पावहिं सयलु;” अर्थात् (वे) एक क्षण में संसार का नाश करते थे। उनके दर्शकगण जो चिंतन करते वह सब वस्तु पा जाते थे; (क० ५, ५, १०)।

√णी—(सं० व नी > प्रा० णी) ले जाना। णिज्जइ-कर्मवा० (सुदं० ४, १०, ८; जस० २, २६, १२)। णीस—भू०-का० नीत, “णं पावपडलु णिण्णासु णीउ;” मानो पाप का पटल नाश को प्राप्त किया गया हो; (क० ५, ८, ६)। णीयइ—व०; (व० १, १३, ६)। णेवावि—पुं० का० क्रि०, (क० ८, १३, २)। णेवावियइं—ले जाए गए; (रि० ६, ५)।

णीइ—स्त्री० (सं० नीति > प्रा० णीइ) आचारपद्धति, लोकमर्यादा के अनुसार व्यवहार; (क० २, १४, ३)।

णीण्य—वि० (सं० निर्णय) निर्णय किया हुआ; (जस० १, २१, १४)।

णीप—पुं० (सं० नीप) कदंब का फूल; (प्रा० पै० २, ८६)।

णीश—स्त्री० (सं० नीति > प्रा० णीइ) आचारपद्धति; (व० १०, ३, ८)।

णीयाण—पुं० (सं० निदान) कारण; (क० ६, ४, ५)।

णीर—न० (सं० नीर > प्रा० णीर) जल, पानी; (जस० ३, २, १२)। —निके-तना न० जलगृह; (की० २, ८३)।

णीरथ—वि० (सं० निर्मल) विमल, स्वच्छ; (महा० ६६, १२, ७)। २. कर्म-रजरहित; (व० १, १, १३)। ३. पुं०

कमल; (व० १, १, १३)।

णीरस—वि० (सं० नीरस > प्रा० णीरस) रस-रहित; (जस० १, ११, २)।

णीरु—न० (सं० नीर > प्रा० णीर) जल; (सा० ८१; सि० १, ३)।

णीरुअ—वि० (सं० नीरुज) व्याधि-रहित; (ण० ५, १, ३)।

णीरोयत्तण—पुं० (सं० नीरोगत्व) स्वस्थ होना; (जस० ४, १०, ६)।

णीलंजण—स्त्री० नीलांजना, ज्वलनजटी की रानी; (व० ४, ४, १४)।

णील—पुं० (सं० नील) नीला रंग; (प० च० १३, ३, ३)।

णील—पुं० छंद का नाम; (प्रा० पै० २, १७०)।

णील—पुं० नील, वानरराजकुमार, वानर सैन्य प्रमुख; (प० च० ६८, २)। पुरुष-नाम, (क० ५, २, २)।

णीलकंठी—स्त्री० (दे०) वृक्ष-विशेष, वाण-वृक्ष; (दे० ना० मा० ४, ४२)।

णीलकंडु—पुं० नीलकण्ठ नामक योद्धा; (व० ४, ५, १४)।

णीलमणि—पुं० नीलकांतमणि, नीलम; (व० ३, २, ५)।

णीलरहु—पुं० नीलरथ (विद्याधर); (व० ५, २०, ४)।

णीलसेल—पुं० (सं० नीलशैल) नील पर्वत, पर्वत-विशेष-नाम; (व० १०, १५, ६)।

णीलाडलि—स्त्री० (सं० नील + आवली = कतार) नीलमणि की कतार; (प०-च० ६, ७, ६)।

णीलालय—पुं० (सं० नील + अलक) काले केश; (ण० ५, १, ६) ।

णीलि—पुं० नील, (पर्वत); (व० १०, १४, १०) ।

णीलु—पुं० नील, (छंदशास्त्र में) स्कंधक का भेद, (प्रा० पं० १, ७५) ।

णीलुप्पल—न० (सं० नील + उत्पल) नील रंग का कमल; (ण० २, ५, १३; व० ३, ३, ८) । णीलोप्पल; (सि० १, ३) ।

णीव—पुं० (सं० नीप > प्रा० णीव) कदंब का फूल; (प्रा० पं० १, ६७) ।

√णीव—(सं० निर् + वा) शांत होना (become tranquil) । —इ व० शीतलता को प्राप्त होना; तुल० म० निवर्ण; (प० च० ५५, ८, ६; ण० १, १४, १) ।

णीवि—स्त्री० (सं० नीवी > प्रा० णीवी) नारा, इजारवंद; (क० १० ७, ५) ।

णीसंक—वि० (सं० निःशंक > प्रा० णिस्संक, णीसंक) शंका-रहित; (प्रा० पं० १, ४७) ।

णीसंपाय—वि० (दे०) जहाँ जनपद परिश्रांत हुआ हो वह; (दे० ना० मा० ४, ४२) ।

णीसङ्ग—वि० (सं० नि + शृङ्ग) बिना सींग के या बिना रज्जुबंधन के; (संगा = वल्गा दे० ना० मा० ८, २) । (प० च० २४, १३, ४) ।

णीसण—पुं० (सं० निःस्वन > प्रा० णीसण) आवाज, शब्द, ध्वनि; (प० च० १७, १६, ७) ।

णीसणिप्रा—स्त्री० (सं० निःश्रेणी >

प्रा० णीसेणि) सीढ़ी; (दे० ना० मा० ४, ४३) ।

णीसणिय—वि० (सं० निः + स्वनित) शब्द-युक्त; (ण० ६, १, ८) ।

णीसव्य—वि० (सं० निःशब्द > प्रा० णीसद्) शब्द-रहित; (प० च० १४, १, ६) ।

णीसद्—वि० (सं० निःशब्द) शब्द-रहित; (भ०) ।

णीसन्दण—पुं० (सं० निःस्यन्दन) बिना रथ के; (प० च० २, १३, ७) ।

णीसन्धि—स्त्री० (सं० निःसन्धि) वियोग; (प० च० १८, १२, ६) ।

√णीसर—(सं० निः + सृ > प्रा० णीसर) बाहर निकलना । —इ व० (क० ४, १३, २) । णिसरिय—भू० का० निकले; (प० च० १२, ७, ८) । —रिवि पू० का० क्रि०; (क० ६, ६, ८) ।

णीसारेवि—पू० का० क्रि०; (प० च० ५, १६, ७) ।

णीसरिप्र—वि० (सं० निः + सृत) निर्गत; (ण० १, १०, १२) ।

णीसरिअ—वि० (सं० निःसृत) निर्गत; (जस० २, २, ४) ।

√णीसस—(सं० निर् + श्वस्) श्वास लेना । —इ अक०, व० (सं० निर् + श्वासयु > प्रा० णिस्तास, णिसास, णीसास); (महा० ६८, २, ११) । णीस-

संत—कृ० (सं० निः + श्वसत्); (क० ३, ५, ३) । णीससंती—कृ० [निः + श्वसत् (स्त्रियां)] (ण० २, ८, ६) ।

णीसासन्त—कृ०; (प० च० ६, ७, ३) ।

णीसार^१—वि० (सं० निःसार) सार-
रहित, निकृष्ट; (जस० २, ३३, ६) ।

णीसार^२—पुं० (दे०) मण्डप (दे० ना०-
मा० ४, ४१) ।

√णीसार—(सं० निर्+सारय् > प्रा०
णीसार) बाहर निकालना । —इ व;

(भ०) । णीसारिड—क्रि० (सं० नि.सा-
रित > प्रा० णीसारिय) निष्कासित,

निकाल भगाया; (क० १०, २२, ४) ।
णीसारिड; (प०- च० १०, ६, १) ।

णीसारिय; (ण० ८, १०, ६) ।

णीसावण्ण—वि० (सं० निःसामान्य)
अनन्य; (प० च० ४, ५, ४) । अत्तमान-

न्य, “जिहँ तुहुँ तिह अण्ण वि णीसावण्ण
वि० गरुयइँ गज्जिय बहुय पर,” (प०-
च० ३१, ६, ६) ।

णीसास—पुं० (सं० निःश्वास > प्रा०
णिस्तास, णिसास, णीसास) नाक से सांस

बाहर निकालना; (ण० १, १०,
१३) ।

णीसाहण—वि० (सं० निःसाधन)
१. सैन्य रहित, २. प्रसाधन-रहित, अन-

लंकृत; (प० च० २३, ६, ८) ।
णीमुण्णु—वि० (सं० निःशून्य) सूना;

(प० च० १६, १२, २) ।

णीसेस—वि० (सं० निःशेष > प्रा०
णिस्सेस, णीसेस) सब, सकल; (जस० २,
६, १७; ण० १, १, ६) ।

णीहरियं—न० (दे०) शब्द, आवाज,
ध्वनि, (दे० ना० मा० ४, ४२) ।

णीहार—पुं० (सं० नीहार > प्रा०
णीहार) हिम, तुफान; (ण० १, १६, १०) ।
णुवण्ण—वि० (दे०) सोया हुआ, सुप्त;

(दे० ना० मा० ४, २५) ।

णेउर^१—न० नूपुर; (छंदशास्त्र में) प्रथम
द्विकल गण (ऽ) का नाम; (प्रा० पै०
१, २१) ।

णेउर^२—न० (सं० नूपुर > प्रा० णेउर)
स्त्री के पांव का एक आभूषण; (प० च०
१, १३, ६; ण० १, १७, ५; जस० १,
४, ४) । णेउरु; (व० २, १८, ६) ।

णेत्त—पुं० न० (सं० नेत्र > प्रा० णेत)
१. वस्त्र-भेद, उत्तम रेवामी कपड़ा; (प०-
च० ४५, ४, १०; ण० ६, २१, ३३) ।

२. आँख; (क० ७, ३, १; प्रा० पै० २,
६७) ।

णेत्य—पुं० न० (सं० नेपथ्य) आभरण,
भूषण; “कणयकत्तरीगाढणेत्यओ रविसु-

दित्तिदित्तीपहत्यओः” अर्थात् सुवर्णमय
कटिभूषण से गाढी कमर बाँधि सूर्य सदृश
कांति से जगमगाता हुआ; (ण० ६, १८,
१२) ।

णेमि—पुं० (सं० नेमि > प्रा० णेमि)
वाइसवें तीर्थकर का नाम; नेमिनाथ;

(व० १, १, ३; जस० १, २, ११) ।
२. रथ के चक्र की नेमि; (जस० १, २,
११) ।

णेव—अव्य० (सं० नैव > प्रा० णेव)
नहीं ही; (सं० रा०) । २. वि० अनेक;
(विला०) ।

णेवार—वि० (सं० नेवृ) नेता, नायक;
(जस० २, १६, १३) ।

णेवच्छण—न० (दे०) नीचे उतारना,
अवतारण; (दे० ना० मा० ४, ४०) ।

णेवर—पुं० (सं० नूपुर > प्रा०, नूपुर,

गुडर) पाजेव, पैरों का आभूषण; (सं०-रा०) ।

रोसप्यु—पुं० (सं० नैसर्प > प्रा० णेस-प्य) निधि-विशेष, चक्रवर्ती राजा का एक देवाधिष्ठित निधान; (व० ८, ५, ६) ।

रोह—पुं० (सं० स्नेह > प्रा० रोह) राग, अनुराग, प्रेम; (प० च० ६, १४, ६; क० १, ३, ७) । अव्य० (सं० न० + इह) यहाँ नहीं; (प्रा० पँ० १, ५६) । —ज्जिअ वि० (सं० स्नेहाजित) स्नेह से अजित; (ण० २, १४, ६) ।

रोहल—वि० [सं० स्नेह + ल (मत्वर्थे)] स्नेह-युक्त; (क० ६, ११, ६) ।

रोहलु—पुं० (सं० स्नेहलः) स्कंधक का भेद; (प्रा० पँ० १, ७५) । २. प्रेम, स्नेह; (प्रा० पँ० १, १८०) ।

रोहो—पुं० (सं० स्नेह > प्रा० णेह) राग, अनुराग, प्रेम; (सुदं० ८, ४) ।

रोहवंत—वि० [सं० स्नेह (तैल) + वत्] चिकना; "णेहवंताइँ खाणाइँ सा चारिया," अर्थात् चिकना घास-दाना चराया; (क० ८, २, २) ।

णोकसाय—पुं० (सं० नो + कषाय) जैनदर्शन का पारिभाषिक शब्द; क्रोध, लोभादि विकार जैसे कषाय दोष, सांसारिक पदार्थों में आसक्ति आदि; जैन दर्शन के अनुसार ६ कषाय निम्नलिखित हैं—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा एवं स्त्री० पुं० नपुंसकवेद; (ण० १, १२, ५) ।

णोक्खा—वि० (दे०) अच्छा, अनोखा, अपूर्व; (प्रा० पँ० २, १०५) ।

णोखी—वि० (दे०) अपूर्व, अनोखा; तुल० गु० अनोखा (णवक्खी पाइअ०) (प० च० ३१, १२, ३) ।

णोमी—पुं० रस्सी, डोरी, रज्जु; (दे०-ना० मा० ४, ३१) ।

णोलइया—स्त्री० चोंच; (दे० ना० मा० ४, ३६) ।

णोलग—वि० (सं० न + लग्न) नहीं लगा हुआ; "णोलगकंठाउ," (जस० ३, २७, ८) ।

णोलच्छा—स्त्री० (दे०) चोंच; (दे०-ना० मा० ४, ३६) ।

णव—(सं० स्नपय्) स्नान कराना ।

णहाइ—व० (सं० स्नपय् > प्रा० ण्व, ण्वेइ) नहलाना, स्नान कराना; (प०-च० १, ५, ५) । णहाएँवि—पू० का०-क्रि०, (प० च० ५, ४, ५) । णहाहोँ—क्रि०, आ०; (प० च० १४, ५, ४) ।

णवण—न० (सं० स्नपन > प्रा० णवण) स्नान, (क० १०, २६, २) । २. अभिषेक; (व० ६, १४, ७) ।

णवणवीढ—पुं० न० (सं० स्नान + पीठ > प्रा० ण्हाण + पीढ) स्नान करने का आसन (चौकी) या स्थान; (प० च० १, १६, २) ।

णवहली—स्त्री० (दे०) विजली, विद्युत; (दे० ना० मा० ४, २२) ।

ण्विअ—वि० (सं० स्नपित > प्रा० ण्विअ) जिसको स्नान कराया गया हो वह; (जस० २, २१, ४) ।

ण्वहा—(सं० स्ना) स्नान करना, नहाना; (जस० १, २६, २२) । ण्वंत—कृ० (सं० स्ना + षातृ); (जस० ३, ३०, १) । —इवि पू० का० क्रि०, (क० ४,

११, ७) । —एवि पू० का० क्रि०;
(जंबू० ६, ८, १५) ।

पहाभ—वि० (सं० स्नात > प्रा० पहाय)
जिसने स्नान किया हो वह; (जस० २,
३, १) ।

पहाण—न० (सं० स्नान > प्रा० पहाण)
नहाना; (क० ५, ३, ४) ।

पहाणड्ड—न० (सं० स्नान > प्रा०
पहाण) स्नान, नहाना; (प० च० १३,
६, ७) ।

√पहात्र—(सं० स्नपय्) नहलाना,
स्नान करना । —इ सक० (जंबू० ५,
१०, १५) ।

पिहालण—न० (सं० निभालन) अवलो-
कन, प्रेक्षण; (क० ६, ८, ६; ण० ३,
२, १५) ।

त

त—पुं० (सं० प्रा० त) व्यंजन वर्ण-
विशेष । दंत-स्थानीय, अघोष, अल्पप्राण,
निरनुनासिक । छंदशास्त्र में यह तगण का
संक्षिप्त रूप माना जाता है । सर्व० (सं०
तत्) वह; (भ०) । अव्य० (सं० ततः) तव;
(प्रा० पै० १, १०५) ।

तं—सर्व० (सं० तम्) १. उसको, वह;
(सं० रा०) । २. उस; (की० २, ७७) ।
३. उसे, 'अकखमि धम्मक्खरु तं सुणेहु,
(विला०) । लो०—तं खज्जिइ जं परिणइ
पावइ'—वह खाओ जो हजम हो जाए;
(सुदं०) । ४. अव्य० वैसे; (की० ४,
५७) । ५. अव्य० (सं० ततः) वहाँ; (की०

२, ७६) । ६. पुं० वाक्य-उपन्यास, वाक्य
का उपक्रम; (पड्) ।

तंजिया—पुं० तंजिका, देश-विशेष-नाम;
चोल राजाओं की राजधानी, मद्रास से
२१८ मील दक्षिण-पश्चिम में प्राचीन
तंजौर स्थित है; (जंबू० ६, १६,
२) ।

तंट—न० (दे०) पृष्ठ, पीठ; (दे० ना०-
मा० ५, १) ।

तंड—न० (दे०) १. लगाम में लगी हुई
लार; २. वि० मस्तक-रहित; ३. स्वर
से अधिक; "तंडं कविकालालकं शिरोवि-
हीनं स्वराधिकं चेति त्रयर्थम्;" (दे० ना०
मा० ५, १६) ।

तंडउ—न० (सं० ताण्डव) तांडव नृत्य;
(क० ४, ११, ६) ।

तंडव—पुं० (सं० तांडव) १. नाच,
नृत्य; २. तांडव, विशेष कर शिव का
उन्माद नृत्य या प्रचण्ड नाच; (सं०-
रा०) ।

√तंडव—(प्रा० तड्डव) विस्तार
करना । —हु; (भ०) ।

तंडविय—वि० (प्रा० तड्डविअ =
विस्तृत) विस्तीर्ण; (जंबू० ५, ७,
६) ।

तंणयर—पुं० (सं० तद् + नगर) वह
नगर; (जस०) ।

तं तं—सर्व० (सं० तत् तत्) वह;
(जंबू० ३, १४, १०) ।

तंतं—न० (सं० तन्त्र > प्रा० तंत)
झाड़ने-फूंकने का मंत्र या शास्त्र; (प्रा०-
पै० २, १२५) । तंत; (जस० १, ६,
१५; क० २, ६, ४) ।

तंत्रपाल—पुं० (सं० तन्त्रपाल) राष्ट्र-पाल, सेना में विशिष्ट पद; (जंबू० ५, ६, २) ।

तन्ति—स्त्री० (सं० तन्त्री) वाद्य-विशेष; (जंबू० ४, १५, ३) ।

तन्तिशब्जु—न० (सं० तन्त्रीवाद्य) वीणा, वाद्य-विशेष; (रि० २, ७) ।

तन्तु—अव्य० तत्र तो । वि० तप्त; (सं०-रा०) ।

तन्तु—पुं० (सं० तन्तु > प्रा० तंतु) सूत, धागा, तागा; (व० १, १४, ८; प० च० १, १३) । —अ, —ग (सं० तन्तु+क) जलजंतु-विशेष; (प० च० १४, १७) ।

तन्तुखोडी—स्त्री० (दे०) तन्तुवाय का एक उपकरण; (दे० ना० मा० ५, ७) ।

तंतुय—पुं० (सं० तन्तुक > प्रा० तंतुग) जलजंतु-विशेष; (प० च० १४, १७) ।

तंद—पुं० (सं० तन्द्रा) वह अवस्था जो नींद के आने के आरंभ में होती है, ऊँच; (क० १, ६, ७) ।

तंदुल—पुं० (सं० तण्डुल) तंदुल, चावल; (व० ८, ५, १०) ।

तंद—न० (सं० ताम्र > प्रा० तंत्र) धातु-विशेष, ताँबा; (जस० १७, २४) ।

तन्दिमि—पुं० (दे०) कीट-विशेष; (दे० ना० मा० ५, ६; पङ्) ।

तंत्रकुमुम—पुं० न० (दे०) कटसरैया, कुखक, वृक्ष-विशेष; (दे० ना० मा० ५, ६; पङ्) । २. कुरंटक वृक्ष; (पङ्) ।

तंत्रग—न० वाद्य-विशेष; तुन० गु०

तंत्राळु; (संवि० १२, ६, २६) ।

तंत्रचूड—पुं० (सं० ताम्रचूड) मूर्गा, कुक्कुट; (जस० ३, १५, १३) ।

तंत्ररत्ती—स्त्री० (दे०) गेहूँ में कुंकुम (केसर, रोली) की छाया; (दे० ना०-मा० ५, ५) ।

तंत्रा—स्त्री० (दे०) गी, धेनु; (दे० ना०-मा० ५, १; जंबू० ४, १८, १३) ।

तंत्रिर—वि० (दे०) ताम्र वर्ण वाला; (न०) ।

तंत्रिरा—स्त्री० देखो तंत्ररत्ती (दे० ना०-मा० ५, ५) ।

तंत्रेही—स्त्री० (दे०) वृक्ष-विशेष; शेफालिका; (दे० ना० मा० ५, ४) ।

तंत्रोल—न० (सं० ताम्बूल > प्रा० तंत्रोल) पान; तुल० म० ताम्बोली; (जस० १, २२, १०) । तंत्रोलइं; (विला०) । —लग्ग वि० (सं० ताम्बूल + लग्ग) ताम्बूल की लता से चिपके हुए; (जस० २, २७, ८) । —वत्त न० (सं० ताम्बूलपत्र) पान का पत्ता; (विला०) ।

तंत्रोलिय—पुं० (सं० ताम्बूलिक) तमोली, पान बेचने वाला; तुल० गु० तंत्रोली; (संवि० २, १६, ३) ।

तंत्रोली—स्त्री० (सं० ताम्बूली) पान का गच्छ; (पङ्) ।

तंत्रोलवल्ली—स्त्री० (सं० ताम्बूलवल्ली) पान की बेल; (प० च० ४६, ७२) ।

तंत्र—पुं० (सं० स्तम्भ > प्रा० तंत्र) शंभ; (पङ्) ।

तंत्र—न० (सं० ताम्र > प्रा० तंत्र) ताँबा, धातु-विशेष; "तंडव तंत्र-मणि-

रूप्य-कंचण खर-पुहवी पभणंति विवंचण; 'अथात् शीशा, तांवा, मणि-चांदी एवं सोने को विचक्षण पुरुष खर-पृथिवी कहते हैं; (व० १०, ७, ४) ।

तंवार—पुं० तंवार, नरक-नाम; (जस० २, ११, १३) ।

तंत्रिर—वि० (प्रा० तंत्रिर) ताम्र वर्ण वाला; तुल० म० तांवेरा, तांवडा; (भ०) ।

तंबोल—न० (सं० ताम्बूल > प्रा० तंबोल) पान; (व० ५, ८, १) ।

तअ—न० (सं० तपस्) तपस्या, तप; (क० ५, ६, १०) ।

तआर—पुं० (सं० तकार) तगण; (प्रा०-पै० २, ११४) ।

तइ—सर्व० (सं० त्वया) तुम्हारे, तुल० मगही तोहिं; (प्रा० पै० १, ६; गुण्डरीपा, चर्यांगीति) ।

तइ—अव्य० सं० तत्र; वहाँ, उसमें; (पड़) । (सं० तदा) तब; (जस०) स्त्री० (सं० त्रयी) तीन का समूह; (जस० ४, ६, ५) । —अ वि० (सं० तृतीय) तीसरा; (प्रा० पै०) । वि० (सं० त्वया)

तु हारा; (भ०) । —अहा अव्य० (सं० तदा) उस समय; (भ०) । —उ अव्य० (सं० तदा) तब; (प० च० ४०, ४, ७) । —ए वि० (सं० तृतीय) तीसरा; (जंबू० २, २०, १०) । —काल पुं०

(सं० काल+त्रय, त्रयी > प्रा० काल+तई) भूत, वर्तमान, भविष्य; (प० च० ६, १४, २) । —ज्जअ वि० (सं० तृतीय) तीसरा; (सधि० ३, २, १०) ।

—ज्जउ^(१) वि० (सं० तृतीयकः) तीसरा ।

—ज्जी वि० (सं० तृतीया) तीसरी; (हे० ३३६, १) । —य वि० (सं० तृतीय) तीसरा; (भ०) । —य अव्य०

तब; (सं० रा०) । —यह अव्य० (सं० तदा > प्रा० तइ) उस समय; (भ०) ।

तइयह—अव्य० तब (प० च० १६, ४, ८) । तइयहु—अव्य० तब; (जस० २, ३३, ६) । तइयहे—स्त्री० (सं० त्रयो-

दशी) तेरस; (व० ६, ६, ८) । तइयहो—अव्य० उस समय; (प० च० ८, ८, २) । —या वि० (सं० तृतीया) तीसरा;

(जंबू० १, १, ४) । —लोकक न० (सं० त्रैलोक्य > प्रा० तइलोकक) तीन लोक-स्वर्ग, मर्त्य और पाताल । —लोककणाह

पुं० (सं० त्रैलोक्य-नाथ > प्रा० तइलो-कक-णाह) तीन लोक के स्वामी; (प०-च० १८, ४, ५) । —लौय न० (सं० त्रैलोक्य > प्रा० तइलोकक, तइलौय)

तीनलोक—स्वर्ग, मर्त्य और पाताल; (भ०) । —वि अव्य० (सं० तथापि) तो भी; (व० १, ११, १) । —स वि०

(सं० तादृश) उस तरह का, वैसा; (रा०) । —सना वि० उस प्रकार का; (की० ३, ५०) । —सो वि० तैसा;

तुल० मगही तैसन; (सरहपा, दोहा कोश) ।

तई—अव्य० (सं० तदा > प्रा० तया) उस समय; (जंबू० ४, ८, १४) ।

तउ—सर्व० (सं० तव) तुम्हारा, "....तउ माणुसजम्मु ;" तुम्हारा मनुष्य-जन्म; (प० च० १८, ७, २) ।

तउ—अव्य० (सं० तत्र) वहाँ, "गउ तउ जउ तरुवर-मूले जइ;" (प० च० ६

१०, ८) । (सं० तदा > प्रा० तया) तव;
(सं० रा०) ।

तड—न० (सं० तपस्) उष्णता; (जस०
२, १८, १४) । २. (सं० तप) तपस्या,
“तड चिरु कालु करेइ,” (व० २, १७,
६) । —धम्म पुं० (सं० तपधर्म) (जंबू०
८, १०, १४) ।

तडल्लगि—अव्य० (सं० तावत् + लग्नुम्)
तव तक, तवल्लो; (क० ८, २, १०) ।

तडव—न० (सं० तपु) रांगा, शीशा,
धातु-विशेष; (व० १०, ७, ४) ।

तए—नर्व० (सं० तव) तुम्हारा; (जंबू०
१, १८, १०) ।

तप्पो—अव्य० (सं० ततः) तव; (विला०;
जंबू० ४, ५, १६) ।

तकत—पुं० (फ्रा० तक्त्) राज-सिंहा-
सन; “तकत चह्लि सुरुतान वड्ठ;”
(की० ४, १४०) ।

तकतान—पुं० (फ्रा० तक्तेरवाँ) सुलतान
का वह सिंहासन जो यात्रा में साथ ले
जाया जाता था; (की० ३, ६४) ।

तक्क—न० तर्क (शास्त्र) (म० १, ४,
२) । २. तर्क, नव्यन्याय; (की० १,
६०) ।

तक्क—पुं० (ध्व०) ‘तक्क-तक्क’ की
शब्दानुकृति; (प्रा० पं० १, २०६) ।

√तक्क—(सं० तर्क > प्रा० तक्क) तर्क
करना, अनुमान करना; ताकना । तक्केइ
—व० (सं० तर्कयति) ताकना; (हे०
३७०) ।

तक्ककक्कश—वि० (सं० तर्ककर्कश)
तर्क या नव्यन्याय में प्रौढ़; (की० १,
६०) ।

तक्कणा—स्त्री० (दे०) इच्छा, अभि-
लाषा; (दे० ना० मा० ५, ४) ।

तक्कर—पुं० (सं० तस्कर > प्रा०
तक्कर) चोर; (सुदं० ८, ४४, २) ।

—कम्म पुं० तस्करकर्म (जंबू० ६, १५,
२) । —वित्ति स्त्री० तस्करवृत्ति; (जंबू०
३, १४, २३) । —यार पुं० (सं०
तस्कर + आचार) तस्कर का आचरण;
(जंबू० १०, १८, ६) ।

तक्कार—पुं० (सं० तकार) तगण;
पहले दो गुरु और तव एक लड्डु वर्ग
(SSA) का समूह या गण; । प्रा० पं० २,
१६) ।

तक्काल—क्रि० वि० (सं० तत्काल)
शीघ्र, उसी समय; (व० २, ५, १६) ।

तक्कलतक्कस—स्त्री० (ध्व०) संगीत
के यंत्र से उत्पन्न ‘तक्किस’ की आवाज;
(प० च० ५६, १, १०) ।

तक्कु—पुं० (सं० तक्कु) सूत बनाने का
यंत्र; तक्कुआ; (दे० ना० मा० ३, १) ।

तक्कुव—पुं० (सं० तर्कक) याचक,
माँगने वाला; (प० च० २८, ८, ३) ।

तक्ख—पुं० (सं० तक्खन्) १. लकड़ी
काटने वाला; वड्डई; २. विश्वकर्मा,
शिल्पी-विशेष; (पड्) ।

√तक्ख—(सं० तक्ख्) छीलना, काटना;
—इ सक०; (पड्) ।

तक्खड्—वि० (दे०) अक्खड्, उद्धत;
(सुदं० ६, ६, १) । २. पुं० तक्खड्
नामक श्रेष्ठि; (जंबू० १, ५, ३) ।

तक्खण—अव्य० (सं० तत्क्षण > प्रा०
तक्खण) उसी समय, उस क्षण, शीघ्र;
(प० च० १५, १५, ७; क० १, १०,

तट्तीय—वि० (सं० तत् + स्थिता) वहाँ स्थित; (क० ३, १८, १) ।

तड—पुं० (सं० तट > प्रा० तड) कूल, किनारा, तीर; तुल० म० तड (लावण); (सं० रा०; नृ० २-१२; उ० ध्य० प्र० १५-२४) ।

√तड—(सं० तत् > प्रा० तड) विस्तार करना । —इ व० (जंजू० ६, ५, २) ।

तडरुडिअ—वि० (दे०) अनवस्थित; (पड) ।

तडक्क—वि० (दे०) भंजक, विनाशक; “तेलोक्क-भुवगल-भड-तडक्क, दुदुरिअण भोत्तण जम-अडक्क;” (प० च० ३७, ६, ८) ।

√तडक्क—(ध्व०) तडतड करना; (सं० रा०) । तडक्किय—भू० का० (सं० तट-रुत्त) तडतड किया; (भ०) ।

√तडतड—(सं० तडतडाय्) तडतड आवाज करना । —इति (सुदं० ११, १५, ६) । तडतडतडत्ति—व० (प० च० ११, ११२) । तडतडतडन्त—कृ० तड-तड की आवाज करते हुए; (प० च० ५०, १, ६) । तडताडिय—भू० का०, ताड़न करके बजाया गया; (जंजू० ५, ६, १३) । तडयडइ—व० (प० च० २८, १, ८) ।

तडतडण—पुं० (ध्व०) तड-तड का शब्द; (जंजू० १, १४, ६) ।

तडत्ति—क्रि० वि० (सं० तड् + इति) तड से, तडाक से; “दोत्तडिहि वरंतहो गड अडत्ति, तेल्लियहो सयडु मोडिउ तडत्ति;” (जंजू० ५, ७, १६) ।

तडत्तीह—क्रि० वि० (सं० तड् + इति

+ इह) तडसे; “तडत्तीह तुट्टे महाभोह-जाले;” अर्थात् उसका मोहजाल तडसे टूट गया, (जंजू० २, १६, १) ।

तडस्य—वि० (सं० तटस्य) १. मध्यस्थ, पक्षपात-हीन; २. समीप में स्थित; (दे०-ना० मा० ३, ६०) ।

√तडप्फड—(दे०) १. तडफड़ाना, व्याकुल होना । —इ व० (पाहु०) । २. हिलना या प्रयत्न करना । —इ व० (हे० ३६६) ।

तडफडिअ—वि० (दे०) व्याकुल; तडफ-डाया हुआ; (दे० ना० मा० ५, ६) ।

√तडपिड—(दे०) तडपड़ाना । तडफि-डवि—पू० का० क्रि०, (जंजू० ७, ५, १२) ।

तडमड—वि० (दे०) क्षुभित, शोभ-प्राप्त; (दे० ना० मा० ५, ७) ।

तडयड—स्त्री० (सं० प्रा० तडतडा) ‘तडतड’ की आवाज; (सं० रा०) ।

√तडयड—(सं० तडतडाय्) तड-तड आवाज करना; (संवि० १४, ५, १०) ।

तडयडंत—कृ० (सं० तडतडाय् + अतृ) (जंजू० ११, १५, ५) ।

तडवडा—स्त्री० (दे०) वृक्ष-विशेष, आउली का पेड़; (दे० ना० मा० ५, ५) ।

तडि—स्त्री० (सं० तडित्) विजली; (प० च० १२, ७, ७) ।

तडि—स्त्री० (सं० तटे) समीप में; “आरोहिवि पह-तड उग्घडियह;” (प्रा०-नु० २, ३, ३४) ।

तडिकेस—पुं० (सं० तडित् + केस)

राक्षसवंशीय एक राजा, एक लंका-पति; (प० च० ६, ६६) । —वेअ पुं० (सं० तडित् + वेग) विद्याधर वंश का एक राजा; (प० च० ५, १८) ।

तडिकेंसि—पुं० विद्याधर वंशीय राजा; (प० च० ६, ६६) ।

तडिखरतडि—स्त्री० (ध्व०) तडि-खर-तडि का शब्द; “खडतड-तडिखरतडि-तरडखोह;” अर्थात् खर-तड, तडि-खर-तडि करते हुए तरड वाद्य क्षोभ अर्थात् आश्चर्यपूर्ण हलचल उत्पन्न करने लगा; (जंबू० १, १४, ७) ।

तडिच्छड—स्त्री० (सं० तडित् + छटा) विद्युत की शोभा; (प्रा० गु० १३, ३७) ।

तडिजीह—पुं० राक्षस-योद्धा; (प० च० ५६, ३२) ।

तडिणि—स्त्री० (सं० तटिनी) नदी; (व० ४, २३, १०) ।

तडिनय—पुं० (ध्व०) तड़ से, घण्टे मारने या कड़ी चीज तोड़ने की आवाज; (स० रा०) ।

तडिपिग—पुं० विद्याधरयोद्धा; (प० च० १२, ६५) ।

तडिप्पमा—स्त्री० विद्याधर रानी; (प०-च० ६, १६६) ।

तडिमाला—स्त्री० १. कुंभकरण (अप० कुंभकण्ण) की स्त्री; (प० च० ८, ५५) । २. रावण की स्त्री; (प० च० ७४, १०) ।

तडिमाली—पुं० (सं० तडित् + माली) विद्युन्माली देव; (जंबू० ४, ७, २) ।

तडियंगय—पुं० विद्याधर राजा; (प०-

च० ५, २३३) ।

तडिय—वि० (सं० तंत) विस्तीर्ण, फैला हुआ; (जंबू० ६, १०, ८) ।

तडियतडि—स्त्री० (ध्व०) तड़-तड़ का शब्द; (जंबू० १०, १६, ३) ।

तडिलया—स्त्री० (सं० तडित् + लता) विद्युल्लता; (व० १, ६, ४) ।

तडिवडण—न० (सं० तडित् + पतन) विद्युत-पतन; (जंबू० ५, ६, ७) ।

तडिवाह—पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५७, १६) ।

तडिविलसिअ—पुं० राक्षसयोद्धा; (प०-च० २३, २१) ।

तडिवेअ, तडिवेग—पुं० विद्याधरवंशीय राजा; (प० च० ५, १८; ६, २०५) ।

तण—(सं० तन) शरीर; (सं० रा०) । न० (सं० तृण > प्रा० तण) घास; (जंबू० ६, १३, ६; जस० १, ३, ६) । न०

(दे०) उत्पल, कमल; (दे० ना० मा० ५, १) । —भूमि स्त्री० (सं० तृणभूमि)

पृथ्वी का ऊपरी तल; (जंबू० १, ६, ४) । तणु—न० (सं० तृण) तिनका

(हे० ३३४, १) ।

तणअ—पुं० (सं० तनय > प्रा० तणय) पुत्र; (जंबू० ४, ७, ११) ।

तणउ—अश्रु० (संबंधवाचक) प्रति, संबंधी; (जंबू० १, ११, १६) ।

तणउ—वि० (सं० तनु > प्रा० तणु) लघु, छोटा, “गउ णियघर णंदणु तणउ लाव;” अर्थात् उस छोटे से बालक को

लेकर वह अपने घर चला गया; (क० २, ६, ४) ।

तणमुद्दिआ—स्त्री० (दे०) अंगुठी; (दे०-ना० मा० ५, ६) ।

- तणय—पुं० (सं० तनय > प्रा० तणय) पुत्र; (जस० २, २१, ६; व० १, १७, ३) ।
- तणरासि, तणरासिअ—वि० (दि०) प्रसारित, फैलाया हुआ; (दि० ना० मा० ५, ६) ।
- तणवरंडी—स्त्री० (दि०) छोटी नौका; (दि० ना० मा० ५, ७) ।
- तणसोल्लि, तणसोल्लिया—स्त्री० (दि०) मल्लिका, वेले की जाति का एक सफेद और सुगंधित पुष्प वाला वृक्ष; (दि०-ना० मा० ५, ६) ।
- तणिया—अव्य० पठि (संबंधसूचक) अव्य० (स्त्री०); (जंबू० २, १६, ३) ।
- तणु—स्त्री० (सं० तनु, तनू स्त्री० > प्रा० तणु स्त्री०) देह, शरीर; (प्रा० गु० ३८, १) । —अंगि वि० (सं० तन्वङ्गी) दुबली-पतली; (जस० ४, २३, ६) । —अ वि० (सं० तनुक) क्षीण; (जंबू० ४, १८, ११) । —ई स्त्री० (सं० तन्वी) पतले शरीर वाली; (पङ् १) । —कंति स्त्री० (सं० तनुकान्ति) शरीर की शोभा; (जंबू० ३, १३, ३) । —चेट्ठा स्त्री, (सं० तनुचेष्टा) शारीरिक प्रयत्न या सेवा; (जंबू० १०, २३, ३) । —तण पुं० (सं० तनु + त्राण) रक्षाकवच; (जंबू० ६, ७, ४) । —पह स्त्री० (सं० तनु + प्रभा) देहकांति; (जंबू० ३, १०, ६) । —भव वि० (सं० तनुद्भव) शरीर से उत्पन्न; (जंबू० ८, ६, ३) । —रह पुं० (सं० तनुरह) पुत्र; (जंबू० १०, ३, ६) ।
- तणुइअ—वि० (सं० तनूकृत) दुबल किया हुआ; (प० च० १६, ४) ।
- तणुकुंबु—स्त्री० धावली की पुत्री; (प०-च० ६, ११) ।
- तणुतावअ—वि० (सं० तनुतापक) शरीर को गरम करने वाला; (जस० ४, १६, १०) ।
- तणुफंस—पुं० (सं० तनुस्पर्श) शरीर का स्पर्श; (जस० २, ५, १२) ।
- तणुधभव—वि० (सं० तनु + उद्भव > प्रा० तणु + धभव) शरीर से उत्पन्न । पुं० लड़का; (भ०) ।
- तणुरह—पुं० (सं० तनु + रह > प्रा० तणुरह) लड़का; (भ०; जस० १, २३, १०) ।
- तणुलुहण—न० (दि०) तोलिया; (प०-च० २६, ६, ३) ।
- तणुवन—न० (सं० तृण + वन) तिनकों का वन; (क० २, ४, ७) ।
- तणुसि—पुं० (दि०) तृण-राशि; (दि०-ना० मा० ५, ३) ।
- तणुव—पुं० (दि०) समूह; तुल० म० तांडा; (भ०) ।
- तणुव—अक० (सं० ताणुवय् > प्रा० तंडव) नृत्य करना । —इ (सं० नृत्यति) (भ०) ।
- तणुडविय—वि० (प्रा० तणुडविअ) विस्तीर्ण, फैला हुआ; (प० च० १६, १७, ६) ।
- तणुणाय—वि० (दि०) आद्र, गीला; (दि० ना० मा० ५, २) ।
- तणुह—स्त्री० (सं० तृष्णा > प्रा० तणुह)

प्यास; पिपासा; (जस० ४, १४, ६; क० २, १६, ५) ।

तण्हा—स्त्री० (सं० तृष्णा) प्यास, अभिलाषा, लालच; (व० १, १४, ६) ।
—उर वि० (सं० तृष्णातुर) प्यास से वेचैन; (क० ४, ७, ३) ।

तत्र—सर्व० (सं० + तत्) उसकी; (की० ४, ६६) ।

तत्त—वि० (सं० तावत्) उतना; (प्रा०-पं० १, ४१) ।

तत्त—वि० (स० तप्ततप्त > प्रा० तत्त) गरमागरम; (की० २, १७८) ।

तत्त—वि० (सं० तप्त) तपाया हुआ, गरम किया हुआ; (भ०; दे० ना० मा० १, १०५) । न० (सं० तत्त्व) १. सारवस्तु, २. वास्तविक वात, गुण । असलियत; (भ०) । —त्य पुं० (सं० तत्त्वार्थ) सारार्थ तत्त्वार्थ, वास्तविकता हेतु; (जं० १०, ३, ११) ।

तत्ताहो—वि० संतप्त; (महा० ६८, ७) ।

तत्ति—स्त्री० १. (सं० तृप्ति > प्रा० तत्ति) तृप्ति, संतोष; (प० च० १, ३, ३) । २. (दे०) आदेश; (दे० ना० मा० ५, २०) ३. (दे०) तत्परता; (प० च० ७, ८७) । ४. (दे०) चिंता; (म० १, २६, १) ।

तत्तिय—वि० (सं० तृप्त) संतुष्ट; (जस० १, २१, ६) ।

तत्तिय—स्त्री० (दे०) तत्परता, चिंता; (सुदं० ८, २२, ५) ।

तत्तिल—वि० (दे०) तत्पर; (दे० ना०-मा० ५, ३) । तत्तिल—वि० (दे०) तत्पर; (प० च० १, २६; दे० ना० मा०

५, ३) ।

तत्तु, तेत्तु—अव्य० (सं० तत्) वहाँ; (हे० ४०४) ।

तत्तुडिल्ल—न० (दे०) संभोग, काम-क्रीड़ा; (दे० ना० मा० ५, ६) ।

तत्तुरिअ—वि० (दे०) रंजित; (पड्) ।

तत्त्य—अव्य० (सं० तत्) वहाँ; (प्रा०-पं० १, १०८) । —त्यि (सं० तत्तास्ति) वहाँ है; (व० १, ३, ६) ।

तत्थ—स्त्री० (फ्रा० तश्त) तश्तरी; (की० २, १६२) ।

तत्थिय—क्रि० वि० (सं० तत्त > प्रा० तत्थ) वहाँ; (की० २, २२५) ।

तदिदिखुदिखुंद—न० (ध्व०) तदिदि खुदि खुंद आदि का स्वर; (जं० ५, ६, १२) ।

तद्द्व्व—पुं० (सं० तत् + द्रव्य) वह धन; (जं० १०, ६, ८) ।

तद्दिअचय—न० (दे०) नृत्य, नाच; (दे०-ना० मा० ५, ८) ।

तद्दिअस, तद्दिअसिअ—न० (दे०) प्रति-दिन; (दे० ना० मा० ५, ८) ।

तद्दिण—अव्य० (सं० तद्दिन) उस दिन; (भ०) ।

तद्दिवस—अव्य० (सं० तत् + दिवस) उस दिन; (जं० ३, ६, ६) ।

तद्दृण—वि० (सं० तद्दृगुणित) वह दो गुना; (प० च० २७, ३, २) ।

तनय—पुं० (सं० तनय > प्रा० तणय) पुत्र; (की० १, ७६) ।

तन्ह—स्त्री० (सं० तृष्णा > प्रा० तण्हा) प्यास, पिपासा; तुल० म० तहान; (भ०) ।

तंहाविय—वि० (सं० तृष्णायित)
प्यासा; म० तान्हवलेला; (भ०) ।

तप्प—वि० (सं० तप्त) गर्म; “मणि
तप्पइ पुग्गु जंपइ ताएं विग्गु किह
जिज्जइ,” अर्थात् वह अपने मन में तृप्त
होकर बार-बार कह उठता कि पिता के
बिना कैसे जिया जायेगा; (जस० २,
२५, १९) ।

√तप्प—(सं० तप्) तपना । —इ व०
(प्रा० पै० १, ७२) । तप्पे—भू० का०,
संतप्त किया, ‘कुल खत्तिअ तप्पे,’ क्षत्रिय
कुल को संतप्त किया; (प्रा० पै० २,
२०७) ।

तप्पणदेवय—पुं० (सं० तर्पण देवता)
तर्पण किया जाने वाला देवता; कर्मकांड
की एक क्रिया, जिसमें देव को तुष्ट करने
के लिए हाथ से या किसी पात्र से पानी
देते हैं; (जंबू० ५, १७, १३) ।

तप्पर—वि० (सं० तत्पर) आतृक्त;
(दे० ना० मा० ५, २०) ।

तप्पवेसु—पुं० तपस्वी का वेश या रूप;
(प० च० १८, ६, ६) ।

तद्वह—अव्य० तो भी; (की० २,
१८५) ।

तमंघकार—पुं० (सं० तमोन्धकार) प्रवल
अंधकार; (प० च० १७, १०) ।

तम—पुं० (दे०) शोक, ग्लानि, अफ-
सोस; (दे० ना० मा० ५, १; प० च०
१८, ५, ७) । पुं० (सं० तमस्) अंध-
कार; (भ०) ।

तमकुण्डा—पुं० (सं० ताम्रकुण्ड) ताँबे
का कुंड या चौड़ा वर्तन, (की० २,
१७५) ।

तमण—न० (दे०) ब्रूहा; (दे० ना०-
मा० ५, २) ।

तमणाम—पुं० (सं० तमसनाम > प्रा०
तमणाम) तमःप्रभा नरक भूमि; (जंबू०
११, १०, ८) ।

तमणासण—वि० (सं० तमनाशन)
अंधकार को नष्ट करना । (जंबू० १०;
२३, ३) ।

तमणि—पुं० स्त्री० (दे०) १. हाथ,
२. भूर्ज, वृक्ष-विशेष की छाल; (दे०-
ना० मा० २, २०) ।

तमणियर—पुं० (सं० तमस् + निकर)
अंधकार का समूह; (जंबू०) ।

तमतयवह—पुं० (सं० तमस्तमःप्रभ)
सप्तमनरकनाम; (जस० २, १६, ३०) ।

तमनिवहृत्थ—न० (सं० तमनिवहाल)
प्रक्षेपास्त्र; (प० च० १२, १३०) ।

तमपह—पुं० (सं० तमःप्रभ) छठा
नरकनाम, नरकभूमि; (जस० २, १६,
३०; व० १०, २३, २) ।

तमस—न० (सं० तमस्) अंधकार; (प०-
च० ३६, ८) ।

तमारि—पुं० (सं० तम + अरि) सूर्य;
(जंबू० ५, ११, १६) ।

तमाल—पुं० (सं० प्रा० तमाल) वृक्ष-
विशेष तथा उसका फूल; (जस० ३, १,
१८) ।

तमालि—स्त्री० अंधकार का समूह;
(जंबू० १०, ६ ४) ।

तमिस्स—न० (सं० तमिस्स > प्रा०

तभिस) अंधकार; (दे० ना० मा० २, २६) ।

तमी—स्त्री० (सं० तमी) रात्रि, रात; (जंबू० ४, ५, २२) ।

तमोह—पुं० (सं० तमस् + बोध) अंधकार का समूह; (जस० २, २, ७) ।

तम्बाह—पुं० (सं० ताम्र + वारह) ताँवे का घड़ा या लोटा; (की० २, १६८) ।

तम्बोलु—पुं० (सं० ताम्बूल > प्रा० तंबोल) पान; (प० च० १, १४, ५) ।

तम्मइ—वि० (सं० तन्यय), तिरोहित; (व० २, १, ४) ।

तम्बिर—वि० (सं० ताम्र) ताँवे के रंग का, लाल; (प० च० १६, १७, ६) ।

तम्बेरम—पुं० (सं० स्तम्बेरम > प्रा० तंबेरम) हस्ती, हाथी; (प० च० ११, ५, ५) ।

तम्बोल—न० (सं० ताम्बूल > प्रा० तंबोल) पान; (प० च० २३, ६, ७) ।

तय—वि० (सं० तत) विस्तारयुक्त; (दे० ना० मा० १, ४६) । न० (सं० तत) वीणा आदि, तारों वाला वाजा; (व० ८, ६, ५) ।

तयसार—पुं० (सं० त्वच् + सार > प्रा० तया + सार) त्वचा का मूल भाग; (व० ५, १३, ८) ।

तथों—क्रि० वि० (सं० तत > प्रा० तथों) तभी; (की० ३, ७) ।

तरंग—स्त्री० (सं० तरङ्ग > प्रा० तरंग) कल्लोल, पानी की लहर; (जस०

१, २८, ८) ।

तरंगतिलअ—पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५७, १२) ।

तरंगमाला—स्त्री० गंधर्व (गंधव्व) राजा की पुत्री; (प० च० ५१, १३) ।

तरंगिणि—स्त्री० (सं० तरङ्गिणी) नदी; (जस० ३, १, २०; व० ३, १, ७) ।

तरंड—पुं० न० (सं० तरण्ड > प्रा० तरंड) नौका; (व० ७, ६, १०) । तरंडो—नाव; (प्रा० पं० १, १) ।

√तर—(सं० √तृ > प्रा० तर) तरना, पार करना । —इ व० (सं० तरति) (प्रा० पं० १, ३६) । तरंति—व०

(जंबू० ७, १, १०) । तरंत—कृ० (सं० √तृ + शतृ) (जंबू० ६, ६, ८) ।

तरन्त—व० कृ० तैरते हुए; (प० च० १४, ५, ७) । तरवि—पू० का० क्रि०, (जंबू० १०, १०, २) । तुल० म० तरणों,

गु० तरे । तरिय—पू० का० क्रि०, (सं० तृ + क्त्वा) (जंबू० १०, १०, २) ।

तरिल्लु—भू० का० (सं० तृ + इल्ल) पार किया; (जंबू० ५, ७, १२) ।

तरच्छ—पुं० स्त्री० (सं० तरक्ष > प्रा० तरच्छ) प्राणि-विशेष, घ्याघ्र की एक जाति; तुल० म० तरस; (जस० २, ३७, २) ।

तरट्ट—वि० (दे०) प्रगल्भ; (जंबू० ६, ३, ८) ।

तरट्टि—स्त्री० (दे०, प्रा० तरट्टी) प्रगल्भ स्त्री; (प० च० ११, ४, ६) ।

२. प्रोढ़ा नायिका; (सुदं० ५, ४, ११) ।

तरङ्कतरङ्क—पुं० (द्व०) संगीत के यंत्र द्वारा तड़क-तड़क की आवाज निकालना; (प० च० ५६, १, ८) ।

तरणि—पुं० (सं० तरणि) सूर्य; (प०-च० १, ४, २; प्रा० पं० १, ६२; व० २, २०, १६) ।

तरण्डय—पुं० न० (सं० तरण्ड+क) डोंगी, नौका; (प० च० २४, ८, ७) ।

तरल—वि० (सं० प्रा० तरल) चंचल, अदृढ़; (भ०; जंबू० ३, १, १७) ।

—च्छि स्त्री० (सं० तरल+अक्षि) चंचल नेत्र; (जंबू० ४, ८, ४) । —तर वि० अधिक चंचल; (की० १, ६६) ।

—दल पुं० (सं० तरल+दल) चंचल पत्र; (जंबू० ४, १६, ३) ।

तरल—पुं० वानरयोद्धा; (प० च० ५७, १३) ।

तरलराक्षणि—स्त्री० तरलनयनी छंद; “तरलराणि सव कर लहु;” ‘तमल नयनी छंद में सव वणों को लवू करो;’ (प्रा०-पं० २, १३७) ।

तरलाविभ्र—वि० (सं० तरलित) चंचल किया हुआ, चलायमान किया हुआ; (भ०) । तरलाविय—वि० चलायमान; (भ०) ।

तरलिभ्र—वि० (सं० तरलित) चंचल किया हुआ; (क० १, १४, ११) ।

तरवट्ट—पुं० (दे०) वृक्ष-विशेष; चक्रवट, (दे० ना० मा० ५, ५) ।

तरवार—स्त्री० (सं० तरवारि) तलवार एक प्रसिद्ध धारदार हथियार; (जंबू० ७, ६, ७) ।

तरवारिधारा—स्त्री० (सं० तरवारि+धारा) तलवार की धार; (की० १, १०२) ।

तरवाल—वि० (सं० त्वरा > प्रा० अप० तरा) त्वरायुक्त, वेगयुक्त; (की० ४, ५१) ।

तरस—न० (दे०) मांस; (दे० ना० मा० ५, ४) ।

तरसा—स्त्री० (सं० तरस्) वेग, चाल; (जस० ४, २७, ३०) ।

तरसि—पू० का० क्रि०, (सं० √ त्रस्) डर कर; (की० ४, १३०) ।

तरिष्वध्व—न० (दे०) एक तरह की छोटी नौका; (दे० ना० मा० ५, ७) ।

तरिय—वि० (सं० त्वरित) शीघ्र; (व० ६, १२, ८) ।

तरियहु—पुं० तरने वाले, तराक; (जंबू० १०, ११, ७) ।

तरी—स्त्री० (सं० तरी) नौका, डोंगी, (दे० ना० मा० ६, ११०) ।

तरीअ—स्त्री० (सं० तडित) विजली; (रा०) ।

तरु—पुं० वृक्ष; (जस० १, ११, ६; व० २, ११, ४) ।

तरुकाय—पुं० वनस्पतिकाय; (जस० ४, १८, १४) ।

तरुण—वि० (सं० प्रा० तरुण) जवान; (प० च० ५, १६८) । —त पुं० (सं० तरुणत्व) जवानी; (प्रा० पं० २, ८५) ।

—तण पुं० (सं० तरुणत्व) तारुण्य; (जंबू० २, १८, ३) ।

तरुणि—स्त्री० (सं० प्रा० तरुणी)

युवति, जवान स्त्री; (प्रा० पै० १, ४) ।

तरुणी; (जस० १, १६, ३) ।

तरुआई—स्त्री० (सं० तरुराजि) वृक्षा-
वलि; (व० २, ७, १२) ।

तरुवर—पुं० (सं० तरुवर) १. वृक्षा;
(व० १, ८, १३) । २. लकड़ी; "तिणि-
तरुवरे-गिरिवरि पियणवरे समरंगणि
उक्कांठिउ;" (व० ४, १०, १४) ।

तरुवेत्तीहल—न० (सं० तरु+वत्तौ+
फल) वृक्ष की वेल का फल; (जस० २,
२७, ६) ।

√तर्प्यं—(सं० तृप्) तृप्त होना, (उ०-
व्य० प्र० ५१-२०) ।

तहि—अव्य० (सं० तहि) १. उस समय,
तव, २. उस विषय में, (उ० व्य० प्र०
२१, २१) ।

√तल—(सं० तल्) तलना, तेल आदि
में भूनना । तलज्जइ—कर्मवा० (जंबू०
२, २, २) ।

तल—न० (सं० तल) सतह, निम्न भाग,
नीचे का भाग, (उ० व्य० प्र० ६-२३;
व० ३, ६, ३) । पुं० (सं० ताल > प्रा०
तल) वृक्ष-विशेष; ताड़ का पेड़; (प०-
च० ५३, ७६) । न० (दे०) १. शय्या,
बिछौना; २. पुं० गाँव का मुखिया; (दे०-
ना० मा० ५, १६) ।

तलआगत्ति—पुं० (दे०) कूप, इनारा;
(दे० ना० मा० ५, ८) ।

√तलप्य—(सं० तप् का घात्वादेश
तल्प = तपना, गर्म होना) तड़पना;
(की० ४, ३१) ।

तलप्प—पुं० (दे०) प्रहार (stroke,
slap); (प० च० ३१, ६, ६) । तल-

प्यंत—कृ० उछल कर आते हुए; (जंबू०
५, १४, ६) ।

√तलप्फ—कांपना, तडफना । —इ व०
(प्रा० पै० १, १०८) ।

तलप्फल—पुं० (दे०) शालि, चावल;
(दे० ना० मा० ५, ७) ।

तलवट—न० सं० उपत्यका । पर्वत के
नीचे की भूमि, पहाड़ की तलहटी; तुल०
गु० तळेट्टी; (प्रा० गु० ७, ४०) ।

तलवत्त—पुं० (दे०) १. कान का आभू-
षण-विशेष; २. वरांग, उत्तमांग; "तल-
वत्तो कर्णभिरणविशेषो वराङ्गं च;"
(दे० ना० मा० ५, २१) ।

तलवर—पुं० (दे०, प्रा० तलवर) नगर-
रक्षक कोटवाल; (प० च० १७, १८,
४) ।

तलवायह—पुं० (दे०) तलस्पर्शी गति
से तैरना; (जंबू० ४, १६, १०) ।

तलसारिअ—वि० (दे०) १. गालित
(छाना हुआ, चुआया हुआ, खींचा हुआ)
२. मुग्ध, मूर्ख; (दे० ना० मा० ५,
६) ।

तलाउ—न० (सं० तडाग > प्रा० तलाग,
तलाव) तलाव, तडाग; (सा० १७०) ।

तलाउलिअ—पुं० (सं० तडागिका)
बावड़ी; तुल० गु० तळावडी; (प्रा० गु०
६, १७) ।

तलाएँ—न० (सं० तडाग > प्रा० तलाग,
तलाय) तालाव, सरोवर; (प० च० २,
२, ३) ।

तलाय—न० (सं० तडाग > प्रा० तलाय)
तालाव; (जंबू० ४, ६, ४) ।

तलार—पुं० (दे०) कोतवाल, नगर-

रक्षक; (दे० ना० मा० ५, ३; संवि० १२, ३, १७; प० च० ३५, ६, ६) ।

तलारत्त—पुं० (दे०) नगर-रक्षा का कार्य; (प्रा० गु० ५, ३७) ।

तलि—पुं० (सं० तल) तल, तली; (हे० ३३४, १; म०) ।

तलिण—वि० (सं० तलिन) सूक्ष्म, वारीक; (दे० ना० मा० ५, ६) ।

तलिण—वि० (दे०) कोमल, चमकदार, चिकना, मनोहर; “नील-तलिण-कञ्चुलिय-अर्लकिय तर्हि वर-क्रेस कलाविण चंगिय;” (प्रा० गु० १३, ३८) ।

तलिम—पुं० न० (दे०) १. जय्या, विद्योना; २. पत्थर जड़ा हुआ फर्क; ३. घर के ऊपर की भूमि; ४. शय्य-गृह, ५. भूतने का भाजन; (दे० ना० मा० ५, २०) ।

तलिमा—स्त्री० (सं० तलिमा) तिमिला, वादित्र-विशेष; (प० च० ६१, २) ।

तलिय—न० (सं० तलित) तला हुआ मांस; (जस० ३, ६, ३) ।

तलेर—पुं० (दे०) नगर-रक्षक, कोत-वाल; (म०) ।

तल्ल—न० (दे०) १. छोटा तालाव; २. तृण-विशेष; ३. विद्योना; (दे० ना० मा० ५, १६; प०) ।

तल्लट्ट—न० (दे०) सय्या, विद्योना; (दे० ना० मा० ५, २) ।

तल्लडेल्ल—पुं० (दे०) व्याकुलता; तुल० गु० तालावेली; (प० च० ३८, ५, ८) ।

तल्लिच्छ—वि० (सं० तल्लिच्छ) छलीक, तत्पर; (प० च० ११, ६७;

दे० ना० मा० ५, ३) । —य वि० इच्छुक; (प्रा० गु० ३, १८) ।

तल्लुविल्लि—स्त्री० (दे०) तड़फड़ाहट; (जंजू० ६, १०, ५) ।

तवंग—पुं० १. उच्चप्रदेश; (जस० १, २७, १७) । २. गृहविभाग-विशेष; (प० च० ५५, ५, ४) । ३. प्रासाद; (जंजू० ४, १६, १६) ।

तवंत—वि० तप्यमान; (जस०) ।

तवंतर—पुं० (सं० तप + अन्तर) तप-प्रकार; (जंजू० ३, १०, १०) ।

तद—अव्य० (सं० तदा) तव; (उ० व्य० प्र० ६-१४) ।

√तद—(सं० √तप > प्रा० तव) गर्म होना, तपना । —इ व० (सं० तपति)

तप्त होना; तुल० म० ताव; (प्रा० प० २, ४०; हे० ३७७, १) । तवट—क्रि०

या० (सं० तपय् > प्रा० तव) तपे; (प० च० १७, १८, ७) ।

तव—न० (सं० तपस्) तपना; (सं० रा०) ।

तदरु—पुं० (सं० तपन > प्रा० तवण) सूर्य; (सं० रा०; जंजू० ८, १४, ४) ।

तव—सर्व० (सं० तव) तेरा; (जंजू० ५, ६, १४) ।

तव—पुं० न० (सं० तपस् > प्रा० तव) तप, तपस्या, तपश्चर्या; ‘शिय-नत्तिए गुत्तर-नत्तिए तव-सिंहिरुमुण्णि णंदित्ठ;’ अर्थात् अपनी शक्तिपूर्वक तथा गुत्तर भक्तिपूर्वक तपस्वी के गृहस्वरूप श्रीघर मुनि द्वारा नंदित देने रहो; (व० १, १७, १६) । —गृहण पुं० तप-ग्रहण; (जंजू०

३, ८, १) । —चरण न० (सं० तपस् + चरण) तपस्या, तपश्चर्या; (क० २, १३, ७) । —तविय वि० (सं० तपस् + तपित) तप से तपाए हुए; (जंबू० ८, ४, १०) । —पहाअ पुं० (सं० तपः प्रभाव) तप का प्रभाव; (जस० १, २३, ३) । —पहाव पुं० (सं० तपः + प्रभाव) तप की शक्ति; (व० २, १०, १०) । —फल न० (सं० तपः + फल) तपस्या का परिणाम; (जंबू० १०, २६, ६) । —यरण न० (सं० तपश्चरण) तपश्चर्या; (जस० २, २१, ८) । —लच्छी स्त्री० (सं० तपः + लक्ष्मी) तपोलक्ष्मी, तप रूपी धन, ऐश्वर्य; (जस० ४, २८, ७) । —सत्ति स्त्री० (सं० तपः शक्ति) तप की शक्ति; (जस० ३, ३८, १२) । —साहिअ वि० (सं० तप + साधित) तप द्वारा सिद्ध किया हुआ, तप द्वारा दमन किया हुआ; (जंबू० ३, १३, १५) । —सि वि० (सं० तपस्विन् > प्रा० तवस्सि) तपस्या करने वाला; (प० च० ७, ४, ४; क० ६, ५, ६) । —सित्तण पुं० (सं० तपस्वित्त्व) तपस्वी-पन; (जस० ३, २३, ३) । —सिय स्त्री० (सं० तप-श्री) तपश्री, "तव-सिय-वहुयलइय सइ हृत्ये;" तपश्री रूपी वधू का पाणिग्रहण कर लिया; (प० च० ६, १५, ६) । —सिरी स्त्री० (सं० तप; श्री) तप रूपी कांति या चमक, "तवसि-रिभूसियंगु;" अर्थात् तपःश्री से भूषित अंग; (जस० ४, ६, २; जंबू० ३, ६, १) । तवु—पुं० न० तप; (महा० ६८, ७) ।

तवय —वि० (दे०) किसी कार्य में लगा

हुआ; (दे० ना० मा० ५, २) ।

तविअ—वि० (सं० तप्त) तपा हुआ, गरम; (जस० २, २२, २) ।

तविआ—स्त्री० (सं० तापिका) तवे का हत्था; (दे० ना० मा० १, १६३) ।

तवु—न० (सं० त्रपु > प्रा० तउ, तउअ) धातु-विशेष, सीसा, रांगा; (प० च० ११८, ८) ।

तवे—क्रि० वि० (सं० ततः > प्रा० तओ) तव; (की० २, ४६) ।

तव्वेला—न० (दे०) कूँडा; (की० २, १६२) ।

तवोधर—पुं० (सं० तपस् + धर) तप-स्वी, मुनि; (प० च० २०, १६५) ।

तवोवण—न० (सं० तपोवन) ऋषि का आश्रम; (जंबू० ८, ११, २) ।

तवोहणु—पुं० (सं० तपोधन) तपस्वी, "तहिं दिट्ठु तवोहणु कसरु एक्कु;" (क० ६, ६, ८) ।

तव्वे—क्रि० वि० तव; (की० ३, ८) ।

तव्वेल—क्रि०, वि० सं० तदा; तव; (प० च० ३७, १३, ३) ।

तस—पुं० (सं० तस > प्रा० तस) जीव; (व० २, २२, ४) ।

√तस—(सं० √त्रस् > प्रा० तस) डरना, त्रास पाना; (जस० २, ११, ६) । —इ अक० (सं० तस्यति) (जंबू० ३, ६, १४) ।

तसि—सर्व० (सं० तस्य) उसके; (णे०) ।

तसिअ—वि० (सं० तृपित) तृषातुर, पिपासित; (दे० ना० मा० ५, २) ।

- तसु—सर्व० (सं० तस्य) १. उसका; (की० १, १५) । २. उसे; (हे० ३४३, १) ।
- तसुकेरा—सर्व० उनके; (की० २, १२५) ।
- तस्स—सर्व० (सं० तस्य) उसके; (वी० १, १) । तस्सु; (हे० ४१६, ३) ।
- तस्सेय—वि० (सं० तत् श्रेयस्) वह अपेक्षाकृत अच्छा, श्रेष्ठतर; (भ०) ।
- तहं—अव्य० (सं० तत्र) वहाँ; (रा०) ।
- तहं; (प्रा० पं० १, ११८) ।
- तह—वि० (सं० तथा) १. उस प्रकार का; (रा०) । २. वैसे; (प्रा० पं० १, ५०) । ३. वहाँ; (सं० रा०) । ४. तथा; (जंबू० २, ६, १२) ।
- तहरी—स्त्री० (दे०) पंकवाली सुरा; (दे० ना० मा० ५, २) ।
- तहल्लिआ—स्त्री० (दे०) गीओं का वाड़ा; (दे० ना० मा० ५, ८) ।
- तहवि—अव्य० (सं० तथापि) तो भी; (जंबू० २, ६, १८) ।
- तहा—अव्य० (सं० तथा > प्रा० तहा, तह) उसी तरह, “तहा वत्थुरूवं अहंबु-द्विलुद्धा;” (जंबू० १, १८, १२) । २. वहाँ; (की० ४, २०७) ।
- तहाभूय—वि० (सं० तथा + भूत > प्रा० तहा, तह + भूय) उस प्रकार का; (प० च० २२, ६५) ।
- तहि—अव्य० (सं० तत्र) वहाँ ही, तुल० मगही तहि, (सरहपा, दोहाकोश; महा० ६८, ८) । २. तब; (की० ४, २२७) ।
- तहिं—अव्य० (सं० तत्र > प्रा० तहि, तहि) वहाँ; (प० च० १, ११, ५; जंबू० ७, ६, १३) ।
- तहि—सर्व० सं० तस्य; उसका; गु० तेनु; (संधि० १७, ७, ८) ।
- तहि तहि—अव्य० (सं० तत्र तत्र > प्रा० तहिं तहि) वहाँ-वहाँ; (की० ४, १६०) ।
- तही—स्त्री० (सं० तापिका) तई, थाली के आकार की चौड़ी कड़ाही; (की० २, १६२) । टि०—सं० तापिका शब्द हर्ष-चरित में प्रयुक्त हुआ है (तलक-तापक-तापिका-ताम्र-चरु-कटाह-संकट-पिटक-भारिक; सप्तम उच्छ्वास, पृ० २११) ।
- तहु—अव्य० (सं० तत्र) वहाँ; (महा० ६८, २) । सर्व० (सं० तस्य) उसका; (महा० ६६, १८, १२) ।
- तहै—सर्व० सं० तस्या; उसका; (हे० ३५६, १) ।
- तहेय, —अव्य० (सं० तथैव) उसी तरह, उसी प्रकार; (पड्) ।
- तहेव—अव्य० (सं० तथैव > प्रा० तहेव, तहेय) उसी तरह, उसी प्रकार; (प० च० १६, १२, ८) ।
- तहों—अव्य० (सं० तत्र) वहाँ, उसमें; (प० च० १२, २, १) ।
- तांडव—पुं० सर्वलघु त्रिकल गण (III) का नाम; (प्रा० पं० १, २०) ।
- तांतण—पुं० (सं० तन्तु > प्रा० तंतु) सूत, तागा, धागा; तुल० गु० तांतणो; (प्रा० गु० २७, ४, ३) ।
- तांहा—अव्य० (सं० तत्रैव) वहाँ पर ही, (उ० व्य० प्र० २०-१०) ।
- तांति—स्त्री० (सं० तन्तु) चमड़े या

नसों की बनी हुई डोरी; भेड़, बकरी की अँतड़ी या चौपायों के पुट्टों को बटकर बनाया हुआ सूत, ताँत; (कण्ह० चर्या० १०) ।

ता^१—अध्य० (सं० तावत् > प्रा० ताव) इन अर्थों का सूचक अव्यय १. तब तक, २. तब, उस समय; (प० च० २, १०, १; जंबू० १०, ५, १२) ।

ता^२—सर्व० (सं० तद्) उस; (की० १, ६८) ।

ता^३—अध्य० (सं० तदा) तब; (क० १, ११, ४; महा० ६८, ३) ।

ताभ^१—पुं० तात, आदि गुरु चतुष्कल गण (SII); (प्रा० पौ० १, २६) ।

ताभ^२—पुं० (सं० तात) पिता, बाप; (क० ३, १६, ८) ।

ताइ^१ ताइ^२—सर्व० (सं० तानि-तानि) उनका-उनका; (जंबू० ४, १२, १४) ।

ताइमि—सर्व० (सं० तानि+अपि) उनका भी; (जंबू० ४, ४, ६) ।

ताइय—पुं० ताजिक, पाशिया, पारस या फारस देश, देश-विशेष-नाम; (जंबू० ६, १६, १०) ।

ताउ^१—अव्य० (सं० तावत्) उस समय तक; (रा०) ।

ताउ^२—अव्य० (सं० तावत्) तभी तक; (हे० ४०६, २) ।

ताउ—अध्य० (सं० तावत् > प्रा० ताव) तब तक, उस समय; (क० १, ६, १) ।

ताउ—पुं० १. (सं० ताप) उष्णता, गर्मी; (जंबू० ८, १४, ८) । २. (सं० तात) पिता; (विला०) ।

ताए—सर्व० (सं० तया) उसके द्वारा; (जंबू० २, १७, ६) । क्रि० वि० (सं० तदा > प्रा० तया) तब, उस समय; (व० १, १४, ७) ।

ताकं—पुं० ताकना; स्थिर दृष्टि से देखना; (सं० रा०) ।

ताकि—पू० का० क्रि०, देखकर, भाँपकर; (की० २, १८४) ।

ताग—पुं० (पहं ताक, फ्रा० ताग) धागा; (रा०) ।

ताजी, ताजि—पुं० एक अरबी घोड़ा; (की० ४, २८; ४, ६२) ।

ताडकं—पुं० (सं० ताडङ्क) कान में पहनने का आभूषण-विशेष; कुँडल, ताटक; (दे० ना० मा० ६, ६३; सं०-रा०) ।

√ताड—(दे०) विस्तार करना, गुणा-कर करना; (प्रा० गु० २२, १३) ।

ताडिज्जइ—कर्मवा० तानना; “अंगणि चंदोवउ ताडिज्जइ;” आंगन में चँदोवा तानना चाहिए; (सुअंध १, १२, १) ।

√ताड—(सं० ताड्यु > प्रा० ताड) ताड़न करना, पीटना । —इ सक० (सं० ताडयति); (भ०; जंबू० ६, ८, २०) । २. आघात करना, बजना । ताडिय—भू० का०; बजी; (प० च० १२, १०, ८) ।

ताडण—न० (सं० ताडन > प्रा० ताडण) ताड़न, पीटना; (जस० ४, ६, ११) ।

ताडिअय—न० (दे०) रोदन, रोना; (दे० ना० मा० ५, १०) ।

ताडिय—वि० १. (सं० ताडित > प्रा० ताडिअ) जिसका ताड़न किया हो वह;

पीटा हुआ; (जस० २, ७, ३) । २. वि० (दे०) विस्तारित; (प्रा० गु० २६, १७) ।

ताण—सर्व० (सं० तान्) उन्हें; (हे० ३३१, १) ।

ताणन्तरे—अव्य० (सं० तदनन्तरम्) उसके अनंतर; (प० च० १५, १, ७) ।

ताण-मुक्कु—वि० (सं० मुक्तत्राण) सन्नास से मुक्त; “पियञ्चेवि वन्द वि ताण-मुक्कु” —वहाँ सन्नास से मुक्त जिन की प्रदक्षिणा और वंदना की; (प० च० १०, २, ८) ।

ताण्य—न० (सं० त्राण > प्रा० ताण) शरण, रक्षण; (भ०) ।

ताणावलि—स्त्री० (सं० तान (स्वर-ताल) + आवलि) स्वर-लहरी; “नं अणंगअंगुलिताणावलि;” अर्थात् मानो अंग की अंगुलियों से उत्पन्न होने वाली स्वर-लहरी हो; (जंबू० ४, १३, ३) ।

ताणु—न० (सं० त्राण > प्रा० ताण) रक्षणकर्ता; (प० च० १३, १०, ३) ।

लड्य-ताणु—(त्राण, कवच और तान) (प० च० १३, १०, ३) ।

तात्त—वि० (सं० तप्त) गरम; (की० ३, ३६) ।

तातडी—स्त्री० (दे०) चिता; (प्रा० गु० ३८, ४६) ।

तातल—वि० (सं० तप्त > प्रा० तत्त) गरम; तुल० मैथिली तातल; (की० २, १७५) ।

तातो—अव्य० (सं० ततः) उससे; “तातो अग्हे ईहां आछ” —‘ततो वयमिहास्महे;’

(उ० व्य० प्र० १४-२८) ।

ताम—१. पुं० (सं० ताम्य > प्रा० अप० तम्म) खेदयुक्त क्रोध; (की० ४, ३७) ।

२. सर्व० (स्त्री०) (सं० ताम्) वह; (वी० १, २) । अव्य० (सं० तावत् > प्रा० ताव) १. तव तक; (भ०) ।

२. तव; (व० १, १०, १) । —हि, हि तव तक; (सुदं० ६, १६, ६; जंबू० २, २, ११) ।

तामर—वि० (दे०) रम्य, सुंदर; (दे०-ना० मा० ५, १०) ।

तामरस—न० (दे०) जल में उपन्न होने वाला पुष्प; (दे० ना० मा० ५, १०) ।

तामलित्ति—स्त्री० (सं० ताम्रलिप्ति) पुरी (+नगर)-विशेष; एक प्राचीन नगरी; (क० १०, १०, ५) ।

तामस—वि० (सं० तामस) तमोगुण वाला, (प० च० ८, ५०) । पुं० पाप, तामस (भाव); (जस० २, ११, ३) ।

तामसत्य—न० (सं० तामसान्न) कृष्ण वर्ण का अस्त्र-विशेष; (प० च० ५६, ६३) ।

तामिच्छ—न० (दे०) कज्जल; (सं०-रा०) ।

ताय—पुं० (सं० तात) पिता; (क० ७, १५, २) ।

तारंकिय—क्रि०, भू० का० (सं० तारा-कित्त) तारे निकल आए; (व० ५, १२, २) ।

तार—स्त्री० (सं० प्रा० तारा) १. आँख की पुतली; (प० च० ६, ४, ६) । २. तारा, नाम-विशेष; (भ०; व० १, ५,

८) । पुं० असुर देवता; (क० २, २, ३) । वि० (सं० प्रा० तार) विशाल, उच्च; (जंबू० ७, १, ५) ।

√तार—(सं० तारय्) तारना । —इ व० (जंबू० ११, २, १०) । २. सफल बनाना; (की० ४, ३३) । तारिह—भ०-का०, तारेगा; (उ० व्य० प्र० २१, २०) ।

तारख^१—पुं० (सं० तारक > प्रा० तारग) ग्रह-नक्षत्र; (रा०) ।

तारश्च^२—पुं० तारक छंद, एक वर्णिक छंद; (प्रा० पै० २, १४३) ।

तारग—पुं० तारक, द्वितीय प्रतिवासुदेव; (प० च० ७०, ३७) ।

तारजसु—पुं० (सं० तार + यशः) यशोगान, “गाइज्जइ संतिउ तारजसु;” अर्थात् शांतिनाथ का महान् यशोगान किया; (जंबू० १, ४, ५) ।

तारय—वि० (सं० तारक > प्रा० तारग) तारने या पार लगाने वाला; (प्र०-वि०) ।

तारा—स्त्री० (सं० प्रा० तारा) १. नक्षत्र; (व० १०, ३४, ३) ।

२. मोती; “विलंबंतहारावलीतेयतारा,” अर्थात् उसकी लटकती हुई हारावली के मोती दीप्तमान हो रहे थे; (जस० ४, १७, २०) । —णियर (सं० तारानिकर) तारा-पुंज; (जस० २, २६, २) ।

—यण पुं० सं० तारागण, नक्षत्र-समूह; (सं० रा०; व० ३, २१, १०) । —वलि स्त्री० (सं० तारा + आवलि) तारों की पंक्ति; (जस० २, २, ५) । —हिवइ पुं० (सं० ताराधिपति) चंद्रमा; (सं० रा०) ।

तारिय—वि० (सं० तारित) पार उतारा हुआ; (भ०) ।

तारुण्य—न० (सं० तारुण्य > प्रा० तारुण्य, तारुन्न) यौवन; (प्रा० पै० २, १८७) । —कंदपुं० (सं० तारुण्य + कन्द > प्रा० तारुण्य + कंद) तारुण्य रूपी वृक्ष; (जंबू० ४, १६, १३) । —य (सं० तारुण्य + क); (जस० १, २४, ८) । तारुन्न; (व० ३, २०, १०; की० २, १३३) ।

तारोह—पुं० (सं० प्रा० तारा + ओघ) नक्षत्र-समूह; (जंबू० १०, १८, १०) ।

तालक—पुं० (सं० ताडक) छंद-विशेष, ताटक, स्कंधक का भेद; (प्रा० पै० १, ७५) ।

तालकि—पुं० स्त्री० (सं० तालङ्किन्) छंद-विशेष, ताटकी, रसिका छंद का भेद; (प्रा० पै० १, ८६) ।

ताल—पुं० (सं० प्रा० ताल) ताल वृक्ष का फल; (दे० ना० मा० ६, १०२) ।

स्त्री० वाद्य-विशेष; (प्रा० गु० ३२, ३) । पुं० (सं० तालः) (छंदशास्त्र में) अंत

लघु विकल; (प्रा० पै० २, ११०) । न० विशाल तालवृंत (पंखा); (व० ६, १३, २) । —अ न० ताला, द्वार बंद

करने की कल; (जंबू० ३, ११, ६) । —प्फली स्त्री० (दे०) दासी, नौकरानी;

(दे० ना० मा० ५, १) । —वत्त न० (सं० तालपत्र) ताड़ का पत्ता; (प० च० २६, १६, ७) । —हल पुं० (दे०) शालि,

चावल; (दे० ना० मा० ५, ७) । तालु—पुं० वाद्य-विशेष; (जस० १, ५,

१८) ।

ताला—स्त्री० (दे०) खोई, धान का लावा; (दे० ना० मा० ५, १०) ।

तालिय—वि० (सं० ताडित > प्रा० तालिअ) आहत, पीटा हुआ; (प० च० १३, ८, १; जस० ३, १२, १३) ।

ताली—स्त्री० एक वणिक छंद; (प्रा०-पुं० २, १७) ।

तालु—न० (सं० प्रा० तालु) तालु, मुँह के ऊपर का भाग; (जंजू० २, १८, ११) । “तालू सुषकइ जेण;” (पाहू०) ।

तालुर—पुं० (दे०) १. फेन, २. कपित्थ-वृक्ष; ३. पानी का आवर्त; (दे० ना०-मा० ५, २१) ।

ताव—अव्य० (सं० तावत् > प्रा० ताव) तब तक, उसी समय तक; (प० च० ६८, ५०; जंजू० ८, १४, ३; क० १, १३, २) ; तावै; (की० ३, १५३) । —हिं अव्य० १. तब तक; (प० च० २, २, १) । २. वैसे ही; (प० च० ३, ४, ८) ।

√ताव—(सं० तापय् > प्रा० ताव) तपाना, गरम करना । —हि (विधि०) । (जंजू० १०, २, ६) ।

ताव—पुं० (सं० ताप > प्रा० ताव) ताप, गरमी; (जस० १, १३, १) ।

तावण—पुं० (सं० तापन) इड्वाकु वंश का एक राजा; (प० च० ५, ५) ।

तावलिप्पि—पुं० (सं० ताम्रलिप्ति) नगर-विशेष-नाम, तमलुक (बंगाल) । (जंजू० ६, १६, ६) ।

तावस—पुं० (सं० तापस) तपस्वी, योगी; (भ०; क० ८, ८, ३) ।

ताविअ—स्त्री० (सं० तापी > प्रा० तावी)

नदी-विशेष; (प० च० २७, ११, ७) ।

ताविअ—वि० (सं० तापित > प्रा० ताविअ) तपाया हुआ, गरम किया हुआ; (क० ६, १२, ५) ।

ताविच्छ—पुं० न० (सं० तापिच्छ) तमाल का वृक्ष या फूल; (दे० ना० मा० १, ३७) ।

ताविय—वि० (सं० तापित > प्रा० ताविअ) तप्त, तपाया हुआ; (जस० ३, ३, १६; व० १, १४, १३) ।

तावियडि—स्त्री० ताप्ती + तटी, ताप्ती तटवासिनी स्त्री; “तावियडिवियड्चुं वि-यनियंबु;” अर्थात् ताप्ती तट की तहणियों के विस्तीर्ण नितंबों को चूमने वाला; (जंजू० ४, १५, १२) ।

तावी—स्त्री० (सं० तापी) नदी-विशेष; (प० च० ३५, १) । —यड पुं० न० (सं० ताप्ती + तट > प्रा० तावी + तड ताप्ती नदी का तट; (जंजू० ६, १६, ८) ।

तास—पुं० (सं० तास > प्रा० तास) भय, डर; (संघि० १२, ३, २७) ।

तासओ—सर्व० (सं० तस्य) उनसे; (की० २, ११७) ।

तासण—वि० (सं० तासन > प्रा० तासण) तास उत्पन्न करने वाले; “सीहु व करितासणु दाढाभीसणु;” (जस० १, १६, १५) ।

तासिअ—वि० (सं० तासित) वस्तु किया हुआ, डराया हुआ; (भ०) । तासिउ; (व० २, ६, ५) । तामिय; (जस० १, ६, ८) ।

तासु—सर्व० (सं० तस्य) उसकी, (विला०; परमा०) । उसका; (णे; हे० ४०१, ४) । उससे; (विला०) ।
 तासे वि—पू० का० क्रि०, (सं० त्रास) संतस्त कर (प० च० १६, ८, ९) ।
 ताहं—सर्व० (सं० तेषाम्) उन्हें; (हे० ४०६, १) ।
 ताहां—अव्य० (सं० ततः) वहां, वहां से, तब; (उ० व्य० प्र० १४-२६) ।
 ताहि कर—सर्व० उसका, उसके; (कौ० १, ८४) । टि०—की० में कर, केर आदि परसर्गों का प्रयोग द्रष्टव्य है ।
 √ताही—(सं० त्रास्यति) त्रस्त करना; (भ०) ।
 ताहे—सर्व० (सं० तस्या) उसके लिए; (व० १, ६, १०) ।
 तिगिआ—स्त्री० (दे०) कमल-रज; (दे० ना० मा० ५, १२) ।
 तिगिच्छ—स्त्री० (दे०) कमल-रज, पद्म-रज; “मरुद्घूपतिगिच्छ्विच्छड्ड-पिर्गं,” अर्थात् वायु में उड़ती हुई पुष्परज के विखराव से सत्र ओर पीलापन दिखाई दे रहा था; (जस० ४, १७, १३; दे०-ना० मा० ५, १२) ।
 ति—वि० (सं० त्रि > प्रा० ति) दो और एक, तीन; (प्रा० पै० १, १२; जस० १, ४, ९) । अव्य० इति; (प्रा० पै० १, २२; सुदं० ३, १०, २०) । सर्व० (सं० ते) वे; (हे० ३३०, ४) । —अ वि० (सं० त्रि > प्रा० ति) तीन; (हिं० का०, च० २८) ।
 तिम्रत—पुं० (सं० तिडन्त) धातुओं के आगे ‘तिड्’ विभक्तियाँ लगती हैं । उनके

योग से बने पदों को तिडन्त पद कहते हैं; (प० च० ४, ११, ३) ।

तिअल—पुं० (सं० त्रिकल) तीन मात्राओं का शब्द, त्रिमात्रिक; (प्रा० पै० १, ११८) ।

तिआ—वि० (सं० त्रि) तीन; (प्रा० पै० १, १३) ।

तिइल्लु—पुं० (सं० त्रैलोक्य) स्वर्ग, मर्त्य और पाताल ये तीनों लोक; (व० १, १०, १०) ।

तिउणिय—वि० (सं० त्रिगुणित) तिगुना; (भ०) ।

तिउणु—वि० (सं० त्रीणि) तीन; (महा० ६८, २, ९) ।

तिराउमुह—पुं० विद्याधर राजा; (प०-च० १०, २१) ।

तिउल—पुं० वाद्य; (सुदं० ७, ६, ५) ।

तिउली—स्त्री० वाद्य-विशेष; (प्रा० गु० ३२, ३) ।

तिकाल—पुं० (सं० त्रिकाल) तीन काल-वर्तमान, भूत, भविष्य; (भ०) ।

तिकूड—पुं० (सं० त्रिकूट) पर्वत-विशेष-नाम; लका के समीप का एक पहाड़, सुवेल पर्वत; (प० च० ५, १२७) ।

—पव्वय पुं० पर्वत-विशेष; (प० च० ४८, ५१) । त्रिकूटसिहर—पुं० पर्वत-विशेष; (प० च० ८५, २५) ।

तिक्खकुड—पुं० (सं० तीक्ष्ण + अङ्कुड) फाली; (जं० ६, ४, ८) ।

तिक्खु कुस—पुं० (सं० तीक्ष्ण + अङ्कुस) पैना अंकुश; (जं० ७, ८, ३) ।

तिक्ख—वि० (सं० तीक्ष्ण > प्रा० तिक्ख)

तीखा; (प्रा० पं० २, १२६; व० २, २०, ३; क० २, ३, ३) । —कडक्खड वि० (सं० तीक्ष्ण + कटाक्ष + वत्) तीखे कटाल वाली; (जं० ३, १०, १४) ।

—क्खर पुं० न० (सं० तीक्ष्ण + अक्षर) सुक्ष्म अक्षर; (जं० २, १३, ४) ।

—सिङ्गम; पुं० (सं० तीक्ष्णशृङ्ग) “कहि जि तुङ्ग-अङ्गया हयारि- तिक्खसिङ्ग-गया,” (प० च० ३२, ३, ११) । — (तिक्खा) वि० (सं० तीक्ष्णान्) तीक्ष्ण; (हे० ३६५, १) ।

√तिक्ख—(सं० तीक्ष्णय् > प्रा० तिक्ख) तीक्ष्ण करना । तिक्खेइ—सक० (सं० तीक्ष्णयति); (हे० ३४४) ।

तिक्ख—वि० (सं० तिक्त) नीम या चिरायते के-से स्वाद वाला, (जस० २, २४, ५) ।

तिरखालिअ—वि० (दि०) तीक्ष्ण किया हुआ; (दि० ना० मा० ५, १३) ।

तिखंड—पुं० (सं० त्रिखण्ड) तीनों खण्ड; (व० ६, १, ६) ।

तिखंडहिइ—पुं० (सं० त्रिखण्डाधिपति > प्रा० तिखंडाहिवइ) अर्बंचकवर्षी राजा वासुदेव; (प० च० ६१, २६) ।

तिगाम—पुं० त्रिगाम, स्वरो का समूह “तं पुज्ज करे वि आढत्तु गेड । मुच्छण-कम-कम्प-तिगाम-भेड;” वह गान मूर्च्छना क्रम, कंठ और त्रिगाम, पङ्क, ऋपभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निपाद इन सात स्वरो से युक्त था, (प०-च० १३, ६, ८) ।

तिगुण—वि० (सं० त्रिगुण) तिगुना; (प्रा० पं० १, २०२) ।

तिगुप्ति—पुं० मुनि-विशेष-नाम; (प०-च० ४१, १६) । २. स्त्री० त्रिगुप्ति (कायवाङ्मनोगुप्ति); (जस० ४, २६, ६) ।

तिछत्त—पुं० (सं० त्रिअत्त > प्रा० ति + छत्त) तीन छत्र या छाता; (जं० १, १७, २) ।

तिजग—न० (सं० त्रि + जगत्) स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक; (जस० ४, १३, १०) । —व्भंतर अव्य० (सं० त्रि + जगत् + अर्भंतर) तीनों जगत् के भीतर; (जस० ४, १३, १०) ।

तिजह—पुं० (सं० त्रिजट) विद्याधर वंश के एक राजा का नाम; (प० च० १०, २०) ।

तिजय—न० (सं० त्रि + जगत्) तीनों लोक स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक; (जं० १, १२; व० २, ११, १२) । —हिव (तिजयाहिव) पुं० (सं० त्रिजगदाधिप) तीन लोकों का अधिपति; (व० २, १५, १) ।

तिज्जंच—पुं० (सं० त्रियञ्च > प्रा० त्रिरिअंच) पशुगति; (जं० १०, १७, १६) ।

तिज्ज—वि० (सं० तृतीया) तीसरी; (सु०) । —अ वि० (सं० तृतीय + क) तीसरा; (म० १, २, ४) ।

तिट्ठ^१—वि० १. (सं० त्रस्त) त्रासदायक; (जस० ४, १०, ११) ।

तिट्ठ^२—वि० (सं० तिष्ठ) विद्यमान, खड़े हुए; “लइ सुन्दरि ताव तिट्ठ णयरे;” (प० च० ३०, ३, ८) ।

तिट्ठा—स्त्री० (सं० तृषा > प्रा०

तिसा) तृष्णा, प्यास, पिपासा; (महा०
संघि० ६८) ।

तिडङ्—क्रि०, व०; तिङ्कती है, टूटती
है; (सं० रा०) ।

तिडिक्क—स्त्री० अग्निकणिका तुल० गुं
तणखी=चिगारी, तडको=घूप (प०-
च० ४८, ६, ३; सुदं० ११, १८,
१) ।

तिडिक्किय—वि० (दे०) छींटों से युक्त;
(जंबू० ७, २, ६) ।

तिडिपिडन्त—कृ० तडफडाते हुए; (म०
२, ३७, २) ।

तिडङ्—पुं० स्त्री० (दे०) शलभ, तुल०
गुं तीड; (संघि० ११, ५, ५) ।

तिण—न० (सं० तृण > प्रा० तिण)
तृण, घास; (जस० १, २१, ११) ।

तिणु—तृण; (क० ८, १६, ८; व० २,
१४, ६) । —मय वि० (सं० तृणमय)

तृण—युक्त; (जंबू० ८, १३, ३) ।
—वन्त वि० (सं० तृणवत्) तृण-समान;

(भ०) । —सम वि० (सं० तृणसम)
तृण-समान; (जंबू० ३, १, ८) ।

तिणअण—पुं० (सं० त्रिनयन) शिव;
(प्रा० पै० २, १३८) । तिणयण; (प०-
च० १, ६, २) । तिणयणु; (व० ३,
२२, ७) ।

तिणायणी—वि० (सं० त्रि + ज्ञानिन्)
तीन ज्ञानों से युक्त; (रि० ८, ६) ।

तिणि—न० (सं० तृण > प्रा० तिण)
तृण, घास; (व० ४, १०, १४) । वि०

(सं० त्रीणि) तीन; (प्रा० पै० १,
४८) ।

तिणिस—न० (दे०) शहद की मक्खियों

का छत्ता; (दे० ना० मा० ५, ११) ।

तिण्ण—वि० (सं० त्रीणि) तीन; (दो०-
को०) ।

तिण्णि—वि० (सं० त्रीणि) तीन; (प्रा०
पै० १, ८; जस० ४, १७, १६) ।

—आ वि० (सं० त्रीणि + क) तीन;
(प्रा० पै० २, ७६) । —तीस वि०

(सं० त्रीणि + त्रिंशति) तैंतीस; (जंबू०
११, १०, ६) ।

तित्त—वि० (सं० तृप्त > प्रा० तित्त)
संतुष्ट; (भ०) ।

तित्तहिं—अव्य० (सं० तत्त) वहाँ;
(जंबू० ३, ८, २) ।

तित्ति—स्त्री० १. (सं० तृप्ति > प्रा०
तित्ति) तृप्ति, संतोष; (प० च० २, ७,
२; सुदं० १, १, ५; क० १०, १०, ५) ।

२. (दे०) तात्पर्य, सार; (दे० ना० मा०
५, ११) ।

तित्तिरिअ—वि० (दे०) स्नान से आर्द्र;
(दे० ना० मा० ५, १२) ।

तित्तिल—वि० (सं० तावत्) उतना;
(पङ्) ।

तित्तुअ—वि० (दे०) गुरु, भारी; (दे०-
ना० मा० ५, १२) ।

तित्य—न० (सं० तीर्थ > प्रा० तित्य)
तीर्थ; (जस० ४, २७, १०; हे० ४४२,
२) । तित्यइं—न० तीर्थ; (पाहु०) ।

—वर न० बड़ा तीर्थ; (क० ५, ६,
६) ।

तित्यंकरु—पुं० (सं० तीर्थङ्कर) तीर्थ-
कर भगवान् महावीर; (सुअंघ० १,
३) ।

तित्ययर—पुं० (सं० तीर्थङ्कर) तीर्थ-

तित्ययर—पुं० (सं० तीर्थङ्कर) तीर्थ-

कर, शास्त्रप्रवर्तक; (जस० १, २, ८) ।
तित्वयरत्त; (व० २, ११, १२) । —त्त
पुं० (सं० तीर्थङ्करत्व) तीर्थङ्करत्व;
(जं० ११, ७, ८) ।

तित्वयरत्तणाई—न० (सं० तीर्थङ्करत्व
> प्रा० तित्वयरत्तण) जिन-देव के प्रव-
चन या मत का भाव; (प० च० ३, ११,
६) ।

तित्पु—अव्य० (सं० तत्र) वहाँ;
(जस०) ।

तित्थ—अव्य० (सं० तत्र) वहाँ; (प्रा०-
गु० २७, २, २) ।

तित्थिष्ठातिह—पुं० (सं० तीर्थयात्रि-
कान्) तीर्थयात्री; (उ० व्य० प्र० ५१-
२८) ।

तिदंडु—न० (सं० त्रिदण्ड) त्रिशूल,
“चूलासहिड तिदंडु धारेद्विणु;” अर्थात्
चूला (शिखा-जटा) सहित त्रिशूल धारण
कर; (व० २, १६, २) ।

तिनयण—पुं० (सं० त्रि+नयन) महा-
देव; (जं० १, १०, ८) । —तस्य पुं०
(सं० त्रि+नयन+तनु) महादेव; (जं०
५, ८, ३६) ।

तिणि—वि० (सं० त्रीणि > प्रा० तीणि)
तीन; (की० १, ६०) ।

तिपंचासह्य—वि० (सं० त्रिपञ्चाश)
तिरपनवां; (प० च० ५३, १५०) ।

√तिप्प—(सं० √तृप् > प्रा० तिप्प)
तृप्त करना; (जस० ४, ३१, ११) ।

तिप्पति व०, व०, तृप्त होते हैं; (सं०-
रा०) ।

तिभंगी—पुं० (सं० त्रिभंगी) छंद-
विशेष; (प्रा० पं० १, १६४) ।

तिम—अव्य० १. इसी प्रकार; (पाहू०) ।
२. वैसे, त्यों; (सं० रा०; पाहू०) ।
३. तथा; (म०) ।

तिमरारि—पुं० (सं० तिमिरारि)
चंद्रमा; (व० ७, १५, ७) ।

तिमिगल—पुं० (सं० तिमिङ्गल) मत्स्य
की एक जाति; (दे० ना० मा० ५,
१३) ।

तिमिगलि—पुं० (सं० तिमिङ्गलि)
मत्स्य की एक जाति, (प० च० २२,
८३) ।

तिमि—पुं० (सं० तिमि) मत्स्य की एक
जाति; (प० च० १४, १७; व० १०,
१०, ४) ।

तिमिच्छय, तिमिच्छाह—पुं० (दे०)
पथिक, (दे० ना० मा० ५, १३) ।

तिमिरा—न० (दे०) गौला काष्ठ;
(दे० ना० मा० ५, ११) ।

तिमिर—न० (सं० प्रा० तिमिर) श्रंघ-
कार; (व० १, १७, ७; प्रा० पं० २,
७३) ।

तिमिरावरिड—वि० (सं० तिमिरावृत्त)
अंधकार से ढका हुआ; (व० २, २१,
६) ।

तिमिरिच्छ—पुं० (दे०) वृक्ष-विशेष;
करंज का पेड़; (दे० ना० मा० ५,
१३) ।

तिमित्त—स्त्री० न० (सं० तिमिल) वाद्य-
विशेष; (प० च० ५७, २२) ।

तिमुण्ड—पुं० (सं० त्रिमुण्ड) त्रिपुंड्र
चंदन, राख या गोवर से बनाई हुई तीन
रेखाएँ, “के वि त्तिमुण्ड-धारि वम्भा-
रिय;” (प० च० २३, १५, ४) ।

तिया—स्त्री० (सं० तिय) स्त्री; (महा० १, १५, ४) ।

तियाल—पुं० (सं० त्रिकाल) १. तीनों समय—भूत, वर्तमान और भविष्य; २. तीनों समय—प्रातः, मध्याह्न और सायं; (व० ३, ६, ३; जस० ३, २८, ७) ।

तियासी—वि० (सं० त्र्यशीति) अस्ती और तीन, तिरासी; तुल० गु० त्यासी; (संघि० १, ४, १; महा०) ।

तिरच्छ—वि० (सं० तिर्यक्) तिरछा; (सं० रा०) ।

तिरयण—पुं० न० सं० त्रिरत्न ज्ञान, दर्शन और चरित्र; (जस० ३, १७, ७) ।
—विवाज्जयद वि० स्त्री-रत्न से रहित; (रि० १०, २) ।

तिरयणु—पुं० (सं० तिर्यञ्) त्रिद्विद्य गोम (सहस्र पाद वाला कानखजूरा); (व० १०, ६, १३) ।

तिरयह—पुं० (सं० तिर्यञ्) पद्य, पक्षी; (व० १०, ४, ५) ।

तिरहुति—पुं० तिरहुत का राज्य; (की० २, २७) ।

तिरिगिच्छि—पुं० वृक्ष-विशेष; (जंबू० ५, ८, ७) ।

तिरिक्क—पुं० (सं० तिर्यञ्) जानवर (जो मनुष्य की भाँति सीधा न चलकर टेढ़ा चलता है), निम्न जाति का या बुद्धिहीन जानवर; “णारउ पुणु हुउ जलयर थलयर, णहयर पुणु तिरिक्कु बहुअयर,” अर्थात् नरकवासी होकर फिर जल-चर हुआ, थलचर व नभचर हुआ और फिर तिर्यञ्च हुआ; (जस० ३, २०,

३) ।

तिरिक्क—वि० (सं० तिर्यक्) तिरछा; (जंबू० २, १८, १५) ।

तिरिक्छी—वि० (सं० तिर्यक्) तिरछी; (हि० ४१४, ४) ।

तिरिड—पुं० (दे०) वृक्ष-विशेष, तिमिर वृक्ष; (दे० ना० मा० ५, ११) ।

तिरिडिन्न—वि० (दे०) १. तिमिर-युक्त; २. खोजा, तलाशी ली गई; (दे०-ना० मा० ५, २१) ।

तिरिडिकिया—स्त्री० (दे०) वाद्य-विशेष; (प० च० २४, २, ४) ।

तिरिड्ढि—पुं० (दे०) उष्ण वात, गरम वायु; (दे० ना० मा० ५, १२) ।

तिरिय—स्त्री० (सं० स्त्री) औरत; “वारहमए तिरिय णमन्तुदिट्ठ” वारहवें में नमन करती हुई स्त्रियाँ, (प० च० १, ८, १२) । पुं० (सं० तिर्यक) तिर्यञ्च योनि; तिर्यञ्च योनि, पद्य-पक्षी की मृष्टि; “तिरिएसु णरएसु मणुएसु उक्खेसु दुक्खाइं भुञ्जति सग्गं कहं जंति,” अर्थात् (वे) तिर्यञ्च योनियों में, नरकों में मनुष्यों में और (वृक्षों में जन्म लेकर भोगते हैं; (जस० २, १७, १७) । —लोअ पुं० (सं० तिर्यग्लोक) मनुष्यलोक; (जस० १, ३, २) ।

तिरीड—पुं० न० (सं० किरोट) मुकुट; आभूषण-विशेष; (प० च० २, ३६; क० ४, १०, २) ।

तिरोवइ—वि० (दे०) वाड से विद्युत् किया हुआ “तिरोवइ वृत्यन्तरितः”; (दे० ना० मा० ५, १३) ।

तिरोहित—वि० (सं० तिरोहित) छिपा

हुषा, लिप्त, अंतहित; (की० २, २, १५) ।

तिलंगि—स्त्री० तेलङ्गी, तेलंग-तेलंगाना (हैदराबाद) वासिनी स्त्री; (जंबू० ४, १५, =) ।

तिल—पुं० (सं० तिलः) तिल के पौवे का बीज, (उ० व्य० प्र० ५१, १; व० ८, ५, १०) । तिल्ली का दाना (प्रा०-पै० १, १०) । —मेत्त तिलमान; (प०-च० ३, ११, १०) ।

तिलघ्न—पुं० (सं० तिलक > प्रा० तिलग, तिलय) टीका, वह चिह्न जिसे गोले चंदन केसर आदि से मस्तक, बाहु आदि पर सांप्रदायिक संकेत के लिए लगाते हैं; (प्रा० पै० २, १३८; क० १०, २५, १०; जस० १, १४, १०) ।

तिल-जंत—पुं० (सं० तैल-यन्त्र) घाणी; (संघि० ३, ११, ५) ।

तिलजलंजलि—स्त्री० (सं० तिलजलां-जलि) तिलांजलि, मरने पर अंजुली में जल और तिल लेकर उसके नाम से छोड़ना; "चिट्ठंति ते तिलजलंजलिदाण-जोग्गा;" अर्थात् वे तिलजलांजलि देने के योग्य हैं; (प्रा० पै० २, १५१) ।

तिलजद—पुं० (सं० तिल + यवस्) तिल और जौ; (जंबू० २, ६, १) ।

तिलतार—पुं० (दे०) स्नेह; "जिहिं सहुं जसु तिलतारु सो तसु आजम्मु वि हवइ;" (प्रा० गु० ३८, २३) ।

तिलपिड—पुं० (सं० तिल + पिण्ड) तिलों को खली, "तिलपिडसंडेसु;" अर्थात् तिलों को खली के टुकड़े; (जस० ३, २७, =) ।

तिलमेत्त—अव्य० (सं० तिलमात्र) तिल-भर, थोड़ा सार; "सक्कइ न तिलमेत्तु;" अर्थात् (वह) तिलभर भी नहीं चल सका; (जंबू० ४, २२, १६) ।

तिलय—पुं० (सं० तिलक > प्रा० तिलग, तिलय) १. वृक्ष-विशेष; (प० च० ४२, ६) । २. घनिक पुत्र; (प० च० ११८, ४६) । पुं० (सं० तिलक > प्रा० तिलय, तिलग) टीका, ललाट में किया जाता चंदन या उवटन आदि से किया गया चिह्न; (प० च० १३, १०, २) । —छेउ पुं० (सं० तिलक + छेउ) राजतिलक का विनाश; "का वि भणइ हुवउ पियतिलय-छेउ," अर्थात् कोई कहती है, प्रिय के राजतिलक का उच्छेद हो गया; (जस० ४, २, =) । —भूय पुं० तिलकभूय; (जंबू० ३, २, ३) ।

तिलयदीउ—पुं० (सं० तिलकद्वीप) द्वीप-विशेष-नाम; 'खणि तिलयदीउ सो णियउ ताएँ;" (क० ७, १५, १) ।

तिलयसिरि—स्त्री० कुंघुजिन की माता; (प० च० २०, ४३) ।

तिलयसुंदरी—स्त्री० रानी-विशेष-नाम; (प० च० २०, १२१) ।

तिलरिण—पुं० तैलत्व, स्नेह; "अवरु-प्परु विरइयतिलरिणाहँ;" (क० ६, १०, ५) ।

तिलहुणत्रि, तिलहुमजि—पुं० [सं० तिल + हु (=हवन करना) > प्रा० अप० हुण] तिलहोम, तिलदान, तिलांजलि; (की० ४, १५२) ।

तिलिगसमण—पुं० मुनि-विशेष-नाम; (प० च० २०, १५५) ।

तिलिमा—स्त्री० (दे०) वाद्य-विशेष;
(प्रा० गु० ३६, ६) ।

तिलोअ—न० (सं० त्रिलोक > प्रा०
तिलोक्क, तिलुक्क) स्वर्ग, मर्त्य और
पाताल लोक; (प० च० ३, ११, १) ।

तिलोअण—पुं० (सं० त्रिलोचनः) शिव;
(प्रा० पै० १, ७७) ।

तिलोय—पुं० (सं० त्रिलोक > प्रा०
तिलोक्क, तिलुक्क) स्वर्ग, मर्त्य और
पाताल लोक; (क० ५, ६, ४) । —ग्ग
पुं० (सं० त्रिलोकअग्र) त्रिलोक का अग्र-
भाग, अर्थात् भव्य जीवों के लिए निर्वि-
घ्न एवं सभ्य मार्ग; (जबू० १, १८,
७) ।

तिलोयगामी—वि० (सं० त्रिलोक +
गामिन् > प्रा० तिलोक्क + गामि) त्रिलोक
के अग्रभाग पर चलने वाले अर्थात् मोक्ष
को प्राप्त कराने वाले मार्ग पर चलने
वाले; (रि० २, १०) ।

तिल्ल—१. न० (सं० प्रा० तिल्ल)
तिल्ल नामक एक वर्णिक छंद; (प्रा० पै०
२, ४३) । २. न० (सं० तैल > प्रा०
तिल्ल) तैल, तेल; (भ०) ।

तिल्लायरु—पुं० (सं० तैलादरः अथवा
तैलाचरः) विवाह से कुछ समय पूर्व होने
वाचा संस्कार, जिसमें तैल और हलदी
का प्रयोग उबटन के रूप में दुलहा और
दुलहिन के द्वारा किया जाता है;
(भ०) ।

तिल्लिय—पुं० (सं० तैलिक) तिलों से
तेल निकालने वाला, तेली; (जंबू० १०,
४, १५) ।

तिल्लोअ—न० (सं० त्रैलोक्य > प्रा०

तिल्लुक, तिलोक्क) स्वर्ग, मर्त्य और
पाताल लोक; (म० १, ७, ४; जस० ३,
१७, ६) ।

तिल्लोकणाहु—पुं० (सं० त्रैलोक्यनाथ)
राम; (व० ६, १४, ४) ।

तिल्लोकाहिउ—पुं० (सं० त्रिलोकाधिप)
राम; (व० १०, ४०, १३) ।

तिल्लोक्क—न० (सं० त्रैलोक्य > प्रा०
तिलुक्क, तिलोक्क) स्वर्ग, मर्त्य और
पाताल लोक; (जस० १, १७, २१) ।

तिवँ—अव्य० (सं० तथा > प्रा० तथा,
त्ह) १. उमी तरह, २. और, तथा
३. पाद-पूर्ति में प्रयुक्त किया जाता है;
(हे० ३, ६७) ।

तिवग्ग—पुं० (सं० त्रिवर्ग) धर्म, अर्थ,
काम; (व० १, १३, ५; जंबू० ४, ६,
६) ।

तिवय—वि० (सं० त्रि + पद) तीन पाँव
वाला; (दे० ना० मा० ८, १) ।

तिवलि—स्त्री० (सं० त्रिवलि, वली,
वलि, वली) नाभि के ऊपर उदर ही की
तीन रेखाएँ या सिमित्तर्नें । ये स्त्री के
सौंदर्य का चिह्न मानी गई हैं; (भ०; सं०
रा०; रा०) ।

तिवार—अव्य० (सं० त्रिवारम्) तीन
मर्तवा, तिवारा, तीन वार; (भ०; प०-
च० २, २, ५) ।

तिविट्टु—पुं० (सं० त्रि + पृष्ठ, विष्टु)
भरतक्षेत्र में उत्पन्न प्रथम अर्ध चक्रवर्ती
राजा का नाम; (प० च० ५, १५५) ।

तिविट्टु—पुं० (सं० त्रिपृष्ठ) नारायण;
(व० ३; २३, १०) । २. प्रथम वामुदेव;
(प० च० ५, १५५) ।

तिविडा—स्त्री० (दे०) सूई; (दे० ना०-मा० ५, १२) ।
 तिविडी—स्त्री० (दे०) पुड़िया, छोटा पुड़वा; (दे० ना० मा० ५, १२) ।
 तिविह—वि० (सं० त्रिविध) तीन प्रकार का, तिगुना; (भ०) ।
 तिव्व—वि० (सं० तीव्र) १. दुःसह, जो कठिनता से सहन हो सके; २. अत्यंत, (दे० ना० मा० ५, ११) । २. तीव्र; (जस० १, १६, ४) ।
 तिव्वण्णो—पुं० (सं० त्रिवर्णः) तीन वर्ण "ताली ए जाणीए । गो कण्णो तिव्वण्णो;" अर्थात् यह ताली समझी जानी चाहिए; (जहाँ) गुरु तथा कर्ण (दो गुरु) अर्थात् तीन गुरु (सर्वगुरु) वर्ण हों; (प्रा० पै० २, ११) ।
 तिव्वत्तअ—पुं० (सं० तीव्र + ताप > प्रा० तिव्व + ताव) तःत्र दाह या ताप; (जंबू० ६, १४, ३) ।
 तिस—स्त्री० (सं० तृषा > प्रा० तिसा) प्यास, पिपासा; (प० च० २, १२, ३) ।
 तिसट्ठ—वि० (सं० त्रि + पट्ठ) तिर-सठवां; (प० च० ६३, ७३) ।
 तिसट्ठि—स्त्री० (सं० त्रिपट्ठि) तिरसठ की संख्या; (भ०) ।
 तिसत्ति—पुं० (सं० त्रिशक्ति) एक प्रकार का हृदियार; (प० च० १७, ६, ६) ।
 तिसरय—न० (सं० त्रि + सरक > प्रा० तिसरय) वाद्य-विशेष; (प० च० ६६, ४४) ।
 तिसिअ—स्त्री० दीपा, एक प्रकार का

संगीत-यंत्र; (प० च० २, ४, ८) ।
 तिसरिय—न० (सं० तिसरिक) वाद्य-विशेष संबंधी; (प० च० १०२, १२३) ।
 तिसला—स्त्री० महावीर स्वामी की माता; (प० च० २, २२) ।
 तिसल्ल—पुं० (सं० त्रिशल्य) मिथ्यात्व, माया और निदान; "वरियतिमुंडु तिट्ठंविहंङ्गु, छिण्णतिसल्लु तिलोयहु मंडणु," अर्थात् उन्होंने मिथ्यात्व, माया और निदान इन तीनों शल्यों को नष्ट करके अपने को अलोक्य का अलंकार बना लिया था; (जस० ३, १७, ६) ।
 तिसा—स्त्री० (सं० तृषा > प्रा० तिसा) पिपासा; (व० ६, १६, ३) ।
 तिसाइय—वि० (सं० तृषित > प्रा० तिसाइय) तृषातुर, प्यासा; (प० च० २६, ६, ४) ।
 तिसायअ—वि० (सं० तृषित > प्रा० तिसिय) प्यासा; (जंबू० ६, ७, १५) ।
 तिसाहय—स्त्री० (सं० तृषा > प्रा० तिना) प्यास; (महा० १२, ७) ।
 तिसिय—वि० (सं० तृषित > प्रा० तिसिय) प्यासा; (जंबू० ६, ७, ११) ।
 तिसिर—पुं० (सं० त्रिशिरस्) १. देश-विशेष; (प० च० ६८, ६५) । २. राक्षस योद्धा; (प० च० ८, २७४) । ३. दाशरथी राम का मित्र राजा; (प० च० ६६, ४६) ।
 तिसूल—पुं० (सं० त्रिशूल) एक प्रकार का अस्त्र जिसके सिरे पर तीन फल होते हैं । यह महादेव जी का अस्त्र माना

जांता है; (व० १०, २५, १०) । —घर पु० (सं० त्रिशूलघर) शिव; (प्रा० पं० २, १३८) । —पाणि पु० (सं० त्रि + शूलपाणि) १. महादेव, शिव; २. त्रिशूल को हाथ में रखने वाला सुभट; (प० च० ५६, ३५) ।

तिसूलिणि—स्त्री० त्रिशूलिनी, कात्यायनी; (जस० १, १५, २०) ।

तिह—अव्य० (सं० तथा > प्रा० तथा) १. उसी तरह, २. और; (प० च० ३, १३, ८) । २. (सं० तत्र) वहाँ; (जस० ३, १८, ७) ।

तिहत्तर—वि० (सं० त्रि + सप्तत) तिहत्तरवाँ; (प० च० ७३, ३६) ।

तिहाय—पुं० (सं० त्रिभाग) तीसरा हिस्सा; (प्रा० पं० २, १५१) ।

तिहिं—वि० (सं० त्रिपु) तीनों; (हं० ३४७, १) ।

तिहिवार—पुं० (सं० त्रिदि + वार) तारीखवार जैसे रविवार आदि; (जंबू० ३, ४, १) ।

तिहुयण—पुं० (सं० त्रिभुवन) तीन लोक; (प्रा० गु० १४, ७; व० २, ६, २) ।

तिहुयणतिलअ—पुं० (सं० त्रिभुवनतिलक) व्यक्ति-विशेष-नाम; (जंबू० २, १८, २) ।

तिहुयणाणंद—पुं० पुंडरीय विजय का चक्रवर्ती राजा; (प० च० ६३, ३४) ।

तिहुवरण—पुं० (सं० त्रिभुवन) तीन लोक—स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक; (प० च० १, ८, १३; क० ६, १, ६) ।

तिहुवन; (रा०) ।

√तीव—(सं० √स्तीम् > प्रा० तिम्म) तर करना, आद्र करना, गीला करना; “भेषु वरिसत तीव भेषो वपन् तिम्बति । तिमू आद्रभावे । (उ० व्य० प्र० ५१-६) ।

ती—वि० (सं० त्रि > प्रा० ति) तीन; (प्रा० पं० २, ६४) ।

तीअ—वि० (सं० तृतीय) तीसरा; (प्रा० पं० १, ५४) ।

तीअे—वि० पतला; “अटले अटले बाँधे, तीअे तरले काँधे;” (घोड़ों का) वंशदेश अट्टालक के समान ध्रुव था और ग्रीवा प्रदेश पतला और चंचल था; (की० ४, ४४) ।

तीजउ—वि० (सं० तृतीय + क) तीसरा; “... तीजउ मागु न अत्थि;” (प्र० चि०) ।

तीणि—वि० (सं० त्रीणि > प्रा० तीणि) तीन; (प्रा० पं० २, १२५) ।

तीय—न० (सं० तीर्थ > प्रा० तित्थ) कोई पवित्र स्थान जहाँ धार्मिक भावना से लोग यात्रा, पूजा या स्नान आदि के लिए जाते हैं; (प्रा० गु० ७, १७) ।

तीमण—न० (सं० तेमन) कढ़ी, खाद्य-विशेष; (दि० ना० मा० २, ३५) ।

तीय—वि० (सं० तृतीया) तीसरा; (जस० ४, २८, १६) । स्त्री; (सं० रा० २, ४०; सं० रा०) । —उ वि० तीसरा; (सं० रा० २, ११२) ।

तीर—पुं० (सं० प्रा० तीर) किनारा; तट; (भ०; जंबू० १०, ६, ८) ।

२. (फ़ा० तीर) बाण; (कौ० २, १६३) ।

तीरिय—पुं० (फ़ा० तीर) बाण, शर, एक प्रकार का तीर; (प० च० १७, ६, ३) ।

तीरुत्तार—पुं० (सं० तीर+उत्तरण) तीर पर उतरना; (जंबू० ११, ८, ४) ।

तीवण—न० (सं० तेमन) भोजन-विशेष; (भ०) ।

तीसंति—वि० (सं० त्रिशति) तीस; (प्रा० पं०) ।

तीस—वि० (सं० त्रिशत्) तीस; तुल० गु० त्रीश; (प्रा० पं० १, ५७) ।

तीसडम—वि० (सं० त्रिषा) तीसवां; (प० च० ३०, ६८) ।

तीसक्खरा—पुं० (सं० त्रिशत्+अक्षर) तीस अक्षर; (प्रा० पं० १, ५८) ।

तीसम—वि० (सं० त्रिषा) तीसवां; (भ०) ।

तीसा^(१)—यि० (सं० त्रिशत्) तीस ।

तुंग—वि० (सं० तुङ्ग > प्रा० तुंग) ऊंचा, उच्च; (महा० ६६, १३, ६; सं० रा०; जस० २, ६, ३) । २. एक वर्णिक छंद; (प्रा० पं० २, ७२) । —उ वि० ऊंचा; (व० १, १२, १२) । —त्तण्ण पुं० (सं० तुङ्गत्व > प्रा० तुंगत्तण) ऊंचाई; (हे० ३६०) । —त्यणि वि० (सं० तुङ्गस्तनी) उन्नत स्तनों से युक्त; (जस० ४, १७, २२) । तुंगु; (महा०) ।

तुङ्ग—वि० (सं० तुङ्ग > प्रा० तुंग) ऊंचा; (प० च० १३, ३, १) । —त्तण पुं० (सं० तुङ्गत्व > प्रा० तुंगत्तण) ऊंचा-

पन; (प० च० ४, ६, ७) ।

तुंगिम—पुं० स्त्री० (सं० तुङ्गिमन् > प्रा० तुंगिम) ऊंचाई, उच्चत्व; (जंबू० १, १५, ११) ।

तुंगी—स्त्री० (दे०) रात्रि, रात; (दे० ना० मा० ५, १४; सुदं० ६, ६, ७) ।

तुंड—(दे०) स्त्री० न० तुण्ड, मुख; 'गिज्जंति गेयाइं चामुंडचंडाइं, गहिऊण तुंडेण रुंडस्स खंडाइं;' अर्थात् वे अपने मुख में रुण्ड के टुकड़ों को ग्रहण कर चामुंडा देवी के प्रचंड गीत गा रहे थे; (जस० १, १६, १०) ।

तुंडीर—न० (दे०) मधुर विवी फल; (दे० ना० मा० ५, १४) ।

तुंडूअ—पुं० (दे०) पुराना घड़ा; (दे० ना० मा० ५, १५) ।

तुंतुखुडिअ—वि० (दे०) त्वरा-युक्त; (दे० ना० मा० ५, १६) ।

तुंद—न० (सं० तुन्द > प्रा० तुंद) उदर, पेट; (दे० ना० मा० ५, १४) ।

तुंब—न० (सं० तुम्ब > प्रा० तुंब) लौकी, तुंबी, अनावु; (प० च० २६, २४) ।

तुंबर—पुं० (सं० तुम्बर) तंबूरा; तान-पूरा, सितार की तरह का परंतु उससे कुछ बड़ा एक बाजा; देवताओं की सभा का एक गायक; (सं० रा०) ।

तुंबुरु^(१)—पुं० (सं० तुम्बुरु) वृक्ष-विशेष, टिबरु का वृक्ष; (दे० ना० मा० ४, ३) ।

तुंबूरु—पुं० आदि लघु त्रिकल गण का नाम; (प्रा० पं० १, १८) ।

तु—अव्य० (सं० प्रा० तु) तो; (रा०) ।

तुखार—पुं० (सं० तुष्कार) एक उत्तम जाति का अश्व; तुल० गु० तोखार; (भ०) ।

तुच्छ—वि० (दे०) अवशुष्क, सूखा हुआ; (दे० ना० मा० ५, १४) । २. तुच्छ; (जं० १, ६, ११) ।

तुच्छइअ, तुच्छय—वि० (दे०) अनुराग-प्राप्त; (दे० ना० मा० ५, १५) ।

तुष्क—सर्व० (सं० तुह्यम्) आपकी; (हे० ३७२, १) ।

तुम्भु^(१)—सर्व० (सं० तुह्यम्) तुझ, तुझे; (व० १०, १६, १) २. तुम्हारा; (प०-च० १५, १४, ३) ।

तुट्—(सं० त्रुट् > प्रा० तुट्) दूटना । —इ व० (सं० त्रुट्यति) (जं० १०, ४, १३; परम० २, ११) । तुट्-त-कृ० (सं० त्रुट् + शतृ) दूटते हुए; (जं० ४, ८, ४) । —टंति व०; (सुदं० १०, ३, ४) । —उ भू० का० (सं० त्रुट्यतु) दूट गया; (हे० ३५६) । तुट्-वि—पू०-का० क्रि०; (प्र० चि०) । तुट्-टी—भू०-का० दूटी; (सं० रा०) । —ट्टेवि पू०-का० क्रि० दूटने पर; (क० ८, १, ६) ।

—ट्टन्त कृ० (प० च० १४, ६, २) ।

तुट्ट—वि० (सं० त्रुटित) दूटा हुआ, छिन्न, खंडित; (दे० ना० मा० १, ६२) ।

—अ वि० त्रुटित; (सुदं० ६, १, १५) ।

तुट्ठ—वि० (सं० तुष्ट) संतुष्ट; (जस० १, ६, २३) । —मण पुं० न० (सं० तुष्ट + मनस्) संतुष्ट चित्त; (जं० १,

१४, १२) ।

तुट्टि—स्त्री० (सं० तुष्टि > प्रा० तुष्टि) खुशी, आनंद; (सणतु० ४६०; जस० २, १६, २) ।

तुडि—स्त्री० (सं० त्रुटि > प्रा० तुडि) १. संशय, संदेह; तुल० म० तुटि; (प०-च० ६, ३, ६) । २. न्यूनता, कभी, स्पर्धा; "तसु थूलभद्दह सरिसु तुडि करि मयण-मल्लु विगुत्तओ; (प्रा० गु० ३०, ३, ७) ।

तुडिअग—पुं० (सं० त्रुटिताङ्ग) वाद्य देने वाला कल्पवृक्ष; (प० च० १०२, १२३) ।

तुडिअ—वि० (सं० त्रुटित) दूटा हुआ, विच्छिन्न; (दे० ना० मा० १, १५६) ।

तुडिआ—स्त्री० (सं० तुटिका) आभरण-विशेष; (प० च० ८२, १०४) ।

तुडिय—वि० (सं० त्रुटित) विच्छिन्न; (जस० ३, १४, ४) ।

तुडि-वसिण—अव्य० अकस्मात् (प्रा०-गु० १२, २६) ।

तुगय—पुं० (दे०) वाद्य-विशेष; (दे०-ना० मा० ५, १६) ।

तुणव—पुं० (दे०) वाद्य-विशेष, भेरी; (प० च० २६, १४, ३; दे० ना० मा० ५, १६) ।

तुणिह^१—पुं० (दे०) सूकर, सूअर; (दे०-ना० मा० ५, १४) ।

तुणिह^२—वि० (सं० तूष्णीम्) चुपचाप, विना बोले या शोरगुल किए; (भ०) ।

तुण्डिक—वि० (दे०) मृदु-निश्चल; (दे० ना० मा० ५, १५) ।

तुण्हिकय—वि० (सं० तुण्णीक) मीन रहा हुआ; (सुदं० ८, १२, १) ।

तुप्प—पुं० (दे०) १. कौतुक, २. विवाह, ३. सरसों, धान्य-विशेष; ४. कुतुप, घी आदि भरने का चर्म-पात्र; (दे० ना० मा० ५, २२) । ५. वि० चुपड़ा हुआ, घी आदि से लिप्त; ६. स्निग्ध, स्नेह-युक्त, अक्षित; (दे० ना० मा० ५, २२) । न० (दे०) घृत; “अण्णोक्कहि हयारिपलकवलपथिप्परतुप्पधारयं । दाउं भोज्ज मज्ज सुअ बहुरस विणिह्यच्छुहवियारयं;” अर्थात् राजा ने अनेक विप्रों को भैंसे के मांस को प्रचुर घी की धारा सहित तथा मद्य, सूप आदि बहुत रस जो क्षुधा को भलीभाँति निवारण करने वाले हैं, ऐसे खाद्य-पदार्थ प्रदान किए; (जस० ३, ६, १) ।

तुमा—सर्व० (सं० त्वम्) तुम; “सई उमा रखो तुमा,” सती उमा तुम्हारी रक्षा करे; (प्रा० पै० ३, ८) । तुम्हा; (प्रा० पै० २, १२३) ।

तुमुल—वि० (सं० प्रा० तुमुल) भयंकर; (प० च० १५, १५, ६) ।

तुम्ह—सर्व० (सं० त्वम्) तुम; (उ० व्य० प्र० २१, २०; रा०) । वि० तुम्हारा; (की० ३, १६) ।

तुम्हतौ—सर्व० (सं० युष्मत्) तुम, आप; (उ० व्य० प्र० १४, २७) ।

तुम्हार—वि० (सं० तुम्हत्कार्यकः) तुम्हारा, तेरा; तुल० गु० तमारा; (भ०) ।

तुम्हारिस—वि० (सं० युष्मादृश) तुम्हारे जैसा; (क० ८, १०, ६) ।

तुम्हे—सर्व० (सं० तुप्पे) तुम सब, (उ० व्य० प्र० १४, २८) । —दुई सर्व० (—द्वि) तुम दोनों; (उ० व्य० प्र० १६, ६) ।

तुरं—न० (सं० तूर) तुरही, वाद्य-विशेष; (व० २, १४, १) ।

तुरंग—पुं० (सं० तुरङ्ग) रामचंद्र का एक सुभट; (प० च० ५६, ३८) ।

तुरंगकन्धर—पुं० चक्रवर्ती अश्वघ्रीव; (व० ४, ११, ५) ।

तुरंगम—पुं० (सं० तुरङ्गम्) तुरंग, अश्व; “मणगमणतुरंगमहिलिहिलंतु,” अर्थात् मन के समान तीव्रगामी तुरंगों के रूप में हिनहिना रहा था; (जस० ४, ७, ७) । तुरंगु; (व० ८, ४, ४) ।

तुरंत—क्रि० वि० (सं० तुर) त्वरित, शीघ्र; तुल० म० तुरुत; (क० २, १५, ३) । —उ क्रि० वि० तुरंत; (व० २, ४, ३) । तुरंतु; (ज० १, ६, २४) ।

तुर, तुरा—स्त्री० (सं० त्वरा) शीघ्रता; (दे० ना० मा० ५, १६) ।

तुरअ—पुं० (सं० तुरग > प्रा० तुरय) अश्व; (जस० १, ५, १२) ।

तुरउ—पुं० (सं० तुरग > प्रा० तुरय) घोड़ा; (क० ७, २, ७) ।

तुरओ—पुं० (सं० तुरग) काव्य छंद का भेद, छंद-विशेष; (प्रा० पै० १, ११४) ।

तुरक्क—वि० तीक्षण; (सं० रा०) ।

तुरन्त—अव्य० (सं० त्वरित > प्रा० तुरिअ, तुर्) शीघ्र; तुल० गु० तरत; (प० च० ४, ३, ४) ।

तुरमाण—अव्य० (सं० त्वर > प्रा० तुर)

अनंतर, इतने में; (प० च० १२, ४, १) ।

तुरय—पु० (सं० तुरग > प्रा० तुरय) अश्व, घोड़ा; (प० च० ३, ७४; महा० ६८, १०, ६; की० ४, ११०) । —विद पु० (सं० तुरगवृन्द) अश्वों का समूह; (जंबू० ७, ८, ३) ।

तुरय—वि० (सं० त्वरित > प्रा० तुरिअ) त्वरायुक्त, उतावला; (म० २, ५७, ४) ।

तुरयगलु—पु० चक्रवर्ती अश्वग्रीव (हय-ग्रीव); (व० ४, १०, ६) ।

तुरिअ—अव्य० (सं० त्वरित > प्रा० तुरिअ) शीघ्र, जल्दी; तुल० राज० तुरत; (प्रा० पै० १, ८; क० २, १०, ७) ।

तुरिउ—वि० (सं० त्वरित > प्रा० तुरिअ) उतावला । क्रि० वि० शीघ्र; (प० च० २, १४, ८; जस० ४, ७, १२) ।

तुरिय—अव्य० (सं० त्वरित > प्रा० तुरिअ) त्वरित, शीघ्र; (सं० रा०) ।

तुरियणाणि—पु० (सं० तुर्य + ज्ञानिन् > प्रा० तुरिअ + णाणि) चतुर्थज्ञानी, मनः पर्ययज्ञानी, "तुरिय णाणि पंचसय दिगंबर;" अर्थात् पाँच सौ मनः पर्ययज्ञानी दिगंबर मुनि थे; (व० १०, ४०, ३) ।

तुरी—स्त्री० (दे०) १. पीन, पुष्ट २, शय्या का उपकरण; (दे० ना० मा० ५, २२) ।

तुरकाण—पु० (तु० तुर्क का बहु व० तुरुकाण) तुर्कमान, तुर्क; (की० २, १५७) ।

तुरुक्क—पु० (तु० तुर्क) १. पूर्वी तुर्कि-

स्तान; (जंबू० ६, १६, १०) । २. तुर्कि-स्तान का निवासी; (कौ० २, १७) ।

तुल० मगही तुरुक ।

तुरुतुरिय—वि० (सं० तुरुतुरित) (ध्वन्या०) । तुरध्वनि-युक्त; (मुदं० ७, ६, १५) ।

√तुल—(सं० √तुल्) तोलना । —इ व० (सं० तुलयति) तुल० राज० तोलबो-वो, तुलिअ; (प्रा० पै० १, १०) । तुलि-अउ—भ्रू० का०, बराबरी की; (की० १, ८०) ।

तुलकूड—पु० (सं० तुलाकूट) भूटें तराजू; (जस० ४, १६, ३) ।

तुलगा—न० (दे०) १. काकतालीय (अचानक या इत्तिफाकिया होने वाला) न्याय; (दे० ना० मा० ५, १५) । २. यदृच्छया, स्वेच्छा; (प० च० ४८, १३, २) ।

तुल-लग्ग—वि० (सं० तुलालग्न) तुला से चिपटा हुआ या लगा हुआ; (प० च० ३०, २, ५) ।

तुलसी—स्त्री० (सं० तुलसी) लता-विशेष, तुलसी; (दे० ना० मा० ५, १४) ।

तुला—स्त्री० (सं० प्रा० तुला) तराजू, तोलने का साधन; (प्रा० पै० १, १०) ।

तुलाकोडि—स्त्री० (सं० तुलाकोटि, —कोटी) नूपुर; "तुलाकोडिङ्गकारणच्चंत-मोरा," अर्थात् उसके नूपुरों की शंकार से मयूर नाचने लगे थे; (जस० ४, १७, २१) ।

तुलिय—वि० (सं० तुलित > प्रा०

तुलिअ) उठाया हुआ, "रोस तुलियासि-
हृत्यो तयो बोलए;" (जंबू० ७, ४,
६) ।

तुलुक—पुं० (तु० तुकं) तुकिस्तान का
निवासी; "जिणइ णहि कोइ तुह तुलुक
हिहू;" (प्रा० पै० १, १५७) ।

तुल्ल—वि० (सं० तुल्य > प्रा० तुल्ल)
समान, सरीखा; (क० ८, ६, १०; भ०) ।
—य, वि०, तुल्य (सं० रा०) । तुल्लु,
(सु० ६, २१) ।

तुब—सर्व० (सं० तव) तुम्हारा; (प०-
च० १६, १५, ६) ।

तुवर—पुं० न० (सं० तुवर) रस-
निशेष, कषाय रस; (दे० ना० मा० ५,
१६) ।

√तुस—(सं० √तुप् > प्रा० तूस, तोस)
खूश होना, संतुष्ट होना; (उ० व्य० प्र०
११, १८) । तूस—(उ० व्य० प्र० ८,
७) । —इ अक० (सं० तुष्यति) संतुष्ट
होना; (पङ्) ।

तुस—पुं० (सं० तुष) धान्य का छिलका,
भूसी; (दे० ना० मा० २, ३६; नस० ३,
२७, ८) ।

तुसार—न० (सं० तुषार > प्रा० तुसार)
(१) सूक्ष्म वृष्टि, बौद्धार; २. जलकण,
वृष्टिकण, "तोय तुसार-धवल;" 'जल के
तुषार धवल कण,' (प० च० ४, १०,
६) । ३, हिम, बर्फ; (सं० रा०) ।
तुसार; (व० १०, २०, ४) ।

तुसेअजम—न० (दे०) लकड़ी, काष्ठ;
(दे० ना० मा० ५, १६) ।

तुह—सर्व० (सं० तव) तुम; (हे० ३७०,
१) ।

तुहार—सर्व० (सं० तुहकार्यकः) तुम्हारा; (क० २, १८, ५; नस० ३,
३६, १०) । तुहारी—सर्व० स्त्री० (प०-
च० २१, ११, ३) ।

तुहारउ—सर्व० (सं० तुहकार्यकः) तुम्हारा तुल० गु० तारु; (संघि० २,
१६, ५) ।

तुहारय—वि० (सं० तुहकार्यकः > प्रा० तुहार) तुम्हारा; (प० च० ४, १३,
८) । तुहारी—वि० स्त्री० (प० च० ४,
५, ६) ।

तुहि—सर्व० (सं० त्वमेव) तुम ही,
(उ० व्य० प्र० २१, २१) । तुहीं—सर्व०
तुम ही (उ० व्य० प्र० २२, ५) ।

तुहिण—न० (सं० तुहिण् > प्रा० तुहिण)
हिम, तुषार, बर्फ; (सं० रा०) । —कर
चंद्रमा; (प्रा० पै० २, २०१) । —गयल
(तुहिणायल) पुं० (सं० तुहिणाचल)
हिमालय; (जंबू० ४, १०, ५) ।

तुहुं—सर्व० (सं० त्वम्) तुम, तुने; तुल०
गु० तुं; (क० १, १०, ३; महा०) ।
तुहुं—सर्व० तू; (प्रा० पै० १, ७; हे०
४०२, १) ।

तुहु—सर्व० (सं० त्वत् > प्रा० तुह)
तुम, तुम; (सं० रा०) ।

तू—सर्व० (सं० त्वम्) तुम; तुल मगही
तू: गु० तू; (उ० व्य० प्र० १०, ५) ।
तू; (कण्हपा, चर्यापिद) ।

तूअ—पुं० ईश्वर का काम करने वाला;
(दे० ना० मा० ५, १६) ।

तूर—पुं० न० (सं० तूर्य > प्रा० तूर)
बाघ, बाजा; (क० १०, १०, ६; नस०
१, २६, २७; पङ्) । २. सूर्य; (सं०-

रा०) ।—सद् पु० (सं० तूरशब्द) वाजे का शब्द; (जं० ५, ६, १५) ।

तूरा—पु० (सं० तूर्य+क>प्रा० तूर+अ) वाजा-विशेष; (की० ४, १५६) ।

तूरिए—पु० (सं० तूर्य+वादक>प्रा० तूरिअ+वायग) तूर्यक, वाद्य-विशेष तूर्य को बजाने वाला; (प० च० ७, १३, ६) ।

तूरिय—पु० (सं० तूर्य) तूरही; (भ०) ।

तूल—न० (सं० प्रा० तूल) रुई; (व० ८, ५, ८; भ०) ।

तूलिआ—स्त्री० (सं० तूलिका) रुई से भरा मोटा गद्दा या विछीना; (दे० ना०-मा० ५, २२) ।

तूतिपल्लं०—पु० (सं० तूलपल्यं०) पलंग; तुल० म० गु० पलंग; (भ०) ।

तूलियक—न० (सं० तूलकम्) गद्दा; (जं० ४, ५, २३) ।

तूली—स्त्री० शय्या; तुल० गु० तळाई; (सं० ४, १०, ८) ।

तूस्—क्रि० (सं० तोषय्) १. प्रसन्न करना, संतुष्ट करना (रा०) । —इ व०

(सं० तुष्यति) (भ०) । २. प्रसन्नता दिखाना "पर कि वलि वि खलाहँ ण रुसइ

पणवंतहँ सज्जणहँ ण तूसइ," —इ व०

(जस० ३, ३७, ८) । —सेवि पू० का०-क्रि०, संतुष्ट होकर; (क० २, १५, ६; प० च० ५, ५, ६) ।

तूस—वि० (सं० तुष्ट) प्रसन्न; (व० ४, ४, ११) ।

तूह—न० (सं० तीर्थ>प्रा० तित्थ, तूह)

पवित्र जगह; (प० च० १, २, ५) ।

तृण—पु० (सं० तृण) तिनका । तृणाइं—व० (सं० तृणानि) तिनके; (हे० ४२२, १५) ।

तृप्त हो—क्रि० (सं० तृप्यति) तृप्त होना; (उ० व्य० प्र० ५१-२०) ।

तै, ते—सर्व०, व० (सं० ते) वे; (रा० २६, ६) । अव्य० इस लिए; (की० १, १७) ।

तेंडुअ—न० (दे०) वृक्ष-विशेष; टीवरू का वृक्ष; (दे० ना० मा० ५, १७) ।

तेंडु, तेंडुअ, तेंडुग—पु० (सं० तिन्दुक) १. वृक्ष-विशेष, टीवरू का वृक्ष, तेंडु का पेड़; (प० च० ४२, ७) । पु० न० (सं० कन्दुक) गेंद; (प० च० १५, १३) ।

ते—सर्व० (सं० तत्) १. इसको (प्रा०-पै० १, ३६) । २. (सं० ते) वे; (उ०-व्य० प्र० १०, ६) । अव्य० १. इस लिए; (की० १, १७) । २. तो; (की० २, ४८) ।

तेअस्ति—वि० (सं० तेजस्विन्) तेजवाला, तेज-युक्त; (प० च० १०२, १४१) ।

तेअ—पु० (सं० तेजस्>प्रा० तेअ) प्रकाश; (की० ४, १२३; क० १, ६, ३; जस० १, २६, १४) ।

तेअ—सक० (सं० तेजय्) तेज करना, तीक्ष्ण करना; (पड्) ।

√तेअव— १. दीपना, चमकना; २. जलना । —इ अक०; (षड्) ।

तेअविअ—वि० (सं० तेजित) तेज किया हुआ; (दे० ना० मा० ८, १३) ।

तेअस्सि—पु० (सं० तेजस्विन्) इश्वरक

वंश के एक राजा का नाम; (प० च० ५, ५) ।

तेआलीसइम—वि० (सं० त्रिचत्वारिंश)

तँतालीसवाँ; (प० च० ४३, ४६) ।

तेइ—सर्व० (सं० तेन) उसके द्वारा; (उ० व्य० प्र० ५१, २०) ।

तेइय—वि० (सं० तेजित) द्योतित, प्रकाशित; (प० च० ५३, ६, ७) ।

तेइल्लउ—वि० (सं० तेजस्विन्) तेजस्वी; (व० २, १८, १३) ।

तेइस—वि० (सं० त्रयोविंशत्) तेईस; (प्रा० पं० १, २००) ।

तेउ—न० (सं० तेजस्) तेज, सर्वोत्कृष्ट आभा; (व० १०, ६, २) ।

तेगच्छरण—पुं० (दे०) चिकित्सक; (संघि० १६, ४, ६) ।

तेज—पुं० (सं० तेजस्) प्रताप, पराक्रम; (की० १, ७१) ।

तेजमन्त—वि० (सं० तेजोवान्) तेजस्वी, (की० ४, ५१) ।

तेजि—पुं० (फ्रा० ताजी) तेजि जाति का घोड़ा, घोड़ों की एक जाति; (की० ४, २८) ।

तेज्जिअ—पू० का० क्रि० (सं० त्रयक्त्वा) छोड़कर; "परिपूजउ तेज्जिअ लोभ मणा भवणा," अर्थात् 'मन में लोभ और धरवार छोड़कर सदा आपकी पूजा करूँ;' (प्रा० पं० २, १५५) ।

√तेड—सं० आकारय्, बुलाना; तुल० गु० तेडवुं; (संघि० ६, ३, ११; प्रा० गु० २, ३, १३) ।

तेड्—पुं० (दे०) १. शलभ, अन्ननाशक कीट; २. पिशाच, राक्षस; (दे०-

ना० मा० ५, २३) ।

तेण—सर्व० (सं० तेन) उसने; (व० १, १७, १३) । २. उससे; (की० २, २) ।

तेता—अव्य० (सं० तावत्) तितना, तुल० गु० तेठलु; (प्रा० गु० ३६, २६) ।

तेतीस—स्त्री० न० (सं० त्रयस्त्रिंशत् > प्रा० तेतीस, तेत्तीस) तीस और तीन; तुल० म० तेतीस, गु० तेतीश; (भ०) ।

तेतीसोवहि—स्त्री० (सं० त्रयस्त्रिंशत् + उदधि) आयु प्रमाण; (जं० ११, १२, ६) ।

तेतुली—सर्व० (सं० तावती > प्रा० तेतुली) उस; (की० २, २८) ।

तेत्तड—अव्य० (सं० तावत्) उतना; जं० ६, १, १८) ।

तेत्तडय—वि० (सं० तावत् > प्रा० तेत्तिअ) उतना; (प० च० २२, ५, १) ।

तेतहि—अव्य० (सं० तत्र > प्रा० तत्थ) वहाँ; (जस० ३, १२, ६; सुदं० ७, ४, ८) । तेत्तहे—अव्य० वहाँ; (प० च० १, १४, ३) ।

तेत्तीसइम—वि० (सं० त्रयस्त्रिंश) तेतीसवाँ; (प० च० ३३, १४८) ।

तेत्तहे—अव्य० (सं० तत्र > प्रा० तत्थ) वहाँ; (व० २, ४, ३) ।

तेत्ता—अव्य० (सं० तावत्) उतना; (प्रा० पं० १, ७७) ।

तेत्तिउ—अव्य० (सं० तावत् > प्रा० तेत्तिअ) उतना; (प० च० १६, १५, ६; वा० १, ६) ।

तैत्तिर्य—अध्य० (सं० तावत्) उत्तना; प्राचीन म० तेतुल्ले; (म०) ।

तेत्य—अध्य० (सं० तत्र > प्रा० तत्य) वहाँ; (जस०) ।

तेत्यु—अध्य० (सं० तत्र > प्रा० तत्य) वहाँ; (जस० १, ५, १०; प० च० २, ७, ४) । —वि० अव्य० (सं० तत्रापि) वहाँ भी; (प० च० १, ११, ४) ।

तेत्यु—अव्य० (सं० तत्र) वहाँ; (रा०) ।

तेन्हि—सर्व० उससे; (की० २, ४३) ।

तेम—अध्य० तथा १. उसी प्रकार “णज्जइ जेम तेम जगि जीउ वि बहुजो-णीकुलंगओ,” अर्थात् उसी प्रकार जगत् में नाना योनियों में जीव कौ गति होती है; तुल० ब्रज, अवधी, तिभि; गु० तेम; (जस० ३, २२, २; प्रा० पै० १, १०) । २. तथा; (सं० रा०) । तुल० गु० तेम; ३. और; (प० च० ४, ५, ८) ।

तेय—पुं० (सं० तेजस् > प्रा० तेज) १. कांति, प्रकाश, प्रभा; (सं० रा०; जस० १, ५, ७) । २. अग्नि, कायिक जीव; (व० १०, ४, ३) । —णिहि वि० (सं० तेजोनिधि) तेज के खजाने; (क० ३, १, १२) । —पूर वि० (सं० तेज-पूर) तेजपूर्ण; (जं० १, १८, २) ।

तेयमाल—वि० (सं० तेजवान्) तेज से वेष्टित या व्याप्त; “बालककिरणतरगुते-यमाल,” अर्थात् बालसूर्य की किरणों के समान तुम्हारा शरीर तेज से वेष्टित है; (जं० १०, १, ११) ।

तेयव्रत—वि० (सं० तेजवान्) तेजस्वी; (व० १, १०, ११) ।

तेयवारि—वि० तेजस्वी, “फुरंत तेयवा-

रिपूरियादियंतयं;” (जं० २, ३, २) ।

तेयाविद्धी—वि० (सं० तेजस् + आविद्धा) तेज से लिप्त, “भूमि चउत्थी तेयाविद्धी;” चतुर्थं भूमि तेज से लिप्त दिखाई देती थी; (जस० २, ४, ३) ।

तेयस्सि—पुं० इन्द्राकुवंशीय राजा; (प० च० ५, ५) ।

तेयासीति—वि० (सं० त्र्यशीति) तिरासी; (महा०) ।

तेरउ—सर्व० (सं० तव) तेरा; (क० ३, २१, ५) ।

तेरय—वि० (सं० तव) तुम्हारा; (प० च० १६, ७, १) ।

तेरस—वि० (सं० त्रयोदशन्) दस और तीन । पुं० दस और तीन का योग; (भ०) ।

तेरसि—स्त्री० (सं० त्रयोदशी) तिथि-विशेष; (क० १०, १६, ७) ।

तेरसुत्तरसय—वि० (सं० त्रयोदशोत्तर) एक सौ तेरहवाँ; (प० च० ११३, ७२) ।

तेरह—वि० (सं० त्रयोदशन् > प्रा० अर्ध-मागधी तेरस) (सुयगडंग, उवासगदसा-उनो) दस और तीन, तुल० राज० तेर, तेरा (उच्चा० थैरा), गु० तेर; (प्रा० पै० १, १३; जस० ३, १७, १६) ।

—उ वि० (सं० त्रयोदशम्) तेरहवाँ; (क० १०, १६, ७) । —सय वि० (सं० त्रयोदशशत) तेरह सौ; (जस० ४, ३०, ११) ।

तेरायणरु—पुं० तेरानगर, नगर-विशेष-नाम; (क० ५, २, ६) ।

तेलंगा—पुं० (सं० तैलंग) तैलंग देश;
“भक्ष भञ्जिआ वंगा भंगु कलिगा तेलंगा
रण मुक्कि चले;” (प्रा० पं० १,
१४५) ।

तेलाडी—स्त्री० (सं० तैलाटी) कीट-
विशेष, गंधोली; (दे० ना० मा० ७,
८४) ।

तेलुक्क, तेलोअ, तेलोदक—न० (सं०
तैलोक्य) तीन जगत् स्वर्ग, मर्त्य और
पाताल लोक; (प० च० ८, १६; पङ्) ।
—णाह पुं० (—नाथ) तीनों जगत् का
स्वामी, परमेश्वर; (पङ्) । —मंडण न०
(—मण्डन) तीनों जगत् का भूषण;
२. रावण का पट्ट-हस्ती; (प० च० ८०,
६०) ।

तेल्ल—न० (सं० तैल > प्रा० तेल्ल)
तेल, तिल का विकार; (जस० १, १६,
१३) ।

तेल्लोक्का—(सं० तैलोक्य) तीन लोक—
स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक; (प्रा०-
पं० २, ३४) ।

तेव्व—अव्य० (सं० तथा > प्रा० तह)
उसी प्रकार; (हे० ३४३, १) ।

तेवडु—वि० (सं० तावत्) उतना; (हे०
३६५, ७) ।

तेवण्ण, तेवन्न—वि० (सं० त्रिपञ्चा-
शत्) तरेपन, पचास और तीन; (पङ्) ।

तेवीस—वि० (सं० त्रयोविंश) तेईसवां;
(प० च० २०, ८२) ।

तेसम्भ—न० (सं० त्रि + सन्ध्य) प्रातः,
मध्याह्न और सायंकाल का समय; (प०-
च० ६६, ११) ।

तेसट्ठि—वि० (सं० त्रिपण्ठि) तिरसठ

(प्रा० गु० ३३, २) ।

तेसरा—वि० (सं० तृतीय) तीसरा;
(की० २, १४०) ।

तेह—वि० (सं० तादृश्) तैसा, उसके
जैसा, वैसा; (रा०) ।

तेहअ—अव्य० (सं० तथैव) उसी प्रकार;
(जंबू० ८, १३, ८) ।

तेहइ—वि० (सं० तस्मिन्) उसी; “तहिं
तेहइ अवसरि हिंसावासरि पत्तु सुदत्तु
ससंधु मुणि;” (जस० १, ११, १०) ।

तेहत्तरि—वि० (सं० त्रिसप्तति) तिहत्तर;
(महा०) ।

तेह्य—वि० (सं० तादृश्) उसके जैसा,
वैसा; (प० च० २, १३, १) ।

तेहिं—अव्य० वास्ते, लिए; (हे० ४,
४२५) ।

तेहु—वि० (सं० तादृश्) तैसा; (हे०
४०२, १) ।

तेह्ल—सर्व० (सं० तेषाम्) उनमें; (उ०-
व्य० प्र० १०, १५) । तेह्नु; (उ० व्य०-
प्र० १०, १७) ।

तैल—न० (सं० तैल > प्रा० तेल) तेल,
तिलका वि कार; ‘तैलें चोपडा निरुख;’
(उ० व्य० प्र० ४७, ६) ।

तैसन—वि० (सं० तादृश्) इस तरह का,
वैसा; (की० १, ३५) ।

तैसना—वि० (सं० तादृश्) उसी प्रकार,
वैसा; (की० ३, १२०) ।

तैहा—सर्व० (सं० तस्मिन्) उसमें;
“यैहा यैहा घमुं चड, तैहा तैहा पापु
खस;” (उ० व्य० प्र० ३३, १६) ।

तो—सर्व० (सं० त्वम्) तुम; “गोल्ले आ
(न) दिअ तुअचि देसु, आनिक तैह चा

तो वेस;” अर्थात् गोल्ल (गोदावरी क्षेत्र के निवासी) आनंदित (होकर) तुझसे कहते हैं कि तेरा वैप उनके (वैप) से वांका है; (रा० ६) । क्रि० वि० (सं० ततः > प्रा० तयो) १. उसके बाद, उससे आगे, “कहहु विअप्लण पुनु कहहु तो अग्गिम वित्तन्त;” अर्थात् है चतुर स्वामी उससे आगे का वृत्तांत फिर कहो; (की० ३, २) । २. तव, (क० १, २, ८) । —वि० अव्य० (सं० ततः + अपि) तो भी; (प० च० १, ३, ६) ।

तोअ—न० (सं० प्रा० तोय) जल; (क० २, १४, ८) ।

तोअय—पुं० (दे०) चातक पक्षी; (दे०-ना० मा० ५, १८) ।

तोखार—वि० (सं० तुपार > प्रा० अप० तुसार) श्वेत; (की० ४, ४७) । टि०—हिम का सफेद (गौर) वर्ण होने के कारण ‘तुपार’ से व्युत्पत्ति दिखाई गई है ।

तोत्रे—सर्व० (सं० त्वम्) तू; “जइ रण भग्गसि तइ तोत्रे काअर;” अर्थात् यदि तू रण से भागता है तो तू कायर है; (की० ४, २४६) ।

तोटअ—न० (सं० त्रोटक) त्रोटक नामक छंद, एक वर्णिक छंद; (प्रा० पै० २, १२६) ।

√तोड—(सं० तुड > प्रा० तोड) भेदन करना, तोड़ना; (सं० रा०) । —इ व० (सं० त्रोटयति) तुल० म० तोडणें, गु० तोडवुं; (भ०) । —मि व० (क० ४, १७, २) । तोडंत—कृ० (सं० त्रुट् + घटृ) (जंजू० ४, ७, १३) । —डेविणु

पू० का० क्रि० (कं० १०, २७, २) ।

—हु आ०, म० पु०, ए०, तोड़ो; मगही तोड़हु; (सरह, दोहाकोश) तोडि—भू०-का०, तोड़ डाला, “पाउ तोडि;” अर्थात् पापों को तोड़ डाला; (व० १, ६, ६) ।

तोडि—पू० का० क्रि० (पाहु०) ।

तोडिय—भू० का० (सं० त्रोटित) टूट गए; (क० ८, १२, ८) । तोडेंवि—पू०-

का० क्रि० तोड़ कर; (प० च० ७, ५, ८) । तोडेंपिणु—पू० का० क्रि०, तोड़

कर; (प० च० २, १२, ८) । तोरि—

पू० का० क्रि० तोड़कर, अपनी पंक्ति से अलग होकर; (की० ४, १६६) ।

तोड—पुं० (सं० त्रुटि) त्रुटि; (म० १, १४, ६) ।

तोडण—वि० (दे०) असहिष्णु; (दे०-ना० मा० ५, १८) ।

तोडणअ—न० (सं० त्रोटनक) त्रोटनक नामक छंद; (सुद० २, १३, ८) ।

तोडणय—वि० (सं० त्रोटक) तोड़ने वाला; (जंजू० ६, १६, १०) ।

तोडणो—वि० (सं० त्रोटक) भेदन करने वाला; (सुद० १०, ३, १८) ।

तोडिअ—वि० तोडिअ) तोड़ा हुआ; (सुद० ११, १४, ४; जस० ३, १०, ८) ।

तोण—पुं० न० (सं० तूण > प्रा० तोण)

तूणीर, भाथा, तरकश; तुल० गु० भाथो; (प० च० १८, ६, ७) । तोणा; (प०-च० २६, १३, २) ।

तोणअ—न० तोणक छंद; (सुद० ६, १५, २४) ।

तोणीर—पुं० न० (सं० तूणीर > प्रा०

तोणीर) तूणीर, आयुध-विशेष, भाथा; (प० च० २४, ३०) ।

तोतर—वि० (दे०) तोतला, जिसमें उच्चारण स्पष्ट न हो; "तुहूँ तारा तोतर भैरव चंडि, सोलस विज्जादेवि तुहूँ," (प्रा० गु० २८, २५) ।

तोद—स्त्री० (सं० तुन्द) तोद, पेट के आगे का बड़ा हुआ भाग; (महा० २०, २३, ३) ।

तोमर—पुं० (सं० प्रा० तोमर) १. आदि लघु त्रिकलगण का नाम (15) (प्रा० पै० १, १८) । २. एम वर्णिक छंद; (प्रा० पै० २, ८६) । ३. आयुध-विशेष; (जस० १, ४, ६) । ४. वाण-विशेष; (प० च०) ।

तोमरिअ—पुं० (दे०) १. शस्त्र का प्रमार्जन करने वाला; (दे० ना० मा० ५, १८) । २. शस्त्र-मार्जन; (पङ्) ।

तोमरी—स्त्री० (दे०) वल्ली, लता; (दे० ना० मा० ५, १७) ।

तोमरेह—पुं० तोमरेख छंद; (सुदं० ६, ३, १२) ।

तोय—न० (सं० प्रा० तोय) पानी, जल; (भ०) ।

तोयजान—पुं० न० (सं० तोय + यान) जलयान; (क० ७, ६, ८) ।

सोयवलोस—पुं० द्वीप-विशेष; (प० च० ६, ३०) ।

तोयावलीदीव—पुं० तोयावलीद्वीप; (जंबू० ६, १६, ६) ।

√तोर—(सं० तुडु > प्रा० तोड) तोड़ना; (की० २, २०४) । तोरउ; (रा० २७) ।

तोर—वि० (सं० तुवर) कपाय, कसैला; तुल० गु० तुरं (प० च० ३५, १४, ८) ।

तोर—वि० (सं० तव) तुम्हारा; (उ०-व्य० प्र० १६, ३०) ।

तोरण—न० (सं० प्रा० तोरण) बहि-द्वार, किसी घर या नगर का बाहरी फाटक; अस्थायी रूप से बनाया हुआ फाटक, मेहरावदार द्वार; (भ०; जस० १, ४, ८) । बड़े द्वार; (की० २, ८५) ।

तोरणालु—पुं० तोरण से संयुक्त शाला; (भ० च०) ।

तोरन्ते—कृ० रूप का वर्तमान काल से क्रिया कौ तरह प्रयोग (सं० तोल का घात्वादेश तुल = १. उठाना, २. तोलना, ठीक-ठीक निश्चय करना) ऊँचा उठाने हुए, "तोरन्ते वोल," (वे सेना के कोलाहल को और अधिक बढ़ा रहे थे; (की० ४, १७) ।

तोरत्रिय—(दे०) उत्तेजित; (जंबू० ५, १०, ५) ।

तोरा—वि० (दे०) तुम्हारा; (जंबू० ४, १८, १) ।

तोरि^१—अव्य० (सं० ततः अपर) उसके बाद; (की० ४, १३) ।

तोरि^२—पू० का० क्रि० (सं० तोलय् > प्रा० तुल, तोल = ऊँचा उठाना, ऊपर उठाना) ऊँचा उठा कर; (की० ४, ३४) ।

तोरी—वि० (दे०) (सं० तव) तुम्हारा; (म० २, २२, ७) ।

√तोल—(सं० तोलय् > प्रा० तुल) तोलना । तोलेंती, तुल० गु० तोळवुं;

(प्रा० पं० १, ११६; संधि० १८, १, २०) । तौलन्ति—व०; (की० २, १६५) ।

तौलण—पुं० (दि०) पुरुष, आदमी; (दि०-ना० मा० ५, १७) ।

तोलादंड—पुं० (सं० तुलादण्ड) तराजू की ढाँची या डंडी; (क० २, २, २) ।

तौलिय—वि० (सं० तौलित) तौला हुआ; (जं० ८, ३, १०) ।

तोवट्ट—पुं० (दि०) १. कान का बामू-पण-विशेष, २. कमल की कणिका; (दि०-ना० मा० ५, २३) ।

तो वि—अव्य० (सं० तथापि) तो भी; (हे० ३२६, १) ।

तोपार—पुं० (सं० तुपार) घोड़ा; (की० २, १७६) । टि०—संस्कृत साहित्य में तुपार देश के घोड़े के लिए यह शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ । बाद में प्राचीन हि० में घोड़े के पर्याय अर्थ में प्रयुक्त ।

तोस—पुं० (सं० तोष > प्रा० तोस) आनंद, सतोष; (जस० ३, ३१, ६) । न० (दि०) धन, दौलत; (दि० ना० मा० ५, १७) ।

√तोस—(सं० तोषय् > प्रा० तोस) खुश करना, संतुष्ट करना । —इ सक० (सं० तांषयति) (जं० ११, ८, ७) । तोसिय—संतुष्ट करती है; (विला०) ।

तोसल—पुं० सं० कोशलक, कोसल, तोशल (देश) दक्षिण कोसल या गोंड-वाना; (जं० ६, १६, १) ।

तोसविद्य—वि० (सं० तोपित > प्रा० तोसिअ, तोसविअ) खुश किया हुआ;

संतोपित; (भं०; प० च० ७७, ८८) । तोसावण—पुं० (सं० तोषण) संतुष्ट करने की क्रिया या भाव; (प० च० २५, १७, ५) ।

तोसिअ—वि० (सं० तोपित) खुश किया हुआ; (जस० १, २१, ११) ।

तोहर—सर्व० (प्रा० तोहार, तुहार) तुम्हारा; (प्रा० पं० २, २४) ।

तोहि—सर्व० सं० त्वामेव, तुझको, तुझे; (उ० व्य० प्र० २२, ४) ।

तोहोर—सर्व० (प्रा० तोहार, तुहार) तुम्हारा; तुल० मगही तोर; (कण्हा, चर्यापद) ।

तो—क्रि० वि० (सं० ततः > तद > ती) १. उसके बाद; (की० २, २१) । २. फिर, तब; (की० ३, २०) । ३. तो भी; (की० ३, १०७) ।

तोतो—सर्व० सं० तस्या, उसका; (उ० व्य० प्र० २३-१८) ।

तीन—सर्व० (सं० तेन) उसने; (की० ३, २१) ।

तय—वि० (सं० त्रय) तीन; (प० च० १, ७, ३) ।

ताडिल—वि० (सं० ताडित) मारा हुआ, जिस पर प्रहार पड़ा हो; (जं० ५, ५, १०) ।

तार—वि० (सं० तार=ऊँचा) विशाल; (जं० ८, १२, ६) ।

तास—पुं० (सं० तास) डर, भय, शंका; (जं० १, १५, ४) ।

त्ति—अव्य० (सं० इति) समाप्ति, हेतु, "लइ लेहु लेहु त्ति आणत्तमिञ्चण," (जं० ५, १४, ८) ।

स्थवण—न० (सं० अस्तमन) अस्त होना; (सूर्य का) डूबना; (जंबू० ६, ६, २) ।

त्याणु—न० (सं० आस्थान) स्थान, जगह; (जंबू० ६, १, १६) ।

त्रंक्क—पुं० वाद्य-विशेष; तुल० गु० लंबाळु; (प्रा० गु० ३३, ४) ।

त्रितिय—वि० (सं० तृतीय) तीन; (की० २, १४८) ।

त्रोखड—वि० (सं० तीक्ष्ण > प्रा० तिक्र) तेज, तीखा, पैना; तुल० गु० तीखो; (प्रा० गु० २६, २८) ।

√त्रुट्ट—(सं० त्रुट् > प्रा० तुट्ट) टूटना; तुल० गु० तूटकु; (संधि० १६, ५, १३) ।

थ

थ—पुं० (सं० पा० प्रा० थ) दंत्य, श्वास, अघाव, महाप्राण, निरनुनासिक स्पर्श वर्ण ।

थंडिल्ल—न० (दे०) मंडल, वृत्त प्रदेश; (दे० ना० मा० ५, २५) ।

थंतु—वि० (सं० स्था > प्रा० था, थंत) स्थित (व० ५, १०, ६) ।

थंब—पुं० (सं० स्तम्ब) तृण आदि का गुच्छ; (दे० ना० मा० ८, ४६) ।

थंभ—पुं० [सं० स्तम्भ > प्रा० थंभ (हे० प्रा० २, ६)] थंभा; तुल० राज० थंभ; (व० ३, १५, ७; ण० १, १७, ८) ।

थम्भ; (क० ४, ४, ३) ।

√थंभ—(सं० स्तम्भ > प्रा० थंभ) रुकना, निश्चल होना, स्थिर होना, स्त-

वध होना; “हउं थंभमि रविहि विमाणु जंतु चंदस्स जोण्ह छायमि तुरंतु;” अर्थात् मैं चाहूँ तो सूर्य के विमान को चलते-चलते थाम दूँ तथा चंद्र की चांदनी को एकदम ढाँक दूँ; (जस० १, ६, १४) ।

—इ व० (सं० स्तम्भते) (भ०) ।

थम्भउ—भू० का०, रुक गया; (प० च० १३, १) । थम्भेवि—पू० का० क्रि०, रोककर; (प० च० १४, १३, ८) ।

थंभण—न० (सं० स्तम्भन > प्रा० थंभण) रोक-थाम, स्तब्ध-करण, थभाँना; तुल० म० थावरण; राज० थंभण (रुका-वट, ठहराव); (म० २, ५७, २; सि० १, ४१; ण० ३, १, १२) ।

थंभिय—वि० (सं० स्तम्भित) स्तब्ध किया हुआ, थमाया हुआ; (सुदं० ६, १, ६) ।

√थं—(सं० स्तम्भ्) रोकना, थामना; थंहिअं (स्तम्भितं); “तं तं लीलाइ णलो वामकरत्थंहिअं एइ समुद्धे;” अर्थात् नल उकी पर्वत को लीला से बाएँ हाथ में थामकर समुद्र में विरचित कर देता है; (प्रा० पै० १, ७४) ।

√थ—(सं० √स्था) रहना, स्थिर होना; (सुदं० १०, ६, ६) । थन्ति क्रि० व० ठहरना; (हे० ३६५) ।

थउड—न० (सं० स्थपुट) विषम या नीचा-ऊँचा प्रदेश; (दे० ना० मा० २, ७८) ।

थउड्ड—न० (दे०) भल्लात्क, वृक्ष-विशेष, भिलावा; (दे० ना० मा० ५, २६) ।

थक्क—पुं० (दे०) अवसर, प्रस्ताव, समय; (दे० ना० मा० ५, २४) ।

थक्क—वि० (सं० स्थित) स्थित हुए, रहा हुआ; "सत्तमघाउ जीउ विणिण वि सह थक्कई माउयोट्टए । अप्पउ अप्पएण मई जणियउ दुविहभवे पयट्टए;" अर्थात् इस सप्त घातुमय जीव की भी कंसी विचित्रता है ? इस दूसरे जन्म में तथा मेरे द्वारा उत्पादित जीव दोनों साथ ही माता के पेट में स्थित हुए; (जस० ३, ७, १) । वि० स्तब्ध, स्थित, पड़ा हुआ; तुल० म० थक्क (स्तब्ध); (म० १, २३, ३; व० ५, ४, १) । २. रहा हुआ; (सुदं० ३, ६. १=) ।

√थक्क—(सं०√स्था√फक्क=to move slowly) थकना, श्रान्त होना । —इ अक०, व० तुल० राज० थक्कणी, थक्कवो; (प्रा० पं० २, १४६; हे० ३७०) । "धण-दाणिण जे नेह धणि थक्कइ ते उवसमहिं;" (प्रा० गु० ३८, २६) । थक्कअ—ठहरना; (प्रा० पं० १, १६०) ।

√थक्क—अक० (सं० स्था>प्रा० थक्क) रहना, बैठना, स्थिर होना । —इ व० सं० तिष्ठति (अ०; ण० ३, १३, ३) । —उ "गयणे" अणंताणंतएँ थक्कउ," (यह जगत्) अनंतानंत आकाश के बीच स्थित है; (सुदं० २, १, ६) । —हि क्रि०, व० स्थित होना, स्थिर होना; (प० च० १७, १४, २) । थक्का—भू० का०, स्थित हुए (क०) । थक्के वि—पू० का०, क्रि०, (प० च० २२, ५, ७) ।

थक्किय—वि० (सं० स्थित>प्रा० थक्क) स्थित, एक स्थान पर ठहरा हुआ; (सं० रा०; संधि० १६, ६, ८; संधि० १६, ६, ८) ।

थगण—न० (सं० स्थगन), आवरण ढक्कन, आच्छादन; (दे० ना० मा० २, ८३) ।

थग्गया—स्त्री० (दे०) चंचु, चोंच; (दे० ना० मा० ५, २६) ।

थग्घ—पुं० (दे०) याह, गहराई का अंत, तला, पानी के नीचे की भूमि; (दे० ना० मा० ५, २४) ।

थट्ट—पुं० न० (सं० स्थात>प्रा० थट्ट) १. समूह, "वणयर-थट्ट" वनचर समूह; तुल० गु० ठठ; म० थट, थड; (प० च० १३, ६, ४) । २. ठाठ, सज-घज; (म० १, ३५, ११) ।

थट्टि—स्त्री० (दे०) पशु, जानवर; (दे० ना० मा० ५, २४) ।

थड—पुं० न० (दे०, प्रा० थड) ठठ, समूह; (प० च० १६, ३, १०; सुदं० १०, ५, ५) । तुल० कानडी थट्ट=समूह । २. कतार, पलटन, सैन्यदल; (प० च० २५, ५, ८) । ३. ढेर; (पाहु०) । ४. भीड़; तुल० म० गु० थड, थट; (ण० ४, ७, १२) ।

थडा—पुं० (दे०) यूथ, दल; (सुदं० २, १३, १) ।

थडि—स्त्री० (सं० स्थली) बैठने की जगह; (पाहु०) ।

थड्ढ—वि० (सं० स्तब्ध>प्रा० थड्ढ) निश्चल, जो निश्चेष्ट हो गया हो, स्तं

भित; (सुदं० ७, १६, ७; सं० रा०) ।
२. गवित; (भ०) । —त्तण पुं० (सं०
स्तब्धत्व) (ण० १, १७, १२) ।

थड्डत्तणु—पुं० (सं० स्तब्धत्व) धृष्ट-
त्व; “थड्डत्तणु तरुणीयण-थणेसु;” अर्थात्
यदि दृष्टता कहीं थी तो मात्र तरुणीजनों
के स्तनों में ही थी; (व० ६, १,
१२) ।

थण—पुं० (सं० स्तन > प्रा० थन >
प्रा० थण) १. मादा पशुओं का वह अंग
जिसमें दूध रहता हो; (सुअंघ० १, ३,
८) । २. कुच; स्तन, पयोधर; (प० च०
१४, ७, ८; सं० रा०; सुदं० ८, २६,
७; ण० १, १७, १२) । तुल० राज०
थण । —हर पुं० (सं० स्तन + भर)
स्तन का बोझ; (प्रा० गु० ३८,
५) ।

थणद्धउ—पुं० (सं० स्तनं धय) पुत्र; “आयँ
जणित थणद्धउ केहुउ एवँ जो मयरद्धउ
जेहुउ;” अर्थात् इसने एक पुत्र को जन्म
दिया जो कैसा था मानो रूपधारी मकर-
ध्वज ही हो; (जस० ४, २३, १६) ।

थणवट्ट—पुं० (सं० स्तनपट्ट > प्रा०
थण + पट्ट, वट्ट) स्तन पर पहनने का
वस्त्र; (सं० रा०) । “मयरद्धयज्ञाणपहा-
यरद्धु णिवकण्णाहि पुग्गु थणवट्टु
वद्धु;” अर्थात् (राजकुमारी अभयमति
ने) कामध्यान के प्रघातों का अवरोध
करने वाला स्तनपट्ट बाँध लिया; (जस०
४, २८, २१) ।

थणाल—पुं० (सं० स्तन + आल = वड़ा)
दीर्घ और लंबे स्तन; “फणिवद्धदीहलंवि-
रथणाल;” अर्थात् दीर्घ एवं लंबे स्तन

सर्पों से लिपटे हुए थे; (जस० १, ६,
४) ।

थणि—स्त्री० (सं० स्थली > प्रा० अप०
थडि) स्थान; (सि० २, १४) ।

थणिय—पुं० स्तनितकुमार नामक देव;
(व० १०, २६, ७) । न० (सं० स्तनित)
मेघ की गड़गड़ाहट; (दे० ना० मा० ५,
२७) ।

थत्ति—स्त्री० (सं० स्थिति) १. स्थिति;
(सुदं० १०, १०, १२) । २. विश्राम;
(थत्तिअ दे० ना० मा० ५, १६) ।
३. स्थिरता; (सि० १, १) । ४. स्थान;
(ण० १, १५, ३; जस० ३, १८, ४) ।
थत्तिअ—न० (दे०) विश्राम; (दे० ना०-
मा० ५, २६) ।

थनवार—पुं० (सं० स्थानपाल) घोड़े के
थान का अध्यक्ष, कर्मचारी; (की० ४,
२७) ।

थप्प थप्प—पुं० (ध्व०) ठप्प-ठप्प का
शब्द; (की० ४, २७) ।

थप्पड—पुं० (अनुध्व० थन-थप) चपेटा,
थप्पड; तुल० म० थप्पड; (म० २, १६,
८) ।

थप्पणा—वि० (सं० स्थापन) स्थापित
करने वाला; (प्रा० पै० २, ६७) ।

√थप्प—(सं० स्थापयति) स्थापित करना
—हुं क्ति०, आ०, स्थापित करो, (प्रा० पै० १,
४८) । थप्पि—स्थापित करो, ‘कोप्पि-
पिअ जाहि तह थप्पि जनु विमल महि,
हे प्रिय तुम क्रुध होकर वहाँ जाओ, पृथ्वी
में निर्मल यज्ञ स्थापित करो, (प्रा० पै०
१, १५७) । थप्पिअ—क्ति०, भू० का०
(सं० स्थापित) स्थापित कर दिया;

(की० ३, ८०) । धंप्पिआं—भू० का०, स्थापित किया; (की० ३, ८०) । टि०—‘कीतिलता’ में भूतकाल के कृदंत रूपों में ‘इअ’ को ‘इआ’ रूप में व्यक्त करने की प्रवृत्ति मिलती है । धंप्पिउ—भू० का०, स्थापित किया; (सि० २, ३६, १) ।

धर्मिअ—वि० (दे०) विस्मृत; (दे० ना०-मा० ५, २५) ।

धर—पुं० (दे०) दही के ऊपर की मलाई; (दे० ना० मा० ५, २४) ।

√धरधर—(दे०) कांपना । धरधरधरन्त—कृ० कांपते हुए; (प० च० २७, ६, २) ।

√धरहर—(दे०) कांपना, धरना, ‘धर-धराना; ‘धरहर धरहर धरहर ए विर-हिणी-मनु कंपइ;’ तुल० गु० धरधर, म० धरधरणे, राज० धरहराणौ, धरहरावौ; (प्रा० गु० २२, ६) । धरहरंत—कृ० कंपायमान; (म० १, २७, ८) । —इ अक०, व० (सुदं० ४, ६, ४; भ०); तुल० म० धरधरयो । —रेइ व० (सुदं० ३, ११, ७) । —रेवि पू० का० क्रि० (सुदं० ११, १३, १) ।

धरहरिअ—वि० (सं० धरधरायते; प्रा० धरधरेदी, धरधरइ; अप० धरहर) कंपित; (ण० ५, ५, १५; दे० ना० मा० ५, २७) ।

धरहरिय—वि० (दे०, प्रा० धरहरिअ) कंपित; (सं० रा०) ।

धरिमहि—स्त्री० (ध्व०) तबले या डफली की विशिष्ट आवाज (particular sound of tabor); (प० च० ५६, १, १०) ।

धरु—पुं० (सं० त्सरु) तलवार की मूठ, खड्ग-मुष्टि; (दे० ना० मा० ५, २४) ।

थल—न० (सं० स्थले > पा० प्रा० थल) भूमि, सूखी जमीन; तुल० गु० म० राज० थळ; षं० वं० थल, ओ० थळ, सि० थरु, ने० थल्, (क० १, ३, ६; जस० ४, १६, ५) । —कमलपत्त न० स्थल-कमल का पत्ता; (दी० २, ८७) । —यर वि० (सं० स्थलचर) स्थलचर जीव; (जस० १, ७, ६; व० १०, ८, १४) ।

थल-गर्भ—पुं० (सं० स्थल + गर्भ) गर्भ से उत्पन्न थलचर जीव; (व० १०, १०, १३) ।

थलमाण—पुं० न० (सं० स्थल + मान) स्थल का प्रमाण, “अण्णैक्कहिं पक्ख-पसरु करइ, थलमाणु य पक्खिणि वज्जरइ;” अन्य एक ने अपने नेत्र-पक्ष्मों का ऐसा प्रसार किया मानो वह विशाल पक्ष्मों वाली उस स्थल का प्रमाण ही कह रही हो; (ण० २, १, ११) ।

थलय—पुं० (दे०) मंडप, तृणादि-निर्मित गृह; (दे० ना० मा० ५, २५) ।

थरिलया—स्त्री० (सं० स्थालिका) छोटा थाल, भोजन करने का पात्र; (प० च० २०, १६६) ।

√थट्—(सं० स्थापयति) स्थापित करना । थविउ—भू० का० स्थापित किया; (क० ६, १६, १०) । (व० ३, ५, ३) । थविज्जइ—कर्मवा० (ण० ३, २, १४) । थविवि—पू० का० क्रि०; (ण० ७, १०, १) ।

धव—पुं० (दे०) पशु, जानवर; (दे०-
ना० मा० ५, २४) ।

धवइ—पुं० (सं० स्थपति > पा० थपति)
बहुई; (दे० ना० मा० २, २२) ।

धवइल्ल—वि० (दे०) जांघ फैला कर
बैठा हुआ; (दे० ना० मा० ५,
२६) ।

धवक—पुं० (सं० स्तवक > पा०
थवक) समूह, थोक; (भ०; प्रा० गु०
२२, १३) ।

धवय—पुं० (सं० स्तवक) फूल आदि
का गुलदस्ता या गुच्छा; (दे० ना० मा०
२, १०३) ।

धविआ—स्त्री० (दे०) वीणा के अंत में
लगाया जाने वाला छोटा काष्ठ-विशेष;
(दे० ना० मा० २, २५) ।

धविय—वि० (सं० स्थापित) १. राख
या डाला हुआ, (भ०) । २. जिसकी
स्थापना की गई हो, निर्दिष्ट किया हुआ,
निश्चित किया हुआ; (म० १, २१,
१६) ।

धविर—वि० (सं० स्थविर) वयोवृद्ध
अनुभवी एवं कुशल, परिपक्व वृद्धि वाला;
तुल० राज० धविर; (व० ६, १०,
३) ।

धवी—स्त्री० (दे०) देखो धविआ; (दे०-
ना० मा० २, २५) ।

धह—पुं० (दे०) आश्रय, स्थान, निलय
(वास-स्थान); (दे० ना० मा० ५,
२५) ।

√धा—(सं० स्या > प्रा० धा) —इ
व० ठहरती है (क० ६, ७, ५; सुदं० ८,
१८, ६) । —इवि पू० का० क्रि० (क०

५, २, ७) । —एवि पू० का० क्रि०
(क० १०, १७, ३; ण० ६, १, ६) ।
—हि व० (सुदं० १०, २०, ४) ।

धाट—पुं० न० (सं० स्यात) समूह;
तुल० म० धाटी स्त्री० (समूह); राज०
धाट; (प्रा० गु० २६, ६) ।

√धाड—(दे०) डकेलना; धाडंति; (म०
२, ५२, १२) ।

धाढ—वि० (सं० स्तव्य > प्रा० थड्ठ)
निश्चल; (रा०) ।

धाढा—भू० का० कृ० खड़ा; "आनिकु
जोवरणु उरु धाढा;" वांका यौवन खड़ा
है; (रा० ८, १६) ।

धाण—न० (सं० स्थान > प्रा० धाण)
जगह; तुल० म० धान; (प० व० १३,
५, १०; व० ६, १६, ८; क० ५, ८,
७) । "धाणहो चुक्की;" अर्थात् स्थान से
चुकी हुई; (रि० ३, १) ।

धाणिज्ज—वि० (दे०) सम्मानित; (दे०-
ना० मा० ४, ५) ।

धाणु—पुं० (सं० स्याणु) वृक्ष का डूँठ,
"दवडड्ठ-धाणुसंकासतरणु;" अर्थात् उस
का शरीर अग्नि के जले हुए वृक्ष के डूँठ
के सदृश था; (जस० २, ६, १०) ।

धात्री—स्त्री० (सं० स्थातृ) अमानत,
धरोहर; (भूसुक० चर्या० २१) ।

धापे—क्रि० (सं० स्थापय > प्रा०
थप्पिअ) स्थापित करना; तुल० सिं०
धापरणु, गु० थापवूँ, पं० थापणा, (उ०-
व्य० प्र० २१-१७) ।

धाम'—वि० (दे०) विस्तीर्ण; (दे० ना०-
मा० ५, २५) ।

थाम^३—न० (सं० स्थामन् <प्रा० थाम)
१. बल, पराक्रम; (रुद्र० ६, १२ :) ।
सामर्थ्य; (ण० ६, १३, २) । ३. न०

(सं० स्थान > प्रा० ठाण, थाम) स्थान;
तुल० गु० ठेकार्णुं (संघि० ३, ३, ३) ।
३. स्तंभ; (क० १, १७, ८) ।

थार—पुं० (दे०) घन, मेघ; (दे० ना०-
मा० ५, २७) ।

थारे—वि० (सं० स्तब्ध > प्रा० थड्ड >
थड्ड > थाड > थार + अ = थारा, थारे)
गर्विलि, गविष्ठ, रोवदाववाले; (की०
२, २२०) ।

थाल—पुं० न० (सं० स्थाल > प्रा०
प्रा० थाल) बड़ी थाली, परात; (दे०-
ना० मा० ६, १२; सुदं० ५, ६, ३, उ०-
व्य० प्र० ५०, १५) । थालु—पुं० न०
थाल; (क० ६, २, ६) ।

थाला—स्त्री० (दे०) धारा; (पड्) ।

थाली—स्त्री० लघु घट; (संघि० ४, १३,
८) ।

थावर—वि० (सं० स्थावर > प्रा०
थावर) स्थिर रहने वाला, अटल, अचल;
तुल० राज० थावर; (वी० १, २; जस०
२, ३७, ७) । २. स्थावर जीव; (व०
१०, ६, ३) ।

थावरु—पुं० स्थावर नामक विप्र पुत्र;
(व० २, २२, १०) ।

थाह—पुं० (सं० स्थाघ > प्रा० थाह)
१. थाह, तला, गहराई का अंत, तुल०
सि० थाहु. पं० थाह, वं० था; अस०
थाइवा, (हे० ४४४, २) । २. स्थान;
३. वि० गहरे जल वाला; ४. विस्तीर्ण,
५. दीर्घ; (दे० ना० मा० ५, ३०) ।

थाहर—पुं० (सं० स्थान > प्रा० थाण,
ठाण) स्थान; तुल० गु० ठार; (प्रा० गु०
७, १६) ।

थिअ—वि० (सं० स्थित) एक स्थान पर
ठ; रा या टिका हुआ; तुल० गु० थयु;
(क० ३, ४, १२; जस० १, २७, १७;
संघि० १७, ३, ६; सुदं० ८, २५, १) ।

थिउ—स्थित; (प० च० १२, ३, ६;
महा० ६, ८, ७) । “तहो दाहिणदिसि
थिउ भरहखेत्तु;” (ण० १, ६, ३) ।

थिण्ण—वि० (दे०) १. स्नेह-रहित दया-
वाला; २. अभिमानी; (दे० ना० मा०
५, ३०) ।

√थिप्प—सं० √विगल्; गल जाना ।
—प्पति (जस० ३, ६, १; क० ३, १५,
८) ।

थिमिअ—वि० (सं० स्तिमित) स्थिर,
निश्चल; (दे० ना० मा० ५, २७) ।

थिय—वि० (सं० स्थित > प्रा० थिअ)
रहा हुआ, एक स्थान पर ठहरा या टिका
हुआ; (सं० रा०; क० ४, १७,
६) ।

थियउ—भू० का०, स्थित हो गया, “तेउ
अतेउ होवि थियउ;” तेज अतेज (प्रकाश
अंशकार) हो कर स्थित हो गया; (रि०
६, १७) ।

थिर—वि० (सं० स्थिर > प्रा० थिर)
१. निश्चल, २. स्थायी, ३. निश्चित,
४. उद्वेग, चंचलता आदि से रहित, तुल०
म० थीर, राज० गु० थिर; (भ०; सं०-
रा०) । थिरु; (महा० ६८, ७, ३) ।
थिरो; (वी० १, १) ।—थर वि० (सं०

स्थिरतर) अधिक स्थिर; (व० २, २, ६) ।

धिरणाम—वि० (दे०) चंचल मनस्क या चित्त वाला, (दे० ना० मा० ५, २७) ।

धिरणोत्स—वि० (दे०) अस्थिर, चंचल; (पङ्) ।

धिरत्त—पुं० (सं० स्थिरत्व) स्थिरता; (ण० १, ४, ६) । —णत्तं पुं० स्थिरता; (हे० ४२२, ६) ।

धिरत्तीस—वि० (दे०) १. निर्भीक, २. निर्भर, ३. जिसने सिर पर कवच बाँधा हो वह; (दे० ना० मा० ५, ३१) ।

धी—स्त्री० (सं० स्त्री > पा० प्रा० धी) स्त्री, महिला; (संघि० ६, ४, १६; सुदं० ४, १२, १८; क० १०, २२, ६) ।

—यण पुं० स्त्रीजन, स्त्री जाति, 'रहसि पूरिउ धीयणहं काउ,' अर्थात् सभी स्त्रियों का शरीर उल्लास से परिपूर्ण हो गया; (जस० १, २६, २१) । —यण पुं० (सं० स्त्री + रत्न) श्रेष्ठ स्त्री, स्त्री रूपी रत्न; (ण० ३, ७, ८) ।

धीरुद्रक—वि० (सं० स्त्री + रूप + अङ्क) स्त्री के चित्र से अंकित (पट) (ण० १, १४, ६) ।

धीवेउ—पुं० (सं० स्त्री + वेद) स्त्री-ज्ञान; 'धीवेउ णिहम्मइ जेण एहु;' जिससे इस स्त्री ज्ञान का विनाश हो; (क० १०, ५, ५) ।

धुअ—वि० (सं० स्तुत) प्रशंसित; (भ०; ण० २, ११, १) ।

धुइ—स्त्री० (सं० स्तुति > पा० धुति

प्रा० धुइ) प्रशंसा; (ण० ६, ७, ६; क० ३, २०, ६; सुदं० १०, १, १७) । धुई—स्त्री० स्तुति (सि० १, १२) । —यण पुं० न० स्तुतिवचन > प्रा० धुइ + यण) प्रशंसा का कथन; (जस० १, २६, १४) ।

धुक—पुं० (सं० धूक्त > प्रा० धुक्क) धूक; (की० २, १७७) ।

धुक्क—न० (सं० धूत् + कृत) धूक; (दे० ना० मा० ४, ४१) ।

√धुक्क—(सं० धूत् + कृ > प्रा० धुक्क) धूकना । धुकिज्जइ—कर्मवा० (सुदं० ६, ४, ४) । तुल० म० धुक (णै), धुंक् (णै); नि० वं० धुक, ओ० धुक, पं० धुक्क ।

धुक्कअ—वि० (दे०) ऊँचा; (दे० ना०-मा० ५, २८) । वि० (सं० धूक्त) धूका हुआ; (दे० ना० मा० ५, २८) ।

धुइइहीर—न० (दे०) चँवर, चामर; (दे० ना० मा० ५, २८) ।

√धुण—(सं० स्तु > प्रा० धुण) स्तुति करना; (जस० १, ६, ८) । धुणंत—कृ० (सं० स्तु + शतृ); (सुदं० ७, १, ४) ।

धुणंतु—कृ० (व० २, १३, ४) । —इ सक० (सं० स्तौति); (भ०; ण० १, ११, २) । —उ भू० का० "धुणउ वीर सच्चउहं मंडणु पाव-तिमिर-दुह-कम्म विहंडणु," (प्रा० गु० ५, ४८) । —हि व०, प्र० पु०, व०; (सुदं० ८, ११, ७) ।

धुणेइ—व०; (सुदं० ६, २१, १२) । धुत्त—न० (सं० स्तोत्र) स्तुति-पाठ; स्तुति; (भ०) ।

श्रुति—स्त्री० (सं० स्तुति) गुण-कौतन; (जस० ४, २३, १८) ।

श्रुत्युक्कारिय—वि० (सं० श्रुत्युत्कारित) श्रुतकारा हुआ, तिरस्कृत; (भ०) ।

श्रुय—वि० (सं० स्तुत > प्रा० श्रुय) जिसकी स्तुति की गई हो वह; (जस० ३, ३६, १) ।

श्रुहखुल्लणय—न० (दे०) शय्या, विछाना; (दे० ना० मा० ५, २८) ।

श्रुलघोण—पुं० (दे०) वराह, सुअर; (दे० ना० मा० ५, २६) ।

श्रुलम—पुं० (दे०) तंबू, वस्त्र-गृह; (दे०-ना० मा० ५, २८) ।

श्रु ल—वि० (दे०) परिवर्तित; “श्रुल्लो परिवर्तितः;” (दे० ना० मा० ५, २७) ।

श्रुव—वि० (सं० स्तुति > प्रा० श्रुव) जिसकी स्तुति कौ गई हो वह, “जय सुमण-श्रुव वासुपुज्ज,” अर्थात् सुमन—देव तथा सुमन—ज्ञानीजनों द्वारा स्तुति वासुदेव की जय हो; (व० १, १, ८) ।

श्रुवा—न० (सं० स्तवन > प्रा० श्रुवण) स्तुति; (सि० १, १६) ।

श्रुव्व—सक० (सं० स्तु) गुण-वर्णन करना । —इ (सुदं० १२, १, १२) ।

श्रुण^१—पुं० (दे०) अश्व; (दे० ना०-मा० ५, २६) ।

श्रुण^२—पुं० (दे०) वृक्षों के ठूठ; “पंचासहिं श्रुणइं दारियइं जहिं भिल्लिं हरिणइं मारियइं,” जहाँ शेर वृक्षों के ठूठों को विदारित करते हैं । जहाँ भील हरिणों को मारते हैं; (जस० २, २७,

११) ।

श्रूर—(सं० स्थूल > प्रा० श्रूल, श्रुल्ल) मोटा, बड़ा; तुल० राज० श्रूर; (प्रा०-पं० २, १८५) ।

श्रूरी—स्त्री० (दे०) तंतुवाय का एक उपकरण; (दे० ना० मा० ५, २८) ।

श्रूल—वि० (सं० स्थूल > प्रा० श्रूल > प्रा० श्रुल्ल, श्रूल) मोटा; राज० श्रूल; (सं० रा०; क० ७, १०, ६; व० ७, १६, १२) ।

श्रूललक्ष—वि० (सं० स्थूल + लक्ष्य) जिसका लक्ष्य महान् हो, उदार एवं जानी; “सोमु अजिभचित्तु कयदाणउ श्रूललक्षु पुरिसोत्तमु जाणउ;” अर्थात् वह सम्य, सरलचित्त, दानी, उदार एवं जानी पुरु-पोत्तम बन गया; (ण० ३, ४, ६) ।

श्रूलाहल—पुं० (सं० स्थूलफल) स्थूल या बड़े आकार का फल; (भ०) ।

श्रूह^१—पुं० (दे०) १. प्रासाद का शिखर; २. चातक पक्षी; ३. बल्मीक; (दे० ना० मा० ५, ३२) ।

श्रूह^२—पुं० (सं० स्तूप > प्रा० श्रूम) श्रूहा, ढूह, टीला; (सुदं० ११, १२, ३; व० ६, २३, ८) ।

श्रेघ—पुं० (दे०) रोक, टेक, “सङ्गाम श्रेघ, भूमिट्ट मेघ,” अर्थात् वे (हाथी) युद्ध की टेक थे और पृथ्वी पर उतर कर आए हुए काले मेघ से जान पड़ते थे; (की० ४, १८) । टि०—प्राचीन युद्ध कला में हाथी युद्ध की टेक माने जाते थे । हिंदी में ठेगना, ठेघना का अर्थ टेकना, रोकना, सहारा लेना है ।

श्रेण—पुं० (सं० स्तेन > प्रा० श्रेण >

प्रा० धेण) चौर, लुटेरा; (ण० ६, ८, २) ।

श्रेणिल्लिञ्ज—वि० (दे०) १. छोना हुआ, २. डरा हुआ; (दे० ना० मा० ५, ३२) ।

धेर^१—पुं० (सं० स्थविर) ब्रह्मा, विधाता; (दे० ना० मा० ५, २६) ।

धेर^२—वि० (सं० स्थविर > प्रा० धेर) बूढ़ा, वृद्ध; तुल० राज० म० धेर, (म० १, ६, २; सि० २, ३; जस० १, २८, २) ।

धेरा-दसि—स्त्री० (सं० स्थविर-वसति) उपाश्रय, बूढ़ों का वास; (संघि० १७, ८, २) ।

धेरासण - न० (दे०) कमल; (दे० ना० मा० ५, २६; प० च० ३६, १४, १) ।

धेरि—स्त्री० (सं० स्थाविरा > प्रा० धेरि) वृद्धा; (जस० २, १६, ६) ।

धेरिब—वि० (सं० स्थाविरा + इब) वृद्धा के समान, दीर्घ नारी के समान; (चं० १, ६) ।

धेरोसण—न० (दे०) अंबुज, कमल; (पड) ।

धेव—पुं० (दे०) विदु; (दे० ना० मा० ५, २६) ।

धेव-दण्ड—पुं० सहारे की धूनी, टेकने का खंभा; (की० ४, १७३) ।

धेवरिञ्ज—न० (दे०) जन्म के समय बजाय जाने वाला वाद्य; (दे० ना० मा० ५, २६) ।

√धेव्व—(सं० विगल का घात्वादेश थिप्प, धेप्प > अव० धेव्व) विगलित होना या गिरने से बचाना; (की०) ।

√धोंगद्वरा—पुं० (अनुध्व०) अव्व-गति की शब्दानुकृति अथवा नादानुकृति; धिक्कदलण धोंगदलण तक्क तरण रिगए, णं ण गु कट दिग दुकट रंग च्चल तुरंग ए । अर्थात् युद्धभूमि में ये घोड़े धिक्-धिक्, तक्-तक्, शब्द करते, ण-ण, कट-कट ध्वनि करते चल रहे थे; (प्रा० पै० १, २०१) ।

धोअ—पुं० (दे०) १. रजक, २. कंद-विशेष; (दे० ना० मा० ५ ३२) ।

धोअ—वि० (सं० स्तोक > पा० धोक > प्रा० धोव) अल्प, थोड़ा; तुल० म० थोड़ा, गु० थोड़ा; (भ०; जस० ४, २८, १७) ।

धोउवि—अव्य० (सं० स्तोक + अवि > प्रा० धोव + अवि) थोड़ा भी; “धोउवि पयडिय दूमह-पयासु;” (व० ५, २, ८) ।

धोट्ट—वि० (दे०) छिन्नहस्त; ठूँठा; “महियलि लोट्टधोट्टदुग्घोट्टई;” अर्थात् सूँड व पैर कट जाने के कारण ठूड़े हाथी भूतल पर लोट-पीट होने लगे; तुल० म० थोटा; (ण० ७, ७, ६; जस० ३, ४, ६) ।

धोट्टु—वि० (दे०) ठूँटा, जिसके हाथ टूटे हुए या खराब हों; (सुदं० ६, १०, १) ।

धोड—वि० (सं० स्तोक > प्रा० धोव) थोड़ा; तुल गु० थोडो; (की० ३, ६६) ।
—उ वि० (प्रा० गु० १६, २१; सा० २३) । थोडिलउ; (प्रा० गु० ३७, २) ।

धोत्तु—न० (सं० स्तोक > प्रा० धोत्त) स्तुति; (व० १०, २, १२) ।

थोरंसुय—न० (सं० स्थूल+अश्रु+क
> प्रा० थोर+अंसुय) वड़े-वड़े आंसू;
“पुर्यु रुण्णउ मई थोरंसुर्याहि;” अर्थात्
फिर मैं रो उठा और वड़े-वड़े आंसू
वहाने लगा; (जस० २, ३३, २) ।

थोर—वि० (सं० स्तोक > प्रा० थोव)
थोड़ा, कम; “लप्ल संख आनु धोर जासु
मूले मेरु थोर;” अर्थात् लाखों की संख्या
में थोड़ों को लाया गया जिनके मूल्य के
सामने सुवर्ण का पर्वत मेरु भी कम जान
पड़ता था; (की० ४, ४२) । —य वि०
थोड़ा; तुल० मगही थोर, म० थोड़ा;
(क०) ।

थोर—वि० (सं० स्थूल > प्रा० थुल्ल,
थोर) मोटा; तुल० गु० म० थोर, (भ०;
सं० रा०; जस० १, ५, ३; क० २, १२,
१०) ।

थोल—वि० (सं० स्थूल > प्रा० थुल्ल)
अधिक, पर्याप्त; तुल० पं० थोल्ह; (की०

२, ५५) ।

थोल—पुं० (दे०) वस्त्र का एक देश;
(दे० ना० मा० ५, ३०) ।

थोवंतर—न० (सं० स्तोकान्तर > प्रा०
थोव+अंतर) थोड़ा सा फर्क या भेद;
(क० ४, ८, ७) । थोवंतरि—थोड़ी
अंतर पर; (रि० ६, ६) ।

थोव—वि० (सं० स्तोक > प्रा० थोक >
प्रा० थोथ) थोड़ा, तुल० म० वं० ओ०
पं० थोडा, गु० थोडू, ने० थोर, सि०
थोरो; (जस० ३, २०, =) ।

थोवअ—वि० (सं० स्तोक > प्रा०
थोवाग, थोव) थोड़ा, अल्प; (सुदं० २,
१३, ६; क० ८, २, ६) ।

थोवड—वि० (सं० स्थूल > प्रा० थुल्ल,
थोर) मोटा, तुल० म० थोर; (सुदं०
११, ६, ११) ।

थोवा—(सं० स्तोक > प्रा० थोव) थोड़ा;
तुल० म० थोडा; (हे० ३७६, १) ।